

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

७४०

क्रम संख्या

२२५.०१

काल नं०


पुष्य

खण्ड

Manikchand Digambara Jaina Granthamālā

No 41

GENERAL EDITOR: PROFESSOR HIRALAL JAIN



**THE
MAHĀPURĀNA**

OR

TISATṬHIMAHĀPURISAGUNĀLAMKĀRA
(A Jain Epic in Apabhram̄sa of the 10th Century)

OF

PUSPADANTA

VOL. II

Critically Edited by

Dr. P. L. Vaidya, M. A. (Cal.); D. Litt (Paris)

Professor of Sanskrit and Allied Languages

Nowrosjee Wadia College, Poona

Published by

Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay

1940

Price Rs. Ten

Printed by R. D. Desai at his New Bharat Printing Press, 6 Kelewadi, Bombay 4,
and Published by Pandit Nathuram Premi, Secretary,
Manikchand Digambara Jaina Granthamālā,
Hirabag, Girgaum, Bombay 4.

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालाया एकचत्वारिंशत्तमो ग्रन्थः

महाकविपुष्पदन्तविरचितं
त्रिषष्टिमहापुरुषगुणालंकारं नाम
अपभ्रंशभाषानिबद्धं

महापुराणम्

तस्यायं
उत्तरपुराणप्रथमार्धभूतः
द्वितीयः खण्डः

पुण्यपत्तनस्थवाडियाकॉलेजाख्यविद्यामन्दिरनियुक्तेन
संस्कृतप्राकृतादिभाषाध्यापकेन
वैद्योपाह्वपरशुरामशर्मणा
संपादितः

प्रकाशिका

माणिकचन्द्रदिगम्बरजैनग्रन्थमालासमितिः

विक्रमाब्दाः १९९६]

[ख्रिस्ताब्दाः १९४०

मूल्यं दश रूपिकाः

TABLE OF CONTENTS

प्राचीन जिनो महात्मसु

PREFACE	vii
INTRODUCTION	ix-xxi
1. Critical Apparatus	ix
2. Summary of Contents	x
3. The Appendices	xxi
TEXT WITH CRITICAL APPARATUS & FOOT-NOTES	१-५२५
३८	अजियणिव्वाणगमणं अट्टीसमो संधि	३
३९	सयरणिव्वाणगमणं एक्कणचालीसमो संधि	२०
४०	संभवणिव्वाणगमणं चालीसमो संधि	३२
४१	अहिणंदणणिव्वाणगमणं एक्कचालीसमो संधि	४५
४२	सुमहणिव्वाणगमणं दुचालीसमो संधि	५८
४३	पउमप्यहणिव्वाणगमणं तियालीसमो संधि	६८
४४	सुपासणिव्वाणगमणं चउयालीसमो संधि	७८
४५	पउमणाहवइजयंतसंभवो पंचचालीसमो संधि	८५
४६	चंदप्यहणिव्वाणगमणं छायालीसमो संधि	९६
४७	सुविहि (पुप्फयंत) णिव्वाणगमणं सत्तचालीसमो संधि	१०५
४८	सीयलणाहणिव्वाणगमणं अट्टयालीसमो संधि	११६
४९	सेयंसणिव्वाणगमणं एक्कणपण्णासमो संधि	१३०
५०	बलएववासुदेवउप्पत्ती पण्णासमो संधि	१३९
५१	सिंघमारणं कोडिसिल्लुच्चायणं एक्कवण्णासमो संधि	१४७
५२	विजयतिविट्ठहयगीवकहंतरं दुवण्णासमो संधि	१५८
५३	वासुपुञ्जणिव्वाणगमणं तिवण्णासमो संधि	१८१
५४	अचलदुविट्ठतारयकहंतरं चउवण्णासमो संधि	१९०
५५	विमलणाहणिव्वाणगमणं पंचवण्णासमो संधि	२०२
५६	धम्मसयंभुमहुकहंतरं छप्पण्णासमो संधि	२०९
५७	संजयंतमेरुमंदरकहंतरं सत्तवण्णासमो संधि	२१७
५८	अणंतसुप्पहमहसूयणकहंतरं अहवण्णासमो संधि	२३६
५९	धम्मसुदंसणाहकहंतरं एक्कणसट्ठिमो संधि	२४९
६०	संतिणाहभवावलिवण्णं सट्ठिमो संधि	२६५
६१	वज्जाउहचकवट्ठिवण्णं एक्कसट्ठिमो संधि	२८४
६२	मेहरहत्तिययरगोत्तणिबंधणं दुसट्ठिमो संधि	२९९
६३	संतिणाहणिव्वाणगमणं तिसट्ठिमो संधि	३१२
६४	कुंधुणिव्वाणगमणं चउसट्ठिमो संधि	३१९
६५	अराणिव्वाणगमणं परसुरामविहवो पंचसट्ठिमो संधि	३२६
६६	सुभउमचक्किहंतरं णंदिसेणपुंढरीयणिसुंभकहंतरं छसट्ठिमो संधि	३४१

६७	मल्लिणाहणिव्वाणगमणं पउमचक्किर्णादिमित्तदत्तयबलिपुराणं सत्तसद्धिमो संधि	३४८
६८	मुणिसुव्वयणिव्वाणं हरिसेणकहंतरं अद्धसद्धिमो संधि	३६०
६९	रामलक्ष्मणुप्पत्ती ज्ञागणिवारणं एक्कहत्तरिमो संधि	३६८
७०	सीयाविवाहकल्लाणं सत्तरिमो संधि	३९०
७१	णारयआगमणं रावणमणस्सोहणं एक्कहत्तरिमो संधि... ..	४०३
७२	सीयाहरणं दुसत्तरिमो संधि	४१७
७३	सुग्गीवहणुमंतागमणं सीयादेसणं तिसत्तरिमो संधि	४२६
७४	हणुमंतदूयगमणं चउहत्तरिमो संधि	४४६
७५	बालिणिहणणं रामलक्ष्मणविज्जासाहणं पंचहत्तरिमो संधि	४५७
७६	णंदणवणमोड्डणं लंकाड्डाहं छहत्तरिमो संधि	४६५
७७	राह्वरामवल्लसंणहणं सत्तहत्तरिमो संधि	४७३
७८	रावणणिहणणं विहीसणपट्टबंधो अद्धहत्तरिमो संधि	४८३
७९	रामलक्ष्मणगुणकित्तणं हरिसेणचक्रवट्टिकहंतरं एक्कणासीमो संधि	५०४
८०	णमिणिव्वाणं जयसेणचक्रहरकहंतरं असीतिमो संधि	५१३
NOTES	527-559	
APPENDIX : I दिगम्बरमतेन तीर्थेकरमूर्तिविज्ञानम्	560	
APPENDIX : II तीर्थेकरपित्रादिवर्णनपट्टिका	561-563	
APPENDIX : III गणधरसंख्या	564-565	
APPENDIX : IV चक्रवर्तिपित्रादिवर्णनपट्टिका	566-567	
APPENDIX : V बलदेववासुदेवप्रतिवासुदेवाः	568-569	
ADDENDA ET CORRIGENDA	570	

PREFACE

THE first Volume of the Mahāpurāṇa of Puṣpadanta containing the first thirtyseven saṃdhis out of a total of one hundred and two was issued in 1937 as No 37 of the Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Bombay, under the kind patronage of the Trustees of that Series. I am now issuing the second Volume of the work containing the next forty-three saṃdhis (xxxviii–lxxx) in the same Series as No 41 and under the patronage of the same Trustees as also of the University of Bombay. I hope to issue the third and the last Volume of the work within a year from now.

It is my pleasant duty to thank all those who have assisted me in the production of this second Volume. In the first place I should like to thank most heartily the Managing Trustee of the Manikchand Digambara Jaina Granthamālā, Mr. Thakordas Bhagwandas Javeri, who, in spite of low funds of the Mālā, agreed to finance the publication. To Pandit Nathuram Premi and Professor Hiralal Jain of King Edward College, Amraoti, the Secretaries of the Mālā, I owe a special debt of gratitude. The funds of the Mālā, after the publication of the first Volume of the work, were completely exhausted, and I feared that I would be forced to abandon the work unfinished, but these learned scholars moved heaven and earth to find out the required amount for publication. I am to thank Professor Hiralal Jain specially for his having secured for my use the Ms. of the Uttarapurāṇa designated A in the Critical Apparatus and also of the Tippana of Prabhācandra from Master Motilal Sanghi Jain, Sanmati Pustakalaya, Jaipur, who very kindly placed them at my disposal as long as I wanted them for collation work. My thanks go to Master Motilal for this kindness. Mr. R. G. Marathe, M. A., formerly my pupil and now Professor of Ardha-Māgadhī at the Willingdon College, Sangli, helped me for the collation of this Volume also. My thanks go to him for the help he rendered me. Nor should I forget to mention thankfully the work of Mr. R. D. Desai of the New Bharat Printing Press, Bombay, and his willing staff of Proof-readers and Pressmen who are responsible for the excellent get-up and faultless execution of this Volume. I must particularly mention here that the brief Corrigenda at the end of the Volume is not at all due to their negligence but to oversight on my part.

Lastly, the Editor and the Publishers acknowledge their indebtedness to the University of Bombay for the substantial financial help (Rs. 650/-) it has granted towards the cost of publication of this Volume.

Nowrosjee Wadia College, Poona
August 1940

}

P. L. VAIDYA

INTRODUCTION

1. Critical Apparatus

THE Text of Mahāpurāṇa or Tisatṭhimahāpurisaguṇālamkāra of Puṣpadanta in this Volume is based upon three Mss. designated K, A and P which are fully collated. Occasional help for the purpose of settling the text was also derived from the Ṭippana of Prabhācandra. I give below the full description of this material :—

(1) K. This Ms. is fully described in my Introduction to Vol. I on pages xi and xii. The Uttarapurāṇa portion begins on leaf No 289 of this Ms. As this Ms was found to contain the older of the two recensions of the Ādipurāṇa with corrections to accord with the other recension, I have relied upon it for the constitution of the text in this Volume. It is to be regretted that no Ms. corresponding to Ms. G of the Ādipurāṇa Mss. could be discovered for this Volume. I may say here that the No. of the Uttarapurāṇa Mss known to me is much smaller than those of the Ādipurāṇa.

(2) A. This Ms was obtained for me by Professor Hiralal Jain of the King Edward College, Amraoti, from Master Motilal Sanghi Jain, Sanmati Pustakālaya, Jaipur. It consists of 423 leaves measuring 13 inches by 5 inches with 11 lines to a page and about 40 letters to a line. This Ms presents in its original form a recension as in P, but seems to have been corrected to another recension no longer available to me with the result that the variants recorded are those of the corrected recension. The Ms further seems to have been made up of (a) leaves of the original Ms of which a few were lost, and (b) of leaves newly added to make up the lost portion and written in a different hand. This hypothesis of mine is supported by reference to Folio No 383-384 which leaves half the page blank in order that the matter should run on with the first syllable on Folio No 385 of the original part. The pages so substituted have nine lines to a page and about 38 letters to a line. That this Ms. presents a recension different from those of K and P is clear from the fact that it contains Praśasti Stanzas 46, 47 and 48 (See Introduction to Vol I, page xxvii) which are not common to any other Ms of the Uttarapurāṇa. The Ms begins: ॐ नमो वीतरागाय । बंभहो बंभालयसामियहो and ends: इय महापुराणे तिसद्धिमहा-पुरिसगुणालंकारे महाकहपुष्पयंतविरहए महाभवभरहाणुमणिए महाकवे दुउत्तरसयमो परिच्छेओ समत्तो ॥ संधि ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराणं समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ संवत् १६१५ वर्षे माघदि ६ सुक्रवासरे उत्तरपुराणं समाप्तं ॥ ब्राह्मिहठोपठनार्थं ज्ञानावर्णिकर्मखयार्थं ग्रंथसंख्या ॥ १२००० ॥

This last page however is not the original page of the Ms but is newly written. According to this colophon the Ms is dated Friday, the 6th day of the month of Māgha (Feb-March) of the Samvat year 1615, corresponding to 1558 A. D.

(3) P. This is Ms No 1106 of 1884-87 of the Deccan College Collection, now deposited in the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. It has 681 leaves measuring 11 inches by 4½ inches with 8 lines to a page and 33 letters to a line. It is dated the full-moon day of the month of Bhādrapada (Aug-Sept.) of the samvat year 1630 corresponding to 1573 A. D. The last page of the Ms. is damaged and hence it was rewritten on the 6th day of the bright half of Āṣāḍha (July) of the samvat year 1934 corresponding to 1877 A. D. It has a brief marginal gloss. It begins; ॐ नमो वीतरागाय ॥

बंभहो बंभालयसामियहो... The original page ends: इय महापुराणे.....दुइतरसहस्रो परिच्छेओ समत्तो. In second hand we have further : संवत् १६३० वर्षे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमातिथौ क (विवासरे उक्त) रामाद्रपदानक्षत्रे नेमिनाथचैत्यालये श्रीमूलसंघे बलात्कार...छे श्रीकुंदकुंदान्वये..... The replaced page ends : बलदेवदास टौंग्याकाकारज मीती असाडसुदी ६ समत १९३४ का सालम श्रीषीयामंडीका मंदर पंचाह्तीमंदरने चडायो ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥

This Baladevadāsa had before him the damaged page of the Ms in two parts, the first part of which is still preserved alongwith the Ms at the Institute. The year 1630 put on the original page and the Paṭṭāvalī portion on the original page seems to have been written in a different hand.

In addition to these three Mss fully collated, I have made full use of the Tīppaṇa of Prabhācandra, a Ms of which was procured for my use by Professor Hiralal Jain from Master Motilal Sanghi Jain of Jaipur. This Ms of the Tīppaṇa has 57 leaves measuring 12 inches by 5 inches with 13 lines to a page and 31 letters to a line. It begins : ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ बंभहो परमात्मनः and ends : श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराणविषमपदविवरणं सागरसेनसैद्धान्तान् परिज्ञाय मूलटिप्पणकां चालोक्य कृतमिदं समुच्चयटिप्पणं ॥ अज्ञपातभीतेन श्रीमद्वलात्कारगणश्रीसंघाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना निजदोर्देहाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥१०२॥ इतिउत्तरपुराणटिप्पणकं प्रभाचंद्राचार्यविरचितं समाप्तं ॥ छ ॥ अथ संवत्सरेस्मिन् श्री नृपविक्रमादित्यगताद्द्वः संवत् १५७५ वर्षे भाद्रवा सुदि । बुद्धदिने । कुरुजांगलदेसे । सुलितान सिकंदरपुत्र सुलितानब्राह्मिपुराज्यप्रवर्तमाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगणे । मद्भारकश्रीगुणभद्रसुरिदेवा : । तदाज्ञाये जैसवालु चौ. टोडरमल्लु । इदं उत्तरपुराणटीका लिखापितं । सुभं भवतु । मांगस्यं ददाति लेखकपाठकयोः ॥ छ ॥

The colophon of this Ms raises some interesting problems which have been fully discussed in my Introduction to Vol I, page xv, and hence it is not necessary to restate and reexamine them here. I need only say that I have made full use of this T as also of the marginal gloss in K and P in constituting my text and in preparing my Foot-Notes.

There is one more Ms of the Uttarapurāna known to me. It is deposited in the Balātkāra Gaṇa Jain Mandir at Karanja, Berar, and bears No 7029 in the Catalogue of Sanskrit & Prakrit Mss in the C. P. and Berar, by the late Rai Bahadur Hiralal. This Ms is dated Thursday the 8th day of the dark half of Mārgaśīrṣa of the samvat year 1606, i. e., 1549 A. D. I have personally examined this Ms at Karanja during my visits to that place in 1927 & 1929, have had some trial collations, was promised the loan of it by the trustees of the temple, but could not get it when I actually required it owing to some strange attitude which the trustees then took. From my trial collations however, it appears that this Ms agrees very closely with P which is fully collated for this edition.

I have constituted my text in this Volume on the material described above. In doing so I have mostly relied upon the text as preserved in K which was found to represent the earliest of the three recensions of the Uttarapurāna.

2. Summary of Contents

This second Volume of the Mahāpurāna contains samdhis XXXVIII-LXXX of the great epic, and describes the lives of twenty Tirthankaras beginning with Ajita the

second and ending with Nami the twenty-first, eight each of the nine Baladevas, Vāsu-devas and Prati-Vāsudevas, and ten out of twelve Cakravartins from Sagara to Jayasena. In narrating these lives the poet has followed the information handed down by tradition and seems to have been greatly influenced by Guṇabhadra's Uttarapurāṇa in Sanskrit. It appears that the details of the lives of these Great Men were codified by old monks, but individual poets handling the theme were free to use their poetic genius in detailed description. Vimalasūri in his Paumacariya, for instance, says :—

नामाबलियनिबद्धं आयरियपरंपरागयं सच्चं ।

बोच्छामि पउमचरियं अहाणुपुव्वि समासेण ॥ १-८.

Although most of the information seems to have been codified and tabulated and handed down by tradition of each of the two schools of the Jainas, there is considerable uniformity in the subject matter. I have myself prepared some Tables and given them in the form of Appendices to this Volume. I now proceed to give the summary of contents by saṁdhis where such summary cannot be given in a tabular form.

XXXVIII. The Poet at the beginning offers salutations to the five Parameṣṭhis and assures the reader to continue his work by narrating the life of Ajita the second prophet of the Jainas. But before he proceeds he says that for some reason he was uneasy at heart and so stopped his literary activity for some time. One day the goddess of Learning appeared before him in dream and asked him to offer his salutations to the Arhats. The poet woke up but saw nobody before him. At this juncture Bharata, his patron, came to his house and asked him whether he (Bharata) offended him any way as a result of which he did not continue his work. Bharata reminded the Poet further that the life was fickle and that he should make full use of the gift of his poetic powers. The Poet then said to his patron that he was uneasy at heart because he found the world to be full of wicked people, and that, for that reason, he was not inclined to continue his composition, but that he would resume it at his request which he could not refuse. The Poet then resumes the work and narrates the life of Ajita. For details see Notes and the Tables in Appendices I, II, and III.

XXXIX. There lived a king named Jayasena at Pṛthvipura, the capital of Vatsāvati in the eastern Videha. He had two sons, Ratiṣeṇa and Dhṛtiṣeṇa by name, possessing great beauty. Of these Ratiṣeṇa died early. His father, overcome by grief, and disgusted with the worldly life, gave his kingdom to his son, Dhṛtiṣeṇa, and alongwith his minister Mahāruta, became a monk. Both Jayasena and Mahāruta practised penance, and after death became gods named Mahābala and Maṇiketu. These two gods made an agreement between themselves that whoever would be born on the earth earlier should be taught by the other the highest Dharma. Of these Mahābala was born first on the earth as king Sagara of Sāketa, and in course of time became a Cakravartin. Once a monk named Caturmukha attained Kevalajñāna, on which occasion gods arrived on the earth. Sagara went there to pay his respects to the monk. Maṇiketu saw king Sagara there and was reminded of his promise to god Mahābala. Maṇiketu thereupon took the opportunity to tell Sagara how fickle the earthly prosperity was, but Sagara paid no heed to him. Once again Maṇiketu came to Sagara's palace to enlighten him, but this time also he failed. Now just about this time, sixty thousand sons of Sagara approached their father and asked him to give some work of command as they were tired of being idle.

Sagara at first told them that there was nothing that was left for them to do as his cakra had already achieved everything for them. His sons however insisted and then Sagara asked them to go to Mandara mountain and make some arrangement for the protection of the temples of the twenty-four Jinas built by Bharata the first Cakravartin. The sixty thousand sons of Sagara then started on their mission, dug up a huge ditch round Mandara and filled it with waters of the Ganges which flowed into the Nāgaloka. This time Maṇiketu thought of enlightening Sagara by a new method. He became a big snake, looked at the sons of Sagara with anger, and burned them to ashes. Only two, Bhīma and Bhagīrathī, escaped alive. Sagara was informed of this disaster, was advised by a Brahmin on the fickleness of saṃsāra. Following his advice, Sagara placed his son Bhagīrathī on the throne, and with his son Bhīma, became a monk. Maṇiketu was delighted to see this and showed to Sagara how he wrought about by his magic the death of his sons. All the sons were then brought to life, but they also followed their father by becoming monks. Bhagīrathī also, in due course, became a monk and attained emancipation.

XL, XLI, XLII, XLIII, and XLIV. For the lives of Saṃbhava, Abhinandana, Sumati, Padmaprabha and Supārśva, see the Tables.

XLV. This saṃdhi describes the six previous births of Candraprabha the eighth Tirthaṅkara. In the earliest of these births, the soul of Candraprabha was born Śrīśarman or Śrīvarman, son of king Śrīśeṣa and queen Śrīkāntā of Śrīpura in the Sugandha country of Western Videha. Leading a pious life he was next born as a god named Śrīdhara. In the next life he was born as a son named Ajitasena to king Ajitamajaya and queen Ajitasenā of Ayodhyā in the Alakā country. This Ajitasena became a cakravartin, led a pious life, and was next born as the lord of the Acyuta heaven. After this he was born as Padmanābha or Padmaprabha, son of Kanakaprabha and Kanakamālā of the town Vastusaṃcaya in the Maṅgalāvati region. In his next birth he was born as Ahamindra in the Vaijayanta heaven.

XLVI. For the life of Candraprabha as a Tirthaṅkara see the Tables.

XLVII. For the life of Suvidhi or Puṣpadanta see the Tables.

XLVIII. Śitala the tenth Tirthaṅkara was in his previous life king Pṛthvipāla of Susīmā. His wife, Vasantalakṣmī by name, died in the prime of youth, and the king, reflecting on her death, renounced the worldly life. In his next birth he was born as a god in the Āruṇa heaven. In his next birth he was born as a son named Śitala to king Dṛḍharatha and queen Sunandā of the town of Rājabhadra or Bhadrilapura. On seeing a bee dead in the lotus flower, he formed a disgust for the worldly life, renounced it, and going through the usual course of a Tirthaṅkara, attained emancipation. After his nirvāṇa Jainism fell on bad days for want of persons preaching and practising it. There was at this time a king called Megharatha at Bhadrilapua. He wanted to spend his wealth in making gifts to suitable persons and asked the advice of his minister what type of gift was the best gift. His minister mentioned Śāstradāna to be the best form. The king however, did not like this advice, and asked a Brahmin named Muṇḍaśālāyana who told the king that he should make the gifts to Brahmins of girls, elephants, cows etc. The king followed his advice which only went to enrich the Brahmins but did the king no good.

IL. For the life of Śreyāṃsa see the Tables.

L, LI and LII. These three *saṃdhis* describe the narrative of the first set of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas. During the regime of Śreyāṃsa there lived at Rājagṛha a king named Viśvabhūti and queen Jainī. The king had a younger brother named Viśākhabhūti and his queen was called Lakṣmaṇā. Jainī gave birth to a son called Viśvanandi and Lakṣmaṇā to Viśākhanandi. One day Viśvabhūti saw an autumnal cloud disappearing in the sky. From this the king realised impermanence of *saṃsāra*, and giving his kingdom to his younger brother Viśākhabhūti, renounced the worldly life. When Viśākhabhūti became king, Viśvanandi became the Yuvarāja.

Now Viśvanandi once went to his pleasure-garden called Nandana, and while he enjoyed life there in the company of women, Viśākhanandi saw him. A desire to possess that very garden arose in his mind. He went to his father and pressed him to give it to him. The king agreed to do this, called Viśvanandi and asked him to take charge of his father's kingdom, and told him further that he (Viśākhabhūti) would go to the frontier to overcome the rebelling tribes. Viśvanandi did not like the idea that his uncle should go to fight, but told him that he would rather himself go for that purpose. Viśākhabhūti agreed and Viśvanandi went away. During his absence Viśākhabhūti gave the Nandana garden to his son Viśākhanandi. When Viśvanandi returned, he found that his garden was taken possession of by Viśākhanandi. Viśvanandi got angry with his uncle and cousin. He wanted to attack his cousin who climbed up the tree. Viśvanandi uprooted the tree with Viśākhanandi on, and wanted to smash them both. Viśākhanandi however escaped but climbed a stone pillar which Viśvanandi smashed into pieces. Viśākhanandi then ran away for life. At this time Viśvanandi was filled with pity that he attacked his cousin, and made up his mind to be a Jain monk. Viśākhabhūti also made up his mind to follow Viśvanandi, placed Viśākhanandi on the throne, went to the forest and practised penance. After his death he was born in the Mahāśukra heaven.

Now Viśākhanandi was overcome by a powerful enemy, and ran away from his capital. He went to Mathurā and became the minister of the king. Once his cousin, the monk Viśvanandi, was going along the road on his begging tour when he was hit by a young cow that had recently delivered a calf, and Viśvanandi fell on the ground. Viśākhanandi saw this from the terrace of the house of his courtesan, and insulted him. Unable to bear the insult Viśvanandi formed a hankering that he should in his next life have a revenge on Viśākhanandi. After his death Viśvanandi was born in the Mahāśukra heaven where his uncle Viśākhabhūti was born. Viśākhanandi also was later overcome with disgust for his conduct, practised penance, and after death was born in the same heaven.

Now there lived in Alakā a king named Mayūragrīva and queen Nīlāṅjanaprabhā. Viśākhanandi in his next life became their son and was named Aśvagrīva, a Prati-Vāsudeva. He defeated his enemies and became the lord of the three continents of the earth, i. e., an Ardha-cakravartin.

There lived in Podanapura a king named Prajāpati. He had two queens, Jayāvati and Mṛgāvati. Jayāvati gave birth to a son called Vijaya, who was Viśākhabhūti in his previous birth. This Vijaya is the first Baladeva of the Jain Mythology and had a white complexion. Mṛgāvati gave birth to a son called Triprṣṭha, who in his previous birth was Viśvanandi. This Triprṣṭha is the first Vāsudeva and had a dark complexion. These two step-brothers were greatly attached to each other.

LI. Once a report was brought to king Prajāpati that a terrific lion had been working a havoc on the subjects. His subjects requested him to remove this scourge. Thereupon the king himself prepared to go to kill the lion when his son Vijaya requested his father to allow him to go on that mission. The king allowed Vijaya to go, his younger brother Tripr̥ṣṭha followed him. Both of them approached the cave of the lion, which, on being roused by the din and cry of warriors, came out, and was about to attack Vijaya, when Tripr̥ṣṭha with his arms caught both the claws of the lion and struck it on the face. The lion fell dead.

One day the door-keeper approached the king and told him that there was at the door a Vidyādhara who wanted to see him. He was admitted to the king's presence. The Vidyādhara told king Prajāpati that he was Indra by name and had come there as a messenger of king Jvalanajaṭi. He came there to invite the king and his two sons to the region of the Vidyādhara in order that Tripr̥ṣṭha should lift up the huge slab of stone known as the Koṭṣilā, to kill Aśvagrīva and marry his daughter Svayamprabhā, and thereafter to rule over the three continents of the earth and to make Jvalanajaṭi the lord of both the sides of the Vaitāḍhya mountain. King Prajāpati accepted the invitation and went to the region of the Vidyādhara. King Jvalanajaṭi received them well and introduced them to his son Arkakirti. In the course of their talk it was arranged that Tripr̥ṣṭha should first lift up the Koṭṣilā which would convince them that he was capable of killing Aśvagrīva. Thereupon they all went to the forest where the Koṭṣilā stood and asked Tripr̥ṣṭha to lift it up. He did so with ease. Jvalanajaṭi and others praised Tripr̥ṣṭha for his great strength. Thereafter they all returned to Podanapura and celebrated the marriage of Tripr̥ṣṭha with Svayamprabhā. The news of this marriage reached the ears of Aśvagrīva who resented the action of Jvalanajaṭi in marrying his daughter outside his clan, i. e., in giving her to Tripr̥ṣṭha, a human being, in stead of to Aśvagrīva, a Vidyādhara. Aśvagrīva thereupon marched against Jvalanajaṭi and king Prajāpati even against the advice of his ministers.

LII. Spies brought the news of the arrival of the army Aśvagrīva to the gates of Podanapura. Thereupon king Prajāpati consulted with Jvalanajaṭi as to how they should meet the situation when Vijaya told them that he was sure in his mind that Tripr̥ṣṭha would kill Aśvagrīva. King Jvalanajaṭi then taught Tripr̥ṣṭha several magic lores, after which order was given to the army to march against Aśvagrīva. Before however the fight began Aśvagrīva sent a messenger to Tripr̥ṣṭha to see if Tripr̥ṣṭha was prepared to make peace with Aśvagrīva by handing over Svayamprabhā. Tripr̥ṣṭha rejected the proposal. The fight began. The goddesses gave to Tripr̥ṣṭha a bow called Śarṅga, a conch called pāñcājnya, Kaustubha gem, a gadā called kaumudī, and to Vijaya a plough, a pestle and a gadā. The armies met and there was a terrible fight between them. In the course of the fight, Aśvagrīva threw his discus at Tripr̥ṣṭha, but instead of doing any harm to him, it remained on his arm. He then used this very discus against Aśvagrīva who was killed. Immediately on his death Tripr̥ṣṭha became the Ardha-cakra-vartin. Jvalanajaṭi thereafter returned to his capital Rathanūpura, and enjoying the sovereignty of both the sides of the Vaitāḍhya mountain for a considerable time, became a monk. King Prajāpati also did the same.

Now Tripr̥ṣṭha remained ever unsatiated with pleasures, died and went to the seventh hell. After his death Vijaya handed over his kingdom to Śrīvijaya, practised penance and attained emancipation. Svayamprabhā also did the same.

LIII. For the life of Vāsūpūjya see the Tables.

LIV. This *saṁdhi* gives the narrative of the second set of Baladevas and Vāsudevās. There lived in Vindhya-pura a king named Vindhyaśakti. King Suṣeṇa of Kanakapura was his contemporary. Both of them were great friends. Now king Suṣeṇa had at his court a beautiful courtesan named Guṇamañjarī. King Vindhyaśakti hearing about the beauty of Guṇamañjarī sent a messenger to Suṣeṇa and asked him to send the courtesan to him. This request was, of course, rejected and the two friends met in a battle in which Suṣeṇa was defeated. On hearing the defeat of Suṣeṇa, his friend, king Vāyuratha of Mahāpura, got disgusted with the worldly life and became a monk. King Suṣeṇa also became a monk, but formed a hankering to avenge his defeat in one of his next births. Both Vāyuratha and Suṣeṇa were born in the Prāṇata heaven. King Vindhyaśakti also was born in one of the heavens.

In the next birth Vindhyaśakti was born as son to king Śrīdhara and queen Śrīmatī of Bhogavardhana, and was named Tāraka, who, in course of time became an Ardha-cakravartin. Vāyuratha and Suṣeṇa were born sons to king Brahmā and queens Subhadrā and Uvavādevī or Uṣādevī and were named Acala and Dviprṣṭha who were the Baladeva and Vāsudeva. They had an excellent elephant. Now Tāraka had a desire to have that elephant and sent a messenger to Acala to hand it over. As Acala refused to do so, there was a fight between Tāraka and Dviprṣṭha in which Tāraka was killed. Dviprṣṭha then became the Ardha-cakravartin. After death both Tāraka and Dviprṣṭha went to hell, and Acala, seeing the death of his brother, became a monk and secured emancipation from saṁsāra.

LV. For the life of Vimala the thirteenth Tirthaṁkata see the Tables.

LVI. There was a king called Nandimitra in Śrīpura in the western Videha. One day he reflected on the impermanence of the world, renounced the pleasures, became a monk, and after death was born in the Anuttaravimāna heaven.

There lived in Śrāvastī a king named Suketu. There lived in the same town another king named Bali. They once indulged in the play of dice in which Suketu lost everything. Out of disgust he became a monk, but while practising penance he formed a hankering that he should take revenge on Bali in the next birth. Suketu, after death, was born in the Lāntava heaven. Bali also was born as a god in heaven.

In their subsequent births Bali was born as a son of king Samarakesarī and queen Sundarī of Ratnapura, and was called Madhu. He was a Prati-Vāsudeva and an Ardha-cakravartin. Nandimitra and Suketu were born as sons to king Rudra of Dvāravatī by his wives Subhadrā and Pṛthivī, and were named Dharma (Baladeva) and Svayambhū (Vāsudeva). One day Svayambhū, while seated on the terrace of his palace, saw an army encamped outside the city and asked his minister whose army it was. His minister told him that a feudatory named Śaśisomya sent his tribute to king Madhu and that it consisted of elephants, horses etc, which was being taken to him. Svayambhū would not allow that, defeated Śaśisomya and carried off the tribute. The news reached the ears of Madhu who thereupon marched against Svayambhū. In the fight that followed Svayambhū killed Madhu, and became an Ardha-cakravartin. After enjoying the kingdom Svayambhū died and went to hell. Dharma became a monk and attained emancipation.

LVII. This *saṁdhi* narrates an episode of Saṁjayanta, Meru and Mandara, out of which the two latter were the Gaṇadharas of Vimala, the thirteenth Tirthaṁkara.

There are two more persons connected with the story, viz., Śrībhūti the minister and Bhadramitra the merchant. Of these the name of Śrībhūti is confounded with Satyaghōṣa. The poet describes the seven previous births of the first three and only a few of the last two. A glance at the lists given in Notes on this Saṁdhi will facilitate the understanding of the reader.

In the city of Vitaśoka there lived a king named Vaijayanta. His queen was called Sarvaśrī. She gave birth to two sons, Saṁjayanta and Jayanta. One day on hearing the discourse of a Jain monk they all renounced the world. In course of time Vaijayanta secured emancipation. Gods arrived on this occasion to show their reverence to Vaijayanta. Among them was the lord of snakes who was very beautiful. Jayanta formed a hankering to have a beautiful body like that of the lord of snakes in the next birth. He was then born in the nether world as lord of snakes.

One day, when Saṁjayanta was practising the pratimās, a Vidyādhara, Vidyudanṣṭra by name, saw him, picked him up and threw him into the waters of the confluence of five rivers, and told the people that the monk was a demon. The people thereupon beat him, but the monk remained undisturbed, and bearing the hardships, died and attained emancipation. On the occasion of his nirvāṇa gods arrived including Jayanta who was then the lord of snakes. Finding the plight of his brother Saṁjayanta, the lord of snakes began to attack people. They however said that they beat the monk on the report of Vidyuddanṣṭra. The lord of snakes then caught Vidyuddanṣṭra, and while the former was about to throw the latter into the sea, god Ādityaprabha intervened and narrated the story of the former lives of them all.

There was a king named Siṁhasena in the city of Siṁhapura. His queen was named Rāmadattā. He had two ministers, Śrībhūti and Satyaghōṣa. There was a merchant named Bhadramitra, the son of Sudatta and Sumitrā of Padmaṣaṇḍapura. Now this Bhadramitra, while wandering, obtained precious gems in Ratnadvipa, which, during his halt at Siṁhapura, he deposited with Satyaghōṣa (There is later a confusion between Śrībhūti and Satyaghōṣa). After some time Bhadramitra asked for the return of his gems, but Satyaghōṣa denied all knowledge of gems even though he was questioned by the king. Bhadramitra then went mad and ascending a tree in the neighbourhood of the king's palace, used to decry the minister. Queen Rāmadattā got angry with the minister, but arranged to play a trick on him. She arranged a game of dice with Satyaghōṣa, in which he lost his signet ring and the sacred thread to the queen, who then sent the ring to the treasurer of the minister through her maid, and obtained from him the gems of Bhadramitra. In order to ascertain that Bhadramitra has told the truth, the king got a few gems of his mixed with those of Bhadramitra, to whom they were shown, Bhadramitra picked only his gems saying that others were not his. The king was then pleased with him, punished the minister, treating him as a thief would be treated. The minister bore ill-will towards the king for this. In his next birth he became an agandhana snake, stood at the treasury of the king and bit him.

In his next birth Bhadramitra became the son of Rāmadattā, and was named Siṁhacandra. He had a younger brother called Pūrṇacandra.

It is in this strain that the previous lives of all the three persons mentioned at the beginning of the saṁdhi are narrated.

LVIII. For the life of Ananta the fourteenth Tirthaṅkara, see Tables.

During his regime were born the fourth set of Baladeva, Vāsudeva, and Prati-Vāsudeva. Their names were Suprabha, Puruṣottama and Madhusūdana.

There was a king named Mahābala in Nandapura. He became a monk and after death was born in Sahasrāra heaven. There lived at this time at Podanapura a king named Vasuṣeṇa. His queen Nandā was very beautiful. Once his friend Caṇḍaśāsana came to stay with him, saw Nandā, fell in love with her, and asked Vasuṣeṇa to give her to him. He refused to do so, but Caṇḍaśāsana carried her by force. Vasuṣeṇa thereafter became a monk, and after death was born in the same heaven where Mahābala was born.

Caṇḍaśāsana in his next birth became the son of king Vilāsa and queen Guṇavati of Vārāṇasī. Mahābala and Vasuṣeṇa became sons of king Somaprabha by his queens Jayavati and Sitā, and were named Suprabha and Puruṣottama. Madhusūdana made a demand of tribute from them, and as they refused to pay it, there was a fight between Madhusūdana and Puruṣottama in which Madhusūdana was killed. After him Puruṣottama became the Ardha-cakravartin.

LIX. For the life of Dharma the fifteenth Tirthaṅkara see Tables.

During his regime there appeared the fifth set of Baladeva and Vāsudeva. There was a king called Naravṛṣabha in the city of Vītaśoka. He practised penance and was born in the Sahasrāra heaven. At this time there was at Rājagṛha a king named Sumitra. He was defeated in battle by Rājasimha. Sumitra thereupon practised penance, formed a hankering to defeat Rājasimha in the next birth, and after death was born in the Māhendra heaven. Now Rājasimha in his next birth became king Madhukriḍa of Hastināpura. King Naravṛṣabha and king Sumitra were born as sons to king Siṃhasena and queens Vijayā and Ambikā, were called Sudarśana and Puruṣasimha and were the fifth of the Baladevas and Vāsudevas. King Madhukriḍa sent his messengers to Sudarśana and demanded tribute from him which he refused. They fought. Puruṣasimha killed Madhukriḍa and became an Ardha-cakravartin.

In the same regime there lived a king named Sumitra at Sāketa. He had a queen called Bhadrā. She gave birth to a son, Maghavan by name, who, having conquered the six continents of the earth, became the third sovereign of the Jain Mythology. After having enjoyed the kingdom for a long time, he renounced the world and attained emancipation.

After some time in the same regime there came the fourth cakravartin, Sanat-kumāra by name. He was the son of king Anantavīrya and queen Mahādevī of Vīṇitapura. He was said to be extremely beautiful. Two gods sent by Indra came to see his beauty and said to the king that his beauty would have been everlasting if there had been no oldage and death. On hearing the mention of oldage and death Sanat-kumārā renounced the world and attained emancipation.

LX. A Brahmin named Amoghajihva once predicted that within a week lightning would fall on the head of king Śrīvijaya, the son of Triprṣṭha Vāsudeva, and that he would receive a shower of gems on his head. When the Brahmin was asked how he could predict such a thing, he said he studied the science under a famous teacher. One day, when he asked his wife for his meals, she served him only cowries in a plate, as, owing to extreme poverty, she had nothing else in her house. His wife then rebuked him that he did not work and earn money. Just at this time a spark of fire fell on his

plate and his wife disbursed a pot of water over his head. It is from this incident that he predicted the fall of lightning on the head of king Śrīvijaya and a shower of gems over his head. The ministers thereupon advised the king to abdicate the throne for a while in order to escape the calamity and to place some one on the throne for the time being. The saṃdhi then narrates the enmity and fight between Śrīvijaya and Amitatejas, a Vidyādhara. A monk intervenes, preaches them the doctrines of Jainism as a result of which they both become monks.

LXI. In their next birth Śrīvijaya and Amitatejas were born in heaven as gods Maṃcūla and Ravicūla. In their next birth they were born as sons of Stimitasāgara of the city of Prabhāvati by his queens Vasundharā and Anumati, and were called Ananta-vīrya and Aparājita. They had two beautiful dancing girls in their court which were demanded by a Vidyādhara king named Damitāri.

LX-LXIII. These four saṃdhis narrate the life of Śānti together with his previous births as also of Cakrāyudha, as detailed in LXIII. 11 and explained in the Notes.

LXIV. For the life of Kunthu see the Tables.

LXV. For the life of Ara see the Tables.

During the régime of Ara, there appeared the eighth cakravartin, Subhauma * by name. There was a king named Sahasrabāhu. His queen Vicitramati gave birth to a son, Kṛtavira by name. Vicitramati's sister Śrīmati was married to king Śatabindu. A son was born to them and was named Jamadagni. Owing to the death of his mother in early childhood, Jamadagni became a tāpasa ascetic. Śatabindu and his minister Hariśarman also became ascetics under Jainism and Hinduism respectively. After death Śatabindu was born in the Saudharma heaven and Hariśarman was born in the Jyotiṣka heaven. They both wanted to test the piety of Jamadagni, assumed the form of a couple of sparrows, built their nest in the beard of Jamadagni, and talked something insulting to him. He then got angry with the birds and threatened to kill them. One of the birds thereupon said to the sage that he did not know that he could not obtain heaven as he did not beget a son. Jamadagni was then set to thinking, went to his maternal uncle, and sought a girl for marriage. Owing to his oldage however, no girl was prepared to marry him. He thereupon cursed all the girls of the town to be dwarfish or hump-backed, which town thereafter became known as Kānyakubja (Modern Kanauj). He however found his uncle's daughter, all dusty, called her Reṇukā (Dusty), attracted her by showing her a plantain, made her sit on his lap, and married her, as, he said, she liked him. In course of time she gave birth to two sons, Indrarāma and Śvetarāma. Her brother gave to her a gift of a cow that would yield everything desired, as also a charm (mantra) of axe (Paraśu). Reṇukā and her husband Jamadagni thereafter lived happily.

One day king Sahasrabāhu with his son Kṛtavira came to her hermitage. They were both treated to a royal feast by Reṇukā. The king and his son were struck with the excellence of the food and asked Reṇukā how she, the wife of an ascetic, could treat them so sumptuously. She said that her brother had given her a cow that yielded desired things. Kṛtavira wanted that cow, and, in spite of Reṇukā's protests, carried her off.

* The story of Jamadgni, Paraśurāma and Subhauma here is a mixture of two stories on the side of the Hindu mythology, viz., the story of the carrying away of Vasiṣṭha's cow, Nandinī, by Gādhi, and of Kārtavīrya Sahasrārjuna and Paraśurāma.

In the fight that ensued between Kṛtavīra and Jamadagni, Sahasrabāhu killed Jamadagni. His sons Iadrarāma and Śvetarāma were away, but when they returned and learnt from their mother that their father was killed by Sahasrabāhu and his son Kṛtavīra, and that their cow was carried off by them, they got angry. Reṇukā taught them the Paraśu-mantra. They then went to Sāketa, killed Sahasrabāhu and Kṛtavīra, and all other members of the Kṣatriya race twentyone times. After the extermination of all living Kṣatriyas they gave the earth to Brahmins who thereafter ruled over it. Vicitramati, the queen of Sahasrabāhu, was pregnant at this time, and bore in her womb the soul of a former king Bhūpala by name, who was destined to be a cakravartin. She ran for life into the forest, and was offered shelter by a sage named Śaṅḍilya. There in his hermitage she gave birth to a son who was named Subhauma.

LXVI. Subhauma passed his childhood in the hermitage of the sage Śaṅḍilya in the forest, and grew to be a strong and powerful youth. One day he asked his mother how it was that he did not see his father and pressed her to tell him his whereabouts. Thereupon Vicitramati narrated to him how his father Sahasrabāhu was killed by Paraśurāma.

In the meanwhile an astrologer came to the house of Paraśurāma who asked the astrologer how he would meet his death. The astrologer told him that he at whose glance the plate filled with the teeth of his enemies (Sahasrabāhu and Kṛtavīra) would turn into a plate of rice, would be his killer. Thereupon Paraśurāma established a dānaśālā in the city where Brahmins were served meals free and were shown the plate of teeth. Subhauma was asked to visit the dānaśālā to see if he was the person at whose hands Paraśurāma was to meet his death. Subhauma thereupon went to the dānaśālā, saw the plate when it turned into a plate of cooked rice. Immediately the keepers attacked young Subhauma who was unarmed. But the plate itself turned into a discus with which he killed them and also Paraśurāma. He thereafter became a cakravartin.

King Subhauma was once served a cīncā fruit by his cook. He got angry with the cook and killed him for this offence. The cook was born as a Jyotiṣka god and assuming the form of a merchant offered the king some nice fruits. The king liked them very much and pressed the merchant to have more of them. The merchant said that gods gave him the fruits which were exhausted. As the king persisted in his demand, the merchant told him that the king would obtain them if he would accompany him to an island. The king agreed, went with the merchant who placed him on a rock and killed him. Subhauma after death went to hell.

In the regime of Ara, there appeared the sixth set of Baladeva etc, whose names were Nandiṣeṇa, Puṇḍarika and Niśumbha. For details see Tables.

LXVII. For the life of Malli, see Tables.

During his regime there appeared the ninth cakravartin, Padma by name. For details of his life see Tables.

It is in the regime of Malli that there appeared the seventh set of Baladeva etc, whose names were Nandimitra, Datta and Bali. For details see Tables.

LXVIII. For the life of Suvrata see Tables.

LXIX-LXXIX. These eleven *saṃdhis* narrate the story of the eighth set *Bāladevas* etc. and are popularly known as the *Rāmāyaṇa*, *Paumacariya*, or *Padmapurāṇa*. The story of the *Rāmāyaṇa* is so well-known that it need not be reproduced here fully. But there are some factors in the Jain version which have to be brought to the notice of the general reader. *Rāma* and *Lakṣmaṇa* in their previous births were sons respectively of king *Prajāpati* and his minister, and were named *Candra-cūla* and *Vijaya*. In youth they were intimate friends and carried off *Kuberadattā*, the wife of a merchant named *Śrīdatta*. The king got a report about this affair, got angry with them, and ordered his minister to take them to the forest and kill them. The minister took them to the forest, but instead of killing them showed them to a Jain monk, *Mahābala* by name, who told the minister that these youths were destined to be *Baladeva* and *Vāsudeva* in their third birth. They then became monks and practised penance. *Candra-cūla* once saw *Suprabha* *Baladeva* and *Puruṣottama* *Vāsudeva* on their way, and formed a hankering that he should have a similar fortune in his next birth. Both the young monks after death were born as gods named *Maṇicūla* and *Suvarṇacūla*. In their next birth they were born as sons to king *Daśaratha* by his queens *Subalā* and *Kaikeyī*, *Suvarṇacūla* (*Vijaya* in his former birth) becoming *Subalā*'s son named *Rāma*, and *Maṇicūla* (*Candra-cūla* in his former birth) becoming *Kaikeyī*'s son named *Lakṣmaṇa*.

According to the Jain version *Sītā* is the daughter of *Rāvaṇa*, a *Vidyādharma*, and *Mandodarī*. As it was predicted that *Sītā* would bring calamity on her father, she was put into a box and left buried in a field. She was discovered by a farmer while ploughing his fields, was brought to king *Janaka*, who adopted her as his daughter. He gave her in marriage to *Rāma*.

Once *Nārada* came to *Rāvaṇa* and told him that *Rāma* married the beautiful *Sītā* who was really fit for him. This created a desire in the mind of *Rāvaṇa* to have *Sītā*. *Rāvaṇa* then sent *Candramukhi* (better known as *Śūrpaṇakhā*) to *Sītā* to ascertain her mind, but she failed in her mission.

Rāvaṇa thereupon went in his celestial car to the forest where *Rāma* and *Sītā* were then enjoying pleasures, asked *Mārica* to assume the form of a golden deer and to tempt the mind of *Sītā* to have it. While *Rāma* was away in search of the golden deer, *Rāvaṇa* carried off *Sītā* to *Laṅkā*.

Rāma made a careful search for *Sītā* but did not get any trace of hers. *Daśaratha* at this juncture dreamt a dream which indicated that *Sītā* was carried off by *Rāvaṇa*. While *Rāma* was thinking how he should proceed to search *Sītā*, *Sugrīva* and *Hanūmat* came to *Rāma* to seek his aid for *Sugrīva* to get his place in the kingdom of his brother *Vāli*. In the course of their conversation *Hanūmat* promised to *Rāma* that he would obtain the news of *Sītā*. *Hanūmat* then went to *Laṅkā*. Assuming the form of a bee he entered the palace of *Rāvaṇa*, searched it and at last found *Sītā* in the garden being coaxed by *Rāvaṇa* to yield to his desires. *Rāvaṇa*, however, did not succeed in his attempt to win her. She did not look at him. *Mandodarī* came there and recognised *Sītā* to be her daughter and comforted her. After her departure *Hanūmat* saw *Sītā*, convinced her that he was the messenger of *Rāma*, and conveyed to her his message. *Hanūmat* then returned to *Rāma* and told him that he saw *Sītā* in the garden of *Rāvaṇa*. Before *Rāma* undertook marching against *Rāvaṇa* he sent *Hanūmat* as a messenger to ascertain if *Rāvaṇa* would return *Sītā* peacefully, but *Rāvaṇa* insulted *Hanūmat*.

In the meanwhile Lakṣmaṇa fought with Vāli, killed him, and gave his kingdom to Sugrīva. Rāma and Lakṣmaṇa practised fasts to acquire the magic lores which would enable them to fight successfully with Rāvaṇa. Vibhīṣaṇa, his brother, did not like Rāvaṇa's behaviour, left him, and came over to Rāma. Then there was a fight between Rāma and Rāvaṇa in which Lakṣmaṇa killed Rāvaṇa. After his death Rāma placed Vibhīṣaṇa on the throne of Laṅkā. Lakṣmaṇa thereafter became the Ardha-cakravartin. After enjoying the kingdom he died and went to hell. Rāma, grieved over the death of his brother's death, renounced the world, became a monk, and attained emancipation.

LXXX. For the life of Nami refer to Tables.

For details of Jayasena the tenth Cakravartin see Tables.

3. The Appendices

The monotony with which the traditional details of the lives of Sixty-three Great Men of Jain Mythology are given and a hint by Vimalasūri in his Paumacariya quoted on page xi above suggested to me the idea of tabulating the information under suitable heads. I have therefore appended to this Volume Five Tables. Appendix I gives the iconographical information about the images of the Tirthaṅkaras according to the school of the Digambaras. I have taken this Appendix from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, a very valuable book in Marathi on Iconography. I have made slight modifications in Mr. Khare's Table so that the information in my Table should agree with the same as supplied in the works of Puṣpadanta and Guṇabhadra. Appendix II gives details about the Tirthaṅkaras such as their previous lives, place of birth, parents etc. Appendix III supplies the number of Gaṇadharas of different Tirthaṅkaras. Appendix IV supplies some information about the Twelve Cakravartins or sovereign rulers of the Jain Mythology. Appendix V gives information about the eight out of nine sets of Baladevas, Vāsudevas and Prati-Vāsudevas. The sources of my information are of course the Ādipurāṇa of Jinasena, the Uttarapurāṇa Guṇabhadra and the Mahāpurāṇa of Puṣpadanta, which works, I hope, represent one of the best, if not the best, of the Digambara tradition. At one or two places I used Śvetāmbara sources as my texts failed to give, or I failed to trace therein the material. I shall be greatly obliged to scholars if they bring to my notice inaccuracies or deficiencies in them which I shall most thankfully consider.

Nowrosjee Wadia College, Poona. }
August 1940. }

P. L. Vaidya

तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारु

णाम

म हा पु रा णु

वीउ खंडु



XXXVIII

बंभहु बंभालयसामियहु ईसहु ईसरवंदहु ॥
अजियहु जियकामहु कामयहु पणविधि परमजिणिदहु ॥ भुवर्क ॥

1

सुहयरुओहं	सुहयरुमेहं ।	
वीरमघोरं	वयविहिघोरं ।	
उवसमणिलयं	पसमियणिलयं ।	5
कंदरवालं	कंदरणीलं ।	
मंदरसित्तं	मंदरसित्तं ।	
रामारमणे	रामारमणे ।	
विणयजणाणं	विणयजणाणं ।	
जेण कयं तं	जे ण कयंतं ।	10
आलयंते	आलयंते ।	
भमइ जसोहो	भवइ जसोहो ।	

1 १ A भवइ. २ A भमइ.

1 1 a बंभहु परमात्मनः; बंभालयं मोक्षः. 2 a कामयहु वाञ्छितप्रदस्य. 3 a सुहयरुओहं सुष्ठु हतो रुजां रोगाणामोघो येन तम्; b सुहयरुमेहं शुभतरुमेघम्. 4 a अघोरं सौम्यम्; b वयविहिघोरं व्रतविधिः घोरो दुर्धरो यस्य. 5 a उवसमणिलयं उपशमस्थानम्; b पसमियणिलयं मोक्षप्रापकत्वेन प्रशमितो नृणां मनुष्याणां लघो विनाशो येन. 6 a कंदरवालं कन्दो मेघः तस्येव खः शब्दो विद्यते यस्य; b कंदरणीलं कन्दरे नीडं गृहं यस्य. 7 a मंदरसित्तं मेरी स्नापितम्. 8 a रामारमणे स्त्रीक्रीडायाम्; b रामारमणे रा द्रव्यं मारः कामः तौ रामारी तयोर्मथनं यत्र स्त्रीक्रीडन्ते. 9 a विणयजणाणं विनयाज्जातं विनयजं तच्च तत् ज्ञानं च तत्प्रसिद्धं श्रुतज्ञानादिरूपं तदपि कृतं विनतजनानाम्. 10 a जेण कयं तं येन जिननाथेन कृतं तं वन्दे; b जेण कयंतं येनेत्यादि, येन पुरुषा मुक्तिप्रापकोपायानुष्ठानेनास्थितत्वाच्च कृतान्तं यममालोकन्ते. 11 b-12 a आलयंते भमइ जसोहो येषां पुरुषाणामालोकान्ते यशओघश्च भ्रमति; किंविशिष्टो यशसामोघः. 12 b भवइ जसोहो भानां नक्षत्राणां पतिश्चन्द्रो भपतिस्तस्माज्जाता भपतिजाः किरणाः तद्द्रच्छोभा यस्य यशओघस्य.

णाहो ताणं	जो भत्ताणं ।	
जो भयवंतो	जो भयवंतो ।	
जमकरणवहं	जमकरणवहं ।	15
अण्णाणमहं	सण्णाणमहं ।	
णिहारहियं	णिहारहियं ।	
अवसावसणं	आसावसणं ।	
आसासमणं	आसासमणं ।	
वररमणीसं	वररमणीसं ।	20
णीसंसाळं	णीसंसाळं ।	
परसमयंतं	परसमयंतं ।	
अहिवंदिययं	सुहमिदिययं ।	
जेणं ण कहियं	तेलोक्कहियं ।	
णिरुवमदेहं	तं वंदे हं ।	25

घत्ता—पुणु पणविवि पंच वि परमगुरु णियजसु तिजगि पयासंवि ॥
घणदुरियपडलणिण्णासयरु अजियहु चरिउ तमार्संवि ॥ १ ॥

2

मणि जापण किं पि अमणोज्जे कइवयदियहइं केण वि कज्जे ।
णिव्विण्णंउ थिउ जाम महाकइ ता सिविणंतरी पत्त सरासइ ।
भणइ भडारी सुहयरओहं पणमेइ अरुहं सुहर्यरुमेहं ।

३ A णिदारहियं. ४ P जेण णं. ५ AP पयासमि. ६ AP समासमि.

2 १ A कइवयदियहं; P कइवयइ दियहं. २ K णिव्विण्णउ थिउ but gloss निर्विण्णः;
P णिव्विणु उट्टिउ. ३ A पणमहु; P पणवह. ४ A सुहयरमेहं but gloss in K शुभतरुमेघम.

13 a णाहो ताणं तेषां पुरुषाणां भक्तानां नाथः. 14 a जो भयवंतो यो ज्ञानवान्; b जो भयवंतो यः सप्तभयविनाशकः. 15 a जमकरणवहं जमकरणस्य रोगादेवंपकं विनाशकम्; b जमकरणवहं यमानां व्रतानां करणमनुष्ठानं तस्य वहं पंथानं धारकं वा. 16 a अण्णाणमहं अज्ञानमथकम्; b सण्णाणमहं शोभनज्ञानतेजसम्. 17 a णिहारहियं निद्रारहितम्; b णिहारहियं निर्दारमकलत्रं हितं च; अथवा निर्दारा मुनयसंभ्यो हितम्;. 18 a अवसावसणं अपगतशापशब्दम्; b आसावसणं दिव्वाससम्. 19 a आसासमणं इहपरलोकाशोपशामकम्; b आसासमणं आसमन्तात्मा त्रैलोक्य-लक्ष्मीस्तयोपलक्षितः श्रमणः. 20 a वररमणीसं वररमणी मुक्तिवधूस्तस्या ईशः; b वररमणीसं वरं राति ददाति इति वररा वररा मनीषा बुद्धिस्तस्य. 21 a णीसंसाळं मनुष्यप्रशंसावन्तम्; b णीसंसाळं निर्गतसंसारम्. 22 a परसमयंतं परसमयस्यान्तो विनाशो यस्मात्; b परसमयंतं उत्कृष्टोपशमेन कान्तं कमनीयं उत्कृष्टोपशमतन्त्रं वा. 23 a अहिवंदिययं धरणेन्द्रस्तुतम्; b सुहमिदिययं सुखं इन्द्रियजं येन कथितम्. 24 b तेलोक्कहियं त्रैलोक्यहितम्. 26 पयासवि प्रकाशयामि. 27 घत्तासवि संक्षेपेण कथयामि.

इय गिसुणेवि विउड्डेउ कइवरु
दिसउ गिहालइ किं पि ण पेच्छइ
ताम पराएण णयवंते
इसैदिसिपसरियजसतरुकंठे
छणससिमंडलसंणिहवयणे

ग्रन्था—खलसंकुलि कालि कुसीलमइ विणउ करोप्पिणु संवरिय ॥

वचंति वि सुणुणसुणुणवहि जेण सरासइ उद्धेरिय ॥ २ ॥ 10

3

अइयणदेवियव्वतणुजापं
जिणवरसमयणिहेलणखंभे
मइ उवयारभांवु णिव्वहणे
तेओहामियपवरकरहे
बोलाविउ कइ कव्वपिसल्लउ
किं दीसहि विच्छायउ दुम्मणु
किं किउ काइं वि मइ अवराहउ
भणु भणु भाणियउं सयलु पडिच्छविं

ग्रन्था—अधिरेण असारे जीविण किं अप्पउ संमोहहि ॥

तुहं सिद्धहि वाणीधेणुयहि णवरसखीरु ण दोहहि ॥ ३ ॥ 10

4

तं गिसुणेप्पिणु दरविहसंते
कसणसरिरे सुडुंकरुवें
कासवगोत्ते केसवपुत्ते
पुप्फयंतकइणा पडिउत्तउ
कालिमलमालिणु कालु विवरेरउ

जयदुंदुहिसरगहिराणिणापं ।
दुत्थियमित्तं ववगयंडंभे ।
विउसविहुरसयभयंणिम्महणे ।
तेण विगळ्वं भव्वं भरहे ।
किं तुहुं सच्चउ वप्प गहिल्लउ । 5
गंथकराणि किं ण करहि णियमणु ।
अवरु को वि किं विरसुम्माहउ ।
हउं कयंपंजलियरु ओहच्छविं ।

५ A विबुद्धउ. ६ AP विभियमइ. ७ P दसदिस°. ८ AP °णहवंदें. ९ P संवरिइ. १० A विसणु सुसुणु°. ११ P उद्धरिइ.

३ १ A अइयणदेविअंठ्व°; P इयणुदेवियव्व°. २ A ववगयंडिंभे. ३ AP परउवयार°. ४ A °भार°; P °हार°. ५ A °रुय°. ६ AP पडिच्छमि. ७ A कयंपंजलि अरुहं अच्छमि. ८ PT ओहच्छमि. ९ AP तुहु.

4 १ A सुडुकरुवें; P सुद्धकरुवें. २ P कयकुल°. ३ A omits सरसइणिलपं and reads उत्तमसत्ते in its place; P सरसय°. ४ P adds after this: उत्तमसत्ते जिणपयभत्ते.

2 4 a विउड्डउ जागरितः. 10 °सुसुणु व हि आकाशमार्गे.

3 3 b विउसविहुरसय विद्वज्जनकष्टशतानि°. 8 b ओ ह च्छ वि एष तिष्ठामि.

4 4 b णि ऋत्त उ निश्चितम्.

जो जो दीसइ सो सो दुज्जणु
राउ राउ णं संझहि केरउ
उव्वेउ जि वित्थरइ णिरारिउ

घत्ता—दोसेण होउ तं णंउ भणमि चोञ्जु अवरु मणि थक्कउ ॥

जगु एउ चडाविउं चाउं जिह तिह गुणेण सह वंकउं ॥ ४ ॥ 10

5

जइ वि तो वि जिणगुणगणु वण्णंवि
चायभोयभोउग्गमसत्तिह
राउ सालवाहणु वि विसेसिउ
कालिदासु जें खंघें णियउ
तुहुं कइकामधेणु कइवच्छलु
तुहुं कइसुरवरकीलागिरिवरु
मंदु मयालसु मयणुम्मत्तउ
केण वि कव्वपिसल्लउ मण्णउ
णिच्चमेव सव्भाउं पउंजिउ

घत्ता—धणु तणु समु मज्झु ण तं गहणु णेहु णिकारिमु इच्छंविं ॥ 10

देवीसुय सुहणिहि तेण हउं णिलइ तुहारइ अच्छंविं ॥ ५ ॥

6

महुसमयागामि जायहि ललियहि
काणणि चंचरीउ रुणुंउटइ
मज्झु कइत्तणु जिणपयभत्तिहि
विमलगुणाहरणकियदेहउ
कमलगंधु घेण्णइ सारंगें
गमणलील जा कय सारंगें
सज्जणदूसियदूसणयसणें

बोल्लइ कोइल अबंयकलियहि ।
कीरु किं ण हरिसेण विसट्टइ ।
पसरइ णउ णियजीवियवित्तिहि ।
एउं भरइ णिसुणइ पइं जेहउ ।
णउ सालूरें णीसारंगें । 5
सा किं णासिज्जइ सारंगें ।
सुकइकित्ति किं इम्मइ पिसुणें ।

५ A रएंतउ. ६ A णव.

5 १ P जय वि. २ A वणम्मि; P वण्णमि. ३ AP अवगण्णमि. ४ AP सालिवाहणु. ५ APT मण्णिउ. ६ A मंदु; P थहु; T वंट जडः. ७ AP सव्भाव. ८ A तिणु. ९ AP इच्छमि. १० AP अच्छमि.

6 १ P एह. २ AP विप्पह. ३ AP वड्ढियसज्जणदूसणं. ४ P सुकयं.

8 a णिरारिउ अतिशयेन.

5 7 b तिहइ वृणया. 8 b मण्णउ पूजितः; b अवगण्णिउ अवज्ञातः.

6 3 a जिणपयभत्तिहि जिनपादभक्त्यर्थम्. 5 a सारंगें भ्रमरेण; b सालूरें मण्डूकेन; णीसारंगें तिःसाराङ्गेण निकृष्टशरीरेण.

कहमि कञ्चु वम्महसंधारणु

अजियपुराणु भवणवतारणु ।

घसा—जिणगुणरयणावलिबेयडिउ सहसुवण्णंसमुज्जलु ॥

आहासइ गणहरु सेणियहु करहु कणिण कहँकोडलु ॥ ६ ॥ 10

7

सरपंकयरयरत्तविदेहइ
सीयहि दाहिणकूलि रवणउ
सहलारामहिं गामहिं घोसहिं
पविउलपकैकलेवकेयारहिं
घणकणगुरुभरणवियहिं धण्णहिं
चंपयदेवदारुसाहारहिं
णच्चिरमुक्कमोरकेकारहिं
महिंसमेसजुज्जुच्चवमिलियहिं

जंबुदीवहु पुव्वविदेहइ ।
वच्छउ णाम देसु वित्थिणणउ ।
दहियविरोलणमंथाणिघोसहिं ।
कणिसु चुणंतहिं जंपिरकीरहिं ।
हंसहिं णवबंभहरणिसण्णहिं । 5
कुसुमीलीणभमरसंकारहिं ।
पवलबलालवसहदेकारहिं ।
जो सोहइ णंदंतहिं हलियहिं ।

घसा—तहिं अत्थि सुसीमा णाम पुरि सररुहल्लणमहोसर ॥

णंदणवणंसंठियदेवसिरंमउडरयणकर सियघरं ॥ ७ ॥ 10

8

परिहाजलपरिघोलिररसणहिं
विविहदुवारंतरवरवयणहिं
धूवधूमधम्मेल्लंयकसणहिं
लंबियचलच्चिधावलिबत्थहिं
मंदिरकंचणकलसयथणियहिं
जं वण्णहुं भेसइ वि ण सक्कइ
अत्थि विमलवाहणु तहिं राणउ

हिमपंडुरपायारणिवसणहिं ।
गेहगवक्खुग्घाडियणयणहिं ।
तोरणमोत्तियमालादसणहिं ।
ठाणमाणलक्खणहिं पसत्थहिं ।
किं वण्णिज्जइ सीमंतिणियहिं । 5
सुरवइ फणिवइ अवरु वि सक्कइ ।
जसुं विहवेण ण सक्कु समाणउ ।

५ AP सुवण्णु, ६ AP कहकुंडलु.

7 १ A उत्तरं; K उत्तर but corrects it to दाहिणं. २ A° पिक्कं. ३ AP° कलमं.
४ AP अण्णहिं; K धण्णहिं and gloss भान्यैः. ५ A° देवदारं ६ AP कुसुमालीणं. ७ AP
णच्चिरमोरमुक्कं. ८ P° केवकारहिं. ९ AP महिसहिं भेसहिं जुज्जिवि मिलियहिं. १० P omits जो.
११ P adds णिर after णंदंतहिं. १२ P महासरि. १३ P° वणमंडियं. १४ AP° देवसि
मउडं. १५ P सियघरि.

8 १ P धूपं. २ AP° धम्मेल्लहिं कसणहिं. ३ P रायमाणं. ४ A जसु विहवें सक्कु वि ण समाणउ.

9 वेय डिउ उडितम्.

7 1 a° वि देहइ °पक्षिघारीरे. 3 a जो स हिं गोकुलैः; b° विरोलणं मन्थनकर्म. 5 b बंभहरं
°कमलं. 7 b बलालं बलवन्तः.

8 6 a भेसइ बृहस्पतिः; b सक्कइ सत्कविः.

जसु सोहगं वम्महु भज्जइ
जसु ववसुंजसु वंडडु संकइ
पडिगयमडंथड भड भंजंतहु
जाणियसारासारविवेयउ

तेण अणंगत्तणु पडिबज्जइ ।
तेयहु तरणि तयंतु चयकइ ।
तासु णरिंदलच्छि भुंजंतहु । 10
एकहिं दिणि जायउ णिव्वेयउ ।

घत्ता—पुरु परियणु ह्य गय रह सधय अंतेउरु अवगण्णिवि ॥
सीर्हासणच्छत्तइ चामरइं गउ सयलइं तणु मण्णिवि ॥ ८ ॥

9

गुरुचरणारविंदु सेवेप्पिणु
वीयरायवयणेण विणायउ
अप्पाणउं तिहिं गुत्तिहिं भावइ
वेज्जावच्चु करइ मुणिणाहहं
धम्मु अहिसालकखणु अक्खइ
आगच्छंतुवसणु समिच्छइ
दंसमसय सुडसंत ण सार्डइ
दंसणसुद्धिविणउ आराहइ
विकहउ ण कहइ ण रुसइ ण हसइ
णाणु णिरंतरु तेणम्भसियउ
एम घोरु तवचरणु चरेप्पिणु

जायउ परमभिकखु तउ लेप्पिणु ।
पालइ पंचमहव्वयमायउ ।
णीरसु जेवइ णिसिहि ण सोवइ ।
बालहं बुद्धहं रयहयवेहहं ।
मित्तु वि सत्तु वि समं जि णिरिक्खइ ।
लंबियकरु उव्वुम्भउ अच्छइ ।
सप्य वि लग्ग देहि णउ फेडइ ।
सहइ परिसह इंदिय साहइ ।
भीसणि णिज्जाणि काणाणि णिरसइ ।
कम्म अहमकारि संपुसियउ । 10
तित्थयरत्तु णाउं बंधेप्पिणु ।

घत्ता—तेलोकचक्रसंखोहणइं सुहकम्माइं समज्जिवि ॥
मुउ मुणिवरु णिरसणविहि करिवि चित्तु समत्ति णिउंजिवि ॥९॥

10

तेत्तीसंबुहिआउपमाणइ
किं वर्णवि पुण्णेणुप्पर्णउ
णिप्पडियारउ णिरहंकारउ

पंचाणुत्तरविजयविमाणइ ।
हन्थमेत्तंतणु ससहरवण्णउ ।
भूसणहरु अहमिदंभडारउ ।

५ PT वइवसुपसु, ६ A चमकइ; P चमुकइ. ७ P 'घडथड'. ८ A सिहासण?; P सिंघासण.
९ AP सयल वि तिणु.

9 १ P विणायउ, २ A गोवइ, ३ AP जेमइ, ४ AP विज्जावच्चु, ५ AP समु,
६ P उव्वम्भउ, ६ AP झाडइ, ७ A विकहउ कहइ ण हसइ ण रुसइ, ८ AP अणसण.

10 १ A तेत्तीसंबुहि. २ AP पंचाणुत्तरि, ३ AP वण्णमि, ४ A पुण्णेणु पउण्णउ;
P पुण्णेणु पउण्णउ, ५ AP हन्थमेत्तु तणु, ६ AP अहमिदु.

8 a मज्जइ पराजीयते, 9 a वइवसुवसु यमसेन्यं यष्टिश्च.

9 2 a विणा यउ विहाताः; b पंचमहव्वयमायउ पञ्चविंशतिर्भावनाः तत्तयैर्यथै भावनाः
पञ्च पञ्च. 7 a सुडसंत सुषु दशन्तः; सा ड इ स्फेठयति निवारयति. 13 समसि समत्वे, स्वमात्रे आत्मनि वा.

णियवासहु वासंतरु ण सरइ
सीहासणि सुणिसण्णउ अच्छइ
लेइ मणेण भक्खुं लुह णासहि
णिग्गयदइयं धवणणिहदुक्खहिं
छम्मासाउसु वट्टंइ जइयहु
सो अहंममराहिउ आवेसंइ
इम च्चिंतेवि भणिउ जक्खाहिउ
जंबूदीवभरहंउज्झाउरि

उत्तरवेउव्विउ वउ ण करइ ।
ओहिइ तिजगणाडि संपेच्छइ । 5
सो तेत्तीसंहिं वरिससहासहिं ।
णीसंसेइ तेसियहिं जि पक्खहिं ।
सोहम्मिदं जाणिउ तइयहु ।
जियसत्तुहि घरि जिणवरु होसइ ।
धरणीगयणिहाणलक्खाहिउ । 10
धणय कणयमयणिलयंण लहु करि ।

घत्ता—ता णयरि कुवेरं णिम्मविय कंचणभवणधिसेसहिं ॥

सरिसरवरउं धवणजिणहरहिं पट्टं च्चरविण्णासहिं ॥ १० ॥

11

आर्यउ देविउ इंदापसं
सिरिहिरिविहिमइकंतीकित्तिउ
तणुसंसोहणगुणसंजोयंहिं
गम्भि ण थंतंहु अमरवरिट्टउ
सुहदंसणि णियमणि संतुट्टउ
पल्लत्थंतु णिहाणं दिट्टंउ ।
णरवइंंगणि दविणु ण माइउं
पवरिक्खाउवंसंसंभूयहु
विजयदेवि णं चंदहु रोहिणि
अहिणवसयदलकोमलगत्ती

पुरवरु माणवमाणिणिवेसं ।
विजयादेविहि सेव करंतिउ ।
थक्कउ णाणाविहिहिं विणोयहिं ।
वसुधारहिं वइसवणु वरिट्टउ ।
जा छम्मासहिं ता परिउट्टंउ । 5

सयलहं वीणाणाहहं दोइउं ।
वम्महरुवपराज्जियरुवहु ।
जियसत्तुहि णरणाहहु गेहिणि ।
हंसवणि पल्लंकि पसुत्ती । 10

घत्ता—परमेसरि णिसि पच्छिमपहरि पक्केऊउ जि समिच्छइ ॥

णिहालसवस मउलियणयण सोलह सिविर्णय पेच्छइ ॥ ११ ॥

७ P भिक्खु. ८ A तेतीसहिं. ९ P °दधिधवण°. १० P adds वि after णीससेइ. ११ AP वट्टइ.
१२ AP सो लहु अमराहिउ. १३ AP आपसइ. १४ A जंबूदीवे भरहे उज्झा°; P जंबूभरहदीउ
उज्झा°. १५ P °णिलयहु लहु. १६ P °जिणहरउववणेहिं. १७ A अहरमणीयपसहिं.

11 १ P आइउ. २ P °संजोवहिं. ३ P णाणविहिहिं. ४ A गम्भेच्छंतहु; P गम्भि ण
छंतउ. ५ A परिउट्टउ but corrects it to परितुट्टउ; P परिउट्टउ; T परिउट्टउ. ६ AP add
after this: घणु जिह पुणु वरिसंतु अणिट्टउ. ७ AP °पंगणि. ८ A सविणय; P सिविणइ.

10 4 a वा सं त र ष्ठानान्तरम्; b उत्तरवेउव्विउ वउ प्रतिशरीरं न करोति वपुः. 5 b
ओ हि इ अवधिज्ञानेन. 7 a णि ग य द इ य ध व ण णि ह दु क्ख हिं खल्वाधमनी खीलधमनी, यदा मनुष्याः
श्रांसं गृह्णन्ति तदा धमनीवत् दुःखसुखद्यमानम् (?). 10 b °णि हा ण ल क्खा हि उ °निधानस्वामी.

11 3 b थक्कउ स्थिताः. 4 a °वरि ट्टउ प्रधानः; b वरि ट्टउ वृष्टः. 5 b परिउट्टउ
परितुष्टः. 11 समिच्छइ शुभं मन्यते.

12

मउल्लगंडं	पमत्तं पयंडं ।	
गिरिद्वपमाणं	गयं गज्जमाणं ।	
धरिन्ती खणंतं	विसं डेकरंतं ।	
इयारिद्वपक्खं	हरिं तिकखणक्खं ।	
करिंदाहिसित्तं	सिरिं पोमवत्तं ।	5
सयामोयधामं	णवं पुष्पदामं ।	
सुहं सेयभाणुं	दिसुम्भासिभाणुं ।	
सिण्डं समाणं	वहे कीलमाणं ।	
रईलीलयाणं	जुयं मीणयाणं ।	
वरं वारिपुणं	सियंभोयच्छणं ।	10
रमारामरम्मं	घडाणं च जुम्मं ।	
लयापत्तणीलं	विउद्धारणालं ।	
मरालालिरोलं	सरं सारसालं ।	
जलुल्लोलमालं	महामच्छवालं ।	
गहीरं रवालं	समुहं विसालं ।	15
पहारिद्विरुढं	महंदूढपीढं ।	
णहे धावमाणं	सुराणं विमाणं ।	
धरारंधणित्तं	पसत्थं पवित्तं ।	
जसेणुणयाणं	घरं पणयाणं ।	
गयासामऊहं	मणीणं समूहं ।	20
सिहालीचलंतं	हुयासं जलंतं ।	

घत्ता—इय सिविणयपंति मणोहरिय जोइवि सीलविंसुद्धइ ॥

सुविहाणइ रायहु वजरिय सुत्तविउद्धइ मुद्धइ ॥ १२ ॥

12 १ P पोम्मवत्तं. २ AP विबुद्धा°. ३ P °णत्तं ४ A सिहालीपलित्तं; P सिहालीवलत्तं, but T सिहालीचलंतं. ५ P °विउद्धइ.

12 1 a मउल्लगंडं मदार्द्रगण्डम्; b पयंडं प्रचण्डम्. 5 b पोमवत्तं कमलम्. 6 a सयामोयधामं सतः शोभनस्यामोदस्य स्थानम्. 7 a सुहं अनुपहतम्; सेयभाणुं चन्द्रम्. 11 a रमारामरम्मं रमा लक्ष्मीः, शोभा इत्यर्थः; तस्या आरामः वनं, समूह इत्यर्थः, तेन रम्यं मनोश्चम्. 13 a मरालालिरोलं हंसभ्रमरकोलाहलम्. 16 b महं दूढपीढं सिंहासनमित्यर्थः. 18 a °णित्तं निर्गतम्. 20 a °मऊहं किरणम्. 21 a सिहालीचलंतं शिखाली ज्वालामुहश्चलन्ती यत्र. 23 सुविहाणइ प्रभाते.

13

पद्भुजा विहासिवि गुणगणवन्तहि
 होही तुह सुउ जियवम्भीसरु
 तासु विमलवाहनअहर्मिदहु
 कुंजरवेसें नृवरामाणणि
 गम्भि परिट्टिउ जिणु जगमंगलु
 णच्चिउ णवरसालु तियसेसरु
 तासु धरंगणि वण्णविचित्तइं
 धणयापसें जक्खकुमारिहिं
 कामकोहमयमोहविहंजणि
 जलणिहिसमहं कालपरिवाडिहिं

सिध्णिणयफलु विण्णासिउ कंतहि ।
 तिहुयणगुरु तिणाणजोईसरु ।
 आउ पउण्णउ बुहयणचंदहु ।
 झ त्ति पइडुउ णं दिणयरु घणि ।
 उट्टिउ घरि सुरसंधुइफलयलु । 5
 अहिणंविउ जियससु णरेसरु ।
 रयणइं पुणु णवमास णिहित्तइं ।
 घोसियसुमदुरसाहुंक्कारिहिं ।
 णिब्बुइ रिसहजिणिवि णिरंजणि ।
 जा पण्णासलक्खुं गय कोडिहिं । 10

घत्ता—ता माहमाससियदसमिदिणि बीयउ सिवैपयगामिउ ॥
 तित्थंकरं णाणसयसहिउ उप्पण्णउ जगसामिउ ॥ १३ ॥

14

उप्पण्णइ जिणि आऊरिय धर
 कंहिं वि मइंदणिणाय सुभइरव
 आसणकंपे विम्हांवियमइ
 दसणकमलसरणच्चियसुरवरि
 सयमहु मुणिमहसयणिव्वुदउ
 भंभाभूरिभेरिसंवायहिं
 जिणकमकमलजुयलसंगयमणु
 सोमभीमभूसाभाभासुर
 कोसलणयरि झउ त्ति पराइय

कंहिं वि समुग्गय जयघंटारव ।
 कंहिं वि समुग्गय जयघंटारव ।
 कंप्पिउ अहिषइ महिवइ सुरवइ ।
 मयजलमिलियपुलियवहुमहुयरि ।
 अइरावणि धारणि आरूढउ । 5
 वज्जंतहिं वाइत्तंणिणायहिं ।
 सवहु सवाहणु सघउ सपहरणु ।
 चलिय हरि सरसरसिर सुरासुर ।
 परियंवेवि तिवार घरु आइय ।

घत्ता—पणवेप्पिणु पियरइं आयरिण सहसा चित्ति विर्येप्पिउ ॥ 10
 जिणमायहि मायइ सुरवरहिं मायाबालु संमप्पिउ ॥ १४ ॥

13 १ AP add after this : जेडुहु मासहु पक्खि अचंदणि (P पक्खियचंदणि), मावसदिणि
 ससहरि थियरोहिणि. २ AP णिव°. ३ A °कुमारहिं ४ A °साहुकारहिं. ५ A °लक्ख. ६ A °मासि.
 ७ A सिवपुर°. ८ A तित्थंकर.

14 १ AP कंहिं मि. २ A विंभाविय°. ३ P भंभाभेरिपडह°. ४ P वायत्त°. ५ P
 वियप्पियउ. ६ P समप्पियउ.

13 1 b विण्णा सिउ विन्यसितं कथितम्.

14 5 a मुणि महसयणि व्वुदउ मुनेस्तीर्यकरस्य पूजामिषेकशतनिर्वाहकः. 8 b हरि इन्द्रः;
 सरसरसिर प्रेम्णा शब्दवन्तः. 9 b परियंवेवि प्रदक्षिणीकृत्य. 11 मायइ मायया.

15

जगगुरु लेवि देव गय तेस्तहि
 तहिं सीहासणि णिहिउ भडारउ
 इंदजलणजमणेरियवरुणहं
 आवाहणु करेवि पोमाइवि
 अमरपंति अविउट्टं करेप्पिणु
 किसलयछण कलस उच्चाइवि
 देविंदहिं जिणिंदु अहिसिंचिउ
 देवंगइ वत्थइं परिहाविउ
 भूसिउ भूसणेहिं साणंदे
 घत्ता—जाएण जेण जसु बंधुयणु कीलासु वि अविंसकिउ ॥
 बहिरंतरंगवइरिहिं ण जिउ आजिउ तेण सो कोक्किउ ॥ १५ ॥

सुरागिरिपंडुसिलायलु जेस्तहि ।
 मयणबाणसंताणेणिवारउ ।
 पवणधणयभवसासिखरकिरणहं ।
 जण्णभाउ सम्भावें ढोइवि ।
 जीरु खीरमयरहरि भरेप्पिणु । 5
 मंतु पणवसाहा संजोइवि ।
 कुवलयकमलकयंबहिं अंचिउ ।
 देउं दिव्वगंधेहिं विलेविउ ।
 णामकरणु विरइउं देविंदे ।

10

16

णमो जिणा कयंतपासणासणा
 णमो कसायसोयरोयवज्जिया
 णमो अदीणकामबाणवारणा
 णमो विसालमोहजालछिंदणा
 णमो णिहित्तसुण्णवाइवासणा
 णमो गयालसालसीलभूसणा
 णमो विमुक्कदिव्वधोसणीसणा
 णमो अणंतसंतसम्मभावणा

णमो विसुद्ध बुद्ध सिद्धसासणा ।
 णमो फणिंदं चंदविंदपुज्जिया ।
 णमो महाभवंबुरासितारणा ।
 णमो जियारिरायरायणंदणा ।
 णमो अणयभेयभावभासणा । 5
 णमो पसण्ण दिण्णरोसैदूसणा ।
 णमो रिसी तवोविहीपयासणा ।
 णमो रंहंत मोक्खमग्गादावणा ।

घत्ता—इय वंदिवि अमराणंदियहिं णंदणवणसुच्छायहि ॥

आणेप्पिणु उज्झहि परमजिणु इंदे अप्पिउ मायहि ॥ १६ ॥ 10

15 १ AP सिंहासणि. २ A ०मंतव०. ३ P अविउट्ट. ४ P खीर. ५ A देव.

16 १ AP विसुद्धबुद्धिसिद्धसासणा. २ AP फणिंदं चंदविंदपुज्जिया. ३ AP ०दिण्णदोस०.
 ४ AP ०संतसोमभावणा. ५ A णमो अरहंत.

15 ३ b भव शंकर; खरकिरण सूर्यः. 4 a पो मा इ वि प्रशस्य; b जण्ण भाउ यज्ञभागः,
 पूजाभागः. 5 a अविउट्ट अविच्छिन्ना. 6 b पणवसाहा ॐ स्वाहा. 10 जसु यस्य; कीलासु
 क्रीडाशीलः.

16 3 a अदीण० प्रौढः. 4 b जि यारि रायराय० जितशत्रुराजाधिराजः. 6 a गयालसाल०
 गर्त आलसं आलं असत्यं यत्र; b दिण्ण० विदारितः. 7 a विमुक्क दिव्वधोसणीसणा विमुक्ताः उच्चैरुच्चा-
 रिताः दिव्यधोपाः सर्वभाषाप्रकाशका निस्वनाः शब्दा येन.

17

कालें जंतें जायउ पोढउ
का वि णारि आलिंगणु मग्गइ
का वि कुमारि भणइ मइं परिणहि
एकंसु देहि दिट्ठि सुहगारी
इय णारीयणु हंतु रसिल्लउ
रक्खहि देवदेव णियसंगे
पिउणा सुरवइणा घरु गंपिणु
कह व कह व मइइ इच्छाविउ
सुसिरु तंति घणु पुक्खरु वज्जइ
जहिं उव्वसिरंभहि णञ्चिज्जइ

जयवइ णवजोव्वणि आरुढउ ।
क वि कामाउर पायहि लग्गइ ।
विरहु भडारा किं तुहुं ण मुणहि ।
जा जीवमि ता दासि तुहारी ।
कामासत्तउ कामगहिल्लउ । 5
मारिज्जंतु वराउ अणंगे ।
पत्थिउ जिणकुमारु पणवोप्पिणु ।
कण्णासहसहिं पैहु परिणाविउ ।
जहिं तुंबुरुणा सुसरउ गिज्जइ ।
अणवमरसविसेसु संविज्जइ । 10

घत्ता—जहिं मंगलदव्वविहत्थियहिं उरघोलिरहारमणिहिं ॥

आवंतिहिं जंतिहिं सुललियहिं छेउ णत्थि सुररमणिहिं ॥ १७ ॥

18

जहिं उवमाणउ किं पि ण दिज्जइ
सव्वतित्थपरिपुण्णहिं कलसहिं
खीरतुसारतारणिस्तारहिं
कौमलकिसलयच्छाइयवत्तहिं
मंगलघोसविलासविसेसहिं
किउ रज्जाहिसेउ सूर्यसेवहु
महि भुंजंतहु पीणियभव्वहुं
एकहिं दिणि णरणियरणिरंतरि
वसुवइवसुमइकंताकंतें

तं उच्छउ मइं किं वणिज्जइ ।
मुणिवयणहिं णं वियलियकलुसहिं ।
जित्तैविलासिणिमोसियहारहिं ।
विसहरसुरणरखयरुक्खित्तहिं ।
तियसिंदहिं मिलेवि पुहईसहिं । 5
बद्धु णिलाडि पट्टु तहु देवहु ।
एक्कुणवीसे लक्ख गय पुव्वहं ।
अच्छंतें अत्थाणब्भंतरि ।
रयणिहि गयणभाउ जोयंतें ।

घत्ता—तां तेण दीह ससहरधवल उक्क पडंती दिट्ठिय ॥ 10

णं णहसिरिकंठहु परियलिय चलमुत्ताहलकंठिय ॥ १८ ॥

17 १ A एक सुदिट्ठि देहि सुहगारी; P एक सदिट्ठि देहि सुहगारी. २ AP add after this; कुमरत्तें (P कुमरत्ति) पुणु काल सुहासिउ, पुव्व अइदहलक्ख णणासिउ. ३ A मंडइ; P मइइ. ४ P सहु. ५ AP अणुवम^०; T अणुवम^० but the meaning given is शान्तरसरहितः.

18 १ AP णं मुणि^०. २ P जिणिवि विला^०. ३ A कमलकिसलयच्छाइय^०; P कमलहिं किसलयच्छाइय^०. ४ A सुरसेवहु; P सियसेवहु. ५ A एक्कुणलक्खवीस गय; P तयपंचास लक्ख गय. ६ P अच्छइ जा अत्थाण^०. ७ A तो.

17 1 b जयवइ जगत्पतिः. 8 a मइइ इच्छा वि उ हठादिच्छां कारितः. 10 b अणवमरस^० नवमरसरहितम्, शान्तरसं विना. 12 छेउ छेदः वृत्तिः.

18 6 a सूर्यसेवहु श्रीसेवितस्य. 9 a वसुवइ लक्ष्मीः; वसुमइ पृथ्वी. 10 उक्क उल्का.

19

पेच्छंतहु सा तहिं जि विलीणी
 गयणुम्मुक्क उक्क गय जेही
 लग्गामि णिरवज्जहि मुणिविज्जहि
 छणि छणि जडयणु किं हरिसिज्जइ
 जीय भणंतहं विहसइ तूसइ
 ण सहइ मरणह केरउ णाउं वि
 कालि महाकालिहिं घरु दुक्कइ
 जोइणीहिं को किरं रक्खिज्जइ
 खयकालहु रक्खंति ण किकर
 खयकालहु रक्खंति ण केसव
 होइ विसूई संपेणं वेप्पई
 जलि जलयर थलि थलयर वहरिय
 तो वि जीउ जीवेवइ वंछइ

ईसमणीस समासमलीणी ।
 अथिर णरेसरसंपय तेही ।
 पभणइ सामि जामि पारवज्जहि ।
 आउ वरिसवरिसेणं जि खिज्जइ ।
 मेर पभणंतहं रंजइ रूसइ । 5
 पहरणु धरइ फुरइ णित्थाउ वि ।
 मज्जु मासु दोवंतु ण थक्कइ ।
 पीडिवि मोडिवि काले खज्जइ ।
 मय मायंग तुरंगम रहवर ।
 चक्कवट्टि विज्जाहर वासव । 10
 दाढिविसाणिमृगहिं दारिज्जइ
 णहि णहयर भक्खंति अवारिय ।
 लोहे मोहे मोहिउ अच्छइ ।

घत्ता—सुहु वंछइ परं तं णउ लहइ मरणह तसइ ण चुक्कइ ॥

इच्छाभयपरवसु एहु जणु जममुहकुहरहु दुक्कइ ॥ १९ ॥ 15

20

तांवाइय लोयंतिय सुरवर
 चंगउ चित्तंडिंभु संथवियउ
 छंडंहि पणइणि कंवरणगोरी

ते भणंति जय जगगुरु सुरवर ।
 णाणणिहेल्लणि पइं संथवियउ ।
 धरंहि भुवणसंबोहणगोरी ।

19 १ P पवज्जहि. २ AP वरिसु वरिसेण. ३ A मरणु भणंतहं; P मरु पभणंतहं. ४ A किर को रक्खिज्जइ; P किं किर. ५ A सपेसिज्जइ. ६ AP add after this: दहि बुद्धइ जलणेण पलिप्पइ. ७ AP^o मिगहिं. ८ AP add after this: विसविवक्खसत्थहिं मारिज्जइ. ९ A जीवेवउ; P जीवेव्वउ. १० P तं पर णउ. ११ A इच्छाहय परवसु; P मिच्छाभयपरवसु.

20 १ AP तावाइय. २ चित्तंडंभु but gloss बालकः. ३ A छंडिवि; P छडुहि. ४ AP चंपय. ५ P वरहि.

19 1 b ईसमणीस स्वामिनो बुद्धिः; समासमलीणी सम्भगासमन्ताहुपशमेन लीना. 2 a उम्मुक्क उद्गता. 4 a छणि छणि आयुर्ग्रन्थिपर्वणि पर्वणि. 5 a जीय भणंतहं हरिसइ त्वं जीव इति कथिते हर्षति; b रंजइ दुष्टं शब्दं करोति. 6 b णित्थाउ निर्बलः. 11 a विसूई विपूचिका.

20 1 a तांवाइय तांवा तावत्, तदा, आइय आगताः; b सुरवर हे सुराराध्य. 2 a संथवियउ प्रबोधितम्; b णिहेल्लणि श्यहे; संथवियउ धृतम्. 3 b गोरी सरस्वती, अन्यत्र दिव्यस्त्री.

गइ दुचरिक्तकम्मसंताणइ
पभण्ड पुत्त चरसु संताणइ
तहिं अवसरि णहु छण्णु विमाणहिं
किउ दिक्खाहिसेउ तियसेसहिं
गय खग सुर णियंसिवियाजाणें
णार्वइ णविउ सहेउवणामें
णिच्च करंति पणयकलहं सइ
तंडगंधव्वगीयकलहंसइ
तहिं सत्तच्छयतलि सुणिसण्णउ

अजियसेणु णिहियउ संताणइ ।
सयलमहीयलकयसंताणइ । 5
पत्तहिं निव्वाणेहिं विमाणिहिं ।
अंबिउ पहु पसत्थतियसेसहिं ।
फलतरुणविपं पवरुज्जाणें ।
सो सोहंतु सुद्धपरिणामें ।
जहिं सरि सब मुयंति कलहंसइ । 10
ताहं चलणि रसियइं कलहंसइं ।
जिणु जिणंतु चत्तारि वि सण्णउ ।

घत्ता—मोहे माते सियणवमिदिणे रोहिणिरिक्ख गयासें ॥

अवरण्हइ केसलोउ करिवि लइय दिक्ख परमेसें ॥ २० ॥

21

जे धम्मेल्ल विमुक्क सुवत्ते
लेवि घित्त खीरण्णवणीरइ
विसयंपरीसहरिउहु ण संकिउ
णाणु चउत्थउ खाणि उप्पण्णउं
उज्झाणयरिहि बीयइं वासरि
कुसुमवरिसु सुरवडहणिणायइं
गेहणैहबंधणु विच्छिण्णउं
पूसहु सुक्कपक्खि संपत्तइ

ते सुरणाहें मणिमयंपत्ते ।
को णउ करइ भत्ति जइ णीरइ ।
नृवसहासु ते सहुं दिक्खंकिउ ।
छट्टुववासें व्रउ पडिबण्णउं ।
किउं पारणउं बंधरायहु घरि । 5
पंचच्छरियइं तहिं संजायइं ।
बारहवरिसइं तउ संचिण्णउं ।
एयारसि रोहिणिणक्खत्तइ ।

६ P धरसु. ७ A णर; P णिव. ८ A तावइ णमिउ. ९ AP सहेउअणामें; K सहेउपणामें but gloss and T सहेउवणामें सहेतुकनाम्नोद्यानम्. १० A णडगंधव्व°; P तडि गंधव्व°. ११ AP माहहो मासहो.

21 १ AP °वत्ते. २ AP विसहपरीसह°. ३ AP णिव°. ४ AP वउ. ५ A तीयइ. ६ AP °पडइ°. ७ P गेहि गेह°.

4 a °क म्म संता ण इ क्रियाविस्तारे; b संता ण इ अन्वये वंदो. 5 a संता ण इ सत्पुरुषाज्ञया; b °क य-संता ण इ कृतसत्पुरुषलक्षणेन. 6 a वि मा ण हिं विगतसंख्यैः. 7 a तियसेस हिं देवेन्द्रैः; b पसत्थ-तियसेस हिं प्रदास्तस्त्रीविशेषाभिः. 9 a सहेउवणामें सहेतुकनाम्नोद्यानेन. 10 a पणयकलहं सइ प्रणयकलहकं ऋगडकं स्वयं कुर्वन्ति; b सरि सरोवरे. 11 a गीयकलहंसइ गीतानां मनोशताध्वंसकानि; b ताहंचलणि रसियइं कलहंसइं तेषां तटगतगान्धर्वाणां पादेषु रसितानि शब्दितानि मनोशंसकानि नूपुराणि; हंसशब्दोऽत्र नूपुरवाची. 13 गयासें विनष्टवाञ्छेन.

21 1 a सुवत्ते शोभनवक्त्रेण शोभनपात्रेण वा. 2 b णीरइ रजोरहिते. 5 a बीयइ वासरि द्वितीये पारणादिने इत्यर्थः.

भावाभावालोयविराडु
ह्य दुंबुहि णं गज्जिउ सग्गे

यत्ता—चत्तारि सयाइं सरासणहं सइइं देहु जिणिदहो ॥

अमरिदं दूरासंकिण मण्णिउ सरिसु गिरिदहो ॥ २१ ॥

केवलणाणु तेण उप्पाइउ ।

आय देव विसिविदिसंहं मग्गे । 10

22

णवकणयवण्णु
संथुउ अणेण
जय भव भवंत
जय भूर्यणाह
जय गोरिरमण
जय तिउरडहण
जय मोक्खमग्ग
जय सोमसीस
जय णायहार-
सुतिलोयणास-
सुरयंतवित्त-
णीसरियविमल
जय वेयभासि

खममाहु पुण्णु ।

अमराहिवेण ।

जय दाणवंत ।

विरइयविवाह ।

जय सुविसगमण ।

5

जय मयणमहण ।

णिग्गंथ णग्ग ।

जय तिहुवणीस ।

भूसियसरीर ।

हर हरविलास ।

10

पम्भाररत्त ।

चउवयणकमल ।

पसुवहपयासि ।

८ AP भावाभावलोए पविरायउ. ९ A °विदिसहं मग्गे; P °विदिसि णग्गे.

22 १ P भूवणाह.

9 a भा वा भा वा लो य वि रा य उ विश्वस्थितसमस्तपदार्थदर्शनेन विराजितम्.

22 3 a भव हे शंकर; भवंत संसारस्य अन्त अन्तक मोक्षप्रदानात्प्रलयविधानाच्च; b दा ण वं त अभयदानदायक एकः, अन्यो दानवविनाशकः. 4 a भूर्यणाह एकः सकलप्राणिस्वामी, अन्यः पिशाचनाथः; b विरइयविवाह विरचिता विनष्टा बाधा येन, अन्यत्र कृतपाणिग्रहण. 5 a गोरिरमण सरस्वतीप्रियः, अन्यत्र गौर्याः पार्वत्याः रमण पते; b सुविसगमण शोभनस्य वृषस्य धर्मस्य गमनं प्रवर्तनं यस्मात्; अन्यत्र शोभनबलीवर्देन गमनं यस्य. 6 a तिउरडहण जातिजरामरणलक्षणत्रिपुर-विध्वंसक; अन्यत्र त्रिपुरदानवविनाशक. 7 a मोक्खमग्ग मोक्षपथ; अन्यत्र मोक्षे वेध्ये मार्गो मार्गो यस्य. 8 a सोमसीस उपशान्तशिष्य, चन्द्रोपलक्षितमस्तकोऽन्यत्र; b तिहुवणीस त्रिभुवनस्वामिन्, अन्यत्र त्रिभुवनायास्त्रिपथाया गङ्गायाः स्वामिन्. 9 a णायहार सन्मार्गधारक सन्मार्ग एव हारो यस्येति वा, सर्प एव हारोऽन्यत्र. 10 a सुतिलोयणासहर सुष्ठु त्रिलोकविनाशहर; परमकारुणिकत्वादजरामर-पदप्रापकत्वाच्च; अन्यत्र शोभनत्रिलोचनस्य धर, अथवा सुत्रिलोकस्य नासधरो धर्मधरो वा हरः शिष्य; b विलास विगतक्रीड, विशिष्टक्रीड. 11 सुरयंतवित्तपम्भाररत्त सुरतस्यान्तो विनाशो यस्मिन् वृत्ते चरिते तस्य व्रतस्य प्राग्भारे संघाते रतः; अन्यत्र सुरपर्यन्तं यद्वृत्तं चेष्टितं तस्य प्राग्भारे रतः. 13 a वेयभासि प्रथमानुयोगादिपरमागमचतुष्टयप्रकाशकः; वेदकर्तोऽन्यत्र; b पसुवहपयासि पशूनामपि सत्पथप्रकाशकः; अन्यत्र पशुवधप्रकाशकः.

णिहंद्दुडंभ	जय परमबंधं ।	
कंपावियक	कयधम्मचक्र ।	15
जय चक्रपाणि	जय दिव्वजोणि ।	
बहुसोकखहेउ	जय गरुलकैउ ।	

घसा—तुह गम्मणिवासि हिरण्णमयविट्ठिइ सुहु वसिद्धउ ॥

तुहुं तेण हिरण्णगम्भं मणिउ अण्णहु एउं णिसिद्धउ ॥ २२ ॥

23

बंदिषि एम सुखिं दे सत्तिइ	विरउ समवसरणु जिणमसिइ ।
माणखंभसरवरसरपरिहहिं	सुकुसुमवेळिहिं मरगयफलिहहिं ।
णिम्मियपायारेहिं विचिस्सिहिं	थूहहिं सूरयंतमणिदिसिहिं ।
कण्णहुमचेईहरचिंधहिं	धूवहडेहिं सुधूवेसुगंधहिं ।
णडसालाहिं णैट्टंतडवियहिं	थामि थामि मणिमयमंडवियहिं । 5
तोरणैरयणालंकियदांमहिं	कणयदंडधरफणिपडिहारहिं ।
जं एहउं तहिं मोक्खहु पंथिउ	अजियणाहु सीहासणि संठिउ ।
पुव्वासासंमुहुं आसीणउ	किं वण्णमि तेल्लोक्कपहाणउ ।

घसा—चउतीसातिसयविसेसधरु जिणु हरिवीट्ठि बइट्टउ ॥

उययदिसिहरि उययंतु रधि सुहु णं लोपं विट्टउ ॥ २३ ॥ 10

24

सव्वभहु तं तहु सीहासणु	कुसुमवासु भसलाक्खिबोसणु ।
णवकंकेल्लिरुक्खु कोमलदलु	भामंडलु णं विणययमंडलु ।
छत्तइं तिण्णि चंदसंकासइं	चमरइं हिमगोखीरामासइं ।

२ A णिहंद्दुडंभ. ३ AP दिव्ववाणि. ४ AP °गम्भु. ५ A एउ ण सिद्धउ.

23 १ P सुकुसुम°. २ P सुयंधसुयंधहिं. ३ A णट्टमंडवियहिं. ४ AP रयणतोरणालं°. ५ AP °दारहिं. ६ AP °दंडधर°. ७ P जं एहउ तं सक्कं पथिउ, जगकारणं आवेषिणु थिउ. ८ P पुव्वासासंमुहुं तेण आसीणउ. ९ A णं तहलोएं दिट्टउ.

14 a णिहंद्दुडंभ निर्दग्धदग्धः; अन्यत्र निश्चितो दग्धदग्धो निकृष्टदग्धो यस्य; b परमबंधं परमात्म-स्वरूपः, अन्यत्र परमब्रह्म आत्मा स्वरूपं यस्य, एकमूर्तिस्त्रयो भागा ब्रह्मा विष्णुमहेश्वर इत्यभिधानात्. 15 b कयधम्मचक्रं कृतधर्मचक्रं; अन्यत्र कृतं धर्मस्य धनुषः चक्रं मण्डलं येन, संग्रामकाले कृतचक्राकार-चाप इत्यर्थः. 16 a चक्रपाणि चक्रं लाञ्छनं पाणौ यस्य; अन्यत्र चक्रं प्रहरणं पाणौ यस्य. 17 a बहुसोकखहेउ बहुभिरिन्द्रादिभिः सौख्यार्थं सेव्यः; अन्यत्र बहुभिः सौख्यार्थं सेव्यः; b गरुलकैउ गरुडध्वजः. 18 °विट्ठिइ °वृष्ट्या.

23 3 b सूरयंतमणिं सूर्यकान्तमणिः. 4 b धूवहडेहिं धूपघटेः. 7 a पंथिउ पान्थः. 10 उययंतु उदयन्.

वज्रइ हुंदुहि भुवणाणंदणु
णिग्गय दिव्वभास सच्चुण्णय
अक्खइ जिणु सत्त वि पायालइं
अक्खइ जिणु भावणसंपत्तिउ
अक्खइ जिणु अहमिद वि सुरवर
अक्खइ जीवकम्मभेयंतरु
सीहसेणरायाइय गणहर

विरइयरिद्धिउ सइं सकंदणु ।
तं णिसुणंति अमर णर पण्णय । 5
णरयलक्खदुक्खग्गिविसालइं ।
वेंतरजोइससग्गुप्पत्तिउ ।
बहुविह णर तिरिक्ख तस थावर ।
अक्खइ पेक्खइ तिजग्गु णिरंतरु ।
जाया णउइं तासु सम्मयधर । 10

घत्ता—सहसाइं तिण्णि पण्णासियइं सयइं सत्त भयवंतहं ॥
पुव्वंगधरहं तहिं मुणिवरहं जायइं संतहं दंतहं ॥ २४ ॥

25

उडुसयाइं इगिवीससहासइं
चउसयाइं णवसहसइं सिइं
केवलणाणिहिं वीससहासइं
ताइं जि पणु चउसयहिं समेयइं
तवसमसहसइं पुणरवि उत्तइं
सग्गारोहणसुहयणिसेणिहिं
तेसियइं जि पण्णासइ रहियइं
एवं गणंतगणंतहुं आयउ
अज्जहं लक्खइं तिण्णि समासविं
तेत्तिय हुउं सावय आहासविं
संखारहिय देव णिहंसविं

सिक्खुयरिसिहिं विमुक्कधणासइं ।
णाणत्तयसंजुत्तहं दिट्ठइं ।
जाइं अणंगसंगणिण्णासइं ।
विकिरियारिद्धिहरहं णेयइं ।
चउसयाइं पण्णासइ जुत्तइं । 5
संभूयइं मणपज्जवणाणिहिं ।
दिण्णुत्तरहं विवाइहिं विहियइं ।
एक्कु लक्खु भिक्खुहुं संजायउ ।
उप्परि सहसइं वीस णिवेसविं ।
पंचलक्ख अणुवइयहिं घोसविं ।
देविहिं किहं परिमाणु गवेसविं । 10

घत्ता—इय एत्तियसंघे परियरिउ पुव्वहं विरइयपरहिय ॥
तेपणलक्खु महियलि भमिवि बारहवारिसहिं विरहिय ॥ २५ ॥

24 १ P दिव्ववाणि. २ A सच्चुण्णय; P सच्चुण्णय; but K सच्चुण्णय and gloss सत्थो-
न्नता. ३ P °कम्महो यंतरु. ४ A तिजयम्भंतरु. ५ AP णवह; K णउवि and gloss नवतिः.
६ A सम्मइधर.

25 १ AP °संजुत्तइं. २ P °उत्तइं. ३ AP सुहयणिसेणिहिं, but T सुहय° सुखद°. ४ P
संभूयहिं. ५ P वहियइं. ६ AP एम. ७ AP समासमि. ८ AP णिवेसमि. ९ AP सावइ आहासमि.
१० AP घोसमि. ११ AP णिहिसमि. १२ AP कहिं. १३ AP गवेसमि. १४ AP विहरइ परहिय.
१५ A तेवण लक्ख; P सो एक्कु लक्खु.

24 4 b विरइ यरिद्धिउ विरचित्तिरिन्द्रः स्वयमेव शरीरेण. 5 a सच्चुण्णय सत्थोन्नता.

25 1 a उडुसयाइं पद् शतानि. 5 a तवसमं द्वादश°. 6 a °सुहय° सुखद°. 7 b
दिण्णुत्तरहं दत्तोत्तराणाम्. 9 a °अज्जहं आर्याणाम्. 12 विरइ यपरहिय कृतपरहितः.

26

सिहरिहि दरिसियदरिमयवेयहु
 मासमेत्तु थिउ पडिमाजोपं
 पक्कपिंड बाहत्तरिलक्खइं
 मासि चइत्ति पक्खि ससिजोण्हइ
 रोहिणिरिक्खि कम्मसंघारणु
 अंतिमझाणु झ त्ति विरपप्पिणु
 भुवणत्तयसिहरहु सुहठाणहु
 कय णिव्वाणःपुज्ज सुरसारहिं
 गउ सुरवइ जिणगुणरंजियमणु

पुणु अवसाणि गंपि संमेयहु ।
 जाणमि णाहु विमुक्कउ जोपं ।
 जीवेप्पिणु पुव्वहं कयसोक्खइं ।
 पंचमिदिवसि जाइ पुव्वण्हइ । 5
 दंडकवाडुरुजगजगपूरणु ।
 तिण्णि वि तणुबंधणइं मुपप्पिणु ।
 अजिउ भडारउ गउ णिव्वाणहु ।
 तणु संपूर्णउ अग्गिकुमारहिं ।
 अवरु वि जहिं आयउ तहिं गउ जणु ।

घत्ता—जिह रिसहें भरहहु वज्जरिउं तिह इउं तुह स्ययमाणण ॥ 10
 आहासमि सयररायचरिउ कुंदपुप्फदंताणण ॥ २६ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
 महाभवभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे अजियणिव्वाणगमणं णाम
 अट्टतीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३८ ॥

॥ अजियचरियं समत्तं ॥

26 १ A दावियदरिसरिवेयहु; P दरिसियदरिसरिवेयहु. २ AP जाणिवि. ३ AP कय-
 संखइं. ४ A दंडु कवाड पयरजयपूरणु; P दंडु कवाडु पयरु जयपूरणु. ५ A भुवणंतय^०; P भुवणत्तइ.
 ६ AP संकारिउ. ७ APT सियमाणण. ८ AP omit अजियचरियं समत्तं.

१ 1 a दरि सिय दरि मय वे य हु दर्शितो दरीषु मृगाणां वेगो यस्मिन्मेरौ. 6 b ति णि णि वि
 त णु बंध ण इ औदारिकतैजसकार्मणानि. 8 a सुर सार हिं देवेन्द्रैः. 10 स्य य मा ण ण हे श्रीमानन श्रेणिक.

गुणगणहरु भासइ गणहरु बहुरसभावाणिरंतंरु ॥
मगहाहिव णिसुणि मंहाहिव सयरणरिदकहंतंरु ॥ धुवकं ॥

1

इह जंबुदीवि खरयरकराहि	मंदरगिरिपुब्बिल्लइ विदेहि ।
सीयहि दाहियण्यलि संणिसण्णु	उद्दामगामसीमापउण्णु ।
णं घरणिइ दाविउ सुहपपसु	वच्छअवइ णामे अत्थि वेसु । 5
मायंदणवदलुकंठियाउ	जहिं कलयलंति कलयंठियाउ ।
कमलायर धरियसुपुंडरीय	णं णरवइ धरियसुपुंडरीय ।
उववणइ विविहवच्छंकियाइं	गोउलइं धवलवच्छंकियाइं ।
जहिं मंडव दक्खोहल वहांति	घरि घरि करिसंणियहं हल वहांति ।
जहिं णिष्णु जि सुद्धु सुंहिकखु खेउं	कामिणिउ देंति कामुयहं खेउं । 10

यत्ता—विमिहयंसुरु तहिं पुहईपुरु पविमलमणिमयमहियंल ॥
सरयामलु चंदयरज्जलु घरचूलाहयणहयंल ॥ १ ॥

2

तहिं णिवसर सिरिजयसेणु राउ	जिणसेणापणइणिजणियराउ ।
रासेणु पुसु पररमणिअवरु	उण्णु ताहं दिहिसेणु अवरु ।

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

शशवरविम्बात्कान्ति (न्ति ?) स्तेजस्तपनाद्रभीरतामुदधेः ।
इति गुणसमुच्चयेन प्रायो भरतः कृतो विधिना ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XVIII of this Work in certain Mss. of the Mahāpurāṇa. For details see Introduction to Vol I. pp. xvi-xxvii and also foot-note on page 295 of the same Vol. K does not give it there or here.

1 १ AP महाणिव. २ A उत्तरयलि; K उत्तरयलि but corrects it to दाहियण्यलि. ३ A कलियंठियाउ. ४ AP दक्खारसु. ५ A करसणियहं. ६ AP सुत्थ. ७ AP सुमिक्खु. ८ AP विमिहयं. ९ AP म्हायल्ल. १० चूडाहयं. ११ AP णहयल्ल.

1 2 महा हिव महाधिप. 3 a खरयरकराहि आदित्यकराभे, आदित्यतेजोयुक्ते इत्यर्थः. 4 a सीयहि सीतानद्याः; b पउण्णु पूर्णः. 6 b कलयंठियाउ कोकिलाः. 7 a पुंडरीय कमलम्; b पुंडरीय छत्रम्. 8 a वच्छंकियाइं वृक्षलाञ्छितानि. 9 a दक्खाहल द्राक्षाफलानि. 10 a खेउं क्षेमं कुशलम्; b खेउं आलिङ्गनम्. 11 पुहईपुरु पृथ्वीपुरं नाम नगरम्.

2 २ a पररमणिअवरु पररमणीनां अभर्ता, अपुंश्चल इत्यर्थः; सुशील इति वा.

ते बिण्णि वि जण पञ्चकखकाम
ते बिण्णि वि जण ससिसूरधाम
ते बिण्णि वि जण परहियविवेयं
गुरुदेवमित्तबंधवविणीउ
करपल्लवग्गताडियउराइं
अण्यउ ण मुणति ण धैरु दुवारु

ते बिण्णि वि जण संपण्णकाम ।
ते बिण्णि वि जण जयलच्छिधाम ।
ते बिण्णि वि जण जणणहु विहेय । 5
रइसेणु णवर कालेण गीउ ।
पडियइं पियरइं सोयाउराइं ।
सिसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवारु ।

घत्ता—णिवडंतहं विहिं वि रडंतहं उवसमभाउप्पायणु ॥

कयसंतिहिं दिण्णउं मंतिहिं जिणवरवयंणु रसायणु ॥ २ ॥ 10

3

कुलकंचुईहिं संबोहियाइं
जणमयगलमूलाणरञ्जु
जयसेणं णासियरइरुएण
णियवेविइ सहं रयंविहुणएहिं
दुज्जयदुण्णयदुज्जसहरासु
परिसेसेप्पिणु णीसेसु संगु
वोलीणइ गुरुसेवाइ कालि
मणि तिहुयणलच्छीवइ सरंवि
मुणिवरहिं मयणघणमारुपहिं

कहं कह व ताइं उम्मोहियाइं ।
तक्खणि दिहिसेणहु देवि रञ्जु ।
सामंतं समउं महारुएण ।
अण्णेहिं मि बहुणरमिहुणएहिं ।
अउं लइयउ पणविबि जसहरासु । 5
तउ चिण्णउं तेहिं दुवालसंगु ।
पच्छा संपत्तइ मरणकालि ।
वरपरंगणचरियइं पइसरेवि ।
दोहिं मि जयसेणमहारुपहिं ।

घत्ता—दुरियल्लइं तिण्णि वि सल्लइं हिययहु कहिवि घित्तइं ॥ 10

किउ अणसणु दूसहु भीसणु पंच वि करणइं जित्तइं ॥ ३ ॥

4

जयसेणु मरेवि महाबलक्खु
वेउव्विउ जहिं णीरोउ काउ

संजायउ सुरवरु जसवलक्खु ।
वावीसजलहिसमपरिमियाउ ।

2 १ A संपुण्णकाम. २ A °विहेय but gloss °विवेकः. ३ AP घर दुवारु. ४ AP कुलमंतिहिं. ५ A °वयणरसायणु.

3 १ P कह व कहव. २ A णं मयगलधूणा°; P णं मयगलाधूला°. ३ AP रइविहुणएहिं. ४ A दुक्कियदुण्णयदुज्जसहरासु; P दुक्कियदुण्णयदुज्जयहरासु. ५ AP वउ. ६ AP परपरगण°.

5 a परहि य वि वे य परहितविवेकिनौ; b वि हे य विनययुक्तौ. 8 b सि सु मो ह णी उ पुत्रनेहः.

3 2 a जण मय ग ल मू ला ला ण र ञ्जु जना एव मत्तगजास्तेषां मूलभूता आलानरञ्जुः बन्धनदोरः. 3 a णा सि य र इ रू ए ण नाशितरतिरोगेण; b म हा रू ए ण मारुतनाम्ना मन्त्रिणा सह. 6 a परि से से-प्पि णु त्यक्त्वा. 8 a ति हु य ण ल च्छी व इ त्रिभुवनलक्ष्मीपतिर्जिनः; स रे वि स्मृत्वा. 10 चि त्त इं क्षित्तानि.

4 1 a महाबलक्खु महाबलनामा; b ज स व ल क्खु यशसा शुक्रः उज्वलः.

इयरु वि सुहकम्मं तहिं जि धांमि
तणु मुइवि महारुंउ पउरतेउ
ण मुयंति सयणं ससणेहबंधु
जो पावइ अगगइ मणुयजम्मु
विणिण वि ते दिवि णिवसंति जांव
कोसलपुरि राउ समुइविजउ
विजया णामं तहु अत्थि घरिणि
सो तियसु सग्गसिहराउ ल्हसिउ

सोलहमइ अञ्जुयकप्पणामि ।
संभूयउ सिरिमणिकेउ वेउ ।
किउ दोहिं मि पडिबोहणणिबंधु । 5
तहु अमरु समासइ परमंथम्मु ।
कालेण महाबलु ढलिउ तांव ।
जसु घरि घोसिज्जइ णिञ्चविजउ ।
परमेसरि णाहं अणंगघरणि ।
तहि केरइ गम्भणिवासि वसिउ । 10

घत्ता—हरिकंधरु बहुलकखणधरु छणससहरमंडलमुहु ॥

कणयच्छवि णावइ णवरवि जाणियउ जणणिइ तणुरुहु ॥ ४ ॥

5

संगामसमुहरउहमयरु
णं केसरि दरदीसंतदाहु
कालेण गलंतं जाउ पोहु
तणु तासु जोहकरभूसणाहं
मंदरभित्ति व उत्तुंगिमाइ
तहु णिवकुमारकीलाइ ललिय
तेसिय जि महामंडलवइत्तु
गय जइयहुं तइयहुं सुकियसारु
असि चम्मं छत्तु गहंवेइ पुरोहु
वरजुवइ थवंइ वरंकुलिसदंडु
चोहंइ रयणइं महियलु छखंडु
दुइ पोम संख दुइ अवरं दिव्वु

कोक्किउ कुमारु तापण सयरु ।
दुव्वारवेरिसंगामसोहु ।
पलयक्कु व तिक्वपर्यावरुहु ।
चउरद्धसयाइं सरासणाहं ।
छज्जइ गोरी सेविय रमाइ । 5
पुव्वहं अट्टारहलक्ख गलिय ।
पालंतहु पत्थिवपय पयत्तु ।
उप्पणउ चक्कु फुरंतधारु ।
कंरि हरि कागणि मणि सेण्णणाहु ।
परपहरणगणणिइलणचंडु । 10
महकालु कालु पिंगलु पयंडु ।
माणव इय णव णिहि देंति सव्वु ।

4 १ AP थामि. २ A महारुइ. ३ A सयणि. ४ AP पवर धम्म.

5 १ A °पयायरुहु. २ P उत्तुंगिमाइ. ३ P कुमारलीलाइ. ४ AP चम्म. ५ AP गिहवइ.
६ AP हरि करि. ७ K omits थवइ. ७ AP दढ°. ८ A °णिहहणचंडु; P °णिव्वहणचंडु. ९ A
चउदह. १० AP पचंडु. ११ A तह पोम संख णेसप्पु सव्वु. १२ P पवरमव्वु.

5 a ससणेहबंधु स्वस्नेहबन्धः; b °णिवंधु वाग्बन्धः. 6 b समासइ कथयति. 7 b ढलिउ च्युतः.
10 a तियसु महाबलदेवः.

5 1 a °रउहमयरु रौद्रमकरः; b सयरु समरः. 4 a जोहकरभूसणाहं चापानाम्.
5 a उत्तुंगिमाइ उन्नत्या; b गोरी सरस्वती; रमाइ लक्ष्म्या. 7 b पयत्तु प्रयत्नेन. 9 b सेण्णणाहु
सेनापतिः. 10 a °कुलिसदंडु वज्रम्. 12 a दुइ पोम पन्नो महापन्नश्च; संख दुइ शंखो
महाशंखश्च.

घत्ता—महि हिंडिवि समरु संमोडिवि दुर्जेण दुडु दुसाहिय ॥
जलयलवइ णहयर णरवइ देव वि तेण पसाहिय ॥ ५ ॥

6

वरवसुमइ असिणा वसि करेवि
आवेप्पिणु कउ उज्झहि णिवासु
जिंवं भरहहु तियं सयरहु जि होइ
णामेण चउम्मुहु देउ संतु
आसीणु भडारउ णिलइ जेत्यु
किंकरकरवालकरालधारु
गउ वंदणहत्तिइ सयरुं राउ
अवलोइउं जिणपयणिहियचिनु
भो देव महाबल णिव्वियप्प
पुहईपुरि णरवरसंथुएहिं
चिरु चिण्णउ तउ जइणिंदमग्गि

णीसेसणरेसहं कप्पु लेवि ।
एत्तिय संपय भुवणयलि कासु ।
तं वण्णहुं ण वि सकंति जोइ ।
उप्पण्णउं तहु केवलु अणंतु ।
संजायउ देवागमणु तेत्थु । 5
अण्णहिं दिणि सुंदरु सपरिवारु ।
अवयरिउ तहिं जि मणिकेउ देउ ।
बोलाविउ तियसें परममिसु ।
ओलक्खहि किं मइ णाहिं बप्प ।
होइवि जयसेणमहारुपहिं । 10
जाया विण्णिण वि सोलहमि सग्गि ।

घत्ता—तुहुं सुहमइ ह्यउ णरवइ हउं ओहँच्छवि सुरवरु ॥
जं जंपिउ आसि वियप्पिउं तं हियउल्लइ संभरु ॥ ६ ॥

7

जे गय ते मय मउल्लवियणयण
संदण ण मुणांति विइंणु णेहु
रायहं हियवइ धम्मु जि ण थाइ
अंतरि छत्तइं छसहर वेंतु
अंगइं लच्छिहि दोसंकियाइं
रायउल्लइं पहु पइं जेरिसाइं
णिवडंति णरइ घोरंधयारि
किं रक्खइ तेरउ विजयचक्कु

जे हरिवर ते चल वंक्कवयण ।
किंकर णियक्कज्जहि देंति देहु ।
चामरपवणे उड्ढेवि जाइ ।
तं तइ वि बप्प पेक्खइ कयंतु ।
भुजंतइं केव ण संकियाइं । 5
पंघिदियसुहविसरसवसाइं ।
ण विरप्पइ किं तुहुं भोयभारि ।
सिरि पडइ भयंकरु कालचक्कु ।

१३ AP सुमंडिवि. १४ P दुजस.

6 १ AP जिम. २ AP तिम. ३ P वंदणमत्तिइ. ४ AP सयरराउ. ५ P अवलोयउ.
६ AP णरवइ^०. ७ AP सो अच्छमि.

7 १ P मउलेवि णयण. २ P वियणु. ३ A के णउ संकियाइं; P केम ण संकियाइं.

13 स मो डिवि उड्ढत्य.

6 1 b कप्पु करः दण्डो वा. 8 b तियसें मणिकेतुना. 13 संभरु संसरु.

7 1 a मउल्लवियणयण मुकुलितनेत्राः. 2 a विइणु वित्तीर्णो दत्तः. 5 a अंगइं
राज्याङ्गानि सप्त, गीतनृश्यादीनि वा. 7 b विरप्पहि विरज्यसे.

तद्दु वयणहु तेण ण दिण्णु कण्णु
पुणु अण्णहिं वासरि रयणकेउ
मुणिवरु होइवि कयधम्मसवणि
तं पेच्छिवि पुरु जंपइ असेसु

गउ सुरवरु सुरहरु मणि विसण्णु ।
णियरुवोहामियमयरकेउ । 10
आइउ थिउ सयरजिणिंदभवणि ।
पईउं ण रूवु पावइ सुरेसु ।

घत्ता—जणणेत्तइं जहिं जि णिहित्तइं तहिं जि णिरारिउ लग्गइं ॥
बुहयंदहु तासु मुणिंदहु को वण्णइ तणुअंगइं ॥ ७ ॥

8

तं वंदिवि चिंतइ सयर एंव
पहउ सुरूवु णउ वम्महासु
मुणि किं तुह किर वेरंगु थियउ
तं सुणिवि भणइ मायारिसिंदु
भरियउ पुणु रिक्तउ होइ राय
तणु धणु परियणु सिविणयसमाणु
किज्जइ तरुणत्तणि तवपवित्ति
जर पसरइ विहडइ देहबंधु
पच्चमट्टुचेट्टु गयरमणराउ
डहु थेरु सो चि किं णिवियारि
जीविज्जइ जहिं सो णिययदेसु

किं पहा होंति ण होंति देव ।
पुणु चवइ णिवइ दरवियंसियासु ।
भणु किं जोव्वणु वणजोग्गु कियउ ।
झिजंतु ण पेक्खहि पुण्णिमिंदु ।
सासय किं चिंताहि अब्भञ्जाय । 5
तसथावरजीवहुं अभयदाणु ।
बुद्धत्तणि पुणु परियलइ सत्ति ।
लोयणजुयलुल्लउ होइ अंधु ।
तरुणिहिं कोक्किज्जइ हसिवि ताउ ।
दइवेण जि पंडउ बंभयारि । 10
तं भोयणु जं मुणिभुत्तसेसु ।

घत्ता—किं भव्वे पंडियगव्वे लोउ असेसु णडिज्जइ ॥

चिउसत्तणु तं सुकइत्तणु जेण ण णरइ पडिज्जइ ॥ ८ ॥

9

सो सुरउ जो इंदियइं जिणइ
सो इहु बंधु जो धम्मु कहइ
ते कर जे पडिलिहणैउं धरंति

सो सुद्धबुद्धि जा तच्चु मुणइ ।
तं तणुबलु जं वयभारु वहइ ।
ते कम जे मउयउं संचरंति ।

४ P omits पुणु. ५ AP आइवि. ६ P एहउ णरु ण अच्ययसुरेसु.

8 १ A सरूउ; P सरूव. २ AP दरविहसियासु. ३ A मुणि; P मुणे. ४ P वहरग्गु.
५ A वणजोग्गु; P वणिजोग्गु. ६ AP सुहु पहुत्तणु.

9 १ A सो सुद्धबुद्धि जो. २ AP पडिलेहउ धरंति.

10 b °ओ हामिय° तिरस्कृतः. 11 b सयरजिणिंदभवणि सगरचैत्यालये. 13 णिरारिउ
अतिशयेन. 14 बुहयंदहु बुधचन्द्रस्य.

8 २ b दरवियसियासु ईपदिकसितास्यः. 3 a मणि चित्ते. 4 b झिजंतु क्षीयमाणः. 5 a
भरियउ पुणु रिक्तउ होइ यो भूतः स रिक्तो भवति. 7 a तवपवित्ति तपःप्रवृत्तिः. 10 a डहु
दग्धः; थेरु वृद्धः; b पंडउ नपुंसकः. 13 णरइ नरके.

9 1 a तच्चु तत्त्वम्. 2 b वयभारु व्रतभारः. 3 a पडिलिहणउं मयूरपिच्छम्.

तं सिरु जं जिणपयजुयलि णवइ
ते चक्खु ण जे तियमइ णियंति
सा जीह ण जा रसलोल लुलइ
सुंकारु देंतु णिइइ दुगंधु
तं अंगु ण जं कुसयणहु तसइ
ते चारु केस संजमधरेहिं
सैकयत्थइं जईकररुहइं ताइं
इज्जउ कामाउरु सीलरहिउ

घसा—उज्जयमणु जं गुणभायणु तं माणुसु सुकुलीणउ ॥

तं जोज्वणु हउं मण्णविं घणु जं तवचरणे खीणउ ॥ ९ ॥

तं तौहु णं जं विप्पियेइं चवइ ।
ते सवण ण जे रइसुइ सुणंति । 5
तं हियउ ण जं परमत्थि चइइ ।
तं णकुं ण जं इच्छइ सुयंथुं ।
सो मित्तु समउं जो रण्णि वसइ ।
उप्पाडियि जे मुणिवरकरेहिं ।
लग्गाइं विलासिणियणि ण जाइं । 10
तं जीविउ जं चारित्तसहिउ ।

10

आवेहि जाहुं लइ तुहुं वि दिक्ख
इय कहइ जइ वि सो देवसाहु
लइ अज्जि वि ण लहइ काललखि
गउ चक्खवट्टि सणिहेलणासु
अत्थाणि परिट्टिउ लुडु जि जाम
आयाइं भणंतइं जीयं देव
दे देहि तुरिउ आपसु किं पि
मंदर महिहर जेवंधु जं पि
तं णिसुणिवि सक्कसमाणपण
आएसहु कारणु किं पि णत्थि
अणुइंजहु महु रिद्धिहि फलाइं

घसा—किं वग्गाह पेसणु मग्गाह मंडलाइं धणरिद्धइं ॥

महु पक्के मुक्के चक्के सुहु दुसज्जइं सिद्धइं ॥ १० ॥

सिक्खहि गयमयरय मोक्खसिक्ख ।
पडिबुद्धउ तो वि ण पुंइविणाहु ।
जाणिवि देवे^३ कय गमणसिद्धि ।
णं इंदिंदिरु कमलिणिवणासु ।
सहसाइं सट्टि तणुरुहइं ताम । 5
पायडहुं तुहारी पायसेव ।
णोसरहुं महारिउ रणि पयं पि ।
लीलाइ समाणहुं कज्जु तं पि ।
विहसेप्पिणु सुसैंउं राणपण ।
आरुहिवि तुरंगम मत्तहत्थि । 10
मा जंपह वयणइं चप्फलाइं ।

३ A जं ण. ४ AP विप्पियउ. ५ AP णकु. ६ A सुगंधु. ७ P सकइत्थइं. ८ AP जणं.
९ A उज्जयमणु. १० AP मण्णमि.

10 १ A पुहइणाहु. २ AP अज्ज वि. ३ P कय देवे जाणसिद्धि. ४ AP जीव. ५ AP जेवंधु. ६ P तं मुणिवि. ७ P उत्तउ. ८ P लग्गाह.

5 a तियमइ स्त्री; b रइसुइ रतिशास्त्रं कामशास्त्रम्. 7 a णं कु नासिका. 8 a कुसयणहु भूमि-
शयनात्. 10 a जइ कररुहइं यतीनां नखानि. 11 उज्जयमणु सरलचित्तः.

10 4 a सणिहेलणासु स्वगृहे; b इंदिंदिरु भ्रमरः. 6 b पायडहुं प्रकटीकुर्मः. 7 b
णोसरहुं न अपसरामः पश्चात्पादं न दद्यः. 11 b चप्फलाइं चपलानि निष्फलानि. 12 बसाह
उच्छृंखलचेष्टां कुरुत.

11

अह जइ सुयंतु दक्खेविउं अज्ज
 देवेण जाइं चक्केसरेण
 लंबियघंटाचामरधयाहं
 वरसिहरहं चउवीसहं वि ताहं
 जिहं णासइ खलमाणवहं मग्गु
 ता णिग्गय तणय पसाउ भणिवि
 धरंधरणक्खम उद्धुद्धसोंड
 धाइय जुवाण मुहुमुकराव

घत्ता—पविदंडे खणरुइचंडे फाडिउ खणि खोणीयलु ॥

णरसारहिं रायकुमारहिं देवेहुं दाविउं भुयबलु ॥ ११ ॥ 10

12

णियचिरंपवाहपिहुपहु मुयंति
 परिभमियवारिविष्मम भमंति
 परिमलमिलियालिहिं गुमुगुमंति
 सविसइं विसिविवरइं पइसरंति
 गिरिकंदर दरि सर सरि भरंति
 उसुंगतरंगहिं णहि मिलंति
 कच्छवमच्छोह समुच्छलंति
 पविउलजलवलयहिं चलवलंति
 वलइयउ ताइ कइलासु केव

घत्ता—धवलंगइ वेदिउ गंगइ पुणु वि मज्झु सो भावइ ॥

सुरमणहरु मंदिरमहिहरु तारापंतिइ णावइ ॥ १२ ॥ 10

11 १ A सयत्त. २ AP दक्खवहु. ३ A वर रक्ख. ४ A जिम. ५ A जयदंड. ६ A वर-
 धरणुक्खम उद्धायसोंड. ७ A जलमयगिल. ८ A राय. ९ A सहाय. १० A परियद्धिउ गंगाजलु;
 P परियद्धिउ गंगाजलु.

12 १ A चिरु पवाहपिहमहु. २ A मयजल चुवंति; P मयजलु धुयंति. ३ P मुयंति.
 ४ AP वणदव. ५ A विसिविवरइ. ६ A दिसि. ७ P जलु थलु. ८ A वियलयलसिलायलि.
 ९ P खलहलंति. १० A मज्झ. ११ P भाइ.

11 1 a सुयत्तु पुत्रवम्. 4 b परिरक्ख पउंजह रक्षां कुरुत. 5 b दुग्गु अगम्यस्थानम्.
 8 b जलयं मेघाः. 9 खणरुइचंडे विद्युद्बलचण्डेन.

12 1 a पिहुपहु पृथुमार्गम्; b मयमलु मद एव मलः. 3 b वणयवजालो लि हिं
 वनदावज्वालपंक्तिभिः. 4 a विसिविवरइ सर्पाणां विवराणि विलानि; b दरो सरंति ईषदपसरन्ति.
 9 b भुयंगु विटः. 10 भावइ प्रतिभासते.

13

फणिभवणि विलग्गउ दंडरयणु
भयथरहरंत कुंडलिय गाय
झलझलिय जलहि ढलढलिय धरणि
पडिबोहर्णकारणु मुणिउं तेण
फणिमणिपहपिहियदिणाहिवेण
तिहुयणजणमरणुप्पायणेहिं
जोइवि कुमार कय भूइरासि
तहिं कासु वि ण हवइ पलयकालु
अमुयाइं वि मुयाइं व दिट्टु बंधु
उव्वारिय कह व ते विहिवसेण

तहु सहें कपिउ सयलु भुवणु ।
वणि वणयरेहिं पविमुक्क णाय ।
विमिहउं सुरिंदु कपंविउ तरणि ।
मणिकेउणा हिं पवरामरेण ।
होइवि मायाणायाहिवेण । 5
गुंजारुणदारुणलोयणेहिं ।
णं पुंजिय सजसविभूइरासि ।
दरिसाविउ देवें इंदजालु ।
गय भीम भइरहि पुंरु सच्चिधु ।
घरु पत्ता मुक्का पोरिसेण । 10

घत्ता—घरु गंपिणु पिउ पणवेप्पिणु आसणेसु आसीणा ॥

सविसापं बिण्णि वि तापं दिट्टु सुट्टु विद्याणा ॥ १३ ॥

14

कक्येणकिरणुभासणाहं
बिहिं ऊणी सट्टि दुसंठिएण
मणिमयकुंडलवेंचइयगंडु
सुइ आया इयर ण पइसरंति
पुव्वं चिय सुरसंकेइएण
तं णिसुणिवि मंतिं वुत्तु तेण
अत्थमेइ ण किं रवि उयंयभाउ
ण वि णासइ किं ताडि मेहसोह

जोयंवि सहसहं सुण्णासणाहं ।
सुयदंसणसोक्खुक्कंठिएण ।
राएण पलोइउं मंतितांडु ।
भणु कारणु तणुरुह किं करंति ।
संबोहणबुद्धिविराएण । 5
हे महिवइ महिलाहिययथेण ।
उल्हाइ ण किं पज्जलिउ दीउ ।
फुट्टंति ण किं जलबुब्बुओह ।

13 १ A थरहरंति. २ A झलझलिय. ३ A ढलढलिय. ४ AP विंभिउ. ५ ΔP कंपियउः. ६ A पडिबोहणु. ७ AP वि. ८ P फणमणि. ९ A भूय. १० P सजसविहू. ११ A कासु ण हूयउ. १२ AP अमुया वि. १३ AP पुरि. १४ A उव्वारिय ते ण कह विहिवसेण.

14 १ A जोइवि सहास सुण्णा; P अवलोइवि सुयसुण्णा. २ A सुक्खुक्कंठिएण; P मोहुक्कंठिएण. ३ A पलोयउ; P पलोविउ. ४ A ते महिवइ महिलाहियय; P हे महिवइ महिलाहियायथेण. ५ A अत्थवइ. ६ P उयणभाउ. ७ A जलपुव्वओह but gloss जलबुब्बुद.

13 2 a कुंडलिय कुण्डलाकारा जाता; b णाय नादाः शब्दाः. 3 a ढलढलिय कम्पिता. 5 b णायाहिवेण सर्पाणामधिपेन. 7 a भूइरासि भस्मराशि; b सजसविभूइरासि स्वकीयस्य मणिकेतोयेशसो विभूतिराशिः. 9 b सच्चिधु सध्वजः. 12 विद्याणा ग्लानवदनौ.

14 1 a कक्येण ककैतनरत्नम्. 2 a दुसंठिएण व्याकुलचित्तेन. 3 a वेंचइय अलंकृतौ. 7 a उययभाउ उदयभाक्; b उल्हाइ विध्याति. 8 a मेहसोइ मेघशोभाभूता; b बुब्बुओह बुब्बुदौषः.

थिरु होइ ण संझारायरंगु
विहडइ ण काइ सुरचावदंहु
कालेण गिलिथ देविद देव

घत्ता—ता रायहु बहियसोयहु बाहजलइं णेत्तइं ॥

नलपत्तइं ओसासित्तइं णं गलंति सयवत्तइं ॥ १४ ॥

गउ आवइ णउ सरिसरतरंगु ।
किं खयहु ण वच्चइ मणुयपिंहु । 10
पच्छण्णपउत्तिहिं कहिउ एम्ब ।

15

तावेक्कु परायउ दंडपाणि
जिणवरु व णिवारियमव्वविहंरु
सोत्तरियफुरियजण्णोववीउ
सो मंतिहिं गहियखणेहिं माहिउ
ता भासइ लद्धावसरु विण्णु
संसारु असारु णिरायराय
जिह तरुवेत्तिहिं परगम्मु होइ
जीहोवत्थहिं जगमारणेहिं
संसारिय सयल सणेहु लेति
मोहं बद्धा भैवि संसरंति

घत्ता—महु वित्तइं पुत्तकलत्तइं एम भंणंतु जि णिजइ ॥

सुंहु माणइ धम्मु ण याणइ जगु खयरक्खे खजइ ॥ १५ ॥

कासायवीरंधरु महुरवाणि ।
कुंडलियणीलभमरउलचिहुरु ।
रूवेण गुणेण वि अहुंतीउ ।
कुलबंभणु भणिवि नृवस्सुं कहिउ ।
को पुत्तु एत्थु किर कवणु बणु । 5
किं सासय मण्णहि अम्मछाय ।
तिह णरु णारिहि अप्पउं ण वेइ ।
डिंभहिं डंभुंभवकारणेहिं ।
केसा इव बंधणजोग्ग होंति ।
पुणु पुणु हवंति पुणु पुणु मंरंति । 10

16

दारिवि धरणीयलु दिदभुयहिं
अहिभवणि विलग्गउ डंडरयणु

आणिय मंदाइणि तुह सुयहिं ।
णिग्गउ फणि गरलुप्पेच्छणयणु ।

८ A गलिय. ९ A पच्छण्णयउत्तिहिं.

15 १ A °वीरु धर. २ AP°विहुर. ३ A अहुइउ; P अहुइउ. ४ AP णिवस्स. ५ A डिंभुभव°. ६ A मोहं बद्धा. ७ P जगि. ८ P संसरंति. ९ A मरंति; P भवंति. १० A हवंति. ११ A रुणंतु. १२ P सुक्कु माणइ.

16 १ P गरलु पुपेच्छणयणु.

11 b पच्छण्णपउत्ति हिं प्रच्छन्नोक्तिभिः. 12 बाहजलइं बाणजलेन आर्द्राणि. 13 ओसासित्तइं हिमबिन्दुभिरभिषिञ्चितानि.

15 2 a °विहर कथाः. 3 a सोत्तरिय° उत्तरीयवस्त्रेण सह; जण्णोववीउ यज्ञोपवीतम्; b अहुतीउ अद्वितीयः. 4 a गहियखणे हिं तपोनिमित्तं गृहीतनियमैः. 6 a णिरायराय नृराजराज. 7 a परगम्मु होइ परवशाभिः भूयते; b अप्पउं णवेइ आत्मानं न जानाति. 11 णिजइ नीयते. 12 खयरक्खे यमराक्षसेन.

16 1 a दारिवि विदार्य. 2 b गरलुप्पेच्छणयणु गरलपरिपूर्णनयनः.

आरूसेपिणुं आसीविवेण
ता चवइ सयरु गयदुरियकलिलु
किं एण पणासइ इडुसोउ
जहिं कहिं मि ण पेच्छमि सुहिविओउ
जहिं सयलकाल अयरामरत्तु
तं सिउ साहंवि गिण्हंवि चरित्तु
लइ वसुह ण इच्छिय तेण केम
ता थविवि भईरहि पुहइरज्जि
इदधम्महु पायंतिइ समग्गु

जोइय गिंवि गंदण वइवसेण ।
णहाइज्जइ दिज्जइ काइं सलिलु ।
वैर पंचमुट्ठि सिरि देमि लोउ । 5
ण हु होइ कयाइ अणिट्ठजोउ ।
जहिं थक्कइ अप्पउ गाणमेत्तु ।
पुणु भीमकुमारु णिवेण वुत्तु ।
गुणवंतें परगेहिणिय जेम ।
अप्पणु लग्गउ परलोयकज्जि । 10
आराहिउ भावें मोक्खमग्गु ।

घत्ता—सहुं भीमें णिज्जियकामें चारित्सेण विहसिउ ॥

चकेसरु हुउ जोईसरु मणिकेउं वि सुरु तोसिउ ॥ १६ ॥

17

गउ तेत्तहि जेत्तहि पडिय पुत्त
अवहरिवि विउव्वियगरल्ले भप्पु
उट्ठिय ते सायरि सायरेण
वसु वसुमइ सीहासणु मुपवि
णियजीवियञ्जायपरिगहेण
ता तेहिं विमुक्कउ णिहिलु गंधु
जाया जइ णियज्जणणाणुयारि
दोर्वासपयडपासुलियगत्त
उत्ताणखप्परोयरकराल
जणविट्ठपुट्ठिगंयवंसपव्व
कडयडियजाणुकोप्परपपस
कंकालरूव जगभीमवेस

मायाविसमुच्छारयविलित्त ।
जीवाविय कउ णिम्मलु वियप्पु ।
भासियसुरेण महुरक्खरेण ।
गउ तुम्हइं पिउ पावज्ज लेवि ।
तुम्हइं विणडिय गंगागहेण । 5
गउ जेण महाजणु सो जि पंधु ।
णीरंजण थिरमंण णिव्वियारि ।
सकवालमूलसुणिलीणोत्त ।
दीहरणह भासुरोर्मवाल ।
विच्छिण्णगाव तवतावतिव्व । 10
उववासखीण चम्मट्ठिसेस ।
णिज्जण्णिणवासि सुइसुक्कलेस ।

२ P रूसेपिणु आसीविसविवेण. ३ AP तुह. ४ A दुडुसोउ. ५ P वरि. ६ AP सव्वकाल.
७ AP अयरामरत्तु. ८ AP साहमि. ९ AP गेण्हमि. १० AP मणिकेउ वि संतोसिउ.

17 १ AP जेत्तहि तेत्तहि. २ A ०रसपलित्त; P ०रयपलित्त. ३ A ०गरलु दप्पु; P ०गरलु
सप्पु. ४ AP सिहासणु. ५ A ०जीवियराय०. ६ AP मायागहेण. ७ P थिर मणि. ८ AP दोपासु-
पयडपंसुलिय०. ९ A उत्ताणुयखप्परो०. १० AP ०रोमजाल. ११ P गयवंभपव्व. १२ AP विच्छिण्ण-
गव्व. १३ AP णिज्जणि णिवासि.

3 b वइवसेण यमेन. 6 a सुहि वि ओ उ सुहदां वियोगः. 8 a साहंवि साधयामि.

17 1 b ०मुच्छारय० मूच्छावेगः. 2 a भप्पु भस्म. 3 a सायरि सगरपुत्राः. 4 b पावज्ज
लेवि दीक्षां गृहीत्वा. 5 a ०चाय० त्यागः; b गंगा गहेण गङ्गानयनग्रहेण. 8 a दोवासपयड० द्वयो-
पार्श्वयोः प्रकटानि; ०पासुलिय० पार्श्वस्थि. 10 b विच्छिण्णगाव नष्टगर्वाः.

घत्ता—दिहिपरियर पसमियमयजर जमसंजमधरणुच्छव ॥
बहुखमदम कुंचियकरकम णावइ थलगय कच्छव ॥ १७ ॥

18

सुरधणुवलप	विज्जुज्जलंप ।	
गज्जंतघणे	हयविरहियणे ।	
सरिवहसरिसे	धारावरिसे ।	
संविहियंथले	पवहंतजले ।	
मृगैरवमुहले	वणधिडवितले ।	5
णिवसंति इसी	विलुलंति विसी ।	
गलकंदलप	पुणु कंदलप ।	
ओसापसरे	पत्ते सिसिरे ।	
दरिसियगयणे	वाहिरसयणे ।	10
णिकंपमणा	धीरा समणा ।	
तमछइयदिसं	गमयंति णिसं ।	
हिमणिगमणे	गिम्हो गमणे ।	
गिरिसिहरगया	सज्जाणरया ।	
संताघणिहिं	रविकिरणसिहिं ।	
विसहंति जई	सुविसुद्धमई ।	15
णिज्जियविसयं	इय परिसयं ।	
पालेवि समं	पुत्तेहिं समं ।	
विद्धत्थरंयं	णिव्वाणर्गयं ।	
जणतोसथरो	पत्तो सथरो ।	
णिट्ठवियरिउं	णिसुणेवि पिउं ।	20
अयमेय वयं	गयमयणमयं ।	
णियपुत्तयहो	वरयत्तयहो ।	
जयलच्छिसहिं	दाऊण महिं ।	
आंसमि गुणिहे	गुत्तयंमुणिहे ।	

१४ AP पिहुखमदम.

18 १ AP विज्जुज्जलिए. २ AP संपिहियं; K संविहिय but gloss संपिहितं. ३ AP मिगरव°. ४ AP दरसिय°. ४ AP गिभागमणे. ५ A ०रं. ६ A ०गं. ७ AP अपमेयवयं. ८ A वरदत्तयहो; P वरपत्तयहो. ९ P असमे. १० AP गोत्तयमु णेहं.

18 3 a सरिवहसरिसे नदीप्रवाहसदृशे. 7 b कंदलप मस्तकप्रदेशे. 8 a ओसापसरे नृपापसरे. 13 a सज्जाणरया ध्यानरताः. 21 a अयमेय वयं एतदेव व्रतम्. 22 b वरयत्तयहो वरदत्तस्य.

घत्ता—अरितरुसिहि राउ भइरहि हिंसारंभु सुपप्पिणु ॥ 25
सरहंगहि तडि थिउ गंगहि जिणंपावज्ज लपप्पिणु ॥ १८ ॥

19

ताराहारावलिपविमलेहिं	सतुसारखीरसायरजलेहिं ।	
कलहोयकलसकविलियकरेहिं	तहु पयजुयलउ सिंचिउ सुरेहिं ।	
तप्पायघोयसलिलेण सिच	तहिं हई सुरवरसरि पवित्त ।	
हिमघंतपोमसरवरंपसूय	अज्जु वि जणु मण्णइ तित्थभूय ।	5
मंदारजाइसिंदूरपहिं	अरधिंदकुंदकणियारपहिं ।	
सुपउरमयरंदायंबपहिं	अंचिवि णवकुसुमकरंबपहिं ।	
आमोयमिलियचलंमहुलिहेहिं	गंधेहिं दिण्णणासासुहेहिं ।	
थोत्तेहिं जईसरु धरियजोउ	वंदेवि देव गय सग्गलोउ ।	
उप्पाइवि केवलु तिजगचक्खु	संपत्तु भईरहि परममोक्खु ।	
घत्ता—सो मुणिवरु अजरामरु हूयउ खाणि असरीरिउ ॥		10
भरहत्थहिं णिवसत्थहिं पुप्फदंतु जयकारिउ ॥ १९ ॥		

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभवभरहाणुमण्णिणए महाकव्वे सथरणिज्वाणगमणं णाम
एकूणचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ३९ ॥

॥ सैयरचरियं समत्तं ॥

११ AP जिणपव्वज्ज.

19 १ A °महुवरेहिं; P °महुयरेहिं. २ A असरीरउ. ३ AP omit सयरचरियं समत्तं..

26 सरहंग हि सरथाङ्गायाः चक्रवाकसहितायाः.

19 1 b सतुसार° सकार्क°. 3 a तप्पाय° तस्य पादाभ्याम्. 6 a °आयम्बए हिं आताम्रैः.
7 a °महुलिहे हिं भ्रमरैः. 11 भरहत्थ हिं भरतक्षेत्रवासिभिः.

पणवेपिणु संभु सासयसंभु संभवणासणु मुणिपवरु ॥
पणु तहु केरी कह रंजियबुहसंह कहंवि सरासर देउ वरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

सदयं परिरक्खियमयं	अदयं विद्धंसियमयं ।	
चूरियअलियलयंसयं	लुंचियअलिअलयं सयं ।	
दूसियपरहणहरणयं	पुसियबंभहरिहरणयं ।	5
विणिवारियपरदारयं	परदरिसियपरदारयं ।	
रयणीभोयणविरमणं	धीरं अविवेधिरमणं ।	
कयगिहिसंगपमाणयं	बहुणयणिहियपमाणयं ।	
णाणेणं अपमाणयं	सवरणं पि पमाणयं ।	
पविहियभव्वसुरायमं	णिंदियसोंडसुरायमं ।	10
जं तवतावेणुग्गयं	जेण वीयराउग्गयं ।	
अणुहुत्तं संसारयं	णो बद्धं हरिस्ता रयं ।	

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

विनयाङ्कुरसातवाहनादौ नृपचक्रे दिवि (व) मीयुषि क्रमेण ।
भरत तव योग्यसजनानामुपकारो भवति प्रसक्त एव ॥ १ ॥

This stanza is also found at the beginning of Samdhi XXXIII of this Work in certain Mss. See foot-note on page 530 of Vol I. K does not give it there or here.

1 १ AP ०बुहसुह. २ P वीरं. ३ AP add after this : देवं जं सुपमाणयं; T seems to omit it. ४ P सवरे दरिसियमायमं. ५ P adds after this : सवरेवि परमायमं; T seems to omit it. ६ P सुरामयं.

1 3 a सदयं परिरक्खियमयं सदयं यथा भवत्येवं परिरक्षितमृगम्; b अदयं विद्धंसियमयं अदयं यथा भवत्येवं विध्वस्तमदम्. 4 a चूरिय अलियलयंसयं चूर्णिता अलीकलताया अंशा येन; b लुंचिय अलिअलयं सयं लुञ्जिता अलिसमाना अलकाः कैशा येन, स्वयं आत्मना. 5 b पुसिय निराकृतानि. 6 b परदरिसियपरदारयं परेषां दर्शितं मोक्षद्वारं येन. 7 a रयणी भोयणविरमणं रात्रिभोजनविरमणं यस्मान्द्रव्यानाम्; b अविवेधिरमणं अविवेपिरं परीपहादिभ्यो निश्चलं मनो यस्य. 8 a कयेल्यादि कृतं ग्रहिणां सङ्गस्य परिग्रहस्य प्रमाणं येन; b बहु इत्यादि बहुभिर्न्यायैर्युक्ताभिर्निहिते स्थापिते प्रमाणे येन. 9 b णाणेणं अपमाणयं ज्ञानेन कृत्वा अप्रमाणकं सर्वव्यापकम्. 9 a सवरेत्यादि स्वपरेषामपि प्रकृष्टलक्ष्मीप्रापकम्. 10 a पविहियेत्यादि प्रविहितं कृतं भव्यसुराणामागमनं येन; b ०सुरायमं मद्यप्रशंसकं शास्त्रम्. 11 a तवतेत्यादि तपसस्तापः शरीरश्लेष्मतेन उग्रम्; b वीयराउग्गयं वीतरागत्वेनोद्गतं उत्पन्नम्. 12 a अणुहुत्तं संसारयं अनुभुक्तं संसुखं सारं अनन्तं सुखं येन; b हरिसारयं हर्षोत्पापम्.

दूरुज्ज्वयसंसारयं	ण हि संसासंसारयं ।	
देवासुरकंपावणं	जं देवं कं पावणं ।	
जयपायडियसयारयं	सिद्धिपुरंधिसयारयं ।	15
कंतं तीह अयारयं	पढमट्टाणि अयारयं ।	
वीर्षे सरहंकारयं	अरुहं गिरहंकारयं ।	
उयरलीणसयलक्खरं	मंतेसं परमक्खरं ।	
भुवणकुमुयवणसंभवं	तं वंदे हं संभवं ।	
ओसोरियअसिआउसं	णविऊणं असिआउसं ।	20
भणिमो संभवसंकहं	जोणीमुहदुहसंकहं ।	

घत्ता—तियसिंदफणिंदहिं खयरणरिंदहिं जं थुव्वइ कयपंजलिहिं ॥
तं जिणगुणकित्तणु महं सुकइत्तणु अमिउं पियह कण्णंजलिहिं ॥ १ ॥

2

दिणयरपईवप	इह पढमदीवप ।	
मेरुपुव्विल्लप	पसुं कणधणिल्लप ।	
तहिं विदेहे वरे	सीयसरिउत्तरे ।	
पविमलदियंतरे	कच्छदेसंतरे ।	
रायहंसुज्जलं	सच्छविच्छुल्लु जलं ।	5
फुल्लपंकयवणं	पवणहल्लिरवणं ।	
णवकुसुमपरिमलं	सरंससुमहुरफलं ।	
रुणुरुणियमइयरं	रइरमियणइयरं ।	

७ A पढमट्टाणअयारयं. ८ A सुमहिंयसरहंकारयं. ९ AP add after this : पाइय (A साइय) गिरहंकारयं, पावियसाहुकारयं. १० AT ओहामिय°; P ऊसारिय°. ११ A भरिऊणं.

2 १ P वसुकण°. २ P विदेहे पुरे. ३ A विच्छुल्लजलं. ४ AP सरसमहुरं फलं.

13 b ण हि संसासंसारयं हि स्फुटं स्तुतिनिन्दोपरतम्. 14 b जमित्यादि यं देवं कं ब्रह्माणं तथा पावनं पवित्रं च. 15 a जय इत्यादि जगतः प्रकटितः सन् शोभन आचारोऽनुष्ठानं स्वकीयो वाचारोऽनुष्ठानं येन; b °सयारयं सर्वदानुरक्तम्. 16 a कंतं इत्यादि कान्तं नाथम्, तीह तस्याः सिद्धिपुरंध्याः, अयारयं चारेण उपचारेण वृतेन वा रहितम्; b पढमेत्यादि प्रथमस्थाने अकारं; ततः सुमहितं सुपूजितम्. 18 a सरहंकारयं रेफहंकारम्, अरुहं इत्यर्थः; b गिरहंकारयं अहंकारान्निःक्रान्तम्. 18 a उयरेत्यादि उदरे मध्ये लीनानि प्रविष्टानि सकलान्यकारादीनि सकारपर्यन्तान्यक्षराणि यस्याहमित्यस्य; b मंतेसं मन्त्रोत्पत्तिस्थानं मन्त्रप्रधानं वा; परमक्खरं परं परमात्मानं अक्खरं विनाशहीनम्. 19 a भुवणेत्यादि भानि नक्षत्राणि तानि पातीति भपश्चंद्रः; भुवनमेव कुमुदवनं तस्य समीचीनो भपश्चन्द्रः. 20 b ओसारियअसिआउसं स्फेटितं लक्ष्म्या आयुरवस्थानं येन; b असिआउसं पञ्चपरमेष्ठिनम्. 21 b जोणीत्यादि योनिमुखदुःखं जन्मदुःखं तस्य शङ्का मयं तस्यां वातकम्.

2 1 a दिणयरपईवप सूर्यप्रदीपे. 4 b °देसंतरे देशविशेषे.

तुंगपायारयं	गोउरदुवारयं ।	
विरहयमहुच्छवं	तुरैयहिलिहिलिरवं ।	10
रसियनुववारणं	णीलदलतोरणं ।	
चिंधमालाउलं	विविहजणसंकुलं ।	
हेममयमंदिरं	खेमणामं पुरं ।	
तहिं सुहडसाहणो	पहु विमलवाहणो ।	
वसइ सिरिसेविओ	पणइणीणं पिओ ।	15
चारुरज्जे कए	दीहकाले गए ।	
तिविहणिव्वेइणा	तेण वरराइणा ।	
थोरदीहरभुए	विर्मलकित्तीसुए ।	
सधरधरणी पया	विणिहियां संपया ।	
जिणमसंसयपहं	पणविवि सयंपहं ।	20
जायओ जइवरो	णिम्मम णिरंवरो ।	
संहिवि तवतावणं	धरिवि सुहभावणं ।	
जिणगुणणिबंधणं	भुवणयलखोहणं ।	
चिणिवि सुहसंपयं	धुणिवि भवभंवरयं ।	
उवसमविहसणं	करिवि संणासणं ।	25
अवियलियसंजमो	मरिवि मुणिपुंगमो ।	
पढमगइवेयए	पढमयणिकेयए ।	
विस्सुयसुदंसणं	दुक्खविद्धंसणं ।	
अहममरवइ हुओ	भविययणसंथुओ ।	
घत्ता—तेवीस अणूणइं जलहिसमाणइं आउ णिबद्धउं सुरवरहु ॥		30
विहिं रैयणिहिं जुत्तउ अद्दु णिरुत्तउ तणुपरिमाणु वि भणिउं तहु ॥२॥		

3

तेवीसवरिससहसहिं असइ
वण्णं भावेण वि सुक्किलउ
णउ गेयवज्जसरकलयलउ

तेत्तियहिं जि पक्खिहं ऊससइ ।
विलुलंतहारमणिमेहलउ ।
णउ णारि ण हियवइ कलमलउ ।

५ P तुरिय^०. ६ AP णिववारणं. ७ A विवलवाहणो. ८ A विवलकित्ती^०. ९ APT विणिहिया.
१० A सहइ तव^०. ११ AP सुहसंचयं. १२ A भवभयरयं. १३ AP अविहलिय^०. १४ A पढमणिक्खे-
यए; P पढमइ णिकेयए. १५ A विहरयणिहिं.

3 १ A तेवीससहासवरिसहिं; P तेवीससहसवरिसंहिं. २ A सुक्किलउ.

17 a ति वि ह णि व्वे इ णा संसारशरीरभोगवैराग्येण. 19 b वि णि हि या समर्पिता. 24 a चि णि वि
अर्जयित्वा. 26 a अ वि य लिय^० अभ्रष्टः. 28 a वि स्सु य सु दं स णे विश्रुते विख्याते सुदर्शने विमाने.

3 1 a असइ अश्रोति. 3 a ^०वज्जसर^० वाद्यस्वरः; b कलमलउ व्याकुलत्वम्.

पाविद्ध वुद्ध जहिं णत्थि जणु णार्णे जाणइ सुरणरणियइ तं तेत्तिउ वैद्धइ णिट्ठियउं ता एत्तहि उववणि रमियंसुरि इक्खाउवंसु सुविसुद्धमइ धणुगुणसंधियपंचमसरहु एक्काहिं दिणि णिसि पच्छिमपहरि घत्ता—सा सालंकारी सेण भडारी पइवय सोलह सुंदरं ॥ महिमंडलसामिणि मंथरगामिणि अवलोयइ सिविणंतरइ ॥ ३ ॥	जो जो वीसइ सो सो सुयणु । सत्तमणरयंतु जाम णियइ । 5 जांवाउसेसु तहु णिट्ठियउं । इह भरहखेत्ति सावत्थिपुरि । हयसद्धं ददु णामं पुहइवइ । तहु घराणि सुंसेण सेण सरहु । सुहुं सुत्ती देवि सवासहरि । 10
--	--

4

करिणं वसहं केसरिणं झंसजुय कुंभजुयं च वरं हरिवीढं देविंदघरं विष्फुल्लिगपिंमलियणहं इय जोइवि पीणत्थणिया सिसुमयणयणा पत्तलिया अहिणववेत्ति व कोमलिया करि धरिवि सविलासिणियं पत्ता कंता रायंहरं अवलोइवि पइमुहकमलं णियबुद्धीइ परिग्गहियं जस्स वसा तेलोक्कसिरी अमरउलं चियं मिच्चउलं सो भदे तुह विण्णवरो	लच्छि दामं चंदमिणं । सरवरममलिणमयरहरं । फणिभवणं फुडमणिप्रियरं । सिहिणं जलियं वीहंसिहं । पविउद्धा सीमंतिणिया । 5 णीलुप्पलदलसामलिया । गहियाहरणा संचलिया । कलहंसी विव हंसिणियं । सिहरोलंबियसलिलहरं । पुच्छइ सत्था सिविणहलं । 10 तेण वि तिस्सा तं कहियं । मज्जणवीढं मेरुगिरी । जस्स घरं तिजगं विउलं । होही तणओ तित्थयरो ।
--	---

३ AP वहुइ. ४ A रमियसरि. ५ A इक्खागुवंस. ६ A हयसयददु. ७ A ससेण. ८ A सुइसुत्ती; P सुहे सुत्ती.

4 १ AP झसजुयलं कुंभजुयं पवरं. २ A दीयसिहं. ३ P विउद्धा. ४ P मयसिसु°. ५ P रयणहरं. ६ A विय; P पिय°. ७ P तित्थहरो.

5 a णियइ °कर्मविपाकः; b णियइ निरीक्षते. 6 a णिट्ठियउं निर्गतम्; b णिट्ठियउ निश्चयेन स्थितम्. 8 b ददु ददरथः. 9 b सुसेण सुषेणानाम्नी; सेण सरहो स्मरस्य सेना सैन्यम्. 11 सेण सुषेणा.

4 1 b इणं सूर्यम्. 2 b °मयरहरं समुद्रम्. 3 a देविंदघरं सुरविमानम्. 6 a सिसुमय° शिशुमुगाः. 9 a रायहरं राजमन्दिरम्; b °सलिलहरं मेघम्. 11 a परिग्गहियं परिज्ञातम्. 13 a मिच्चउलं भृत्यकुलम्.

घस्ता—तं णिसुणिवि सुंदरि सरमहिहरदरि रोमंचिय पुलपण किह ॥ 15
महुसमयहु वत्तइ पोसियसोत्तइ पणइणि पियमाहविय जिहं ॥ ४ ॥

5

वज्जिणा धम्मकज्जं तओ पीणियं
एत्थ सावत्थिरायस्स गेहे जिणो
जाहि ताणं तुमं होहि तोसायरो
तामयासाहिवाणाइ मावट्टणं
सव्वहेमालयं सूरयंतप्पहं
आगया गम्भसंसोहणत्थं इरी
जाम छम्मास ता संपयाळिगणे
फग्गुणे मासए सुक्कपक्खंतरे
सिंधुरायारधारी सुहेणुण्णओ
णारिदेहे थिओ सुद्धधाउत्तए
धम्मचंदस्स सच्चदिमाणंदिया
णिच्च माणिक्करासी पुणो घत्तिया
दीहरद्धीसमाणं खणेणं खणं
जित्तसत्तुसुए कम्मणिम्मुक्कए
कत्तिए पुण्णिमासीइ भे पंचमे
तइउ तइया तिणाणी समुप्पण्णओ
आइया भावणा जोइसा वितरा
अंकुसो भामिओ देहभाधारिणा
णच्चमाणा परे गायमाणा परे

चित्तियं चित्तिणिज्जं मणे भावियं ।
जक्ख होही सुसेणासईणंदणो ।
वासवित्ताइरिद्धीपवित्तीयरो ।
दव्वणाहेण वेउव्वियं पट्टणं ।
सव्वकालंघिवं सव्वसोकखावहं ।
कंतिं कित्ती दिही लच्छि बुद्धी हिरी ।
भम्मबुद्धी कया राइणो पंगणे ।
पंचमे रिक्खए अट्टमवासरे ।
पुज्जगेवज्जदेवो समोइण्णओ ।
वारिबिंदु व्व राईविणीपत्तए । 10
देवदेवेण मायापिऊ वंदिया ।
दोससंखेहिं पक्खेहिं णिव्वत्तिया ।
कोडिलक्खा गया तीस जइया घणं ।
पैत्तिए वीर्यत्तित्थंकरे हुक्कए ।
सोमंजोए दुजोयावलीणिग्गमे । 15
इंदुं इंदो रवी कंपिओ पण्णओ ।
सायरा भासुरा कप्पवासी सुरा ।
चोइओ वारणो झत्ति जंभारिणो ।
धावमाणा परे खेलमाणो परे ।

८ P जह.

5 १ A मणे जाणियं; P कजयं जाणियं. २ AP मावट्टणं. ३ A सूरयंत पहं. ४ A सोहणत्थे इरी and gloss इरी त्वरिता; T इरी; PK सिरी. ५ P कित्ति कंती. ६ P पुव्वगेवज्जं. ७ AP पत्तए. ८ A बीह तित्थंकरे. ९ A सोम्मजोए. १० A इंदु इंदो रई किं पि उप्पण्णओ; P सहसु लक्खणहं वसुअहियसंपुण्णओ. ११ A देहभावारिणो; P देहसाधारिणा. १२ A जंभारिणो. १३ AP खेळमाणा.

15 सरमहिहरदरि सरपर्वतदरी. 16 पणइणि सस्नेहा; पियमाहविय प्रिया माधवीलता यस्याः सा कोकिला.

5 1 a पीणियं पीने महत् कृतम्. 3 b वासवित्ताइं गृहद्रव्यादि. 4 a अमयासाहिवाणाइ इन्द्राज्ञया; मावट्टणं लक्ष्मीप्रवर्तनम्. 5 a सूरयंतप्पहं सूर्यकान्तप्रभम्. 6 a इरी त्वरिताः. 10 a सुद्धधाउत्तए अदूषितवातपित्तश्लेष्माणः; b राईविणीं पद्मिनी. 11 a धम्मचंदस्स धर्मोद्योतकस्य जिनस्य; सच्चदिमां शोभनदीप्तिः; b दोससंखेहिं अष्टादशभिः. 13 a दीहरद्धीसमाणं दीर्घसागरोपमानम्. 14 b पत्तिए प्रवृत्ते. 15 a भे पंचमे मृगाशरोनक्षत्रे.

सहस्रांसा परे गज्जमाणा परे सीहसह्रां परे संखसहा परे । 20
 छाइयासारसा सारसा सासुरा चित्तचारेहिं पत्तेहि पत्ता सुरा ।
 घत्ता—पुरु परियंचेपिणु घरु जापपिणु जणणिहि देपिणु सिसु अवरु ॥
 पियरइं पुज्जेपिणु कर मउलेपिणु लइउ सुरिं दें तित्थयरु ॥ ५ ॥

6

जिणरुवरिद्धि पेच्छंतियइ सुरवरपंतिइ गच्छंतियइ ।
 तक्खणि तारायणु लंघियउ सुरसिहरिसिहरु आसंघियउ ।
 पघिलोइय पंडुर पंडुसिलं सा खंडससंकसमाण किलं ।
 ता तहिं सईइ सईं धारियउ करिकंधराउ उत्तारियउ ।
 हरिआसणि पडु वइसारियउ इंदेण मंतु उच्चारियउ । 5
 दिण्णउं दग्गसाणु णिहयमलु दसदिसु परिघिसु सुकुसुमजलु ।
 दसदिसु सुंधूवु उच्चाइयउ दसदिसु चरुभाउ णिवेइयउ ।
 दसदिसु थिये सुरवर कलसकर दसदिसु वित्थरिय मुइंगसर ।
 खीरोयखीरधाराधरहिं सिंचिउ जिणिंदु सयलामरहिं ।
 हारावलितडिफुरिणहिं किह गज्जंतिहिं मेहहिं मेरु जिह । 10
 घत्ता—मंगलु गायंतिहिं पुरउ णडंतिहिं दावियबहुरसंभावहिं ॥
 णाणाविहभासहिं थोत्तसहासहिं जगगुरु संथुउ देवहिं ॥ ६ ॥

7

हरिणा परमेट्टि पसाहियउ सुंइथुइगिराहिं आराहियउ ।
 सिहिणा तहु दीवउ बोहियउ जउं जंपइ हउं पइं साहियउ ।
 रिंछाहिउ रिंछहु ओयरिउ विणणण णणण जि संचरिउ ।
 जडवइंणा जडमणु परिहरिउ परमण्णउ णियहियवइ धरिउ ।
 वाएण भडारउ विज्जियउ रयणेसें रयणहिं पुज्जियउ । 5

१४ A सहसा. १५ P संखसहा परे पडहसहा परे. १६ A चित्तचारेहि; P चित्तचारेहि.

6 १ AP पंडुसिला. २ AP किला. ३ P सुकुसुम^०. ४ A दसदिस सुधूसु; P दसदिसु सुधूसुच्चा^०. ५ AP सुरवर थिय. ६ A ^०भाविहि; P ^०भावेहिं. ७ A णाणाविहभासहिं; P णाणाविहिभासेहिं.

7 १ P सहथुइ^०. २ AP जडवयणा.

21 a सारसा उल्लुलक्ष्मीकाः; सासुरा ससुराः सुरसहिताः; b चित्तचारेहि नानाप्रकारवृत्तिभिः; पत्तेहिं वाहनैः. 22 परियंचेपिणु प्रदक्षिणीकृत्य.

6 2 b आसंघियउ आश्रितम्. 3 b खंडससंकसमाण अर्धचन्द्रसदृशी. 4 a सईइ शच्या. 7 a उच्चाइयउ उत्क्षिप्तः; b चरुभाउ चरुभागः. 12 णाणाविहभासहिं विचित्रभाषायुक्तैः.

7 2 b जउं यमः. 3 a रिंछाहिउ नैर्ऋतः. 4 a जडवइणा वरुणेन. 5 b रयणेसें धनदेन.

ईसाणें ईसु भणिवि णविउ
सूरेण वि मोहंधारहरु
धरणिदें धरणिसमुद्धरणु
इय बहुगिष्वाणहिं वंदियउ

यत्ता—पुणु पुणु पणवेप्पिणु घरु आणेप्पिणु दिणु सुसेणासुंदरिहि ॥ 10
गुरुचरणं अंचिवि सुक्किउ संचिवि गउ सुरवइ सुरवरपुरिहि ॥ ७ ॥

8

कणयच्छवि सुट्टु सलक्खणउ
अंगउ लायणमंहिद्धियउ
जसु आयत्तउ सयमेव विहि
जसु अंगि दुट्टु लोहिउं गणमि
जसु गुणपरिमाणु णेय लहंवि
अच्छरणररामाणंदणहु
कीलंतहु अमरवरेहिं सहं
घरघडियारयदंडेण हय
पहरत्तउ पेक्खिंवि तरुणियणु
उर्वणेप्पिणु नृवंइकुमारिगणु
यत्ता—तूरहिं वज्जंतहिं गलगज्जंतहिं नियसेहिं किं ण विसंट्टु महि ॥
जिणणाहु प्हवंतिहिं वारि वहंतिहिं किं जाणहुं सोसिउ उवहि ॥ ८ ॥

जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणउ ।
चउचावसयाइं पवड्डियउ ।
सो किं वणिज्जइ रूवणिहि ।
सो खमवंतउ किं किर भणमि ।
सो सूहउ हउं किरं किं कहंवि । 5
तंहु तेत्थु सुसेणाणंदणहु ।
भुंजंतहु रायकुमारसुहुं ।
पुव्वहं पण्णारहलक्ख गय ।
आहंडलु आयउ तहिं वि पुणु ।
पारंभिउ रायहु परिणयणु । 10

9

भालयलइ पट्टु चडावियउ
चितंतहु तासु णयाणयइं
पुव्वहं परमाउहि संचलिय
तइयहं तहिं दियंहि सुसोहणइ
अवलोइवि गयणि विलीणु घणु
वेरग्गु पट्टयउं जिणवरहु

रायासणि राउ चडावियउ ।
पालंतहु गामणयरसयइं ।
चालीस चयारि लक्ख गलिय ।
अच्छंतहु सुहुं सणिहेलणइ ।
थिउ महिगयणयणु विसण्णमणु । 5
हरि सजव वि णांति ण सिवपुरहु ।

३ A समुहासुं; P समुहासुं. ४ A ध्रुव संभव संभव; P ध्रुव संभव संभव. ५ A आवेप्पिणु.

8 १ AP महड्डियउ. २ A किं किर. ३ A रामावंदणहु. ४ A ता तेत्थु. ५ AP पेक्खिंवि.
६ T उवणेप्पिणु. ७ AP णिवइ. ८ AP णाहु. ९ P विसट्टु.

9 १ P पट्ट. २ A णयरगामसयइ. ३ A दिवसि. ४ AP सहं. ५ A पट्टवउं.

6 b समुहासुं, चन्द्रेण; सुहा हि अमृतं.

8 3 a आयत्तउ अभीनः. 4 a लो हि उं लोहितम्. 9 a पहरत्तउ स्वामिनि रक्तम्.
10 उवणे प्पिणु दत्त्वा. 11 विसट्टु उल्लसिता. 12 उव हि समुद्रः.

9 2 a णयाणयइं न्यायान्यायम्. 6 b हरि सजव अश्वाः सवेगाः.

गय मत्ता महुं वि जणंति मउ
 चामरवापं नृषु मोडियउ
 स्तिरि धरियइ चारिणिवारणइं
 तहिं अवसरि लोयंतिय अइय
 जं इंदियसोकखु समुज्जियउं
 घत्ता—जो पइं संबोहइ सो संबोहइ सूरहु दीवउ मूढमइ ॥

पइं मुइवि गुणुभव सामिय संभव को परियाणइ परमगइ ॥ ९ ॥

पहु रह रहंति मुणिधम्ममउ ।
 भणु कवणु ण कालें तोडियउ ।
 पुणु होंति ण मारिणिवारणइं ।
 ते विण्णवंति भत्तिइ लइय । 10
 तं चारु चारु पइं बुज्जियउं ।

10

आणंदु ण हियवइ माइयउ
 पुणु परिवृद्धिं देवावलिहिं
 थिरदीहरहत्थगलत्थियहिं
 सण्हंविउ णविउ पोमाइयउ
 दुम्मोउं मुपपिणु रज्जंगहु
 परमेसरु पणइणिपाणपिउ
 बहुखगमाणियफलसाउयउं
 परिसेसेपिणु सिरिरमणिउरु
 उप्पाडिउ केसकलाउ किह
 सकुसुमु सभसलु सु करिवि करि
 किउ रोसपसायहं णिकखवणु
 उववासु करेपिणु सावसरि
 सावत्थिहि चारियाम्गु किउ

पुणु तेत्थु पुरंदरु आइयउ ।
 आहूय दुइसललिलावलिहिं ।
 चामीयरघडपल्हत्थियहिं ।
 वत्थालंकारविराइयउ ।
 सिद्धत्थयसिवियारूढु पहु । 5
 णरखयरहिं तियसहिं वहिवि णिउ
 णंदणवणु गंपि सहेउंयउं ।
 पणवेपिणु देवं सिद्धगुरु ।
 भवकुरुहंमूलपम्भारु जिह ।
 सइरमणें घित्तउ मयरहरि । 10
 रीयहं सहसें सहुं णिकखवणु ।
 बीयइ दिणि दिणयरकरपंसरि ।
 देविंदेत्तणिवभवणि थिउ ।

६ AP णिउ. ७ AP गुणणव.

10 १ AP परितुद्धिं. २ A आहूउ. ३ A सो णविउ. ४ A दुम्मोह. ५ P रज्जु गहु. ६ P णरखयरतियसहिं. ७ P adds after this: आगहणमासि सियकुहुयदिणि, सिलउवरि णिहिउ उइयइणि. ८ A रमणियरु. ९ A मूल पम्भारु. १० A रोसकसायहं. ११ AP रायहंससहमें. १२ A °कयपसरि. १३ P देवेदुदत्त°.

7 b पहु मार्गम्; रहंति रुधन्ति आच्छादयन्तीत्यर्थः; मुणि धम्ममउ उत्तमक्षमादिरूपः. 8 a मोडियउ भग्नपृष्ठीकृतः. 9 a वारिणि वारणइं छत्राणि. 10 a अइय आगताः. 12 संबोहइ प्रज्वालयति.

10 2 a परिवृद्धिं वर्धिताभिः; b आहूय आनीय. 4 a पोमाइयउ प्रशंसितः. 5 a दुम्मोउ दुःखेन मोचनीयः. 7 a °साउयउं स्वाहु; b सहेउयउं सहेतुकसंज्ञम्. 8 a परिसेसेपिणु त्यक्त्वा; °उरु चित्तम्. 9 b भवकुरुहमूलपम्भारु संसार एव कुरुहो वृक्षस्तस्थ मूलानां समूहः. 10 b सइरमणें इन्द्रेण. 11 a रोसपसायहं रोषतोषाणाम्. 12 a सावसरि निजप्रस्तावे पारणवेलायाम्. 13 b देविंदेत्तणिव° इन्द्रदत्तवृष°.

घत्ता—सुररबु मंदाणिलु घणर्वरिसियजलु सुराहिउ मणिकोडिहि सडिउ ॥
दायारउ पुजिउ दुंदुहि वज्जिउं दाणपुण्णुं देवहिं महिउं ॥ १० ॥ 15

11

दंतेण ण संकडु चितविउं	जं अण्णहु कासु वि णिम्मविउ ।
जं संजमजोग्गउ बुज्झियउं	दहिसप्पिखीरतेलुज्झियउं ।
तं भुंजइ सउवीरोयणउं	पडिसेहियदप्पुंकोयणउं ।
गहणंति कहिं वि अहणिसु गमइ	जंपइ ण किं पि सं संसमइ ।
विहरइ मणपज्जवणाणधरु	विसमं जिणकप्पे जिणपवरु ।
तउ एंव करंतहु झीणाइं	चउदहवरिसइं वोलीणाइं ।
कत्तियसियपक्खि चउत्थिदिणि	अवरण्हि जम्मरिक्खि वियणि ।
छट्टेणुववासं णिट्ठियहु	सुविसालसालतलि संठियहु ।
गइ पढमि बीइ सुक्कुग्गामणि	चउकम्मकुलक्खयसंकमणि ।
उप्पण्णउं केवलु केवलिहि	गयणोवडंतकुसुमंजलिहि ।
घत्ता—तहु जाएं णाणं णेयपमाणं जे केण वि ण वि चितविय ॥	
ते विवरि अहीसर महिहि महीसर सग्गि सुरिद वि कंपविय ॥११॥	

12

खगामिणा	ससामिणा ।
समेयया	अमेयया ।
अमाहरा	रमाहरा ।
मलासयं	णियासयं ।
कुणंतया	थुणंतया ।

१४ A °वरसिय. ° १५ AP गज्जिउ. १६ A दाणवंतु.

11 १ A चितियउ. 2 A हुक्कुवकोहणउं. 3 A सं सम्ममइ. ४ A ण वि चितिय; P ण वि चितविया. ५ A वि कंपिय; P वि कंपविया.

14 सुरहिउ सुरभिवातः.

11 2 b उज्झियउं त्यक्तम्. 3 a सउवीरोयणउं काञ्जिकोदनम्; b पडिसेहियदप्पुको-
यणउं प्रतिपेधितदर्पोत्कोचनकम्. 4 a गहणंति वनान्ते; b सं संसमइ आत्मानं सभ्यक् शमयति. 7 b
वियणि वने. 9 a सुक्कुग्गामणि शुक्लध्याने उद्भूते सति. 12 विवरि पातले.

12 1 a-b खनेत्यादि आकाशगामिना स्वस्वामिना समेताः सुरासुराः (12 b) प्राताः इति
संबन्धः. 2 b अमेयया प्रचुराः. 3 a अमाहरा अलक्ष्मीविनाशकाः; b रमाहरा लक्ष्मीधारकाः; 4 a
मलेत्यादि मलासयं मलक्षेपकम्; b णियासयं निजचित्तम्. 5 a कुणंतया कुर्वन्तः; b थुणंतया
सुवन्तः.

मुणीसरं	सरो सरं ।	
ण संधय	ण विंधय ।	
ण जम्मि सा	मलीमसा ।	
रश्च्छिहा	कया विहा ।	
महाजसं	तमेरिसं ।	10
महाइया	पराइया ।	
समासुरा	सुरासुरा ।	
सिमुग्गया	समुग्गया ।	
रसुद्धुरा	इमी गिरा ।	
सुसाइया	अणाइया ।	15
सुवत्तया	अवत्तया ।	
रसंकिया	रसुज्झिया ।	
सरूवया	अरूवया ।	
सुंगंधया	अगंधया ।	
सकारणा	अकारणा ।	20
ससंभवा	असंभवा ।	
ससंगया	असंगया ।	
रयासवं	पुणो णवं ।	
द्वैयाणिही	तवोविही ।	
अहंगया	अहंगया ।	25
ण ते णया	वरायया ।	
सरायया	समायया ।	

12 १ P रश्छिहा. 2 P adds after this: सतच्चया, अतच्चया. ३ AP मगंधया. ४ P द्यामही.

6 *b* सर इत्यादि स्वरः कामः शरं बाणम्. 8 *a* ण जम्मि त्यादि यस्मिन् मुनीश्वरे सा प्रसिद्धा; *b* मलीमसा मलिना. 9 *a* रश्च्छिहा रतिस्पृहा; *b* कया विहा द्विधा खण्डिता पुनर्न संजाता यस्मिन्नित्यर्थः. 10 *b* तमेरिसं तं ईदृशं मुनीश्वरम्. 11 *a* महाइया महादृतास्ते सुरासुराः. 12 *a* समासुरा समं युगपत् आसमन्तात् शोभनं रान्तीति. 13 *a* सिमुग्गया सिं तेषां सुरासुराणां उद्धृता निःसृता; *b* समुग्गया सम्यगुच्चैर्देशदिक्षु गता. 14 *a* रसुद्धुरा रसाढ्या. 15 *a* सुसाइया हे शोभनश्चासौ सादिश्च सर्वेशरूपेण; *b* अणाइया जीवद्रव्यापेक्षया हि अनादिभूत. 16 *a-b* सुवत्तया अवत्तया इत्यादयः सुव्यक्ता अव्यक्तादिधर्माः शरीरापेक्षया ज्ञानापेक्षया च योजनीयाः. 21 *a* ससंभवा सह संभवेन सुखसद्भावेन वर्तमाना; *b* असंभवा संसारहिता. 22 *a* ससंगया सह समीचीनेन गतेन ज्ञानेन संयुक्ता; *b* असंगया सङ्गरहिता यदि वा असंगया असंप्राप्ता. 23 *a-b* रयासवं पुणो नवं कर्माश्रवं पुनरपि नवम्. 25 *a* अहंगया अभंगक भंगरहित देव; *b* अहंगया अघं पापं गता. 26 *a* ण ते णया न ते तव नताः; *b* वरायया वराकाः. 27 *a* सरायया सरागाः नृपतिसहिता वा; *b* समायया वञ्चनायुक्ताः परवञ्चकाः.

खयं गया	महादिया ।	
सइंदिया	अण्दिया ।	
णिविंदिया	णिवंदिया ।	30
पसाहिओ	पयोहिओ ।	
कुक्कम्मरं	सुयंतरं ।	
कहंति जे	कुबुद्धि ते ।	
णगेसु या	पुरीसुं या ।	
पढंते मा	ण ताण मा ।	35
सुसांसया	णिरंसया ।	
सुणीरण	तुहारण ।	
अदुण्णण	बुहा मण ।	
कउज्जमा	महाखमा ।	
वरंति जे	लहंति ते ।	40
महुंणइ	परंगइ ।	
सुहं गया	हयावया ।	
णिरामया	सरामया ।	
णिरंजणा	णमो जिणा ।	

घत्ता—कयमाणवखंभहिं सारसरंभहिं वेह्णीदुर्ममणिवेइयहिं ॥ 45

वरधूलीसालहिं णच्चणसालहिं गोउरधूहहिं चेइयहिं ॥ १२ ॥

13

जहिं समवसरणु सुरणिम्मविउं

गुरु कंडीरवविट्ठरे ठविउं ।

५ AP णिवंदिया. ६ A omits this foot. ७ P कुक्कम्मदं. ८ AP णएसु वा. ९ P पुरेसु वा. १० A पढंत मा. ११ A सुसंसया. १२ APT महुण्णइ. १३ A माणवहरखंभहिं; K omits कय^०. १४ P वल्ली^०.

13 १ A विट्ठर.

28 a-b खयं गया श्रयं गतास्ते महाद्विजा लिङ्गिनो वा. 29 a सइंदिया द्रव्येन्द्रियसहित; b अण्दि या भावेन्द्रियरहित, अथवा अण्दि या अनिन्दित. 30 a णिविंदिया मनुष्यवन्दित अथवा णिविमित्यादि नृपं राजानं विप्राः द्विजाः. 32 a कुक्कम्मरं कुक्कर्मदम्; b सुयंतरं श्रुतान्तरम्. 35 b ण ताण मा न तेषां लक्ष्मीर्द्विजानाम्. 36 a सुसांसया सुषु शाश्वता मोक्षलक्ष्मीरित्यर्थः, अथवा सुसांसया शोभनलक्ष्म्या आश्रय; b णिरंसया निष्कल. 37 a सुणीरण सुषु निर्मले; b तुहारण त्वदीये. 38 a अदुण्णण दुर्नयरहिते; b बुहामण मते मार्गे बुधाः. 41 b महुंणइ स्वर्गादिलक्ष्मीम्; b परंगइ सुक्ति वा. 42 b सुहंगया हे देव शुभशरीर; b हयावया हतापदा येन. 43 a णिरामया रामारहित; b सरामया स्मरस्य कामस्यामयो रोग इति सुरासुराणां निर्गता गीः.

जहिं सुविहावलउं विलंबिकरु
जहिं णहणिवड्डिउं पस्यपयहं
जहिं छत्तइं तिण्णि समुब्भियइं
जक्खिदमउंडसिहरुद्धरिउ
जहिं वंति गंति णच्चंति सुर
तहिं संगिसण्णु सो परममुणि
मुणि साहइ जणजम्मंतरइं
मुणि साहइ मणुयदेवसुहइं
मुणि साहइ जीवरासिकुलइं
अलिच्चुं वियफुल्लुं असोयतरु ।
आहंडलडिंडिसु मुयइ सरु ।
विविहइं विंधइं चमरइं सियइं ।
जहिं धम्मवक्कु आराफुरिउ । 5
विंभैयरसपरवस थक्क णरं ।
मुणिवयणविणिग्गउ दिव्वमुणि ।
मुणि साहइ भूर्भुवणंतरइं ।
मुणि साहइ णरतरियदुहइं ।
मुणि साहइ बंधमोक्खफलइं । 10
घत्ता—मुणि सुणिवि पबुद्धइं जाइविसुद्धइं णिग्गंथइं मउलियकरइं ॥
जायउ गयगामिहि संभवसामिहि पंचुत्तरु सउ गणहरइं ॥ १३ ॥

14

तहिं चारुसेणु पहिलउ भंणिवि
दोसहसइं अवरु दिवड्डु सउ
सयतिउ सलक्खु सिक्खुयंमइहिं
परमोहिणाणधारिहिं मियइं
पण्णारहसहसइं केवल्लिहिं
सहसाइं रिंसिंदहं वसुसयइं
सउ सैड्डु सहासइं तवसमइं
सउ सयइं समउ सयवीसइइ
जायइं वम्मीसरदाराहं
लक्खाइं तिण्णि रइवाज्जियइं
सावियइं लक्ख पंच जि भंणमि
पुणु गणमुणि मेळ्ळिवि मुणि गणंविं ।
पुव्वंगधरइं थिउ जिणिवि मउ ।
पक्कूणतीससहसइं जइहिं ।
छहसयइं रंधसहसंक्रियइं ।
पक्कूणवीस पसमियकलिहिं । 5
वेउव्वणरिद्धिहिं कयवयइं ।
मणपज्जवधरिहिं धरियसमइं ।
जइघाइहिं संखे करविं मइइं ।
दुइलक्खइं पंच भडाराहं ।
दहगुणिय तिण्णि सहसज्जियइं । 10
सावयइं तिण्णि ते हउं मुंणमि ।
घत्ता—अहणिसु कयसेवइं चउविहदेवइं देविहिं संख ण दीसइ ॥
संखेज्जतिरिक्खइं इच्छियसोक्खइं धम्म अहम्मं वि भासइ ॥१४॥

२ AP फुल्ल, ३ A णिवड्डिय, ४ AP °पवरु, ५ A °मउल°, ६ AP सुरा, ७ A विंभिय, ८ AP णरा, ९ P °विणिग्गय, १० P भुवणु अणंतरइं, ११ A णरयतिरिय°.

14 १ P भणमि, २ A गणिवि, २ A सिक्खुव°; P सिक्खय°, ३ AP सड्डु, ४ P सयवीमइहु, ५ AP करमि संख, ६ P मइहु, ७ A जाया, ८ A °दारयइं, ९ A भडारयइं, १० AP मुणमि, ११ AP भणमि, १२ AP अहम्मु वि हासइ.

13 2 a सुविहावलउं शोभनं भावलयम्; विलंबिकरु प्रस्तुतिकरणम्, 3 a पस्यपयहं पुष्पप्रकरः, 4 a वंति वादयन्ति.

14 4 a मियइं मितानि; b रंधसहसंक्रियइं नवसहसयुक्तानि, 8 a सयवीसइइ शतानां विशत्या.

15

महि विहरिवि भवियतिमिह लुहिवि
 तहिं दोणिण पक्ख तणुचाउ किउ
 दिक्खहि लग्गि वि पुव्वहं तणउं
 वद्धाउहिं पुव्वहं वित्ताहं
 मासम्मि पहिल्लइ पक्खि सिइ
 णियजम्मरिक्खि संभाइयउ
 छेइल्लउ सुक्कज्झाणु धरिवि
 पुग्गलपरिणामहु णवणवहु
 ठिउ अट्टमपुहइहि अट्टगुणु
 सुरमुक्ककुसुमरयमहमहिउ
 वउ वीयरायरायहु ललिउ
 लोपहिं पवित्त पावरहिय

संमेयहु सिंहरु समावहिवि ।
 रिसिसहसें सहुं पडिमाइ थिय ।
 वोइहवरिसूणउं लक्खु गउ ।
 लक्खाइं सट्ठि अणुहुत्ताइं ।
 छट्ठइ दिणि मज्झणहइ ल्हसिइ । 5
 अथि घाइचउक्कु वि घाइयउ ।
 किरियाविच्छित्तिं सत्तिं करिवि ।
 गउ मुक्कउ संभवु संभवहु ।
 महं पसियउ णिक्कलु णाणतणु ।
 दीवेहिं गंधधुवहिं महिउ । 10
 अग्गिदमउडमणिसिहिजलिउ ।
 अरुहंगभूइ सीसें गहिय ।

घत्ता — जिणणिष्वाणुच्छवि सच्छरु सविहवि सुरवइ भरहु पणाच्चिउ ॥
 गउ णियंघररंगहु सिंगारंगहु पुष्पयंतणियराच्चिउ ॥ १५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहयु
 महाभव्वभरहाणुमणिणं महाकव्वे संभवणिष्वाणगमणं णाम
 वालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४० ॥

॥ संभवचरियं समत्तं ॥

15 १ A सिहरि. २ P रिसिसहसें पडिमाजोएं ठिउ. ३ A चउदह^१; P वारह^२. ४ AP वित्ताहं. ५ AP अणुहुत्ताइं. ६ P इय घाइ^३. ७ A परिमाणहु. ८ AP पुहविहि. ९ P णियघरि रंगहु वजियभंगहु. १० AP omit संभवचरियं समत्तं.

15 1 a लुहिवि स्फोटयित्वा विनादय. 2 a तणुचाउ कायोत्सर्गः. 4 b अणुहुत्ताइं अनुभूतानि. 5 a मासम्मि पहिल्लइ चैत्रे. 6 a संभाइयउ संभावितः. 9 b पसियउ प्रसीदतु. 11 a वउ वपुः शरीरम्. 12 b अरुहंगभूइ अर्हतः शरीरभस्म. 13 सच्छरु साप्सराः; सविहवि स्वविभावः.

अद्विणंदणु इदाणंद्यरु णिंदियइं णिवारउ ॥
वंदारयवंदहिं वंदियउ वंदिवि संतु भडारउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

असोक्खकंतारयं	हयभवोहकंतारयं ।	
ण जं च कंतारयं	ण्हवणयमि कं तारयं ।	
जणस्स सं गंगयं	कुणइ जस्स संगं गयं ।	5
विइण्णमलभंगयं	हुणइ वट्टमाणं गयं ।	
सुवण्णरुइरंगयं	जसपउण्णभूरंगयं ।	
विहंसियणिरंगयं	जणियभावणारंगयं ।	
रयं परमघोरयं	असमसंपयावारयं ।	
सुजायमसरीरिणं	णिहणिऊणमसरीरिणं ।	10
जमीसममरच्चियं	गुण्णिसेणियाहिं चियं ।	
भइं तमहिणंदणं	पणविऊण धीणंदणं ।	

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

वरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डलं
यदपि च जलधिवलयमधिलंघ्य विधेस्तदनन्तरं दिशः ।
विगलितजलपयोदपटलद्युति कथमिदमन्यथा यशः
प्रसरदमादमल्लकदनाभारत भुवि भरत सांप्रतम् ॥ १ ॥

A reads 'किरणार्द्धिमण्डलं' in the first line ; P reads विधिसदनन्तरं दिशः. P repeats the stanza at the beginning of XLVII. A gives it only here. K does not give it here or there.

1 १ AP °विदहिं. २ AP add जं before जणस्स. ३ AP इणइ. ४ A °मसिरीरणं. ५ P गुणिणिसेणि°.

१ 1 णि दि दि य इं निन्द्यानि इन्द्रियाणि. 2 वं दार य वं द हि देववृन्दैः. 3 a असोक्खकं-
तारयं असौख्यजलतारकम्; b हयभवोहकंतारयं हतजन्मौघाद्यटवीकम्. 4 a कंतारयं स्त्रीरतम्;
b कं जलम्; तारयं पाण्डुरम्. 5 a सं शम; गंगयं गङ्गाजातं जलम्; b संगं गयं स्वाङ्गं स्वशरीरं
प्राप्तम्. 6 a विइण्णमलभंगयं वित्तीर्णो दत्तः मलानां भङ्गो येन सः तम्; b हुणइ भस्मीकरोति,
गयं रोगम्. 7 a सुवण्णरुइरंगयं सुवर्णवट्टचिराङ्गम्; b जसपउण्णभूरंगयं यशःपूर्णभूमण्डलम्.
8 a °णिरंगयं मदनम्; b °भा व णारं ग यं °षोडशभावनासु रागम्. 9 a रयं आत्मरतम्; परं परमा-
त्मानम्; अं घोरयं अरौद्रम्; b असमसंपयावारयं क्रोधसंपदो निवारकम्. 10 a सुजायं सुजातम्;
असरीरिणं सिद्धम्; b असरीरिणं अश्रीः दारिद्र्यं सा एव ऋणम्. 11 a जं+ईसं+अमरच्चियं अमरैः
पूजितम्; b गुण नि से णि या हिं चियं गुणपंक्तिभिः प्रवृद्धम्. 12 b धीणंदणं बुद्धिविवर्धकम्.

भणामि तव्ववसियं	किर कहं तिणा ववसियं ।	
वणे चडुलवाणरे	सुहयमाणिणीवाणरे ।	
मुएउ मा णा सणं	सुणउ पावणिष्णासणं ।	15
इमं सुकियवासणं	लहउ सम्मईसासणं ।	

यत्ता—जिव सुयकेवलि जिव तियसवइ जिवं पुणु थुणउ फणीसरु ॥
हउं णरु जीहासहसेण विणु कि वण्णविं परमेसरु ॥ १ ॥

2

सालतालतालीदुमोहए	मेरुसिहरिपुब्बे विदेहए ।	
संचरंति करिमयरसंतई	वहइ गहिर सीया महाणई ।	
तीई तीरि दाहिणइ पविउले	चूयचारफलथुलियसुंविउले ।	
वारिवाहधाराहि सित्तए	मुग्गमासजैववीहिछेत्तए ।	
छेत्तवालिणीसहसंगए	दिष्णकण्णसंठियकुरंगए ।	5
बेकरंतबहुदुद्धगोहणे	वच्छमहिसवसहिंदसोहणे ।	
सव्वधण्णछण्णे अणूसरे	सरतरंतकिंणरवहूसरे ।	
कंजपुंजरुंजंतमहुलिहे	कयलिललियलवलीलयागिहे ।	
णिसुयमहुरपियमाहवीसरे	पहियहिययगयविसमंसरसरे ।	
उच्छुवीलणुल्लियरसजले	मंगलावईभूमिमंडले ।	10
कोट्टुवंट्टुलट्टालदुग्गमं	रुद्धकुद्धलुद्धारिसंगमं ।	
खोलखाइयावूढकोमलं	पंचवैण्णकेलिल्लिचंचलं ।	
माणगणंसुमालाविरोहियं	कुर्येदीहियावाविसोहियं ।	
कणयघडियघरपंतिपिंगलं	णिच्चमेव संगीयमंगलं ।	
अमियरायरिद्धीपर्वट्टणं	रयणसंचयं णाम पट्टणं ।	15

६ A चट्टलवाणरे; P चवलवाणरे. ७ A जिण पुणु.

2 १ A पुव्वविदेहए. २ A संचरंत. ३ A ताइ. ४ P पविउले. ५ A मुग्गमाह. ६ P छत्तए. ७ A बेकरंतबहुदुद्ध; P बुकरंत. ८ A पुंजरयरत्त. ९ P विसमसरसरे. १० A उच्छ-पीलणु; P उच्छुपीलणु. ११ A कोट्टुवट्टुलट्टालदुग्गमं; P कोट्टुवट्टुलाट्टालमंगमं. १२ P कुद्धलुद्धमुद्धारि-दुग्गमं. १३ A पंचवण्णकेकेल्लि. १४ P दीविया. १५ A पवट्टणं.

13 a तव्ववसियं तस्य चरितम्; b तिणा तेन. 14 b सुहयमाणिणीवाणरे सुभगमानिनीनां कामवाणे पीडाजनके. 15 a मुएउ मा णा सणं ना पुरुषः मा स्वने शब्दं मुञ्चतु; मौनेन शृणोत्वित्दं कथान्तरमित्यर्थः. 16 a सुकियवा सणं सुकृतवर्षणम्.

2 2 a संतई संततिः. 3 b सुविउले पक्षिमूहे. 4 b छेत्तए क्षेत्रे. 7 b अणूसरे क्षारभूमिरहितं. 9 b विसमसरसरे कामवाणे. 12 a खाइया खातिका परिखा; b केलिल्लि ध्वजाः पताकाः. 15 a अमियरायरिद्धी प्रचुरराजरक्ष्मीः.

तत्थ वसइ राया महाबलो
जस्स लच्छिकंता उरत्थले
दीहकालमवियरैलमणोरहं
किं कुंणामि णिच्चं परासुहं
माणसं दमेणं णियंतियं

भुयबलि व्व धीरो महाबलो ।
रमइ किसिरमणी महीयले ।
भुंजिऊण रज्जं रमासुहं ।
हो^० भुयामि इणमो परासुहं ।
एम तेण सहसा विच्चितियं । 20

घत्ता — धणवालहु बालहु णियसुयहु विरइवि पट्टणिबंधणु ॥
सो पासि विमलवाहणजिणहु जायउ राउ तवोहणु ॥ २ ॥

3

सो णिग्गंधु गंधुं ण समीहइ
ण पसंसाइ करइ पहेसिउं मुहुं
दूसंतउ पैरु पिसुणु ण दूसइ
लाहालाहइ जीवियमरणइ
जिणिवि कुहेउवाय णयचंडहं
पयारइ अंगइं अवगाहिवि
बंधिवि कयसोलहकारणइलु
णिहणयालि अणसणु अब्भसियउं
कामकोहधरणीरुह खंडिवि
णाणसासु वट्टारिउ चंगउं

सणियउं वियरइ पावहु बीहइ ।
णउ केण वि णिंदिउ मण्णइ दुहुं ।
हिंसंतउ मणावि णउ हिंसइ ।
समु जि समणु संठिउ समचरणइ ।
तिण्णि तित्तरसंय पासंडहं । 5
दंसणुं सुद्धि बुद्धि आराहिवि ।
सिरिअरहंतणाउं गोसुज्जलु ।
देहखेत्तु रिसिहिलिं किसियउं ।
पासहिं दिहिवइ दढयर मंडिवि ।
सासु मुयंतं मुक्कु णियंगउं । 10

घत्ता — सुहझाणें मुँ सो परमरिसि णिम्मलु णिरुवमरूयउ ॥
अहमिंदु अणुत्तरि धवलतणु विजयविमोणइ ह्यउ ॥ ३ ॥

4

जलहिसर्ममिए
कालि णिग्गए

तीसतियहिए ।
सुरेहं मग्गए ।

१६ AP °मविलय°. १७ A °मणोहरं. १८ A °रमाहरं. १९ P कुणोमि. २० हो ण जामि.

3 १ P ण गंधु. २ AP पहसियसुहु. ३ A परपिसुणु ण दूसइ; P परि पिसुणु ण दोसइ.
४ AP तिण्णि तिसद्धिसयइं. ५ AP दंसण°. ६ A रिसिहलि संकिसियउ. ७ A मुयउ. ८ AP
°रुवउ. ९ A अणुत्तर. १० P °विमाणे.

4 १ A समणिए; P समसिए. A २ सुरहरं गए.

18 a °अ वि यल° निर्विघ्नम्. 19 a परासुहं परप्राणवातकम्; b परासुहं अतीवाशुभम्.

3 1 b सणियउं शनैः. 3 b मणावि मनागपि. 5 a कुहेउवाय कुहेतुवादाः. 8 a
णिहणयालि मरणकाले; b °हलिं कर्षकेण. 10 a णाणसासु ज्ञानमेव धान्यम्.

4 1 b °तियहिए व्यधिके. 2 b सुरहं मग्गए देवानां रीत्या.

तम्मि सुंदरे	हं पुरंदरे ।	
थिई सुहासए	आउसेसए ।	5
धरियंजीवए	पढमदीवए ।	
वहरिखंडणा	भरहमंडणा ।	
अत्थि सुहयरी	कोसलाउरी ।	
रिसहकुलरुहो	पुण्णससिसुहो ।	
तहिं महीसरो	णाम संवरो ।	10
तस्स इत्थिया	साहियत्थिया ।	
चारुहारिया	सुइसरीरिया ।	
भवणलच्छिया	मउँलियच्छिया ।	
णिसिधिरामए	चरमजामए ।	
पेच्छए हियं	सिविणमालियं ।	15
गलियमयजलं	अमरमयगलं ।	
कुंदंपंडुरं	गोवइं वरं ।	
णहरदारुणं	दुरयवहरिणं ।	
बहुविलासिणी	णालिणवासिणी ।	
भमररामयं	कुसुमदामयं ।	20
णयणपरिणयं	सिसिरकिरणयं ।	
णिहयंतिमिरयं	तरुणमिहिरयं ।	
रमणरसनयं	मीणमिहुणयं ।	
सजलकमलयं	कलसजुवलयं ।	
रमियंरोयरं	पंकयायरं ।	
मयरमीयरं	खीरसायरं ।	25
लच्छिसासणं	हरिवरासणं ।	
हरिणिहेलणं	फणिणिकेयणं ।	
सुमणिसंगहं	अवि य हुयवहं ।	

यत्ता—इय दंसर्णणंउरुंबउ सइइ सुँहसुत्ताइ णिरिक्खउ ॥

सुविहाणइ संवरंणरवइहि जं जिह तं तिह अक्खउ ॥ ४ ॥ 30

३ A थिय. ४ P reads this line as: पढमदीवए धरियजीवए. ५ AP कोसलापुरो. ६ P 'सरीरिया. ७ A मीलियच्छिया. ८ A चरिम'. ९ P reads this line as: गोवइं वरं कुंदंपंडुरं. १० A कमलवासिणि. ११ A णिहिय. १२ A तरुणि. १३ P रमियखेयरं. १४ A णितरंबउ. १५ AP सुँहं सुत्ताइ. १६ A संवरणिवइहि.

4 a सुहासए शुभाश्रये. 17 b दुरयवहरिणं गजशत्रु सिंहम्. 20 a °परिणयं मनोशम्. 24 a °रोयरं चक्रवाकम्. 29 दंसर्णणितरुंबउ स्वप्नसमूहः.

5

तं गिसुणिवि जसधवलियमहियलु
जो तिहुवणमंगलु तिहुयणवैह
सो तुह होसइ सुउ मँह णायउं
तहिं अवसरि दिवि सक्के बुँक्किउं
सिरिअरहंतु देउ अबलोयउ
मा होज्जउ तहु किं पि दुगुंछिउ
ता साँकेयणयरु वित्थारिउ
फुरियपसंडिपिंदुं पविरइयउ
कडयमउंडेमंडियवरगत्तउ

कहइ कंतु कंतहु सिविणयफेळु ।
जं झायंति जोइ गयमलमइ ।
णच्चहि सुंदरि चंगउं जायउं ।
संवरमहिवइ भुंजउ सुक्किउ ।
सिद्धत्थइ सिद्धत्थु जणेव्वउ । 5
अहु णिहिणाह करहि हियइच्छिउं ।
अहिणवु धणपं सब्बु सवारिउं ।
जहिं दीसइ तहिं तहिं अइसइयउ ।
उयरसुद्धिपारंभणित्तउ ।

घत्ता—सोहम्मसुरिंदे पेसियउ सब्बउ पुण्णपसत्थउ ॥ 10

घरु रायहु आयउ देवयउ मंगलद्वविविहत्थउ ॥ ५ ॥

6

छम्मासइ वसुहार वरिदुी
ता वइसाहेहु पंडुरपक्खइ
विजयणाहु तिहुयणविक्खवायउ
मयणविलासविसेसुप्पत्तिहि
पुणु सो णिहिवइ णिवंहि पसाहिइ
धरणीयलर्गयणिहिआकरिसइं
जसससहरकरधवलियदिग्गइ
जइयहुं सायरसरिसहुं झीणइं
तइयहुं माहमासबारसियहि
बारहमम्मि जोइ कोमलतणु
णाणत्तयजाणियजगरूयउ

थिय जिणंजणणि जाम संतुदुी ।
छट्टीवासरि सत्तमरिक्खइ ।
करिरूवे सिविणंतारि आयउ ।
उयरि परिट्ठिउ संवरपत्तिहि ।
पंगंणि छडरंगावलिसोहिइ । 5
णँव वि मास माणिक्कइं वरिसइ ।
संभविं संभवपासविणिग्गइ ।
दहलक्खइं कोडिहिं वीलीणइं ।
पालेयंसुकरावलिसुसियहि ।
वारहअणुवेक्खाभावियमणु । 10
देउ चउत्थउ जिणु संभूयउ ।

5 १ P °हलु. २ A तिभवणवइ. ३ A जोगि. ४ A मयणायउ. ४ AP बुज्झिउं. ५ A संवरणरवइ भुंजइ. ६ A अविलेवउ; P अवलोइउ. ७ A सक्केयणयरु. ८ AP समारिउ. ९ A °पिंड. १० A °मउलमंडिय°.

6 १ A णियजणणि. २ P वयसाहहु. ३ AP पंडुर°. ४ A पवरपसाहिइ. ५ AP पंगणि. ६ P धरणीयले. ७ P णवमासइं. ८ A जं ससहरकरधवलियदिग्गइ; P °धवलिए दिग्गइ. ९ A संभमि. १० AP संभवपासहु णिग्गइ. ११ A पालेयंसकरावलि°; P पालेयंसुकलावलि°. १२ AP बारहयम्मि.

5 4 a बु क्किउं कथितम्. 6 b अहु णि हि णा ह हे कुबेर. 8 a °पसं डि° सुवर्णम्.
6 2 b सत्तमरिक्खइ पुनर्वसौ. 4 b °पत्तिहि पल्याः. 7 a °दिग्गइ° दिग्गजे. 9 b पालेयंसु° हिमांशुश्चन्द्रः; °सुसियहि उज्ज्वले.

घसा—जिणजर्मणु आसणथरहरणि जाणिवि कुंजरु सज्जिउ ॥
महि आयउ लसुरु सुराहिवइ सुरकरचमरहिं विज्जिउ ॥ ६ ॥

7

पुंरि परियंवि वि पइसि वि णिवघरि
सयणुकिरणकविलियपविउलणहु
बहुभवकयवयणियंमियणियमइ
कमलकुलिसकलसंकियकमजुउ
पंद वद्ध जय देव भणेपिणु
अंकि चडाविउ चंपयगोरउ
जायउ जंतहु गुरु रहसुब्भहु
पडिवाहणहयवाहणसेणिहि
वारणु चरणचारु संजोइउ
जिणदेहच्छविइ अहिहवियउ
ससिरवितारापंतिउ लंघिवि

घसा—तहिं पंडुसिलायलु ससिधवलु तित्थु पसणु णिहालिउ ॥
अहिमंतिवि पाणिउं सयमहिण सीहवीदु पक्खालिउ ॥ ७ ॥

कित्तिमु सिसु दिण्णउ जणणिहि करि ।
पोमरायपैहणिहंतंभिरणहु ।
विसमविसयविसहरणहयरवइ ।
विरइयरइसंवरु संवरसुउ ।
सुरणाहें मुणिणाहु लणपिणु । 5
गोरो सो तेण जि अविचारउ ।
अमरविमाणहं घणवाहि संकहु ।
इदें कह व मंदसंदाणिहि ।
मंदरु मंदरुइल्लु पलोइउ ।
गुरुयणतेणं कवणु ण खवियउ । 10
तं तहु तणउ सिहरु आसंघिवि ।

8

कयविहिपरियम्मं छिण्णदुक्कम्मजम्मं
घिवइ दसदिसासुं सेयभिगारणीरं
बहुदसणविसाले कक्खणक्खत्तमाले
पविहरमर्मराणीसेवियं देववंदं
जलियकविलवालं भासुरालं करालं
पयपहयउरब्भं भाविणीभावियासं

संइ सिरिअरहंतं तम्मि आरोहिउं तं ।
कुणइ सुरवरिदो सिद्धमंताहियारं ॥ १ ॥
चलियचमरलीले संठियं पीलुबाले ।
जिणणहवणविसेसे वाहरामोमरिंदं ॥ २ ॥
दिसि पसरियजालं धूमच्छिणेण णीलं । 5
जिणणहवणविसेसे वाहरामो हुयासं ॥ ३ ॥

१३ AP °जम्मणि.

7 १ A पुरु. २ A सयणुकिरण°. ३ P °पविमल°. ४ A बहुतव°. ५ AP °णिवसियणियमइ
६ A कमलकलसकुलिसंकिय°. ७ AP गोरउ तेण जि सो अविचारउ. ८ A संजोयउ; P संचोइउ.
९ A पसथु. १० P सीहपीदु.

8 १ A °कुक्कम्म°. २ A सयसिरि°. ३ AP °अरिहंतं. ४ A आराहिज्जणं. ५ P खिवइ. ६ A
°ममराणीसंजुयं देवदेवं; P °ममरेहिं सेवियं देवविंदं. ७ P अग्गिवालं पहालं. ८ P °णिद्धणीलालिसेलं.

7 2 a सयणुकिरणं स्वतनुप्रभा; b °पह णि ह° प्रभासट्टशानि. 3 b °णहयरवइ गरुडः
6 b गोरो (गोरउ) ज्ञाननिरतः. 9 b मंदरुइल्लु मन्दकान्तिः. 13 सयमहिण इन्द्रेण.

8 3 a कक्खं वरणा; b पीलुबाले ऐरावते. 4 a अमराणी इन्द्राणी अप्सरसो वा; b अ-
रिंदं इन्द्रम्. 6 a °उरब्भं मेष्म; भाविणी भावियासं भामिन्या निजभार्यायाः सामान्यस्त्रीणां वा
भावितं सानुरागमबलोकितं आस्थं येन.

जलयपडलकालं जिह्वणीलं व सेलं
 करवंलइयदंडं छांहिसंसत्तसंतं
 भंसंलगरलमालाकालरोमं तुरंतं
 जुवइजणियकामं साहिरांमं करामो
 करिमयैरणिविदुं हारणीहारतेयं
 वरुणममरसारं माणसे संभरामो
 तरुपहरणपाणिं वाईसंदिष्णरायं
 बडुलगमणसीलं लंधियायासपारं
 विमलमणिवियौणं मंदरहीसमाणं
 धणयमधणदुक्खातंकपंकावहारं
 सगणैगुणगणालं भालभीमंच्छिवत्तं
 फणिवलयकरंमुग्गिण्णसुलं दुरिक्खं
 अमयमयसरिं कूरकंठीरवत्थं
 जणयणसुहंके संकंमुच्छिण्णसंकं
 मणिफुरियफणालं दित्तिदिक्खकवालं
 महिविवरणिवासं रम्मपोम्मावईसं

महिसमुहसमीरुणीजमीयमालं ।
 जिण्हवणविसेसे वाहरामो कयंतं ॥ ४ ॥
 अरुणयणजोहं रिंछमावाहयंतं ।
 जिण्हवणविसेसे णेरियं वाहरामो ॥५॥ 10
 धुवंधवलघओहं कामिणीए समेयं ।
 जिण्हवणविसेसे सायरं वाहरामो ॥ ६ ॥
 सुरहिपरिमलंगं मीणिणीजायरयं ।
 जिण्हवणविसेसे वाहरामो समीरं ॥ ७ ॥
 कयमयरविमाणं देहभाभासमाणं । 15
 जिण्हवणविसेसे वाहरामो कुबेरं ॥ ८ ॥
 वैरविसयसहंदुक्खिक्खत्तपायं महत्तं ।
 जिण्हवणविसेसे वाहरामो तियक्खं ॥ ९ ॥
 णवकुवलयमालोमालियं कौतहत्थं ।
 जिण्हवणविसेसे वाहरामो ससंकं ॥१०॥20
 अहिणवरविषण्णं कुम्मैय्ठीणिसेण्णं ।
 जिण्हवणविसेसे वाहरामो फणीसं ॥ ११ ॥

यत्ता— णियवाहणपहरणपियरमणिचिंधावलिहि विराइय ॥

इंदे सैहं इंदावाहणए लोयवाल संप्राइय ॥ ८ ॥

9

एवं पत्ते पंकयणेत्ते विस्से देवे णविऊणं

दुहणांसणयं सुहसासणयं दम्भासणयं ठविऊणं ।

१ A °वडइय°. १० A छाहिसंसत्तगतं; P छाहिसंसत्तवत्तं. ११ P कसणभसलमालाकार°. १२ P साहिरामो. १२ A °मयरणिविद्धं. १४ AP धुयधवल°. १५ AP वायसं. १६ P कामिणीजाय°. १७ A °वितानं. १८ AP कणयमयविमाणं. १९ P °तंकसंकावहारं. २० A सगुणगुण°. २१ AP °भीमच्छिवंतं. २२ A वरविसविसहत्थं खित्तं; P वरसियवसहपुडे खित्तं. २३ A °करग्गुग्गिण्ण°. २४ A °मालियाकुंतहत्थं. २५ A सुक्कमुच्छिण्ण°; P सक्कमुच्छिण्ण°. २६ AP कुम्मपिढी°. २७ A °रवणं. २८ A फणिंदं. २९ A सहं देवाणंदएण. ३० AP संपाइय.

9 १ P दुहुणासणयं.

7 a जलय° मेघाः; b °जीमूय° मेघाः. 8 a छाहि° यमस्य भार्या तस्यां संसत्तं आसक्त संतं स्वान्तःकरणं चित्तं यस्य. 9 b °जोहं विक्षेपम्. 10 a साहिरामं सानुरागम्. 11 a करिमयर° गजाकारशुण्डामयुक्तं मकरम्. 13 a वाहसंदिष्णरायं वातप्रमी मृगी तस्यां संदत्तरागम्. 16 a धणयं धनदम्. 17 b वसहंदु स्क्खकुटीति प्रसिद्धम्. 18 b तियक्खं त्र्यक्षं शिवम्. 20 A सुहंके अमृत-जलम्; संकं सचिहम्; b ससंकं चन्द्रम्. 24 इंदावाहणए इन्द्रस्य आह्वानेन.

9 1 विस्से सर्वान्. 2 सुहसासणयं सुखानां शासनम्.

सरगंभीरं पणबुञ्जारं साहाकारं काऊणं
 अग्रं पत्तं गंधं धूवं चरुवं दीवं दाऊणं ।
 दुण्णयन्तावं मिच्छागावं दुक्कियभावं मँहिऊणं 5
 पव्वयसरिसे पयणियहरिसे कंचणकलसे गहिऊणं ।
 आसासन्ते रवियरवंते गयणयल्लंते चरिऊणं
 भंगरउहे खीरसमुद्धे खिण्णं खीरं भरिऊणं ।
 कीलालोलं गेयरवालं सुरवरमालं रइऊणं
 ते जलवाहे जियजलवाहे हत्थाहत्थं लइऊणं । 10
 सोहम्मणेण ईसाणेण तियसयणेण सण्हविओ
 दाउं वासं कुसुमं भूसं तेहिं जिणिंदो पुणु णँविओ ।
 सिंगुत्तुंगं वसियकुरंगं मेरुं मोत्तुं वारिदरि
 णरसोक्खयरिं कोसलणँयरिं आगंतूणं पुरिसहरिं ।
 णयणिरयाणं गुरुपियराणं दाउं णहयलदिण्णपया 15
 हरिसविसट्टं रइउं णट्टं देवा सगं झ सि गया ।
 यत्ता — सज्जणहं णहु दिहि दुत्थियहं तरुणिहि पेम्मपहावउ ॥
 णाहँ वडुंते वड्डियउ पिसुणहं मणि संतावउ ॥ ९ ॥

10

जोव्वणभावें देहि^१ चडंतं
 देहपमाणु पनु रणचंडहं
 सिसुकीलाइ रमियगंधव्वहं
 फणिसुरणरमणयणाणंदणु
 भणित देव किं देवि साकित्तणु
 लइ लइ रज्जु अज्जु जाणसंवि
 ताहिं अवसरि आयउ सक्कंदणु
 वाहउ सुमिरु तंति घणु पुक्खरु

घडियामाणे काले जंते ।
 सब्बुं तिण्णिण सयइं धणुदंडहं ।
 दोण्णिण दहड्डलक्ख गय पुव्वहं ।
 जणणे हेक्कारिउ अहिणंदणु ।
 भुवणत्तयस्सामिहि सामित्तणु । 5
 हउं परलोयकज्जु थाहेसविं ।
 पुरि धरि गयणि ण माइउ सुरयणु ।
 गायउ किं पि गेउं महुरक्खरु ।

२ A दुण्णयभावं. ३ P गहिऊणं. ४ P हत्थाहत्थे गहिऊणं. ५ A तियसवरेणं. ६ P सण्हविउं.
 ७ P णविउं. ८ A धीरदरिं. ९ P सोक्खयरी. १० P णयरी. ११ A णरणियराणं. १२ P रइयं
 णट्टं. १३ P णेहपहावउ.

10 १ A देह चडंतं. २ AP घडियामाले. ३ A कोक्काविउ. ४ P साहेसमि. ५ A वायउ
 सुसरु. ६ A गेय.

5 म हि ऊणं मानयित्वा. 7 आ सा संते उच्छ्वासमध्ये; र विय र वंते सूर्यकिरणवति. 9 सुरवरमाले
 सुरवरश्रेणिम्. 10 जलवाहे कलशान्; जियजलवाहे जितमेघान्. 11 तियसयणेण त्रिदशजनेन.
 13 वारिदरि निवारितशत्रुं जलयुक्तशुभ्रं वा. 15 णयणिरयाणं न्यायरतानाम्.

10 3 b दो णिण द ह ड्ड लक्ख सार्धद्वादशलक्षाणि. 8 a पुक्ख व मृदङ्गमुखम्.

पुरउ णडंतं अमरणिहापं
सायरसरिसरजलसंधापं
हार तार जोयणवित्थिण्णी

वहयालियदिण्णासीवापं ।
पुणु ण्हाणितं कुमारु सुररापं । 10
णं णहि गंगाणइ अवइण्णी ।

घत्ता—जलधार पडइ सिरि दुद्धेरिय देउ तांइ ण वि हम्मइ ॥
भांवइ महुं णहुंतु वि घडसैयहिं बिंदुएणं णउ तिममइ ॥ १० ॥

11

मउडपट्टधरु बीर्यविणिट्टिउ
विणिहयराउ ताउ रिसि जायउ
अच्छइ जाम सपुत्तु सपरियणु
गय छत्तीस लक्ख लक्खद्धं
भुयणभाणु णहि णयणइं ढोयइ
पेच्छइ सत्तभूमिघरसिहरइं
पेच्छइ धयमालउ उल्लुलियउ
पेच्छइ चंदसाल मुहसालउ
पेच्छइ दाणसाल णडसालउ
पेच्छइ हट्टमग्ग चउदारइं
इय पेच्छंतहु तक्खणि णट्टउ

पिउसंताणि णिओइ अंहिट्टिउ ।
पहु वि महिं भुंजंतु सजायउ ।
रक्खइ पोसइ माभीसइ जणु ।
सहुं पुव्वहं सिरिसोक्खसमिद्धं ।
ता गंधव्वणेरु अवलोयइ । 5
पेच्छइ जालगवक्खइं पवरइं ।
पेच्छइ पुत्तलियउ चित्तलियउ ।
पेच्छइ लेहसाल गयसालउ ।
मणुयारोगसाल असिसालउ ।
पेच्छइ पहु आरामविहारइं । 10
तहिं तं पुरु पुणु तेण ण दिट्टउ ।

घत्ता—णासंतं णयरं साहियउ णासु अत्थि नृवरिद्धिहि ॥
किं णरु रइपरवसु परिभमइ उज्जमु करइ ण सिद्धिहि ॥ ११ ॥

12

ता लोयंतिण्हिं संबोहिउ
उट्टिउ सयलदेवडिंडिमसरु

आर्यणिंदं ण्हविउ पसाहिउ ।
चडिउ विचित्तहि सिवियहि जिणवरु ।

७ AP ण्हाविउ. ८ A हारसुतारतोयविच्छिण्णी; P हारसुतारजोयविच्छिणी. ९ A सिरिसिहरि; P T दुद्धरिस. १० AP तहिं ण वि हम्मइ. ११ A णावइ but records a p भावइ. १२ AP घडसएण. १३ A जं बिंदुएण; P तं बिंदुएण.

11 १ A धीरविणिट्टिउ; P पीढि णिविड्डउ. २ AP पहिट्टिउ. ३ P विणियराउ. ४ P पहु वि महिं भुंजंतु. ५ A णयरि. ६ A धयमालाउल्लु. ७ P हट्टमग्गि. ८ AP णिवरिद्धिहि. ९ A परवसु मूढमइ उज्जमु.

12 १ A आइवि इंदं; T आर्यदेण आगतेनेन्द्रेण.

9 a °णि हा एं सघातेन; b वह या लिय° वैतालिका वन्दिनः. 11 a हार धारा. 12 दुद्धरिय अतिशयेन महती. 13 तिममइ आद्रीक्रियते.

11 1 a बी य वि णि ट्टिउ भार्यास्वीकृतः (द्वितीया=भार्या); अथवा वीता विशेषेण गता स्त्री तथा अचिनष्टः सहित इत्यर्थः. 2 b स जा यउ जायासहितः. 9 b मणुयारोगसाल वैद्यशाला.

12 1 b आ ए णि दें आगतेनेन्द्रेण; पसा हि उ शृङ्गारितः.

गरखेयरसुरेहिं पणवेप्पिणु
णिहियउ पुरबाहिरि णंदणवणि
अवरण्हइ णियसंभयरिक्खइ
मण्णेप्पिणु घरु गिरिवरकंदर
भावु करेवि अहप्पयरासिहि
दावियणिंठुं छट्टुववासं
मुक्कउ जीयधणासाकेयइ
पंथु पलोयइ जंतु ण खंडइ
लहुयउं गरुयउं गेहु ण चितइ

बाहुदंडखंधेहिं वहेप्पिणु ।
मग्गसिरइ सिइ बारहमइ दिणि ।
अप्पुणु अप्पउ भूसिउ दिक्खइ । 5
दढमुट्ठिहिं उप्पाडिय कंदर ।
ते सक्केण घित्त पयरासिहि ।
जइ ह्यउ सहुं णिवहं सहासं ।
बीयइ दिणि पइहु साकेयइ ।
भे भे भवइ व घरि घरि हिंडइ । 10
प्रंगणुं प्राविवि पुणु वि णियत्तइ ।

घत्ता—जहिं रंजु कियउ तहिं तेण पुणु दरिसिउ भिक्खविहाणउं ॥
भयलज्जामाणमयवज्जियउं जिणवउं पेम्मसमाणउं ॥ १२ ॥

13

सयमहदत्तें पहु पाराविउ
पंचविहु वि जयजयपभणंतिहिं
अक्खयदाणु भणेप्पिणु णिग्गउ
जो ण समिच्छइ विप्परियावहु
जेण मूलु रइवालहु छिण्णउं
जेण सहियवउं णाणं भिण्णउं
णीसंगेण णिरुत्तु विहारिउ
पूसइ मासहु पक्खि पहालइ
उहुवरि सत्तमि जेणुप्पाइउं

तहु द्वेवहिं दाणुच्छवु दाविउ ।
आयासहु कुसुमाइं घिवंतिहिं ।
गउ वणु चरणविसेसहु लग्गउ ।
पहि चरंतु ण करइ इरियावहु ।
दाणु जेण अभयावहु दिण्णउं । 5
अट्टारहवरिसइं तवु विण्णउं ।
पुणुं वि जेण तं छहु संवारिउं ।
चउदहमइ दिणि सिणतरुमूलइ ।
केवलणाणु तिलोउ वि जोइउ ।

घत्ता—सो मोहमहामाहिरुहजलणु जिणवरु जियंपंचिदिउ ॥ 10
गिष्वाणहिं समउं पराइपण वाणबलेण पंचदिउ ॥ १३ ॥

२ A मगासिरासिइ; P माहमासि सिइ. ३ A भे भे विरइ व, but records a p: भवइ इति पाठः. ४ AP पंगणु पाइवि. ५ A रजि.

13 १ P णीसंगत्तु. २ P पुणिवि. २ A संचारिउ; P समारिउ. ३ AP पउसहु. ४ AT पहिलइ. ५ AP सिणितरु°. ६ A पंचदिउ. ७ AT वालबलेण; P वणबलेण. ८ A पंचदिउ.

5 a सं भ व रि क्ख इ जन्मनक्षत्रे पुनर्वसौ. 6 b कं द र केशाः. 7 a अ ह प्प य रा सि हि अधो मध्ये पयोराजोः समुद्रस्य; अथवा अधप्रकरं संघातं अश्राति विध्वंसयत्येवंशीलस्य भगवतः. 9 a °आ सा के य इ आदारज्ज्वा.

13 1 a सयमहदत्तें इन्द्रदत्तेन; पाराविउ पारणं कारितः. 4 a विप्परियावहु विप्र-
कृत्वां वेदानां मार्गः; b इ रियावहु ईर्षावधः. 5 a रइवालहु कामस्य. 6 a सहियवउं स्वहृदयं
स्वचित्तम्. 8 a पहालइ प्रभाले शुद्धे. 11 वा ण बलेण वाणा गीर्वाणा बलं सैन्यं यस्य, तेन इन्द्रेण.

14

थुणइ सुरिंदु सरइ गुण समणें
 तुहुं जि अणंगु अणंगहु वंछहि
 तुहुं सकेवु किं तुह आहरणें
 तुहुं अकामु किं तुह णारियणें
 सुद्धिवंतु तुहुं किं तुह ण्हाणें
 तुज्जु ण वइरु ण भउ णउ पहरणु
 तुहुं जि सोमंमुं सोमंमं किं किज्जइ
 गुणणिहि तुहुं तुह किं किर थोत्तं
 हरिकरिगिरिजलणिहिहिं समाणउ

तुहुं जिं देउ किं देवागमणें ।
 अणुदिणु णिकलगाइ पर वंछहि ।
 तुहुं सुयंधु किं तुह सबलहणें ।
 तुहुं अणिहु किं तुह वरसयणें ।
 दिव्वासहु किं तुह परिहाणें । 5
 तुज्जु ण रइ णउ कीलाविहरणु ।
 तुह छविहउ रवि काइं भणिज्जइ ।
 तो वि थुणइ जणवउ सहियत्तं ।
 पइं किं भणइ वराउ अयाणउ ।

घत्ता—ससिसूरहं सरिसउ पइं परम भत्तिइ कइयणु अक्खइ ॥ 10
 गयणयलहु अघरु वि तुह गुणहं पारु को वि किं पेक्खइ ॥ १४ ॥

15

इंदणरिंदचंदसूराउलु
 बहुपालिद्धय अट्ट महाधय
 धम्मचक्कु अग्गइ अवइण्णउं
 पुण्णमणोरह जे ते णं रह
 जसु तवेण कंपइ भूमंडलु
 छत्तइं दुरियायवविणिवारइं
 जासु मोक्खुं सोक्खुं जि जायउं फलु
 अवरु वि अरुहहु उत्तमसत्तहु
 आयासहु णिवडइ कुसुमावलि

समवसरणु जिणरायहु राउलु ।
 पसुकोट्टइ वक्खालिय हय गय ।
 प्रंगणुं सुरवररमणिहिं छण्णउं ।
 मउलियकर धिय संमुह णव गह ।
 अवसें तासु होइ भामंडलु । 5
 चमरइं भवसीणत्तणतारइं ।
 सो असोउ किं वण्णमि चल्दलु ।
 आसणु सासणु तिजगपहुत्तहु ।
 सरु भोयउ भासइ ण सरावलि ।

14 १ P वि. २ AP तुहुं अणंगु जो अंगु ण इच्छहि. ३ A सरुउ; P सरुउ. ४ AP अणिदु. ५ A सोमु सोमिं किं. ६ A भणमि. ७ A गुणहं सामि पारु को लक्खइ; P गुणहं सामिय पारु कु लक्खइ.

15 १ AP रावलु. २ AP पंगणु. ३ P सुरवररमणिहिं. ४ A ते णयरहं. ५ AP दुरिया-वयं. ६ A भवरीणत्तणु; P भवस्त्रीणत्तणु. ७ AP मोक्खसोक्खु. ८ AP वरदलु. ९ A कुसुमाउलि.

14 1 a सरइ गुण समणें स्मरति गुणान् स्वमनसा. 3 b सबलहणें समालम्भनेन विले-पनेन. 4 b अणिहु अनिद्रः. 5 b दिव्वासहु दिगम्बरस्य. 7 a सोमं चन्द्रेण; b छविहउ कान्त्या हतः तिरस्कृतः

15 2 a पा लिद्धय क्षुद्रच्चजाः. 6 a दुरियायवं दुरितातपः; b सीणत्तणं भ्रान्तत्वम्. 9 b सरु स्मरः.

रुंजुं अलि तइ सिंथ ण मेरी
दुंदुहि खणु वज्जंति ण थक्कइ
दिब्बं घोसें भुवणु वि सुज्झइ

घत्ता— सिरिवज्जणाहु णिवु धुरि करिवि सीलविमलजलवाइहं ॥
तिहि सहियउ सउ संतासयहं संजायउ गणणाहं ॥ १५ ॥

णिच्छउ सामिय आण तुहारी । 10
लोउ धम्मु णिसुणहुं णं कीकइ ।
अण्यउं परु परलोउ वि बुज्झइ ।

16

अट्टाइज्जसहस णिरणंगहं
पण्णासइ संजुत्तहं भिक्खुहुं
अट्टाणउवि संयाइं तिणाणिहिं
एक्कुणवीससहसइं विकिरियहं
सावयगुणटाणेहिं सहासहिं
पैक्कारहसहसाइं विवाइहिं
तवैसंजमवयतणुरुहमाइहिं
भोयभूमिसमसहसइं चैर्यहिं
अज्जियसंख पम जाणिज्जइ
पंचलक्ख सावियहं णिरुत्तउ

घत्ता— विहरंतहु महि परमेसरहु धम्मु कहंतहु भव्वहं ॥

अट्टारहवरिसंइ ऊणयरु एक्कु लक्खु गउ पुव्वहं ॥ १६ ॥

रिसिसीहहं सिक्खियपुव्वंगहं ।
तीससहसदोलक्खइं सिक्खुहुं ।
सोलह सहसइं केवलणाणिहिं ।
संख भणमि मणपज्जवरिसियहं ।
छहसपहिं अण्णु वि पण्णासहिं । 5
रिसिहिं तिणिण लक्खइं सज्झाइहिं ।
संजमधरिहिं सुद्धकुलजाइहिं ।
लक्ख तिणिण रिदुसयइं वि वेयहिं ।
लक्खत्तउ सावयहं गणिज्जइ ।
देवहिं देविहिं माणु ण उत्तउ । 10

17

इय पुव्वहं पण्णास जि लक्खइं
गयइं ण किं पि वि धाइ णियाणइ
हरिणहैअविहयकरिकुंभत्थलि
लांबियकरु सहं मुणिसंदोहं

गणहरमुणिवरसाहियसंखइं ।
मांससेसि थियु आउपमाणइ ।
तहिं संमेयगिरिंदवणत्थालि ।
दुणिण पक्ख थियु जोयणरोहं ।

१० AP रुंजइ. ११ A धरिवि धुरि.

16 १ A रिसिसीसहं. २ P सयइं तिणाणिहिं. ३ AP एयारह. ४ A omits this foot. ५ A omits this foot. ६ A विरयहिं. ७ P लक्खतइउ. ८ AP add after this : मिलिउ तिरिक्खविंदु संखेजउ, एत्तियजणहं करिवि साहिजउं. ९ AP कहंतहं. १० A वरिसहं.

17 १ AP ठाइ. २ A माससेस थियु. ३ A हरिणहअविरुय; P हरिणहयरि हयु.

10 a सिं थ प्रत्यञ्चा. 14 सं ता स य हं उपशान्त्रचित्तानाम्.

16 1 a णिरणंगहं निःकामानाम्, अथवा निरणं अप्रच्छादनमङ्गे येषाम्. 8 a भोय भूमि-
समं विद्यात्; b रिदुं पद; वेयहि जानीहि.

17 2 a णियाणइ अवसाने. 3 a °अविहयु °अहत्.

वइसाहहु मासहु सियछट्टिहि	सत्तमभवि हियचंदाइट्टिहि ।	5
खंतिवयांसियाइ संमाण्ड	एकल्लउ समाहिघरु आण्ड ।	
णाहु चारुचारिचु विवज्जइ	णग्गउ थिउ णिल्लंज ण लज्जइ ।	
किरियाभहु उंहु संचलियउ	सिद्धिविलासिणीहि जिणुं मिलियउ ।	
जीवपक्खिबंधिग्गहपंजरु	इदं पुज्जिउ मुक्ककलेवरु ।	
अग्गिकुमारहिं अग्गि विइण्णउ	सर्वइ चवइ णहि जंतु सउण्णउ ।	10
चउदहभूयगामरइ छंडिय	अहिणंदणेण मोक्खपुरि मंडिय ।	
गउ गउ गउ जि पडीवउं णायउ	मज्जु वि होज्जउ तंहिं जि णिकेयउ ।	
घत्ता—जणु आवइ जाइ ण थाइ खणु अत्थवणुग्गमु दावइ ॥		
महु हियवइ भरहाणंदर्यरपुप्फयंतससु भावइ ॥ १७ ॥		

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिण महाकव्वे अहिणंदणणिव्वाणगमणं
णाम एकचालीसमो परिच्छेउ समत्तो ॥ ४१ ॥

॥ अहिणंदणचरियं समत्तं ॥

४ A सत्तमभवियहिं चंदा°. ५ AP णिल्लु. ६ A उवसंचलियउ. ७ P जणु. ८ AP सकु; but T सवइ स्वर्गपतिः. ९ A तं जि णिकेवउ; P बहिं जि णिकेयउ. १० P °णंदयरु. ११ AP omit the line.

५ b सत्तमभवि हियचंदाइट्टिहि सप्तमे भवे विहितायां चन्द्रेणाकृष्टौ आगमने, चन्द्रयुक्ते सप्तमनक्षत्रे इत्यर्थः. 8 a किरियाभहु अपरिस्पन्दः. 10 b सवइ स्वःपतिः, इन्द्र इत्यर्थः. 12 a पडीवउं प्रतीपम्.

XLII

पंचमगाइगमणु पद्दु पंचगुरुहुं पद्दिलारउ ॥
पंचमैतित्थयरु पणाविवि पंचेसुवियारउ ॥ धुवकं ॥

1

णिज्जियसैवणं	संतं सैवणं ।	
णिज्जियरूवं	णिरुवमरूवं ।	
णिज्जियगंधं	सुरेहियगंधं ।	5
णिज्जियसरसं	वज्जियसरसं ।	
णिज्जियकोहं	वरवकोहं ।	
णिज्जियमाणं	सुहरिसमाणं ।	
णिज्जियमायं	चत्तपमायं ।	
णिज्जियलोहं	गयसल्लोहं ।	10
मुणियपयत्थं	भासातत्थं ।	
कयसुत्तत्थं	जं दिव्वत्थं ।	
पालियमहिमं	धैल्लियमहिमं ।	
महिलाकुमहं	मोत्तुं कुमहं ।	
इच्छियसुमहं	णमिउं सुमहं ।	15
तस्स पवित्तं	वोच्छं वित्तं ।	

A has, at the beginning of this Saṃdhi, the following stanza:—

सोऽयं श्रीभरतः कलङ्करहितः कान्तः सुवृत्तः शुचिः
सज्जयोतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर्घ्यो गुणैर्भासते ।
वंशो येन पवित्रतामिह महामन्त्राह्वयः प्राप्तवान् (प्रापितः ?)
श्रीमद्ब्रह्मभराज— कटके यश्चाभवन्नायकः ॥ १ ॥

No other known MS of the work gives it.

1 १ AP पंचसु तित्थयरु. २ P °समणं. 3 P °समणं. ४ A °सुरहिसुयंधं; T सुरहिसुगंधं.
५ A °सुवतत्थं. ६ T लंघियमहिमं.

1 2 पंचेसु° कामः. 3 a णि ज्जिय स व णं निर्जितं श्रवणेन्द्रियं यस्य; b स व णं महामुनिम्.
4 a णि ज्जिय रू वं निर्जितं रूपग्राहीन्द्रियं चक्षुर्येन. 5 a °गंधं °प्राणेन्द्रियम्; b सुर हिय गंधं सुरभिः
शरीरगन्धो यस्य. 6 a °सरसं °कामसुखम्; b सरसं विशिष्टाहारं सरागवचनं च. 7 b वरवकोहं
उत्तमवाक्यौघम्. 8 b सु ह रि स मा णं शोभनेन हरिणा हन्त्रेण समानं पूजनं यस्य. 10 b °सल्लोहं माया-
मिथ्यानिदानशल्यसंघातम्. 11 b भा सा त त्थं निर्बाधवचनम्. 12 a क य सु त्त त्थं अनुष्ठितागमार्थम्;
b दि व्व त्थं दिग्वाससम्. 13 b घ ह्छि य म हि मं त्यक्त्वा मही लक्ष्मीश्च येन. 14 a म हि ला कु म हं महिला
भार्या कुः पृथ्वी ताभ्यां निवृत्ता मतिर्यस्य; b कु म हं कुबुद्धिम्. 15 a इ च्छि य सु म हं वाञ्छितसुमतिम्.
16 b वि त्तं चेष्टितं चरितम्.

घत्ता—जिह तें लईउ वउ जिह हुयउ अणुत्तरि सुरवरु ॥
जिह जायउ सुमइ तिह कहमि समासइ वइवरु ॥ १ ॥

2

जलवरिससीयए वीषए वीयए
भमियमत्तंडए तमपडलखंडए
तरुणणरमिहुणपरिवद्धियसणेहए
णडियबरहिणणडे सरिवरुत्तरतडे
दुक्खणिग्गमणरहरमणवणसिरिसही
तम्मि गच्छंतसामंतभडसुहयरी
घुसिणरससिखिय हसियगयणंगणे
अमलिणा सणलिणा जत्थ जलवाविया
मंदिरे मंदिरे सईरगइ गोमिणी
महुसमयसंगमो उववणे उववणे
वृढसिंगारए जोव्वणे णवणवे
जत्थ सव्वो जणो जित्तिगिब्बाणओ
किंकरा बंधुणो दाणसंमाणिया
मंतियं चितियं चारु कज्जं पुणो

कुंभयण्णेहिं णिक्खित्तमहिबीयए ।
फुल्लतरुसंडए धौदईसंडए ।
पुव्वंसुरसिहूरिणो हरिदिसिधिदेहए ।
पोमरयरासिपिंजरियकुंजरघडे ।
जत्थ तत्थ त्थि पिडु पुक्खलावइ मही ।
सेयसउह्वावली पुंडरिंकिणि पुरी ।
मोसियकर्णचिए प्रंगणे प्रंगणे ।
कुररकारंडकैलहंससंसेविया ।
हम्मई महलो णव्वए कामिणी ।
रमइ वईसवणओ आवणे आवणे । 10
वसइ धरसरसई माणवे माणवे ।
तत्थ पडु अत्थि णामेण रइसेणओ ।
रायलच्छी चिरं तेण संमाणिया ।
मोक्खसोक्खंकरो णत्थि रज्जे गुणो ।

घत्ता—उवसमवाणिणं सिंचेप्पिणु किज्जइ सीयलु ॥
भोयतणेण पुणु पज्जलइ भीमु कामाणलु ॥ २ ॥

3

गच्छामु इच्छामु
इय भणिवि समु चिणिवि
मोहणित्त मेलेवि

गुरुपाय पेच्छामु ।
जिणु थुणिवि मणु जिणिवि ।
अइरहहु मंहि देवि ।

७ A लयउ वउ; P लइउ वउ.

2 १ AP कुंभयण्णेहिं खित्त°. २ A धायई°. ३ AP °णरमिहुणए वद्धिय°. ४ A हरि-
दिस°. ५ AP °सिहरिए. ६ A सउहाउली. ७ AP पुंडरिंकिणि. ८ AP पंगणे पंगणे. ९ A
समलिणा. १० AP कलहंसजुयसेविया. ११ A सई रमइ but gloss स्वेच्छाचारिणी. १२ AP
वइसवणु पुणु. १३ AP °पाणिणएण. १४ AP भोयतणेण.

3 १ P एच्छामु. २ P मही देवि.

2 1 b कुंभयण्णे हिं घटैः कुम्भगणनाभिर्वा. 3 b हरि दि सि पूर्वदिशि. 4 a °बरहिणणडे
मयूरनटे. 9 a स इरगइ स्वेच्छाचारिणी. 15 उवसमवाणिण उपशमजलेन. 16 भोयतणेण
भोगा एव तृणं तेन.

3 3 b अइरहहु मंहि देवि अतिरथस्य भूमिं दत्त्वा.

बल्लुहडु णंदणहु	तं अरुहणंदणहुं ।	
प्रॉयंति ऋउ लइउ	हियवउ ण विम्विर्यउं ।	5
रामाहिरामेसु	इट्टेसु कामेसु ।	
दुव्वारवारणइं	सोलह वि कारणइं ।	
भावेण भावेवि	णीसट्टु वंवेसेवि ।	
जिणसुसु जिणविसु	जिणणाउं जिणगोसु ।	
गुरुपुणु अज्जेवि	मोहं विसज्जेवि ।	10
मंड करिवि संणासु	हुउ वइजयंतीसु ।	
णिवसेइ कंतम्मि	ते वइजयंतम्मि ।	
कालेण दीहरहं	तेत्तीस सायरहं ।	
सरिसाउ माणियउं	णियंबंध णीणियउं ।	
पुणु तस्स सुहभाउ	छम्माससेसाउ ।	15
सक्केण जाणियउ	संबंधु भाणियउ ।	
धणयस्स णेहेण	हरिसुद्धदेहेण ।	
इह जंबुदीवम्मि	भो भरहखेत्तम्मि ।	
चिरु वसियसयरम्मि	साकेयणयरम्मि ।	
मेहरहु पुहर्सु	पिय मंगला तासु	20
ईविही सुभो ताहं	जिणु जाहिं पियराहं ।	
पुरु करहि सोवणु	ता इ ति बहुवंणु ।	

घत्ता—वज्जहिं मरगयहिं थेरुलियहं गयणुब्भासणु ।

जक्खे णिम्मंविउं कोसलपुरु पावविणासणु ॥ ३ ॥

4

एत्थंतरए जणमणरामे	वासहरे णिसि पच्छिमजामे ।	
मउपलंके णिदायंती	हंसी विव कमले णिवसंती ।	
पेच्छइ देवी सिविणयपंती	तुह्णितारमुत्ताहलकंती ।	
गयणाहं गोमंडलणाहं	पिंगलचलणयणं मयणाहं ।	
पोमं पीणियपुहरिणाहं	दामं रुजियभसलसणाहं ।	5

३ AP जिन्तारिसंदणहु. ४ AP add after this: सुण्णिगोत्तणामासु रविकिरणधामासु. ५ AP परयंति तउ. ६ AP विंमविउ. ७ AP उवसेवि. ८ AP मुउ. ९ AP तं. १० P णियंबंधणियउ. ११ A होही. १२ A बहुपुणु. १३ AP णिमियउं.

4. १ A लच्छीवियसियकमलसणाहं; P पोमापीणियं.

5 a प्रायंति पादान्ते. 7 a दुव्वारं संसारः. 12 a कंतम्मि कमनीये. 14 b णी णियउं निर्जीणम्. 17 b हरि सुद्ध देहेण हर्षोद्बुधितशरीरेण. 23 वज्जहिं वज्रहीरेः.

4. 5 a पोसं पद्मा लक्ष्मीः.

ताराणाहं वासरणाहं	शसजुयलं तडिजुयलगुणाहं ।	
कलसजुयं मंगलकुलणाहं	कमलसरं कीलियकरिणाहं ।	
तुंगतरंगं तीरिणिणाहं	वइसणयं च ससावयणाहं ।	
गेहं सुवसियसुरवरणाहं	अवरं पवरं थियफणिणाहं ।	
रयणगणं विभिहयधणणाहं	दीहसिहालं साहाणाहं ।	10
इय दंडुं पुच्छइ गिर्यणाहं	जाया अज्ज विद्धसिविणोहं ।	
भो सोलहपुरिल्लगयणाहो	ताणं कहसु फलं मह पाँहो ।	
तं गिसुणिधि पभणइ णरणाहो	होही पुत्तो तुह जगणाहो ।	
संव्वण्हं सव्विदसमच्चो	देवो णं हु सो भण्णइ मच्चो ।	
इए हरिभणणे गिरिवज्जे	सइसरीरपक्खालणकज्जे ।	15
आया देवी हिरि ^{१४} सिरि कंती	लच्छी बुद्धी दिहि मैइ किल्ली ।	

घत्ता—अणवइण्णि अरुहे पहिलउ जि जाम छम्मांसिउ ॥

ताम धणाहिवेण धणधारहिं मुँवघरि वरिसिउं ॥ ४ ॥

5

णीलियदिसावणइ	मासम्मि सावणइ ।	
तहिं सुद्धबीयाइ	दूरं विणीयाइ ।	
गम्भम्मि अवयरिउ	जणणीइ उरि धरिउ ।	
सो वइजयंतंदु	पुण्णिमइ णं चंदु ।	
कयजयरवालाइ	आवेवि लीलाइ ।	5
कैरधरियवीणाइ	सहुं तियससेणाइ ।	
तं णयरु तं भवणु	सा जणणि सो जणणु ।	
अंगंतरंगत्थु	वंदेवि मुँणितित्थु ।	

२ A गिज्जियधणणाहं; P विभियधणणाहं. ३ P दिद्ध. ४ A णिवणाहं. ५ A °सिविणोहं. ५ A जे सोलह°. P जो सोलह°. ६ AP °गयणाहं. ७ AP णाहं. ८ AP महिणाहो. ९ P जयणाहो. १० P सव्वण्हं सविद°. ११ A देवो णउ भण्णइ सो मच्चो; P देवो ण हि सो भण्णइ मच्चो. १२ AP हरिभवणे. १३ A गिरुवज्ज. १४ P सिरि हिरि. १५ P सहं. १६ P छमांसिउ. १७ AP णिवघरि.

5 १ A जणणीउरे. २ P करि धरिय°. ३ AP मुणि तेत्थु.

6 b तडिजुयलगुणाहं विद्युद्युगलसदृशं चञ्चलमित्यर्थः. 7 a मंगलकुलणाहं मङ्गलसमूहप्रधानम्. 8 a तीरिणिणाहं समुद्रम्; b वइसणयं आसनम्; ससावयणाहं सिंहयुक्तम्. 10 b साहाणाहं स्वाहानायम् अग्निमित्यर्थः. 11 b दिद्धसिविणा दृष्टः स्वप्नो यथा सा. 12 a पुरिल्लगयणाहो पुरिल्लः प्रथमो गजनाथो येषाम्. 15 b °पक्खालण° शरीराभ्यन्तरशुद्धिः 17 अणवइण्णि अनवतीर्णे सति, पूर्वमेवेत्यर्थः.

5 2 b दूरं विणीयाइ अतिविनीतया. 8 b मुणितित्थु तीर्थप्रायं मुनिम्.

गड सयमहो तेल्यु	सविमाणु तं जेत्यु ।	
रयणप्पहाकिट्टि	पुणु विहिय वसुविट्टि ।	10
जक्खीकडक्खेण	तूसेवि जक्खेण ।	
ता जाव णवमास	संपुण्णविहलास ।	
केवलसिरीरिद्धि	अहिणंदणे सिद्धि ।	
हयदियहपाडीहिं	णवलक्खकोडीहिं ।	
जइया गया ताहं	सायरसमाणाहं ।	15
तइया महंतेण	पुण्णेण हंतैण ।	
चित्ताइ पिउजोइ	पविमलदिसाटोइ ।	
तिण्णाणमयदिट्टि	पंचमउ परमेट्टि ।	
संभूउ सो जाम	संखुहिय सुर ताम ।	20

घत्ता—णाणावाहणहिं विसि विसि सुल्लंतवडायहिं ॥
आइउ अमरवइ सडुं चउँविहअमरणिक्कायहिं ॥ ५ ॥

6

पाविऊण पट्टणं	देवि तिप्पयाहिणं ।	
गंपि रायमंदिरं	णिम्मिऊण णिब्भरं ।	
बंधुचित्तविब्भमं	अण्णबालसंकमं ।	
वज्जपाणिणा पुणो	वंदिओ सयं जिणो ।	
अंकप णिविसिओ	सूहवो सुहासिओ ।	5
कुंभकंठबंधुरो	चोइओ ससिंधुरो ।	
पत्तओमरायलं	पंडुरं सिलायलं ।	
तम्मि देहमाणवो	तेण दिव्वमाणवो ।	
णाहिओ णिरूविओ	भत्तपहिं भाविओ ।	
पावतावहारिणा	दुद्धरासिवारिणा ।	10
देवपहिं ण्हाणिओ	पुष्पगंधमाणिओ ।	
आलयं पुण्णाणिओ	जेहिं सो वियाणिओ ।	

४ P हयदियहपाडीहिं. ५ AP पविमलदिसाटोइ; T दिसाभोइ दशदिशाटोपे. ६ P adds after this: एयादसिए पक्खि, सिए चंदे महारिक्खि. ७ A बहुविहअमर°.

6 १ A वज्जपाणिणो. २ AP °मरालयं but A corrects it to सुरालयं; gloss in K अमराचलं. ३ P सिलालयं. ४ A माणवे. ५ A माणवे. ६ A णाहए. ७ A पुणो णिओ.

14 a हयदियहपाडीहिं गुणितदिवसपरिपाटीभिः. 17 b दिसाटोइ दशदिशाटोपे.

6 3 a अण्णबालं कृत्रिमबालः. 6 a °बंधुरो मनोः. 7 a अमरायलं अमराचलं मेरुम्. 8 a देहमाणवो शरीरभिया अभिनवः. 9 a णिरूविओ स्थापितः. 11 b °माणिओ पूजितः.

ते जयस्मि धण्णया
मंडणेहिं राइओ
जोइएहिं झाइओ
अप्पिओ विपंकए
वज्जिणा जिणेसरो
संसिऊण तं णिवं

णाणिणो सउण्णिया ।
किणरेहिं राइओ ।
अत्थिणत्थिवइओ ।
माउपाणिपंकए ।
जीयलोयणेसरो ।
कोसिओ गओ दिवं ।

घत्ता—सुरसीमंतिणिहिं थणथण्णएण वट्टारिउ ॥

सुमइसमग्घविउ पट्ट सुमइ भणिवि हट्टारिउ ॥ ६ ॥

20

7

पुब्बाण गिब्बाणकीलाइ कयसोक्ख
अइऊण ता णवर दणुयारिरापण
सिंचेवि सुइंसलिलधाराणिवाएहिं
सवलहिवि कप्पूरचंदणपयारेहिं
कलरवतुलाकोडिकंचीकलावेहिं
बद्धो सिरे पट्टु देवाहिदेवस्स
अंधाइं बहिराइं धणविहवहीणाइं
महि भुंजमाणस्स दिब्बाइं सोक्खाइं
ता चित्तिं चिंतणिज्जं जिणिंदेण
तं चयमि तउ करमि संचरमि मग्गेण

कुमरत्तणेण्य बोलीण व्हलक्ख ।
भंभंतगंभीरभेरीणिणाएण ।
संमैहिवि णवमालइंपौरियाएहिं ।
भूसेवि केऊरहारेहिं दोरेहिं ।
णबेवि विब्भमहिं हावेहिं भावेहिं ।
णिर्विंधकामावहो णिव्विलेवस्स ।
संपीणयंतस्स काणीणदीणाइं ।
गलियाइं पुब्बाइं णवलक्खसंखाइं ।
रज्जेण मह होउ भववेल्लिकंदेण ।
विसहिंदच्चिण्णेण जडकसरदुग्गेण 10

घत्ता—गिरिकक्करि पडइ महुकारणि जिह हयकरहउ ॥

रज्जरसेण तिह भणु महियलि को फिर ण णिहउ ॥ ७ ॥

८ A समुण्णया; P सउण्णया. ९ A विकंपए. १० समाउपाणिपंकए. ११ P'T सुमइ समप्पियउ
and gloss in T सुमत्ति: समर्पिता अतिशयवती येन. १२ P सुम्मइ.

7 १ P अविऊण. २ P सिंचेवि सो सलिल'. ३ A सम्भोवणिव'. ४ P पौरियाएहिं. ५ A
डोरेहिं. ६ AP णिव्वंध'; T णिव्वंध सातत्यम्. ७ P णववीसलक्खाइं.

13 b सउण्णिया सपुण्याः. 15 b अत्थिणत्थिवाइओ स्यादस्ति स्यान्नास्तीति वादकः प्रतिपादकः.
16 a विपंकए निष्पापे. 17 b जीयलोयणेसरो जीवलोकस्य सूर्यः. 18 b कोसिओ
देवेन्द्रः.

7 2a अइऊण आगत्य. 3 b संमहिवि पूजयित्वा; b पौरियाएहिं पारियान्नपुष्पैः. 4 a
सवलहिवि विलेप्य. 5 a तुलाकोडिं नूपुरम्. 6 b णिव्वंध सातत्यम्; कामावहो कामविध्वं-
सकस्य. 10 b विसहिंदच्चिण्णेण वृषभनाथो धुर्यो गौश्वतेन आचरितेन. 11 महुकारणि मधुरनिमित्तम्;
करहउ उद्गः.

8

अणुभासियं तं जि लोयंति^१ विबुहेहिं
तिपुरिल्लकल्लाणविहि तेहिं संविहिउ
मुक्काइं वत्थाइं भीमाइं सत्थाइं
लुंवेवि कुंतलकलावो वि कौंतलैइ
सो देवदेवेण घित्तो समुहम्मि
मणपज्जउप्पणणाणेण सुवसिल्लु
णीसंकु णिकंखु णिम्मुकुदुविहासु
वहसाहसियणवमि पुव्वणह्वेलाइ

आवेवि देवेहिं पज्जणपमुहेहिं ।
सिवियाइ णेऊण णंदणवणे णिहिउ ।
गहियाइं सत्थाइं णियधम्मसत्थाइं ।
सहुं छड्डिओ जोग्गपत्तम्मि पविमलइ ।
दुद्धुबुकल्लोलमौलारउहम्मि । 5
छट्ठोववासत्थु णीसंगु णीसल्लु ।
सियलेसु णिहोसु णीरोसु णीहासु ।
आलिंणिओ सामिओ दिक्खवालाइ ।

घत्ता—अवरहिं दियहि पुणु संसारमहणवतारउ ॥

पुरवरु सउमणसु चरियाइ पइडु भडारउ ॥ ८ ॥

10

9

तत्थ सो पोमणामेण राएण संभाविओ
पंचओज्जाइं जायाइं दाणिस्स तंस्सालए
वीसवासाइं घोरे गहीरे तवे संठिओ
तम्मि दिक्खावणे वायहल्लंततालीदले
आइमे मासए चंदजोण्हंकिए पक्खए
इच्छियं णो सइत्तम्मि रायाणसंमाणसं
मेरुधीरेण हंतूण कम्मारिकूरं वलं
आसणाणं पयंपेण पायालए पणया
माणया माणवाणं णिवासाउ संचल्लिया
आगओ वित्तसत्तु ससूरो सतारो ससी
तिण्णि बाणासणाणं सयाइं सरीरुण्णओ

भाववंतेण सत्तीइ भत्तीइ भुंजाविओ ।
लोयणाहो भंमतो वसंतो गिरिंदालए ।
ता रओ दुसहो दुम्महो दुज्जओ णिट्ठिओ ।
णिच्चलं ज्ञायमाणेण ज्ञेयं पियंगुतले ।
बारसीए इणे पच्छिमत्थे मघारिक्खए । 5
तेण मोत्तूण भत्तं तिरत्तं च काऊण सं ।
सव्वदव्वावलोयं समुप्पाइयं केवलं ।
कंपिया देवलोयम्मि देवा वि णिहुण्णया ।
वाहणोहेहिं खं ढंकिंयं मेहणी डोल्लियाँ ।
जोइओ दीहणीलालिमालाजडालो रिसी 10
अंगवण्णेण सोवण्णवण्णं समावण्णओ ।

घत्ता—सुरवइअहिवहिहिं महिवइहिं मि णियणियसत्तिइ ॥

पारइउ थुणहुं सुमइसरु परमइ भत्तिइ ॥ ९ ॥

8 १ P लोयंत^०. २ AP कुंतलइ. ३ P^० कल्लोलवेलारउहम्मि.

9 १ A हम्मालए. २ P संमतो. ३ A जायं. ४ A बारसीए दिणे; P गारसीए इणे. ५ P सइत्तं. ६ A पक्केण. ७ P हल्लिया. ८ AP महिवइहिं णविउ णियसत्तिइ.

8 1 b पज्जण^० इन्द्रः. 2 a ति पुरिल्लकल्लाणविहि तृतीयोऽप्रकल्याणविधिः. 4 a कौंतलइ पुष्पमालया सह. 7 a णि म्मुक्कदुविहासु निर्मुक्तदुष्टविभाषणं, द्विविधाशा इहपरलोकाशा येन; b सियलेसु शुक्लेश्वरः. 8 b दिक्खवालाइ दीक्षा एव बाला तरुणी तया.

9 2 a दाणिस्स दानवतः. 3 b रओ रजः कर्म. 5 b इणे आदित्ये; पच्छिमत्थे अस्ताचलं प्राप्ते. 6 a सइत्तम्मि स्वचित्ते; रायाणसंमाणसं राज्ञां संमानसुखम्; b सं सम्यक्. 8 b णि हुण्णया दुर्नेयरहिताः (निद्रोत्थिताः ?). 10 a वित्तसत्तु वृत्रशत्रुन्द्रः.

10

जय देव णिष्पाव	णिक्रोव णित्ताव ।	
जय तुंग णिब्भंग	दिव्वंग णिव्वंग ।	
जय वाम णिव्वाम	णिक्काम णिद्धाम ।	
जय धीरं संसार-	कंतारणित्थार ।	
जय संत विकंत	परमंत अरहंत ।	5
जय कंत कुकयंत	कुणयंत भयवंत ।	
जय संथ मयमंथ	णिग्गंथ सिवपंथ ।	
जय दित्त तमैवत्त	अणिमित्तजगमित्त ।	
जय राय रिसिराय	णीराय णिम्माय ।	
जय णंद रुइरुंद-	मुहयंद बुहयंद ।	10
भुजगिंद भूमिंद	खयरिंद तियसिंद ।	
णित्तंद णिहंद	मुणिवंदसयवंद ।	
जयणाह णिण्णाह	णिब्बाह दुब्बाह ।	
समयार सिंदूर	मंदारकणियार-	
सुरधित्तसियरत्त-	सयवत्त सुविचित्त ।	15
कुसुमोहकयसोह	णिल्लोह णिम्मोह ।	
जय तिक्ख दुणिरिक्ख-	तवपंक्खधुवसांक्ख-	
फलसाहि महं देहि	सुसमाहि लहुं बोहि ।	

घत्ता—इय वंदिउ सुमइ जीहासयहिं सहसक्खे ॥

चउदरारिं सहिउ किउ समवसरणु ता जक्खे ॥ १० ॥ 20

11

मइंदासणं लच्छित्तुंगत्तंवासं
सुरुम्मुकसेलिधंविट्ठी विसिद्धा

वरं आयवत्तत्तयं चंदभासं ।
पडंती सराणीसरोलि व्व दिट्ठा ।

10 १ A णित्ताव णिक्रोव. २ P वीर. ३ A तवत्त. ४ A सिरिराय. ५ P णीमाय. ६ P adds after this: अणवद्. ७ A तववेक्ख.

11 १ A तुंगत्तु. २ A आयवत्तं तयं. ३ A सेलेधविट्ठी.

10 2 b णि व्वं ग निर्दीपः. 3 a वाम मनोः; णि व्वा म स्त्रीरहितः. 5 a विकंत कर्मनिर्मूलने विक्रमोपेतः; b परमंत परो मन्त्रः. 6 a कु कयंत कुत्सितः कृतान्तो यस्य. 7 a संथ स्वस्थः. 10 b बुहयं देत्यादि बुध्नन्द्रादिमिर्मुनिपर्यन्तैर्वन्त्रः. 13 b णि ब्बाह बाधारहितः. 14 a समयार उपशमाचारः. 15 a सियरत्त शुक्करत्त^० 17 a-b दुणिरिक्ख दुर्धरं तपः पक्षे मते यस्य.

11 2 a 'सेलिधं' शिलीध्रपुष्पम्; b सराणीसरोलि व्व स्वरस्येयं सरोलि ब्राणपंक्तिरिव.

ण सा तस्य काही समारं वियारं
तवेणुम्भवाप बुहाणंदिरीप
णहे सुम्मप दुंदुही गज्जमाणो
अभंवो वि देवस्स पाप णवंतो
चला चामराली मरालालिसेया
असोयदुमो दिव्वत्थपक्खदरावो
सुणिज्जति द्दवत्थपज्जायभेया
गणिज्जति कम्माइं छजीवकाया

मणुम्मोहया ते हया जेण दूरं ।
विहामंडलं कुंडलं णं सिरीप ।
मुहालोयणेणय विद्धत्थमाणो । 5
भिसं दीसप साणुकंपं चवंतो ।
सुभासाविभासाहिं गिज्जंति गेया ।
जगुम्मोहणो भारहीप पहावो ।
मुणिज्जंति लोपहिं पंचत्थिकाया ।
पवहंति देहीण चित्ते विवेया । 10

घत्ता—पुच्छंतहु जणहु संदेहतिमिरु संगिरसइ ॥

जलि थलि णहि विवरि तं णत्थि जं ण जिणु सासई ॥ ११ ॥

12

संउ सोलहउत्तरु गणहरहं
दुणिण सहस चत्तारि सय
दोणिण लक्ख चउपण्ण पुणु
अवरु वि पण्णासइ सहिय
पैक्कारइसहसइं प्रब्बं
देवघिसकुसुमंजलिहिं
चउसयअट्टारहसहस
दहसहास चउरो सयइं
तेत्तिय पुणु पण्णासजुय
लक्खइं गुत्तिसमय गणमि
सरिसइं वंभीसुंदरिहिं
णिश्चमेव मउलियकरहं
पंचलक्ख घरचारिणिहिं
विहरंतहु तहु महिटाणाइं

पुब्बवियाणहं मुणिवरहं ।
णिश्चपउंजियजीवदय ।
सहस तिणिण सय तहिं जि भणु ।
पत्तिय सिक्खवुव सवरहिय ।
अत्थि तेत्थु अवहीहरहं । 5
त्तरहसहसइं केवलिहिं ।
वेउब्बियहं सुज्झाणवस ।
मणपज्जवहहं हयमयइं ।
वाइ तासु णिप्पणसुय ।
सहसइं अवरु तीस भणमि । 10
तहु जायइं संजमधरिहिं ।
तिणिण लक्ख सावयणरहं ।
णारिहिं अणुवयधारिणिहिं ।
वीसवरिसपरिहीणाइं ।

४ P मणुम्मोहयता हया. ५ AP कंडलं. ६ A सर्गधो वि. ७ P मरालाणिसेया. ८ P सुहासाहिं भासाहिं. ९ K दिव्वत्थं but gloss द्रव्यार्थं. १० AP भासइ.

12 १ AP संउ जि ससोलह. २ AP एयारह^०. ३ P चउरो य सइं. ४ A मणपज्जवहं गयमयइं; P मणपज्जवहु वि हयमयइं. ५ P सरसइं. ६ A omits तहु. ७ A परहीणाइं.

3 a समारं सरप्रभवम्. 4 b विहामंडलं भामण्डलम्. 7 a मरालालिसेया हंसश्रेणिरिवोज्ज्वला. 12 सा सइ शास्ति कथयति.

12 10 a गुत्तिसमय त्रीणि. 14 a ^०ठाणाइं प्रवेशान्.

पुंस्वहं घडिमालाहयहं	एकवीसलक्षहं गयहं ।	15
कायविसर्गो थिउ वियडि	माससेसुं संमेयतडि ।	
मासि पहिल्लइ पक्खि सिइ	पर्यारसिविणि दिण्णसिइ ।	
मर्धणक्खत्तं णिव्वुयउ	सहुं जोइहिं णिकलु हुयउ ।	
देविंदहिं जयकारियउ	पुंज्जिवि साहुकारियउ ।	
अट्टगुणालंकिउ सुमइ	देउ मज्झु अविर्यल सुमइ ।	20

घत्ता—भरहेण अण्णहिं मि परमेसरु सो वण्णिज्जइ ॥
सइं अमराहिवेण गुणपुण्यंतु जसु गिज्जई ॥ १२ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुण्यंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमण्णिण महाकव्वे सुमइणिव्वाणगमणं
णाम दुचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४२ ॥

॥ सुमइचरियं समत्तं ॥

८ P पुण्णाहं. ९ P एकपुव्वलक्खहं. १० A मासमेत्तु. ११ A एगारसि°. १२ AP महणक्खत्तं.
१३ A अग्गिदेहिं सक्कारियउ; P अग्गिदेहिं संकारियउ. १४ P देउ मज्झु विमलमइ. १५ A पुण्यंत.
१६ A किज्जइ.

16 a वि य डि विस्तीर्णे. 17 b दि ण्ण सि इ दत्तमोक्षलक्ष्मीके. 22 गुणपुण्यंतु गुणपुष्पाणां सूत्रं
क्रियते यदाः.

दप्पिट्टुदुट्टपाविट्टजगजणियभावु दावियपहु ॥
कम्मट्टुगंठिणिट्टवणखमु पणवेण्णिणु पउमप्पहु ॥ धुवकं ॥

1

णिरंतरु जो तवलच्छिणिकेउ
परज्जिउ जेण रणे झसकेउ
णियायममग्गणिओइयसीसु
वियडुविवाइविइण्णवियारु
विवज्जिउ जेण वियालविहारु
कडीयलि मेहल णेय णिवडु
खमासरिसित्तसरोसहुयासु
भडारउ जोरुणपंकयभासु
पमेत्तिउ जो विहिणा विविहेणं
समिच्छियणिक्खयसोक्खपयस्स
दुगुंछियकर्ण्हमयाइणयस्स
भविस्सजिणिंद अणिदसमीह
जगुत्तमु गोज्जमु भासइ पंव

गइंदखगिंदविसंक्रियकेउ ।
समुग्गंउ जो कुगईखयकेउ ।
अपासु अवासु अणीसु रिसीसु । 5
रयासववारु विमुक्कवियारु ।
सयां गलकंदलु जस्स विहारु ।
ण कामिणि जेण सणेहणिबडु ।
सुझाणदवग्गिसिहोहहुयासु ।
अमिच्छअतुच्छपर्यापियभासु । 10
णमामि तमीसमहं तिविहेण ।
णइच्छियविण्णवियप्पपयंस्स ।
भणामि समायरियं इणंयस्स ।
अहो सुणि सेणियराय णिसीह ।
सुणंति महेरय दाणव देव । 15

प्रस्ता—धादइसंडइ दीवमि वरे जणगोहणसंकिण्णइ ॥

तहिं पुव्वमेरुपुव्वइ दिरइ पुव्वविदेहि रवण्णइ ॥ १ ॥

1 १ A समभाउ. २ A णियागम^०. ३ A सयामयकंदलु. ४ AP पयासियभासु. ५ A तिवि-
हेण. ६ A^० अक्खयसोक्खपयामु. ७ A^०पयामु. ८ P कण्हमयं अइणस्स. ९ P इणमस्स.

1 1^०भावु शुभपरिणामः 3 a^० णिकेउ निवामः; b^० केउ ध्वजः. 4 b^० खयकेउ विना-
शार्थमुच्यतः. 5 a^० णिओइय^० नियोजिताः; b^० अपासु बन्धनरहितः. 6 a^० वियडु^० विदग्धाः; ^०विइण्ण-
वियारु दत्तो विचारो विकारो कर्मभङ्गो येन; b^० रयासववारु कर्माश्रवप्रतिषेधकः. 7 a^० वियालविहारु
अकालविहरणम्; b^० विहारु हाररहितः. 8 b^० सणेहणिबडु निजस्नेहे न धृता. 9 a^० सरोसहुयासु
स्वरोपाभिः; b^० हुयासु हुतवाञ्छः. 10 a^० अरुणपंकयभासु रक्तोत्पलप्रभः; b^० अमिच्छेत्यादि अमि-
थ्यानां भव्यानां अतुच्छानां प्रचुराणां प्रजानां प्रिया भाषा यस्य. 11 a^० विहिणा कर्मणा. 12 a^० णिक्खय-
सोक्खपयस्स शाश्वतसौख्यपदस्य; b^० णइच्छियेत्यादि नेष्टं ब्राह्मणकल्पितानेकपशुवधानां पदं यज्ञादिकं
येन. 13 a^० दुगुंछियकर्ण्हमयाइणयस्य जुगुप्सितं निन्दितं कृष्णमृगाजिनकं येन; b^० इणयस्स
इदमस्य पद्मप्रभस्य. 14 a^० अणिदसमीह उत्तमसम्यक्चेष्ट.

2

सयामयणाहिसुगंधसमीरि
सकच्छउ वच्छउ देसु विसालु
समीयसमीवपरिद्वियगामु
फलोणयछेत्तणियत्तणरिद्ध
तहिं पुरि अत्थि पसिद्ध सुसीम
दुभूमितिभूमिसमुण्णयणीड
सरोरुहकेसरलग्गदुरेह
हरीमणिबद्धमणोहरमग्ग
तहिं अपरज्जिउ णाम णरिंदु
रईसु व भाविणिदुल्लहसंगु
खलुंज्जिउ तेलु व णेहलभोउ
सलक्खणवंतु

सुसीयहि सीयँहि दाहिणतीरि ।
मरालविहंगँविहिण्णमुणालु ।
परीणपँवासिपऊरियकामु ।
पिथी जहिं रोसणियत्तणणिद्धु ।
दुवारखिलंविद्यमोत्तियदाम । 5
महंतफुरंतसुवण्णकवाड ।
जिणालयचूलियचुंविद्यमेह ।
णिभोयविसेसविसेसियसग्ग ।
करिंदु व दाणि कुलंबरँचंदु ।
सरासणु जेम गुणेणं विद्यंगु । 10
णहं व समेहु णिवेसियलोउ ।
पउंजइ संधि वियाणइ मंतु ।

घत्ता—अण्णहिं दिणि तेण णराहिवेण चिंतिउं होउ पहुच्चइ ॥
जं पुरउं पमेलइ वल्लहउं अप्पणु तं लहु मुच्चइ ॥ २ ॥

3

अरे जडजीव समांसमि तुज्जु
गयालसु लालसु लोहरसेणं
जणेण जणो पणविजइ तँव
मयंग तुरंगम किंकर कासु
ण मित्तु कलत्तु ण पुत्तु ण वंधु
विचिंतिवि पँव णिरुत्तु मणेण

ण कस्स विहं जगि को वि ण मज्जु ।
णिरंतरयं णियकज्जवसेण ।
सजीउ वि तासु णरक्खइ जँव ।
फलक्खइ पक्खि व जंति दिसासु ।
सरीरु वि एंउं विणासि दुग्गधु । 5
पकोक्किउ पुत्तु सुमित्तु खणेण ।

2 १ A सुगंधि°; P सुगंध° २ P तीरिणि. ३ A मरालमुहग्ग°. ४ A परीण°. ५ A पवासियऊरिय°; P पवासियपूरिय°. ६ A पउंजहि. ७ P कुलंबरँचंदु. ८ P भामिणिदुण्णयसंकु. ९ P गुणेण अवंकु. १० A खलुंज्जियतेलु व णेहलभोउ; P खलुंज्जिय तेलु व्व णेहल भोउ. ११ P सह सलक्खणवंतु.

3 १ A पयासमि. २ P ण को वि. ३ P मोहरमेण. ४ A तासु वि. ५ A एम विणासि. ६ A मित्तु सुपुत्तु.

2 1 a मयणाहिं कस्तूरिकामृगः; b सुसीयहि सुशीतगुणयुक्तायाः सुश्रीकाया वा. 4 b णिद्धु कुशलः. 7 a दुरेह भ्रमरः. 8 b विसेसिय अतिशयितः. 9 b दाणि दानशीलः. 11 b समेहु समेषः सुबुद्धिश्च. 12 a लक्खणवंतु व्याकरणमिव. 13 पहुच्चइ पूर्णम्.

3 1 a समासमि संक्षेपेण कथयामि. 4 b फलक्खइ फलक्षये. 6 a णिरुत्तु निश्चयेन.

सवित्ति धरित्ति णिवेइय तासु
गुरुं पिहियासवयं पणवेवि
दसेक्कसुयंगवयाइं धरेवि
सुपांसुयभोयणुभक्खु गसेवि
दुहा भंय मेहुणु णिह सुपवि
सहेवि परीसह भीमुवसंग
चपप्पिणु दुव्वहसीलवहाउ
तवेण करेवि कलेवरु खामु
विहंडिवि छंडिवि चंडु तिवंडु

धराभरधारणु कंधरु जासु ।
थिओ जिणदिक्खवयक्खमु होवि ।
पुरायरगामसयाइं चरेवि ।
अपंडयथीपसुवासि वसेवि । 10
सणाणजलेण कलंकु धुएवि ।
मुणित्तणवित्ति विणेवि समग्गं ।
णिरिक्कवहणिवभक्तकहाउ ।
णिबंधिवि गोत्तु जिणेसरणामु ।
मंओ पमुपवि चउत्तिहपिंडु । 15

घत्ता—अवराइउ रिसि उवरिल्लियहि णरवंदहिं णिरवज्जहिं ॥
पीइंकरणांमविमाणवरि सुरु जायउ गेवज्जहिं ॥ ३ ॥

4

गिहीगुणठाणवएहिं विमीस
संसंतहु अंतरु तेत्तिय पक्ख
ण को वि महीयलि संणिहु जासु
छमासुं परिट्टिउ आउसु जांव
पुरीकउसंविवईसु मणीसु
सुसीम णियंविणि वल्लह तस्सं
भिसं भरहेसरवंसरुहस्स
अहो णिहिणाह विहंसियसोउ
तओ धणिणा पुरुपेसणरम्म

तहिं तहु आउ महोवहि वीस ।
दुहत्थपमाणिय वोंदि वलक्ख ।
दिणेहिं अहंसुरणाहहु तासु ।
इणं घणवाहि पजंपइ तांव ।
धराधरणो धरणीसु महीसु । 5
अखंडसुहारुहसोम्ममुहस्स ।
करेहि दिहिं णिलयं व णिवस्स ।
पहोसइ गंदणु गंदियलोउ ।
विणिम्मिउं भम्मविणिम्मियहम्म ।

घत्ता—अणहिं वासरि रायाणियइ णिसिविरामि उवलक्खिय ॥ 10
पासायतंलिमतलसुत्तियइ सिविणयमाल णिरिक्खिय ॥ ४ ॥

६ A धराभरधारण; P धराभरु धारणु. ७ A पिहियासव णं पणवेवि. ८ A मुफामुयं. ९ A दुहामयमेहुणु.
१० A वसग्गि. ११ A समग्गि. १२ AP मुओ. १३ A पीइंकरणांम; P पीयंकरमाणं.

4 १ A आव. २ A सुसंतहु. ३ P दिवडुयहत्थय. ४ AP छमास. ५ A मुणीसु. ६ A धरणोद्धरणे. ७ A तासु. ८ A मुहायमोम्ममुहासु. ९ A तलि सुत्तियइ; P तले सुत्तिह.

8 b जिण दि क्ख व य क्ख मु जिनदीक्षाव्रतयोः क्षमः 9 a वयाइं पदानि. 10 b पंडयं नपुंसकः.
13 a सीलवहाउ शीलवधकारिकाः विकथाः; b णिरिक्कं चोरः; णिवं नृपकथा; भक्तं
भोजनकथा. 15 b पिंडु आहारः. 16 उवरिल्लियहि तृतीये त्रिके.

4 1 a गिही गुण ठाण व ए हिं गृहस्थगुणस्थानपदैरेकादशभिः. 2 b वोंदि शरीरम्; वलक्ख
शुक्ला. 4 b घणवाहि इन्द्रः. 6 b सुहारुहं चन्द्रः. 9 a पुरुपेसणरम्म इन्द्रप्रेषणेन आदेशेन रम्यम्;
b भम्मं स्वर्णम्.

सुहाहिमसारयणीरयवणु
 गलंतमओलकवोलु करिंदु
 खरेहिं खुरेहिं धरगु दलंतु
 विसेसैविसेसु विसाण धुणंतु
 गिरिंदगुहाकुहरंतविणिचु
 लयादललोललावियजीहु
 गिसावइसेय दिसागयकति
 अणेयपसूयकरंबयगुंत्यु
 गिहित्तमीतमु गिम्मलु चंदु
 पमसै रमंत द्रंहंति तरंत
 महुप्पल कुंभलएसु गिसणण
 अलीरंबकुल्लियपोमरयालु
 गिमज्जणकील्लणलीण गइंदु
 पदंसियभीयरमीणरंउहु
 सुहावहु सुदु पैरिद्विउ इदु
 गियच्छिउ अच्छरणाहविमाणु
 गियच्छिउ वोमदिसाणणभासि
 पवित्तुं पलित्तु घिएण व सित्तु
 गियच्छिउ चिच्चि णराच्चियदेहु

पईहरपाणि झलज्जलकणु ।
 गियच्छिउ जंगमु णाहं धरिंदु ।
 बलाल गंविंद बलेण खलंतु ।
 गियच्छिउ संमुदु पंतु डरंतु ।
 रुसारुणदारुणदूसहणेसु । 5
 णहालिफुरंतु गियच्छिउ सीहु ।
 गियच्छिय लच्छि सरोवरि णंहंति ।
 गियच्छिउ दामयजुम्मु णहत्थु ।
 गियच्छिउ तिब्बु तवतु दिणिदु ।
 गियच्छिय मच्छ चलंत वलंत । 10
 गियच्छिय कुंभ वरंभपउणण ।
 विहंगसिल्लिवयचक्खियणालु ।
 गियच्छिउ तामरसारंरं हुंदु ।
 गियच्छिउ वारिरउदु समुदु ।
 गियच्छिउ विट्टरु सीहणिविट्टु । 15
 अहीसरंमंदिरु मेरुसमाणु ।
 पहाइ अणूण मणीण य रासि ।
 महंतु जलंतु णहंतिगि मिलंतु ।
 पहायइ गंपि णराहिवगेदु ।

घत्ता—गियदइयहु देविइ वज्जरिउं जं जिह दंसणु विट्टुं ॥ 20
 तुह होसइ तणुरुदु परमजिणु तेण ताहि फलु सिट्टुं ॥ ५ ॥

5 १ A कवोलं २ P गइंद. ३ AP विसेसु विसेसु. ४ AP खंतु. ५ AP गुंत्यु. ६ A reads this line after चक्खियणालु below. ७ A भमंतु. ८ AP दहंति. ९ AP अलीरउ. १० A कालणसीलु: P कालणणीलु. ११ P रसायरु. १२ AP रवहु. १३ AP पणिद्वियदुदु. १४ AP अहीसरगेहु गिरिंदसमाणु. १५ A पलित्तु पवित्तु घिएण; P पदीवि पलित्तु घिएण. १६ A णहग्गामिलंतु.

5 1a सारयणीरयं शरन्मेषः; b पईहरपाणि प्रदीर्घशुण्डः. 2 a °मओलं मदप्रवाहः. 3 b बलाल बलवान्. 4 a विसेसविसेसु वृषभेशानां प्रधानः; विशेषोपलक्षितो वृषेशो वा; b डरंतु गर्जन्. 6 b णहालिं नखश्रेणी. 7 a गिसावइसेय चन्द्रवत् श्वेता उज्ज्वला. 8 a पसूयकरंबयगुंत्यु पुष्पसमूहैर्गुम्फितम्; b णहत्थु नभःस्थं खलम्. 9 a °तमीं रात्रिः. 10 a द्रंहंति हृदमध्ये. 11 a कुंभलएसु कुम्भमालाद्य. 12 a °पोमरयालु पद्मपरागयुक्तः; b विहंगसिल्लिवयं हंसशिश्युः. 13 b तामरसायरु कमलाकरः 16 a अच्छरणाहं देवाः. 19 a चिच्चि अग्निः.

6

पुरंदरणांरि हिरी धवलच्छि
पसाहिउ सोहिउ सीमहि गम्भु
हिमागमि संगमि माहि पवणिण
असेयहि छट्टिहि रत्तिविरामि
इहाहिवरूवधरो बलिरेहि
भुर्यंग णरामर मंदिरु आय
दहइ जि पक्ख सिणा दुहहार
गए सुमईसि महांदिसमेहिं
समायइ कत्तिइ कंदवियोइ
हुओ परमेसु सुहाइं जणंतु
पुणाइउ जीय जिणिंद भणंतु
पुरं पणवेवि णिवासि विसेवि
जिणम्महि हत्थि परं सिंसु देवि
पवज्जियदहं कंमकमियकुं
गओ गहमंडलु लंघिवि तांव

सिरी दिहि कंति पराइय लच्छि ।
रिदुंत्तिउ बुट्टुउ हेमवरंमु ।
णहे दहदिद्वलयम्मि पसाणिण ।
ससंकदिवायरसंगि सँकामि ।
थिओ मुणिणाहु समायरिदेहि । 5
रिहुच्छिण उच्छवि सुंक्रियमाय ।
घरंगणि पाडिय कब्बुरधार ।
असीदहक्रोडिसहासपमेहिं ।
अचंदिणतेरसि तर्ह्यजोइ ।
असंखसहांसु महामहवंतु । 10
णहं तुरपहिं गपहिं पिहंतु ।
सुहाहिययंतरि भत्ति करेवि ।
जगत्तयणाहु णवेवि लपवि ।
णिओइउ वारणु चल्लिउ सक्कु ।
सिला इणसिच्चणमेइणि जांव । 15

वत्ता—तहिं मेरुसिंगि संगिहिउ जिणु पाणिउ सुरयणु आणइ ॥
कल्हारपिहियघडसहसकरु सई पुलोमिपिउ प्हाणइ ॥ ६ ॥

7

वियाणिवि प्हाणिवि प्हाणविहई
पर्णाच्चिवि अग्गइ बालुं चलेहिं

पुणा अवथारु करेवि महांइ ।
थुणंवि सुरंइ गुणौलकुलेहिं ।

6 A °णारिहिं धी धवलच्छि. २ A उडुत्तिउ. ३ AP °संगमिकामि. ४ A सुंक्रिय. ५ A महमदिसमेहि. ६ A तट्टिय. ७ AT सुहासु. ८ APT जिणवहि. ९ A °दक. १० A कंमकमियकु.

7 १ AP read *a* as *b* and *b* as *a*. २ AP बालुवलेहि. ३ AP गुणाण.

6 २ *b* सीमहि मुमीमायाः; *b* रिदुत्तिउ ऋतुत्रयं पणमासाः. 3 *b* दहदिद्वलयम्मि दश-
दिशाचक्रे. 4 *b* ससंक चन्द्रः; दिवायरसंगि आदित्योदये. 5 *a* इहाहिवं गजरूपधरः; वलिरे हि
वलीशोभितं. 6 *b* रिहुच्छिण इन्द्रेण सह; *b* सुक्रियमाय सुष्ठु उत्तमा कृता माया त्रिक्रियाविभूतिथै-
नरामरः; अथवा सुष्ठु कृता स्वण्डिता माया थै. 7 *a* सिणा धनदेन; *b* कब्बुरधार सुवर्णधारा. 9 *a* कंद-
वियोइ मेघापगमे; *b* तट्टियजोइ त्वष्टृयोगे चित्रानक्षत्रे. 10 *b* असंखसहासु असंख्यदेवः; महासह-
वंतु महामहाः पञ्चकल्याणानि विद्यन्ते कार्यत्वेन यस्य स शक्रः. 12 *b* सुहाहिययंतरि बन्धुजनहृदयमध्ये.
13 *b* परो सिंसु मायाशिशुः. 14 *a* कंमकमियकु क्रमेण चरणेन आक्रमितः अर्कः येन; *b* णिओइउ
प्रेरितः. 15 *b* इणसिच्चणमेइणि जिनाभिषेकभूमिः. 17 पुलोमिपिउ पौलोमी शची तस्याः पतिः इन्द्रः.

7 2 *a* चलेहिं विशुचपलैः.

समथियउ मायहि पंकयणेत्तु
गयामयभोइ सवासपपसु
ण वण्णोइ सक्कंवि तासु कयाइं
सरासणयाहं सरीरपमाणु
समं णरडिभयणेण रमेवि
वयंकसमंकिउ सुण्णखउक्क
तओ तहिं पत्तु सयं सयमण्णु
दु पक्कु जि बिंदुय पंच जि देहि

सुलक्खणवैर्जेणरंजियगत्तु ।
पवहिउ तायहरम्मि जिणेसु ।
सयइ णिउत्तइं दोण्णिं सयाइं । 5
रईर विरेहर णं णवमाणु ।
इसीसमपुव्वहं लक्ख ममेवि ।
इणं पि दिणेहि पमाणु पदुक्क ।
कुमार णिवेसिउ रज्जि पसण्णु ।
पुणो वि सिसुत्तरसंख गणेहि । 10

घत्ता—इय पुव्वकालु पुहरंसरदु गउ सुहुं सिरि माणंतहु ।

विण्णवियउ ता किंकरंणरिण कर मउलिवि पणावेवि तहु ॥७॥

8

णराहिव दीहरपासणिरुदु
समुण्णयकुंभु णहग्गविलग्गु
तओ परिच्छित्तं दिव्वंणिवेण
ण विंमसरीजलकील मणोज्ज
ण कंदल मिट्ठु ण कोमलवेणु
करेणुरई करताडणु णत्थि
दहंकुसघट्टणु फौसणिरोहु
ण पक्कु इहिदु मय इह उत्तु
ण णिग्गर जग्गर किं पि ण मूडु
अहं पि हु मोहिउ किं परु मोक्खु
विणासिरु जाणिवि पेच्छमि लोउ
असासउं रज्जु असुंदर अंति

करीसरु वारिणिबंधणि बंधुं ।
धराहिव जाणवि तुम्हहुं जोग्गु ।
पमग्गियकेवलणाणसिवेण ।
ण सल्लइपल्लवभोज्ज ण सेज्ज ।
ण मग्गविलग्गिरवालकरेणु । 5
सफासवसेण विडंबिउ हत्थि ।
सहेइ वराउ वियंभियमोहु ।
अहो जणु दुक्कियदेहणि खुत्तु ।
सिरीमयणिहपरव्वसु मूडु ।
दुमाणवु वम्मविणिम्मिउ रुक्खु । 10
विरप्पेमि तो वि ण भुंजमि भोउ ।
ण इच्छमि अच्छमि गपि वणंति ।

घत्ता—तावायहिं लहुं लोयंतियहिं णाहदु वयणु समत्थियउ ।

अंबर धावंतहिं दणुयरिहिं चित्तचीरु णावइ थिय ॥ ८ ॥

४ AP °विजण°, ५ A ण वण्णहं सक्कमि; P ण वण्णवि सक्कमि. ६ AP सरीरु पमाणु. ७ P पंच जि बिंदुय. ८ P चयारि. ९ A °णरिणा.

8 १ AP वडु. २ A दिव्वु. ३ A पासणिरोहु. ४ AP वूडु. ५ A विरप्पवि. ६ AP समत्थियउ.

4 a अ म य भो इ अमृताशिनो देवाः. 8 a वयंकसमंकिउ व्रतानि पञ्च तैश्चिह्नितम्. 9 a सय मण्णु इन्द्रः. 10 a बु पक्कु जि बिंदुय पंच एकविंशतिलक्षाः; b सि सुत्तर संख शिशूत्तर संख्या राक्ष्यकालः.

8 1 b वारिणि बंधणि गर्तानिबन्धेन. 5 b °करेणु हस्तिनी. 8 a इ हिंदु गजेन्द्रः; b °दे हणि कर्मे; खु चु क्षितः 14 दणुयरिहिं दानवदेवैः.

9

गिरि ँ जलागमणं जलपहि
समच्चिउ लोयगुरु कुडपहि
सुवण्णमयाइ णरच्छिपियाइ
बणंतरु चारु पडुल्लियचारु
समाच्चिउ लोउ सिरे कउ लोउ
कोरपिणु छट्टु वि सुट्टु वरिट्टु
समट्टममासि जंगंतपयासि
दिणे असियम्मि सुतेरसियम्मि
विणिग्गउ हत्थु पडुइय चित्त
सुयाइं मुणेवि रयाइं धुणेवि
समं सकिवाइं सहासु णिवाइं

सुरेहिं पडु ण्हाविओ कुलपहिं ।
थुओ दुवईवयणुकुडपहिं ।
महिंदणियाइ गओ सिवियाइ ।
सकंकणु हारु पमोल्लिबि दोरु ।
भवण्णवपोउ विसुद्धतिजोउ । 5
पदिट्टसट्टु समासियणिट्टु ।
घणागमणासि हिमालपवसि ।
दिणेतसि जाम दुयालसियम्मि ।
अलंकिय तहिणि संजमज्जंत ।
महव्वय लेवि थिओ रिसि होवि । 10
तवंकिउ ताहं ण मच्छरु जाहं ।

घत्ता—बारहविहत्तवणिष्वाहणहि धम्मजोयर्परिरक्खहि ॥

पउमप्यडु वडुमाणणयरि देउ पडुट्टुउ भिक्खहि ॥ ९ ॥

10

णमोत्थु भणेवि गहीररवेण
तिणा तडु णिम्मल्लु भोयणु दिण्णु
णिहेलणि उगगैय अब्भुय पंच
गओ रिसि घोसिवि अक्खयदाणु
पमाय कसाय विसाय हरंतु
विह्वयतमोमयमंदकलंकि
सुच्चित्तहि चित्तइ चित्तविमुक्कु
परंदिसमासिइ वासरराइ

घरं णिउ सो ससियत्तणिवेण ।
मुणिंदणिहालाणि संच्चिउ पुण्णु ।
अहासवदारइं रुंभिवि पंच ।
सुंबंधु सुवेरि सुंणिच्चसमाणु ।
छमास विहिंडिउं वित्तु चरंतु । 5
चइत्तछणम्मि पउण्णससंकि ।
ददं माणि पूरिउ बीयउ सुक्कु ।
उइण्णउं केवलणाणु विराइ ।

9 १ A सुवण्णमियाइ. २ AP जगतपयासि. ३ A संजमज्जंत. ४ A णिष्वाहणउ. ५ A धम्म
६ P जोइपरिक्खहि. ७ A पयडुउ.

10 १ A ससिदत्त°. २ A भोयणु णिम्मल्लु. ३ A णिम्माय. ४ AP सबंधु. ५ A सवेरि.
६ P सुभिच्च°. ७ A विहंडिउ. ८ P उप्पण्णउं.

9 1 b कुलएहिं घट्टैः. 2 a कुडएहिं कुट्टजपुष्पैः; b दुवईवयणुकुडएहिं द्विपदी
छन्दोविशेषः तद्वचनेन उत्कटैः. ३ a सुवण्णमयाइ सुवर्णनिर्मितया. 5 a लोउ लोचः; b विमुद्धति-
जोउ विमुद्धवाङ्मनःशरीरयोगः. 6 b समासियणिट्टु समाश्रितचारित्रः. 7 b हिमाल° शीतम्. 8 b
जामदुयाल° यामद्वयम्.

10 1 b ससियत्त° सोमदत्तः. 2 b °णिहालाणि आलोकने. 3 b अहासव° पापाश्रव°. 4
6 b °छणम्मि पूर्णिमायाम्. 8 a परंदिसं पश्चिमदिशा; b विराइ विरागे वीतरागे.

विद्यासज्जालणचाहिवसगु
नमागड झंसि पवाहियपीलु

ग्रन्था—दह भावण वेंतर अद्वविह जोइस पंचविहाइ

सोलहविह कप्पणिवासिसुर जिणु पवंति गुणराइ

विमापयउ पवमि विवसु ॥

विडोउ सभिह सविउ सलीलु । 10

11

णमो अरिहंत णमो अरिहंत
णमो दयवंत णमो दयवंत
णमो बुहराम णमोहविराम
णमो गिरिधीर णमो गयसीर
णमो णियमाल सुपंकयमाल
फलाइं गसंतु जलाइं रसंतु
ण जे तवसीह अहो मुणिसीह
तुमं सुमरंति भवेसु मरंति
पणासियसासयसंपयमूलु
कुसंगु कुलिंगु कुसामि कुदेउ
वियंभउ णाणविलोयणसत्ति

ग्रन्था—णिव्वाणभूमिवररमणिसिरिचूडामणि पइं वर्णामि ॥

जहु कव्वपिसापं विणडियउ अप्पउ हँउं तणु मण्णामि ॥११॥

णमो विसयंत णमो विसयंत ।
णमोत्थु अमंत भंयंत भवंत ।
णमो गुणथाम णमोमियथाम ।
णमो ह्यमार णमो धुवमार ।
कयंघिसुसील महाकरिलील । 5
दलाइं वसंतु वणम्मि वसंतु ।
परत्तसिरीह गिरीस गिरीह ।
ण ते सुहि होंति मूंगेसु हि होंति ।
महं तुह धम्मसिरीणडिकूलु ।
कुपत्ति कुमितु म जमिमि विहोउ । 10
सुणिच्चल होउ तुहुप्परि भत्ति ।

12

थुणेप्पिणु एम गुणोहु जिणेसु
चउदिसु उब्भिय सोहिय खंभ

तओ तियसेहिं कओ तहु वासु ।
चउदिसु सारसरावसरंभ ।

१ P ताव.

11 १ AP अरहंत. २ A णमोत्थु भयंत. ३ P कलंघि°. ४ A मिगेसु; P मगेसु. ५ A सिरचूलामणि. ६ A मण्णामि. ७ A तणु हउं.

9 b °बा रियमगु मेघमार्गः. 10 a पवाहिय° प्रेरितः; b विडोउ विडौजा: इन्द्रः.

11 1 a अरिहंत अर्हन्नाथ; अरिहंत कर्मारिघातक; b विसयंत श्रेयवस्तुपर्यन्त; विसयंत विषयविनाशक. 2 a दयवंत दयायुक्त; अदयवंत अदया वान्ता छर्दिता येन; b अमंत अभ्रान्त; भयंत भदन्त मुने; भवंत भयविनाशक. 3 a बुहराम पण्डितमनोज्ञ; अहविराम पापास्तक; b गुणथाम गुणनिलय; अमियथाम अनन्तवीर्य. 4 a गिरिधीर गिरिवद्वैर्ययुक्त; गयसीर हल्लरहित; b ह्यमार निर्जितकाम; धुवमार ध्रुवलक्ष्मीदायक. 5 a णियमाल नियमसहित; सुपंकयमाल शोभनपङ्कजमालाशोभित; b कयंघिसुसील कृता अंग्रिणु सुशीला यतयः प्रणता येन. 13 तणु मण्णामि तृणवन्मन्ये.

12 1 b वासु समवसरणम्. 2 b सारसरावसरंभ सारसशब्दयुक्तानि सरीगतानि अम्भांसि जलानि.

चउहिसु दारैरं गोउरयाहं
 चउहिसु पायववेह्लिहरैरं
 चउहिसु दीसइ सम्मुहुं देउ
 चउहिसु भावलउब्भु तेउ
 चउहिसु छत्तइ पंडुरयाहं
 चउहिसु अट्टमहाधयपंति
 चउहिसु पुंडुहिसइ घडंति
 असेसहं भासविसेसहं खाणि

चउहिसु वेइयमंदिरयाहं ।
 चउहिसु थूरं दिव्वेघराहं ।
 चउहिसु आसणु सीहसमेउ । 5
 चउहिसु पल्लवरत्तु असोउ ।
 चउहिसु सुम्मइ चामरयाहं ।
 चउहिसु पुष्पचयाहं पडंति ।
 चउहिसु इत्तुयाउं णडंति ।
 चउहिसु तस्स वियंभइ खाणि । 10

घत्ता—तच्छाहं सत्त वह धम्मविहि णव पयत्थ छहद्व्वंइ ॥

आहासइ परमप्यउ जणहु सव्वंइ भूयइ भव्वंइ ॥ १२ ॥

13

खपक्कु पुणेक्कु गणेसवराहं
 तिब्बिदुय रंध रिउदुयजुत्त
 सहासइ दसेव य ओहिजुयाहं
 सहासइ सोलह अट्टसयाहं
 महामणपज्जयणाणधराहं
 सहासहं उप्परि रंधसमाहं
 सहासइ वीस पयोणिहि लक्ख
 वयत्थघरत्थहं तासु तिलक्ख
 तिरिक्ख ससंखै सुरा वि असंख
 समासिवि धम्मु पंधंसियदुक्खु

दुसुण्णइ तिण्णिण दु पुव्वधराहं ।
 जिणंदहु पसिय सिक्खंपउत्त ।
 दुवालस ते च्चिय सव्ववियाहं ।
 विउव्वणरिद्धिरिसिंदहं ताहं ।
 धुवं तिसयंकिउ सउ जि सयाहं । 5
 खजुम्मु सडंक्कु वि वाइवराहं ।
 वियाणहि संजमधारिणिसंख ।
 अणुव्वयणारिहिं पंच जि लक्ख ।
 पणासिवि राइरईसुहकंख ।
 छमासविहीणउं पुव्वहं लक्खु । 10

घत्ता—संमेयहु सिहंरि समारुहिवि मासमेत्तु थियउ जोएं ॥

जिणु अंतिमु झाणु पराइयउ सहं मुणिवरसंधापं ॥ १३ ॥

12 १ P दाविय. २ A वेह्लिवणाह. ३ A दिव्वयराहं. ४ P जक्खकरे. ५ AP इंदतियाउ.
 ६ A तासु. ७ A धम्मविह. ८ P छदव्वंइ. ९ A सव्वभूरभूयइ भवइ.

13 १ A सिक्खय उत्त. २ AP अणुव्वयधारिहिं. ३ A सुसंख. ४ A रायरईसुह^०; P णारि-
 रईसुह^०. ५ A पहंसिय^०. ६ A सिहक.

6 a भावलउब्भु तेउ भामण्डलोद्भूतं तेजः. 6 b इंदतुयाउ देवाङ्गनाः. 10 b वियंभइ
 विजुग्भते.

13 1 a ख शून्यम्. 3 b सव्व वियाहं केवल्लिनाम्. 9 b राइरईसुहकंख रात्रिरति-
 सुसकाशाम्.

महम्मामि फग्गुणपक्खि सुक्किहि
 स णाणसरुवु तिदेहविमुक्क
 ण कण्हं ण पीउ ण लोहिउ सुक्क
 ण पुंसें ण संदु ण भण्णइ इत्थि
 दुब्बो परमेसरु अट्टगुणदु
 सिहिंदसिरोमणिमुक्कसिहीहिं
 पैमंसिधि सिद्धणिसीहिययसि
 गभो पविहारि समीरवहेण

संचित्तवउत्थितिहीभवरणि ।
 जगगाधैरिचिं जाइवि थक्क ।
 ण लाइवु तासु ण वत्थि गुरुक्क ।
 फुरंतसकेवलबोर्हगमत्थि ।
 सरीरु सलक्खणु तक्खणि द्दु । 5
 समणवदणहोमविहीहिं ।
 पपहिं णिभोइउ कुंजरु इत्थि ।
 सुरण्ण वि अण्णविमाणुमहेण ।

घसा—महुं तूसउ भेरहभव्वणमिउ पउमप्पहुं णिहयावर ॥

तिजगिंददु केरउ पम जसु पुप्फयंतु को पावर ॥ १४ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकरपुप्फयंतविराप
 महाभव्वभरहाणुमण्णिणय महाकव्वे पउमप्पहणिव्वाणगमणं
 णाम तियालीसमो परिच्छेभो समसो ॥ ४३ ॥

॥ पउमप्पहचरियं समसं ॥

14 १ A महम्मामि. २ A उचित्त. ३ AP जगगाधरिचिहि. ४ A किप्प. ५ A ण पुंसउ
 संदु ण. ६ A बोधगमत्थि. ७ A समंचिवि. ८ AP भव्वभरहं. ९ A पउमप्पउ; P परमप्पहु
 १० AP omit the line.

14 1 a मह ग मि माघे गते; b स चित्तं चित्रासहितायाः. 2 a ति दे ह वि मुक्क औदारिक
 तैजसकार्मणदेहत्रयविमुक्तः. 6 a सि हिं दं भमिः. 9 a प वि हा रि इन्द्रः; b सुरण्ण वि अन्येऽपि सुराः;
 अ ण्ण वि भा णु म हे ण चन्द्रादित्यतेजसा, अर्णवस्यापत्यं आर्णविक्षन्द्रः. 10 पु ष्फ यं तु चन्द्रसूर्यादिकः.

अगाहियअसिपासहु गयदप्पासहु पासाइयबम्महजयहु ॥
तोडियपसुपासहु णविवि सुपासहु पासियपासंडियणयहु ॥ धुवकं ॥

1

गिरायसं महाजसं	गिरंजसं समंजसं ।	
अमोसयं गिरंजणं	सुवच्छलं गिरंजणं ।	
पुंहुं गुरुं गिरासवं	तवोणिहं गिरासवं ।	5
असंगयं गिरंवरं	मयप्पमाणियंवरं ।	
अमंदिं णयालयं	वियक्खणं णयालयं ।	
मुणीसरं गिरामयं	समोसहं गिरामयं ।	
अलं कुलेण उत्तमं	सणाणपण णित्तमं ।	
जिणाहिबेसु सत्तमं	णमंसिऊण सत्तमं ।	10
जयाहियं जईहियं	भणामि तस्स ईहियं ।	

घत्ता—णररणकरंडइ धादइसंडइ पुव्वविदेहि पुव्वगिरिहि ॥
हिमजललवसीयहि उत्तरि सीयहि कच्छउ देसु महासरिहि ॥ १ ॥

2

तेत्थुं सत्तभूयलसउहयलहि चूलाकलसलिहियंवोमयलहि ।
पाणियपुरियपविमलपरिहहि कोट्टालयणच्चियवरिहहि ।

1 १ P महायसं. २ A परं; P पुरं. ३ AP तवोणिहिं. ४ A णियालयं. ५ P reads *a* as *b* and *b* as *a*. ६ A धायह°. A उत्तरसीयहि.

2 १ P तत्थ. २ A °णिहिय°. ३ P वरिहहि.

1 1 गयदप्पासहु गते दर्पाशे यस्य; पासाइय° पाशायिनो नियन्त्रितः अथवा प्रकर्षेणास्वा-
दितोऽनुभूतः. 2 पासिय° प्रक्षिप्तः. 3 गिरायसं निर्गतारागसुखम्, रागो दोषस्तस्य निष्क्रान्तं वा;
b गिरंजसं परमार्थभूतम्; समंजसं अकुटिलम्. 4 *a* अमोसयं अमृषावादिनम्; गिरंजणं अपापम्;
b पुंहुं महान्तम्; गुरुं हितोपदेशदायकम्. 5 *a* गिरासवं निराशान् सुनीन्यातीति निरासयस्तम्; *b* गिरासवं
कर्माश्रवरहितम्. 6 *a* असंगयं अपरिग्रहम्; 6 *b* मयप्पमाणियंवरं मयो ज्ञानं तेन प्रमाणितं परिच्छिन्नं
अम्बरमाकाशं येन. 7 *a* णयालयं पर्वतालयम्; *b* णयालयं सप्तप्रकारैः नवप्रकारैश्च नवर्युक्तम्. 8 *a*
गिरामयं रोगरहितम्; *b* समोसहं उपशमौषधम्; गिरामयं रामारहितम्. 9 *a* अलं अतीव;
b सणाणएण केवलज्ञानेन; णित्तमं अज्ञानतारहितम्. 10 *a* सत्तमं सर्वेभ्योऽतिशयेन प्रशस्तम्; *b* सत्तमं
सत्तमं जिनाविषेषु सुपार्श्वम्. 11 *a* जयाहियं जगत आसमन्तादधिकं हितं वा; जईहियं यतीभिरोपितम्.

2 1 *a* °सउहयलहि °सौभतलायाम्; *b* °वोमयलहि °वोमलतायाः. 2 °णच्चियवरिहहि
नर्तितस्युरायाम्.

णाणवणवणरुकीलियखयरिहि
महि भुंजेवि सुइरु णिव्वेइउ
धणवइणामहु णामसमाणहु
अरहंतहु स्तिरिणंदणसामिहि
एयारह अंगहं अवगाहिवि
पावपडलपसरणु आउंचिवि
दीहु काळु तवु तिव्वु तवेप्पिणु
पाणिंदियसंजमु अविराहिवि
चउविहु पक्खखाणु लपप्पिणु

णंदिसेणु पेहु खेमाणयरिहि ।
लच्छिभारु णियतणयहु ढोरउ ।
णरवम्मीसहु विहुंसुमबाणहु । 5
पासि लइउ वउ सिवपयगामिहि ।
अण्यउं सीलगुणेहिं पसाहिवि ।
तित्थयरत्तु पुण्णु संसंचिवि ।
हियवउ जिणकमकमलि थवेप्पिणु ।
आराहंणभयवइ आराहिवि । 10
णंदिसेणु मुणिणाहु मरेप्पिणु ।

घत्ता—मज्झिमगेवज्जहि संभवसेज्जहि चंदकुंदसंणिहंरुइरु ॥

महामरमंदिरि णयणाणंदिरि संजायउ अहमिंदु सुरु ॥ २ ॥

3

दुरयणितणु लोयणइं अणिइंइं
तेत्तिपैहिं सो वरिससहासहिं
अक्खिउ भिक्खुवरेहिं जियक्खहिं
कालं तं तहु आउ विणिट्ठिउ
उहुंमासाउसु थक्कउ जइयहुं
जंबुदीवि बहूदीवणिवांसइ
सरयसलिलहरससहरसियगिहि
परमारिसरिसहणवजायउ
तासु अत्थि पूयं प्राणपियारी
ताहं बिहिं मि होसइ तित्थंकरु
ताहं बिहिं मि करि तुहु जं जोग्गउ
ता जक्खे तं तेम समारिउ

आउ वि सत्तावीससमुइइं ।
भुंजइ अणु णियमणविण्णासहिं ।
णांससइ जि तेत्तियहिं जि पक्खहिं ।
कालं तिहुयणि किं पि ण संठिउ ।
अक्खइ सुरवइ धणयहु तइयहुं । 5
भारहवारिसइ कासीवेसइ ।
वाणारसिपुरि सुरपुरसांणहि ।
सुपइइउ णामं महिरायउ ।
पुहइसेण णामेण भडारी ।
देवदेउ जिणु पावखयंकरु । 10
पट्टणु भवेणु भोयसुहुं वंगउं ।
रयणविच्चित्तु णयरु वित्थारिउ ।

४ P णिव्वेइयउ. ५ AP विक्कमठाणहु. ६ P अरिहंतहु. ७ A अलुंचिवि. ८ A तित्थयरत्त पुणु;
P तित्थयरत्तु गोत्तु. ९ P आराहणा. १० AP °संणिहु. ११ P अहिमिंदु.

3 AP अणिदइं. २ P तेत्तीयहि जि सु. ३ A छम्मासाउसु. ४ AP °दीवणिवेसइ. ५ A
सुरपुरि°. ६ A °सुरिसहं णयजायउ. ७ AP पिय पाण°. ८ A भोयभवणु सुहुं.

5 a णामसमाणहु अन्वर्थेनाम्नः. 8 a आउंचिवि संकोच्य; b संसंचिवि सम्यक्प्रकरणे संचित्य.
12 संभवसेज्जहि उत्पत्तिशिक्षासंपुटे.

3 1 a अणि इइं निद्रारहितानि. 2 b अणु स्तोकम्; णियमणविण्णासहिं संकल्पप्रवृत्ति-
विशेषैः. 3 a जियक्खहिं जितेन्द्रियैः. 5 a उहुंमास° षण्मासाः. 8 a परमारिसरिसहणव°
परमर्विद्वेषभाष्ये.

घत्ता—तुंगियहि विरामह पच्छिमजामह बालमराललीलगाह ॥
मणिमंवर सुत्तिह ढंकियणेत्तह दीसह सिविणावलि साह ॥३॥

4

दीसह पीणपाणि सुरपूणउ
दीसह मंगुरु णहरक्केरउ
दीसह दिग्गयवरसिचिय चल
दीसह जोउसु जोणहावासउ
दीसह पाढीणहं मिहुणुल्लउ
दीसह वियसिउ बंभहरायरु
दीसह पीडु सीहरूवालयउ
दीसह गेयमुहलु विसहरघरु
दीसह जायवेउ जालाहरु

दीसह सरं मुयंतु उच्छाणउ ।
कंठीरवु करिकुंभविसारउ ।
दीसह सुसुमणमाल सपरिमल ।
दीसह उग्गमंतु णहि पूसउ ।
दीसह ससलिलु कुडैजुयलुल्लउ । 5
दीसह सरिवह सरयरभीयर ।
दीसह घंटारवु तियसालउ ।
दीसह रयणरासि पसरियकरु ।
इय जोशवि जाइवि रायहु घर ।

घत्ता—जं जिह मणलालिउं णिसिहि णिहालिउं तं तिह दइयहु भांसियउं ॥ 10
तेण वि तहि तुट्टे पत्थिवजेट्टे सिविणयफलु उवर्पसियउं ॥ ४ ॥

5

होही सुंदरि तुह सुउ तेहउ
जासु कित्ति लोयंतु पधावर
बारहपक्ख जांव ससिवासहु
सोच्चठाण गहयण सुहविट्ठिहि
वड्ढंतेण विसाहारिक्खे
गयरूवे विम्हांवियसिट्ठिहि
घरु आवेप्पिणु खणि सुत्तामं
गउ देवाहिउ देवावासहु

को वि ण दीसह जंमि जं जेहउ ।
णाणु अलोयंतु वि इरिसावर ।
भूरिचंडु णिवड्डिउ आयासहु ।
भइवयहु मासहु सियछट्ठिहि ।
सुमुहुत्तेणुप्पाइयसोक्खे । 5
हुउ गम्भावयारु परमेट्ठिहि ।
गुरु गुरुयणु अंचिउ जसरामं ।
पय वंदंवि भावे देवेसहु ।

4 १ AP सुरपूणउ; K सुरपूणउ and notes a p: पूर्णो वा पाठः. २ A सर. ३ P वियडदाहु सिविणयकंठीरउ. ४ AP सुमणसमाल. ५ A उग्गवंतु. ६ Δ जुयलुल्लउं. ७ A कुंभमिहु-
णुल्लउं. ८ P सीहरूवालयउ. ९ P मणलालउं. १० P भासिउं. ११ AP उवएसिउं.

5 १ A जं जमि जेहउ; P जमि जं जेहउ. २ AP विभाविय. ३ A वंदिवि; P वंदिय.

13 तुंगियहि रात्र्याः.

4 1 a सुरपूणउ सुरगजः; b उच्छाणउ उक्षा बलीवर्दः. 3 a चल लक्ष्मीः. 4 a जोउसु
चन्द्रः; b पूसउ सूर्यः. 5 b कुडजुयलुल्लउं कुम्भयुगलम्. 6 a बंभहरायरु कमलसरः; b सरिवह
समुद्रः. 9 a जायवेउ जातवेदाः अग्निः. 10 मणलालिउं परिभावितम्. 11 जेट्टे प्रधानेन.

5 3 a ससिवासउ चन्द्रग्रहात्, आकाशादित्यथैः; b भूरिचंडु सुवर्णम्. 6 a सिट्ठिहि
जगतः. 7 a सुत्तामं इन्द्रेण; b जसरामं यदासा मनोहरेण धवलेन वा.

घत्ता—णरणाहहु केरइ हरिसजणेरइ णव मासइ त्सवियजणु ॥
जंबुण्णयधारहिं दुहमलहारहिं घरि बुद्धउ वइसर्वणु घणु ॥५॥ 10

6

जयडिडिमि दंडेण समाहइ
सायरसमहं पमाणे लइयहं
कालपमाणे संखहि आयउ
पसवणु देवहु जांइ सुहासिइ
सामरु सच्छरु सधउ सवारणु
अम्महि अवरु डिंभु संजोइवि
सिंचिउ सुरागिरिसिरि सुररायहिं
सुहतणुपासु सुपासु पकोक्किउ
पुज्जिवि वंदिवि णिउ सणिकेयंहु
देउ पियंगुपसवसरिसण्णहु

णिव्वुइ पउमप्पहि पउमाहइ ।
णवसहासकोडिहिं गय जइयहं ।
तइयहुं तहिं वइसाहहु जायउ ।
वारसिवासरि जेड्ढाभूसिइ ।
पुणु संपांइउ सो हरिवाहणु । 5
णिउ हरिणा जगगुरु उच्चाइवि ।
मुहवियलियसिवणिवसंघायहिं ।
सयमहु थोसु करंतउ संकिउ ।
पहु करपंकइ णिहियउ तायहु ।
दोधणुसयपमाणु माणावहु । 10

घत्ता—जे^१ णाहतणुत्तणु गय दिव्वत्तणु ते^२ तेत्तिय परिमाणु भणु ॥
जे^३ तेणं समाणउं रुवपहाणउ अण्णु ण दीसइ को वि जणु ॥६॥

7

खेळंतहु दरिसियसिसुलीलहु
णाहु सुणासीरे^१ खीरोहे^२
रायलच्छिदेविइ अवरुंडिउ
तित्ति ण पूरइ भोयहं दिव्वहं

पंचलक्ख पुव्वहं गय बालहु ।
पुणु ष्हंविथउ पुव्वुत्तपवाहे^३ ।
थिउ णरवइ णयंसत्तिइ मंडिउ ।
चउदहलक्ख जांव गय पुव्वहं ।

४ P वइसवणघणु.

6 १ P डंडेण. २ A चंदसुहासिइ. ३ A जेड्ढपभूसिइ. ४ A सवाहणु. ५ AP संपाइउ.
६ P सणिकेवहु. ७ A जो णाह^०. ८ A तो तेत्तिय^०; P तेत्तिओ जि. ९ A जेणु समाणउ; P तं
तेण समाणउं.

7 १ खेळंतहु. २ P सुणासिरेहिं. ३ A ष्हाविथउ. ४ A णिवसत्तिइ.

10 जंबुण्ण य^० जाम्बूनदं सुवर्णम्; घणु मेघः.

6 1 b पउमाहइ रक्तकमलाभे. 3 b वइसाहहु विशाखानक्षत्रम्. 4 a पसवणु संभवः
उत्पत्तिः; सुहासिइ सुधाश्रिते चन्द्रे. 7 b सिवणिव जलघटाः. 8 a सुहतणुपासु शोभने उभये तनु-
पार्श्वे यस्य. 10 a ^०पसव^० पुष्पम्; b माणावहु मानापघाति. 11 ^०तणुत्तणु शरीरत्वम्; दिव्वतणु
दिव्यस्वरूपम्.

7 2 a सुणासीरे इन्द्रेण. 3 a अवरुंडिउ आलिङ्गितः; b णयसत्तिइ नयशक्तिभ्याम्.
4 a सित्ति वृत्तिः.

तावेकहिं दिणि उडुपल्लइउ
काले कालु वि जेण गिलिज्जइ
जांवि थांवि पावज्ज लपप्पिणु
पमं बुहाहिव तुज्जु जि छज्जइ

घत्ता—जणु तिइइ छित्तउ भमइ पमत्तउ पावइ जम्मि जम्मि मरणु ॥

पइं मुइवि भडारा तिहुयणसारा एंव हणइ को जमकरणु ॥७॥ 10

8

पुणु पाईणैबरिहि संपत्तउ
विहिउ तेणं लहुं सिवियारोहणु
जेइहु मासहु पक्खि वलक्खइ
खत्तियदहसएहिं संजुत्ते
छहुववासु करिवि कयकिरियहु
तेत्थु महिंददत्तणररापं
तहु घरि तिर्यसणिघोसणिणायइं
णववरिसइं छउमत्थु हवेप्पिणु
पुणु सहेउवाणि मूलि सरीसहु
णाणावाहणवलइयपायउ

घत्ता—उट्टंतपडंतहिं पुरउ णडंतहिं णविउ णाहु पंजलियरहिं ॥

दहविहअट्टविहहिं पुणु पंचविहहिं सोल्लेहविहहिं वि सुरवरहिं ॥८॥

जिणु कल्लाणण्हाणि अहिसित्तउ ।
दुक्खु सहेउयंकु णामे वणु ।
बारिसिदिवसि संसंभवरिक्खइ ।
लइय दिक्ख भुवणुत्तमसत्ते ।
सोमखेडपुरवरु गउ चरियहु । 5

पाराविउ णवेवि अणुरापं ।
पंचच्छेरैयाइं संजायइं ।
अच्छिउ जिणु जिणकपु वैरेप्पिणु ।
पंचमु हुयउ णाणु तिजगीसहु ।
देवलोउ णींससु वि आयउ । 10

9

पेइं थुणंति रिसि अमर सविसहर
एक्कु जि फलु जइ भक्ति समुज्जल

माणुस अम्हारिस वि णिरक्खर ।
लइं पुणु हियवर सा णउ णिम्मल ।

५ P ताम भणहिं सुर. ६ A एहु. ७ A तेहुउ. ८ AP जम्मजरामरणु. ९ P सुरवरसारा.

8 १ T records a *p*: दाणवरिउवइ इति पाठेऽपि इन्द्रः. १ A तेहिं. २ P बारिसिदिवसि.
३ A संभवरिक्खइ; P संभवरिक्खइ. ४ A णिघोसणिणायं. ५ A पंचच्छेरियाइं ता संजायइं. ६ AP
छम्मत्थु. ७ A वहेप्पिणु. ८ P adds after this: फग्गुणि किण्हि पक्खि छट्ठियदिणि, भे विसाहि
पच्छिमसमुहइ दिणि. ९ AP सरीसहु. १० P अंजलिकरेहिं. ११ A विहहिं सुरवरहिं; P विहहिं
वि सुरवरेहिं.

9 १ A संयुणंति. २ AP जइ.

5 A उडुपल्लइउ नक्षत्रपतनम्; 6 सम ग्गि स्वमार्गे रत्नत्रये. 8 a छज्जइ शोभते. 9 तिइइ तृष्णया.
10 जमकरणु यमभृत्या रोगाश्च.

8 1 a पाईणैबरिहि प्राचीनवर्हीरन्द्रः. 3 b संभवरिक्खइ जन्मनक्षत्रे विशाखायाम्.

9 2 b सा भक्तिः.

तां अच्छउ पढंतु थुइलकखइं
कैहउ सक्कु फणिराउ सरासइ
जइ तो किं वायइ वणइ जइ
देव तुहारी हयदुहवेह्लिहि
अट्टु वि पाडिहेर थिय जांवहिं
भासइ धम्मु भडारउ जेहउ
पालइ को वि कहिं मि जइ सूरउ

पावउ मुहवायामें दुक्खइं ।
तुह गुणरासिहि छेउ ण वीसइ ।
जलहिमाणि किं आणिज्जइ घट्टु । 5
भत्ति मूलु आसिद्धि सुहेह्लिहि ।
समवसरणि आसीणउ तांवहिं ।
भासहुं सकइ को वि ण तेहउ ।
णासइ णिट्टुहि जणु विवरेरउ ।

घत्ता—पाणिर्वह पमेह्लह अलिउं म बोह्लह दव्खु परायउ मा हरह ॥ 10
परदार म माणह धणु परिमाणह रयणिहि भोयणु परिहरह ॥९॥

10

पंव भणिवि संबोहिय मणहर
बिणिण सहस भासिय तीसुत्तर
बिणिण लक्ख चालीससहासइं
अवर वि वीस जि सिक्खुय साहिय
णव जि सहासइं ओहिविबोहंहं
सय्यं तिणिण सहसइं पण्णारह
सोत्तसर्माणसहासपमाणहं
वसुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं
लक्खइं तिणिण तीससहसालइं
सागारहं वि लक्खु गुणगुत्तिहि

पंचणवइ संजाया गणहर ।
अंगसपुव्वंधारि तहु मुणिवर ।
चउसहसइं णवसयइं विमीसइं ।
जे णीरंजणेण णिव्वाहिय ।
सहसेयारह पंचमबोहंहं । 5
विकिरियालहं रिसिहि सुहीरंहं ।
पण्णासुत्तर सउ मणजाणहं ।
सुद्धसुरूवदेसकुलजाइहिं ।
विरयंहं णारिहिं लुच्चियवालइं ।
वयंगुणियाइं ताइं तप्पत्तिहिं । 10

घत्ता—तियसेहिं असंखहिं संखतिरिक्खहिं सहुं दुच्चरियइं खंडिवि ॥
णववरिसविहीणउ जयविजयाणउ पुव्वलक्ख महिं हिंडिवि ॥१०॥

३ A तो. ४ AP कहइ. ५ AP जलहिमाणु. ६ A आसुद्धि. ७ A कहिं मि को वि. ८ AP पाणिवहु. ९ P परदार. १० P परियाणह.

10 १ A दोणि. २ A अंगसुपुव्वधारि; P अंगपुव्वधारिय. ३ A ओहिविमोहंहं. ४ P सयाइं. ५ P सुधीरंहं. ६ P °समारण°. ७ A विरइयणारिहिं. ८ P लुच्चियकुल्लहिं. ९ A वयगणि-याइं. १० P मंडिवि.

3 b सुहवायामें मुखकष्टेन. 6 b आसिद्धि सिद्धिपर्यन्तम्; सुहेह्लिहि मुखपरंपरायाम्. 8 b भासहुं भाषितुम्. 9 b णिट्टुहि विवरेरउ अनुष्ठानात् विपरीतश्चारिवशून्यः.

10 4 b णीरंजणेण भगवता तीर्थकरेण; णिव्वाहिय संसारनिस्तारिताः. 6 b सुहीरंहं सुधीराणाम्. 7 a सोत्तसमाणसहस नव सहस्राणि. 8 a वसु° अष्ट°; रिदुसयइं षट्शतानि. 9 b लुच्चियवालइं लुच्चितकेशानि.

महियमहिउ महमहियाणंगउ
 संमेयहु जाइवि गिरिधीरउ
 फग्गुणमासि कालंपक्खंतरि
 सूरुग्गामि वुहदेवहं देवें
 णिट्टिउ अट्टमवैसुह पदुक्कउ
 चंदणकहमेण पव्वालिय
 दिर्णणी मउडाणलजालोलिय
 वंदिवि भर्षप पावणिष्णासउ
 णायारूढउ कहइ णयंगहं

घत्ता—जहि भरहजिणेसहु णाणु सुपासहु पसरइ देवहु केवलहि ॥ 10
 तहि वाइ ण वायउ ण तमु ण तेयउ पुष्पदंतकिरणावलहि ॥११॥

सहुं सीसेहिं समाहिवसंगउ ।
 तीस दिर्यह थिउ मुक्कसररीरउ ।
 साणुराहि सुहसत्तमिवासरि ।
 णिक्किरियत्तु पत्तु विणु खेवें ।
 गउ सुपासु पासेहिं विमुक्कउ । 5
 पउलोमीसें मालेहिं मालिय ।
 चिच्चिकुमारें तणु पज्जालिय ।
 णायणाहु गउ णायावासउ ।
 पवणवरुणवइसवणपयंगहं ।

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहय
 महाभव्वभरहाणुमण्णिण महाकव्वे सुपासणिष्वाणगमणं
 णाम चउयालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४४ ॥

॥ सुपासचरियं समत्तं ॥

11 १ AP दिवह. २ P कालि पक्खंतरि. ३ A अट्टमिवसुह. ४ AP पोलोमीसें. ५ A मालहमालिय. ६ P मणिमउडाणलेण जालोलिय. ७ P चच्चिकुमारिहिं. ८ A भव्व. ९ AP पुष्पयंत°. १० A सुपासजिणिव्वाण. ११ AP omit this line.

11 a महियमहिउ पूजितैः पूजितः; महमहियाणंगउ तेजसा मथितः कामो येन. 3 a साणुराहि अनुराधानक्षत्रसहिते. 4 b णिक्किरियत्तु व्युपरत्तक्रियानिर्वर्ति चतुर्थध्यानम्; विणु खेवें शीघ्रम्. 5 a णिट्टिउ मुक्तः. 6 a पव्वालिय प्रलितः. 8 b णायणाहु स्वर्गपतिः. 9 a णायारूढउ गजारूढो देवेन्द्रः; णयंगहं नताङ्गानां विनीतानाम्.

णित्सेइयभरिचंदहु वयणचंदजियचंदहु ॥
पणविवि कुवलयचंदहु चंदप्पहहु जिणंदहु ॥ धुवकं ॥

1

णियंगरस्सीहिं तमं विणीयं	सुयंगउत्तीहिं जयं विणीयं ।
कयं कयत्थं किर जेण णिच्चं	णमंति जं देववई वि णिच्चं ।
अतुच्छलच्छीहलकप्पभूयं	उदारचित्तं गुणपत्तभूयं ।
दयावरं पालियसव्वभूयं	गिराहिं संबोहियरक्खभूयं ।
ण जं पियालीविरहे विसण्णं	मुणिं महंतं विमलं विसण्णं ।
विसुद्धभावं विगयप्पमायं	परं परेसं परिस्त्रीणमायं ।
णिहीसरं जं महियंतरायं	परज्जियाणंतदुरंतरायं ।
पबुद्धदुक्कम्मविवायवीलं	विइण्णदुव्वाइविवायवीलं ।

A has, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

वापीकूपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्कारितं
भव्यश्रीभरतेन सुन्दरधिया जैनं सुराणां (पुराणं) महत् ।
तत्कृत्वा प्रवमुत्तमं रविकृतिः (?) संसारवार्धेः सुयं
कोन्यत् (?) स्वसहसो (?) स्ति कस्य हृदयं तं वन्दितुं नेहते ॥ १ ॥

This stanza is not found in any other known MS. of the work.

1 १ A अरविंदहु; P अरिचिंदहु. २ A दयावरं. ३ A संबोहियसव्वभूयं; T records a p सव्वभूयमिति पाठे सर्वभूकं सर्वभूमिकम्. ४ P मुणीमहंतं. ५ AP परिस्त्रीण°. ६ A दुव्वायविवाय°.

1 1 a °अ रि वं द हु °शत्रुवृन्दस्य. 3 a णि यं ग र स्सी हिं निजशरीररदिमभिः; वि णी यं विना-
शितम्; b सु यं ग उ त्ती हिं शोभनद्वादशाङ्गयुक्तिभिः; c ज यं वि णी यं जगद्विनीतं विनयप्रधानं कृतं कृतार्थं
च कृतम्. 4 a किर निश्चयेन; b दे व व ई देवपतयः. 5 a क प्प भू यं कल्पवृक्षं संजातम्; b गु ण प त्त-
भू यं गुणानामेव पात्रं भाजनम्. 6 a पा लि य स व्व भू यं रक्षितसर्वजीवम्; b सं बो हि य र क्ख भू यं संबो-
धितराक्षसभूतम्. 7 a पि या ली वि र हे प्रियसखीवल्लभभार्यावियोगे; ण वि स ण्णं न विपादः कृतः 7 b
वि स ण्णं विनष्टाहारमैथुनपरिग्रहसंज्ञम्. 8 a वि ग य प्प मा यं विगतपञ्चदशप्रमादम्; b परं उल्लुष्टम्; परं सं
जगत्स्वामिनम्; परि स्त्री ण मा यं मायारहितम्. 9 a णि ही सरं समवसरणे ये निधयस्तेपामीश्वरम्; म हि यं त-
रा यं मथितान्तरायकर्माणम्; b पर जि ये त्या दि दुःखे नान्तो यस्यासौ दुरन्तः पराजितोऽनन्तो दुरन्तो रागो
येन. 10 a °वि वा य वी लं कर्मविपाकपीडम्. b वि इ ण्ण दु व्वा इ वि वा य वी लं विशेषेण दत्ता दुष्टवादिनां
वादे श्रीडा पीडा वा येन.

सुसञ्चतञ्चंगवियारणासं
सदित्तियाभक्खरभाँवहारं
पुरंदरालोयणजोगगत्तं
णिवारियप्पव्वहसेलपायं
खगिंदेदिंदमुणिंदधेयं
भणामि तस्सेव पुणो पुराणं
घत्ता—अमलइ अत्थरसालइ
अइमु जिणवरु पुज्जमि

अणंगसिंमारवियारणासं ।
भवोहसंभूइभयावहारं ।
समुज्झियाहम्मदुपंकगत्तं ।
फणिदच्चूडामणिधट्टपायं ।
णमामि चंदप्पहणामधेहं । 15
गणेशगीयं पवरं पुरा णं ।

वयणणवुप्पलमालइ ॥
पउंरु पुण्णु आवज्जमि ॥ १ ॥

2

मणुउत्तरोइल्लि
दीवे पसिद्धमि
जलभरियकंदरहु
सुरलोयसोहम्मि
धणकणसमिद्धमि
छक्खंडधरणिवइ
उज्झयरिउरेणु
सिरिकंत तहु घरिणि
सुयरहिउ णरणाहु
किं करमि कहि चरमि
को देइ मह पुत्तु
ता भणइ सुपुरोहु
तो कुणसु सुहहेउ
धम्माणुराणण

भूभाइ सुसहिल्लि ।
पुक्खरवरद्धमि ।
पुव्विल्लमंदरहु ।
पच्छिमविदेहम्मि ।
दंसे सुगंधम्मि । 5
सिरिपुरवरे णिवइ ।
णामेण सिरिसेणु ।
करिवरहु णं करिणि ।
चित्तवइ धिरबाहु ।
को देउ संभरमि । 10
गुणरयणसंजुत्तु ।
जइ महसि सुयलाहु ।
जिणणाहअहिसेउ ।
तं सुणिवि रापण ।

७ AT °भाविहारं ८ A °संभूइयभावहारं. ९ A पुरंदरालोयणजोगगत्तं; P पुरंदरालोयणजोयगत्तं.
१० A °विट्टपायं. ११ AP पवरं.

2 १ AP मणसुत्तरोइल्लि.

11 a सुसञ्चतञ्चंगवियारणासं सुसत्यतत्त्वस्वरूपविचारणेनोपलक्षितं आस्यं यस्य; b अणंगसिंमारवियारणासं कामशृङ्गारविनाशकम्. 12 a सदित्तियाभक्खरभावहारं स्वदीप्त्या भास्करप्रभापहारकम्; b भवोहसंभूइभयावहारं संसारौघजन्मभयविनाशकम्. 13 a गत्तं °शरीरम्; b समुज्झियाहम्मदुपंकगत्तं समुज्झिताधर्मदुःपङ्कगर्ता येन. 14 a णिवारियप्पव्वहसेलपायं निविद्धः आत्मवधाय पर्वतात्पानो येन. 15 a °धेयं °स्मरणीयम्; b °णामधेयं °नामानम्. 16 b गणेशगीयं गणधरकथितम्; पुरा पूर्वं णं एतत्. 17 अत्थरसालइ अर्थवत्या रसवत्या च.

2 1 a मणुउत्तरोइल्लि मानुषोत्तरादर्वाक. 12 b महसि वाञ्छसि.

जरमरणभयहरहं	पडिमाउ जिणवरहं ।	15
रयणेहिं रइयाउ	कलहोयमइयाउ ।	
मंतेहिं थवियाउ	खीरेहिं ण्हवियाउ ।	
संसुहं सुयंतीइ	महिरायपत्तीइ ।	
सिक्खिणम्मि सुहइइ	छेयंम्मि राइइ ।	
करि सीहु सिरि चंहुं	दिट्ठो विहाँरुंदु ।	20
घस्ता—वरपुत्तासइ लइयहु	अक्खिउ जाइवि दइयहु ॥	
तेण वि तहु परियाणितं	दंसणंफलु वक्खाणितं ॥ २ ॥	

3

सज्जणगणमणपयणियपणउ	तुह सुंदरि होसइ पियतणउ ।	
कइवयदियहहिं वेळ्ळि व लैल्लिउ	लायण्णबहलजलविच्छुल्लिउ ।	
वउ देविहिं गम्भालंकरितं	ओलक्खिक्खि देहं चिंधु तुरितं ।	
कंचुइहिं णरिंदहु वज्जरित	तहु हियवउं हरिसं विष्फुरितं ।	
संतोसें देविहिं पांसि गउ	णं वणगणियारिहि मत्तगउ ।	5
पेच्छिवि कसणाणणु थणजुयलु	पेच्छिवि मुहमंडलु दरधवल्लु ।	
सालसुयंगउ गयगइपसरु	पेच्छिवि पिय संभासिवि सुसरु ।	
णरवइ णियंमंदिरि गंपि थिउ	णवमासहिं जणियउ प्राणप्रिउ ।	
सुंउ दुल्लहु वल्लहु सज्जणहं	कुलमंडणु खंडणु दुज्जणहं ।	
णच्चिजइ गिज्जइ महुरंसेरु	धेहु वज्जइ दिज्जइ धणणियरु ।	10
काणीणहुं दीणहुं दुत्थियहं	णिहविणहु किविणहु पंथियंहें ।	
घत्ता—तूररंवें दिस हम्मइ	कणिण वि पडिउं ण सुम्मइ ॥	
णारीणच्चणपेल्लिय	वसुमइ णावइ हल्लिय ॥ ३ ॥	

२ AP सुसुहं सुवंतीइ. ३ A सुसइइ. ४ P फच्छिम्मि. ५ A चंहु and gloss सूर्यः. ६ A विहोरुंदु and gloss चन्द्रः. ७ A सिक्खिणयफल.

3 १ A सज्जणगणमणपयणियपणउ; P सज्जण जणमणपयणित पणउ. २ AP होसइ सुदरि. ३ A ललिय. ४ A विच्छुल्लिय. ५ P देहिं चिंधु. ६ A पासु. ७ A वरधवल्लु; P वुहधवल्लु. ८ A गइगय-पसरु; P गउ गयपसरु. ९ A ससरु. १० A मंदिरु. ११ AP पाणपित. १२ AP सो दुल्लहु. १३ P महुरयरु. १४ AP पडु. १५ P पत्थियहं. P adds after this: सिरिसम्मणिरुविउ णासु तसु, सुहलक्खणु जणवइ लद्धजसु. १६ A तूररवहं. १७ P वडिउ. १८ K. °णच्चणपडिपेल्लिय.

19 सुहइइ सुभगया. 20 b वि हा रंहु प्रभावहुलः.

3 1 a °मणपयणियं चित्ते जनितः. 3 a वउ वपुः शरारम्. 5 b वणगणियारिहि षन-करेण्वाः. 7 a सालसुयंगउं आलस्ययुक्तं शरारम्; b सुसरु सुस्वरम्. 10 b घडु वज्जइ दानसमये निधिभूता घटाः संघट्टात् शब्दं कुर्वन्ति; अथवा, मध्यस्थितं धनं खडखडति. 12 दिस हम्मइ दिशा ताडयते.

4

विष्णाणें सण्णाणें घडियउ
ससिवयणहं सयणहं आवडिउ
जणणीजणणं जोयति सुहुं
ता इहुउं दिहुउं णउ रहिउं
अरहंतहु संतहु आगमणु
मयभावु गावु खणि परियलिउ
समसरणु समवसरणंतु गउ
जिणु वंदिवि णिंदिवि अप्पणउं
सिरिसेणं सेणं पमेल्लविय
महिय्यासि णिवासि सिरिप्पहहु
तवु गहियउं महियउं दुच्चरिउ
एत्तहि णंदणु णंदणु जणहु
आसादि रुदि णंदीसरइ
उववासिउ तांसिउ सुयसुइहिं

घत्ता—अट्टरउइहिं चत्तउ
धिउ अत्थाणि णराहिउ

हियजणमणि णवजोव्वणि चडियउ ।
सो इहु व चंदु व णहि वडिउ ।
अच्छंति तेण सहुं जांव सुहुं ।
सुइसीलें वणवालें कहिउं ।
कयतावहु पावहु णिग्गमणु । 5
लहुं णरवइ सुरवइ जिह वलिउ ।
पहु विविहधउं जियमयरधउ ।
तें पिसुणिउं णिसुणिउं तिहुयणउं ।
सिरिसम्मइ सिरिसम्मइ थविय ।
णियरुइगइछारइयरविरहहु । 10
चेट्टिउं चिरु णिरु णिम्मच्छरउ ।
पउणंतु अंतु दुक्कियरिणहु ।
छणंससिहरि मणंहरि वासरइ ।
सहुं सदिदिहिं संसुहिहिं सुहमइहिं ।

धम्मज्ञाणसंजुत्तउ ॥ 15
णं णहयलि ताराहिउ ॥ ४ ॥

5

जांवच्छइ पेच्छइ जलियंदिस
विहिंविरेलिय वियलिय उक्क किह

ता कामिणिचूडामणि सरिस ।
सुहरुहसररुहमयरंदु जिह ।

4 १ P सो इहु चंदु णं वडिउ. २ P^१ जणणु वि. ३ K विवहधउ. ४ A सेणय मेल्लविय. ५ A सिरिसम्मइ सिरिसम्मइ. ६ P reads a as b and b as a. P महिउं. ७ उव्वेडिउ चिरु णिम्मच्छरिउ. ९ AP छणंससर्दार. १० A मणहरवासरइ. ११ A सुसुहिहिं सुहमइहिं; P मंतिहिं सुहमइहिं. १२ P अत्थाणण.

5 १ A जामच्छइ; P जावच्छइ. २ A जडिय. ३ P^१ वियलिय विरलिय.

4 1 a सण्णाणें सम्यज्ज्ञानेन. 1 b सुइसीलें सुविशीलनाज्ञा. 7 a समसरणु उपशम-
स्थानम्. 9 b सिरिसम्मइ श्रीमुखे; सिरिसम्मइ थविय श्रीशर्मपुत्रस्य समर्पिता. 10 a महियासि
मथिता आशा वाञ्छा यत्र. 11 a णंदणु पुत्र; णंदणु वृद्धिकारी; b पउणंतु प्रकुर्वाणः; 14 a सुय-
सुइहिं श्रुतस्य श्रवणेन; b सदिदिहिं सपृतिभिः; ससुहिहिं सुहृद्भिः सहितैः; सुहमइहिं शुभमतिभिः.
10 अत्थाणि समायाम्.

5 2 a विहिं विरलिय विभौ आकारे; विरलिता विक्षिप्ता; वियलिय विगलिता विनष्टा;
उक्क उक्का; b सुहरुहसररुहमयरंदु सुधारुहश्चन्द्रः स एव सरोरुहं कमलं तस्य मयारन्दः.

तं पेच्छिवि परिहँच्छिवि सयलु
णियतणयहु पणयहु लच्छिसहि
पिउगुरुहि पुसँहि थिरु लइउ वरु
सहरिहि सिरिसिहँरिहि हरिवि रइ
सवियपि कपि सोहम्मवरि
सिरिवहि सिरिवँहि विलुलियचमरु
पसँञ्जु पुञ्जु तहु अइगुणु
विहवइहँ अइहँ सहस दुइ
णीसासु मासु पूरिवि मुयइ

घत्ता—तहु तहि पंकणेत्तहु
आउ पईहु वि पर्यलिउ

संचियमलु चंचलु भुवणयलु ।
अहिअल्लिय घल्लिय दिण्ण महि ।
सिरु मुंडिउं दंडिउं तेण वउ । 5
कयकलुसणास संणासगइ ।
पक्कोवँहिहिसुहणिहिआउधरि ।
सिरिहुरु मणहँरु जायउ अमरु ।
सुहवत्त सत्तकरमवियतणु ।
घट्टंति जंति जइ भुत्ति तइ । 10
भावइ सेवइ कौपं जुयइ ।

कीलंतहुँ कीलंतहु ॥
कालेँ को वँ ण कवलिउ ॥ ५ ॥

6

अवर वि णररविपहवत्ति जहिं
मोरयभीमोरयसंगरहु
पुव्वासइ वासइ भारहइ
णंदंतपँगांवगांवगहिरि
संपयहि पयहि णिञ्जु जि पियहि
णिव्वट्टिउ लोट्टिउ कूरमइ
तहु मंदिरि णंदिरि णिम्मलिणि
मुक्कमलकमलदलणयणजुय

बहुजीवइ बीयँइ दीवि तहिं ।
इसुकारहु सारहु गिरिवरहु ।
सियमाणुमाणुकरभारहइ ।
इलतिलइ अलयइ विसयवरि ।
णिदुँगेज्झहि उज्झहि णयरियहि । 5
अजियंजउ दुज्जउ मणुयमइ ।
सुंदरि इंदिरि णं णालिणि ।
सुहँजलरहलि णववेलिभुय ।

४ P परियच्छिवि. ५ A पुरहि; P गुरुहि. ६ A वउ; P तउ. ७ AP सुरसिहरिहि. ८ A जुम्मोवहि°. ९ A सुरगिहि. १० A सिरिहरु. ११ A एसज पुज. १२ A कायवि जुवइ. १३ P सहुँ अच्छर. १४ A पयडिउ. १५ A कालेँ को वि ण कवलिउ; P कालेँ को णउ कउलिउ.

6 १ A अवर वि णर रवि पवहंति जहिं; P अमर वि णरवर विहरंति जहिं. २ A दीवइ बीइ. ३ A सुइकारहु. ४ AP 'पगामगाम'. ५ A णिरु गिज्झहि but णिदुगेज्झहि in margin. ६ AP अजयंजउ. ७ A णंदिरि मंदिरि. ८ A सुक्क°. ९ A सुयजलहरणि णिववेलिभुय; P सुहजलवहुलि.

4 b अ हि अल्लिय अहिता आत्मनः इति षल्लिय त्यक्ता. 6 a सहरिहि सिहयुक्ते; सिरिसिहरिहि श्रीशिखरे. 9 a एसज्जु ऐश्वर्यम्; b सुहवत्त सुखपात्रम्; °मविथं मापिता. 10 a विहवइहँ विभवैराद्राणाम्; अइहँ अब्दानाम्. 13 a पईहु प्रदीर्घम्.

6 1 a णररविपहवत्ति नरा एव सूर्याः तेषां प्रभाप्रवर्तनं यत्र; b बहुजीवइ बहुजीवयुक्ते. 2 a मोरयभीमोरयसंगरहु मयूराणां भीष्मसर्पाणां च संग्रामो यत्र. 3 a पुव्वासइ पूर्वदिशायाम्; वासइ क्षेत्रे; b सियमाणुमाणुकरभारहइ चन्द्रादित्यकिरणसमूहहते. 4 a 'पगांव' प्रकामम्, प्रचुराः; गांव ग्रामाः; b इलतिलइ भूतिलकभूतं; अलयइ अलकानाम्नि. 5 b णिदुगेज्झहि नृणां दुर्ग्राह्यायाम्. 8 b 'रहलि' लहरी, कलोलमाला.

तृथसिरमणि गुणमणिणिवहखणि
सुपसुत्त पुत्तसंणिहियमइ

घत्ता—सीहु हत्थि ससि दिणयरु
सिरि वसहिंदु पमत्तउ

सरसेणाजियसेणा रमणि ।

सा सिविणय सुविणिय णियइ सइ ।

पुष्णकलसु पंकयसरु ॥

संखुं दाहिणावत्तउ ॥ ६ ॥

7

दिट्टउ सिट्टउ सुहिमांणियइ
फलु विलसिउं भासिउं तेण तहि
तहि गाब्भि अब्भि णं चंदमउ
उपपणउ धणणउ पुष्णणिहि
जं जाणिउं भाणिउं जेण जहिं
णयरिद्धिइ बुद्धिइ लक्खियउं
मायइ पियवायइ गुणमहिउं
सवियकउ थकउ तरुणिरंउ
ता रापं तापं तालघणु
डुहहरु सिरिहरु जिणु संवियउ

घत्ता—चित्तइ महिपरमसरु

कणणहु णियउइ घुलियइं

णियकंतहु कंतहु राणियइ ।

दिसवल्लेप विमलइ थियइ णहि ।

थियउं सिरिहरु सिरिहरु सच्चमउ ।

तरु धरणिहि अरणिहि णाइं सिहि ।

वहुंते संते तेण तहिं । 5

णिहिलत्थु वि सत्थु वि सिक्खियउं ।

णियणामु सधामु तासु णिहिउं ।

णवजोव्वणि णं वणि महुसमउ ।

गंपिणु गयसोउ असोयवणु ।

भवपासु सुदूरु विहावियउ । 10

एवंहि धम्महु अवसरु ॥

मरणु कहांति व पलियइं ॥ ७ ॥

8

सो अजियसेणु वेणुं व धरहि
रिसिसिक्खहि दिक्खहि लग्गु किह

अहियविउ णवियउ दोइयकरंहि ।

पियु हयकलि केवलि हुयउ जिह ।

१० AP नियसिरं, ११ A सविणय निविणय; P सुविणय निविणय, १२ AP संखु वि दाहिणवत्तउ.

7 १ सुहमाणियइ, २ A दिसिवल्लेप विमलि थियम्मि णहि; P दिसिवल्लेप विमलि थियम्मि णहि, ३ AP omit थियउं, ४ A उपपणउ धणणउ सच्चमणिहि; P उपपणहु धणणहु पुष्णणिहि, ५ A तरुणियउ, ६ AP वणि णं ७ A तालहि तालघणु, ८ AP भवयारु, ९ A सुदूरु.

8 १ A वेणु व धरहु, २ A करहु.

9 b अजियसेणा अजितसेनामात्री, 10 a पुत्तसेणि हियमइ पुत्रे स्थापिता मतिर्यया; b सिविणय स्वप्नः सुविणिय निद्रायुक्ता; णियइ पश्यन्ति.

7 a चंदमउ चन्द्रमाः, 4 b अरणिहि मन्थनकाष्ठान्, 7 b णियणामु निजनाम अजितसेन इति, 8 b महुसमउ वसन्तः, 10 b विहावियउ निकटमानीतः, 12 पलियइं पलितानि.

8 1 b अहियविउ अभिस्थापितः.

एत्तहि जयजत्तहि जोत्तियहु
तसियक्कु चक्कु तहु हुयउ धरि
जणजोणिहि खोणिहि साहियइं
णवणिहि मणदिहिउप्पायणइं
चउदह दहंगभोएण सहुं
कयदमु अरिदमु णामं समणु
जो मण्णइ वण्णइ जिणचरिउं
घरु पत्तु पत्तु तें जोइयउ
णवपुण्णइं णवणवभावणइ
गुणवंतहं संतहं महरिसिहिं
महिंवटयणिकंठयवइहि

घत्ता—चक्रवट्टिसिरिलीलइ
दिट्टउ जिणु तरेणीलइ

णिकखत्तियखत्तियसोत्तियहु ।
रुइपुंजु कंजु ण कंजैसरि । 5
चंडेइं छक्खंडेइं साहियइं ।
रयणइं च्चेयणइं अच्चेयणइं ।
घरु एंति देंति चिंतविउं लहु ।
मासोववासि धर्णरासितणु ।
जें सुत्तु सुत्तुत्तु समुद्धरिउ । 10
अणवज्जु भोज्जु संप्राइयउं ।
तें बद्धइं णिद्धइं कयंपणइ ।
आदंसियसंसियसुहदिसिहिं ।
पंचभुय तहु हुय णरवइहि ।
एवं तासु गयकालइ ॥
मणहरणामवणालइ ॥ ८ ॥

9

सुहावहं
रविप्पहं
थिरं थियं
णिवाइणा
महाणिणा
मुएवि सं
कयं तवं
णिरासयं
अदोसयं

गईवहं ।
गुणप्पहं ।
सुयं सुयं ।
सराइणा ।
पुणो तिणा । 5
रईविसं ।
गयासवं ।
अहिसंयं ।
अमोसयं ।

३ P रजसरि. ४ P भोएहिं ६ A गुणरासितणु. ७ P सजुत्तु. ८ AP संप्राइयउ. ९ P णवपुणय.
१० P कयविणइ. ११ A महिवट्टयणिकंठयवइहोः P महिवट्टयणिकंठियमहिहि. १२ A णरवइहो.
१३ P तरुलीलइ.

9 १ A omits अहिसंयं.

3 a जयजत्तहि विजययात्रायाम्. 4 b कंजसरि कमलसरसि. 7 a दहंगभोएण सरत्ता निषयो
देव्यः पुरं शय्यासने चमूः । भोजनं भाजनं नाचं भोगस्तस्य दशाङ्गकः. 8 b धणरासि तणु धनराशिः
तृणवद् यस्य. 10 a पत्तु पात्रम्. 13 a वंठय भागः.

9 1 a सुहावहं सुखप्रापकम्: b गईवहं चतुर्गतिविनाशकम्. २ a रविप्पहं आदित्यतुल्य-
तेजसम्; b गुणप्पहं गुणानां मार्गभूतम्. 3 b सुयं सुयं श्रुतं श्रुतमाकर्णितम्. 4 a णिवाइणा नृप-
भास्करेण, निश्चितवादिना वा; b सराइणा धर्मानुरागयुक्तेन. 5 a महाणिणा चक्रवर्तिना. 6 a मुएवि
मुक्त्वा; सं शं सुलम्; b रईविसं रतिविषम्.

अरोसयं	अतोसयं ।	10
विहट्टियं	पलोट्टियं ।	
चैलं खलं	मणोमलं ।	
मओ मुणी	हुओ गुणी ।	
अणप्पए	सुकप्पए ।	
बुहल्लुए	स अच्चुए ।	15
विहंकरे	सुहंकरे ।	
समाणए	विमाणए ।	
घत्ता—आउमाणु हयणिहइं	तहु बावीससमुहइं ॥	
तेसियवाससहासहिं	भुंजइ मणाविण्णासहिं ॥ ९ ॥	

10

ससेइ सो पमत्तए	दुवीसपक्खमेत्तइ ।	
सहंतकंठरेहओ	तिहत्थमेत्तदेहओ ।	
अमस्सरोमकेसओ	ससंकसुकुलेसओ ।	
अमोहयोहसंणिही	पैहू तमप्पभावही ।	
किरीडकोडिमंडिओ	अपाढओ वि पंडिओ ।	5
अधूचिओ सुगंधओ	अण्होयओ सिणिद्धओ ।	
सहावजायभूसणो	कणंतिक्किणीसणो ।	
विचित्तचारुचेलओ	ललंतफुल्लमालओ ।	
जहिं जहिं विजोइओ	तहिं तहिं विराइओ ।	
गुणेहिं सो अदुज्जसो	अणालसो अतामसो ।	10
मणेण चित्तियं जहिं	खणण गच्छए तहिं ।	
कवाडवेइअंतरं	असंखदीवसायरे ।	
कुलायलावलीवणे	रमेइ गंधमायणे ।	
जलंतरण्णपावए	दुइज्जयम्मि दीवए ।	

२ A सतोसयं. ३ A बलं. ४ A मुओ. ५ P हओ. ६ AP सुअच्चुए.

10 १ AP पमत्तए. २ AP अमंस्. ३ P पदुत्तमपहा. ४ A किरीडिकोडि. ५ AP अण्णाणिओ. ६ AP कणंत.

11 a विहट्टियं अतीव घर्षितम्; b पलोट्टियं उन्मूलितम्. 14 a अणप्पए अनल्पके. 16 a विहंकरे विशिष्टप्रभाजनके. 17 a समाणए पूजासहिते.

10 1 a पमत्तए प्रकृष्टमात्रांयुक्ते काले. 2 a सहंतकंठरेहओ शोभमाना कण्ठरेखा यस्य. 3 a अमस्सरोमकेसओ श्मश्रुरोमकेशरहितः. 4 b तमप्पहावही तमःप्रभापर्यन्तमवधिज्ञानं यस्य. 5 b अपाढओवि अपाठितोऽपि. 10 a अदुज्जसो दुर्घशोरहितः. 13 a कुलायलावलीवणे कुलपर्वतपंक्तिवने. 14 a ण्णपावए ण्णामौ.

तर्हि पि सीयतीरिणी	णिदाहडौहहारिणी ।	15
गईदघट्टुचंदणे	तडम्मि तीइ वाहिणे ।	
विलासवाससंतई	धरित्ति मंगलावई ।	
पुरं तर्हि घरुच्चयं	विहाइ वत्थुसंचयं ।	
घत्ता—सूहउ कामसमाणउ	कणयप्पहु तर्हि राणउ ॥	
कणयमाल तहु गेहिणि	णं जैलहिहि जलवाहिणि ॥ १० ॥	

11

तओ सो सुवत्तो	जिणिदस्स भत्तो ।	
चुओ देवणाहो	हुओ पोमणाहो ।	
सुओ तीई दिव्वो	अगव्वो सुभव्वो ।	
सरूवेण मारो	बलेणं समीरो ।	
पयावेण सूरु	धणेणं कुबेरो ।	5
गईए विसिंदो	जुईए णिसिंदो ।	
मईए महल्लो	गुणीणं पहिल्लो ।	
रमाए सुरिंदो	खमाए मुणिंदो ।	
पिऊ तुट्टुचित्तो	स पुत्तेण जुत्तो ।	
गओ रिद्धंरुक्खं	सरुद्धंरुक्खं ।	10
णहालग्गतालं	फलालं लयालं ।	
भमंतालिसांमं	मणोहारिणामं ।	
वणं तं पइट्ठो	सयासिट्ठुणिट्ठो ।	
तर्हि तेण दिट्ठो	मुणीणं वरिट्ठो ।	
घत्ता—तहु धुवसिवंपुरगामिहि	णरवइ सिरिहरसामिहि ॥	15
जम्मंभवणसमभग्गउ	दिहु कमकमल्लंहिं लग्गउ ॥ ११ ॥	

७ AP °डाहधारिणी. ८ P गयंद°. ९ A जलणिहि.

11 १ P पउमणाहो. २ A तेए दिव्वो. ३ AP सरूवेण. ४ P रुईणं सुचंदो. ५ A रिद्धि-रुक्खं. ६ A सुरो दक्खदक्खं. ७ P भमंतालिमालं; P adds after this: मरालीमरालं, सुच्छाहसामं. ८ T सिद्धणिट्ठो उच्चमानुष्ठानः. ९ P °पुरिगामिहि. १० P जम्ममरणसम°. ११ A °कमल्लहो लग्गउ.

11 1 a सुवत्तो शोभनवदनः. 6 a वि सिं दो वृषभेन्द्रः; b णि सिं दो चन्द्रः. 8 a रमाए ऐश्वर्येण. 9 a पिऊ पिता कनकप्रभः. 10 b सरुद्धंरुक्खं रुद्राक्षेण द्राक्षालतया च सहितम्. 11 b लयालं लतायुक्तम्. 13 b सिट्ठुणिट्ठो श्रेष्ठमनुष्ठानं यस्य. 15 सिरिहरसामिहि श्रीधरमुनेः. 16 जम्म-भवणसमभग्गउ संसारभ्रमणश्रमेण भग्नः.

12

णिवदोरणि मारणि साईणिय
 लहु होयवि जोयवि सुयमइउ
 पडिवणुणउं सुणुणउं तेण वणु
 सोमप्पह सुप्पह तासु पृथं
 णिरवणुणु सुवणुणु ताहं तणउ
 सासिअक्कचक्कचंचलपयहिं
 सहं सासणि आसणि थियउ जहिं
 विणुणविवि णंविवि ओलग्गियउ
 णिगंथहु पंथहु खंणु ण चुउ
 वत्ता—सयलहं जीवहं मित्तउ
 णियदेहे वि णिरीहउ

णियतणयहु पणयहु मेइणिय ।
 कणयप्पहु दप्पहु पावइउ ।
 चलसंदणु णंदणु गउ भवणु ।
 किं अक्खमि पेक्खमि णाहं सृत्यं ।
 लद्धुणइ भणणइ किं मणुंउ । 5
 दियहेहिं र्हेहिं व संगयहिं ।
 पहसियमुहु तणुरुहु थंविउ तहिं ।
 वंउ सिरियरु सिरिहरु मग्गियउ ।
 सो पोमंप्पहु रिसिणाहु हुउ ।
 हेमधूलिसमचित्तउ ॥ 10
 वणि णिवसइ मुणिसीहउ ॥ १२ ॥

13

पयारह मणहरकहियाइं
 मयदवणं तवणं तवियाइं
 उद्दामकामविदावणउ
 तहु लीणंउ झीणउ रयपसरु
 णामल्लउं भल्लउं जाणियउ
 आराहिवि साहिवि संतमइ
 अववग्गाहु सग्गाहु मज्झि जइ
 उच्छण्णल्लिण्णामिच्छत्तगंहि
 तिगुणियदह्वतिजलहिआउहरि

अविहंगइं अंगइं गहियाइं ।
 तुंगइं अटुंगइं खवियाइं ।
 सुहंसीलहं सोलहहं भावणउं ।
 लइ लद्धउं वद्धउं तित्थयरु । 5
 परिच्छेयहु छेयहु आणियउ ।
 जीविउं संप्राविउं दिव्वगइ ।
 णिव्वाणटाणसंवद्धरइ ।
 संपुण्णपुण्णफलभुत्तिवहि ।
 तइसंखपक्खणीसासयरि ।

12 १ P णिवमारणि. २ P मारणि. ३ A सहरिणिय. ४ AP पिय. ५ AP सिय. ६ A णाहतणउ. ७ P मणउ. ८ A थियउ; P णिहिउ. ९ A णविउ. १० AP वउ सिरिहरु. ११ P खणिण कउ. १२ A पोमणाहु; P पउमणाहु.

13 १ AP मणहरणहियाइं. २ P omits this foot. ३ A सीलउ. ४ AP add after this : भावणपणु सिवपहदावणउ. ५ P झीणउ लीणउ. ६ P रइपसरु. ७ AP संप्राविउ. ८ AP उच्छिण्ण°. ९ A गिहे but gloss ग्रहे.

12 1 a साइ णिय शाकिनी; b पणयहु प्रणतस्य. 2 a सुयमइउ शुचिमतिः. b दप्पहु दर्पघातकः. 5 a णिरवणुणु नृणां रम्यः. 8 b सिरियरु श्रियाः कर्ता; सिरिहरु श्रीधरनामा जिनः.

13 1 a मणहरकहियाइं अमनस्कैः केवलमिः प्रतिपादितानि. 2 a तवणं आदित्येन तपसा च. 5 b परिच्छेयहु परिच्छेदं आयुः छेदमानीतम्; छेयहु उत्तमस्य.

तेत्तीसवाससहसंतरिड
करमेत्तु गत्तु विच्छुरियदिसु

घत्ता—तहिं सियंगु सुच्छायड
जं पेक्खिवि पंहहीणी

आहारु चारु जहिं अवयरिड । 10

जहिं णिहिलु धवलु जणु णं सुंजसु ।

वइजयंति सो जायड ॥

भरह पुष्पदंताणी ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरइए
महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्ये पउमणाहवइजयंतसंभवो
णाम पंचचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४५ ॥

१० A P विथरियदिसु. ११ A णंदजसु. १२ A पहाणी. १३ P पंचालीसमो.

13 पहाणी प्रभाहीना जाता, मलिना बभूव निजभर्तृकान्तिविच्छेदात्; भरह स्मरत; पुष्पदंताणी पुष्पदन्तभार्या.

तद्दु देवद्दु तेत्तीसंबुणिहिपरिमियाउ पुणु णिट्टिउ ॥
कालें कलियेउ तं तेत्तिउ वि छम्मासंतु परिट्टिउ ॥ धुवकं ॥

1

तद्दुद्दुं सहस्रंच्छि सहासवाद्दु
भो जक्ख जक्ख सयदलदलक्ख
इह जंबुदीवि भरहंतरालि
धरसेणु महासेणक्खु णिवइ
सोहग्गे तिहुयणाहियथलीण
सियसरलतरलणयणहिं कुरंगि
तद्दु पणइणि णं ससहरद्दु कंति
अद्दुमउ दयासरिमहिहरिद्दु
सयणासणु भूसणु असणु वसणु

अक्खइ जक्खद्दु सोहम्मणाद्दु ।
परिपालियवसुद्दुणिहाणलक्ख ।
चंदउरि पउरि धणकणजणालि । 5
जं लंघिवि उवरि ण रवि वि तवइ ।
गमणेण हंसि घोसेण वीण ।
लक्खण णामें लक्खणहरंगि ।
णं मुणिवरणाहद्दु लग्ग खंति ।
एयद्दु घरि होसइ जिणवरिंद्दु । 10
करि पुरवरु सुंदरें दलहि वसणु ।

वत्ता—ता भूरिचंदमउ चंदउरु चंदमुहिण तं विरयउ ॥
धणदेवीभन्तारेण खणि मोत्तियरणहिं खइयउ ॥ १ ॥

2

समंविउलवाहियालीणिवेसु
वियसियवणपरिमलमहमहंतु
जिणवरघरघंटाटणटणंतु
माणिककरावलजलजलंतु
ससिमणिणिज्जरजलझलझलंतु
करिचरणैसंखलाखलखलंतु

अवितुद्दुहट्टिटोपणसु ।
चलचंचरीयकुलगुमुगुमंतु ।
कामिणिकरकंकणखणखणंतु ।
सिहरग्गाधयावालिललललंतु ।
मग्गावलग्गाहरिहिलिहिलंतु । 5
रवियंतहुयासणधगधगंतु ।

1 १ AP कवलित. २ A सहस्रंच्छि but gloss सहस्रपाक इन्द्रः. ३ A धणकयजणालि.
४ A वरसेणु. ५ AP सुंदरु दलियवसणु. ६ P भूरिचंदमुहचंदउ. ७ A चंदमुहेण विरयउ.

2 १ P समु जंथु वाहिं. २ टंटापवसु. ३ P चरणह संखला. ४ AP रविअंतं.

1 २ क लियउ कवलितम्. 3 a सहस्रंच्छि सहस्राक्षः. 4 a सयदलदलक्ख कमलपत्रवनेत्रे
यम्. 5 b पउरि प्रचुरे महति. 6 a धरसेणु धृता सेना येन. 7 b लक्खण लक्षणा. 11 b दल हि
व सणु व्यसनं कष्टं नाशय. 12 भूरिचंदमउ मुत्रणमयम्. 13 धणदेवी भन्तारेण कुबेरेण.

2 1 a समंविउलवाहियालीणिवेसु समविस्तीर्णवाह्यालीप्रदेशः; b टंटापणसु द्यूतस्थानम्.
5 a ससिमणिं चन्द्रकान्तमणिः; b हरिं अक्षाः. 6 b रवियंतहुयासणं सूर्यकान्तोद्भूतः अग्निः.

बहुमंदिरमंडियैजिगिजिगंतु सइलदलतोरणचलचलंतु ।
 गंभीरत्तरवरसमसंतु तरुगयवसंतु णिञ्चु जि वसंतु ।
 कालायरुधूवियणायरंगु णाणारंगवलिलिहियरंगु ।
 घत्ता—सा सुंदरि पियमणहारिणिय सुरहियगंधं मालइ ॥ 10
 सुहं सुत्त विरामि विहावरिहि सिविणयमाल णिहालइ ॥ २ ॥

3

गलियदाणचलजललवलोलिरभिगयं
 पेच्छइ विसालच्छि पमत्तमयंगयं ।
 इट्टुगिट्टितणुफंसणकंटइयंगयं
 वसहममलथलकमलपसाहियसिगयं ।
 तिक्खणक्खणिहारीयमारियकुंजरं 5
 रत्तलित्तमुत्ताहल्लंमंडियकेसरं ।
 सीहयं मुह्वावालुयणिग्गयदाढयं
 गोमिणिं च दिसकुंजरसिचणरूढयं ।
 इट्टुगंधसेलिंधकरंबयंकोसयं
 दामजमलमलिमालासहपरिपोसयं । 10
 पुण्णयं विहं जामिणिकामिणिदप्पणं
 उग्गयं इणं पीणियपंकइणीवणं ।
 मीणमिहुणमणिहणजलकीलणलंपडं
 चारुहारिकल्लाणघरं घडंसंपुडं ।
 हंसचंचुपुडंखुडियमिसं भिसिणीहरं 15
 सेयसलिलवेलागहिरं रयणायरं ।
 कुलिसणहरकेसरिकिसोरधरियासणं
 अवि य पायसासणजसस्स णं सासणं ।

५ A °मंडण°. ६ A समसमंतु. ७ A सुरहियगंध णं मालइ; P सुरहियगंध स मालइ. ८ A सुहसुत्ति; P सुहं सुत्त.

3 १ P °विहारिय°. २ P °मुत्ताहल्लमालामंडिय°. ३ AP सुहावालुय°. ४ AP °करंबिय°. ५ AT घडसंधडं. ६ A °फुडखुडिय°.

7 a बहुमंदिरे° स्त्रीणां शयनावासः; b सइलदल° सार्द्रपत्राणि. 8 a° रसमसंतु शब्दायमानम्; b तरुगयवसंतु बहुजनाधिष्ठितम्; णिञ्चु जि वसंतु नित्यमेव वृक्षस्थितो वसन्तः. 9 b °रंगु प्राङ्गणप्रदेशः.

3 1 °भिगयं भ्रमरम्. 2 °मयंगयं मतङ्गजम्. 3 इट्टुगिट्टि° वल्लभा गौः. 7 मुहावालुय° दीर्घम्. 8 गोमिणिं लक्ष्मीम्. 9 इट्टेत्यादि इष्टः उत्कटो गन्धो येषां तानि सेलिंधपुष्पाणि तेषां करंबयं संघातः तस्य कोसयं स्थानम्. 10 अलिमालासह° भ्रमरश्रेणिसभा. 12 इणं सूर्यम्. 13 °अणिहणं प्रचुरम्. 14 घडसंपुडं घटयुगलम्.

इंदधाममहिबंधवइस्स णिहेलणं

रयणपुंजमरुणंसुसिहातर्महालणं ।

20

इत्ति वित्तजालासयच्छित्तणहंगणं

हुयवहं च सइ पेच्छइ जालियकाणणं ।

घत्ता—इय पेक्खवि रायहु राणियइ संतोसें आहासिउ ॥

तेण वि तहु मंगलदंसणहु फलु पणइणिहि पयासिउ ॥ ३ ॥

4

सुओ देवि होही तुहं तित्थणाहो
दिही आगया देवया पंकयच्छी
णिहीसेण गेहम्मि छम्मासकालं
चइत्तस्स पक्खंतरे चंद्रिमिल्ले
रिसी पोमणाहो सुओ सोहमिंदो
सुंपासाहिवे णिव्वुण संगएहिं
णहाजक्खणिक्खत्तमाणिकएहिं
तथो पूसमासे पडंतम्मि सीए
पहओ पह पुण्णपाहोहमेहो
सपायालमग्गं सतारकसकं

असामणसंपत्तिवित्तीसणाहो ।
हिरी कंति कित्ति सिरी बुद्धि लच्छी ।
णिहित्तं सुवण्णं सुवण्णं पहालं ।
सुहोहायरे वासरे पंचमिल्ले ।
थिओ गब्भवासि पुलोमारिवंदो । 5
समुदाणहो रंधकोडीसणहिं ।
पउण्णेहिं मासेहिं रामंकएहिं ।
सुहे सक्कजोयम्मि एयारसीए ।
जगाणं गुरु लक्खणुप्पत्तिगेहो ।
खणं कपियं इत्ति तेलोक्कचकं । 10

घत्ता—परतेउ ण कत्थइ विप्फुरइ अंधारउ णउ रेहइ ॥

जम्मणु उग्गमणु वि भुवणयलि जिणदिणणाहहं सोहइ ॥ ४ ॥

5

सहसा जायउ सुरलोयंखोहु
उच्छाहें रक्खस किलिकिलंति

वीणारवु चह्लिउ किणरोहु ।
वहंतइं भूयइं णहि मिलंति ।

७ A इंदधामं वरउरवइणिहेलणं. ८ A तमहारणं. ९ P दित्तिजाला. १० A हुयवहस्स जं सा पेच्छइ; P हुयवहं च सा पेच्छइ. ११ पणइणिहो.

4 १ P अमावण्ण. २ A णिहित्तं. ३ A चंद्रमिल्ले. ४ A पुणोमारिवंदो. ५ A सुपसाहिए. ६ P पुण्णयंभोहमेहो. ७ P जगाणं. ८ P सपायालसग्गं सतारं ससकं.

5 १ सुरलोहं खोहु. २ A वग्गंतइ.

19 अहि वंदवइस्स अहिचंद्रपनेः नागराजस्य. 20 तमहालणं अन्यकारप्रशालनम्. 21 छित्तं स्रष्टम्. 22 सइ सती.

4 1 b अ सामणसंपत्तिवित्तीसणाहो अद्वितीयलक्ष्मीप्रवृत्तिमहितः. 3 a णिहीसेण कुबेरणः b सुवण्णं शोभनवर्णम्. 4 b सुहोहायरे हे सुभोगाकरं इति संबोधनम्. 6 a संगएहिं समय-गतीतैः. 7 b रामंकएहिं गमाङ्कितैर्नवभिर्नलभट्टैः. ९ b सक्कजोयम्मि इन्द्रयोगे ज्येष्ठायाम्. 9 a पुण्णपाहोहं पुण्यमेव पाथो जलं तस्य ओषः.

किंपुरिस के वि किं किं भणंति
 रयवंत महोरय फुफुयंति
 अणिबद्ध पितायउ लइ चवंति
 ससहररचितेपं महि ण्हवंति
 दुग्गह गहचरियइं णिक्खवंति
 णक्खत्तइं णवणक्खत्तमहिउ
 दाविय णियपंति पइण्णएहिं
 णहवडणविवरमुहणिगंमेहिं
 संगलियइं मिलियइं सुरउलाइं

सहिट्टिदेव पुच्छिधि मुणंति ।
 गंधव्व गेयसरु सइं मुयंति ।
 दसदिसइं जक्ख रयणइं धिवंति । 5
 तारउं तारत्तणु पक्खवंति ।
 जय णंद वंहु सामिय चवंति ।
 वंदहुं खलियाइं वियाररहिउ ।
 सासेहि वं चासपइण्णएहिं ।
 दिसिविदिसामग्गसमागमेहिं । 10
 भावणभाभरियइं जलथलाइं ।

घत्ता—अइरावयकुंभविइण्णकरु पत्तउ जियपरसेणहु ॥

पुरुहूयउ पुरपासहिं भमिवि धरि पइट्टु महसेणहु ॥ ५ ॥

6

तओ तेण लुम्मेण णिळ्ळम्मयाए
 तडालग्गतारावलीमेहलालं
 रमंतच्छराणेउरारावरम्मं
 फणिंदाणियापायरायावलित्तं
 लयामंडवासीणविजाहरिंदं
 दरीचंदणामोयलग्गाहिकणं
 गुहाकिंणरीकिंणरालत्तगेयं
 णिओ सुंदरं मंदरं देवदेवो
 पविच्छिण्णकुंभेहिं कुंभीसगामी
 गुणुप्पण्णणेहेहिं णिण्णट्टणेहो
 जिणिंदो जियारी जयंभोयमित्तो

परं डिंभयं दिण्णयं अम्मयाए ।
 ससिंणपपहापिंणदिच्चक्ककूलं ।
 दिसादीसमाणुद्धजेणिंदहम्मं ।
 अदिट्टेक्कलंबंतंकिंकिंल्लिवत्तं ।
 तुरंगासणोसत्तकीलापुलिंदं । 5
 मँओमत्तमायं गदंतग्गभिण्णं ।
 सपायंतणिक्खत्तचंदक्कतेयं ।
 तहिं तेहिं सो णाणणिकंपभावो ।
 तिलोयंतवासीहिं तेलोक्कसामी ।
 अक्कवारखीरेहिं खीराहदेहो । 10
 फणिंदेहिं इंदेहिं चंदेहिं सित्तो ।

३ P पुफुयंति. ४ P सयं. ५ A °तेयं महि; P तेयइं महि. ६ P ताराउ. ७ AP वद. ८ A व वास-
 पइण्णएहिं; P व वण्णपयण्णएहिं, ९ A °णियगएहिं. १० A संचलियइं. ११ P °भाभारिय जल°.

6 १ P अंवयाए. २ A °मेहलीलं; P °मेहजालं. ३ AP दिच्चक्कवालं. ४ AP °क्केलिं.
 ५ A °णासंत°. ६ A °लग्गाहिकिणं. ७ P मयमत्त°.

5 4 a रयवंत स्ववेगाः. 6 b तारत्तणु दीप्तत्वम्. 7 a दुग्गह दुष्टाभिप्राया ग्रहाः. 9 a
 पइण्णएहिं प्रकीर्णकैः; b सासेहिं धान्यैः; चासपइण्णएहिं क्षेत्रहलरेखाभा श्रेणिबद्धा तद्वत्प्रकीर्णैः.
 13 पुरुहूयउ इन्द्रः

6 1 a णि च्ळम्मयाए निष्कपटयाः. 2 a °मेहलालं °मेखलायुक्तम्. 3 b °जे णिं दहम्मं
 जिनालयम्. 4 a फाणिंदाणिया° पद्मावती; b °किंकिंल्लिवत्तं अशोकपत्रम्. 6 a °लग्गाहिकणं° लग्गा
 अहिकन्या नागकन्या यस्मिन्. 7 b सपायंतं स्वपादान्ते. 9 a कुंभीसं गजेन्द्रः. 10 b अक्कवारं समुद्रः.

घत्ता—तं दुद्दु पडंतउ जिणतणुहि कंतिई पयडु ण होंतउ ॥
णं अमिउं ससंकहु विरयलियउं दिट्टु महिहि धावंतउं ॥ ६ ॥

7

दिव्वं गंधं पुष्पं धूवं
दाउं सव्वं संव्वाणिट्ठं
णाणत्तयघणपुष्पसमुद्दं
तं पेच्छंता तं पणवंता
चंदउरं मणितोरणंदारं
उर्वसमवेल्लीवासारत्तं
सोहम्मसीसाणा देवेसा
बाणासणदियदुसयंतुंगो
उप्पाइयखाइयसम्मत्तो
दो लक्खा पुव्वाणं छिण्णा
पस तस्स तरुणत्तणकालो
तत्थ वि जायं देवागमणं
वइसवणाणियवसुंसंदोहे
छुट्टु लक्ख पुव्वाणं झीणा

वासं भूसं चरुयं दीवं ।
काउं पुज्जं सत्थे दिट्ठं ।
तं गहिऊणं भयैवं भद्दं ।
तं गायंता तं णखंता ।
आया देवा रायागारं । 5
जणणीहत्थे दाऊणं तं ।
पत्ता सग्गं णाणावेसा ।
सेयंगो णं सेयपयंगो ।
इक्खाऊ कासवणिवगोत्तो ।
पण्णासंदुसहासाउण्णा । 10
पच्छा हूंओ मेइणिवालो ।
पारीवारवारिघडण्हवणं ।
भोप भुजंतस्स सैंसोहे ।
अरिहसंखपुव्वंगविलीणा ।

घत्ता —अण्णहिं दिणि दप्पणयलि वयणु जोयंतं तं दिट्ठउं ॥ 15
जेणेत्यं दडुसंसारसुहि हियउल्लउं उव्विट्ठउं ॥ ७ ॥

8

आवेप्पिणु पंजलिहत्थणहिं
पंचमगइसमुद्दं मउज्जुणीहिं

दूराउ पणांमियमत्थणहिं ।
पडिसारिउ आहंडलमुणीहिं ।

८ P कंति. ९ P विरयलिउं.

7 १ AP चरुयं. २ A इहं सिट्ठं; P णिट्ठं सिट्ठं. ३ A सव्वं भद्दं. ३ A °तोरणवारं. ४ P तव-
समं. ५ P सउतुंगो. ६ AP पण्णासदुसहासा. ७ AP हृथउ. ८ P पारावारि वारि. ९ P °संदोहं.
१० P ससोहं. ११ A जेणित्थु दडु संसारसुहि.

8 १ A पणावियं. २ A पडिवारिउ.

7 2 a सव्वा णिट्ठं सर्वेषामिष्टम्. 3 a णा णत्तयघणपुष्पसमुद्दं ज्ञानत्रयमेव धनपुष्पं जलं
तस्य समुद्रम्. 6 a °वा सा रत्तं वर्षाऋतुः. 8 b सेयपयंगो चन्द्रः 13 b ससो हे शोभनायुके. 14 b
अरिहसंखं चतुर्विंशतिः. 16 उ व्विट्ठउं उद्विग्नं वैराग्यं प्राप्तम्.

8 2 a मउज्जुणी हिं मृदुध्वनिभिः; b पडिसारिउ प्रोत्साहितः.

मुहपयलमाणधारासिवेहिं
कल्लाणाहरणविहसियंगु
वरचंदु सणंदणु णिहिउ रज्जि
सिवकंखइ पडु सिवियहि वेंडिण्णु
दयविच्छिणीगरुईणिसीहि
अणुराहाणक्खत्तावयारि
णिल्लूरिवि मंदिरमोहैवासु
णिक्खंतु लेवि छट्ठोववासु
तंहु को वि ण मित्तु ण को वि वेसु
दंडग्गविलंबियचेलमयारि

अहिसिंचिउ विहु अज्जुणणिवेहिं ।
पैरदिण्णदाणु णं वरमयंगु ।
तहिं कालइ सुरहयविहिवज्जि । 5
संव्वत्तुवणंतरि समवइण्णु ।
पूसम्मि कसणएयारसीहि ।
णिण्णेहत्तणु जुंजिउ सररि ।
लुंचिवि घट्ठिउ सिरकेसंवासु ।
सुंहुं पावइयउ रायहं सहासु । 10
मज्जत्थु महत्थु विसुद्धलेसु ।
अवरहि दिणि पइसइ णलिणणयारि ।

घत्ता—णंउ करयलि पत्तलि पत्तु ण वि णउ पइ णेउरघोसणु ॥

णंउ भूरिभूइ भूरकुंडियउ णउ मैसिरेहाभूसणु ॥ ८ ॥

9

हुंकारु ण मुयइ ण देहि भणइ
पैरमेसरु पंचायारसारु
जा छुइ जि भवणप्रंगणु पइहु
कैर मउलिवि करेवि उरुत्तरीउ
कापं वयणं सुद्धं मणेण
दुंदुहिसरु सुरसर पुप्फविट्ठि
तहिं चोज्जइ पंच समुग्गयाइं
थियउ तिण्णिण मास छम्मत्थु तांव

णउ सण्णइ णउ गंधव्वु मुणइ ।
दक्खवइ वीर भिक्खावयारु ।
ता सोमयैत्तराएण दिहु ।
संचिउं पुण्णंकुंरपवरखीउ ।
आहारदाणु तहु दिण्णु तेण । 5
घणु वरिसिउ इहै रयणविट्ठि ।
पालंतु संतु संतइं वयाइं ।
णायावणिरुहत्तलु पत्तु जांव ।

३ P परिदिण्ण^०. ४ P चडंतु. ५ A संपत्तु. ६ P समयवंतु. ७ P मोहपासु. ८ AP सिरि केसपासु.
९ A सहं. १० P तहु मित्तु अमित्तु ण को वि देसु. ११ P ण वि. १२ AP णउ कुंडियउ. १३ A ससिरेहा.

9 १ A reads *a* as *b* and *b* as *a*. २ AP^० पंगणु. ३ A सोमदत्त^०. ४ A करु
मउलि करेविणु रंतरिउ; P कर मउलिकरेविणु उत्तरीउ. ५ A सिंचिउ. ६ AP पुण्णंकरु.
७ AP वरिसिवि.

3 *a*^० धारा सि वे हिं धाराजलैः; *b* अज्जुण णि वे हिं शुभ्रकलशैः. 6 *b* संव्वत्तुवणंतरि सर्वतुंक्वने. 7 *a*
दयविच्छिणीगरुईणि सी हि उदकमार्गेणानीता गुर्वी निशा यस्यामेकादश्याम्; तदा काले हि समुद्रमध्यं
प्रविश्य गच्छत्यादित्यः, तेन रात्रिर्दीर्घा; अथवा दयाविस्तीर्णा गुर्वी सर्वप्राण्यभयदानदायिका दीक्षादिनत्वात्.
9 *a* णिल्लूरिवि विष्वस्य. 14 भूरि भूइ प्रचुरभस्स; भुरकुंडियउ भूरकुटिल; मसिरेहा^० इमभुराजिः.

9 4 *a* ऊरुत्तरीउ गरिष्ठोत्तरीयम्. 6 *a* सुरसर देवसाधुकारः अहो साधुदानं इत्येवंरूपः.
8 *b* णायावणिरुहत्तलु नागकेदारवृक्षतलम्.

फग्गुणि दिणि सत्तमि किण्हवक्खि
छट्टेणुववासं केवलक्खु

अवरण्हइ तहिं णिक्खवणरिक्खि ।
उप्पाइउं णाणु विवज्जियक्खु । 10

घत्ता - कल्लाणि चउत्थइ जइवइहि सुरयणु दिसहिं ण माइउ ॥

अहिरामे अहिणवभत्तिवसु अहिहु अहीसरु आइउ ॥ ९ ॥

10

लोयालोयविलोयणणाणं सिरिणाहं
ससहरकंतं पयडियदंतं कंकालं
कडिहि रवाला किक्किणिमाला झणंझणिया
मइरावाणं मिट्टुं खाणं मुग्गमासं
पेयावासो रक्खसभीसो णियठाणं
पसो वेसो देवे जाणं धम्माणं हाणि
जे सरगायणवायणणञ्चणलद्धरसा
कट्टा दुट्ठा णिट्ठाणट्ठा णायचुया
संसरमाणो भवभमभग्गो भुत्तदुहो
पइ ण मुणंतो पइ ण थुणंतो कयमाओ
छिदण भिदण कप्पण पउल्लण घयतल्लणं
परघरवासं परकयगासं कखंतो
परलच्छीओ धवलच्छीओ सलहंतो
कउलवियके जोइणिकके रइधरणी

थुणइ मियंको अको सको मुणिणाहं ।
हत्थे सूलं खंडकवालं करवालं ।
पासे रामा मुट्ठा सामा घणथणिया ।
दाढाचंडं कुडं तोंडं जणतासं ।
चित्तविचित्तं रम्मं चम्मं परिहाणं । 5
उज्झियसुत्तो हिंसाजुत्तो रयखाणी ।
वामच्छीणं रत्ता मत्ता कामवसा ।
मइमिच्छेणं मइतुच्छेणं ते वि थुया ।
भो चंद्रपह दरिसियसुर्पहं तुह विमुहो ।
आसो मेसो महिसो हंसो हं जाओ । 10
पत्तो तिरिए पुणरवि णरए णिहल्लणं ।
णीरमपिंडं तिलखल्लंखंडं भक्खंतो ।
अलहंतो णियहंतो दीणो हं होंतो ।
लोयणगामिय हा मइ रमिया परघरिणी ।

घत्ता—मइं विण्यं होइवि आसि भवि पसु मारिवि पल्लु भुत्तउं ॥ 15
गंडयहु हंडु हरिणयहु अइणु देव पयित्तु पवुत्तउं ॥ १० ॥

८ A उप्पायउं; P उप्पणउं. ९ A अहहु.

10 १ A हत्थे मंडं फूलकवंडं करवालं. २ A झणिञ्जणिया. ३ A मुट्ठा. ४ P मइरावाणं.
५ AP सिगमासं ६ AP omit हाणी. ७ AP रयखाणं. ८ AP सरगायणं. ९ AP तुट्ठा. १० A
णिहाणट्ठा. ११ AP भवभयं. १२ A सुदपय; P सुदपह. १३ AP हंसो महिमो. १४ P कयपरगासं.
१५ A खडखंडं. १६ A रइघरिणी. १७ A विण्यहु होइवि. १८ AP हहु हरिणहु अयणु.

9 b णिक्खवणरिक्खि अनुराधानक्षेत्रे. 10 b विवज्जियक्खु अतीन्द्रियज्ञानम्. 12 अहिहु अभिगु
भुवं लक्षीकृत्य.

10 3 a रवाला शब्दायमाना. 4 a मइरावाणं मदिरापानम्. 5 a पेयावासो दमनानम्.
6 b रयखाणी रत्नसां पापानां खनिः. 8 b मइमिच्छेणं बुद्धिमिथ्यात्वेन. 11 b तिरिए तिरिय्योनी.
13 a सलहंतो हल्लन्. 14 a कउलवियके चार्वाकाणां वितर्कं भेदे; रइधरणी रतीनां भूमिप्राया;
b लोयणगामिय अवलोकिता. 16 हहु अस्थि; अइणु अजिनं मृगचर्म.

11

णिद्धम्महं मांसाहारियाहं
तुहुं देव ण होसि सुसामि जाहं
महयालइ गाइ वि जासु वज्झ
पंवहि सुदयावर तुहुं जि सरणु
बलदेवहं अग्गइ देहि तिण्णि
जे परमविराय वसंति रण्णि
णहुं सहसइं पुणु चउरो सयाइं
अट्टसहसइं सावहिलोयणाहं
ते चोइंस विकिरियागुणीहिं
घत्ता—पिंडीदुमु चमरइं दिव्वञ्चुणि कुसुमवरिसु सियछत्तइं ॥
भामंडलु दुंदुहि सुरवरहिं जिणचिंथाइं णित्तइं ॥ ११ ॥

रसलोलहं णियपरवैहरियाहं ।
अजिणु वि अजिणहं चुक्कइ ण ताहं ।
हो हो कि वेपं तेण मज्झ ।
तुह पायमूलि महुं होउ गरणु ।
तहु गणहर सुंयहर सहस दोण्णि । 5
ते तहु मुणिसिक्खुव लक्ख दोण्णि ।
सिक्खंति सत्थु गुरुसम्मर्याइं ।
अट्टारहसहस णिरंजणाहं ।
वसुसहसइं मणपज्जवमुणीहिं ।

10

12

भयसहसइं छंसय विवाइयाहं
भणु अंसीयसहासइं तिण्णि लक्ख
सावयहं लक्ख गुत्तीसमाण
देवहं देविहिं णउ छेउ अत्थि
चउवीसहं पुव्वंगहं विहीणु
वसुमइ विहरिचि तेणेक्कु पुव्वु
संमयहु सिहरु समारुहेवि
णामइं गोत्तइं वेयणिययाइं
कम्मइयतेयअंउयारियाइं
घत्ता—सियपक्खहु फग्गुणसत्तमिहि परमविसुद्धिइ रिद्धउ ॥
जेद्धहि णिट्ठियंमल्लु बहुरिसिहिं सहुं चंदप्पहु सिद्धउ ॥ १२ ॥

छलहेउजाइकुलघाइयाहं ।
संजमधारिणिहिं वहांति दिक्ख ।
ते अणुवयणारिहिं वयपमाण ।
तेलोक्कसूरु केवलगमत्थि ।
अणु वि मासाहिं तिहिं मुणाहि झीणु ।
संबोहिचि मणुयसमूहु भव्वु ।
थिउ जोउ मासु पेरंतु लेवि ।
आउट्टिदिसरिसइं लहु कयाइं ।
तिण्णि वि अंगइं ओसारियाइं ।

10

11 १ P मंसाहारि'. २ P परवरियाहं. ३ AP सुदयावर. ४ A omits portion from सुयधर down to मुणि in 6 b; K writes it in marg. ५ A दहसहसइं. ६ A adds after this; चउसहस ताह पुव्वंधराहं. ७ A दोसहसइं. ८ P जाणिय दहसहस. ९ P तेचउदस. १० A रिदु-सयइं सुविकिरिया'.

12 १ A तासु; K तासु but corrects it to छंसय. २ P जाउ. ३ A चरुसासीसहसइं. ४ P तेहिं अणुवय'. ५ AP देविउ. ६ AP चउवीसइं पुव्वंगहं. ७ P अउदारियाइं. ८ A विसिद्धिइ. ९ A णिट्ठिवि.

11 २ b अजिणु वि चर्मापि; अजिणहं जिनरहितानाम्. 3 a महया लइ यत्तकाले. 10 पिंडीदुमु अशोकवृक्षः.

12 1 b कुलघाइयाहं केवलज्ञानिनाम्. 3 b ते लक्षाः. 4 a छेउ संख्या. 6 b मुणहि जानीहि. 7 b पेरंतु पर्यन्तः. 8 b आउट्टिदिसरिसइं आयुःस्थितिसदृशानि, यावदायुस्तावत्परिमाणानि. 9 a अउयारियाइं औदारिकाणि.

णाहस्स णिव्वाणि	पंचमइ कल्लाणि ।	
तूराइं षज्जंति	मंगलइं गिज्जंति ।	
थोत्ताइं किज्जंति	वाणाइं दिज्जंति ।	
दीणाइं सं जंति	दुरियाइं खिज्जंति ।	
चंदणइं सीर्यलइं	सुरहियइं परिमेलइं ।	5
जिणतेणुहि विप्यंति	घुसिणेण सिप्यंति ।	
अविंगद पणमंति	मउंडोह दिप्यंति ।	
दीवोहं दिज्जंति ।		
धूवाहधूमण	णीणाविहोएणं ।	
महुयररविह्लाइं	पंजलिहिं फुह्लाइं ।	
घल्लंति देविंद	वण्णंति णाइंद ।	10
जीहासहासेहिं	विब्भमविलासेहिं ।	
देवीउ णच्चंति	सिखं समच्चंति ।	
णंविऊण तं तित्थु	सो सयलु सुरसत्थु ।	
जिहं गुणकहाकारि	पत्तो पुलोमारि ।	
सग्गं सलीलेण	करिणा मयालेण ।	15
संसिकंतिदंतेण	धीरं रसंतेण ।	

घत्ता—इयं भरहखेत्तणंरयदियहु जगचंदुज्जयचंदहु ॥

किं पुष्पवंतु हउं जड करमि चंदप्यहहु जिणिदहु ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहय
महाभवभरहाणुमणिणप महाकव्वे चंद्रप्यहणिष्वाणगमणं
गाम छायालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४६ ॥

॥ चंद्रप्यहचरियं समत्तं ॥

13 १ A णाणस्स णिव्वाण, २ AP सज्जंति, ३ A चंदणइं, ४ A सुरहीअइंधणइं; P सुरहियइं इंधणइं, ५ A खोणियहि विप्यंति, ६ AP लिप्यंति, ७ A मुणि हुयवहं देत्ति; P मणिहुयवहं देत्ति, ८ AP omit दीवोह दिज्जंति, ९ A धूमोहणीलाउ, १० AP णिगंति जालाउ, ११ AP add after this: णिरसियअंगगाइं, डल्लंति अंगाइं, १२ AP णमिऊण तं तेत्थु, १३ AP जिण^०, १४ A संसिकंतदंतेण, १५ A वीरं, १६ A इह, १७ AP भरहखेत्ति णरं, १८ किम, १९ AP omit this line.

13 4 a संजेति शो सुखं यान्ति, 8 b णाणाविहोएण नानाविशिष्टभोगेन, 9 a महुयररविह्लाइं भ्रमरशब्दयुक्तानि, 10 a संसिकंतिदंतेण चन्द्रकान्तिवहन्तेन, 17 जगचंदुज्जयचंदहु जगदेव चंदुज्जयं कुमुदं तस्य चन्द्रः, 18 किं स्तोत्रम्; अथवा जडः पुष्पदन्तकविः किं करोमि.



सुविहिं सुविहिंपयासणं सयमहवंदियसासणं
भुवणणल्लिणवणदिणयरं वंदे^२ णवमं जिणवरं ॥ ६ ॥

1

णहांखित्तारं	सवण्णेण तारं ।	
सुहामोयसासं	सया जस्स सासं ।	
पदिट्ठं दिसासुं	रिसिं रक्खियासुं ।	5
अरीणं अगम्मं	पमोत्तणं गं मं ।	
हयं जेण कम्मं	जगे जस्स कम्मं ।	
गयासाविहाणं	णिहाणं विहाणं ।	
सुरिंदिहीरो	सभत्ताण धीरो ।	
पयोहीगहीरो	अकंतंगहीरो ।	10
दिहीगाइगोवो	अमोहो विगोवो ।	
सकारुणभावो	जणुग्घुट्ठभावो ।	
कुसिद्धंतवारो	सुदिट्ठंतवारो ।	
ण जो मोहभंतो	ण जम्मोहवंतो ।	
णमामो अणंतं	रईमोयणं तं ।	15

P. gives, at the beginning of this Samdhi, the stanza बरमकरोदपारो^० for which see note on page 45. A and K do not give it.

1 १ P^T सुविहिंयसासणं. २ P वंदिवि. ३ A णहुक्खित्तारं. ४ A अगोवो. ५ P सुसिद्धंत-पारो.

1 1 ^०सा स णं समबसरणादिदिब्यध्वनिः, द्वादशाङ्गश्रुतं च. 3 a ण हा खि त्त तारं नखैराक्षिता-स्तिरस्कृतास्तारा येन; अथवा नभसः आकाशादेः क्षित्तानि पादसमीपे आनीतानि तारानक्षत्राणि येन; b स व ण्णे ण तारं स्ववर्णेन पाण्डुरम्. 4 a सु हा मो य सा सं शुभामोदनिश्वासम्; b सा सं शोभनमास्यं सुखम्. 5 b रि सिं परमर्द्धिसंपन्नम्; रक्खिया सुं प्राणिनां रक्षितप्राणम्. 6 a अ री णं क्रोधादिशत्रूणाम्; अ ग म्मं अविषयम्; b प मो त्त ण गं मं त्यक्त्वा गां भूमिं मं लक्ष्मीं च. 7 b ज गं ज स्स क म्मं जगति यस्य धर्मोपदेशनव्यापारः. 8 a ग या सा वि हा णं फलेच्छारहितम्; b णि हा णं वि हा णं धर्मोपदेशविधानम्. 9 b स भ त्ता ण धी रो स्वस्य भक्तानां धीरो बुद्धिदः. 10 b अ कं तं ग ही रो कान्तात्यक्तशरीरो हीरो महादेवः. 11 a दि ही त्या दि धृतिरेव गौस्तस्या गोपो रक्षको विष्णुः; b वि गो वो विशिष्टा गौर्वाणी तां पातीति विगोयः; अथवा विगता पराङ्मुखा गोपा राजानो वादिनो वा यस्य. 12 b ^०उ ग्घु ट्ठ भा वो ^०कथितपदार्थः. 13 b सु दि ट्ठं त वा रो सुष्ठु दृष्टो अनन्तानां स्वरूपाणां पारो येन. 14 a मो ह भं तो लक्ष्मीसंघातभ्रान्तः; b ज म्मो ह वं तो जन्मोपबान्. 15 a अ णं तं अविनश्वरम्; b र ई मो य णं रति-मोचनम्; तं प्रसिद्धम्.

जिणं पुष्पयंतं ण हत्थेण छित्तं सया जस्स सीलं पयासेइ संतो महीदिणमारो	जिणा पुष्पयं तं । दयाधम्मछित्तं । बुहाणं सुसीलं । खणेणं इसंतो । कओ जेण मारो ।	20
घत्ता—तहु वरचरियविसेसयं मेल्लह मोहविडंबणं	आयणह महिमासयं ॥ अथिरं घर घरिणी घणं ॥ १ ॥	

2

दीवि खरंसुदीवि कुसुमियतरु पुव्वविदेहि तासु मंथरगइ णवलवंगपल्लवसुरहियजलं खयरीसिहिणघुसिणरसपीयल तडवरविडविपंडियणाणाहल देह्णिणिलोलमाणसूरउल जिणपडिमा इव सार्वयसंगिणि उत्तरि तीरिं ताहि हयखलवइ पुरि णहसिरि व भमालाकंतिहि राउ महापउमउ पउमाणणु	पुक्खरद्धि पुव्वामरमहिहरु । णीरगहिर सीयं सीयाणइ । मज्जमाणगज्जिरंवरमयंगल । गुरुतरंगघोलिरमहुलिहचल । कीलियमहिंसवंदहयणाहल । पक्खित्तुंडपविहंडियसयदल । किं वणिणज्जइ दिव्वतरंगिणि । अत्थि भूमि णामे पुक्खलवइ । पंडु पुंडरिंकिणि घरपत्तिहि । पउमविलोयणु पउममाणणु ।	5 10
घत्ता—करतरवारिवियारिया णिवडिय सूर वणंगया	जेण रिऊ संघारिया ॥ णासिचि भीरु वणं गया ॥ २ ॥	

६ A छिणं. ७ A छिणं. ८ A घरणी.

2 १ AP सीयल. २ A °जले; P °जलु. ३ P °गज्जिय°. ४ A °मयगले; P °मयगल.
५ A °पलिय°. ६ AP महिसविद°. ७ A देहणीलोल°. ८ P °सिगिणि. ९ A उत्तरतीरे. १० A
पुंडरिगिणि.

16 b जिणा येन पुष्पयं कुसुमं पानीयं वा, तं प्रसिद्धम्. 17 a छित्तं सृष्टम्; b दयाधम्म छित्तं
दयाधर्मकलितम्. 18 b बुहाणमित्यादि बुधानां सुशीलं शोभनं व्रतक्षणं प्रकाशयति. 19 a संतो
विद्यमानः; b इसंतो वाणविनाशकः. 20 a महीदिणमारो पृथ्वीवर्तिप्राणिदत्तमारणः; b मारो
कामः. 21 b महिमासयं महिम्नां साहाय्यानां शतानि यत्र.

2 1 a खरंसुदीवि सूर्यदीपिते; b पुव्वामरमहिहरु पूर्वमेरुः. 2 a सीय शीतला. 4 a
खयरीसिहिणं विद्याधरीस्तनी. 5 b णाहल मिट्ठा. 6 a देहणिं उपलेपः कर्दमः. 7 a सावयसंगिणि
भावकयुक्ता श्रापदयुक्ता च. 9 a भमालां नक्षत्रमालां. 12 वणंगया व्रणितशरीराः.

3

परियाणिय णिव अत्थाणत्थहु
आवेण्णिणु अक्खिउ वणवालें
तं णिसुंणिवि सो रइयरहंतहु
वंदिउ वंदणिज्जु जो वंदहुं
जिह जिह तेणं देउ णिज्झाइउ
भिच्चलोउ दूसणु परलोयहु
णारि मारि भीसण तें दिट्ठी
पुत्तहु बालकमलदलणेत्तहु
मुक्कउं धरु वहुदुक्खहं भंडउं

पक्कहिं दिणि तहु अत्थाणत्थहु ।
नुंव वणु भूसिउं तिहुवणवालें ।
वंदणैहत्तिइ गउ अरहंतहु ।
इंदचंदणाइंदणरिंदहुं ।
तिह तिह सो णिव्वेउ पराइउ । 5
भोउ गणिउ सरिसउ फणिभोयहु ।
हियवइ विसयविरत्ति पइट्ठी ।
देवि धरत्ति झत्ति धणयत्तहु ।
लइयउं वरुं संसारतरंडउं ।

घत्ता—सुंयरंतो जिणपुंगमं
पालइ मुक्कणियंगउ

इसि प्राणिदियसंजमं ॥
सुयप्यारहअंगउ ॥ ३ ॥

10

4

णारीचितणु णं करइ दंसणु
गंधु मल्लु सरु राउप्पायणु
तं परिहरइ वच्छुं जहिं रोसहु
भाविवि भावणाउ णयजुत्तिउ
कम्म अहम्मु णियाणु णिसिद्धउं
मुउ संणासणेण जोईसरु
अह्माइज्जहत्यतणु सुंदरु
मुयइ सासु सुहणिहि दहंमासहिं
ओहिणामणाणेण परिक्खइ
कालें कालाणु संप्राविइ

णउ संभासणु णउ करफंसणु ।
णउ अइमत्तपाणंसभोयणु ।
होइ सूइ माणाइयदोसहु ।
दंसणसुद्धिविणयसंपत्तिउ ।
तित्थयरत्तगोत्तु तें बद्धउं । 5
जायउ प्राणयकप्पि सुरेसरु ।
वीससमुहमाणंजीवियधरु ।
भुंजइ वीसहिं वरिससहासहिं ।
धूमप्पह महि जांव णिरिक्खइ ।
थिइ उम्माससेसि तहु जीविइ । 10

3 १ AP णिव. २ AP तं णिसुणेत्ति रइयं. ३ A वंदणभत्तिइ. ४ P देउ तेण. ५ P धरित्ति उत्ति. ६ AP वउ. ७ A सुमरंतो जिणपुंगवं; P सुमरंतहो जिणपुंगमं. ८ AP पाणिदियं.

4 १ P करइ ण. २ A पाणु रसं. ३ P वासु. ४ A णियाणि. ५ AP पाणयकप्पि. ६ A अद्दाहियतिहत्थं; P आहुइ जि हत्थं. ७ P माणु. ८ P सुहीणिहि. ९ A दसमासहिं. १० P ओहि-
णाणमाणेण. ११ AP संप्राविइ.

3 1 a अत्थाणत्थहु अर्थानर्थयोः; b अत्थाणत्थहु आस्थानस्थितस्य. 3 a रइयरहंतहु रतिकरः कामः तस्य विनाशकरयः; अथवा, रचितो रहसः अन्तरायस्य अन्तो विनाशो येन. 4 a वंदहुं वृन्दानाम्. 6 b फणि भो यहु सर्पफणावत्. 9 b तं तरंडउं तारकम्.

4 2 a राउप्पायणु रामोत्पादकम्. 3 b सूइ प्रसूतिरुत्पत्तिः. 5 a णियाणु निदानशक्यम्. 7 a अइइअं सार्धत्रयं.

घत्ता—दिष्णविवक्खासंकयं मुहसोहाजियपंकयं ॥
सुहलियसुहमाणियसिवं भणइ कुलिसि दविणाहिवं ॥ ४ ॥

5

जंबुदीयि रविदीवयदरिसइ
मंडूधरियपरमहिवइबंदिहि
कासवगोत्तहु गुत्तससंकहु
मुत्ताहलमंडियसुग्गीवहु
वासवकुलिसु व मज्जे खामहि
विद्धंसियदुद्धरमणसियसरु
जाहि ताहं तुहुं दुज्जण जूरहि
करि वंगउं पुरुं घरु सुहवंसणु
णिम्मिउ णयरु काइं वणिणज्जइ
भाणुबिंबु तहिं परु किं सीसइ

घत्ता—पयगयरंगविहंतियं
दंकइ जत्थ वहुल्लिया

भरहें भुसइ भारहवरिसइ ।
णरभरियहि णयरिहि काकंदिहि ।
वइरिरणगणि वज्जियसंकहु ।
इक्खाउहु रायहु सुग्गीवहु ।
जसरामहि देविहि जयरामहि । 5
होसइ देउ णवंमतित्थंकरु ।
वित्थियं सयल मणोरह पूरहि ।
ता जक्खेण दुक्खविद्धंसणु ।
जहिं मणिक्किरणविरोहें भिज्जइ ।
तेणं रयणि ण वासरु दीसइ । 10

पामरायमणिपंतियं ॥
किं सा चंदगाहिल्लिया ॥ ५ ॥

6

कज्जलु णयणि दंति हरिणीलहु
दंतपंति संसियंतकरोहें
भणइ धरिणि सहियउ सरलच्छउ
जोयवि धरि मोत्तियरंगावलि
णीलउं णेत्तु ण णिहिउं णियच्छइ
कक्केयणकुडुयलइ पेच्छिवि

आरुसइ किरणावलि कालहु ।
दण्णयलि ण णियति समोहें ।
पंवहि दसण ण धोयवि णिच्छउ ।
अवर ण वंधंइ गलि हारावलि ।
मरगायदित्ति मयाच्छि दुगुंछइ । 5
भुंज भुंज णियभासइ पुच्छिवि ।

5 १ P मंडू, २ A णवमु, ३ P दूरहि, ४ P तहु धरि धणय मणोरह, ५ A पुरवरु, ६ P काइं णयरु, ७ A माणिक्किरणविहि, ८ AP विहत्तियं.

6 १ A ससिअंतं; P ससिकंतं, २ P वद्धइ, ३ A णीलणंत्तु ण.

11 दिष्ण विवक्खा संकयं दत्ता विवक्षाशङ्का यस्य कुबेरस्य, 12 मुहलियं सुफलितम्, 12 कुलिसि इन्द्रः.

5 2 a मंडूधरियं बलात्कारेण हठात् धृताः, 4 a सुग्गीवहु शोभनप्रीवस्य, 5 b जसरामहि यशसा मनोहरायाम्, यशो वा रामं रमणीयं यस्याः, 6 a मणसियसरु कामवाणः, 7 a जूरहि विध्वंसय, 9 b भिज्जइ तिरस्क्रियते, 11 पयगयरंगविहंतियं चरणगतरागविघातिनीम्, 12 दंकइ आच्छादयति.

6 2 b समोहें स्वप्नान्त्या, 6 a कक्केयणकुडुयलइ कर्कतं नाम नीलरत्नं तन्मय्यां भित्तौ; 6 णियभासइ शिशुभाषया.

विण्णउ मुहविंवाहरतंबइ
अण्णु वि रंगंतउ सुत्तुट्टिउ
मणिमहियलगयतणु पंडिभुल्लउ
जं घरसिहराहयणहभायउ
णिच्चु जि अमुणियसंझारायउ

घत्ता—तहिं रयणंसुकरालइ
अम्मोपवि महासइ

सिसुणा कूरकवल्लु पंडिबिंबइ ।
थणइ थण्णरसगहणुक्कंठिउ ।
दोमायउं चितइ डिंभुल्लउ ।
कणयघडिउ पुरु पीयलछायउ । 10
सुरहिसुसीयल्लंदाहिणवायउ ।

सोवंती सयणालइ ॥
पेच्छइ सिविणयसंतइ ॥ ६ ॥

7

णायं णाईल्लं णायारिं
णाणाफुल्लं मालाजंमलं
जायैयजुम्मं सिरिणिवजुम्मं
पालंनुंगायवेलावारं
पीढं चामीयरसेहीरं
दीहमऊढं रयणसमूहं

घत्ता—इय वरीसिविणयमालियं
पइणो तीण सिट्ठियं

णारायणियं णरमणहारिं ।
णिसियरयं णेसरयं विमलं ।
पोमसरं पोमासियपोमं ।
पारं पंडुरपाणियफारं ।
णोइहरं णाइंदागारं ।
णिद्धं णिद्धं हुयवाहं ।

5

जयरामाइ णिहालियं ॥
तेण वि फलमुवदिट्ठियं ॥ ७ ॥

8

दयाभावजुत्तो
इल्ले होहि दीसो
परस्सोवयारी

तुंमं चारुपुत्तो ।
अणीसो मुणीसो ।
जिणो णिज्जियारी ।

४ P परिविंबइ. ५ A मणिमहियगयतणु णिरु पडिभुल्लउ; P मणिमहियगयतणु परिविंबुल्लउ. ६ AP सुसी-
यल्ल. ७ AP रम्माए वि.

7 १ P णायल्लं. २ A ०जुवल्लं. ३ AT जलयरजुम्मं. ४ AP पालंनुंगायवेलावारं (P धारं).
५ P णायहरं. ६ A adds after this: ऊइयपंचवीयं एवहं. ७ A adds after this: जालामाला-
जडियदिसोहं. ८ A वरि. ९ A सिट्ठियं. १० A ०दिट्ठियं.

8 १ AP तुहं.

7 b पडि विंबइ प्रतिबिम्बमुग्घे. 8 a सुत्तु ट्टिउ सुतोत्थितः; b थणइ शब्दं करोति रोदिति. 9 b
दो मा य उं द्वैमातृकम्.

7 1 a णायं गजम्; णा इल्लं वृषभम्; णायारिं सिंहम्; b णारायणियं लक्ष्मीम्. 3 b
णे सरयं सूर्यम्. 3 a जाययजुम्मं यादो जलं तस्मिन् जातानां मत्स्यानां सुग्मम्; सिरिणिवजुम्मं श्रीयुक्तं
कुम्भद्रवम्; b पोमासियपोमं लक्ष्म्या अविष्ठितं कमलं यत्र. 4 a पालंनुमायवेलावारं पाल्यां उद्गतौ
वेलावारो वेलासमूहो यस्य समुद्रस्य; b पारं समुद्रम्. 5 b णाइहरं नाकिइहं सुरविमानम्.

तओ तम्मि काले	महातूररोले ।	
तिलोयस्स पुजा	सई का वि लजा ।	5
मई कति बुद्धी	सिरी संति सिद्धी ।	
ससिगारभारा	पघोलंतहारा ।	
गुणुत्तालभावा	सकंचीकलावा ।	
तुलाकोडिपाया	विइणंगाराया ।	
दिही दीहरच्छी	परा का वि लच्छी ।	10
पवण्णा णिवासं	जिणंवाह पासं ।	
कया गम्भसुद्धी	इमीहिं महिद्धी ।	
धणेंसो पहिट्ठो	हिरंणं पवुट्ठो ।	
रिज्जमासमेरं	धेरुं समेरं ।	
अमंदो णिवंदो	चुओ प्राणइंदो ।	15
घत्ता—फग्गुणमासे पत्तए	पक्खे ससियरदित्तए ॥	
णवमीदियहि पवित्तए	देवं मूलणक्खत्तए ॥ ८ ॥	

9

जिणो णारिदेहे थिओ दिव्वणाणो	सुरिंदाण वंदेहिं वंदिज्जमाणो ।	
णिहीकुंभहत्था पणचंति जक्खा	वरिट्ठा सुवण्णं दहट्टेव पक्खा ।	
पमोत्तण संसारवित्थारदुग्गं	पवण्णम्मि चंदप्पहे मोक्खमग्गं ।	
समुद्दाण कोडीण सीरीसमाणं	सुसुण्णं गयं पत्तियं कालमाणं ।	
तओ मग्गमीसे णिसीसंसुसंए	पहिट्ठे दिणे जायओ जायसेए ।	5
जिणिदस्स जम्मे जियाराइवग्गो	ससक्को असेसो वि सोहम्मसग्गो ।	
ण सामाइ खे खीणपावो महप्पो	विमाणेहिं जाणेहिं ईसाणक्कपो ।	
सण्णईकुमारो स माहिंदणामो	विर्लंबंतमोहंतमंदारदामो ।	
समं वंभणाहेण बंभुत्तरेसो	णहुट्ठीणगिष्वाणसोहाविसेसो ।	
चलो चल्लिओ लंतवो लच्छिधामो	असट्ठेण काविट्ठवो तुट्ठिकामो ।	10

२ A तूराले. ३ A सुई काविः P सयं कावि. ४ P जिणंवाय. ५ P सुवण्णेण बुद्धो. ६ A रमंतो समेरं. ७ P णिमंदो. ८ AP पाणइंदो. ९ A देट.

9 १ AP मसुण्णं. २ A सुमंओ. ३ A जायमंओ. ४ AP संमाइ. ५ P सण्णईकुमारो. ६ AP विलोच्छंतसोहंतं.

8 4 b महातूररोले महातूरुस्वने. 5 b लजा हिगे. 9 a तुलाकोडि^० पादाङ्गुदम्. 14 a रिज्जमासमेरं षण्मासावधिः षण्मासपर्यन्तमित्यर्थः; b समेरं उपशमभावम्.

9 2 b वरिट्ठा वृष्टाः; दहट्टेव पक्खा अष्टादशपञ्चान् नव मासान्. 4 a सीरीसमाणं बल-भद्रतुल्यानां नवानाम्. 5 a णिसीसंसुसंए चन्द्रकिरणश्रेतः; b जायसेए जातश्रेयसि. 7 a सामाइ अवकाशं प्राप्नोति. 10 b असट्ठेण अकपटेन.

ससुक्रो महासुक्रदेवगंगामी
समुद्राहो आणओ प्राणइंदो
ससी वासरीसो रहुब्बदकेऊ
दियंतं गयाणंदभेरीणिणाया
णिचो वंदिओ तेहिं काकंदिवालो
असामंणलायणभारम्मयाण
तिर्णाणी तिसुद्धो सुलेसासहावो
घत्ता—पंडुसिलोवरि ण्हाणियं
णोविऊणं अरहंतयं

सयारो सहारो सहस्सारसामी ।
जगुद्धारणो आरणो अब्हुइंदो ।
बुहो अंगिरारो सणी राहु केऊ ।
पुरिं प्राईया सामराणं णिहाया ।
करे ढोइओ कित्तिमो को वि बालो । 15
जणेऊण भंति³ मणे अम्मयाण ।
णिओ मंदरं देवदेवेहिं दवो ।
पूयाविहिसंमाणियं ॥
पुण्फदंतभयवंतयं ॥ ९ ॥

10

ते सुरवर लंघिवि गयणंतरु
जणणिहि करयलि णिहियउ जइवइ
कालं जंतं वड्डिउ सायरु
वड्डिउ सुकइहि कव्वालाउ व
वड्डिउ उवसमवेळ्ळिहि कंदु व
वड्डिउ धम्मदिवाडहु तेउ व
कुंदुज्जलतणु अईसयभूयउ
तिसुलीलाइ पओसियदिव्वहं
पच्छइ पत्तु पायसासणु सइं
जं चितंतउ सुरगुरु गुण्पइ
लक्खणलक्खियंवरतणुलट्ठिहि

ते लेप्पिणु पडिआया तं पुरु ।
गउ आणंदु पणच्चिवि सुरवइ ।
वड्डिउ णं सियंपक्खइ सायरु ।
वड्डिउ सुमुणिहिं णाणसहाउ व । 5
वड्डिउ अमयकलिहिं णव्वंदु व ।
वड्डिउ भवमयरहरहु सेउ व ।
वाणासणसउ तुंगु पहूयउ ।
गय पण्णाससहस तहु पुव्वहं ।
उच्छउ किं सीसइ मणुपं मइं ।
तहिं महुं मइ णउ किं पि विसण्णइ । 10
पट्टबंधु जाइउ परमेट्ठिहि ।

घत्ता—माणंतहु सिरियंगंइ
पुव्वहुं पुणु सविलासइं

अट्टवीसपुंव्वंगइं ॥
पण्णासेव सहांसइं ॥ १० ॥

७ AP देवक्र०. ८ AP प्राणइंदो. ९ P वासरीसो. १० AP पाइया. ११ AP काकिदिवालो. १२ P असावाण०. १३ A भंती. १४ A तिणाणी तिलेसो तिसुद्धो सुहावो. १५ AP णमिऊणं. १६ AP पुण्फयंत०.

10 १ P जयवइ. २ AP सियवक्खइ. ३ A अमयकलिहिं. ४ P णव्वंदु व. ५ A धम्म दयादहभेउ व; P धम्मदिवायरतेउ व. ६ P अइसंभूयउ. ७ P परतणु. ८ AP जायउ. ९ A सिरि- अंगयं. १० A पुव्वंगयं. ११ A सहसइं.

11 b सयारो शतारेंद्रः. 13 b अंगिरा बृहस्पतिः; अरो मङ्गलः. 14 b सामराणं णिहाया दिक्कालानां समूहाः.

10 3 a सायरु लक्ष्म्याः कारकः आकरो वा. 6 a दिवाडहु दिवा अट्टीति दिवाटः सयं तस्य. 8 a पओसियदिव्वहं प्रतोपितदेवानाम्. 10 b विसण्णइ प्रवर्तते.

11

तेत्थ तासु बोलीणइं जइयहुं
तं जोइवि जिणणाहु वियकइ
जणणमरणंपरिवट्टणलक्खणु
जं जं काइं वि णयणाहिं दीसइ
आथिरु सव्वु भणु कहिं रइ कीरइ
वइसाणरु इधणतणपवणें
भोणं इंदियतिसि ण पूरइ
इय चिंतंतु णाहु संभावित्त
चारु चारु परं जिणवर जाणित्तं
घत्ता—ता धयवीईराइयं
पुंडरीयमालाघरं

उक्क पडंती विट्ठी तइयहुं ।
कालहुं कलिहि ण कोइ वि चुक्कइ ।
एउ तिजगु परिणवइ पंडिक्खणु ।
उक्का इव तं तं खणि णासइ ।
तो वि चित्तु विसयासइ हीरइ । 5
ण समइ कंडु णक्खकंडुयेंणें ।
चड्डइ डुट्टु तिट्ठु मइ जूरइ ।
अमरमुणीसरेहिं बोलाविउ ।
सासयवित्तिहिं हियवउ आणित्तं ।
विउलपत्तपच्छाइयं ॥
सोहइ गयणंगणसरं ॥ ११ ॥

12

सुरवरकरयलपहयइं तूरइं
णविउ ण्हविउ भावें तित्थंकरु
दिक्खेदुगुल्लयाइं परिहेप्पिणु
सुमइहि रज्जु समप्पिवि राणउ
गउ णडंतणाणाखयरामर
तहिं मायंसिरि मासि सिसिरहु भरि
कुडिलकेस । णक्कुडिलें लुंचिवि
जाइवि अमर पवरमथरालइ
छट्टुववासु पयासु करेप्पिणु
घत्ता—वित्थारियतवसिहिसिहं
उज्झियरइसंकप्पयं

खीरमहंणवि भरियइं खीरइं ।
त्रणवाहं घणेण णं महिहरु ।
परमसिद्धसंतइहि णवेप्पिणु ।
सूरप्पहसिवियहि आसीणउ ।
वियसियपुष्पइ पुष्पवणंतरि । 5
सियंपाडिवइ परुणदिसि दिणयरि ।
घाल्लिय ते तियसिदं अंचिवि ।
जयकारिउ विज्जाहरमालइ ।
थिउ नृवसंहसें सहं तउ लेप्पिणु ।
ससररीरे वि हु णिाप्यिहं ॥ 10
पडिवणं जिणकप्पयं ॥ १२ ॥

11 १ A कालहु कलि ण वि को चुक्कइ. २ A 'मरणु परि'. ३ A पारिक्खणु. ४ A कायसि णयणहं. ५ A 'कंडमणें. ६ A बोलाविउ.

12 १ A महणव'. २ Δ/T 'दुगुल्लयाइं. ३ A मायसिरमामि; P मागसिरि मासि. ४ A पडिवए; P पडिवाए. ५ P णिकुडिलें. ६ AP णिवसहसें.

11 2 b कालहु कलि हि यमेन सह युद्धात्. ३ b पडिक्खणु प्रतिक्षणम्. 7 तिट्टु तृष्णा; जूरइ जीयंत हीयते. 10 धयवी ईराइयं ध्वजवीचीराजितम्; 'पत्त वाहनानि. 11 पुंडरीयं छत्रम्.

12 2 b घणवाहं इन्द्रेण. 3 a 'दुगुल्लयाइं वस्त्राणि; b 'संतइहि श्रेण्याः. 4 a सुमइ हि सुमतिनाम्नः पुत्रस्य. 6 b वरुणदिसि पश्चिमदिशायाम्. 7 a णिक्कुडिलें निष्कपटेन. 10 णिप्यिहं निस्पृहम्. 11 जिणकप्पयं जिनाचरणम्.

13

अवरहिं वासरि संतकसायउ
सइलेणयर मुणिभक्खहि दुक्कउ
तहु तहि उप्पणउं अच्चेरउ
चउवरिसइं गलियइं छम्मत्थहु
कत्तियमासि विसुद्धहि वीयहि
लोयालांयपलोयणदीवउ
केवलणाणु सो ज्जि लइ भणणइ
जं बुद्धं सुण्णउं जि पयासिउं
जं कउल्ले अंबरु आहासिउं
जं केवल्ले णिक्किरिउं णिउत्तउं
जं सुरगुरुणा णत्थि पउत्तउं
तं खं देवे सुसिरु विसिद्धउ

यत्ता—पयाणेयविवाइणा
जउं कुसुमपिसकयं

हासकासजसससिसुच्छायउ ।
पुप्फमित्तरायहु धरि थक्कउ ।
पंचपयारु मणोरहगारउ ।
णायरुक्खतलि मुणियपयत्थहु ।
दिवसक्खइ गिब्वाणपगीयहि । 5
जायउ देवहु अप्पसहावउ ।
अण्णे जीवहु कहिं परमुण्णइ ।
जं विप्पेण वंभु णिहेसिउं ।
जं सइवेण सिवत्तु समासिउं ।
णिग्गुणु णिच्चविसुद्ध अक्कत्तउं । 10
जं अणंतु अच्छइ अविहत्तउं ।
अप्पाणाउ विहिण्णउं दिट्ठउ ।

पुप्फइंतजिणजोइणा ॥
पहि णिहियं तेलोक्कयं ॥ १३ ॥

14

इंदेण जलणेणं
फणिणा कुबेरेण
दसदिसिहिं आपण
थोत्तं पढंतेण
तुहुं धोयरइरेणु
तुहुं वंभु हयदणु
जे दुट्ठ पाविट्ठ
उम्मग्गि वट्ठंति
अलियं पयंपंति
परवहु णिहालंति

वरुणेण पवणेण ।
चंदेण सूरेण ।
सुरवरणिहाएण ।
थुउ जिणवरो तेण ।
तुहुं कामदुहधेणु । 5
तुहुं माय तुहुं वणु ।
णिक्किट्ठ जइ धिट्ठ ।
महु मच्चु घोट्ठंति ।
कामेण कंपंति ।
पाराद्धि खेलंति । 10

13 १ P °ससिजस°. २ AP सयलणयर. ३ P मणोहर°. ४ AP कवल्ले. ५ A संखे.
६ P अक्कत्तउं. ७ A अप्पाणाउ विभिण्णउं; P अप्पसहावे जाणं. ८ AP पुप्फयंत°. ९ P पहि णीयं.

14 P adds after this: जमदिसिक्कुमारेण, णेरइयभावेण. २ P जण धेट्ठ. ३ P खेलंति.

13 1 a संतकसायउ उपशान्तकपायः. 2 a सइलेणयर शैलपुरम्. 4 b मुणियपयत्थहु
ज्ञातपदार्थस्य. 9 a कउल्ले मीमांसकेन; अंबरु स्वर्गः. 11 a सुरगुरुणा चार्वाकेण. 12 सुसिरु
अन्तःशुषिरम्.

लोहेर्ण भजंति	परहणु ण वज्जति ।	
रोसेण वडंति	खग्गाइं कडंति ।	
जे मासु भक्खंति	ते पइं ण पेक्खंति ।	
मूढा ण वदंति	णिच्चं पि णिदंति ।	
संचरइ जणुं छम्मु	पइं मुइवि कहिं धम्मु ।	15
बहुजणणजलसेउ	पइं मुइवि को देउ ।	
घत्ता—मिच्छापरिणामग्गे	लग्गं घणतमदुव्वेहे ॥	
णिवडंतं ण उवेक्खियं	जगडिंमं पइं राक्खियं ॥ १४ ॥	

15

समवसरणि जिणु संठिउ जांविहिं	अट्टोसी हुय गणहर तांविहिं ।	
पण्णारहसय वज्जियसंगहं	परमरिसिहिं जाणियपुव्वंगहं ।	
एकलक्खु सहं पंचावण्णहिं	सहसहिं पंचसइंसंपण्णहिं ।	
सिक्खुयाहिं णिम्महियरईसहं	अट्टसहस चउसय ओहीसहं ।	
सत्तसहस केवलणाणालहं	तेरहसहसइं विक्किरियालहं ।	5
भयसहाम वयसय मणपज्जय	णाणधारि दोसासय दुज्जय ।	
वईतंडियपच्चत्तरदाइहिं	रिदुसहसइं रिदुसयइं विवाइहिं ।	
सहुं असीइसहसइं णिरवज्जहं	लक्खइं तिण्णिण पउत्तइं अज्जहं ।	
दोण्णिण लक्ख पालियवरधम्महं	मणुयहं मणुइहिं पंच सुसोम्महं ।	
अमरच्छरउलाइं गयसंखइं	तिरियइं पुणु कहियाइं ससंखइं ।	10
इय एत्तियलोपं संजुत्तहु	भुवणत्तयराइं वयमित्तहु ।	
महि विहरंतहु धम्मु केहंतहु	पुष्पदंतदेवहु अरहंतहु ।	
अट्टवीसपुव्वंगविहीणउ	पुव्वहं पक्कु लक्खु तैहिं झीणउं ।	
घत्ता—मासमेत्तु मुणिगणजुओ	फणिदेवासुरणरथुओ ॥	
लं वियपाणि मणोहंर	थिउ संमेयमहीहरे ॥ १५ ॥	15

४ P reads *a* as *b* and *b* as *a*. ५ A जणलम्मु; P जहिं छम्मु. ६ P^१ दुण्यहे. ७ A णिवडंतउ.

15 १ P adds after this: एए मुणि संजाया तावहिं, इंदचंदविसहरमणहर. २ P अट्टा-सीस जाया गणवर. ३ AP सिक्खुवाहं. ४ AP वयतंडिय. ५ A करंतहु. ६ AP पुष्पयंत°. ७ A तहो झीणउं; P परिस्वीणउं. ८ A मासमेत्त°.

14 16 *a* व बहुजण ण° संसारः.

15 1 *a* णि म्म हि यर ई सहं मभित्तकंदर्पणाम्. 11 *b* °रा ई वय मित्तहु राजीवं कमलं तस्य मिश्रस्य सूर्यस्य.

16

आउसमाणइं णामइं गोत्तइं	करिवि वेयणीयाइं णिहित्तइं ।	
दंडकवाडरुजगजगपूरइं	विरइवि मुक्कइं तिण्णि सरीरइं ।	
तेजइओरालियकम्मइयइं	जाइं विमुक्कइं पुणु वि ण लइयइं ।	
उव्वेह्लिवि कट्ठिवि आउंचिवि	जीवपपस सयलघण संचिवि ।	
चउसमयंतयालु थिय देहइ	भइवण सुक्कट्टमिदियइइ ।	5
अवरण्हइ सहं मुणिहिं सहासं	सिद्धउ जिणु जणजयजयघोसं ।	
पुज्जिय तणु चउविहहिं सुरिंदहिं	वंदिउ इंदपडिंदणरिंदहिं ।	
गइ देवाहिदेवि अववग्गहु	गउ सुरयणु णीसेसु वि सग्गहु ।	
घत्ता — जिह भरहस्स समीरिओ	रिसहेणंगयवयरिओ ॥	
तिह मइं तुह कहिओ इमो	पुक्कदंतजिणपुंगमो ॥ १६ ॥	10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुक्कयंतविरइए
महाभवभरहाणुमण्णिण महाकव्वे पुक्कदंतणिव्वाणगमणो
णाम सत्तचालीसमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४७ ॥

॥ जिणंपुक्कयंतचरियं समत्तं ॥

16 १ P णामयं. २ A दंडकवालरुजगजग^०; P दंडकवाडपरजग^०. ३ P तेजोरालियअरु-
कम्म^०. ४ A जोयविमुक्कइं; P जाएवि मुक्कइं. ५ AP सिहि दिण्णि सिहिंदहिं. ६ P भरहहो. ७ A
पुक्कयंत^०. ८ P सत्तचालीसमो. ९ AP omit the line.

16 2 a ०रुजगं ०प्रतरं. 3 a ते जेत्या दि तैजसौदारिककामेणशराराणि. 4 a उ व्वे ह्लिवि
एकत्रीकृत्य; कट्ठिवि कर्मभ्यः शरीराच्च निष्कास्य. 5 a चउसमयंतयालु चतुःसमयैः दण्डकपाटप्रतर-
लोकपूरणाः कृताः; पश्चाच्चतुर्भिः संक्रोचिताः; एवमष्टौ समयैः. 9 अंगयवयरिओ अक्कजः काम-
न्तस्य शत्रुः.

XLVIII

आउच्छणदच्छ संच्छिणियच्छियधम्मपह ॥
मुणि सेणियराय सीयलणाहहु तणिय कह ॥ धुवकं ॥

1

जो परिपालियतिरयणो	पयजुयपाडियसुरयणो ।
तिक्खं वारियदुव्वहं	जस्स वय परदुव्वहं ।
बुहत्तोसो परमागमो	जेण कओ परमागमो ।
कणयकमलकोसाहओ	अविणस्सरसिरिसाहओ ।
जो पिहियासवदारओ	णग्गो णिग्घरदारओ ।
णाम्भियणिच्चायारओ	पोसियपंचायारओ ।
अमुणियवणियायल्लओ	जो दयाइ अल्लओ ।
जस्स पट्ठासइ जइयणो	वसहणहि णिज्जइ यणो ।
जेव तेव उग्गयगयं	धरियं जीवेणगयं ।
तं वीहच्छं पूइयं	गंधमल्लविहिपूइयं ।
तइ वि खलं खइ तावयं	होइ ण हो चत्तावयं ।
पत्थ सणेहं सीसया	जस्सं कुणंति ण सीसया ।
जं दट्ठं सकाणणं	महुसमयम्मि व काणणं ।
वियेसइ ससहरराहयं	कमलं पिव रविभाहयं ।
जो वणवासि वसी यलं	वयणं चंदणसीयलं ।
जस्स पसाया सीयलं	हवइ णविवि तं मीयलं ।

घत्ता—गुणभइगुणीहिं जो संधुउ गुणगरुयगइ ॥

दहमउ जिणणाहु हउं वि धुणविं सो दिव्वजइ ॥ १ ॥ 20

1 १ AP संच्छिणियच्छियं, A 'पालिय', २ A कणयकलसं, ३ P वणियापहओ, ४ A पयासइ; P य भासइ, ५ A णिज्जियणो; P णिज्जइअणो, ६ A जय, ७ A विहसइ, ८ AP गुण-गरुवमइ, ९ P हउं धुणामि सो.

1 1 आउच्छणदच्छ आप्रच्छनदक्षः संच्छिणियच्छियं स्वनेत्रेण अवलोकितः, 3 a 'तिरयणो ज्ञानदर्शनचरित्रलक्षणानि त्रीणि रत्नानि, 4 a तिक्खं अतीव तीव्रम्; वारियदुव्वहं निपिद्ध-दुग्धम्; b वयं व्रतम्, 5 a परमागमो उक्तलक्ष्याः आगमनेदतुः, 6 a 'कोसाहओ 'कर्णिका-सदृशशरीरः; अविणस्सरसिरिसाहओ मोक्षलक्ष्मीसाधकः, 8 a 'णिच्चायारओ 'नीचान्धारः, 9 a 'वणियायल्लओ स्त्रीकटाक्षः; b अल्लओ आर्द्राद्रेः, 10 b वसहेहि णिज्जइयणो वृषभैर्यथा अनः शकटं नीयते तथा जीवेन शरीरं नीयते इति प्रभाषते, 11 a उग्गयगयं उद्गतरोगमङ्गम्, 12 a वीहच्छं वीभत्सम्, 13 a खइ क्षयि विनश्वरम्, 14 b सीसया लक्ष्याः स्वामिनः; अथवा श्रियं सीदन्ति गच्छन्ति प्राप्नुवन्तीति श्रीसदाः, 16 a ससहरराहयं शशधरस्य राहा शोभा यस्मिन्स्तादृशम्, 17 a वसी यलं वशी जितन्द्रियः; अलं अतिशयेन.

2

उत्तुंगकोलखंडियकसेरु
 तद्दु पुञ्जविदेहइ वहइ विमल
 खरदंडसंडदलछइयणीर
 दरिसियपयंडसोंडाललील
 जुज्जंतचडुलकरिमयरणिलय
 जलपक्खालियतंडसाहिसाह
 दाहिणइ धणसंछणसीम
 जसससिधवलियदिच्चक्रवालु
 परिहातियतिवलइ जणियसोह
 घणथणहल कौतलभसलसाम
 पियविडविदेहणुव्भामकाम
 णं पयवअणंगहु तणिय वेह्लि
 मूहव सारंगसिल्लिवयच्छि
 सा सुललियंगि पंचत्तु पत्त
 अवलोयवि चितइ सामिसालु
 मुय मेरी पिय पयडीकएहिं
 तोडेप्पिणु णिव्वरु णेहवासु
 अण्णिय एह मइ भणिय काइं
 संचियणियकम्मवसंगयाइं
 एक्के मइं जाणवउं णियाणि
 जं अच्छिवि पुणु वि विणींसभाउ

पुक्खरवरदीवइ पुञ्जमेरु ।
 णइ कीलमाणकारंडजुयल ।
 डिंडीरपिंडपंडुरियतीर ।
 लोलंतधूलकल्लोलमाल ।
 परिभमियगहीरावत्तवलय । 5
 णामेण सीय सीयल सगाह ।
 उवयंठि ताहि संठिय सुसीम ।
 तहि णयरिहि णरवइ पुहइपालु ।
 दावियरोमावलअंकुरोहं ।
 कयपत्तावल अहिजणियराम । 10
 कोमलिय सरस संदिण्णकाम ।
 णं तासु जि केरी इत्थमह्लिं ।
 तद्दु वल्लह देवि वसंतलच्छि ।
 णीसासविवज्जिय पिहियणेत्त । 15
 णिप्फलु मोहंधहुं मोहजालु ।
 हसइ व दसणेहि णिसिक्किण्हिं ।
 अकहंति दुक्क परजम्मवासु ।
 इह परियणसयणइं जाइं जाइं ।
 जाहिति एंव सव्वाइं ताइं । 20
 तो वरमइ जुंजमि अरुहणाणि ।
 तं मुच्चइ एंव भणेत्ति राउ ।

यत्ता—करु देति विहेय कुंभिणि व्व तोस्सियजणहु ॥
 कुंभिणि ढोएवि चंदणणांमहु णंदणहु ॥ २ ॥

2 १ A उत्तुंग°; P उत्तुंगु. २ P °तडि साहिसाह. ३ A °सच्छण° . ४ A विरइयणायर-
 णरमणणरोहु. ५ A °अंकुरोहु. ६ P °कुंतल°. ७ P कयवत्तावलि. ८ A वेढणव्भामस°; P °वेढुणु°.
 ९ A पयडीकिएहि. १० A °णिवक्कम्म°. ११ A विणासु भाउ; P विणासिभाउ. १२ A चंदणणामें.

2 1 a °कोल° सकरु; °कसेरु °कन्दः. 2 b °कारंडजुयल °हंसयुगुला. 3 a खरदंडसंड°
 कमलवनम्. 4 a °सोंडाल° हस्ती. 6 a °तडसाहिसाह °तीरस्थितवृक्षशाखा. 7 b उवयंठि उपकण्ठे
 समीपे. 9 a परिहातियतिवलइ परिव्वात्रयवत् वल्लिरेखात्रयेण. 10 a °भसलसाम भ्रमरमनोहरा.
 11 a पिथेत्यादि प्रियविटवेष्टनस्य उद्भास उत्कृष्टशोभा तस्यां कामः इच्छा यस्याः. 13 a सारंगसिल्लि-
 वयच्छि शिशुहरिणाक्षी. 16 a पयडीकएहिं प्रकटीकृतैर्दन्तैः; b णिसिक्किण्हिं निःक्रीडितैः क्रीडा-
 रहितैर्दन्तैः. 22 विहेय वशावर्तिनी; कुंभिणि हस्तिनी. 23 कुंभिणि पृथ्वी.

3

मुणिवरु जायउ संसारकूळि
सीउंद्धरोमु गयसीहरोलि
गुलुं सण्णि दुहु तेरंगु तेल्लु
पाल्लइ पारत्तिउ मेरुधीरु
उवयरणर्गहणि णिक्खेवणेसु
जोयइ तसथावर मग्गचरणि
तं जंपइ जेण ण पावबंधु
तवु करिवि तिव्वु णिम्मुककांमु
आराहण भयवइ संभरेवि
माणिककडयच्चैचइयवाहु
वावीससमुहपमाणियाउ

आणंदमहामुणिपायमूलि ।
णिवसइ गिरिवरकुहरंतरालि ।
वियडीउ ण भुंजइ जइ धंसिल्लु ।
णवकोडिविसुद्धउ वंभवेरु ।
परिहरइ दोसु रिमि भोयणेसु । 5
उच्चारखेलपस्सावकरणि ।
संजमभारालंकरियखंधु ।
बंधेप्पिणु तं तित्थयरणांमु ।
सो अवसणु कयणिरसणु मरेवि ।
संजायउ आरणि अमरणाहु । 10
तिरयणिसरीरु वणणेण सेउ ।

घत्ता—तहु पक्ख दुवीस अवहियं सासहु परिगणिय ॥

तइवरिससहास आहारंतरु मुणिभणिय ॥ ३ ॥

4

णिरुवमसुहसंपावणखणेण
सो कहि वि ण मेल्लइ सुकलेस
परियाणइ पेच्छइ तमपहंतु
उदुमांससेसि जीवियपमाणि
भो गुञ्जय वुञ्जहि भमियसरहि
मलययदुमसुरहिउ मलयंदेसु

रमणीरमणु वि सारइ मणेण ।
जिणु पणवइ गेणहइ चरणमेस ।
अट्टगुणसारु महिमा महंतु ।
आधोसइ सयमहु उदुविमाणि ।
किं बहुणं जंबुदीवभरहि । 5
जहिं णरहिं परिट्टिउ अमरवेसु ।

3 १ A गीह्व च्च रोमगयं. २ P गुह्. ३ A नेरंगु and gloss दधि; P नेरंगु दधि. ४ A रसल्ल. ५ A पारइ पारत्तउ. ६ A गहणं. ७ P पस्सवणकरणि. ८ A तित्थु णिम्मुकं. ९ AP काउं. १० AP णाउं. ११ P पमाणुआउ. १२ A सरीर. १३ AP अवहिय.

4 १ A रमण. २ AP उदुमासं. ३ AP उदुविमाणि. ४ P जंबुदीवि भरहि. ५ AP मलयहुमं.

3 1 a संसारकूळि संसारप्रतिकूलं. 2 a सीउंद्धरोमु शानिनोर्ध्वरोमा. 3 a तेरंगु दधि; b वियडीउ विकृतयः मधुमाममद्यनवतीतानि. 4 a पारत्तिउ परत्र प्रयोजनं यस्मेति पारत्रिको मोक्षार्थी; b णवकोडिविसुद्धउ नवभेदम्. 10 a च्चैचइयवाहु "अलंकृतवाहुः. 11 b तिरयणिसरीरु त्रिहस्तशरीरं. 12 अवहिय मर्यादा श्रासस्थ.

4 1 a संपावण खणेण संपादनावसरे; b सारइ करोति. 3 a तमपहंतु पञ्चनरकपर्यन्तम्. 4 b उदुविमाणि ऋतुविमाने. 5 गुञ्जय गुह्यकः कुवेरः; भमियसरहि भ्रान्ताः शरभाः अष्टापदाः मरथा वा यत्र.

रइकइयवकीलाकोच्छराउ	जहिं कामिणीउ णं अच्छराउ ।
जहिं कामधेणुणिह गोहणाइं	जहिं कप्परुक्खरिद्धइं वणाइं ।
जहिं णिञ्चमेव मंगलणिणहु	तहिं पुरवरु णामें रायभहु ।
रणरंगतुंगमायंगसीहु	ददरहु णरिंदु जयजयसिरीहु । 10
मुहँयंदोहामियरुंदचंद	महणवि तासु णामें सुणंद ।
विसहरवंदारयवंदवंदु	एयहं णंदणु होसइ जिणिंदु ।
जज्जाहि तावं तुहुं करहि तेंव	संभवइ णयरु वरु दिव्वु जेंव ।

घत्ता—ता वइसवणेण तं पट्टणु कंचणुं घडिउं ॥

मणिकिरणकरात्तु सग्गखंडु णावइ पडिउं ॥ ४ ॥

15

5

जहिं दीसइ तहिं सोवणभवणु	जहिं दीसइ तहिं वणंसुरहिपवणु ।
जहिं दीसइ तहिं हरिणीलणीत्तु	जहिं दीसइ तहिं वररमणिलीत्तु ।
जहिं दीसइ तहिं मंडवुं विचिचु	जहिं दीसइ तहिं घुसिणावलित्तु ।
जहिं दीसइ तहिं मुत्तावलिल्लु	जहिं दीसइ तहिं णवतोरणिल्लु ।
जहिं दीसइ तहिं कप्पूररेणु	जहिं दीसइ तहिं गज्जियकरणु । 5
जहिं दीसइ तहिं थियकामधेणु	जहिं दीसइ तहिं वज्जंतवेणु ।
जहिं दीसइ तहिं वीणारवालु	जहिं दीसइ तहिं अलिउलवमालु ।
जहिं दीसइ तहिं चलचिंधचवलु	जहिं दीसइ तहिं ससियंतधवलु ।
जहिं दीसइ तहिं विविहुच्छवोहु	जहिं दीसइ तहिं कयरच्छसोहु ।
जहिं दीसइ तहिं णच्चियमऊरु	जहिं दीसइ तहिं सिरिविहवफारु । 10

घत्ता — जहिं दीसइ तेत्थु पुरवरु जणमणु रावइ ॥

पिययमहि सरीरु जिह तिह चंगउं भावइ ॥ ५ ॥

६ A कप्परुक्खणिद्धइ. ७ A मुहँयंदो. ८ P ताहं. ९ A णवरु. १० AP कंचणघडिउं.

5 १ AP णवं. २ P adds after this: जहिं दीसइ तहिं खेयरु कात्तु, जहिं दीसइ तहिं सुरवरहिं मंडु. ३ A मंडव. ४ P चलचिंधु चवलु. ५ AP सिरिविहवफारु.

7 a °को च्छ राउ दक्षाः. 10 b जय जय सिरीहु जगजयश्रीवाञ्छकः. 11 a °ओ हा मि यं तिरस्कुतः. 14 कंचणु काञ्चनमयम्.

5 7 a °व मालु °कोलाहलः. 8 b ससियंतधवलु चन्द्रकान्तः धवलम्. 9 a विविहुच्छवोहु विविश्रोत्सवसमूहः. 10 a सिरिविहवफारु श्रीविभवविस्तारः. 11 रावइ रञ्जयति.

6

तहिं विजयणंदिरे	णिवणिहेलणे सुंदरे ।	
णयंगि सियणेत्तिया	रयणमंचप सुत्तिया ।	
णिण्णइ छेउओपरी	सिविणण इमे सुंदरी ।	
गयं गलियमयजलं	भमियभिगकोलाहलं ।	
विसं रसियपेसलं	खरखुरग्गखयभूयलं ।	5
करालणहभइरवं	कयरवं च कंठीरवं ।	
कुसेसयणिवोसिणिं	सिरिमुधिदंसीमंतिणिं ।	
पस्यसयमालियं	भमरपंतियाकालियं ।	
विहुं विहियजामिणिं	खरयरं खचूडामणिं ।	
झसाण जुयलं चलं	कुडजुयं ससंकामलं ।	10
सरोरुहसरोवरं	मयरमंदिरं गज्जिरं ।	
मइंदपववरुहयं	रयणचित्तियं पीढयं ।	
पुरंदरणिहेलणं	भवणमुज्जलं भावणं ।	
महारयणरासियं	सिहिणमुकसिहुब्भासियं ।	

प्रत्ता—इय पेच्छिवि ताण रायहु गंपि समांसियउं ॥ 15
सिविणियंफलु तेण कंतहि कंतं भासियउं ॥ ६ ॥

7

जस्स छत्तत्तयं	जस्स लोयत्तयं ।	
वहइ दासित्तणं	कुणइ गुणकित्तणं ।	
मणिमयरकुंडलो	जस्स आहंडलो ।	
विविवि णवकुवलयं	णवइ कमकमलयं ।	
सो तुहं तणुरुहो	चंडि होही सुहो ।	5

6 १ AP विजयमंदिरं. २ A छेउओपरी; P तुच्छओपरी. ३ AP इमे. ४ P ९णिवासिणी. ५ A सिरि उधिदं. ६ P १सीमंतिणी. ६ AP भवर. ७ A मयंदसुरं; P मइंदसिरं. ८ AP रयणणिम्मियं. ९ P समांसिउं. १० AP सिविणयं.

6 २ a णयंगि नताङ्गी. 3 a णिण्णइ पश्यति; छेउओपरी श्रामोदरी. 5 a रसियपेसलं शब्दन मनोहरम्. 6 b कंठीरवं सिंहम्. 7 a कुसेसयं कमलम्; b उ विदसीमंतिणि उपेन्द्रो विष्णु-स्तस्य भाषां. 9 a विहियजामिणि कृतरात्रिं निशाकरमित्यर्थः. 10 b कुडजुयं कुम्भयुगुलम्. 11 b मयरमंदिरं समुद्रम्. 12 a मइंदपवरं मृगेन्द्रप्रधानः सिंहः. 14 b उरसिहुब्भासियं प्रचुर-ज्वालोलङ्घसितम्.

देवदेवो जिणो	खंतिपोमिणिइणो ।	
बुद्धि कंती सिरी	लच्छि किंती हैरी ।	
गम्भसुद्धीयरी	अमरवरसुंदरी ।	
मत्तगयगामिणी	राइणो सांमिणी ।	
तादि संसेविया	तित्थणाहंबिया ।	10
दुक्खपक्खयखा	हेमबुद्धी कया ।	
वित्तएणं सयं	जाव छम्मासयं ।	
आइमासंतरे	किण्हपक्खंतरे ।	
अट्टमीवासरे	रविकिरणभासुरे ।	
रिक्खए रूढए	उत्तरासाढए ।	15
माउयासंगओ	गम्भवासं गओ ।	
तत्थ जंभारिणा	वेरिसंधारिणा ।	
मण्णिऊणं पई	पुंजियं दंपई ।	
सोत्तकोडीसमे	वारिहीणं गमे ।	
णाणविद्धंसयं	पल्लचोत्थंसयं ।	20
संजमे संमए	णट्टए धम्मए ।	
पुप्फदंतंतरे	माहमासे वरे ।	
छीणंमालंछणे	बारसिल्ले दिणे ।	
णंदेवीसुओ	विस्सजोए हुओ ।	
तां व संतोसिओ	आगओ कोसिओ ।	25
अग्गि वाऊ सही	दंडधारोवही ।	
रिंछवाहो परो	वारुणासामरो ।	
पोमसंखाहिवो	सूलपाणी भवो ।	
अमर वइरोयणो	भाणु मयलंछणो ।	
सयल देवा खणे	तूसमाणा मणे ।	30
आगंथा तं पुरं	राइणो मंदिरं ।	

घसा—उत्तुंशु सुवंसु फणयच्छवि गहमालियउ ॥

जिणमेरु सुरेहिं मेरुगिरिहि संचालियउ ॥ ७ ॥

7 १ A कित्ति. २ A कंति. ३ AP हिरी. ४ P मामिणी. ५ A कण्हपक्खंतरे. ६ AP पई. ७ AP पुजिओ दंपई. ८ A विद्धंसियं. ९ A संयमे. १० A छीलमालंछणे but records a *p* in second hand : क्षीणमयलंछणं इति वा पाठः. ११ सिही. १२ A विही. १३ A बारुणी सामरो. १४ A आगयं तं पुरं.

7 6 *a* इणो सूर्यः. 12 *a* वित्तएणं धनदेन. 13 *a* आइमासंतरे चैत्रमासे. 19 *b* वारिहीणं गमे वारिधीनां सागरोपमाणां गमने. 20 *b* पल्लचोत्थंसयं पर्यचतुर्थीरो सर्वथा धर्मोच्छेदे सति. 23 *a* छीणमालंछणे चन्द्रे क्षीणे सति, कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 24 *b* विस्सजोए उत्तराषाढनक्षत्रे. 25 *b* कोसिओ इन्द्रः. 26 *a* सही समीः इन्द्रात् भीतः. 26 *b* अवही सावधानबुद्धिः.

8

तम्मि सेलसिंगए	पंडुपःथरंगए ।	
वंदिओ जसंसिओ	वज्जिणा णिवेसिओ ।	
धम्मतिथरायओ	दुक्खतोयपोयओ ।	
सीयलेण सीयलो	वारिणा गुणामलो ।	
सिचिओ महुच्छवे	देवदुंदुहीखे ।	5
देहदित्तिपिंगलं	सव्वलोयमंगलं ।	
णीयवालकंदलं	चारु सच्छविच्छुलं ।	
रायहंसमाणियं	जाइ ण्हाणवाणियं ।	
दिब्बवाससुंदरे	मंदरस्स कंदरे ।	
कक्करे विलंबियं	चंचरीयसुंबियं ।	10
किंणरोहिं वंदियं	दाणवाहिणंदियं ।	
संयुयं लयाहरे	णायसुंदरीसिरे ।	
भग्गतांडमंडणं	पावपंकखंडणं ।	
इत्ति धावमाणयं	धोयंदतिदाणयं ।	
सित्तखेयरीवरं	अक्खंकीलियाहरं ।	15

घत्ता—जं एव वहतु भरइ सिंहरिविवरंतरइं ॥
तं जिणंण्हाणंनु हणउ भवियजम्मंतरइं ॥ ८ ॥

9

तं सइ हेट्टामुहुं जइ वि जाइ	उद्धुत्तु तां वि भव्वाइं णेइ ।	
सक्केण करिवि अहिसेयभदु	आणित्त जिणपुंगमुं रायभदु ।	
णिहियउ महएत्रिहि पाणिपोमि	णं इंदिंदिरु पण्फुलपोमि ।	
वंदिवि कुमारु भावें तिणाणि	गउ सम्गावासहु कुलिसपाणि ।	
जायउ जुवाणु देवाहिदेउ	किं वण्णमि रूवें मयरकेउ ।	5
जसु एक्खु वि देहावयउ णत्थि	मंसहु उवमिज्जइ केव हत्थि ।	
किं जिणहु अण्णु उवमाणु को वि	कइयणु जंपइ धिट्ठिमइ तो वि ।	

8 १ A पथरंगए, २ P वंदिउं, ३ A भ 'विच्छलं', ४ A ण्हाणवाणियं; P ण्हाणवाणियं.
५ A संयुयं, ६ A जक्क'र'; P जक्क'; T अक्ख'. ७ A जिणवरण्हाणंनु.

9 १ AP भवियाहरे, २ P 'पुंगवु, ३ A मसयहु.

8 1 b पंडुपःथरंगए पाण्डुरशिलाग्रे, 2 a ज सं सि ओ यशसा सितः, 3 b पो य ओ प्रव-
हणः नौः, 7 a बालकंदलं अभिनवाङ्कुरम्, 8 b ण्हाणवाणियं स्नानोदकम्, 10 a कक्करे गिरिदन्ते,
गुहायाम्, 12 a संयुयं सुतम्, 13 b अक्खंकीलियाहरं इन्द्रियकीडाग्रम्.

9 1 b रायभदु राजभद्रनगरम्, 3 b इंदिविरु भ्रमरः, 7 b धिट्ठिमइ घृष्टता.

हेमच्छवि संगरभीसणाइं
पुव्वहं तरुणत्ते परिवडंति
करिवसहविमौणावाहणेण
अहिंसिचिवि देवहु पट्टु बद्दु
महि माणंतहु पुव्वहं गैयाइं
तेणेक्कहिं दिणि कीलावणांति

तणुमाणे णवइ सरासणाइं ।
जा पंचवीससंहसाइं जंति ।
तांवावेप्पिणु हरिवाहणेण । 10
णारीयणणेहं सो वि बद्दु ।
पण्णाससहासाइं णिग्गयाइं ।
कीलंतं णवकमलयरंति ।

यत्ता— खरदंडकरंडि पिंडियतणु करलालियउ ।

णं सिरिताविच्छु मुउ छच्चरणु णिहालियउ ॥ ९ ॥ 15

10

जं दिट्ठे मओ महुयरु सणालि
ता चितइ जिणु सिरिरसवसाहं
हो धिगिधिगत्यु धणु धरु कलत्तु
खणि णच्चइ खणि गायइ सरेहिं
खणि णिद्धणु खणि विहवत्ति थाइ
हउं सुकइ सुहडु हउं चाइ भोइ
हउं चंगउ पं व भणंतु मरइ
जहिं जहिं उप्पज्जइ तहिं जि बंधु
सहुं जाइ ण परियणसयणसत्थु
भासंतइं संजयसम्मयाइं
अणुकूलिउ तेहिं तिलोयणाहु
तं प्हवणु करिवि पट्टु महिउ जेव

मयरंदालुद्धउ आरणालि ।
अलिविहि होसइ अम्हारिसाहं ।
जणु सयल मोहमइराइ मत्तु ।
खणि रोवइ उरु ताडइ करेहिं । 5
उत्ताणणणु गव्वेण जाइ ।
हउं सूहउ हउं णिप्फणंजोइ ।
जोणीमुहेसु संसरइ सरइ ।
अण्णाणछण्णु णउ णियइ अंधु ।
संसारि णं कासु वि को वि पत्थु ।
ता पत्तइ सुरवरगुरुसयाइं । 10
तांवाइउ सामरु अमरणाहु ।
हउं जडु कइ किं किर कहमि तं व ।

यत्ता — णियगोत्तहियत्तु पुणु पुणु हियवइ भावियउ ॥

संताणि सडिंभु णरणाहेण णिरूवियउ ॥ १० ॥

४ A °सहसाइं हेंति. ५ A °विवाणावाहणेण. ६ A माणंतहु. ७ A हयाइं. ८ P ताणेक्कहिं.
९ A तं सिरि°.

10 १ A दिट्ठउ महुयरु मउ सणालि; P मुउ सुणालि. २ A उत्ताणणु जणु गव्वेण जाइ; P
खणि उत्ताणणणु गव्वेण. ३ AP णिप्पणु. ४ A भणंति. ५ AP ण कोइ वि कासु एत्थु. ६ A
संजयसंयमाइं; P संजयसंगमाइं. ७ A किर कह कहमि.

11 a करिवसह° गजश्रेष्ठः; b आवेप्पिणु आगत्यः; हरिवाहणेण इन्द्रेण 12 a माणंतहु
सुखानस्य. 14 खरदंडकरंडि पद्मकोशे. 15 °ता विच्छु पुष्पविशेषः.

10 1 b आरणा लि कमले. 2 b अलि वि हि भ्रमरसदृशं विधानं मरणमित्यर्थः. 7 b सरइ
रतियुक्तः. 10 b सुरवरगुरु° लौकान्तिका देवाः.

11

सुकंकहि सिवियहि चडिवि चलिउ
ओइण्णु सहेउयवणि महंतु
माहम्मि मासि तिमिरेण कालि
छट्टोववासु सड्डइ करेवि
अवरहि दिणि णहयललग्गसिहरु
णउ पयहु हियवउ सुण्णघडिउ
णउ परिहइ चीवरु रंगरिड्डु
णउ सूलवालु कंकालधारि

घत्ता—णउ धरइ पिणाउ णउ फणिकंकणु फुरियकरु ॥

हुंकारु ण देइ णउ उच्चारइ गेयसरु ॥ ११ ॥

सुरयणु जयजय पभणंतु मिलिउ ।
चरियावरणइं कम्मइं खवंतु ।
बारहमइ दिणि जार्यइ वियालि ।
सहुं रायसहासं दिक्ख लेवि ।
मिक्खाइ पइड्डु अरिट्टणयरु । 5
णउ भक्खइ पल्लु णियपत्तपडिउ ।
वहु का वि भणइ णउ एहु वुहु ।
णउ करि कवालु णउ देहि णारि ।

10

12

णउ णउइ ण दावइ ढकसहु
सुरवहुरएण रइयाइं जाइं
णउ कहइ वेउ पसुहणणउंभु
वहु का वि भणइ णउ चक्कपाणि
णारायणु एहु ण होइ माइ
अरहंतु भडारउ दोलमुक्कु
अब्भागयवित्तिवियाणएण
तहु किउ भोयणु पांसुयविहीइ
नूवसिरि कुसुमाइं णिवाइयाइं

घत्ता—संवच्छर तिणिण छम्मत्थु जं महि हिंडियउ ॥

विल्लहु तलि देउ घाइचउकं छड्डियउ ॥ १२ ॥

वहु का वि भणइ णउ एहु रुहु ।
वयणाइं णत्थि चत्तारि ताइं ।
वहु का वि भणइ णउ एहु वंभु ।
ण पउंजइ दाणवप्रोणहाणि ।
जाणंमि विक्खायउ भुवणभाइ । 5
घरंपंगणि प्रंगणि जाव दुक्कु ।
ता णविवि पुणव्वसुराणएण ।
नूव संपाणिउ अक्खयणिहीइ ।
सुरणियरहि त्तरं वाइयाइं ।

10

11 १ AP सुककरु. २ A भोयणु; P अवइण्णु. ३ P बारहवइ. ४ A जायउ. ५ P सड्डइ. ६ P फल. ७ A णियपत्ति पडिउ. ८ A 'रिट्ट.

12 १ P णहु. २ AP पाणहाणि. ३ AP जाणिवि. ४ AP रायहु घरंपंगणि जाव दुक्कु. ५ AP फालुय'. ६ AP णिव. ७ AP णिव'. ८ A 'णियरं. ९ A वेच्छिहि तलि.

11 1 a सुकंकहि शुक्काङ्कनाम्भ्यां शुक्कप्रभायां वा. 3 a तिमिरेण कालि अन्वकारेण कृष्णे, कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 4 a सड्डइ श्रद्धया. 6 b णियपत्तपडिउ निजपात्रे पतितम्. 8 a सूलवालु स्वङ्कः. 9 पिणाउ पिनाकं शिवधनुः.

12 2 a सुरवहुरएण तिलोत्तमासकेन. 7 a अब्भागयवित्तिवियाणएण अभ्यागते वृत्ति जानातीति तादृशेन राज्ञा; b पुणव्वसुराणएण पुनर्वसुराज्ञा. 11 विल्लहु तलि विल्ववृक्षस्य तले.

13

तांवायउ सुरयणु करइ थोत्तु
जइ तुहुं गोवांलु णियारिचंडु
जइ पइं कुडिलत्तणु मुक्कु ईस
जइ तुहुं संसारहु णिरु विरत्तु
जइ तुहुं मुक्कउ संगमहेण
जइ तइं विद्धंसिउ सयलु कामु
जइ तुहुं सामिय संजमपयासि
तुह णाहासियइं ण जइ पडंति
जं पइं जि रउइइं दूसियाइं
जइ रयणइं तुह तिण्णि वि पियाइं

संभरइ विरुद्धउ जिणचरित्तु ।
तो काइं णत्थि करि तुज्झ दंडु ।
तो काइं तुहारा कुडिल केस ।
तो किं तेरउ इहु अहरु रत्तु । 5
तो किं तुह तिजगपरिग्गहेण ।
तो किं तुहुं पुणु संपण्णकामु ।
तो किं कमुं कमलहु उवरि देसि ।
तो किं एयइं चमरइं पडंति ।
तो आसणि किं सीहइं थियाइं । 10
तो तुहुं किर णिरलंकारु काइं ।

घत्ता—थेणत्तु णिसिद्धु जइ तुहुं तो कंकेलितरु ॥

अच्छरकरलोह हरइ काइं कयदलपसरु ॥ १३ ॥

14

तुहुं माणुसु भुवणि पसिद्धु जइ वि
जइ कासु वि पइं णउ दंडु कहिउ
जइ रूसहि तुहुं सरमग्गणाहं
जइ वारिउ पइं परि घाउ एत्तु
जइ पइं छड्डिय मंडलहु तत्ति
कहिं एकदेसरुहु तुह महेस
ण वियाणविं तेरउ दिव्वचारु
इय वंदिवि बेण्णि वि संणिविट्ठ

माणवियपयइ तुह णत्थि तइ वि ।
तो किं छत्तइ पुरइ अहिउ ।
तो किं ण देव कुसुमच्चणाहं ।
तो किं हम्मइ दुंदुहि रसंतु । 5
तो किं पुणु भामंडलपवित्ति ।
कंहिं बहुजणभासइ मिलिय भास ।
सोहम्महिचइ सर्णकुमारु ।
देवेण सिट्ठि णीसस दिट्ठ ।

घत्ता—एयासी तासु जाया जाणियधम्मविहि ॥

गणहर गणणाह गुरुयण गुरुमाणिक्कणिहि ॥ १४ ॥

10

13 १ P has before it: उप्पायउ केवलु जयपयक्खि, पूसहु चउदसि पदमिल्लपक्खि. २ A गोवाल. ३ AP तेरउ अहरग्गु रत्तु. ४ AP पइं. ५ A तो पुणु किं तुह. ६ AP संपुण्णकामु. ७ A कम. ८ A जइ; P जं. ९ AP तो तुह.

14 १ A माणसु. २ AP दंतु. ३ A हम्मइ किं. ४ A एकदेस तुहु तुहु महेस; P एकदेस सुहुं तुहुं महेस. ५ A किं बहुजणभासइ; P किं बहुजणभासहि. ६ AP सर्णकुमारु.

13 6 a संगमहेण परिग्रहस्वीकरणे. 7 b संपण्ण कामु वाञ्छितदातृत्वम्. 8 b कमु पदम्. 9 a णाहासियइं हे नाथ, आश्रितानि. 13 कयदलपसरु कृतपत्रप्रसरः, पक्षे, चौरा अपि दलं संग्रामं कुर्वन्ति.

14 1 b माणवियपयइ नरप्रकृतिः अन्नपानास्वादानादिका. 2 b अहिउ अधिकम्. 3 a सरमग्गणाहं सरवाणानाम्. 5 a मंडलहु देशस्य. 7 a दिव्वचारु दिव्यस्वरूपम्. 8 b सिट्ठि जगत्स्थितिः.

15

महरिसिहिं महाचरणायराहं
 एकूणसद्धिसहसइं सयाइं
 भयसहसइं दोसय सावहीहिं
 वारहसहसइं वेउच्चियाहं
 पंचेव ताइं णयसयजुयाइं
 सयसत्तपमाणुज्जोइयाहं
 इय एकू लक्खु जायउ जईहिं
 सावयहं लक्ख दो सुहमईहिं
 नैहिं देवहं बुद्धिय केण संव
 भाभासुरु भव्वभोयमाणु
 सो पुव्वसहासइं पंचवीस
 संमेयसेलि हल्लंततालि
 सतवण्णहावपरिवियलियासु

चउदहसय पुव्वंगोहराहं ।
 दुइ सिक्खहुं सिक्खोवहि रयाइं ।
 पुणु सत्तसहासइं केवलीहिं ।
 इच्छियइं सरूवइं होति जाहं ।
 मणपज्जयवतं संयुयाइं । 5
 तहु पंचसहासइं वाइयाहं ।
 लक्खाइं तिण्ण वरसंजईहिं ।
 चत्तारि लक्ख जहिं सावईहिं ।
 संखेज्ज तिरिय हयसंककंख ।
 सहं पत्तिण्हिं महि विहरमाणु । 10
 अतिवरिसइं उम्मोहेवि सीस ।
 सहं भिक्खुसहासें हरिणवालि ।
 थिउ देहविसग्गें एकू मासु ।

ग्रन्था—आसोइ पवण्ण पुव्वासहासियट्टमिहि ॥

अवरण्हइ सिद्ध थिउ मेइणियहि अट्टमिहि ॥ १५ ॥

15

16

वज्जट्टितुलाघणयडियगेहु
 अचरेक्कहिं फुल्लइं घल्लियाइं
 अचरेक्कहिं किउ जयणंदयोसु
 अचरेक्कहिं थुउ संसारहारि
 अचरेक्कहिं पणामिउ मोक्खगामि
 अण्णहिं अण्णणइं साहियाइं

सिहिदेवहिं दड्डुउ देवदेहु ।
 अण्णहिं कव्वइ उव्वल्लियाइं ।
 अण्णहिं णच्चिउं मणणयणतोसु ।
 अण्णहिं हयं झउरि पडह भेरि ।
 अण्णहिं वंदिय जिणसिद्धभूमि । 5
 वाहणइं मेहवहि वाहियाइं ।

15 १ AP पुव्वंगायराहं. २ A सिक्खावह थियाइं; P सिक्खावहि रियाइं. ३ A वारहसयाइं.
 ४ A पंचेव ताइं णयसंजुयाइं; P सत्तेव ताइं वयसंजुयाइं. ५ A read- a as b and b as a.
 ६ A उम्मोहिय वि सीस. ७ A भिक्खुसहासे. ८ A सियल्लट्टिमिहि. ९ A मेइणियइ.

16 १ AP जयणंदियोसु. २ A झल्लरि हय पडह. ३ AP कय बहुविहविहूइ. ४ AP जिणदेहभूइ.

15 २ b सिक्खावहि रयाइं शिक्षापथे रतानि. 11 b अतिवरिसइं त्रिवर्षहीनानि; उम्मो-
 हेवि सीस शिष्यानसंशान् कृत्वा. 12 b हरिणवालि मृगपालके. 13 a पपरिवियलियासु नष्टाः.
 14 आसोइ आश्विनमासे.

16 1 b सिहिदेवहि अग्निदेवैः. 2 b उव्वे ल्लियाइं उच्चरितानि. 6 b मेहवहि गगने.

गय गियणिलयहु सुर विहवफार जिणगुणकहरंजियहिययसार ।
 गयणयलि चरंति चवंति पंवं जगि कम्मबंधु को महई पंवं ।
 घत्ता - णिक्किरिउ करिवि मणवयणंगइं परिहरिवि ॥
 थिउ सीयलसामि मोक्खमहापुरि पइसरिवि ॥ १६ ॥ 10

17

पसियउ परमेसरु परमंसमणु अम्हंहं वि तहिं जि संभवउ गमणु ।
 पुणु अक्खइ गणहरु सेणियासु सम्मत्तरयणरुइसेणियासु ।
 गयलेसि परिट्ठिइ णाणसेसि णिव्वाणु पराइउ सीयलेसि ।
 तित्थंति तासु विच्छिण्णधम्मु पसरिउ जणवइ रयमइलु कम्मु ।
 विणु वत्तारयसोयार हिं भव्वेहिं भवण्णवतारपहिं । 5
 पुरगामणयरसोहाणिवेसि मलययसुरहिइ तहिं मलयदेसि ।
 पडिवक्खलक्खसंजणियतासु भद्विलपुरि सिरिभदावयासु ।
 चाले जेते कुलगयणचंदु घणरहु णामे जायउ णरिंदु ।
 णिहारसरिसजसविमलकंति तहु सच्चकित्ति णामेण मंति ।
 अत्थाणमज्झि उवविट्ठु राय पक्कहिं दिणि दाणालाव जाय । 10

घत्ता - आहासइ रुहु भूरिसम्मु जिणधम्मचुउ ॥
 सालायणमुंडु णामे अणु वि जांसु सुउ ॥ १७ ॥

18

गोदाणभूमिदाणंतराइं कच्चोलइं थालइं मणहराइं ।
 सोवण्णइं रयणइं अवराइं फलछेत्तइं धवलहरइं पुराइं ।
 हयं गय रहवर पीणत्थणीउ कण्णा कलवीणालोविणीउ ।
 वरदब्भपवित्तंक्रियकराइं जो देइ णरेसं दिएसराहं ।
 सो कणयविमाणहिं विण्हुलोउ संप्रावइ माणइ दिव्वु भोउ । 5
 तं णिसुणवि पभणइ सच्चकित्ति कहिं कामुउ कहिं परलोयवित्ति ।

५ AP चंडंति. ६ A सुयइ.

17 १ A परमसरणु. २ A अम्हं. ३ AP भवंतर. ४ AP तासु.

18 १ P गय हय. २ A लावगीउ. ३ AP णरेसु. ४ AP संपावइ.

7 b ०रंजि य हि य य सार रञ्जितं हृदयसारं मनो येषां ते. 8 b महइ मध्धाति.

17 1 a पसियउ प्रतीदतु. 2 b ०इसेणि यासु ०दात्तिपत्तेः. 5 a वत्तारयसोयारए हिं बक्तुश्रोतृभ्याम्. 6 b मलययसुरहिइ मलयजं चन्दनं तेन सुरभिते. 7 a ०संजणियतासु संजनितत्रासः. 10 b दाणालाव दाणालापः, दानकथा. 11 रुहु रौद्रध्यानी.

18 1 b कच्चोलइं पानपात्राणि. 2 a ०दब्भपवित्ति ०दर्ममुद्रिका. 5 a विण्हुलोउ विण्णुलोकम्.

कहिं णिवहु कहिं अंबयफलाइं
कहिं खीरु महरु कहिं राइयाउ
मग्गइं मंचउ वरभूमि हेमु
मुइ डिअइ उयरु हणंतु रडइ

कहिं खरयरसिल कहिं सयदलाइं ।
वंभणमईउ कुविवेइयाउ ।
मग्गइ कुमारि भुंजइ सकामु ।
अण्णाणिउ भवसंसारि पडइ । 10

घत्ता—भक्खइ मृगमासु सुज्जइ पिंपलफंसणिण ॥
णिउ णरयहु लोउ णिग्घणवंभणसासणिण ॥ १८ ॥

19

अण्णाणिणि पसु पुण्णेण रहिय
जा गाइ चरंति अमेज्जु खाइ
पाणिउ तणुसंगं होइ मुत्तु
कयप्राणिवग्गणिप्राणियाइ
जइ देइ देउ तो होउ चाइ
दिज्जइ सुपत्तु जाणिवि सणंणु
भाविज्जइ जीवदयालु भाउ
णियमिज्जइ कुवहि चरंतु चित्तु

बंधणताइणदुक्खेण गहिय ।
सा किं संफासं सुद्धि देइ ।
सोत्तिय तं वुच्चइ किह पवित्तु ।
किं एयंइ भुत्तकहाणियाए ।
कुच्छियदानं समगहु ण जाइ । 5
सुय भेसहु अभयाहारदाणु ।
पुज्जिज्जइ सामिउ वीयराउ ।
वज्जिज्जइ परंथणु परकलत्तु ।

घत्ता—जसु दिण्णइ दाणि होइ महंतु अणंतु फलु ॥

तं उत्तमु पत्तु पणवंतहं परियलइ मलु ॥ १९ ॥

10

20

जे वज्जियपुत्तकलत्तणेह
अपरिग्गह जे गिरिगहणणिलय
जे णिवडिय भव्वुद्धरणलील
जे अरियंधवहुं मि समसहाव
दिज्जइ जोग्गउ आहारु ताहं
सत्थेण णाणु अण्णेण भोउं

दुद्धरमलपडलविलित्तवेह ।
भयलोहमोहमयमाणविलय ।
उवसग्गपरीसहसहणसील ।
णिग्गंथ णिरंजण मुक्कगांव । 5
मज्ज्जिणि पइइहुं मुणिवराहं ।
फलु दाणसूरु नृव लहइ लोउ ।

५ AP मग्गइ णरु मंचउ भूमि हेमु. ६ AP मग्गमासु. ७ AP पिंपल^०.

19 १ A अण्णाणि. २ A होइ. ३ AP कयपाणिवग्गणिप्राणियाइ. ४ A एणइ. ५ A सुणाणु. ६ A परहणु. ७ A पणवंतहु.

20 १ AP गलियगाव. २ P पवणु; P adds after this: बलत्तुलिउं णां तेलोक्कभवणु.
३ AP णिव.

7 b खरयरसिल कठिनशिला. 8 a गाइ या राजिका आसुरी (सोहरी).

19 1 a अण्णाणिणि अज्ञा गौः. 2 a अमेज्जु विष्ठा. 3 a मुत्तु मूत्रम्. 6 a सणाणु सन्नानि, पात्रं ज्ञात्वा; b सुय श्रुतं शास्त्रदानम्. 6 a कुवहि कुमागं.

20 2 a गिरिगहणणिलय गिरिगहनवासिनः 3 a णिवडिय^० संसारे प्रतिताः.

अभयोसहेहिं परियलह रोड
ता सालायणमुंढेण उचु
विणु आगमेण किं तुहुं पमाणु
पडिउत्तर दिण्णउं सावएण
अम्हारउं सासणु णत्थि वण्ण
णरणाहु पयंपह तुह सुईउ

घत्ता—ता कुणयरएण विण्णे जिणमउ णिरसियउं ॥

सइं विरइवि कवु आणिवि रायहु दरिसियउं ॥ २० ॥

ण कया त्ति णिहालह कुण्णजोर्ड ।
दावहि तेरउं सिद्धंतसुसु ।
माणवु पायडमाणवसमाणु ।
इह सीयलपरमेसें गएण । 10
जं रुद्धइ तं तुहुं चवहि विण्ण ।
दावहि दियवरदावियगईउ ।

21

रइयाइं ललियाइं कव्वाइं भणिऊण
तव्वासराभो तहिं दुडुहिययाइं
गुरुदेवपडिकूलणुप्पणगावाइं
कयपियरमिसगसियपंसुपेसिगासाइं
गोदाणभूदाणदढवद्धतिट्टाइं
गुणवंतणिदिरइं णियकुलमयंधाइं
मयहडुचुट्टिरइं पाणियसउच्चाइं
धरियक्खसुत्ताइं मृगंचम्मभूसाइं
धणधरणिघरपणइणीमोहमूढाइं
दुग्धोदुप्पोसपोसणपयट्टाइं
आसवमयावेसपसरियविडंबाइं

घत्ता—गयसीयलदेवि भरहि जाय परपत्तविहि ॥

संपीणइ विण्णु पुप्फदंत पणवंत सिहि ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुप्फयंतविरइए

महाभयभरहाणुमण्णिण महाकव्वे सीयलणाहणिव्वाणगमणं

णाम अष्टादशोऽध्यायः परिच्छेओ समत्तो ॥ ४८ ॥

॥ सीयलणाहचरियं समत्तं ॥

देहीणं संदेहवुद्धीउ जणिऊण ।
णिद्धम्ममग्गम्मि कम्मेण णिहियाइं ।
वद्धंतसुविचित्तमिच्छत्तभावाइं ।
पयलंतमहुसोमवाणाहिलासाइं ।
उद्धियंकरग्गाइं किक्खिणाइं विट्टाइं । 5
दुग्गंधरसभरियणवदेहरंधाइं ।
हिसाइं घडियाइं पभट्टसच्चाइं ।
पालासवंडाइं कासायवासाइं ।
लक्कम्मगभीरजरक्खल्लुढाइं ।
सुयसत्थवित्थारविलसियमरट्टाइं । 10
जीवंति दीणाइं थंभणकुटुंबाइं ।

४ P adds: पञ्चेलिउ पावइ सरसु भोउ. ५ AP पजंपह.

21 १ A देहेण. २ A देवगुरुकूलणुप्पणगावाइं; P देवगुरुपडिकूलणुप्पणगावाइं. ३ A अयमासगासाइं. ४ A पयडंत. ५ P सोमपाणा. ६ A उद्धियं. ७ AP विहाइं. ८ A मयहुंड-चंडिरइं; P मयहडुचुट्टिरइं. ९ A मयचम्म; P सिगचम्म. १० A दुग्धोदुप्पोस. ११ AP आसव-मयावेस. १२ A अष्टादशोऽध्यायः. १३ AP omit the line.

21 4 a पे सिं मांसवल्लूरिका. 9 b छ क्क म्म पठनपाठनयजनयाजनदानप्रतिग्रहरूपाणि पद कर्माणि; जरक्व पुराणकूपः. 10 a दुग्धोदु मधु; दुप्पोसं मांसम्. 11 a आसवेंत्या दि ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो यतिश्चेत्येवरूप आवेशो ब्राह्मण इत्येवरूपो मदीपेनो वर्णानां गुरुरित्यभिनिवेशस्तेन प्रसृतो विडम्बो लोकवञ्चकत्वं येयाम्. 12 परपत्तं अन्यस्य पात्रम्.

दहमउ गुरु मइं तुह कहिउ देउ मोक्खमाणससरहंसु ॥
अवरु वि सुणि सेणिय भणमि एयारहमउ जिणु सेयंसु ॥ धुवकं ॥

1

जासु ण मुक्का मारं मग्गण	जो जाणइ जीवहं गुण मग्गण ।
जेण ण खंडणु किउ चारित्तहु	तवपम्भारं णिच्चारित्तहु ।
जो ण वडिउ संसारसमुदइ	मुहिउ जेण तिलोउ समुदइ । 5
अकयइ णिच्चइ पडिमारुवइ	जासु ण रमइ दिट्ठि तयंरुवइ ।
जो णाणं पेक्खइ णीसेसु वि	पयजुयलइ णिवडइ जसु सेसुं वि ।
जो सुक्खियमहियंम्महु विसहरु	जो पंचिदियविसहरविसहरु ।
जेण राउ मेल्लविय भुयंगय	जासु ण पत्तावलि वि भुयंगय ।
भालि ण दिज्जइ जसु तिलउल्लउ	जो अप्पणु तिहुयणि तिलउल्लउ । 10
जो परिहइ ण कयाइ वि कंकणु	णउ फंसइ सच्चित्तउं कं कणु ।
णिच्चलक्कु जेण पडिवण्णउं	जइ वि चीरु वंगउं पडिवण्णउं ।
तो वि ^१ ण परिहइ जो ^२ णिण्णेहलु	जो ढायइ णरि णिरु णिण्णं हलु ।
तहु देवहु संचियसेयंसहु	पयजुयलउ वंदिवि सेयंसहु ।

घत्ता—पुणु अक्खमि तहु तणिय कह किन्ति वियंभउ महुं जगगेहि ॥ 15
पुक्खरवरदीयंतरइ सुरदिसि मरुहि पुव्वविदेहि ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this Saṃdhi, the following stanza:—

सया सन्तो वेसो भूसण सुद्धसोले
सुसंतुहे चित्तं सध्वजीवेसु मेत्ती ।
मुहे दिक्वा वाणां चारुचारित्तमारो
अहो खण्डस्सेतो केण पुण्णेण जाओ ॥ १ ॥

This stanza is found in P at the beginning of Saṃdhi L. K does not give it anywhere.

1 १ AP सुणु. २ APT नियरुवइ. ३ P adds after this: दूरविमुक्कउ वंधविमेसु वि. सममणु बहुधणेसु णीमेसु वि. ४ A महिजम्महु. ५ AP सचित्तउं. ६ AP तो णवि. ७ A जइ णिण्णं हलु.

1 3 a मग्गण वाणाः; b सुणु सुणस्थानानि: समा ण चतुर्दश मार्गणाः. 4 a णि चारित्तहु नित्यमरिक्तस्य, अथवा अरीणां भावो अरित्वम्; न्यग्भूतं ताचभूतमारित्वे यस्य. 5 b समुदइ स्वमुद्रया. 6 a नियरुवइ चेतनाचेतनस्वरूपे स्त्रीरूपे. 8 a सुक्खियमहियंम्महु विसहरु मुकुत्तमेव महिजन्मा वृक्षस्तस्य विसहरु मेघः; b पंचिदियविसहरविसहरु पञ्चन्द्रियाण्येव विपहराः सर्वास्तेषां विपहरो विपहारकः. 9 a भुयंगय वित्तः. 10 b अप्पणु स्वयमेव. 11 b कं कणु कं पत्तीयम्; कणु वीजम्. 12 b पडिवण्णउं पटीसमानवर्णम्. 13 a णिण्णं हलु स्नेहरहितः; b णिण्णं निम्नोन्नतः; हलु म्वर्गादि-फलम्. 14 a संचियसेयंसहु उपार्जितपुण्यविशेषस्य.

2

सालतमालतालतरुसंकडि
कच्छउ देसु देसंसिरिसंकुलु
कलववडियकलेविं कयकलयलु
तहिं खेमउरु काइं वणिणजइ
सरु वायरणि णैवर संधिजइ
णहवणु ण वणु जेतु भडभंडणि
अत्थसमपणि जहिं पथविग्गहु
जहिं णिण्णांसिय परमंडलवइ
जहिं चौरागिमारिदालिइइं
तहिं राणउ णलिणालयमाणु

सीयतरंगिणिववरुत्तरतडि ।
वियसियकमलकोसरयपरिमलु ।
दुमफुल्लासियफुल्लंधुयचलु ।
जहिं पिययमु पणपं कलहिजइ ।
तणु विरहेण ण वाहिइ झिजइ । 5
केसगहणु विंवाहरचुंबणि ।
जइयणि णउ सावज्जपरिग्गहु ।
पासबज्ज णं घरमंडलवइ ।
पासंडाइं वि णत्थि रउइइं ।
णलिणप्पहु णामे णलिणाणणु । 10

घत्ता—भयभीयइं महिणिवडियइं जीर्यं देव सविणउ जंपंति ॥
जासु पथावं तावियइं परणरणाहसयइं कंपंति ॥ २ ॥

3

कलयलंतचलकलकोइलगणि
पेच्छिवि जिणु अणंतु वणवाले
तहु तहिं तवसिहिदुयवम्मीसरु
परमणउ परमणं परमेसरु
तं णिसुणेवि तेण तित्थंकरु
वुञ्झिवि धम्मु अहिंसाळकम्बणु

तावण्णहिं दिणि सहसंबयवणि ।
विण्णत्तउ सिरंगयभुयडाले ।
गुणदेवहं भवदेवहं ईसरु ।
आयउ देउं धम्मचक्रेसरु ।
आइवि वंदिउ दुरियखयंकरु । 5
चित्तिवि बंधमोक्षविहिलक्खणु ।

2 १ A देसंसिरिसंकुल. २ A 'कलेविं': P 'कलेवि'. ३ P ण पर. ४ A जइयणि तड
मावज्जपरिग्गहु; P णउ परअत्थहरणि कयविग्गहु. ५ P णित्तासिय. ६ A जीव.

3 १ A तावण्णयदिणि. २ A मिरि गय'. ३ AP पसणु. ४ AP देव.

2 3 a कलववडियकलविं कलमः शालिविशेषः तत्र पतितेन कलविं ग्रामचटकेन;
b 'फुल्लंधुय' भ्रमरः 5 a सरु स्वरः वाणश्च; वायरणि व्याकरणे वाग्गणे वाक्कले च. 6 a णहवणु
नखत्रणः; भडभंडणि संग्रामे. 7 a अत्थं त्यादि अर्थानां पदवाक्यानां समर्पणे प्रतिपादने पदानां विग्रहः
समानो भवति न पुनः प्रजातामर्थसमर्पणे द्रव्यदाने विग्रहः झकटको भवति. 8 b घरमंडलवइ गृह्यडा
महाश्वानः. 10 a णलिणालयमाणु नलिनालया लक्ष्मीस्तस्या भोक्ता. 12 परणरणाहसयइं शत्रु-
राजानां शतानि.

3 2 a अणंतु अनन्तनामा; b सिरंगयभुयडाले मस्तके कृतवाहुना. 3 b गुणदेवहं
गणधरदेवानाम्; भवदेवहं भवेन जन्मना देवानामिन्द्रादीनाम्.

देवि सुपुसु महिहिं परिरक्खणु
चरणमूलि जइवरहु अणंतहु

घत्ता—णीलकिणहलेसउ मुंयइ काउलेस दूरें वज्जंतु ॥

सुकलेस मुणिवरु धरइ भीमें तवतावे खिज्जंतु ॥ ३ ॥

10

4

मंदरधीरु वीरु दिहिपरियरु
ण भणइ ण सुणइ णिप्रिहे णीरउ
कोहु लोहु माणुं वि मुसुमूरइ
वक्खुसोत्तरसफासणघाणइं
विहुणिवि घिवइ णिहें सहुं पणणं
ण सरइ पुअकालरइकीलणु
णहखंडणु सरुवपरिपुंछणु
हसणु भसणु भूभंगु ससंसणु
साहिलासु सवियारउ दंसणु
णक्खञ्जोडि तणुमोडि ण इच्छइ

घत्ता—बंधिवि तित्थयरत्तु तहिं दंसणसुद्धिइ तोडिवि भंति ॥

अच्चइ पुष्कुत्तरणिलइ जायउ सरुवरु ससहरकंति ॥ ४ ॥

इत्थिअत्थनृवयेणकहंतरु ।
एयारहवरंगसिरिधारउ ।
मायाभावु हौतु संचूरइ ।
जिणइ हणइ दुक्कियसंताणइं ।
अप्पउं भूसइ रिसि रिसिविणणं । 5
ण करइ दंतपंतिपक्खालणु ।
करयलवट्टि सरीरणियच्छणु ।
पाणिणट्टु परगुणविद्धंसणु ।
णियडणिसर्णहरिणसंपंसणु ।
परमसाहु लिहियेंउ इव अच्छइ । 10

5

आउ दुवीससमुहंपमाणइं
तहु छम्मासु परिट्टिउ जइयहुं
जंबुवीवि भरहि सीहउरइ
आइदेवकुलसंतइजायउ
णंदादेवि तासु घरसामिणि

काले गिलियइं दुक्कपमाणइं ।
अक्खइ जक्खइ सुरवइ तइयहुं ।
धणकणजणगोहणगुणपउरइ ।
विहु णाम राणउ विक्खायउ ।
कामसुंहकरि णं सुरकामिणि । 5

५ AP भुयउ.

4 १ A इत्थिअत्थिणिव° and gloss अत्ति भोज्यं; P इत्थिअत्थिणिव. २ AP णिप्पिहु.
३ AP मोहु. ४ P णिहे. 5 A पुअकालि. ६ P परिपेच्छणु. A पाणिणिइ. ८ A °णिसण्णहं हरि-
णहं पंसणु; P °णिसण्णहं णवि संपंसणु. ९ P लिहियें इव.

5 १ AP °समाणइं. २ A कालि. ३ AP °संतए जायउ.

7 a देवि दत्त्वा. 9 काउलेस कापोती लेख्या.

4 1 b इत्थि स्त्रीकथा; अत्थ° जिह्नेन्द्रियविषयोऽर्थः, भोजनकथेत्यर्थः. 2 a णि प्रिइ निःस्पृहः.
7 a णहखंडणु करपादनखानां खण्डनम्; सरुवपरिपुंछणु शरीरमार्जनम्; b करयलवट्टि बाहु-
च्छोटिका. 10 a णक्खञ्जोडि नक्खञ्जोटिका अञ्जुलिविकारः.

तणुरुहु तेओहामियदिणयरु
ताहं तुरिउं तुहुं करि भल्लारउं
धणपं पुरं पविणिम्मिउं तेहउं

एयहं वोहं वि होसइ जिणवरु ।
रयणफुरंतु णयरु चउदारउं ।
मणुयहिं धणणहुं जाइ ण जेहउं ।

घत्ता—ता णज्जइ दिणु णिच्च जहिं जा सरंवरि कमलइं वियसंति ॥
वरमणिकिरणहिं तौतडिय उग्गय रवियर णउ दीसंति ॥ ५ ॥ 10

6

तहिं सयणालइ सिरिअइसइयइ
पुण्णचंदसोहियमुहयंदइ
अविरयगलियदाणधारालउ
वालहिसण्हाककुखुरमणहरु
कुडिलणहरु भइरवरंजेणरखु
कण्णनालहयमहुलिहविर्दहिं
मालाजुयलु भिंगपियकेसरु
कलसजुयलु णवकमलु सकोमलु
सरु सररासि चारुसीहीसणु
माणिकोहु मोहंमालालउ

पच्छिमरयणिहि णिहंधेइयइ ।
सिविणपंति अवलोइय णंदइ ।
भमियसिलिम्मुहोलिसौंडालउ ।
सउरहेउ रुइरंजियससहरु ।
गिरिगुहणीहरंतु कंठीरवु । 5
सिरि सरि सिचिज्जति करिदहिं ।
मा णिसिमंडणु भासुरु णेसरु ।
मीणमिहुंणु जलकीलाचंचलु ।
देवालउ फणिभवणु फणीसणु ।
सिहि णहयलि जलंतु चलजालउ । 10

घत्ता—पंव णिहालिवि चंदमुहि चंदकंति सुहदंसणपंति ॥
जाइवि भासइ भूवइहि सुंदरि सुविहाणइ विहसंति ॥ ६ ॥

7

महिवइ मेहघोसु णिच्चप्फलु
जसु आणइ हरि अच्छइ गच्छइ

कहइ महासइहि सिविणयफलु ।
जो सयरायरु लोउ णियच्छइ ।

४ A पुरु विणिम्मिउ. ५ A सरवरकमलइ.

6 १ A णिरु अइसइयइ. २ AP णिहंधइ. ३ A सिविणयतइ; T तइ पंक्तिः. ४ AP अविरल°. ५ A भइरवरंजेणरउ. ६ A °वदहिं. ७ A भिंगु पिय°. ८ A °मंडल. ९ AP कलस-जमल. १० A मीणजुयल. ११ A सिहासणु. १२ A मोहु मालालउ.

5 6 a ते ओ हा मि य दि ण य रू तेजसा तिरस्कृतसूर्यः. 8 a पवि णि म्मि उं प्रविनिर्मितम्. 9 णज्जइ शायते. 10 तौतडिय मिश्राः.

6 1 a सिरि अइसइयइ शोभातिशययुक्ते; b णिहंधइयइ निद्रान्धया. 3 a अविरय° निरन्तरम्; b °सिलिम्मुहो लि° अमरपंक्तिः. 4 a वालहि पुच्छम्; सण्हा सास्ना गलकम्बलः; ककु ककु-दम्. b सउरहेउ मौरमेयो वृषभः. 7 मा लक्ष्मीः; णिसिमंडणु चन्द्रः. 9 a सररासि समुद्रः. 10 a मोहमालालउ मयूरवमालायुक्तः.

7 1 a णिच्चप्फलु निश्चपलः. 2 b सयरायरु सचराचरम्.

जो पर अप्पउं परहु पयासइ
सासयसोक्खसरोरुहछप्पउ
तेरइ गम्मइ अम्मउ होसइ
बुट्टु कुवेरुं देवु णवणिहिहरु
कंत्तिकित्तिसिरिहिरादिहिबुद्धिउ
आयउ जायउ जणउच्छाहउ
वित्तसुरासुरपंकयविट्ठिहि
संवणि सुरिक्खइ पच्छिमरत्तिहि
जक्खणिहत्तइ दुक्खणिवारइ

जासु दोसु तिलमेत्तु ण दीसइ ।
सो अरहंतु संतु परमप्पउ ।
ता रोमंचिय णच्चिय सा सइ । 5
जा छम्मास तावं चामीयर ।
देविउ देविहि कियैतणुसुद्धिउ ।
सग्गउ संचुउ अच्चुयणाहउ ।
जेट्टहु मासहु किण्हंहि छट्ठिहि ।
थिउ उयरंतरि पत्थिवपत्तिहि । 10
पुणु णवमांस सित्तु वसुद्धारइ ।

यत्ता—छावट्ठिलक्खसल्लव्वीसहिं वि वरिससहासहिं रिद्धउ ॥

सायरसउ छट्ठिवि कोडि गय थक्कउ पुणु पल्लइउ ॥ ७ ॥

8

जइयहुं वट्टइ णिव्वुइ सीयलि
तइयहुं तिहिं णाणहिं संजुत्तउ
फग्गुणि पयारहमे वासरि
विण्हजोइ उप्पणणउ जोइउ
आवेप्पिणु भत्तिइ तरुणीलहु
मिहरकुहरथियग्गरामालहु
णिहियउ पावपडल्लणिणामाणि
उत्त मंत विहि सयल करंप्पिणु

णट्टउ अरुहधम्मु धरणीयलि ।
पुव्वजम्मि भावियग्गणत्तउ ।
णिच्चमेव खिजंतइ ससहरि ।
मायइ तारहिं णयणहिं जोइउ । 5
मेहल्लविरइयैतारामालहु ।
अमरवरेसें णिउ सुरसल्लहु ।
पंहुंसिलायलि पंचासासणि ।
खीरंभोणिहिखीरु लण्णपिणु ।

यत्ता—सायकुंभसयकुंभइर पंति गयणि णच्चंति णवंति ॥

खांरवारिधारासयहिं देवदेउ भावेण ण्हवंति ॥ ८ ॥ 10

7 १ A कुवेरुदेउ. २ A जाम. ३ AP कय^०. ४ AP जणि उच्छाहउ. ५ A कण्हयल्लट्ठिहि.
६ A सवणसुरिक्खइ. ७ AP णवमासु. ८ A सिद्धउ; P सिद्धउ. ९ A पुणुणट्टउ.

8 १ A फग्गुणपयारहमइ. २ AP विण्हजोइ; T विण्हजोण ज्येष्ठानक्षत्रे. ३ AP ^०वल्लइय^०.
४ A पावपडल्ल. ५ A पंडिल्लायलि. ६ A संसल्ल सासणि.

1 a छप्पउ धमरः. a अम्मउ अर्भकः. 11 b सित्तु सिक्तं वर्षणं कृतम्. 12 छावट्ठि^० पर्युष्टिः.
13 पल्लइउ पत्न्यार्थम्.

8 11 b सिजंतइससहरि कृष्णपक्षे इत्यर्थः. 4 a विण्हजोइ श्रवणनक्षत्रे; b तारहिं उच्चवैः.
5 a तरुणीलहु वृक्षैःसीलस्य. 6 a खगरामालहु विद्याधरीयुक्तस्य. 7 पंचासासणि सिद्धामने. 8 a
उत्तमंत मन्त्राः उक्ताः. 9 सायकुंभ सुवर्णम्.

9

सुरपेच्छिउ णं डोलइ मंदरु
अलिद्धंकारइं सरलइं सदलइं
कमलि कमलि आसीणइं हंसइं
जे कलसर ते किरं वम्महसर
वम्महसरवंरहिं जणु दारिउ
जिणु सिंसु मयणहु अज्जु वि संकइ
करइ कामु घणुगुणटंकारउ
बहुएं सेयंसेण णिउत्तउ
आणिवि णयरु समप्पिउ मायहि
पणवेप्पिणु दुक्कियवणपवणहु
कालं जंनं वत्थुपमाणउ

कलसहं सहसइं लेइ पुसंदरु ।
कलमि कलमि संणिहियइं कमलइं ।
हंसइं कयकलसरणिगघोसइं ।
वम्महारि विहंविणरामर ।
जणवणण हियवइ जिणु धारिउ । 5
तेण जि रइ थणजुयन्नु ण टंकइ ।
पसरइ अच्छरउलहं वियारउ ।
सयमहेण सेयंसु पउत्तउ ।
तणयालोयणवियसियञ्जायहि ।
गयउ पुलोमपिसुणु णियभवणहु । 10
वड्डिउ पुरि तइलोक्कहु राणउ ।

घत्ता--हेपच्छविहि भडारहु जं दिट्टउ तं णेय रहंति ॥

तासु असीइसरासणइं गणहर तणुपरिमाणु कंइति ॥ ९ ॥

10

एकवीसलकम्बइं वालंनं
पुणु पुज्जिउ पोलोभीकंतं
रज्जु करंतहु कामरसइहं
पहउ अवसरु जायउ जइयहुं
दिट्टउ तंबिरपल्लवु चूयउ
सो णं जालहिं जलइ णिरारिउ
पुणु कोइलु कलसइं गज्जइ
रुणुरुणंतु अण्णाणु ण चेयइ
ता परमेसरु मणि मीमंसइ
कालं कंइइयउं अंकुरियउं

घल्लियाइं वरिसइं खेलंनं ।
किउ रज्जाहिसेउ गुणवंतं ।
दोचालीमलकख गलियइहं ।
णाहं कीलावणि तहिं तइयहुं । 5
मयणहुयासहु बीयउ ह्यउ ।
विग्घीयणु तं ताविउ मारिउ ।
णं वसंतपहु पडहउ वज्जइ ।
महुयरु महु पिपैवि णं गायइ ।
अम्हारउं वणु अण्णु जि वीसइ ।
पल्लवियउं कुसुमोलिहिं भरियउं । 10

9 १ P डोलइ. २ A किल ते; P तं किल. ३ A "णिहविय". ४ P पुलोमपिसुणु. ५ AP वत्थुवमाणउ; P वत्थुअमोणउ. ६ P तं तं अरहंतं. ७ P असीसरासणइं. ८ P कंइति.

10 १ AP पणवंतं. २ AP णाहं कीलंतं वणि तइयहु. ३ AP पिपइ. ४ P कंइइयउं कुरियउं.

9 4 a कलसर मधुरस्वनाः; b वम्महारि मर्मवधकाः. 6 a सिंसु वालः, वालस्वादिस्वर्थः; b टंकइ आच्छादयति. 8 a बहुएंसेयेसेण णिउत्तउ बहुभिः श्रेयोभिर्नियुक्तः. 10 पुलोमपिसुणु पुलोमशत्रुः इन्द्रः. 11 वत्थुपमाणउ उपमानरहितः (व्यस्तोपमानः).

10 3 a कामरसइहं कामरसाद्राणाम्; b गलियइहं गलितानि अवदानाम्. 5 चूयउ आस्रवृक्षः. 8 b महु मकरन्दो मद्य च. 9 a मीमंसइ मीमांसने परिभावयति.

फलितं फलावलीहिं णं पणवइ
परिणमंतु जगु गिविसु ण थक्कइ
पही सयलहु लोयहु परिणइ ।
परिणामहु जहु जीउ ण चुक्कइ ।
घत्ता—जगु परिणामं दूसियउ णिपरिणाम सिद्ध परमेद्वी ॥
हो हो अधिरेणेण महं णिञ्चल तेत्थु णिसंभिवि दिद्वी ॥ १० ॥

11

ता संपत्त तेत्थु सुरवरगुरु
सो आहंडलु तं सुरमंडलु
आयउं पुणु वि णवणु किउं देवहु
विमल्ले सिवियाजाणे णिग्गउ
फग्गुणि कसणि एयारसिदियहइ
सवणारिक्खि उवसमियकसायउ
उववासहुवेण रिसि जायउ
गांणारिद्वे पंतु पडिच्छिउ
दुइ वरिसइ विहरिण्यणु म्हरियालि
माहहु मासहु णिञ्चइ दिणि
अवरणइ तिरत्तसंजुत्तहु
तेहिं तुरिउ पडिबोहिउ जगगुरु ।
तं अच्छरउलु मणिमयकुंडलु ।
णिट्टियचरियावरणविलेवहु ।
णाहु मणाहरु णंदणवणु गउ ।
दियहाहिवि अवरासासंगइ । 5
भूयइ मुक्कभूइभूमायउ ।
सिद्धत्थउ पुरु भिक्खहि आयउ ।
सुद्धपिंहु तहु तेण पयच्छिउ ।
पुव्विलइ वणि तुंबुरुतरुतलि ।
छेइलइ सणइ मयउण्णि । 10
अचलियपत्तलपविउलणेत्तहु ।
घत्ता—संभूयउं केवलु तहु विमलु णाणु तेणे तेलोक्कु वि दिदु ॥
पत्तउ सामरु अमरवइ जिणु थुणंतु महु भावइ धिद्वं ॥ ११ ॥

12

तुहुं जि देउ तुह णवइ पुरंदरु
तुहुं तवंगु तुह बीहइ दिणयरु
तुहुं थिरु तुह पीदुलउ मंदरु ।
कंतिवंतु तुहुं तुह ससि किंकरु ।

५ A परिणवंतु. ६ AP परमेद्विहि. ७ A दोही. ८ A णिञ्चल तेसु णिसंभिवि दिद्विहि; P णिञ्चलतेसु णिसंभिवि दिद्विहि.

11 १ A वरणु. २ AP विमल्लि. ३ A भूयइ. ४ A omits तेण. ५ A यिदु.

12 १ P मंदिरु. २ A तवंगु; P तवंगु.

12 णि विसु निसेपमपि. 13 णि परिणाम सांसारिकपरिणामरहिताः.

11 3 b णि ट्टियचरियावरणविलेवहु क्षिमचारित्रावरणावलेपस्य. 4 a विमल्ले विमल-
प्रभया. 6 b मुक्कभूइभूमायउ त्यक्तविभूतिः त्यक्तभूमाश्व. 7 a 'दुवेण द्वयेन. 9 b तुंबुरुतरुतलि
तिन्दुकीवृक्षतणं. 10 a णिञ्चइ इ कृणे; b छेइलइ अमावास्यायाम्. 11 a तिरत्तसंजुत्तहु त्रिरात्र-
मुपवासयुक्तस्य. 13 धिदु भृष्टः.

तुहुं गहीरु वरुणेणाणंदिउ	तुहुं अणिहणणिहि धणपं वंदिउ ।
तुहुं रयतरुसिहि सिहिणा सेविउ	तुहुं जि मंति ^३ मंतीसहि भाविउ ।
तुह पायग्गहिं वाउ विलगउ	तो वि ण तुहुं पहु वापं भगउ । 5
तुहुं जमपासवसेण ण बद्धउ	जमु तुह सेवाविहिपडिबद्धउ ।
तुहुं जि कालु कालुहु कालुसरु	तुहुं विवाह वाइहिं दिण्णुसरु ।
सब्बु वि जाणसि पेच्छसि जेण जि	तुहुं जि सब्बु सब्बाहिउ तेण जि ।

घत्ता—अट्टपाडिहेरयसहिउ अट्टमहाधयपंतिसमेउ ॥

समवसरणि थिउ परमजिणु कहइ समत्थंपयत्थहं भेउ ॥ १२ ॥ 10

13

कुंथुपमुह पयणावियसुरवर	तासु सट्टिसत्तारह गणहर ।
रिसिहिं विणासियघोराणांगहं	तेरहसयइ धरियपुव्वंगहं ।
अडदालइं जि सहासइं भिक्खुहुं	दुंसइए संजुत्तइं सिक्खुहुं ।
छहसहास अवहीपरियाणहं	तेत्तिय भणु मणपज्जवणाणहं । 5
ते च्चिय पंचसयाहिय संतहं	केव्वलक्खुणिहालणवंतहं ।
पयारहसहास वेइकिरियहं	पंच वि वाइहिं बहुणयभरियहं ।
पयडियदुम्महवम्महमारिहिं	संजमचौरिणीहिं वरणाारिहिं ।
एकु लक्खु वीसेव सहासइं	दो लक्खइं सावयहं पयासइ ।
चउलक्खइं देसव्वयधारिहिं	माणवमाणिणीहिं मणहारिहिं ।
अमर असंख तिरिक्ख णिरिक्खिय	सहुं संखाइ जिणिंदे अक्खिय । 10
एक्कवीस तहिं वरिसहुं लक्खइं	बिहिं वरिसहिं विरहियइं ससोक्खइं ।
सुरवरइयइ जणसुहसूइइ	महि विहरिवि अरहंतविहइइ ।

घत्ता—गिरिसंभेयहु मेहलहि लंबियकरयलु एकु जि मासु ।

जिह सो तिह तणु परिहरिवि भवरु वि संठिउ मुणिहिं सहासु ॥१३॥

14

जीवंपिणु कयतिहुयणहरिसहं	जिणु चउरासीलक्खइं वरिसहं ।
पहु सावणपुणिवहि जणिट्टहि	चंदि परिट्टइ गंपि धणिट्टहि ।

३ AP संतु. ४ AP पहु तुहुं. ५ A समत्थु.

13 १ AP अडदालसहासइं भिक्खुयाहं. २ A वुइसइसंजुत्तइं. ३ AP परिमाणहं. ४ A केवलक्खु^०. ५ A वेकिरियहं; P विकिरियहं. ६ A ^०धम्महं वम्महं^०. ७ AP संजमधारिणीहिं. ८ A समक्खइं.

12 3 b अणिहणणिहि अविनश्वरानन्तशानायाश्रयः. 4 a रयतरुसिहि पापवृक्षेभ्यः अग्निः; b मंति बृहस्पतिः. 8 b सब्बाहिउ सर्वाधिकः.

13 6 a बइकिरियहं विक्रियर्द्धीनाम्. 7 a ^०दुम्महं^० दुर्मथः.

14 2 a ^०पुणिवहि पूर्णिमायाम्.

णिब्बुउ कम्मपडलपरिमुक्कउ
 देहपुज्ज किये दससयणेत्ते
 कलु विरसंतिहिं भंभाभेरिहिं
 उब्बसिरंभतिलोत्तिमणारिहिं
 तुंबुरुणारयञ्जुणिञ्जंकारहिं
 णाणाविहपुप्फाई व घित्तइं
 दिण्णइं दीवधूव अपमाणइं
 दीवु धूमु जो गयणि व लग्गउ
 जिणतणुसेवइ पंकु पणासइ
 णविवि णिंसिद्धि भत्तिअणुराणं

अट्टमु धराणिवीडु खाणि दुक्कउ ।
 करपंजलिघल्लियसयवत्ते ।
 णञ्चंतिहिं गोरिहिं गंधारिहि । 5
 सुरकामिणिहिं विइण्णवियारहिं ।
 तेहिं पणवंतहिं जलणकुमारहिं ।
 सीयलचंदणजलेण व सित्तइं ।
 णीलीकयअमरंगणजार्णाहिं ।
 णाई हुयासकलंकु विणिग्गउ । 10
 सच्चउं भासइ माय सरासइ ।
 जंते जंपिउ सुरसंघाणं ।

घत्ता—भरहि पणट्टउ उद्धरिउ विणिवारेप्पिणु कुसमयकम्मु ॥

सेयंसं बहुसेययरु कुंदपुप्फदंते जिणधम्मु ॥ १४ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहए
 महाभवभरहाणुमण्णिण महाकव्वे सेयंसणिव्वाणगमणं
 णाम एकूणपण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ४९ ॥

॥ सेयंसंजिणवरियं समत्तं ॥

14 १ A णिब्बुइ^१, २ P किय. ३ A उब्बसरंभ^२, ४ AP^३ सिहि संधुक्किय. ५ AP omit this line and the following. ६ AP add after this: घित्तइं चंदणवंदणकइइं, जलियइं णाहु अंगइं दिहइं. ७ AP णाळु धूसु गयणंगणि लग्गउ. ८ AP जिणु तणु^४. ९ A णिसिहि. १० AP omit this line.

1 b ^१वलि य स य वत्ते ^२क्षिमकमलेन. 3 b गो रि हि शासनदेव्या. 6 b वि इ ण्ण वि यार हिं दत्तविकारैः. 13 कुसमयकम्म कुमतानुक्रमम्. 14 व हुसेययरु बहुश्रेयस्करः.

तर्हि सेयंसहु तित्थि देदभुयबलदप्पिट्ठं ॥
णिसुणाहि सेणियराय रणु ह्यकंठतिविट्ठं ॥ धुवकं ॥

1

इह जंबूदीवि वरभरहखेत्ति	चवलोल्लिचंदणाभोयवन्ति ।
मयमत्तमाहिसजुज्झंविमदि	गजंतगामगोवालसहि ।
गोउलपयधाराधायपहिइ	मंथोणयमंथियथद्धदहिइ ।
पिञ्चंतधण्णसंझण्णसीमि	णिरु णियंडणियडसंकिण्णगामि ।
जववालिणिरवमोहियकुरांगि	णवगंधसालिणिवडियविहंगि ।
सरिसरवरजलकल्लोलमालि	सयदलणिणीणभर्सलउलणीलि ।
वसुमइमहिलासोहाणिवेसि	कयुदुग्गाहणिग्गाहि मगहदेसि ।
रायगिहणयरि पडु विस्सभूइ	तहु लहुयउ भाइ विसाहभूइ ।

Mss. A and P have the following stanza at the beginning of this Samdhi:—

भास्वानेककलावतोऽस्य च भवेयन्नाम तन्मङ्गलं
सर्वस्यापि गुरुयुवः कविरयं चक्रे अयं च क्रमः ।
राहुः केतुरयं द्विपामिति दधत्साम्यं प्रहाणां प्रभुः
संप्रत्योदयमातनोति भरतः सर्वस्य तेजोधिकः ॥ १ ॥

K does not give it anywhere. In addition, P has also सया मन्तो वेसो भूसणं सुद्धसीलं etc, which in A is found at the beginning of II. for which see page 130. In addition, P has जगं रम्मं हम्मं दीवओ चन्दबिम्भं for which see page 165 of Vol. I. In addition, P has the following stanza:—

दीनानाथधनं सदाबहुजनं प्रीत्फुल्लवल्लीवनं
मान्याखेटपुरं पुरंदरपुरीलीलाहरं सुन्दरम् ।
धारानाथनरेन्द्रकोपशिखिना दग्धं विदग्धप्रियं
केदानीं वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥ १ ॥

A gives this stanza at the beginning of LII. K does not give it anywhere.

1 १ AP दिदभुय^०. २ AP चललवलि^०. ३ AP ^०जुज्झणविमदि. ४ AP मंथाणामंथिइ यद्धदहिइ. ५ A णियलणियल^०. ६ A भसलोल्लिणीलि.

1 2 ह्यकंठ^० अश्वप्रीवः. 3 b चवलालि^० चपला अल्यो येणु ताहशाश्वन्दनवृक्षाः. 4 a जुज्झ वि य म दि युद्धं कारितो म द्दो समूहो यस्मिन्. 7 a जववालिणि^० हालिनी.

पढमहु जइणी मृगणयण भज्ज
पइरमियइ जइणइ विस्सणंदि
सुय जाया बेणिण वि णवजुवाण
ता राणं ससियरंधवलदेहु

बीयहु लक्खण णामे मणोज्जं ।
जणियउ लक्खणइ विसाहणंदि ।
अच्छंति जाम सुहुं भुंजमाण ।
गयणयालि पलोइउ सरयमेहु ।

घत्ता—णं खलमित्तसणेहुं सो सहसत्ति विलीणउ ॥

15

उहु संसार भणंतु चिसि^३ चवक्किउ राणउ ॥ १ ॥

2

जंपइ पहु जिणगुण संभरंतु
जिहं णट्टउ पवणं पहु मेहु
होसंति सिद्धिले संधिप्पणस
होसंति णयण सुहिरूवभंत
होसंति सुणिव्ववसाय पाय
तुहुं करहि रज्जु मइं दिण्णु भाय
ता थिउ संताणि विसाहभूइ
महि विहवसारु जरतणु गणेवि
सहुं भव्वणरिंदहं तिहिं सणहिं
एत्तहि विसाहभूइ सुराउ

सत्तंगरज्जसिरि परिहरंतु ।
णासेसइ तिह कालेण देहु ।
होसंति हंसहिमवण्ण केस ।
होसंति हन्थ णित्थामवंत ।
मुहकुहरहु णिगोमइ ण वाय । 5
रक्खेज्जसु णियकुलकित्तिछाय ।
णिग्गिंवि गउ काणणु विस्सभूइ ।
जोईसरु सिरिहरु गुरु थुणेवि ।
थिउं अप्पउ महिवि महव्वणहिं ।
सो विस्सणंदि जुवराउ जाउ । 10

घत्ता—णंदणवणि कीलंतु हणइ मुणालें घरिणिउ ॥

पसरियदीहकरग्गु मत्तउ णं करि करिणिउ ॥ २ ॥

3

काहिं वि मयरंदें करइ तिलउ
क वि सिंचियं जलगंइसणण

काहिं वि वेल्लीहरि देइ णिलउ ।
क वि जोयइ णवजोव्वणमणण ।

७ AP मिगणयण. ८ P भज्जा. ९ P मणोज्जा. १० A संचियधवलदेहु. ११ A पलोयउ. १२ P 'सिणोहु. १३ A चित्त चमक्किउ.

2 १ AP निम. २ P पमणे. ३ A सिधिलि. ४ A णिगोमइ. ५ A णियगवि. ६ A ठिउ.
७ A रजेहि विसाहभूइ मराउ; P एत्तहि विसाहुभूइ सुराउ. ८ P हणणइ. ९ AP करि णं.

3 १ A काहि मि. २ AP सिंचइ. ३ AP जोइय.

11 a पढमहु जइणी प्रथमस्य विश्वभूतेर्भार्या जैनी. 16 च वक्किउ संसाराद्गीतः.

2 3 a संधिप्पणस संधिप्रदेशाः; b हंसहिमवण्ण श्वेताः. 4 a सुहिरूवभंत सुहदां स्वरूपावलोकने भ्रान्त्युत्पादकानि; b णित्थामवंत निर्बलाः. 5 a सुणिव्ववसाय निरुद्यमौ; b वाय वाणी.
8 a जरतणु जीर्णतृणम्. 9 b अप्पउ महिवि महव्वणहिं महाव्रतैरात्मानं मानयित्वा.

3 1 a मयरंदें मकरन्देनः; b वेल्लीहरि लतागृहे.

काहि वि कामु व कुसुमोहु धिवइ
 काहि वि करंलीलाकमलु हरइ
 छाइयससिसूरमऊहमालि
 दीसइ काइ वि कररुह फुरंतु
 पारोहइ क वि दोलायमाण
 क वि बंधिवि मोत्तियदामरण
 साहाररसिल्लउं कणयवचु

क वि पणयकुविय अणुणंतु णवइ ।
 क वि लेविं सरोवरणीरि तरइ ।
 काहि वि ल्हिक्कइ णीलइ तमालि । 5
 काइ वि करि धरियउ दर हसंतु ।
 अवलोइय वडजक्खणिसमाण ।
 हय कुवलण कयकामरण ।
 काहि वि तरुपल्लुवु दिण्णु रत्तु ।

घत्ता — णं वणि णँलिणि दुरेहु अच्छइ णिच्चं पइट्टउ ॥

10

इय सो तेत्थु रवंतु लक्खणजापं दिट्टउ ॥ ३ ॥

4

तओ तं णियच्छेवि रायंगणं
 घरं गंपि सो गोमिणीमाणणेणं
 सया चायसंतोसियाणेयवंदी
 वैणं देहि तं मज्झ रायाहिराया
 ण देमि त्ति मा जंप णिब्भिण्णकण्णं
 णरिंदेण उत्तं वैणं देमि णूणं
 दुमंते रमंतो मयच्छीण मारो
 खणेणय पत्तो समिसो णवंतो
 महं भाउणा णेहवासेण दिण्णं
 कुलीणा तुमं चेष मण्णंति सामिं
 अहं जामि पच्चंतवासाइं वसुं
 तओ जंपियं तेण तं मज्झ पुज्जो
 थिराणं कराणं पयासेमि सत्ति

वणुस्साहिलासं गहीरं गण्णं ।
 पिऊ पत्थिओ पुण्णच्चंदाणणेणं ।
 जहिं कीलए णिच्चसो विस्सणंदी ।
 महामंतिसेणावईवंदपाया ।
 अहं देव गच्छामि देसंतमण्णं । 5
 तुमं जाहि मा पुत्त उच्चिग्गठाणं ।
 पुणो तेण कोक्कविओ सो कुमारो ।
 पिउब्बेण संबोहिओ णायवंतो ।
 तुमं पत्थिवो तुज्झ रज्जं रवण्णं ।
 तुमं थाहि सीहासणे भुंज भूमिं । 10
 बलुहामथामं रिऊं पुत्त हंतुं ।
 तुमं देव तायाउ आराहणिज्जो ।
 अहं जामि गेण्हामि कूरारिविस्तिं ।

घत्ता—एवं भणेवि कुमारु अप्पउं विणयं भूसिवि ॥

गउ पच्चंतनुवाहं उवरि जांव आरूसिवि ॥ ४ ॥

15

४ A करि लीला^०. ५ AP लेह. ६ A णलिणदुरेहु. ७ P णिच्चु.

4 १ A माणिणीमाणणेणं. २ A वणे देहि. ३ A वं देवि णूणं. ४ AP सिंहासणे. ५ A रिउं पुत्त. ६ AP^० णिवाहं.

3 a कामुव मदन इव. 5 a छाइय^० आच्छादितः. 7 a पारोहइ वटवृक्षादौ. 8 b कयकामरण कृतस्नेहेन. 9 a साहाररसिल्लउं कणयवचु आम्रमञ्जरीयुक्तं कर्णाभरणम्. 11 लक्खणजापं लक्ष्मणा-पुत्रेण विशाखनन्दिना.

4 1 a रायंगणं राजपुत्रेण; b वणुस्साहिलासं वनाभिलाषम्. 2 b पिऊ पिता. 3 a चाय^० त्यागः. 5 a णिब्भिण्णकण्णं कर्णस्फोटनम्. 8 b पिउब्बेण पितृव्येन. 9 a णेहवासेण स्नेहवशेन.

5

ता पदुणा पणयविमद्दणासु
 पइसरहुं ण देतुं कयंतलीलु
 संगाममहोवहिभीममयरु
 दद्दाहरदु रसंतणेत्तु
 अईसंधिवि महुं वणु लइउं जैव
 वीसासिवि किं हम्मइ पसुत्तु
 लक्खणहि सणु भयभावणडिउ
 महिवलयविसट्टणतडयंडंतु
 विवरंतसप्पवोभलललंतु
 उत्तुंगु अहंगु सुदुण्णिारिक्खु
 अच्छोडइ किर. महिवीदि जांव
 भइ पवणगमणु मग्गणुलग्गु

दिण्णउं णंदणवणु णंदणासु ।
 तें मारिउ सुहिउज्जाणवालु ।
 आयणिवि पडियाइयउ इयरु ।
 भासइ आरुसिवि जइणिपुत्तु ।
 थिरु पंवहि भायर थाहि तैव । 5
 किं पित्तिण्ण वचसिउं अजुत्तु ।
 तं पेच्छिवि दुट्टु कविट्ठि चडिउ ।
 भजंतहिं मूलहिं कडयडंतु ।
 उट्टुताहिं पक्खिवाहिं चलवलंतु ।
 उम्मूलिउ रिउणा समउं रुक्खु । 10
 णासंतु दिट्टु पडिवक्खु तांव ।
 धरणासइ चलपसरियकरग्गु ।

घत्ता—पुणरवि दुग्गु भणेवि आसंधिवि थिउ वइरिउ ॥
 तेण मुट्ठिघाण्ण खंभु सिलामउ चूरिउ ॥ ५ ॥

6

पणु दलिइ खंभि परिगलियमाणु
 णीसासैवेयवड्ढियकिलेसु
 अवलोइवि भाइ पलायमाणु
 पभणइ मा जासहि आउ आउ
 जुवरायहु कहइ विसाहभूइ
 इहु जाउ जाउ किं आयण्ण
 सिलफोडणभुयमाहप्पदप्प
 जइणिंददिक्ख महुं सरणु अज्जु

वेणु मेल्लिवि हरिणु व धावमाणु ।
 णीसत्थहत्थ णिम्मुककैसु ।
 करुणारसि थक्कउ सुहडभाणु ।
 तहिं अवसरि पत्तउ तहिं जि राउ ।
 लइ लइ सुंदर तेरी विहइ । 5
 किं कुच्छियपुत्तें जायण्ण ।
 अइसंधिओ सि महुं खमहि वप्प ।
 परिपालहि तुहुं अप्पणउ रज्जु ।

5 १ AP देति. २ A ता मारिउ. ३ AP दद्दाहरोदु. ४ A अहिसंधिवि. ५ A तउयलंतु.
 ६ A चोमल°. ७ A उत्तंग.

6 १ A धणु. २ AP णीसामु. ३ AP हत्थ. ४ A रसथक्कउ.

5 1 a पणय वि मद्दणासु स्नेहभङ्गकस्य. 2 a पइसरहुं प्रवेशं कर्तम्; कयंत लीलु कृतान्त-
 सदृशः. 3 b पडिया इयउ प्रत्यागतः. 4 a दद्दाहरदु दद्योष्ठार्थः; b जइणिपुत्तु जैनीपुत्रो विश्वनन्दी.
 7 कविट्ठि कपित्थवृक्षे. 9 a चोमल° वस्त्रगुण्डिका. 12 धरणासइ धारणाशया.

6 1 a परिगलियमाणु नद्यर्गवः. 2 a णीसासवेय° निःश्वासवेगः; b णीसत्थहत्थ
 निःशस्त्रहस्तः. 8 a जइणिंददिक्ख जैनदीक्षा.

घसा—बंधववैरकरीहि णिविण्णउ नृवरिद्धिहि ॥

पुत्त पडिच्छहि पट्टु हँउं लग्गमि तवसिद्धिहि ॥ ६ ॥ 10

7

खग्गे मेहे किं णिज्जलेण	तरुणा सरेण किं णिफ्लेण ।
मे हे कामे किं णिद्वेण	मुणिणा कुलेण किं णित्तवेण ।
कव्वे णडेण किं णीरसेण	रज्जे भोज्जे किं परवसेण ।
दव्वे भव्वे किं णिद्वएण	धम्मं राए किं णिहएण ।
ताणे कणिसं किं णिक्रणेण	चावे पुरिसं किं णिग्गुणेण । 5
हउं णिग्गुणु अवरु वि मज्जु तणउ	कवडेण जे हिं तुह भग्गु पणउ ।
वियसियपंकयसंणिहमुहेण	पडिजंपिउं जहणीतणुरुहेण ।
हो जोव्वणेण हो उववणेण	हो परियणेण हो हो धणेण ।
हो पट्टणेण सुहवट्टणेण	हो सीमतिणियंणघट्टणेण ।
सहुं सयणहिं जहिं संभवइ वइरु	पिसिय तहिं ण वसमि हउं वि सुइरु 10
महु जणणे दिण्णी तुज्जु पुहइ	जो रुच्चइ सो तुहुं करहि नृवैइ ।
मइ पुणु जाएवउं कहिं वि तेत्थु	णिवसंति दियंबर विंझि जेत्यु ।

घसा—तं णिसुणिवि राएण जइ वि चित्ति अवहेरिउ ॥
तो वि परायइ कज्जि पुत्तु रज्जि वइसारिउ ॥ ७ ॥

8

वइसणइ वइट्टु विसाहणंदि	सविसाहभूइ गउ विस्सणंदि ।
संभूइ सूरि पणवेवि पवित्तु	दोहिं वि पडिवण्णउं रिसिचरित्तु ।
चिरु कालु चरेप्पिणु चारु चरणु	किउ पिसिएण संणासमरणु ।

५ P वइरकराहे णिविण्णउ. ६ AP णिवरिद्धिहि. ७ K हहउं.

7 १ A पेमे; P पेमे. २ P omits किं. ३ A कवडेण जेण. ४ A संमुहमुहेण. ५ P थण-
धट्टणेण. ६ A महु सयणहिं जं संभवइ वइरु. ७ AP णिवइ.

8 १ A वइसणे; P वइसणइ. २ A पणवेवि चित्तु.

9 बंधव व हर करी हि बान्धववैरजनिकया.

7 २ a मेहे मेघेन; णि द्वेण जलशुक्रयोः क्षरणरहितेन; b णि त्तवेण तपोरहितेन. 4 a णि व्व-
एण व्ययरहितेन षतरहितेन च. 5 a णि क्रणेण बाणरहितेन धान्यरहितेन च. 9 a सुहवट्टणेण सुरमि-
चूर्णेन. 10 b पिसिय हे पितृव्य. 12 b विंझि विन्ध्यवने. 13 अवहेरिउ अनादतः.

8 1 a वइसणइ राज्ये.

उष्पणु महासुक्काहिहाणि
सहभूयभूरिभूसाविहाणि
परमंडलवद्वाहिणिहि छइउ
लक्खणणंदैणु हयसिंरिविलासु
अणवरयवुद्धिसंधियमणेण

मणिमयविमाणि धयधुव्वमाणि ।
सोलहसमुद्दजीवियपमाणि । 5
एत्तहि वि रायगिहणयरु लइउ ।
थिउ महुरहि जाइवि कयणिवासु ।
जीवइ कासु वि मंतित्तणेण ।

घत्ता—एत्थु ण किज्जइ दप्पु लच्छि ण कासु वि सासैय ॥
जे गय गयखंधेहिं ते पुणुं पायहिं गर्यं ॥ ८ ॥

10

9

मुणि विस्सणंदि ता तहिं जि कालि
कयपक्खमासदीहोववासु
तं पुरवरु सों चरियहि पइट्टु
णिट्ठाणिट्ठिउ जइवरवरिट्टु
वेसासउहयलि परिट्ठिएण
उवहसिउ साहु पत्थिवचरेण
चिरु एंवहिं गाइविहट्ठियंगु
णिग्गुण णिग्घिण दुज्जण समाव

मज्झणहवेलि खरकिरणजालि ।
कंकालसेसु गयरुहिरमासु ।
अहिणवपसूयगिट्ठिइ णिहट्टु ।
णिवडंतु तेण पिसुणेण दिट्टु ।
बहुजम्मणमरणुकुंठिएण । 5
पइं रुक्खं खंभ भग्गा करेण ।
पडिओं सि विहंडियमाणसिंगु ।
खद्धों सि मज्झ पावेण पाव ।

घत्ता—तं पिसुणिवि सवणेणं बद्धउं रोसणियाणउं ॥

आगामिणि भवि तुज्जु हसियहु करमि समाणउं ॥ ९ ॥

10

10

कयपच्चक्खाणपयासणेण
जहिं तायभाउ जायउ अदीणु

तांवहिं वि मरिवि संणासणेण ।
एहु वि दूसहतवचरणखीणु ।

३ A ०णंदण. ४ P सासया. ५ AP तं पुणुगवि. ६ P गया.

9 १ AP णिहिट्टु. २ रंक खंभ. ३ AP समणेण.

4 b धयधुव्वमाणि ध्वजैः कम्पमाने. 5 a सहभूय^२ सहोत्पन्नानि. 6 a परमंडलवद्वाहिणिहि द्वात्रुसेनया. 8 मंतित्तणेण मन्त्रित्वेन.

9 3 b ० णिट्ठिइ वेत्वा; णिहट्टु निधृष्टः पातितः. 4 a णिट्ठाणिट्ठिउ तपश्चरणेन क्षीणः; 6 पिसुणेण दुष्टेन विशाखनन्दिना. 5 a वेसासउहयलि वेश्यासौधतले. 6 a पत्थिवचरेण पार्थिवचरेण भूतकाले राज्ञा हृदानीं तु मन्त्रिणा. 7 b विहंडियमाणसिंगु विस्वण्डितगर्वशिखरः. 9 सवणेण मुनिना. 10 समाणउं सदशं फलम्.

10 2 a तायभाउ तातभ्राता पितृव्यः; अदीणु उदारः.

तहिं दहमइ कप्पि मणोहिरामि	दहछहजलणिहिवद्दाउधामि ।
उप्पण्णउ सल्लहियंतरंगु	कम्मेण ण किज्जइ कासु भंगु ।
ते बिण्णि वि सुरवर बद्धणेह	ते बिण्णि वि लायण्णंभुमेह ।
ते बिण्णि वि णिञ्चु जि सह वसंति	ते बिण्णि वि तारतुसारकंति ।
ते बिण्णि वि णं तिब्बंसुजोय	ते बिण्णि वि कयकीलाविणोय ।
ते बिण्णि वि दिवि अच्छंति जांव	एत्तहि वि अवरु संभवइ तांव ।
णिब्बेपं लइउ विसाहणंदि	जिणतवतावे तावेवि बोदि ।
माणिकमऊहोहामियक्कि	संभूयउ सो वि महंतसुक्कि ।

घत्ता—एयहं दाहं वि ताहं देवहं वियलियहरिसइ ॥

थक्कउ आउपमाणु जइयहुं कइवयवरिसइ ॥ १० ॥

11

तइयहुं वयहारुठियाहि	विज्जाहरउत्तरसेठियाहि ।
अलयाणयरिहि पहु मोरगीउ	थिरथोरबाहु सद्दलगीउ ।
देव वि रणरंगि तसंति जासु	णीलंजणपह महपवि तासु ।
जो चिरु विसाहणंदि त्ति भणिउ	सो ताइ पुत्तु हरिगीउ जणिउ ।
जाएण तेण णवजोव्वणेण	करलालियसिरिरामाथणण ।
पडिक्कखलक्कवलयदुम्महेण ।	
अहिवलयणिलयकंपावणेण	चंदक्कविंबभीसावणेण ।
खयरिंदविदकंदावणेण	भूगोयरपुरसंतावणेण ।
सरणागयजणपविपंजरेण	करिणा इव दाणोहियकरेण ।
काणीणदीणकुलदिहिकरेण	सुहवत्तणजियमणसियसरेण ।

घत्ता—आसग्गीवे तेण रिउ हय हरिणा इव करि ॥

असिधारइ तासिवि गहिय तिखंड वसुंधरि ॥ ११ ॥

12

उग्गयपयावरवियरकरालु	घसुमइ भुंजंतु पईहु कालु ।
विद्धंसियवरसुहडावलेवु	परिवद्धिउ सो पडिवासुएवु ।

10 १ AP दहमि कप्पि सुमणो^०. २ A सल्लहियंतरंगु. ३ AP एत्तह वि.

11 १ P वंजाहर^०. २ AP add after this: पलयाणलजालादुस्सहेण. ३ A करिणा विय.

12 १ AP जा वद्धिउ.

३ b दह छह जल णि हिं षोडशसागरोपमाणि. 4 a सल्लहियंतरंगु सशत्यहृदयः; b कम्मेण कर्मो-
दयेण. 7 a तिब्बंसुजोय सूर्याचन्द्रमसाविव. 10 b महंतसुक्कि महाशुक्के.

11 १ a मोरगीउ मयूरग्रीवनामा. 4 b हरिगीउ अश्वग्रीवः. 8 a कंदावणेण कन्दन-
कारिणा. 9 b दाणो हियकरेण मदान्द्रंशुण्डादण्डेन, दानान्द्रंकरेण च. 11 हरिणा सिंहेन.

12 1 b पईहु कालु दीर्घ कालम्. २ a सुहडावलेवु सुभटानां गर्वः; b पडिवासुएवु
प्रतिवासुदेवः.

तिथ्यरपविस्त्रियतिथ्यगिरहि बहुरमणिरमणसंपणविसइ पोयणपुरु सुरपुरसोहहारि भुवणेकसीहु सव्वोवयारि तहु पढमदेवि जयवइ पसण अण्णेक्क चारु वित्थिण्णरमण दोहिं वि दीविय महि तिमिरजूर णिवडवि अणुहुंजियसुहसयाउ पित्तियभत्तिज्जय बद्धपणय जइवइहि जाउ हिमंसियसरीरु णारित्तणगुणघडियहि सर्इहि जयवंतु एक्क तहिं विजउ गणित्तं	ता पविउलजंबूदीवभराहि । परिपालियधम्मि सुरम्मि विसइ । तहिं वसइ णराहिउ दंडधारि । 5 णामेण पयावइ णिज्जियारि । णं विवरविणिग्गय णायकण्ण । मृगणयण मृगावइ मंदगमण । णिसि सिविणइ विट्ठा चंदसूर । ते दो वि देव देवासयाउ । 10 संजाया सुंदर ताहं तणय । बलहहु बालु णं छुइहीरु । हुउ कण्हु जि कण्हु मृगावइहि । वीयउ पुणु विट्ठु तिविट्ठु भणित्तं ।
घत्ता—बेणिण वि सह खेलंति भुयत्रलदूसियदिग्गय ॥ भरहदियंतपयासि पुष्पदंत णं उग्गय ॥ १२ ॥	15

इय महापुराणे तिसाट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्पयंतविरहए
महाभवभरहाणुमणिणए महाकव्ये बलएववासुदेवउष्पत्ती
णाम पण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५० ॥

३ AP मिगणयण मिगा^०. ४ A हिमसय^०. ५ AP बलएउ. ६ A छुइहीरु; P छुइ हीरु. ७ AP मिगावइहि. ८ P विजउ. ९ A भणित्तं. १० A गणित्तं. ११ P "भूसिय^०". १२ AP पुष्पयंत.

३ a णिरहि निष्पापे. 7 b णायकण्ण नागकन्या. 9 a तिमिरजूर तिमिरनाशकौ. 10 b देवासयाउ देवाविमानात्. 11 a पित्तियभत्तिज्जय पितृव्यभ्रातृव्यौ. 12 a जइवइहि जयावत्याम; b छुइहीरु बालचन्द्रः. 13 b कण्हु कृष्णवर्णः; कण्हु वासुदेवः. 14 a विजउ विजयनामा बलभद्रः; b विट्ठु तिविट्ठु विष्णुः त्रिपुत्रवासुदेवः.

माणुसई गिलंतु भुयबलविक्रमसारें ॥
पंचाणु भीमु मारिउ रायकुमारें ॥ ध्रुवकं ॥

1

पायणिवायपर्णावियमहियल
पंकयकुलिसकलसलक्खणधर
पोरिसपवररयणरयणाधर
जायासीधणुतणु गुणमणिणिहि
धवल कसण सविणयपीणियजण
कायकंतिधवलियकालियणह
तेहिं बिहिहिं सो सहइ महीसरु
जांवच्छइ हरिर्वीढि गिमणणउ
सो पभणइ चंगउ पालियपय
सेहीरउ रंजंतुं पदुक्कइ
कंदमाणु खयभयवेविरमणु
तं गिसुणिवि पडिलवइ पयावइ

पविमलकमलालंकियउरयल ।
रायहंससेवियं णं सुरसर ।
सम वहिय ते बिणि वि भायर । 5
असिजालौकरालखलकुलसिहि ।
णावइ सरयसमय सावणघण ।
णं गंगाणइ जउंणा जलवह ।
विहिं पक्खहिं णं पुण्णिमवासरु ।
देसमहंतउ ता अवइणणउ । 10
भो णिवमउडकोडिलालियपय ।
माणुसु विसालिहिउ ण चुक्कइ ।
देवदेव खइउ सयलु वि जणु ।
भो भो मंति चारु तेरी मइ ।

घत्ता—जो ण करइ राउ पयहि रक्ख सो केहउ ॥

15

खणि णासिवि जाए संझाराणं जेहउ ॥ १ ॥

2

जो गोवालु माई णउ पालइ
इडु महेली जो णउ रक्खइ
जो मालारु वेळि णउ पोसइ

सो जीवंतु दुडु ण णिहालइ ।
सुरयसोक्खु सो केहिं किर चक्खइ ।
सो सुफुल्लु फलु केव लहेसइ ।

A has, at the beginning of this Samdhi the stanza जगं रम्मं हम्मं etc. for which see foot-note on page 139. P and K do not give this stanza here.

1 १ AP पणामियं. २ AP णं सेविय सरवर. ३ A असिधाराकरालं. ४ A जजणा.
५ AP विहिं मि. ६ A महीसरु. ७ भुंजंतु. ८ P पदुक्कउ. ९ P चुक्कउ.

2 १ P गोवि. २ AP किर केहिं. ३ P मालायारु. ४ P सुफुल्लु.

1 2 रायकुमारें राजकुमारेण लघुना. 3 a पायणिवायं पादाघातः; b क मलालंकियं लक्ष्म्या अलंकृतम्. 4 a कुलिसं वज्रम्; b सुरसर मानससरोवरम्. 5 a पोरिसपवररयणं पौरुषमेव प्रधानरत्नम्. 8 a धवलियं धवलितं बलदेवेण; कालियं कालितं वासुदेवेन. 10 b देसमहंतउ मन्त्री. 12 a सेहीरउ सिंहः. 13 a वेविरमणु कम्पमानचित्तः. 14 a पयावइ प्रजापतिः राजा.

2 2 a महेली स्त्री; b सुरयसोक्खु सुरतमुखम्. 3 a मालारु मालाकारः.

जो कइ ण करइ मणहारिणि कह
जो जइ संजमजत्त ण याणइ
जो पहु पयहि पीड णउ फेडइ
जांवि रसंतु सीहु सइं मारविं
पंव भणेवि लेवि असि दारुणु
ता पंजलियरु विजउ पजंपइ
दे आपसु देव हउं गच्छमि
पंसिउ जणणं चलिउ हलहरु
णारकवालकंकालणरंतरु

सां चितंतु करइ अप्पह वह ।
सो णग्गउ णग्गत्तणु माणइ । 5
सो अप्पणु अप्पाणउं पाडइ ।
देसहु पडिय मारि णीसारविं ।
जाबुट्टिउ णरिंदु कोवारुणु ।
पइं कुट्ठेण ताय जउं कंपइ ।
अज्जु मइंदहु पलउ णियच्छमि । 10
तें सहुं चलिउ भाइ दामोयरु ।
पत्ता केसरिगिरिकुहरंतरु ।

यत्ता—भडरोलहु सीहु कुंदच्छवि उद्दाइउ ॥

भाइहि आवंतु ण कयंतंजसु जोईउ ॥ २ ॥

3

तिक्खणक्खणिक्खवियमयगलो
रत्तसित्तकेसरसडालओ
महिसमणुयपलक्खलभोयणो
कुडिललुलियलंगूलचिंधओ
कंठरावणिहलियंदिकरी
बहुबलक्खमियवीरविक्रमं
तांव तेण लहुएण भाइणा
विसतमालकालिदिकंतिणां
मयवइस्स धरियं बला बलं
उच्छलंतदंतावलीगियं

पयविलग्गमुत्ताहलुजलो ।
सिसुमियंकदाहाकरालओ ।
सिहिफुलिंगपिंगलविलोयणो ।
णासगहियपडिसुहडगंधओ । 5
परिसो सरोत्तेण केसरी ।
जांव देइ किर सीरिणो कमं ।
लोयजीवदानेकदाइणा ।
करैजुवं पि वामेण पाणिणा ।
बंलिविराहिणो कस्स मंगलं ।
दाहिणेण हत्थेण णिइयं । 10

५ A अप्पवह; P अणावह. ६ A संजम जत्ति; P संजमजत्ति. ७ A फेडइ. ८ A भो वि रसंतु.
९ A पयंपइ. १० AP जसु. ११ A कयंतजसु; P कयंतु जसु. १२ P जोविउ.

3 १ AP बहुबलक्खमियं. २ AP add after this: बाहुदंडबललुलिय (A लुडिय) दंतिणा,
करुहंसुपविरहयमुवलयं, वामेण चल (A बल) चरणजुयलयं, सुहडमंगसव्वडमाणिणा. ३ AP कर-
जुयं. ४ A मइवइस्स. ५ AP बलविराहिणो.

4 a कइ कविः. 5 a संजम जत्त संयमयात्रा. 6 a पयहि प्रजायाः. 7 a जां वि यामि गच्छामि.
8 b को वारुणु कोवारुणः. 9 b जउं यमः. 10 b पलउ प्रलयम्. 11 भडरो लहु योधानां कोलाहलेन.
12 कयंत जसु कृतान्तस्य यमस्य यशः.

3 1 a णिक्ख वियमयगलो 'क्षपितगजः; b पयविलग्गं पादल्लगानि. 2 a 'सडालओ
सटायुक्तः; b सिसुमियंकं बालचन्द्रः. 5 a 'दिकरी 'दिशागजः. 6 b सीरिणो कमं बलभद्रस्य उपरि
पदम्. 7 a लहुएण भाइणा त्रिपुत्रेण. 8 a 'कालिदि' यमुना. 9 a मयवइस्स मृगपतेः सिंहस्य;
बला बलात्.

ताडिओ मुहे पाडिओ हरी
माहवेण कयणिविदोहओ

संसिओ महीसेहिं सो हरी ।
दहुदेहिदेहंधिवो हँओ ।

घत्ता — जो पयसंताउ पलयसिहिं व्व पलित्तउ ॥

सो णिहँउ मयारि लोहियसलिलें सित्तउ ॥ ३ ॥

4

करतलप्पचूरियदुग्घोट्टइ
सुरसीमंतिणिकामुक्कोयणु
आया ते तं पुणरवि पोयणु
पयहिं पडंतैवऊहिय तापं
पुणु आउच्छिउ दाणववहरिउं
तं णिसुणेवि तेण अवगणित्तं
गरुयउ सगुणपसंसइ लज्जइ
पं व ताहं बहुसंपयसारा
तावेकहिं दिणि परमणहारउ
कहइ णरिंदहु विणु आयासें
कंठयकडयमउडकुंडलघरु
वारवार महं वयणु णिरिक्खइ

णियबल्लु कसिवि सीहकसवट्टइ ।
लहिवि विजयलच्छिहिं अघलोयणु ।
णं ससहर दिणयर गयणंगणु ।
दोणिण मेहं णं संझारापं ।
किहं केसरिकिसोरु पं मारिउ । 5
णाविउं सीसु ण अप्पउ वणित्तउ ।
ऊणउ गुणथुइमहरइ मज्जइ ।
जंति दियह सुमणोरहगारा ।
कंचणवेत्तपाणि पडिहारउ ।
आयउ पक्कु पुरिसु आयासें । 10
ण वियाणमि किं सुर किं णहयरु ।
तुह कर्मकमलालोयणु कंखइ ।

घत्ता—जइ अवसरु अत्थि ताँ सो पइसारिज्जइ ॥

जं भासइ किं पि तं णरेस णिधुणिज्जइ ॥ ४ ॥

5

महिणाहेण उत्तु पइसारहिं
ता कणइल्लें आणिवि दाविउ
तहु पणवंतहु णियडउ आसणु

पुरिसु संसामिकजरहसारहि ।
खयरु णवंतु अउव्वु विहाविउ ।
दरिसिउं मणिगणकिरणुआसणु ।

६ AP विदोहओ. ७ A हुओ. ८ AP णिहय.

4 १ A °दुग्घोट्टइ. २ A सजयलच्छिहि. ३ A पडंत विजोहिय; P पडंत विगूहिय; T अव-
गूहिय आलिङ्गितौ. ४ AP °वेरिउ. ५ A °पसंसण लज्जइ. ६ A करकमला°. ७ P तो.

5 १ AP मुसामि°.

11 b हरी त्रिपुत्रो वासुदेवः. 12 a माहवेण त्रिपुत्रेण; b दहुदेहिदेहंधिवो दग्धदेहिनां देह एव
वृक्षः. 13 पयसंताउ प्रजानां संतापः; पलित्तउ प्रदीप्तः.

4 1 a °तलप्प° प्रहारः; °दुग्घोट्टइ °चूर्णितदुष्टगजे; b सीहकसवट्टइ सिंह एव कषपट-
स्तस्मिन्. 4 a अव ऊ हिय अवगूहौ आलिङ्गितौ. 5 a आउच्छिउ पृष्टः. 10 a विणु आयासें खेदेन
विना; b आयासें आकारेण.

5 1 b °कजरहसारहि °कार्यशनिर्वाहकः. 2 a कणइल्लें प्रतीहारेण; b अउव्वु अपूर्वः.

इदु भणिवि जाणिउं मुहराणं
 कहिं होंतउ सुंदरणिक्केयउ
 अक्खइ विर्ययरु पालियखोणिहि
 णमिकुलणहयलवल्लयहु णेसरु
 रहणेउरपुरवरपरमेसरु
 वाउवेय पिययम लीलागइ
 धूय सयंपह किं वण्णिज्जइ

पुंयवयणहिं संभासिउ राणं ।
 को तुहुं कहंसु कासु किं आयउ । 5
 रुपयगिरिवरदाहिणसेणिहि ।
 रिद्धि णं सयमेव सुरेसरु ।
 देव जल्लेणजडि णाम खगेसरु ।
 अक्ककित्ति तणुरुहु णं रइवइ ।
 मुहससिजोण्हइ चंडु वि खिज्जइ । 10

यत्ता—थर्णहारें भग्गु जाहि मज्जु किसु सोहइ ॥
 णहपंतिपहाइ तारापंति ण रेहइ ॥ ५ ॥

6

करकर्मयलइं कुमारिहि रत्तइं
 णाहिहि जइ गंभीरिम दीसइ
 भालवट्टु पट्टु व रइरायहु
 सुरणरविसहरहिययवियारा
 जाहि रुवसिरि णं पर पराइय
 ताणं धीय बीय णं चंदं
 दुम्मयमलकलंकपक्खालाणि
 भो संभिण्ण णिसुयजोइससुय
 भणु भणु भव्व मज्जु भवियव्वइं
 देहदित्तिणित्तेइयचंदइं
 ता संभिण्णे भणिउं णिसामहि
 दाहिणभरहि सुरम्मइ मंडलि

तादं कुमारसहासइं रत्तइं ।
 तें मुणिहिं वि गंभीरम्वं णासइ ।
 विहुरकुडिलकोडिल्लु व आयहु ।
 णयण विसिह णं तासु जि केरा ।
 सा फुल्लंति वेल्लि जिह जोइय । 5
 वोल्लिउं सज्जणणयणाणंदं ।
 मंतिहिं अग्गइ मंतिणिहेलणि ।
 भणु भणु कासु धरिणि होसइ सुय ।
 पइं दिट्ठाइं अणयइं दिव्वइं ।
 केवलणाणधरइं रिसिचंदइं । 10
 मइं चिरु पुच्छियं संजय सावहि ।
 धरसिहरालिगियरविमडलि ।

यत्ता—पोयणपुरि राउ जसु जसु देवहिं गिज्जइ ॥

पालियसम्मत्तु जो जिणणय पडिवज्जइ ॥ ६ ॥

२ AP पियवयणहिं. ३ P कासु कहसु कहिं. ४ A वइयरु. ५ A जडणजडि. ६ AP थणभारें.

6 १ AP कर्मलयइं. २ AP तहि. ३ AP गंभीरिम. ४ A भालवट्टु पट्टु व; P भालवट्टु वट्टु व. ५ A णवर पराइय. ६ A णिसुणि जोइससुय; P णिसुणि जोइयसुय. ७ A णित्तेयइं. ८ A धरियरिसि. ९ AP पुच्छिउ.

5 सुंदरणिक्केयउ सौन्दर्यस्थानम्. 6 विर्ययरु खचरः. 7 णेसरु सूर्यः. 9 वा उवेय वायुवेगा. 12 णहपंतिपहाइ नखपंक्तिप्रभया.

6 2 b गंभीरम्व गम्भीरत्वं धीरत्वम्. 3 a भालवट्टु ललाटपट्टु; b आयहु एतस्य कामस्य. 4 b विसिह वाणाः. 5 a णपरपराइय परैने पराजिता. 8 a णिसुय जोइससुय हे अधीतज्योतिः-शास्त्र. 11 b सावहि अवधिज्ञानवन्तः. 14 जिणणय स्याद्वादः.

7

चिरु पुरण्वहु दिग्गयगामिहि
 भरहु जण भुयदंडहिं भामिउ
 पुरिसपरंपराहि तहु जायउ
 जयैवइ तासु देवि गरुयारी
 अचल पबलभुयतोलियगुरुगिरि
 विजय तिविद्व णाम णिंदुरकर
 एहु तुरंगगलु रिउं तहु केरउ
 एत्थुप्पणउ पुण्णविवापं
 भुयहिं कांडिसिल संचालेवी
 परियणसयणहं तुट्टि जणेवी
 उहयसेट्टिविजाहररापं
 एव देव हियवइ संचारिउ

जो बाहुबलि पुत्तु जगसामिहि ।
 जो जायउ पंचमगइर्गामिउ ।
 णाम पयावइ जो विकखायउ ।
 अवर मृगौवइ प्राणापियारी ।
 ताहं बिहिं वि जाया हलहर हरि । 5
 समरभारैकिणकसणियकंधर ।
 आसि विसाहणंहि विघरेरउ ।
 मारेवउ मृगवइयहि जापं ।
 वसुह तिखंड तेण पालेवी ।
 अण्णु तुहारी सुय परिणेवी । 10
 पइं होएव्वउं तासु पसापं ।
 संभिण्णं संबंधु वियारिउ ।

घत्ता—ता महुं णाहेण बंधुसिणेहुं गवेसिउ ॥
 हउं णामे इंदु तुम्हहं दूयउ पेसिउ ॥ ७ ॥

8

अवर वि पहु तेरउं पहुठाणउं
 रिसहहु कच्छमहाकच्छाहिव
 तिह सिहिजडि रविकित्ति तुहारा
 तं णिसुणिवि णरवइ रोमंचिउ
 सीरिं पुण्णं सव्व पोमाइय
 पुणु सो दूयउ पहुणा पुज्जिउ

अम्हारउं पाइक्काणिवाणउं ।
 जिह भरहहु णविणिमि खगाहिव ।
 जिंव सुहि जिंव पुणु पेसणगारा ।
 आणंदे परिवारु पणच्चिउ ।
 हरिणा णियभुयदंड पलोइय । 5
 तेण वि तक्खणेण गैउं सज्जिउ ।

7 १ AP °सामिउ. २ A जइवय. ३ AP मिगावइ पाण°. ४ A णिदुर°. ५ A °भार-
 कसणं कियकंधर. ६ A तुरंगकंदु. ७ A omits रिउ. ८ AP मिगवइयहि. ९ AP उभय°. १० AP
 °सणेहु.

8 १ AP णमि°. २ A पुण्णसत्ति; P पुण्ण सत्त. ३ A गउ; P गमु.

7 1 a पुरएवहु श्रीऋषभस्य. 2 a भामिउ भ्रामितः. 7 a तुरंगगलु अश्वप्रीवः; b वि-
 वरेरउ प्रतिकूलः. 13 ग वे सि उ अवलोकितः.

8 1 a पहुठाणउं प्रसुस्थानम्; b °णिवाणउं निर्माणम्. 3 b सुहि सुहृदः; प्रणयप्रसाधकाः
 स्नेहकरा इत्यर्थः. 5 सी रिं बलभद्रेण; पो मा इ य प्रशंसितानि. 6 b गउं गमं गमनम्.

भूगोयरहुं गयणु कहिं गोयरु
संताणागयपणयपयासउ

इय चिंतिवि णरणाहिं सायरु ।
तासु जि हत्थि दिण्णु संदेसउ ।

घत्ता—खग सुर सिज्झंति कामधेणु घरि दुब्भइ ॥

जं दूरु दुसज्जु तं जगि पुण्णे लब्भइ ॥ ८ ॥

10

9

इंददूयवयणइं आयण्णिवि
सहुं तणपं तणयाइ पसण्णइ
उद्धचलंतचमरवित्थारं
ओसारियरवियरसंताणहिं
महुरसवसरंणुंरंष्टियमहुयरि
मंदमंदमायंदावलघणि
जायवेयजडि एकहिं वासरि
जिणपयपंकयपणवियसीसहु
आयउ इट्टु सुट्टु उक्कंठिउ
पहु मंडलियणिसेविउ च्छिउ
अवरुप्परहुं वे वि गय संमुह
मिलिय वे वि दीहरपसरियकर

बंधुसणेहु सहियवइ मण्णिवि ।
अहिणवमुग्गमणोहरवण्णइ ।
विहवगहीरं सहुं परिवारं ।
आवेप्पिणु विमाणजंपाणहिं ।
कीरकुररसिहिपियमाहविसरि । 5
पोयणपुरवाहिरणंदणवाणि ।
थिउ विजापहावविरइयघरि ।
इंदं जाइवि कहिउं महीसहु ।
तं णिसुंणिवि सहुं सुर्याहे ण संठिउ ।
इयरेण वि खगदप्पु पमंल्लिउ । 10
णाइ तरंगिणिणाह सुहारुह ।
वाण्णि वि सज्जण णं दिसकुंजर ।

घत्ता—णियजणणविइण्णु परियाणिवि भूमंगउं ॥

रायहु रविकित्ति णविउ पणाविवि अंगउं ॥ ९ ॥

10

हरिवलेहिं ससुरउ जयकारिउ
भुयभूसणकरमंजरिपिंणिउं
हरिसंसुयजलेहिं सांसित्तउ

तेण सिणेहसाहि वट्टारिउ ।
सालउ गाहंगाहु आलिंगिउ ।
सयल णिसण्ण सुमंतु पउत्तउ ।

४ P खगा सुर.

9 १ A "मगमणोहर". २ A "रुणुंरंष्टियमहुवरि: P "रुणुंरंष्टिय". ३ A "णिसुणि सहुं.

10 १ AP "सणेह". २ A "पिंणु". ३ AP "गाहु गाहु.

7 b सा यरु सादरम्. 10 दुसज्जु दुःसाध्यम्.

9 1 a इंददूयं इन्द्रनाम्नो दूतस्य; b सहियवइ स्वचित्ते. 4 a "रवियरसंताणहिं" सर्व-
क्रियणसमूहैः. 5 a महुरसवसं मकरन्दास्वादनवशेन; b "पियमाहवि" कोकिला. 7 a जायवेय-
जडि ज्वलनजटी. 8 b इंदं इन्द्रनाम्ना दूतेन. 10 b इयरेण ज्वलनजटिना. 11 b सुहारुह चन्द्रः.
13 णियजणणविविइण्णु पितृकृतम्; भूमंगउं भ्रमङ्गः.

10 1 b सिणेहसाहि स्नेहवृक्षः. 2 b सालउ श्यालः अर्ककार्तिः. 3 a हरिसंसुयं हर्षा-
श्रुजलैः.

दिणयरु तवइ खवइ जिणु कम्मइं
सायरु गिलइ सयलसरिसोत्तइं
भंजणसत्ति महंत समीरहु
एत्थु ण किं पि वप्प कोऊहलु
एवं सीहु को करहिं णिपीलइ
तो जाणहुं होसइ पुण्णाहिउ
आसग्गीवजीवउड्ढावणु

वम्महु सल्लइ बाणहिं वम्मइं ।
ससहरु पीणइ जणवयणेत्तइं । 5
बलु अइअतुलु तिविट्ठकुमारहु ।
णहं चवेडचप्पियकुंजरकुलु ।
कोडिसिलायलु जइ संचालइ ।
हरि हरिवंदियर्णाणिहिं साहिउ ।
धुवुं माणेसइ तरुणिहि जोव्वणु । 10

घत्ता—महियर खयरिंद एहु मंतु विरपप्पिणु ॥

जहिं तं सिलरण्णु तहिं गय कणहु लएप्पिणु ॥ १० ॥

11

णिद्ध अद्धजोयणवित्थिणी
जिणपयसेवा इव फलंभाइणि
पुण्ण पवित्त पावस्त्रयगारी
कहिं वि दंतिदंतग्गहिं खंडिय
कहिं वि पलिप्पइ जालावलणं
कहिं वि जक्खिपयघुसिणं लिप्पइ
कहिं वि णीलगलणियरहिं णीलिय
कहिं वि फुरइ घणतिमिरचिमुक्कहिं
कहिं वि भमियमृगणाहिमओहं
कहिं वि त्रियंभिय सुइसुहगौरव
सा परियंचेप्पिणु अंचेप्पिणु

णाणावणतरुवरसंछण्णी ।
बहुमुणिलक्खमोक्खसुहदाइणि ।
दीसइ सिल णं सिद्धिभडारी ।
सीहणहरचुयमोसियमंडिय ।
किडिदाढाणिहसरुहजलणं । 5
चंदकंतजलधारइ धुप्पइ ।
वर्णयवधूमंधारं मइलिय ।
सप्पफडाकडप्पमाणिक्कहिं ।
सुरहिय सेविय भमरसमूहं ।
किंणरगेयवेणुवीर्णारव । 10
सिद्धसेस राएहिं लएप्पिणु ।

घत्ता—पुणु भणिउ अणंतु पेक्खहुं सिल उण्णावहि ॥

हयकंठकयंतु होसि ण होसि व दावहि ॥ ११ ॥

४ A तहो चवेड^०. ५ AP तो. ६ AP^०णाणहिं. ७ AP धुवु. ८ P सिलरम्म.

11 १ AP अद्धजोयण^० २ A फलभाविणि; P फलभाविणि. ३ AP^०जलणं. ४ A लिप्पइ.
५ A णीलमणिणियरहिं. ६ P वणदव^०. ७ AP मृगणाहिं^०. ८ AP सुरहिपसेविय. ९ A^०गारउ.
१० A^०वीणारउ. ११ A उच्चावहि; P ओच्चावहि. १२ A दावइ.

5 a^०सरिसोत्तइं नदीप्रवाहाः. 7 b णहचवेड^० नखचपेटाप्रहारः. 9 b हरिवंदियणाणिहिं इन्द्र-
वन्दितज्ञानिभिः; साहिउ साधिकः लोकोत्तरः. 10 a आसग्गीवजीवउड्ढावणु अश्वघ्रीवजीवविध्वंसकः.
12 सिलरण्णु शिलावनम्.

11 1 a णिद्ध कान्तिमती. 2 a फलभाइणि फलभाणिनी. 3 a पलिप्पइ ज्वलति;
जालावलणं ज्वालाज्वलनेन. 6 a^०पयघुसिणं पादकुङ्कुमेन; b धुप्पइ धाव्यते. 7 a^०णालगल^०
मयूरः. 12 अणंतु त्रिपृष्ठः; उण्णावहि उच्चालय.

12

ता सिल उच्चायंतद् कण्णहु
पवरकरिकरायारहिं बाहहिं
उरयलि णिवडियाइं सारंगइं
पंतिणिबद्धइं कसिणइं अरुणइं
दिट्ठइं णायउलाइं चलंतइं
गेरुयवाणितं वियलितं रत्तउं
हंसपंति णहमंडलि धावइ
भमरामेलउ णीलउ लोलइ
दलियइं मलियइं वेल्लीभवणइं
णट्ठइं कीलासुरणितउरंबइं

दुज्जणदेहवियारणतण्हहु ।
पाहाणुट्टियभूसणरेहहिं ।
दसदिसि वहिवि गयाइं विहंगइं ।
णं रिउकामिणिकंठाहरणइं ।
णं अरिअंतइं लंबललंतइं । 5
हंहिर णाइ वहरिहिं णिगंतउं ।
पडिभडट्टिमाला इव भौवइ ।
रोसहुयासधूमु णं घोलइ ।
णावइ खलयणपट्टणभवणइं ।
णिग्गयाइं णं सत्तुकुडुवइं । 10

घत्ता—उहंडकरेहिं सिल कण्हें उच्चाइय ॥

पडिसत्तुधरित्ति हरिवि णाइं दक्खालिय ॥ १२ ॥

13

उच्चाइय सिल सोहइ तद्दु करि
जं चालिय सिल मिरिमणीसें
संथुउ अवरु पयावइ राणं
संथुउ लंगलहररविकित्तिहिं
एवहिं तुहुं जि देव महिराणउ
तुहुं पुरुसोत्तमु तुहुं धरणीहरु
तुहुं इक्खाउवंसवरधयवहु
साहु साहु तुह सोहइ विक्रमु
एम भणंतहं घोसगहीरइं
परिमलवहलइं वण्णविचित्तइं

अट्टमभूमि व भुवणत्तयमिरि ।
तं सो संथुउ जलगजडीसें ।
संथुउ बहुमहिवइसंघाणं ।
संथुउ सुरणरविसहैरपत्तिहिं ।
तुज्झु पुरिसु जणि णत्थि समाणउ । 5
णिवडंतहं बंधुहुं लग्गणतरु ।
तुह पडिमलु णत्थि तिहुवणि भहु ।
अण्णहु पण्डु कासु परकैसु ।
कउ कलयलु दिण्णइं जयतूरइं ।
अमरहिं पंजलिकुसुमइं धित्तइं । 10

12 १ AP किसिणइं. २ AP वाणिरु. ३ AP रुहरु. ४ णावइ. ५ AP उहुंड? 6 AP कण्हेंणुच्चायण.

13 १ AP विसहरपत्तिहिं. २ A इक्खाकवंस? P इक्खाववंस. ३ A परिक्रमु.

12 2 b पाहाणुट्टिय^० पापाणे लिखिताः. 5 b अरिअंतइं शत्रूणामन्त्राणि. 6 a गेरुयवाणितं गौरिकमिश्रं जलम्. 7 b पडिभडट्टिमाला प्रतिभटानामस्त्रां माला. 10 a कीलासुरणितउरंबइं कीडारतानां देवानां समूहाः.

13 1 a लंगलहरं बलभद्रः, b विसहरपत्तिहिं नागपत्नीभिः. 6 a धरणीहरु धरणी-धरो राजा. 7 a धयवहु^० ध्वजपटः.

चंडहिं भुयदंडहिं पडिपेल्लिय
मालालंकिइ मउडि पसत्थइ

पुणु सिल माहवेण तहिं घल्लिय ।
कालभविसि णइ रिउमत्थइ ।

घत्ता— खगमहिवइणाह वणु मेल्लिवि पडिआइय ॥
हरिवलसंजुत्त पोयणणयरु पराइय ॥ १३ ॥

14

अहियंदिय दहिअक्खयसेसहं
मंदिरि मंदिरि मंगलकलयलु
मंदिरि मंदिरि लुडरंगावलि
मंदिरि मंदिरि कलस सउप्पल
ता तहिं जंपइ पुरणारीयणु
का वि भणइ इहु राउ पयावइ
का वि भणइ इहु सो संकरिसणु
का वि भणइ इहु सो णारायणु
जेण सिलायलु णहि संचालिउ
दीसइ रूवे वम्महु जेहउ

पुरि पइसंतहं ताहं णरेसहं ।
णच्चइ कामिणि घुम्मइ महलु ।
बज्झइ तोरणु चित्तधयावलि ।
णिहिय वयणविलुलियपल्लवदल ।
सुहयालोयणपयडियघणथणु । 5
पहु खगाहिउ रहणेउरवइ ।
हलहरु हलि अकरंतु वि करिसणु ।
जेण संयंपहाहि हित्तउं मणु ।
जेण जसेण गोत्तु उज्जालिउ ।
पइ पुण्णहिं जइ लब्भइ पइउ । 10

घत्ता— तं पुरु पइसिवि विरइयपणयपसायहिं ॥
वट्ठाणिउ णहु खगवइमहिवइरायहिं ॥ १४ ॥

15

विहिं वि विवाहु तेहिं पारद्धउ
खंभि खंभि पज्जालियपईवहिं
पवणुद्धयन्निधपम्भारहिं

कउ मंडउ रयणंसुसिणिद्धउ ।
लंबियमोत्तियदामकलावहिं ।
मरगयमालातोरणदारहिं ।

४ A °कियमउडपसत्थइ.

14 १ A पुरपयसंतहं; P पुरि पयमंतहं. २ A मंदल. ३ AP पहु. ४ AP अकरंतउ करि-
सणु. ५ P संयंपयाहिं.

15 १ A रयणंसुसिणिद्धउ; P रयणसुसिनिद्धउ.

11 b माहवेण त्रिपृष्ठेन. 12 भविसि भवितव्यम्.

14 1 a अहि वं दिय अभिवन्दिताः. 4 a सउप्पल कमल्लयुक्ताः. 5 b °पयडिय° प्रकटितौ.
7 a संकरिसणु सीरपाणिः बलभद्रः; b हलि हे सखि; अकरंतु विकरिसणु क्षेत्रकर्षणमकुर्वाणो-
ऽपि. 8 b हित्तउं हृतम्. 10 b पइ पतिर्भर्ता. 11 पणयपसायहिं प्रणयप्रसादैर्दानमानादिभिः.

15 1 a रयणंसुसिणिद्धउ रत्नकिरणैः स्निग्धः. 2 b °कलावहि कलापैः समूहैः.

वज्रंतहिं पडुपडहहिं संखहिं
 कामिणिकरयलघल्लियसेसहिं
 वियसियस्यंदलसरलदलच्छे
 परिणिय सुंदरेण सा सुंदरि
 राउ मऊरगीवणिवतणुरुहु
 अद्धचक्कि चक्कंकियरयलु
 भणित तेण महिकामिणिमाण्णु
 देव तुरंगगीव बुहणिरसिउं
 पई णहयरणरणाहु पमाइवि
 सामण्णुहु वियलियगुणणियरहु

णाणावाइत्तेहिं असंखहिं ।
 दियवरदेवदिण्णआसीसहिं । 5
 णियसुहिवच्छलेण सिरिवच्छे ।
 गउ चरु जहिं णिवसइ जगकेसरि ।
 खयरमउडचुंविपयसररुहु ।
 दढभुयजुयअंदोलियपरबलु ।
 भुयणवणंतवासिपंचाण्णु । 10
 णिसुणि णिसुणि सिहिजडिणा विलसिउं
 पोयणपुरवइपुत्तहु जाइवि ।
 कण्णारयणु दिण्णु भूमियरहु ।

यत्ता—अह सो सामण्णु भणहुं णं जाइ खगाहिव ॥

जें मारिउ सीहु चालिय सिल वसिकय णिव ॥ १५ ॥

16

तं णिसुणिवि णरणाहु विरुद्धउ
 धगधगधगधगंतु चंचलसिहु
 रत्तणेत्तरुइरावियइसदिसु
 णं जउं तिहुयणगिलणकयायरु
 चवइ मरोसु भिउडिभइभीसणु
 अज्जु जलणजडि मारिवि संगरि
 महं जांवाणं देवि दिमावलि
 तहिं अवसरि पालियनंवन्नासणु

णं केसरि गयगंधविलुद्धउ ।
 धयधाराहिं सिनु णं हुयवहु ।
 पुष्पयंतु णं फणि आसीविसु ।
 परसिरिहर असिवरपसरियकरु ।
 करतलप्यताडियरयणांसणु । 5
 धिवमि कयंतवयंणधिवरंतरि ।
 भुक्खइ भग्गउ धवुं पावउ कलि ।
 रायसहासहिं मग्गिउ पेसणु ।

२ AP परणिय. ३ A °माण. ४ A °पंचाण. ५ P तुहुं णिरसिउ. ६ AP पोयणपुरवइ. ७ P omits ण.

16 १ AP रत्तणेत्त. २ AP जमु. ३ A °सिरहर°. ४ AP भिउडिभय°. ५ P मयणा-
 सणु. ६ AP कयंतदंतविवरंतरि. ७ AP जामाणं. ८ A धव; P धउ. ९ AP णिवसासणु.

5 b दियवरदेव जैनब्राह्मणाः. 6 b °सुहिवच्छलेण सुहृदत्सलिनः; सिरिवच्छे श्रीविष्णुना त्रिष्टुभेन.
 7 b चरु दूतः; जगकेसरि अश्वग्रीवः. 10 a °माण णु भोक्ता; b भुवणवणंतवासिपंचाण णु भुवन-
 भेव वनं तन्मध्ये सिंहः. 11 a बुहणिरसिउं बुधैर्निन्दितम्. 13 b भूमियरहु भूमिचरस्य मतुप्यस्य.
 14 भणहुं ण जाइ कथितुं न शक्यते; खगाहिव हे अश्वग्रीव.

16 1 a विरुद्धउ कुपितः. 2 a °चंचलसिहु चपलशिखः. 4 a जउं यमः. 5 b °रयणा-
 सणु सिंहासनम्. 7 जांवाणं जामात्रा; b धवु वृत्तिम्; कलि यमः.

ते णउ पेसैइ सइं संचल्लिउ
जो मयवइजीविउं उइालइ
सो सामण्णु ण होइ निरुत्तउं

पहु हरिमस्समंति बोळिउ ।
कोडिसिलायलु जो संचालइ । 10
तुम्हहुं अप्पणु जाहुं ण जुत्तउं ।

घत्ता—हयकंठे उच्चु विउस ण किं पि विवाणं ॥

किं सूरहु को वि वड्ढिमु दीसइ तेणं ॥ १६ ॥

17

मज्झु वि पांसिउं कों जगि सूरउ
रयणमाल बद्धी मंडलगलि
जेण कण्ण दिण्णी भूगमणहं
सो पइसरउ सरणु देविंदहु
सो हउं कड्ढिवि^३ अज्जु जि फाडमि
सवणायणियपावरसइं
सीहु सीहु सोंइं सोसिजइ
तरुणीमग्गणचाडुयवंतं
मणिकुंडलमंडियगंडयलइं
पंव चवेवि धीरु हुंकारिवि
संदाणियविमाणं परिवाडिहिं
ओरुंजंतिहिं आहवभेरिहिं
णं सायरु मजायविमुक्कउ

को महिवइ वरवीरवियारउ ।
हुउं अवगण्णिउ जाइवि महियलि ।
सो पइसरउ सरणु सिहिपवणहं ।
सो पइसरउ सरणु धरणिंदहु ।
वइवसपुरवरपंथं धाडमि । 5
सिल च्चालिजइ किं ण बलइं ।
पयहिं साहसेहिं लज्जिजइ ।
किं वेहाविउ सो वरइत्तं ।
दोहं वि तोडमि रणि सिरकमलइं ।
णिग्गउ मंतिमंतु अवहेरिवि । 10
परिवारिउ विजाहरकोडिहिं ।
जुयवंइ णाइ रसंतिहिं मारिहिं ।
महिहरमेहल रुंभिवि थक्कउ ।

घत्ता—इह दाहिणभरहि वणि जलंततणुसारइ ॥

आवासिउं सेण्णु पुप्फदंतकरवारइ ॥ १७ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइणमहाकव्वे तिविट्ठिसिंघमारणकोडिसिलुच्चायणं
णाम एकवणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५१ ॥

१० AP पेसिय. ११ P हरिमसुसुमंतिहिं बोळिउ; P हरिमस्ससुमंतिहिं बोळिउ.

17 १ AP पासि. २ P को वि जगि. ३ A कड्ढिमि. ४ AP^० विवाणं. ५ A जुगसइ. ६ A जलतणकणसारइ; P जलवणकणसारइ. ७ AP कोडिसिलासंचालणं तिविट्ठिविवाहकल्लाणं णाम.

9 b हरि मस्स मं तिं हरिश्मश्रुमन्त्रिणा. 10 a मयवइ जी वि उं सिंहस्य जीवितम्. 11 b अप्पणु स्वय-
मेव. 12 विउस हे विद्वन्.

17 2 a मंडलगलि शुनः कण्ठे. 5 b वइवसपुरवरपंथं यमपुरमारोण. 6 a सवणा य-
णियपावरसइं कर्णयोरार्कणितपावरशब्देन (बलीवर्देन). 7 a सीहु सीहु सोंइं सोसिजइ सिंहो मयं
च अष्टापदेन मद्यपेन च शोष्यते. 8 a^० मग्गणचाडुयवंतं^० याच्चाचाटुकारेण; b वेहाविउ गजितः;
वरइत्तं वरेण. 12 a ओरुंजंतिहिं अवरुञ्जिः समन्ताच्छब्दं कुर्वद्भिः. 14^० तणुसारइ तृणसमूहे.
15 पुप्फदंतकरवारइ सूर्यचन्द्रकिरणरोधके, वने इत्यर्थः.

दलियारिंदकरि रूसिवि हरि खगकुलभवणपईवहु ॥
चिरभववइरवसु आलद्धमिसु भिड्डिउ गंपि हयगीवहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—खुहियखगिंदविदेकिंकररवगज्जियगंधमिंधुरो ॥
जाव तिखंडखोणिपरमेसरु चल्लिउ तुरयकंधरो ॥ छ ॥

तावेत्तहि पोयणणामणयरि	भूगोयरवइघरैवसियखयरि ।	5
पणवियसिरेण मउलियकरेण	सिहिजडिहि सिट्टु जाइवि चरेण ।	
भो ^१ खगवइ गिरु अण्णायवट्टि	तुज्जुपरि आर्यउ चक्कवट्टि ।	
आरुट्टुउ कण्णकारणेण	जं एव समासिउ चारणेण ।	
ते ^२ सुणिवि पयावइ तेण भणिउ	अम्हहिं सुहुं सुत्तउ सीहु वणिउ ।	
सो उट्टिउ एवहिं बलमहंतु	धणु लंगूलउ सरणहरवंतु ।	10
असिजीहापलुवलललंतु	मंतिज्जइ एवहिं सो जि मंतु ।	
उवसमइ जेण सो कूरचित्तु	ता सस्सुएण सहसत्ति उत्तु ।	
तइ जलइ जलणु जइ णत्थि वारि	जइ णत्थि संति तो पडइ मारि ।	
भो आणइ मरणु पहाणवइरु	भो ^३ एत्थु ण णिज्जइ कालु सुइरु ।	
पहु लहु दीसइ जुंजेवि सामु	ता विहसिवि भासइ पढमंगामु ।	15

यत्ता — सज्जणु उवसमइ खलु किं ग्वमइ बोलेत्तहुं सुइमिट्टुं ॥

घिउ हुयवहमिलिउं जललवजलिउं वप्प किं ण पई दिट्टुं ॥ ६ ॥

A gives, at the beginning of this Saṃdhi, the stanza दीनानाथधनं etc. for which see page 139. P gives it at L. K does not give it anywhere.

1 १ AP^१ वंदे. २ AP^२ मिंधुरो. ३ AP^३ धरि वसिय^४. ४ A सो ग्वगवइ. ५ A अण्णाय-वत्ति. ६ A आवइ. ७ A ते णिसुणि. ८ A सुहि. ९ A घुणिउ; P वणिउ. १० A सुम्मएण. ११ AP धुउ. १२ A पढमु रामु. १३ A बोलेत्तहो. १४ A हुववहमिलिउ; P हुयवहि मिलिउ.

1 1 अरिंदकरि अरिन्द्रा एव करिणः; 'पईवहु' प्रदीपस्य अश्वघीवस्य. 4 तुरयकंधरो अश्वघीवः. 6 b मिट्टु कथितम्. 8 b चारणेण दूतेन. 9 a तेण ज्वलनजटिना. 10 b सरणहरवंतु शरा एव नद्याः नैः गर्जन. 12 b सस्सुएण सुश्रुतमन्त्रिणा. 13 a तइ तदा. 14 a आणइ ददाति; पहाणवइरु प्रभातैः सह वैरम्. 17 जललवजलिउं धृतमग्निना उत्कालितं पश्चात्तन्मध्ये शीतलजललवा अपि प्रज्वलन्ति.

2

दुवई—मित्त तिविट्टि रुट्टि गिरिधीर वि पंति ण वइरिणो रणं ॥

किं विसहंति दंति हरिणाहिवखरकररुहवियारणं ॥ छ ॥

जइयहुं अहिवलयविलंबमाण	वणि उच्चाइय म्पिल इलसमाणं ।
मइं जाणित्तं तइयहुं कैहिं वि कालि	देवहुं पेक्खंतहं भडवमालि ।
तोडेसइ हयकंधरहु सीसु	रत्तच्छिवत्तुं भूमंगभीसु । 5
कों हालाहलु जीहाइ कलइ	कों करयलेण हरिकुलिसु दलइ ।
को गयणि जंतु अहिमयरु खलइ	को णियवलेण धरणियलु तुलइ ।
को कालु कयंतहु माणु मलइ	को जलणि णिहत्तु वि णाहिं जलइ ।
को फणिवइर्फणमणिणियरु हरइ	को पडिय विज्जु सीसेण धरइ ।
को भंडइ सहं महुं भायरेण	तां जंपित्तं मंति सायरेण । 10
भो सीराउह तुहिणयरकंति	जं पइं जाणित्तं तिह तं ण भंति ।
लइ तो वि देव किज्जइ परिकख	उवइसहु कुमारहु मंतसिक्ख ।
वीयक्खराइं मणि संभरंतु	आसीणु सत्तरत्ते तुरंतु ।
जइ साहइ विज्जादेवयाउ	तो करइ परहं मरणावयाउ ।
विज्जासाहणविहिभेयभिण्णु	ता ससुरणण उवणसु दिण्णु । 15
थियउ ज्ञाणारूढउ हलि उविंदु	सत्तमदिणि कंपाविउ फण्णिदु ।

यत्ता—विज्जाजोइणित्तं वरदाइणित्तं हरिरांमहु पणवंतित्तं ॥

रित्तजमदूइयउ खणि आइयउ देहु णियमु पभणंतिउ ॥ २ ॥

3

दुवई—गारुडविज्ज पुज्जं संसाहिय हरिणा भुवणखाहिणी ॥

अवरं महंतसत्तुसंचूरणि पवर वि णाम रेहिणी ॥ छ ॥

2 १ A °विलंबमाणे. २ A °समाणं. ३ AP तहिं. ४ AP रत्तच्छिवंतु. ५ A °कुडिसु. ६ A °फणिवइर्फणमणु. ७ AP तो. ८ A मंतं सायरेण. ९ AP सत्तरत्तित्तं. १० A हरिरायहो. ११ P दूइओ.

3 १ A पुंज. २ A सयल महंत सत्त°; P सयलमहंतु सत्तु°. ३ AP अवरं वि.

2 1 एंतिण नागच्छन्ति. 2 °कररुहं नखाः. 3 b इलसमाणं पृथ्वीसहिता. 4 b °वमालि कोलाहले. 5 b रत्तच्छिवत्तु रक्ताश्रयक्वम्, शत्रुमस्तकम्. 6 a कलइ स्पृशति; b हरिकुलिसु इन्द्र-वज्रम्. 7 a अहिमयरु मूर्येः. 9 b विज्जु वियुत्तु. 11 a सीराउह हलायुध बलभद्र. 12 b उवइसहु उपदिशत. 13 a वीयक्खराइं मन्त्राराधना; b सत्तरत्ते सम दिनानि. 14 b मरणावयाउ मरणरूपा आपदः. 16 a हलि उविंदु बलभद्रनारायणौ. 18 णियमु आदेशम्.

3 2 अवर अपराः; पवर प्रवरा.

स्वर्गयंभणी	बलणिसुंभणी	
गयणचारिणी	तिमिरकारिणी ।	
सीहवाहिणी	वहरिमोहणी ।	5
वेयगामिणी	दिव्वकामिणी ।	
विवरवासिणी	णायवासिणी ।	
जलणवरिसिणि	सलिलसोर्सणी ।	
धरणिदौरणी	कुडिलमारणी ।	
बंधमोयणी	विविहरूविणी ।	10
मुक्ककौतला	लोहसंखला ।	
छइयदसादिसी	कालरक्खसी ।	
वयणपेसला	विजयमंगला ।	
रिक्खमालिणी	तिक्खसूलिणी ।	
चंदमउलिणी	सिद्धवालिणी ।	15
पिंगलोयणा	धुणियफणिफणा ।	
थेरि थुरुहुरी	घोरंघोसिरी ।	
भीरुभेसिरी	पलयदंसिरी ।	
इय सणामहं	दिण्णकामहं ।	
यत्ता — पंच समागयइं विज्जहं सयइं दक्खवंति सवसित्तणु ॥		20
तोमियवासवहं बलकेसवहं धरि करंति दासित्तणु ॥ ३ ॥		

4

दुयइं — विजागमणमुणिइ हरिपोरिसि पसग्गियसिरिविलाम्प ॥
णिहय पयाणभेरि जगभइरव वियलिइ सयणसंग्गए ॥ छ ॥

विजाहरमहिरणाह वे वि	जलणजडि पयावइ धुरि करोवि ।
चलियइं सेणणइ रिउरणमणाइं	बलएववासुएवहं तणाइं ।
णहु कपइ कपंतहिं धएहिं	महि हल्लइ गच्छंतहिं गणहिं ।

४ AP यंभिणी. ५ AP णिसुंभिणी. ६ AP मोमिणी. ७ P दारिणी. ८ AP विविहकुंतला.
९ AP घोसिणी. १० A विज्जहं सयइं.

4 १ P गमणु मुणिइ. २ A सहणसंसए. ३ A जडणजडि.

6 a वेयगामिणी वेगगामिनी. 7 b णायवासिणी नायवासिनी. 13 a पेसला मनोहरा. 14 a रिक्खमालिणी नक्षत्रमाला. 15 a चंदमउलिणी चन्द्राच्छादिनी. 19 b दिण्णकामहं वाञ्छित-
प्रदानाम्. 20 सवसित्तणु स्ववशित्वम्.

4 1 मुणिइ ज्ञानं; हरिपोरिसि हरिगौरुषे. 2 वियलिइ विगलिते स्फेटितं.

रह चिक्रवंत चल चिक्ररंति
जायं हरिखुरधूलीरण
भडरोलें सुसुट्टिउ कयंतु
जोइय जणेण परवीरजूर
णं अट्टहास बहलंधयार
गच्छंतवारणारूढदेह
झलुरिमुइंगकाहलरवेण
कुसुमियपियालकक्रोलपलि

पडिवक्खमरणु णं वज्जरंति ।
धूसरिउ सूरु दूरंगपण ।
छत्तहिं संछण्णउं दहदियंतु ।
सोमुग्गदेह णं चंद सूर ।
णं उवसमरस सिंगारैभार । 10
हलहर हरि णं सियअसियमेह ।
दियहेहिं गंपि सर्वरुच्छवेण ।
तहिं थक्क संदणावत्तसेलि ।

घत्ता—पवणचलंतियहिं धयपंतियहिं णहु णं उप्परि घुलियउं ॥

णच्चियनृवणडिहिं पिहुपडकुडिहिं खोणीयलु चित्तलियउं ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—विचिणिचारचूयचवचंपयचंदणवद्धकुंजरे ॥

थिइ पडिबलि तुरंगहिलिहिलिरवे सयडावत्तगिरिवरे ॥ छ ॥

जाणवि सिविरु णवघणसंरंहिं
अरिपुरवरघरसंदिण्णडाहु
आढत्तउ जिणु वम्महसरेहिं
आढत्तउ खजोपहिं भाणु
आढत्तउ केसरि जंयुएहिं
आढत्तउ गयवरु गहहेहिं
आढत्तउ रइवइ कैइयवेहिं
भो देवदेव संधियसरेहिं

विण्णविउ णवंपिणु चरणेरहिं ॥
विज्जाहरभूयरभूमिणाहु ।
आढत्तउ आहंडलु णरेहिं । 5
आढत्तउ तरुणियरें किसानु ।
आढत्तउ जैउं जीवियचुएहिं ।
आढत्तउ मंतुग्गमु गहेहिं ।
आढत्तउ मोक्खु वि जडतवेहिं ।
आढत्तउ तुहुं णियकिंकरेहिं । 10

४ P धर. ५ A सिंगारहार. ६ P समरु. ७ AP णिवणडि^०.

5 १ A ^०चारुचूयधव^०; P ^०चारचूयधय. २ A पडिवलतुरंग^०. ३ AP जसु. 4 A पत्तंगमु.
५ AP कइवएहिं. ६ P जडभवेहिं.

6 a चिक्रवंत चीत्कार कुर्वाणाः. 7 a हरिखुर^० अश्वखुराः. 9 b सोमुग्गदेह सौम्यदेहः उग्रदेहश्च.
11 b सियअसियमेह झुक्कशरन्मेषः कृष्णमेषश्च. 12 b सवरुच्छवेण संग्रामोत्साहेन. 13 b संदणा-
वत्तसेलि स्थन्दनावर्तपर्वते. 15 नृवणडिहिं नृपनटीभिः; पिहुपडकुडिहिं विस्तृतपटकुटीभिः.

5 २ थिइ पडिबलि स्थिते शत्रुमैत्र्ये; सयडावत्त^० शकटावर्ते पर्वते. 3 a णवघणसरेहिं
नवमेषगर्भीरध्वनिभिः. 4 a ^०डाहु अग्निः. 6 b किसानु अग्निः. 7 b जीवियचुएहिं मृतकैः.
8 b मंतुग्गमु मन्त्रोच्चारः. 9 a कइयवेहिं कपटैः.

रहणेउरवइ णरवइ संबंधु
अण्णेक्कु पयावइ पोयणेसु
अण्णेक्कु मुसलि तहिं कसणवासु
किं अक्खमि पइसामत्थु तासु
सहुं णंदणेण चंदाहिचिंधु ।
आरुहु सुहु खयकालवेसु ।
अण्णु वि जो दिहुउ पीयवासु ।
देव वि संकाइ णवंति जासु ।
घत्ता—णिसुणिवि तुह चलगु खलयणमलगु देवयाउ साहेप्पिणु ॥ 15
वलइयधणुवल्लय णं खयजलय थिय महिहरि आवेप्पिणु ॥ ५ ॥

6

दुवई—चवइ खगिंदचंदु करवालविहंडियतुरयकरिसिरे ॥
रत्ततरंतमत्तग्यणीयरि णिहणवि रिउं रणाइरे ॥ छ ॥

ता कहइ मंति णामं विहाउ
जइ आणालंघणु कयउ तेहिं
पहउ आयारु णराहिवाहं
सो दूयउ जो भासापवीणु
सो दूयउ जो अहिमाणि दाणि
सो दूयउ जो गंभीरु धीरु
सो दूयउ जो परचित्तलक्खु
सो दूयउ जो बुच्चियविसंसु
सो दूयउ जो कयसंधिणामु
सो दूयउ जो णिहिट्टमंतु
सो दूयउ जो उवईट्टदंडु
सो दूयउ जो रिउहियसूलु
णिवसंतगरुयखंधारोत्तु
पणवेवि तेण पालियविसिट्टु
जगडिंभहु एवहिं तुहुं जि ताउ ।
सुय दिण्ण पडिच्छिय पत्थिवेहिं ।
पेसिज्जउ दूयउ को वि ताहं । 5
सो दूयउ जो पंडिउ अदीणु ।
सो दूयउ जो मियमहुरवाणि ।
सो दूयउ जो णयवंतु सूहं ।
सो दूयउ जो पोसियसपक्खु ।
सो दूयउ जो सुविसिट्टवेसु । 10
सो दूयउ जो वज्जरियसामु ।
सो दूयउ जो कुलजाइवंतु ।
सो दूयउ जो संगामचंडु ।
सो दूयउ पेसिउ रयणचूलु ।
तं गच्छिउ विगिरिगहणंतरालु । 15
अत्थाणि णिविहु तिविहु दिहु ।

घत्ता—दूयं वज्जरिउं पइ विक्कुरिउ दिव्वपुरिसंणुणजाणउ ॥

गुणिगहणुज्जि तुहुं अणुहुंजि सुहुं पक्खु णवेप्पिणु राणउ ॥ ६ ॥

७ A चंदाहचिंधु; T चंदाहविंधु चन्द्रनागविंधाः; C A आरुहु.

6 १ A खगिंदचंदु. २ A णिहणवि. ३ A मियमहुरवाणि. ४ A अभिमाणि दाणि. ५ A सारु. ६ A सुविसिट्टवेसु. ७ P उवइट्टदंडु. ८ P संगामि चंडु. ९ A तं वि. १० A पुरिसु. ११ AP गुणिगहणुज्जि.

11 b णंदणेण अर्ककान्तिना; चंदाहिचिंधु चन्द्रवदुज्वलसर्पध्वजः. 12 a आरुहु रुधः; सुहु अतिशयन. 14 a मुसलि विजयो बलभद्रः; कसणवासु नीलाम्बरः. 15 चलगु गमनम्.

6 1 खगिंदचंदु खगेन्द्राणां मध्ये चन्द्रः. 2 रयणीयरि राक्षसः; रणाइरे रणाजिरे रणरक्षे. 3 a विहाउ विधाता; b ताउ पिता. 5 b पेसिज्ज इ प्रेष्यताम्. 9 a परचित्तलक्खु परमनोज्ञायकः. 10 b सुविसिट्टवेसु समीचीनवेपः. 11 a कयसंधिणामु कृतसंधानः. 14 b रयणचूलु रत्नचूडनामा. 17 दिव्वपुरिसंणु देवपौरुषवल्लवल्मू. 18 गुणिगहणुज्जि गुणिग्रहणे ऊजैस्वी.

7

दुवई—जा मग्गिय णिवेण खगसुंदरि सा तुह होइ सामिणी ॥

देवि णमंसणिज्ज सा कामहि किं कामंध कामिणी ॥ छ ॥

मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु	भक्खंतु म गिद्ध भडंतजालु ।	
मा सरसयणीयलि सुयउ ताउ	मा पोयणपुरवरु खयहु जाउ ।	
मा उट्टउ रहचूरणाणिहाउ	भजंतु म चामरछत्तकेउ ।	5
दीसउ मा सयणहं मरणहेउ	रसवंससमुहकंकालसेउ ।	
मा रुहिरु कालवेयालु पियउ	मा सूरकित्ति जमकरण णियउ ।	
मा करउ मृगावइ पुत्तदुक्खु	मा छिज्जउ हलहरकप्परुक्खु ।	
पहुदोहबहलधूमोहमलिणिं	जलणजडि पडउ मा पल्लयजलणि ।	
रायहु ढोयहि सां तुहं कुमारि	मा हक्कारहि णियगोत्तमारि ।	10

घत्ता—जाणियणयणिवहु कयवइरिवहु मंतबलु वि जो बुज्झइ ॥

जण तिखंडधर जिय ससुरणर तेण समउं को जुज्झइ ॥ ७ ॥

8

दुवई—म करि कुमार किं पि रोसुंभडवयणे बलिसमप्पणं ॥

करगयकणयवलयपविलोयणि हो किं णियहि दप्पणं ॥ छ ॥

तं सुणिवि भणिउं विट्ठेरसवेण	भो चारु चारु भासिउं णिवेण ।	
अण्णाणु हीणु मज्जायचत्तु	मग्गंतु ण लज्जइ परकलत्तु ।	
भरहहु लग्गिवि रिद्धिसमिद्धु	रायत्तणु कुलि अम्हहं पसिद्धु ।	5
सो घईं पुणुं जायउ विट्ठिवसेण	विणडिउ परणारीरइरसेण ।	
संताणागय महुं तणिय धरणि	किं णक्खत्तं जइ तवइ तरणि ।	
दप्पिट्ठु दुट्ठु नृवणायमट्ठु	मरु मारिवि धिवमि तुरंगकंठु ।	

7 १ A मग्गिय खगेण णिवसुंदरि. २ AP मरणभेउ. ३ A संगरसमुह. ४ AP सिगावह. ५ A छिज्जइ. ६ AP हलहर. ७ AP तुहं सा. ८ A धरा.

8 १ A रोसुंभडवयणावलिसमप्पणं; P रोसु भडवयणि. २ P कणगवलय°. ३ A विट्ठुरसवेण. ४ A रयणत्तयकुलि. ५ AP पईं, but K घईं and gloss पादपूर्णाथे. ६ AP जायउ पुणु. ७ AP णिवणाय°.

7 1 म ग्गि य याचिता; णि वेण अश्वप्रीवेण. 2 का म हि वाञ्छसि. 3 a रसउ का उ काकः शब्दं करोतु; b भ डं त जा लु योधानामन्त्रजालानि. 5 a °णि हा उ शब्दः. 6 b कं कालसेउ अस्त्रां सेतुः 7 b जम करण यमकिंकराः; ण य उ नयन्तु. 9 a पहुदोह° राजद्रोहः.

8 2 णि य हि पश्यसि. 3 a विट्ठुरसवेण विष्टरश्रवसा विण्णुना. 4 a मज्जा य चत्तु त्यक्त-मर्यादः. 5 a भरहहु ल ग्गि वि चक्रिणं भरतमारभ्य. 6 a घईं पादपूर्णे.

तं णिसुणिवि दूपं वुत्तु एवं पाउसि कालंबिणि रसइ जेंव ।
 किं वरिसइ भुवणु भरति तेंव बोहंतु ण संकहि बप्प केंव । 10
 यत्ता—अग्गइ घणर्थणिहिं सीमंतिणिंहिं रणु बोहंतुं चंगउं ॥
 अरुत्तु असि अवरु पडुकरपहरु तुह ण सहइ ललियंगउं ॥ ८ ॥

9

दुवई—भासइ विस्सेणु भो जाहि म जंपहि चप्फलं जणे ॥
 तुह पइणो महं पि दीसेसइ बाहुबलं रणंगणे ॥ छ ॥

तं णिसुणिवि दूयउ गउ तुरंतु	कोवग्गिजालमालाफुरंतु ।
हयगीवहु कहइ अहीणमाणु	परमेसर रिउ पोरिसणिहाणु ।
अहिणवविसट्टकंदोदुणेसु	ण समप्पइ तं परिणितं कलसु । 5
संधाणु ण इरुत्तइ गरुडकेउ	दीसइ भीसणु णं धूमकेउ ।
जिह सकइ तिह विजाबलेहिं	भिडु मुसलहिं सुलहिं सव्वलेहिं ।
ता पभणइ पडु पीडियकिवाणु	एवहिं हउं सोहमि जुज्झमाणु ।
किंकर णिहणंतहं णत्थि छाय	मा को वि भणेसइ हय वराय ।
अविहेयविहंडणि कवणु दोसु	उग्घोसहु लहुं रणरहसघोसु । 10
दुहमदणुंदुप्पविमदणेण	एत्तहि वि मृगौवइणंदणेण ।
अवलोयहुं अवलोयणिय विज्ज	पेसिय खंगपुंगव वंदणिज्ज ।
भइथइगयघइरहंमंपउणु	आइय जोइवि पडिबक्खसेणु ।

यत्ता—कण्हहु देवयहिं पुण्णागयहिं गुणपणामसंपणुंउं ॥

संति अमोहमुहिं नूस्वियसुहिं धणु सारंगु विइणउं ॥ ९ ॥ 15

८ A °धणिहे. ९ A सीमंतिणिहे. १० AP सहइ.

9 १ AP वीससेणु हो. २ P °दणुहणु°. ३ AP भिगावइ°. ४ P खगपुंगम. ५ AP °रह-
 हयपउणु. ६ AP °संपुणुउ. ७ AP सत्तियमोहमुहिं.

9 b पा उ सि वर्णकाले; काले विणि मंथमाला. 11 अग्ग इ घण थणि हिं स्त्रीणामग्गे.

9 1 विस्सेणु विधक्केनो विणुः; चप्फले चापण्यम्. 2 पइणो स्वामिनः. 4 a अहीण-
 साणु मानाधिकः. 5 a अहिणयविसट्टकंदोदुणेसु अभिनवविकसितपद्मनेत्रः. 7 b सव्वलेहिं लोह
 मयी घर्णा. 9 a छाय शोभा. 10 a अविहेयविहंडणि अविनीतानां हनने. 11 a °दणु° दानवः.
 12 a अवलोयहुं विलोकितुम्. 14 देवयहिं देवीभिः; गुणपणामसंपणुंउं प्रत्यञ्चानमनयुक्ते धनुः.
 15 सारंगु बलवत.

10

दुवई—आणिवि सुरचरेहि चिरु रक्खिउ मंगलझुणिणिणाइओ ॥
 जलयरु पंचयण्णु कोत्थुहमणि असि हरिणो णिवेइओ ॥ छ ॥

अण्णु वि गय ह्य गय दिण्ण तासु	कोमुइ णामे दामोयरासु ।
बलपवहु लंगलु मुसलु चारु	गय चंदिमे णामे हत्थियारु ।
दसैदिसवहधाइयकिरणजाल	दिण्णी उरि घोळइ रयणमाल । 5
कंचणकवयंकिउ धवलदेहु	णं संझाराणं सरयमेहु ।
गुण्णविउ सरासणु धरिउ केव	मुट्टिहि माइउं सुकलसु जैव ।
सेयइं चिंधइं उप्परि चलंति	णं कित्तिवेल्लिपल्लव ललंति ।
छत्तइं णं जयजसससिपयाइं	णं गोमिणिपोमिणिपंकयाइं ।
धरियइं पाइक्कहिं पंडुराइं	विणिवारियदिवसाहिवकराइं । 10
दीहरदाढावियडाणणेहिं	रहवरु कट्टिउ पंचाणणेहिं ।
पक्खरिय सत्ति हिलिहिलिहिलंत	कयसारिसेज्ज गय गुलुगुलंत ।
हणु हणु भणंत मच्छरविमीस	संणद्ध सुहड पणवियहल्लीस ।
रणतूरसहासइं ताडियाइं	कुलगिरिवरसिहरइं पाडियाइं ।

घत्ता—गेजावलिमुहलि रंजियंभसलि अरिक्कंरिंदपसरियकरि ॥ 15
 अविर्रयगलियमइ हरि मत्तगइ चडिउ सीहु णं महिहरि ॥ १० ॥

11

दुवई—थक्को धयवडम्मि पक्खुग्गयपवणुइवियपडिणिवो ॥
 चलचंचेलेचुंचुंबियचंदक्कपरो खगाहिवो ॥ छ ॥

संणद्धु पयावइ दीहयाहु	अग्गितडिहरु णं स्वयसलिलवाहु ।
उच्चारिवि जिणवरणाममंतु	संणाहु लइउ मणि जिगिजिगंतु ।
हुयवहजडि हुयवहफुरणतिव्वु	तहु तणुरुहु भुयवलगाहियगव्वु । 5

10 १ A हयरह दिण्ण. २ AP चंदियणामं. ३ A दहदिहहवधाहिय^०; P दहदिसिवहधाइय.
 ४ P गुण्णमिउ. ५ AP कय सज्ज सारि. ६ P वाडियाइं. ७ A रंजियभसलि. ८ AP अविरल^०.

11 १ AP ^०चंचेलेचुंचुंबिय^०. २ A ^०चंदक्कपरो. ३ A उच्चाइवि.

10 २ जलयरुपंचयण्णु शंखः पाञ्चजन्यः; णिवेइउ दत्तः. 3 a गय गदा. 4 b हत्थियारु आयुधानि. 5 a ^०वह^० मार्गः. 9 a जयजसससिपयाइं जय एव यशः तदेव शशी तस्य स्थानानि. 11 b पंचाणणेहिं सिद्धैः. 12 a सत्ति सप्तयोऽश्वः. 15 a गेजावलिमुहलि शैवेयकावलीभिः मुखरे. 16 हरि कृष्णः.

11 २ ^०चंचेले^० वक्त्रम्; चुंचुंबियचंदक्कपरो^० स्पृष्टचन्द्रसूर्यविमानः; खगाहिवो गरुडः. 5 b तहु तणुरुहु अर्केकीर्तिः.

पहरणइं लेंतु रणदारुणाइं
संचोइउ कुंजरु गजमाणु
णिच्चिच्चुंवे रोमंचरण

भडु को वि ण खग्गहु देइ हत्थु
भडु को वि ण लावइ घुसिणु अंगि

घत्ता—हरिसैं को वि णरु थिरथोरकरु धर्णुहरु जं जं णावइ ॥

पीडिउं कडयडंइ मोडिंवि पडइ तं तं थावहु णावइ ॥ ११ ॥

दिव्वइं वायव्वे वारुणाइं ।

णउ गेण्हइ दिण्णउं देहताणु ।

कंपाविय रिउ कंपियधरण ।

परपहरणहरिणि सया समत्थु ।

रावेसइ तणु रिउरुहिरु अंगि । 10

12

दुवइ—विहसिंवि सुदहु भणइ लइ गच्छमि दारियकरिवरिंदहो ॥

काइं सरासणेण किं खग्गे महुं रणवाणि मइंदहो ॥ छ ॥

भडु को वि भणइ जइ जाइ जीउ

भडु को वि भणइ रिउं एंतु चंडु

भडु को वि भणइ पविलंबियंति

भडु को वि भणइ हलि देइ ण्हाणु

भडु को वि भणइ किं करहि हासु

भडु को वि भणइ जइ मुंडु पडइ

भडु पियहि सरिसु वजरइ कामि

भडु को वि भणइ असिधेणुयाहिं

भडु को वि भणइ हलि छिणु जइ वि

भडु को वि मगासणदोसु हरइ

भडु को वि बद्धतोणीरजुयलु

भडु को वि भणइ कलहंसवाणि

तो जाउ थाउ लुहु पहुपयाउ ।

मइं अज्जु करेवउ खंडखंडु ।

मइं हिंदोलिंउं दंतिदंति । 5

सुइदेहे दिज्जइ प्राणदाणु ।

णिग्गवि सिरेण रिणु पत्थिवासु ।

तो महुं रंहुं जि रिउं हणवि णडइ ।

हउं रणदिक्खिउ सरु मोक्खगामि ।

जसदुहु लेमि णरसंथुयाहिं । 10

महुं पाउ पडइ रिउंसउंहुं तइ वि ।

सरपत्तइं उज्जुय करिवि धरइ ।

णं गरुडसमुद्धयपक्खपडलु ।

महुं तुहुं जि सक्खि सोहग्गखाणि ।

घत्ता—परवल अग्भिडिंवि रिउसिरु खुडिंवि जइ ण देमि रायहु सिरि ॥ 15

तो दुक्कियहरणु जिणतवचरणु चरविं श्रोरु पइसिंवि गिरि ॥ १२ ॥

४ AP वायव्वइं. ५ A णिच्चिच्चुंवे रोमं^०; P णिच्चिच्चै सररोमं^०; T णिच्चिच्च निरन्तरम्. ६ AP^०हरणु सया. ७ AP लाविसइ. ८ P वणहरु. ९ A कडयलइ. १० P थामहु.

12 १ A करेवउ. २ P हिंदोलिंउ. ३ AP सुइदेहेइं. ४ AP प्राणदाणु. ५ AP तुंडु. ६ A सरिसु. ७ AP रिउसमुहुं. ८ AP गरुहु.

8 a णिच्चिच्चुंवे निरन्तरेण उच्चेन च. 10 b रावेसइ रक्षिण्यति. 11 णावइ नामयति. 12 थावहु णावइ बलं न धरति.

12 २ मइंदहो सिंहस्य. 3 b पहुपयाउ प्रभुप्रतापः. 5 a पविलंबियंति प्रविलम्बितानि अन्वाणि यस्य तस्मिन्; b दंतिदंति गजदन्तं. 6 सुइदेहे शुचिदेहेन. 7 b णिग्गवि स्फेटयामि; रिणु ऋणम्. 8 b रंहुं कवन्धः; णडइ नृत्याति. 11 b रिउसउंहुं रिपुसंसुखम्. 13 b "समुद्धय" कम्पितम्. 14 b सक्खि साक्षिणी.

13

दुवई—लुहि लोयणाइं मुद्धि मा रोवहि हलि भत्तारवच्छले ॥
बंधविं तुह हयारिकरिमोत्तियकंडिय कंडकंदले ॥ छ ॥

पंडिविद्धुविद्धुणिष्वाहणाहं	संणज्झंतहं विहिं साहणाहं ।
वहु कासु वि देइ ण दहियतिलउ	अहिलसइ वइरिहहरेण निलउ ।
वहु कासु वि धिवइ ण अक्खयाउ	खलवइ करिमोत्तियअक्खयाउ । 5
वहु कासु वि करइ ण धूवधूसु	मग्गइ पडिसुहडमसाणधूसु ।
वहु कासु वि णप्पइ कुसुममाल	इच्छइ लैलंति पिसुणंतमाल ।
वहु कासु वि ण थवइ हत्थि हत्थु	तुह लगउ गर्यघडणारिहत्थु ।
वहु कौ वि ण झुणइ सुमंगलाइं	आवेक्खइ अरिसिरमंगलाइं ।
वहु कासु वि णउ दावइ पईवु	भो कंत तुहुं जि कुलहरपईवु । 10
वहु कासु वि पारंभइ ण णट्टु	संचितइ सत्तुकबंधणट्टु ।
वहु का वि ण जायइ किं सिरीइ	पिययमु जोणवउ जयसिरीइ ।

घत्ता—वहु पभणइ भणमि हउं पइं गणमि तो तुहुं महुं थण पेह्लहि ॥
भग्गइ णिययवलि जइ भडतुमुलि खग्गु लेवि रिउ पेह्लहि ॥ १३ ॥

14

दुवई—वालालुंछि करिवि जुज्जेज्जसु विसरिसवीरगोंदले ॥
अरिकरिदंतमुसलि पउ देप्पिणु देज्जसु कुंभमंडले ॥ छ ॥

कुंजरघडघल्लियमुहवडाइं	वंसग्गाविलेविधयधवडाइं ।
कुंकुमचंदणच्चच्चियभुयाइं	परिहियमणिकंचणकंचुयाइं ॥
करलुहियगाहियबहुपहरणाइं	णियसामिकेज्जि णिच्छयमणाइं । 5
काणीणदीणढोइयधणाइं	भडकलयलवहिरियतिहुवणाइं ।
विलुलंतचित्तणत्तंचलाइं	अहिणांदियकलसजलुप्पलाइं ।
चलचरणचारचालियधराइं	डोह्वावियगिरिविवरंतराइं ।

13 १ P पडिविद्धु. २ AP कंखइ but K खलवइ and gloss अभिलपति. ३ A लयंत.
४ Δ गयघडि. ५ AP कासु वि ण कुणइ मंगलाइं.

14 १ A 'कज्जणिच्छय'.

13 1 लु हि लो यणा इं प्रमार्जय लोचने; मा रो व हि रोदनं मा कुरु. 5 b खलवइ अभिलपति.
7 a णप्पइ न अर्पयति. 9 a झुणइ गानं करोति; b अरिसिरमंगलाइं अरिशिरःकपालानि.
13 पेह्लहि पीडय. 14 पेह्लहि पीडयसि.

14 1 वालालेचि केशाकेशियुद्धम्; विसरिस' असदृशाः; 'गोंदले संग्रामे.

दलहँलियघुलियवरविसहराई	भयैतासिररसियघणवणयराई ।	
झलझलियवँलियसायरजलाई	जलजलियकालकोवाणलाई ।	10
पयहयरयलह्यणहंतराई	अणलक्खियहिमयरदिणयराई ।	
करिवाहणाई सपँसाहणाई	हरिहरिगीवाहिवसाहणाई ।	
आँयई अण्णणहु संमुहाई	असिँदाढालई णं जँवमुहाई ।	

घत्ता — संचोइयगयई वाहियहयई रणरसहरिसविसट्टई ॥

दूहज्झियभयई उब्भियधयई वे वि वलई अब्भिट्टई ॥ १४ ॥ 15

15

दुचई— वेण्णि वि दुद्धराई दुण्णिरिक्खई कयणियपहुपणामई ॥

कण्णाहरणकरणरणलग्गई जयसिरिगहणकामई ॥ छ ॥

णरचरणचारचारियगयाई	हरिखरखुरवडणुग्गयरायाई ।	
अब्भिट्टिय सुहड गय कायराई	रवपूरियदिसगयणंतराई ।	
वाचल्लभल्लससल्लियाई	सोणियजलधारारेल्लियाई ।	5
लुलियंतकौंतभिण्णोयराई	करवालखलणखणखणसराई ।	
चल्लमुक्कचक्कदारियउराई	लउँडीहयचूरियरहधुराई ।	
णिवडंतल्लत्तधयचामराई	नृवकँडयमउडमणिपिजराई ।	
कयखगविमाणसंगट्टणाई	किँकिणमालादलवट्टणाई ।	
विज्जाहरविज्जावारणाई	सरपूरियमारियवारणाई ।	10
जंपाणकवाडविहट्टणाई	मंडलियमाणिहोँट्टणाई ।	

घत्ता — दिण्णालिगणई कयतणुवणई दंतपँतिदट्टोडुई ॥

लुँचियकौंतलई विण्णि वि वलई जिह मिहुणई तिह दिट्टुई ॥ १५ ॥

२ AP हलहलिय°, ३ AP भयरसियतमिय°, ४ AP °चलिय°, ५ P सुपसाहणाई, ६ P आयहँ, ७ AP °दाढा इव, ८ AP जममुहाई.

15 AP °रणि लग्गई, २ P °खुरखणणु°, ३ A °भल्लसरसल्लियाई; P °भल्लसरसल्लियाई, ४ A °कंतभिण्णो°, ५ A वरमुक्क°, ६ P लउँडियहयचूरिरह°, ७ AP णिव°, ८ A विज्जाकारणाई, ९ AP °कुंत°.

9 a °विसहराई° सर्पाणि, 11 a °लह्य° आच्छादितम्, 12 b हरि° कृष्णः; हरिगीव° अश्वघ्रीवः, 13 b जँवमुहाई° यममुखानि, 14 अब्भिट्टई° विकसितानि, 15 उब्भियधयई° ऊर्ध्वीकृतध्वजानि; अब्भिट्टई° संघट्टं प्राप्तानि.

15 3 b °खुरवडणु° खुराघातः, 4 a गयकायराई° गताः कातरा भीरवः, 6 a लुलियंत° भिन्नानि अन्त्राणि, 7 b लउँडीहय यष्टिहताः, 8 b नृवकँडय नृपकटकं हस्तभूषणम्, 9 b °दलवट्टणाई° चूर्णकरणानि.

16

दुबई—तो^१ हरिगीवरायसेणावद् धूमसिहो पधाइओ ॥
सिरिहरिमस्सुवीरसैहिउ हरिसेणं जगे ण माइओ ॥ ७ ॥

तेण घाइयं	महिणिवाइयं ।	
विलुलियंतयं	पडियदंतयं ।	
पहरजजरं	लग्गभयजरं ।	5
दारिओयरं	छिण्णगलछिरं ।	
रत्तंतयिरं	चम्मलंबिरं ।	
विहिविणिदिरं	कल्लुणकंदिरं ।	
घित्तचामरं	तुट्टपक्खरं ।	
फुट्टमदलं	मुक्ककोतलं ।	10
विहुरवेंभलं	णिग्गयं वलं ।	
वद्धमच्छरं	तोसियच्छरं ।	
कडुयजंपिरं	धीरं कंपिरं ।	
संडणच्चिरं	कुंतखंचिरं ।	
भडवियारणं	कुंभिदारणं ।	15
भिडियवारणं	सिरणिल्लरणं ।	
सुहडकलयलं	गहियहुलहुलं ।	
चम्मभिदिरं	गत्तछिदिरं ।	
कवयसंजुयं	णियवि संजुयं ।	
सुरपसंसिरं	धुणियं गयसिरं ।	20
भग्गरहंवरं	पडियहयवरं ।	
खग्गीखणखणं	दारुणं रंणं ।	
पक्खिसं कुलं	रक्खसाउलं ।	
दंतिदंतयं	छिण्णच्छंतयं ।	

घत्ता—माहवबलवइणा कयरणरइणा णिययसेण्णु साहारिउं । 25

कुल्लु विहिविणिण्डियउं दिसिविहडियउं पुत्तण व उद्धारिउं ॥ १६ ॥

16 १ A ता ह्यगीष^०; P तो ह्यगीष^०. २ A धूमसिहोबधाइओ. ३ AP^०मस्सुवीररस-
सैहिउ. ४ A हरिसें जगे ण माइओ. ५ P चम्मलंबिरं. ६ P भिग्गयं. AK write in margin the
portion beginning with वद्धमच्छरं down to छिण्णच्छंतयं. ७ P धीरं कंपिरं. ८ P कुंतयंचिरं.
९ A धुणिवि गयसिरं. १० AP^०रहभरं. ११ A भग्गखणखणं; P खग्गखणखणं. १२ P घणं. १३ P
दंतिदंतयं. १४ A छिण्णछिण्णयं; P adds विहुरधिंभलं, भग्गयं च (य ?)लं.

16 2 सि रि हरि मस्सु^० श्रीहरिस्मश्रुनामा वीरः. 3 a तेण धूमशिखसेनापतिना. 4 a वि हि-
वि णिं दि रं विधेनिन्दाकरणशीलम्. 11 a वि हुर वें भ लं दुःखविह्वलम्; b णि ग यं त्रासितम्. 17 b ग हि य-
हु ल हु लं गृहीतहस्तशूलम्. 19 b णियवि दृष्टा. 26 सा हरि उं धीरितम्. 27 दि सि वि ह डि य उं
विशासु विघटितम्.

17

दुवई—भीमपरक्रमेण भीमेण वि णालियभीमवईरिणा ॥

पञ्चारिय भिडंत भड वेण्णि वि सुरवहुहिययहारिणां ॥ छ ॥

हरिमस्सं काइं पइं मंतु दिहु
हक्कारिउ किं णियप्राणणासु
कुद्धइ तिषिट्ठि भुवणेकसीहि
ता धूमसिहं भासिउ सरोसु
पंहिलउं पहुणा भुत्ती मणेण
सिहिजडिणा सामिविरोहणेण
दरिसावमि तुह जमरायथात्ति
ता वे वि लग्ग ते सेण्णणाह
वेण्णि वि चालियदिच्चक्कवाल
वेण्णि वि उग्गामियचावदंड
बाणेहिं बाण णहयलि खलंति
पुणु भीमं मुक्कउ अद्धयंदु
रिउदेहमेहि सो पइसरंतु

किं मगिउ परत्तयैरयणु इहु ।
एवहि पइसेसहु सरणु कासु ।
तडितरलदीहकरवालजीहि । 5
घरदासि हंरंतहुं कवणु दोसु ।
पच्छइ तुम्हहुं दिण्णी अणेण ।
किं एएं जडसंबोहणेण ।
लइ पहरु पहरु जइ अत्थि सत्ति ।
वेण्णि वि सुरकरिकरसरिसबाह । 10
वेण्णि वि जयकारियसामिसाल ।
वेण्णि वि आमेल्लियकुलिसकंड ।
तंण्हसणरुह हुयवह जलंति ।
धूमसिहहु णं अट्टमउ चंदु ।
दिहुउ सुहिणयणहु तमु करंतु । 15

घत्ता—मारिवि धूमसिहु खयकालणिहु खाणि हरिमस्सु णिहत्तंउ ॥

णवर करंतु कलि भड देंतु बलि असणिघोसु संपत्तउ ॥ १७ ॥

18

दुवई—सो जियसत्तु णाम धरणीसं जममुहकुहरि ढोइओ ॥

सरविसहरणिरुद्धु वरपरिमंतु चंदणतरु व जोइओ ॥ छ ॥

तओ कंपणेसो

समुप्पणरोसो ।

महेणं महंतो

णहंतं पिहंतो ।

17 १ A °घहरिणो. २ A °हारिणो. ३ AP हरिमस्सु. ४ AP परतिय°. ५ AP पाण-
णासु. ६ A °तरड°. ७ A हणंतहं. ८ AP पहिली पहुणा. ९ A तं णिहसिवि णर हुववह. १० AP
णिहत्तउ.

18 १ AP °णिरुद्ध. २ A °परिमल.

17 4 a हक्कारिउ आकारितः. 8 b जडसंबोहणेण जडविवादेन. 9 a जमरायथात्ति
यमग्रहम्. 13 b तंण्हसणरुह तेषां बाणानां परस्परघर्षणेनोत्पन्नाः. 14 a अद्धयंदु अर्धचन्द्राकारो
बाणः. 16 णिहत्तउ मारितः. 17 भड देंतु बलि भटान् बलि ददत्.

18 1 सो अशनिघोषः. 2 सरविसहरणिरुद्धु द्वारा बाणा एव विपधरास्तैर्वेष्टितः. 3 a कंपणेसो
कम्पनो राजा. 4 b पिहंतो आच्छादनम्.

कराईह्वावो	महाभीमभावो ।	5
सदप्पं चवंतो	सरोहं सर्वतो ।	
धप णिल्लुणंतो	गइदे हणंतो ।	
हप चप्परंतो	णरे चप्परंतो ।	
जवेणं चरंतो	रणे वावरंतो ।	
परं णिक्खिवेणं	जएणं णिवेणं ।	10
खुरुप्पेण भिण्णो	कयंतस्स दिण्णो ।	
जयस्सावल्लुद्धो	जमो णं विरुद्धो ।	
रउहारिमहो	पहू खेयरिंदो ।	
णियारत्तचित्तो	सयं झत्ति पत्तो ।	
मरुद्धयच्चिंधो	सतोणीरिखंधो ।	15
दिसाल्लगकित्ती	तहिं अक्ककित्ती ।	
थिओं अंतराले	भडाणं वमाले ।	

अन्ता — तेण ससामियहु गयगामियहु रूग्गि वि दिण्णउ उत्तरु ॥
देव पराइयहि कारणि त्थहि किं आदत्तउ संगरु ॥ १८ ॥

19

दुवई—लज्जिज्जइ रणेण णित्तेपं दुज्जसमल्लिणकारिणा ॥
ओसरु जाहि राय किं एपं पुरिसगुणोहहारिणा ॥ ७ ॥

ता भणित्तु समरभरुधुरभुएण	णीलंजणपहदेवीसुएण ।	
रे अक्ककित्ति गुरुसिक्खवंतु	लज्जहि ण कंवे विप्पित्तु चवंतु ।	
तुह तापं अवरु वि पइं सदप्प	जं आणालंघणु कयउं वप्प ।	5
तहु लग्गउ हउं णियपरिहवासु	सस तेरी पुणु मणु हरइ कासु ।	
ता रविकित्ति दीधियदियंतं	सुपिसक्क मुक्क धगधगधंगंत ।	
खगणाहहु खंडित्तु चावदंडु	गुणवंतु तो वि कित्तु खंडंखंडु ।	

३ AP कराइद्धं. ४ AP सरोसं वरुन्तो. ५ A omits this foot. ६ P जमो णाविरुद्धो,
७ P सतोणीरकंधो. ८ AP तियहे.

19. १ AP धुरभुएण. २ A दियंति. ३ A धगंति. ४ AP खंडु खंडु.

6 b सरोहं सर्वतो बाणसमूहं वर्षन्. 8 b चप्परंतो अभिभवन्. 12 a जयस्सावल्लुद्धो जयस्य लोमिष्ठः 17 b वमाले कोलाहले.

19. 1 णित्तेपं निस्तेजसा अन्यायेन. 5 a सदप्प हे सगर्व. 6 a णियपरिहवासु निज-
पराभवस्य; b सस स्वसा. 7 a रविकीत्ति अर्ककीर्तिना.

अण्णेक्कु सरासणु झ च्चि लेवि	राएण तासु बाँणे हणेवि ।
चूडामणि पाडिउ विप्पुरंतु	णं णहँयलि णिवडिउ रवि तवंतु । 10
मौरयचलंतचलमयरकेउ	तावंतरि थक्कउ कामदेउ ।
बंधंतु टांण संधंतु बाणु	तेणक्ककिञ्चि मौरिज्जमाणु ।
रक्खियउ पयावहराणएण	धणुवेयविवेयवियाणएण ।
केसरिणा णं तीसिउ कुरंगु	किउँ पाराउट्टउ तँ अणंगु ।
ससिसेहरेण पडु पोयणेसु	मेहँ पच्छाइउ णं दिणेसु । 15
अंतरि पइसिवि तिणयणु तिसूलि	सिहिजडिणा णिज्जिउ चंदमउलि ।

प्रस्ता—किंकरँ हयगलहु पालियल्लहु कोवँ कहिँ वि ण माइउ ॥
णामँ णीलरहु णं कूरगहु अवरु खयरु उद्धाइउ ॥ १९ ॥

20

दुवर्द्ध—पभणइ चावपाणि रे सिहिजडि जं पइँ दुक्कयं कयं ॥
तं हयगीचदेवपयपंकयदोहफलं समागयं ॥ छ ॥

हो किं वोल्लमि	मारमि घल्लमि ।	
एवं चवेप्पिणु	भुय विहुणेप्पिणु ।	
आउहु दावइ	धावइ पावइ ।	5
किंकरि किंकरि	कुंजरि कुंजरि ।	
खरखुरखयघरि	हरिखरि हरिखरि ।	
णयणाणंदणि	संदणि संदणि ।	
चप्पिवि लग्गइ	रंगइ णिग्गइ ।	
थामँ वग्गइ	भंडणु मग्गइ ।	10
पइसइ दूसइ	रंजइ रूसइ ।	
हिंसइ तासइ	दीसइ णासइ ।	
दुक्कइ हक्कइ	कोक्कइ थक्कइ ।	
रिउं पञ्चारइ	चूरइ जूरइ ।	
खलइ णिवारइ	दारइ मारइ ।	15

५ AP वाणेहि हणेवि. ६ A णहयलणिवडिउ. ७ A reads *a* as *b* and *b* as *a*. ८ AP कामएउ. ९ A वंधंतु नोणु. १० P पारिज्जमाणु. ११ AP णासिउ. १२ A थिउ पारडिउ गरुउ अणंगु. १३ A किंकर.

20. १ AP दुक्कियं. २ AP मारिवि. ३ A भेजइ.

11 *b* का म देउ प्रजापतिमहाराजः. 14 *b* पाराउट्टउ पराडुसुलः. 15 *a* स सि से हरेण चन्द्रशेखरेण. 16 *a* तिणयणु चन्द्रशेखरः. 17 किंकर भृत्यो नीलरथः; हयगलहु अश्वग्रीवस्य.

20. २ दोहफलं द्रोहफलम्. 10 *a* थामँ बलेण.

करिकरचंडिहिं	लालोपिंडिहिं ।	
दंतादंतिहिं	कोंताकोंतिहिं ।	
णेरकिलिविंडिहिं ^६ ।		
केसाकेसिहिं	पासापासिहिं ।	
उबलाउबलिहिं	मुसलामुसलिहिं ।	20
इय सो जुज्झिउ	भीमुहउज्झिउ ।	
दुंदुहिसहे	ता बलहहे ।	
अरि हकारिउ	दइवे पेरिउ ।	
सो वि पराइउ	चावविराइउ ।	
णं णवजलहरु	विद्धउ हलहरु ।	25
तेण उरत्थलि	उट्टियकलयलि ।	
कंपियणियवलि	हरिसियपरवलि ।	
बाहुसहाणं	जयवइजाणं ।	
सीरें ताडिउ	उद्ध जि फाडिउ ।	
णीलरहाहिवि	हइ कइ जयरवि ।	30

प्रत्ता—णाणाणहयरहिं संधियसरहिं सहयहिं सगयहिं सरहहिं ॥
वेदिउ जिब्बहरु दूसहपसरु वलुं वित्तंगयपमुहहिं ॥ २० ॥

21

दुवई—मायासाहणाहं मयवंतहं माणियपहुपसायहं ॥
पकें हलहरेण रणि जित्तइं सत्तसयाइं रायहं ॥ छ ॥

सुयरिवि पहुदिणी तुण्पधार	केण वि विसहिय रिउखग्गधार ।
सिरु ल्ळिणउं णिगय रत्तधार	गय पं व वप्प धाराइ धार ।
केण वि सुयरिवि पहुअग्गंविडु	इच्छिउ पडंतु णियमासपिंडु ।
केण वि सुयरिवि पहुचीरु रम्भु	मण्णिउ लंबंतु सदेहचम्मु ।

४ A णायभुवदंडहिं. ५ A किलिवेदिहिं. ६ AP add after this: दंडादंडिहिं. ७ A भीउहउ-
ज्झिउ. ८ A सयलहिं. ९ A चलचित्तंगय.

21 १ P साहणेहिं. २ A सुमरिवि; P सुअरिवि. ३ A रूपधार. ४ A सुअरिउ; P सुअ-
रिवि. ५ AP अग्गपिंडु. ६ A सुमरिवि; P सुअरिवि.

16 b ला ला पिं डि हिं गजमुखाप्रकाष्ठैः. 18 a किं लि विं डि हिं बाहुच्छोटिकाभिः. 19 b पा सा पा सि हिं
नागपाशादिभिः. 21 b भी मु ह उ ज्झि उ भयमुखरहितो नीलरथः. 23 a अ रि नीलरथः. 29 a सीरें
हलेन. 30 b ह इ हते सति. 32 जिब्ब हरु बलभद्रः.

21 1 सा हणाहं सैन्यानाम्, 3 a प हु दि णी प्रभुणा भोजनवेलायां दत्ता. 5 a प हु अ म-
विं डु प्रभुणा दत्तः प्रथमाहारपिण्डः.

केण वि सुयरिवि पडुदिणु गाउं	छड्डिउं णियजीवियभूयगाउं ।
केण वि सुयरिवि पडुचामराइं	सलहियइं पक्खिपक्खंताराइं ।
पडुसुकियभरहु वंकेवि वयणु	केण वि पडिवणुणउं बाणसयणु ।
केण वि सुयरिवि पडुछत्तछाहि	आसंधिय घणसरपुंखछाहि । 10
केण वि सुंमरिवि पत्थिवपसाउ	चक्खिउ अरिवीरपहारसाउ ।
केण वि सुयरिवि पडुपालियाइं	मयगलकुंभयलइं फालियाइं ।
दुव्वारवइरिमग्गणविहत्तु	भट्टारउं धीरउं रायरत्तु ।
कासु वि रणमंदिरसंमिणीइ	हियवउं लइयउं सिव्वं कामिणीइ ।

यत्ता—कासु वि सिरकमलु ओट्टउं डदलु गिद्धु सचंचुइ चालइ ॥ 15
परितोसियजणहु महिवइरिणहु णं मोल्लवणु णिहालइ ॥ २१ ॥

22

दुवंई—ता सहस त्ति पत्तु हरिकंधरु पभणइ तसियवासवो ॥
भो भो कहसु कहसु कहिं अच्छइ सो महु वइरि केसवो ॥ छु ॥

ता उत्तु कण्हेण भो मेइणीराय	सोहं रिउ केसवो पट्ठि णिण्णाय ।
जाणिज्जए अज्ज दोणहं पि रूसेवि	को हणइ सिरु लुणइ रणरंगि पइसेवि ।
कुब्बेण सिरिकुमुइणीपुण्णयंदेण	अलयाउरीसेण खेयरणरिंदेण । 5
संगामरामारइच्छाणिउत्तेण	तं सुणिवि पडिलविउं सिहिगीवपुत्तेण।
कण्णोमुहालोयसुहदिण्णराएण	भग्गो सि किं मित्त वरइत्तवाएण ।
रत्तो सि किं मूढ गयणयरवालाहि	ओसरसु मा पडसु खग्गग्गिजालाहि ।
णवकंदकालिदिभसलउलकालेण	कोवारुणच्छेण भंगुरियभालेण ।
जम्मंनरावडवइरणुयंधेण	पडिउत्तु पडिकणहु चलगसुल्लं वंधेण ।
परद्विणपरधरुणपरधरिणिक्खाइ	णडिओ मि पाविट्टु किं चोरमिक्खाइ ।

७ A गाउ; P गामु. ८ A उड्डिउ. ९ A गाउ; P गामु. १० A सुअरिउ; P सुअरिवि. ११ A पालियाइं. १२ A संमिणीहिं. १३ A कामिणीहिं. १४ A उट्टउलदलु.

22. १ AP पुण्णइंदेण. २ A कण्ठो महां. ३ P गयणयरवालाहि. ४ AP पुण्णंधेण. ५ A पडिलविउ.

7 a गाउं ग्रामः. b गाउं ग्रामः समूहः. 8 b सलहियइं श्लाघितानि. 11 b पहारसाउ प्रहार-
स्वादः. 13 a विहत्तु विभक्तः खण्डितः. b रायरत्तु राज्ञि रक्तमनुरक्तम्. 15 ओट्टउडदलु ओष्ठ-
पुट्टदलम्.

22. 1 हरिकंधरु अश्वघ्रीवः. 3 b णिण्णाय परस्त्रीवाञ्छया अन्यायकारकः. 4 a रूसेवि
रोपं कृत्वा. 5 a पुण्णयंदेण पूर्णचन्द्रेण. 6 a णिउत्तेण नियुक्तेन. 8 a गयणयरवालाइ खेचर-
कन्यायाम्. 9 a णवकंदं श्रावणमेघः. 10 b पडिकणहु अश्वघ्रीवः.

एवं पजंपंत कंपविर्यमहिवट्ट करिदंतपरिहँट्टभुयदंडसुपवट्ट ।
 दप्पिट्ट णिरु रुट्ट दट्टोद्व भडजेद्व ते बे वि अब्भिट्ट वईकुंठहयकंठ ।
 ते बे वि मणिमउडकुंडलसुसोहिल्ल ते बे वि कोदंडमंडलविलासिल्ल ।
 ते बे वि णं सीह लंबवियलंगूल ते बे वि णं लग्ग रंजंतं सहूल । 15
 ते बे वि विसविसम ते वे वि तडितरल ते बे वि मरुचवल ते बे वि कुलधवल ।
 घत्ता—वेणिण वि दाणणिहि सिरितोसविहि मयपरवस उज्झियभय ॥
 वेणिण वि दीहिंकर गंभीरसर रणि लग्गं णं दिग्गय ॥ २२ ॥

23

दुवई - वेणिण वि अच्छरच्छिविच्छोहणियच्छियवद्धमच्छरा ॥
 वेणिण वि णं जलंतपलयाणल वेणिण वि णं सणिच्छरा ॥ छ ॥

रिउणा ण णिट्टविउ	कण्हण पट्टविउ ।	
जहिं सप्पु ताहिं गरुलु	जहिं अग्गि ताहिं सलिल्लु ।	
जहिं सिहरि ताहिं कुलिसु	जहिं तुरउ ताहिं महिसु ।	5
जहिं विडवि ताहिं जलणु	जहिं मेहु ताहिं पवणु ।	
जहिं रत्ति ताहिं दियहु	जहिं सीहु ताहिं सरहु ।	
जहिं कालुं सांडालु	ताहिं कुडिल्लु दाढालु ।	
केसरि पविन्थरइ	णहरेहिं उत्थरइ ।	
जहिं भीमु वेयालु	ताहिं मंतुं असरालु ।	10
जुंजेवि कोवेण	गोविंददेवेण ।	
रिउणो णिहित्ताउ	विज्जाउ जित्ताउ ।	
जुंजेवि भूवेहिं	पडिवक्खरूवेहिं ।	

घत्ता—वहँरूविणिण सुरकामिणिण खगवइ भणिउ ण सक्कमि ॥
 हलहरसिरिहरहं पहरणकरहं माणु मलंतु चवक्कमि ॥ २३ ॥ 15

६ A कंपहय महिपट्ट. ७ A 'पविहट्ट'. ८ P वहकुंत°. ९ A रंजंतसहूल. १० A दीहरकर.
 ११ A लग्ग णं.

23 १ P °विच्छोहा णियच्छिय. २ A कुडिसु. ३ A कोठ. ४ AP कुडिल. ५ A संत. ६ A जुंजेवि; P जं जं वि. ७ P has पुणु before वहु°. ८ AP मलंति चम°.

12 b °परिहट्ट° परिपृष्टौ. 13 b वइकुंठहयकंठ कृष्णाश्वप्रीवौ. 16 a वि स विस म विषवद्विषमौ.

23 1 अच्छरच्छिविच्छोहणियच्छिय° देवाङ्गनालोचनचापत्यविलोकननिमित्तम्. 2 सणिच्छरा शनैश्चराः. 7 b सरहु अष्टापदः. 8 a कालुसोडालु कृष्णगजः. 13 b पडिवक्खरूवेहिं अश्वप्रीवरूपैः. 15 चवक्कमि विभेमि.

दुवई—जंपिउं हयगलेण किं केण वि तिहुयणि धीरु हीरण ॥

महुं णियबाहुदंडधिरसहयंर पइं किर काइं कीरण ॥ छ ॥

तेणेव भणेपिणु मुक्क सत्ति
गयणयलि एंति उरयलि धुलंति
विष्फुरिय धरिय दामोयरेण
चंद्रणचच्चियकुसुमचियंगु
उग्गामिउ णाइं जगखइ खयक्कु
बोल्लियउ पयावइपुत्तु एम्भ
गोवालवाल अधिवेयभाव
इय भणिवि तेण घल्लिउ रहंगु
तं देवि पयाहिण पइयतासु
गहगहियदिवायरलील वइइ
आयासहु णिवडिउ पुष्पवासु
संभरु तुहुं जिणवरणाहचरणु
ता भणइ सुहहु रणरंगदुक्कु

मेहें चलविज्जु व धगधगंति ।
चल पलयकालजाल व जलंति ।
संकेयागय णारि व णरेण । 5
परिमलमिलंतगुमुगुमियभिंणु ।
पुणु पडिवक्खें करि लेवि चक्कु ।
एवहिं पइं णउ रक्खंति देव ।
दे दंहि कण्ण मा मरहि पाव ।
तं पेक्खिवि केण ण दिण्णु भंगु । 10
चडियउ दाहिणकरि केसवासु ।
णं हरिसुहमहिरुहकुसुमु सहइ ।
रिउ कण्हि पवोल्लिउ सो सहासु ।
अहवा लैइ महुं पइसरहि सरणु ।
हउं मण्णामि एउं कुलालचक्कु । 15

घत्ता—पइं पुणु मणि गणिउं चंगउ भणिउं भिक्खागयहु ससंकहु ॥

तिव्वल्लुहामहणु गरुयउं गहणु तिलखलखंडु वि रंकहु ॥ २४ ॥

दुवई—अज्ज वि सिसुमयच्छि महु अप्पिधि करि घणपणइसंधणं ॥

मा पावहि कुमार तरुणत्तणि ताडणमरणबंधणं ॥ छ ॥

असहंतेणं रिउणा दिण्णं ससवणसूलं दुव्वयणं ।

काउं वयणं डसियाहरयं भूमंगुरतंबिरणयणं ।

24 १ P °सहयण अवरिं काइं. २ AP पडंति. ३ AP °जालेव पडंति. ४ A जुगखय-
खयक्कु; P जुगखइ खयक्कु. ५ A जाव. ६ A पहयगासु; P पहपयासु. ७ A लहु.

25 १ AP °पणयसंधणं.

24 1 हीरण हार्यते. 4 b जालव ज्वालेव. 7 a खयक्कु प्रलयसूर्यः. 8 a पयावइपुत्तु
त्रिपुष्टः. 10 a रहंगु चक्रम्. 11 a पइयतासु प्रहतत्रासम्. 12 b °सुहमहिरुह° शुभवृक्षः. 13 b
सहासु सहास्यम्. 17 गहणुं दुर्लभम्.

25 1 सिसुमयच्छि बालमृगाक्षी स्वयंप्रभा; घणपणइसंधणं निबिडस्नेहसंधिम्. 3 ससवण-
सूलं स्वकर्णशूलम्. 4 भूमंगुरतंबिरणयणं भूमङ्गयुक्तमाताघ्नं नयनं यस्मिन् वदने.

हरिणा विसं विसं चक्रं सहसाराधाराजलियं 5
 हयगलगलकंदलयं दलियं बहलं कीलालं गलियं ।
 कुंडलकिरणं फुरियकवोलं कं कुंभिणिवलयइ पडियं
 णं सरसं तामरसं सदलं कालमरालाहिवखुडियं ।
 कामिणिकारणे कलहसमत्तो परणरकरसरहयगत्तो
 आसग्गीवो वियलियजीवो सत्तमणरयं तं पत्तो ।
 णहयरविसहरमहिमणुणहिं सामि भणेप्पिणु संगहिओ
 जयजयरवपूरिउ भुवणेहिं हरि हलहरसहिओ महिओ ।
 हिंडिवि दाहिणभरहतिखंडे णरवइ सवसं को ण णिओ
 मागहदेवो वरतणुणामो अवि य पहासो तेण जिओ ।
 दिणयरकित्ति हुयवहजडिणा हलिणा तस्स पयावइणा 15
 वडो पट्टो विउले भाले मंगलविलसियजणरइणा ।
 पउरपयावाकंपियभुवणो असिवरदूसियकूरमई
 णियकुलकुवलयकुवलयबंधू जाओ कण्हो चक्कवई ।
 उहसेदीणं रायं काउं जलणजडिं ससुरं खयरं
 आओ गुरुयणपणवियसीसो पुणरवि तं पोयणणयरं । 20

प्रत्ता—लइ दीसइ पवरु एउ वि अवरु णिच्छयणियमणिउत्तउं ॥
 इह सुपुरिसत्तरिउं बहुगुणभरिउं जगि आदनु समत्तउं ॥ २५ ॥

26

दुवई—मणहरभहलकखणायारहं णहयललगकुंभहं ॥
 दोचालीसलक्ख मायंगहं अरिक्खरिक्खणिसुंभहं ॥ ७ ॥

तेत्तिय रह रणभरजोत्तियाउ	पायालहु कोडिउ तेत्तियाउ ।
जलथलगयणंतरजंगमाहं	णवकोडिउ जाइतुरंगमाहं ।
जंभारिपीलुलीलागईउ	महएविउ अट्ट महासईउ । 5

२ A विसं विसं चित्तं. ३ P कलहु. ४ A णरए तं पत्तो. ५ AP पूरिय. ६ A पवर°. ७ A कूरगई; P कूरमई. ८ AP णियकुलणहयल°. ९ A राउं काउं. १० A °पणमिय°.

26 १ A णहयरलगा. २ A णव भणियउ जाइ°.

6 हयगल° अश्वमीवः; कीलालं रुधिरम्, 7 कं मस्तकम्; कुंभिणिवलए भूमण्डले. 8 कालमराला-
 हिव° यम एव हंसाधिपः. 9 °सरहयगत्तो सह अरैर्वर्तते इति सरं चक्रं तेन इतगात्रः. 15 दिणयर-
 कित्ति अर्ककीर्तिना. 16 मंगलविलसियजणरइणा मङ्गले विलसिता जनानां रतिर्यत्र तेनार्ककीर्तिना.
 18 °कुवलयबंधू चन्द्रः. 19 उहसेदीणं उभयश्रेण्योः.

26 3 b पायालहु पदातेः. 4 b जाइतुरंगमाहं जात्याश्रानाम्. 5 a जंभारिपीलु° ऐरावणः.

गिरु पीणपीवरुणयथणीहिं
 सोलह सहास देसंतराहं
 सोलह सहास धरि पत्थिवाहं
 तह णव सहास मेच्छाहिवाहं
 चउवीस सहस वरपट्टणाहं
 छत्तीस सहस साहिय पुराहं
 पञ्चताणियासहं णिवइ णयइं
 गिरितरुजलवाहिणिसंगमाहं
 गामहं कौडिउ अडदाल जासु
 जा णाम सयंपह इट्टणारि

सोलह सहास सीमंतिणीहिं ।
 सोलह सहास णीडयवराहं ।
 सोलह सहास खेडाहिवाहं ।
 पण्णास सहस दोणामुहाहं ।
 सत्सेव सहस संवाहणाहं । 10
 वसुसमसहास जकखामराहं ।
 पण्णास णिउत्तइं तिण्णि सयइं ।
 चउदह वणदुग्गइं दुग्गमाहं ।
 किं अकखामि संपय वण्ण तासु ।
 जा णहयरणाहहु हुइय मारि । 15

घत्ता--तहि परमेसरिहि रइरससरिहि हरिणा हरिसरवण्णा ॥

पाहिलउ सिरिविजउ वीयउ विजउ तणय दोणिण उण्णण्णा ॥ २६ ॥

27

दुवई—ता सिहिजडि सपुत्तु परिपुच्छिवि हरि हलहर पयावई ॥
 गउ रहणेउरम्मि दढे जिणगुणसुमरणसमियदुम्मई ॥ छ ॥

सो तहि ए पत्थु वसंति जांव
 सो पुच्छिउ हरिताएण कुसलु
 असहायसहेजउ सच्चसंधु
 तं सुणिवि तेण खयरेण उत्तु
 थिरु धरिवि पंचपरमेट्टिसेव
 एयइं वयणइं आयणियाहं
 ता एण सहाहि संसं णियाहं
 सणएण पयावइपत्थिवेण
 अणुहुत्तउं इच्छिउं पुत्तसोक्खु
 लइ जाभि रण्णुं पावज्ज लंमि
 हरिहलहरमउडणिरुद्धपाउ

बहुकालहिं णहणरु दुक्कु तांव ।
 सुंहुं अच्छइ जिणपयपोमभसलु ।
 खयराहिउ गुणि महु परमबंधु । 5
 मेल्लिवि खगणिवचकेसरत्तु ।
 महिवइ ससुरउ पावइउ देव ।
 सज्जणचरियइं मणि मण्णिथाइं ।
 इंदियसुहाइं अवगणियाइं ।
 आउच्छिय तणुरुह बे वि तेण । 10
 पंचहिं संसाहमि परममोक्खु ।
 वयसंजमभारहु खंधु देमि ।
 पत्थिउ थिउ कं व वि णाहिं ताउ ।

३ P णडणयवराहं. ४ AP तहो. ५ A णिवइ णियइं. ६ A °संगमाहं. ७ A °दुग्गमाहं.

27 १ AP णहयर. २ A सुह अच्छइ. ३ A रण्णि. ४ AP संजमु.

12 a णयइं नतानि. 16 त हि तस्यो स्वयंप्रभायाम्; हरि सरवण्णा हर्षमनोहरौ.

27 १ रहणेउरम्मि रथनूपुरचक्रवालम्. 3 a ए कृष्णहलिप्रजापतयः; b णहणरु खेचरः.
 4 a हरिताएण प्रजापतिना. 5 a °सहेजउ °सहायः. 7 b पावइउ प्रव्रजितः. 9 a संसं णियाहं
 शंसां प्रशंसां नीतानि. 10 a सणएण सन्यायेन.

णिम्मुक्कमाणमायामपहिं
परिसेसिवि मंदिरमोहवासु

णरणाहहं सहुं सत्तहिं सपहिं ।
वउ लइउं पासि पिहियासवासु । 15

घत्ता—थिउ परिहरिवि जणु पंयसेवि वणु णिच्चमेव णिच्चलमइ ॥
अट्ट वि णिद्धुणिवि कम्मइं जिणिवि गउ सिवपयहु पयावइ ॥२७॥

28

दुवई—एत्तहि णिसियविसमअसिधारातासियणरवरिंदहो ॥
चउरासीदि लक्ख गय वरिसहं तहिं पुरवरि उविंदहो ॥ ७ ॥

दीहासीचावपमाणगत्तु
णिद्धम्मच्चित्तु णिलुत्तणाणु
जिह सुत्तउ तं व जि कणहलेसु
उप्पणउ तमतमपहि तमोहि
तेत्तीससमुइपमाणु आउ
जायउ णारउ णारयहं गम्मु
सइं रुयइ सयंपह कंत कंत
उट्टुट्टि णिहालहि सुहिमुहाइं
बलग्गवहु धाहारुणएण
णिसुणेवि साहुवयणामयाइं
पियंविग्गहं हुयवह पइसरंति

अण्णहिं दिणि भोयसुहं अत्तित्तु ।
वहुंतमहंतैरउइझाणु ।
मुउ कण्हु जमहु किर को ण वेसु । 5
पंचविहदीहदूसहदुहोहि ।
पंचसयसरासणतुंगकाउ ।
अणु कं वणु ण मारइ भीमकम्मु ।
अतुलवल देव हयगलकयंत ।
दीहइ णिइइ सुत्तो सि काइं । 10
लोय वि रुयंति कारुणएण ।
णिज्झाइवि जिणपयपंकयाइं ।
वारेवि सयंपह अणुमरंति ।

५ AP पइसरिवि वणु. ६ A णिद्धुविवि.

28 १ AP चउरासी वि. २ AP वहुंतरउइमहंतझाणि. ३ P को ण दोसु. ४ A विहपंच-
दीह?. ५ AP केम ण मारइ. ६ A संरुयइ. ७ P पियविरइएं.

15 a परि से सि वि त्यक्त्वा. 16 प य से वि प्रविश्य.

28 1 णि सि य^० तीक्ष्णा. 2 उ वि द हो कृष्णस्य. 3 b अ त्ति च्चु न वृमः. 4 b वे सु द्वेष्यः.
6 b पंच वि ह दु हो हों परिणामदेहवेदनाविक्रियाः परस्परोदीरितदुःखाः. 9 b ह य ग ल क यंत अश्वग्रीवस्य
कृतान्त. 11 a धा हा रु ण ए ण धाहारुदितेन.

सिरिविजयहु बंधिवि रायपट्टु वणु रायसहासहिं सहुं पयट्टु ।
 गुरु करिवि महारिसि कणयकुंभु तउ चिण्णउ सीरिं रईणिसुंभु । 15
 घत्ता—गउ मोक्खहु विजउ जिणर्थीमघउ तेणं भरहु भडारउ ॥
 सोमियमोहरसु भुवणंतजसु पुष्पयंतसरवारउ ॥ २८ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुष्पयंतविरहण महाकव्ये विजयतिविद्वहयगीवकहंतरं
 णाम दुवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५२ ॥

८ A सीरिं, ९ AP रयणिसुंभु, १० A जिणयम्मरओ.

15 / रइणिसुंभु रतिविनाशकं रागरहितमित्यर्थः. 16 तेणं भरहु तेजसा नक्षत्राच्छादकः. 17 पुष्प-
 यंत सरवारउ पुष्पाण्येव कान्ताः शरा यस्य तस्य कामस्य वारको निषेधकः.

पणविवि देवहु णेयंतणिउंजियदिट्टिहि ॥
वासवपुज्जहु सिरिवासुपुज्जपरमेट्टिहि ॥ धुवकं ॥

1

जो कल्लाणसयालओ	मायाभावसयालओ ।	
हरिणवंदपहुआसनो	कुणयकुडंगहुयामणो ।	
कणयरकविलणिवारणो	अज्जुणवारिणिवारणो ।	5
दुविहकम्मकयणिज्जरो	सुहयावयवो णिज्जरो ।	
जा णिण्णासियभयंजरो	दाणालो जिणकुंजरो ।	
जस्स अणंतं वीरियं	अवि णे हणइ णियवइरियं ।	
जो ण महइ दियवइरियं	मज्जे जेण ण ईरियं ।	
मुत्तं जस्स ण मंसए	पाए जस्स णमंसए ।	10
अरइयरइणिव्वाणओ	इस्सकेऊ णिव्वाणओ ।	
वारहमो तित्थंकरो	पणयाणं तित्थंकरो ।	
जो जम्मंयुहिपोयओ	वसिकयहरिकरिपोयओ ।	
बुद्धियवत्थुवियप्पयं	तं णमिउं परमप्पयं ।	
भणिमो तस्स महाकहं	चिण्णं तेण तयं कहं ।	15
कुलबलजाईसामयं	मोत्तुं जम्मं सामयं ।	
काउं देहं खामयं	जिह लहं मोक्खामयं ।	

यत्ता—तिह हउं भासमि सुणि सेणिय किं सिरिगावें ॥

जिणगुणन्वितइ चंडालु वि मुच्चइ पावें ॥ १ ॥

1 १ भवजरो. २ AP जस्साणंत. ३ A णिहणइ. ४ AP इस्सकेओ.

1 1 णेयंतणि उंजियदिट्टिहि ज्ञेयान्ते प्रमेयपर्यन्ते नैकान्ते वा नियुक्ता दृष्टियेन तस्य. 3 a कल्लाणसयालओ पञ्चमहाकल्याणानामभ्युदयरंपराणां च मनःशोभन आलय आश्रयः, कल्याणशतानां वा आलयः; b मायाभावसयालओ मायापरिणामानां सदा लयो विनाशो यत्र. 4 a हरिणवंदपहुआसनो हरिणवृन्दानां प्रभवः सिंहाः आसने यस्य; b कुणयकुडंगहुयामणो कुनया एव कुडंगं लघु-झाटक (वृक्ष) समूहस्तस्य हुताशनोऽग्निः. 5 b अज्जुणवारिणिवारणो अर्जुने श्वते वारिनिवारणं लघ्वं यस्य. 6 a दुविहकम्मं द्रव्यभावरूपं शुभाद्युभरूपं वा द्विविधं कर्म; b सुहयावयवो मुभगशरीरावयवः; णिज्जरो जरारहितः. 7 b कुंजरो प्रधानः. 9 a दियवइरियं द्विजपतिर्ब्राह्मणस्तस्य ऋचं वेदम्; b मज्जे मज्जे येन न ईरिनं सूत्रम्. 10 a णमंसए मंसिऽपि यस्य न सूत्रम्. 11 a अरइयरइणिव्वाणओ अर-चितरतिसुखः; b णिव्वाणओ बाणरहितः. 13 a पोयओ पोतः प्रवहणः, तारक इत्यर्थः. 14 a बुद्धियवत्थुवियप्पयं ज्ञातपदार्थभेदम्. 16 a कुलबलजाईसामयं कुलबलजातिलक्ष्मीणां मदम्; b सामयं व्याधिसहितम्. 17 b मोक्खामयं मोक्षामृतम्. 18 सिरिगावें लक्ष्मीमदेन.

2

पुक्खरवरदीवद्भय
तडउगयसुरदारुणो
पुव्वविदेहे जणरुई
तत्थै वारिमंथरगई
पायवसुरहिसमीरण
संतोमियणरवरमई
घरसिरकयणहसाइयं
धुयधयमालाराइयं
तहिं राओ पउमुत्तरो
देवी तस्स मयच्छिया
दोण्हं जणियाणंगओ
तलतमालतालीघणे
मत्तुमित्तसमचित्तओ
धम्मसालिलसिच्चियधरो
मुणिओ वत्थुविभेयओ
दाउं परिपालियस्वमं
सह णिवेहिं साहियमणो
जाओ राओ मुणिवरो
चरइ तवं सो जेरिसं

मणुउत्तरगिरिरुद्धय ।
इंदिसासियमेरुणो ।
पीणियखगउंलसंतई ।
सीया णाम महाणई ।
तीण दाह्णिणतीरण ।
वरदेसो वच्छावई ।
उच्छवपडहणिणाइयं ।
रयणउरं रयणाइयं ।
जो सीलेण जगुत्तरो ।
णामेणं धणलाच्छिया ।
दीहो कालो णिग्गओ ।
आसीणो पुरउववणे ।
अरुहो तित्थपवत्तओ ।
महिओ तेण जुयंघरो ।
उप्पणउ णिव्वेयओ ।
ध्रणमित्तस्स कुलक्कमं ।
सममणियतणकंचणो ।
गिरिगहणे लंविक्करो ।
का किर वण्णइ तेरिसं ।

5

10

15

घत्ता—णिरु णिप्पिहमइ परमेसरु पंथहु लग्गउ ॥

20

जिह देहें गिसि चित्तेण वि तिह सो णग्गउ ॥ २ ॥

3

माणसे असक्कयाइं
वुज्झिउं सुयंगयाइं
इंदियाइं पीडिउण

पंच पंच एकयाइं ।
ताविउं णियंगयाइं ।
दुक्कियाइं साडिऊण ।

2 १ A जणरुई. २ A म्वाउडमंतई. ३ AP नेत्थु. ४ P तहिं सि राउ पउमुत्तरो.
५ A देहेण.

3 १ A ताविओ.

2 १ a तडउगयसुरदारुणो तटोत्पन्नदेवदारुवृक्षस्य; b इंदिसासियमेरुणो पूर्वदिगा-
श्वितमेरोः. 3 a जणरुई लोकानां रुचिकारिका सीता नाम नदी. 4 a घरसिरकयणहसाइयं गृह-
शिरोभिः कृतं नभसः आस्वादनं यत्र. 5 b रयणाइयं रत्नैः आचितं जटितम्. 15 a वत्थुविभेयओ
पदार्थभेदः. 16 a १ स्वमं क्षमं पृथ्वीम्. 20 णिप्पिहमइ निःस्पृहमतिः.

3 1 a असक्कयाइं अचिन्तितानि.

अज्जिऊण चारु चित्तु	तिथ्यणाहणामु गोत्तु ।	
भाविऊण संतणाणु	झाइऊण धम्मज्ञाणु ।	5
उज्झिऊण खाणु पाणु	तेण मुक्कु झ त्ति पाणु ।	
णिग्गओ सरीरयाउ	णं रईसरीरयाउ ।	
जम्मसायरे पडंतु	दुक्खविच्चमे घडंतु ।	
चंदकंतकंतिसुक्कि	जायओ महंतसुक्कि ।	
सोलसणवप्पमाउ	पोमलेसु सुभतेउ ।	10
हारदारसोहमाणु	अट्टअट्टहत्थमाणु ।	
अट्टअट्टपक्खंसासु	पुण्णचंदसंणिहासु ।	
चोत्थभूयलंतलक्खु	सहजायकामसोक्खु ।	
घत्ता—सोलहसहसहं गय वरिसहं एकसु भुंजइ ॥		
जो सो सुखरु बुहहियवउं किं णउ रंजइ ॥ ३ ॥		

4

लेसमासजीवियम्मि	दिव्वपुंगमं थियम्मि ।	
जक्खणाहु भासुरेण	बोल्लिओ सुरेसरेण ।	
जंबुदीवि भाणुभासिं	भारहम्मि अंगदेसि ।	
दोक्खलक्खलोट्टणम्मि	चंपणामपट्टणम्मि ।	
अत्थि दव्वपुजराउ	सत्तुसीसदिण्णपाउ ।	5
तस्स पत्ति कामवित्ति	वल्लहा जयावइ त्ति ।	
ताहं होइंदिंदियारि	अंगओ अहम्महारि ।	
जाहि देवं सोक्खजुत्ति	ता धणाहिवेण झ त्ति ।	
णिम्मियं पुरं वरेहिं	मोत्तिएहिं कब्बुरेहिं ।	
कंजछणवाचियाहिं	दीहियाहिं खाइयाहिं ।	10
फुल्लगुंछवच्छएहिं	कूवएहिं कच्छएहिं ।	
तीरिणीतलायएहिं	चित्तदारभायएहिं ।	

२ P °पक्खमासु.

4 १ जंबुदीवभाणुभासि. २ A होहिं हंदिंयारि; P होहिंदिंदियारि. ३ A देहिं सोक्ख°. ४ AP फुल्लगोच्छ°.

4 a चित्तु आश्रयभूतम्. 5 a संतणाणु स्वान्ते ज्ञानम्. 7 b रईसरीरयाउ रतिनदीवेगान्. 11 b अट्टअट्ट° चत्वारः. 12 a अट्टअट्ट षोडश. 13 a चोत्थभूयलंतलक्खु पङ्कप्रभापर्यन्तावधिज्ञानः; b सहजाय° शब्दोत्पन्नम्. 14 एकसु एकवारम्.

4 1 a लेसमासं पणमासाः. 4 a दोक्खं दुःखम्. 5 a दव्वपुजराउ वसुपूज्यो राजा. 7 a होइंदिंदियारि होइंदिं भविष्यति इंदियारि इन्द्रियाणां जेता; b अंगओ अङ्गजः पुत्रः. 9 b कब्बुरेहिं सुवर्णैः. 11 a °वच्छएहिं °वृक्षैः.

हृष्टिटचश्चरेहिं
दीहरत्थमगएहिं
ध्रुवगंधसुंदरेहिं

गामगोहदुश्चरेहिं ।
वोममगलगएहिं ।
सत्तभूमिमंदिरेहिं ।

15

व्रत्ता—एहउ सोहइ जं पुरु तहिं धरि सुहुं सुत्तइ ॥
सिविणयसंतइ पविलोइय पंकयणेत्तइ ॥ ४ ॥

5

हत्थि दाणवारिवाहंरत्तमत्तछप्पओ
केसरी मयंधगंधकुंभिकुंभदारणो
हंसकामिणीहिं सेवियारविंदवासिरी
पारियायपोमपोंभलं परायसंभुयं
णासियंधयारओ वरं विहावरीवई
पेमंभेभला चला णिरंतं वियारिणो
वारिवारपूरियं सरोरुहंहिं अंचियं
पंकयायरो चलंतलच्छिणेउरारवा
सीहंमंडियासणं रणंतकिंकिणीसरं
पुंजओ मणीण दिसिरंजियावणीयलो

गोवई विसाणघायभग्गसालिवप्पओ ।
णक्खजाण्हियामिलंतमोत्तियंसुवारणो ।
पुंडरीयवामणेहिं सिंचिया महासिरी ।
मत्तभिगसंगयं ललंतमालियाजुयं ।
कजबंधवो सरम्मि दिणणपोमिणीरई । 5
कीलमाणया महासरंतरे विसारिणो ।
कुंभजुम्मयं पवित्तचंदणेण चच्चियं ।
णीरघुम्मिरो तरंगभंगुरो महण्णवो ।
इंदमंदिरं वरं महाफणीसिणो धरं ।
धूमचत्तओ पलित्तओ सिहाचलोणलो । 10

व्रत्ता—सिविणय जोइवि देविइ णियणाहहु भासिउं ॥

तेण वि तप्फलु णिच्चप्फलु तहि उवएसिउं ॥ ५ ॥

6

णाणच्चक्खुणा जो णिरिक्खण
पोसण पिण दुव्वसामिण

जो जयं असेसं पि रक्खण ।
सुंदरी हंले मज्झसामिण ।

५ AP वोमधामलगएहि. ६ A सुहं सुत्तइ.

5 १ A रंतमत्त°. २ A हिमाहिवो णिमावई. ३ A पिमविंभला. ४ AP तारवारिपूरियं.
५ A सीहंवाहियं रणंत°. ६ A तं फलु णिच्चफलु.

12 b दारभायएहिं द्वारभागैः. 13 b गामगोहदुश्चरेहिं ग्राम्यपुरुषदुश्चरैः.

5 1 a रत्तमत्तछप्पओ रत्ता मत्ताश्च पट्टपदा भ्रमरा यस्मिन्; b सा लिवप्पओ केदारखण्डः.
२ b ण क्वंति नखकान्तिस्तया सह मिलतां मौक्तिककिरणानां निवारकः. 3 b पुंडरीयवामणेहिं पञ्चो-
पलक्षितकलशैः, पुण्डरीकवामनदिग्गजाभ्यां वा. 4 a पोंभलं मिश्रमः; परायसंभुयं परागस्य सम्यग्भू-
मिम्. 6 a पेमंभेभला प्रेमविह्वलैः; b विसारिणो मत्स्याः. 7 a वारिवारं जलसमूहः. 10 b सिहा-
चलोणलो शिखाभिश्चल्लोऽभिः.

6 1 b जयं जगत्. २ a पिण हे प्रियं; दुव्वसामिण दूवावत् श्यामाङ्गः.

सो तुमम्मि होही जिणेसरो	भव्वजीवराईवणेसरो ।	
सक्कपेसिया देविया सिरि	कंति किच्चि बुद्धी संई हिरि ।	
आगया घरं देहसोहणं	ताहिं तम्मि तिस्सा कयं घणं ।	5
तिण्णि तिण्णि मासे धणी वसो	बुट्ठो सुवण्णंभपाउसो ।	
मेहजाललीलापयासए	पावणम्मि आसाढमासए ।	
छट्ठए दिणे किण्हपक्खए	तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए ।	
चरणकमलजुयणवियपण्णओ	गम्भकंजकोसे णिसण्णओ ।	
पुणु पयत्थसममासमेरओ	णिच्च सवइ कणयं कुवेरओ ।	10

घत्ता—चउसंखाहिइ जलणिहिपण्णासइ ढलियइ ॥

पल्लहु तिज्जइ भायम्मि धम्मि परिगलियइ ॥ ६ ॥

7

गइ सेयंसइ	सिवसंरहंसइ ।	
मासइ फग्गुणि	पक्खइ तमघणि ।	
कंपियतिहुवाणि	चउदहमि दिणि ।	
दुरियविओयइ	वारुणजोयइ ।	
उप्पण्णो इणु	वारहमो जिणु ।	5
हरिसोल्लियमणु	पत्तो सुरयणु ।	
चंपापुरवेरं	णविऊणं घेरं ।	
णिज्जियसयदलि	जणणीकरयलि ।	
बुद्धिणिसुंभयं	मायाडिंभयं ।	
गहिऊणं पहुं	रइभिसिणीविहुं ।	10
सक्केणं तउ	कुं भणिउं गउ ।	
लग्गणमेरुणो	सिहरं मेरुणो ।	
गंतुं गयंमलि	पंडुसिलायलि ।	

घत्ता -- गाँहु धवेप्पिणु जियतारहारणीहारहिं ॥

ण्हविउ सुरिंदहिं घडवियलियचंदिरधारहिं ॥ ७ ॥

15

6 १ A सुवण्णंभपाउसो. २ A कण्हपक्खए.

7 १ P सिवभर^०. २ A पुरवेरे. ३ A घरे. ४ A तं भणिओ; P कुं भणिओ. ५ A गय-गले. ६ A has ता before णाहु.

3 b ०रा ई व णे सरो ०कमलानां सूर्यः. 5 b घणं निबिडम्. 6 a वसो भक्तिवशः इन्द्राधीनो वा; b सुवण्णं भपाउसो सुवर्णजलप्रावृट्कालः. 8 b तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए चतुर्विंशतितमे शतभिषानक्षत्रे. 10 a पयत्थसममासं नव मासान्.

7 4 b वारुणजोयइ शतभिषानक्षत्रे. 9 a बुद्धिणिसुंभयं मतिव्यभिचारकम्. 11 b कुं भणिउं कुं इति गजप्रेरणसंज्ञा, तथा संज्ञया भणितो गजः; प्रेरित इत्यर्थः.

8

पुञ्जिवि वंदिवि तिजगगुरुणिवराणियहि
तणयालोयणतुट्टियहि तुच्छोयोरिहि
इंदे हंदाणंदवसु तिह णच्चियउं
पणविवि परमं परमपरं णेहि चलयिधओ
अणहहु पासि ण सत्थविही कत्थइ सुणइ
वरिसि विसुद्धवुद्धिसहिइ हयदुट्टमइ
काले वंहुंतहु गुणेहिं जाणियमणुहि
कुंअरत्ते परमेसरहो कीलाणिरय

खेयर विसहर सुरंरमणिसंमाणियहि ।
आणिवि देउ समप्पियउ करि मायरिहि ।
जिह महिचलणे फणितलु विंभियकुंचियउं ।
सहुं परिवारे सगवई सुरलोउ गओ ।
सव्वउ कलउ सलक्खणउ अप्पणु मुणइ । 5
सावयसीलि परिट्टियउ गव्वट्टमइ ।
जायइ माणु सरासणइं सत्तरि तणुहि ।
अट्टारह संवच्छरहं तहु लक्ख गयं ।

घत्ता — णवघुसिणल्लवि करणुञ्जियणाणपहायरु ॥

णिव कुलमहिहरे उग्गउ णं बालादियायरु ॥ ८ ॥

10

9

पक्कहिं दिणि णिव्वेयउ भासइ तउ करमि
लोयंतियसुरवंदहिं लहु संबोहियउ
फुल्लियफलियमहीरुहरंजियसडयणहु
कयचउत्थु मज्झत्थु महत्थु महंतमइ
फग्गुणि कसणि चउदिसिदिणि विरएं लइउ
तेण समउं संसारहु णिव्विण्णइं वरंइं
तिक्खु चरित्तु चरंते पाउ गलत्थियउं
कामहु पंच वि चंडइं कंडइं खंडियइं

जेण पुणु वि संसारि असारि णं संसरमि ।
माणवदाणवदेवहिं पहाविवि पसाहियउ ।
सिंविजाजाणारूढउ गउ मणहरवणहु ।
मणपज्जवपरियाणियमाणुसमणविगइ ।
सयभिसहइ सायणहइ सो मइं पावइउ । 5
सयइं णिवहं पाचइयइं छहछाहंत्तरइं ।
मोहसमुदु रउदु सुदुंम्महु मंथियउ ।
इंदियदुदुं कुडुं वइं मुणिणा दंडियइं ।

8 १ A सुरमर्णा°; 'सुन्नरमर्णा° २ A छउओयरिहि; P तुच्छओयरिहि. ३ AP विंभय°.
४ A णहचलयि. ५ A वंहुंतं. ६ A कुमरत्ते; P कुवरत्ते. ७ AP °णिरया. ८ AP गया. ९ A णं उग्गउ.

9 १ A ण पइसरमि. २ A सिंविजाजाणइ रूढउ. ३ P माणविगइ. ४ A फग्गुणकसणचउ-
दिसिदिणं ४ AP सविसाहइ. ५ A चरइं. ६ A °छाहंतर°. ७ A सुसंमुहु. ८ P °कुदुं वइं.

8 3 b विं भियकुंचियउं भयेन (विस्मयेन ?) संकुचितम्. 5 b अप्पणुमुणइ स्वयमेव जानाति. 6 a चरिसि गर्भोष्टमे वर्णे. 8 a कुं अरत्ते कुमारत्वेन; कीलाणिरय क्रीडानिरताः. 9 करणु-
ञ्जियणाणपहायरु इन्द्रियरहितावधिज्ञानप्रभावान्, 10 णिवहे श्रेणिक.

9 2 b पसाहियउ प्रसाधितः पूजितः. 4 a °चउत्थ° एकोपवासः; b °माणुसमणविगइ
नरमनमो विविधाश्रेष्ठाः. 5 a विरएं विरत्या चारित्रेण गृहीतः; b सयभिसहइ शतभिषानक्षत्रे.
8 a कंडइं त्राणाः.

चंगुं सुसु धरेप्पिणु मणपुरवरु थविउं दिहिपायांरु रणप्पिणु रिउंबेलु विहविउं ।
विसयकसायहं चोरहं कुहिणिउं दृसियउं रयणत्तयभाभारं लोउ पयासियउं । 10

घत्ता— बीयइ वासरि पइसरिवि महाणयरंतरि ॥

भिक्षवहि कारणि परिभमइ जईसरु घरि घरि ॥ ९ ॥

10

आवंतु भडारउ भावियउ	सुंदररापं पौरावियउ ।
तहु मंदिरि सहसा वित्थरिउं	पंचविहु वियंभिउं अचल्लरिउं ।
थिउ ण्हु वरिसु गिसि तिव्वतवि	णिल्लूरियभवसंभवविभवि ।
णिद्धाडियसाडियमोहरइ	ससहरि विसाहणक्खत्तगइ ।
माहम्मि सुद्धवीयाहि बलिउ	घणघाहचउक्कु विणिह्लिउ । 5
उववासिणण वासरि गमिइ	दिणयरि वारुणदिग्गि संकमिइ ।
पुव्विल्लइ वणि चवच्चूयचलि	उप्पायउ णाणु कैयंबतलि ।
णियगोमिणिगारव संखरव	घंटाख हरिरव पडहरव ।
महिचिवर गयण वण सम्ग घर	णहि धाईय आइय वहु अमर ।
विजाहर औइय कुसुमकर	भूगोयर कंपाविय सधर । 10

घत्ता— तं परमप्पउं ललियक्खरलद्धविसेसहिं ॥

वंदइ सुरवइ णाणाविहथोत्तसहासहिं ॥ १० ॥

11

जीह समीहइ भोयणउं	दिट्ठि वि महिलालोयणउं ।
कण्णहिं इच्छिउ गेयरसु	णासु गुणाहियगंधवसु ।
फासु वि मउसयणइं महइ	करणइं पंच जीउ चहइ ।
ताइं मणेण जि पट्टवइ	विसयहं उवरि परिट्टवइ ।
पसरियविविहसुहालसउ	मोहमहरमयपरवसउ । 5

१ P °पावारु. १० रिउदल.

10 १ A पगवियउ. २ P °विडवि. ३ A वासवदिसि. ४ P चवभूयचलि. ५ P कलेवयलि.
६ AP आइय धाइय. ७ AP विजाहर वियसियकुसुमकर. ८ A लद्धहिं सेसहिं.

11 १ A अट्टवइ. २ A मेहमयरमय°; P मोहमहरामय°.

10 a कु हि णि उ मार्गोः.

10 2 b वियंभिउं विजृम्भितम्. 3 b णि ल्लूरियेत्यादि निर्लूरितः स्फटितः भवसंभवविभवः संसारजन्मसंपत्तिर्धन. 4 a °मो हरइ° मोहरजसि. 8 a णियगोमिणिगारव निजलक्ष्मीगुरुत्वम्.

11 5 a सुहालसउ सुखासक्तः; b मोहेत्यादि मोहमदिरामदाभ्यां परवशः.

कुप्पइ तप्पइ णीससइ
णाणाजम्महिं आइयउ
कुलयलविहवगव्वगहिउ
उम्मग्गेण जि संचरइ
तुहुं तिहुयणअब्भुद्धरणु
तुहुं जिण गुणमाणिक्कणिहि
तुहुं जणमणवेर्यालहरु
जो पइं पणवर सुद्धमइं

णडइ रडइ गायइ हसइ ।
पेम्मपिसापं छाइयउ ।
गुरुयणकहियसीलरहिउ ।
पइं ण भडारा संभरइ ।
तुहुं जि देव विउसइं सरणु । 10
तुहुं घोरपावकंतरसिहि ।
अञ्चुयसुहहलतियसतरु ।
सो पावइं णिव्याणगइं ।

ग्रन्था—वाइसरिवइ रिदुसट्टिसमं जसु गणहर ॥

वारहसयमिय पुव्वंगधारि तहु मुणिवर ॥ ११ ॥

15

12

पंचतीस चउसहसइं दुइसय सिक्खुयहं
छहसहास सव्वण्डुहुं दह वेउज्वियहं
सायरसहसइं दोसय वाइहिं णयधरहं
एक्खु लक्खु छहसहसइं संजमधारिणिहिं
दोणिण लक्खु गुणवंतहं संतहं सावयहं
जिणवरवयणणिहालणणिहयभवावयहं
चउपण्णास जि लक्खइं वरिसविहीणाइं
हरिकयकणयकुसेसयउयरिविइणणपउ

पंचसहस जलणिहिसय सावहिभिक्खुयहं ।
लेसासमइं सहासइं मणपज्जयवियहं ।
एव होंति वाहत्तरिसहसइं जइवरहं ।
लक्ख चयारि समासिय धरवयचारिणिहिं ।
संखेज्जउ गणुं घोसिउ काणणसावयहं । 5
संख णत्थि तहिं आयहं देवहं देवियहं ।
वरिसहं विहरिवि महियलि भवसमरीणाइं ।
संबोहेप्पिणु भव्वइं चंपाणयरु गउ ।

ग्रन्था—णिज्जियणियरिउ वरधम्मचक्कि मुणिराणउ ॥

पलियंकासणु अंतिर्मझाणम्मि णिलीणउ ॥ १२ ॥

10

13

भद्वयहु ससंयभिसहहि सेयचउदसिहि तिण्णि वि अंगइं गलियइं तासु महारिसिहि ।
अवरण्हइ चउणवइहिं रिसिहिं समउ जिणु जायउ सिद्ध भडारउ ववगयजम्मरिणु ।

३ A पेमविसापं. ४ A वियणहरु. ५ P adds लहु after पावइ.

12 १ A गुण. २ A भवावहं. ३ P देवयहं. ४ AP ० हाणे.

13 १ A सविसाहहे कसण०; P सुविसाहहे कसण०; K records a *p* as in AP.

7 *b* छा इ य उ आविष्टो व्याप्तः. 10 *b* वि उ स हे विदुषाम्. 12 *a* ० वेयाल० विकालः तमः. 14 रिदु-
स ट्टि षट्पष्टिः.

12 1 *a* पंचतीस चउसहसइं एकोनचत्वारिंशत्सहस्राणि; *b* सावहि० अवधिज्ञानवताम्.
3 *a* णयधरहं नयधारकाणां वादिनाम्. 5 *b* काणणसावयहं तिरश्चां व्रतसहितानाम्. 6 *a* ० णि ह य-
भवावयहं ० हतसंसारपदाम्. 7 *b* भवसमरीणाइं संसारश्रमरहितानि.

13 2 *b* ववगयजम्मरिणु व्यपगतसंसारकृणः.

सकिं अग्निकुमारहिं जयजयकारियउं अंगु अणंगीह्यहु तहु सकारियउ ।
 आहंङलधणुमंडलमंडियघणघणइ कहइ पुरंदरु देवहं जंतु णहंगणइ ।
 एहु बाहत्तरि वच्छरलक्षइ अच्छियउ एवहिं ह्यउ णिकलु इह ण णियच्छियउ 5
 एम मरइ को पंडियपंडियवरमैरणु जेण ण पुणु वि पयट्टइ बहुभवसंभरणु ।
 हउं वि एउं संचितमि जइ णरभवु लहमि तो खरतवमंथाणं कम्मदहिउं महमि ।
 अण्यउ णामं चोप्यहु तं छिण्णउं करमि वासुपुज्जपरमेट्टिहि मग्गे संचरमि ।

घसा—भरहहु होतउ जिणचरियइं तियसहं संघिवि ॥

गउ हरि सग्गहु णहि पुप्फदंत उल्लंघिवि ॥ १३ ॥

10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे वासुपुज्जणिव्वाणगमणं
 णाम तिवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५३ ॥

२ P महासिहि, ३ P^०भरणे, ४ P^०संसरणे, ५ A णाणं, ६ A omit णहि.

3 b सकारियउं भस्मीकृतम्, 4 a^०घणघणइ^०प्रचुरमेघं, 7 b महमि मभामि, 9 भरहहु होतउ भरतक्षेत्रात्: संघिवि कथयित्वा, 10 हरि इन्द्र:; पुप्फदंत सूर्याचन्द्रमणौ.

सिरिवासुपुज्जिणतिथि तहिं चिरपरिहवभारुडुहु ॥
करि लुङ्गउ णं हरि हरिवरहु तारउ भिडिउ दुविडुहु ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—इह दीवग्मि भरहि वरविंझपुरग्मि महारिमरणो ॥
णरवइ विंझसत्ति विंझो इव पालियमत्तवारणो ॥ छ ॥

मयणाहीमंडणु तणु मयलइ	जहिं कण्पूररेणु णहु धवलइ । 5
जहिं कामिणि चामरु संचालइ	जहिं देवंगु वत्थु परिघोलइ ।
जहिं भूसणमणिकिरणावलियउं	दसदिस्सासु बहुवणणउ घुलियउं ।
तहिं अत्थाणि णिसणणउ राणउ	इंदफणिदसग्गिदसमाणउ ।
ता संपत्तउ चरु सुमहुरगिरु	सो पभणइ पयजुयपणमियसिरु ।
भत्तचित्तगोमहिस्सीपउरइ	पत्थु जि भरहवेत्ति कणयउरइ । 10
तुहं सुहि गुणविसेसतोसियमइ	जाणहि किं ण सुसेणु महीवइ ।
तासु वेस णामं गुणमंजरि	णं सरचूयकुसुममयमंजरि ।
रुवु ताहि मइं दिट्ठउं जेहउं	उव्वसिरंभहं दुक्करु तेहउं ।

घत्ता—णउ मयकलंकपडलें मलिणु ण धरइ खयवंकत्तणु ॥

सुहं मुड्ढहि चंदं समु भणमि जइ तं कवणु कइत्तणु ॥ १ ॥ 15

2

दुवई—मत्तकरिंदमंडलीलागइ णरमणणलिणगोमिणी ॥
किं वण्णमि णरिंद सा कामिणि कामिणियणान्निरेमणी ॥ छ ॥

दिम विवाहरगंमं रावइ	कररुहपंति पईवहिं दीवइ ।
कुच्चियकेसहं कंतिइ कालइ	माणिणि माणवमहुयरमालइ ।
सुललियवाणि व सुकइहि केरी	जहिं दीसइ तहिं सा भल्लारी । 5
पहइ चारु पोसियपत्थावउ	गायइ सुंदरि कण्णसुहावउ ।

1 १ AP मइलइ. AP १० विंझसत्ति. २ P तुहं. ३ AP महुं. ४ AP कमणु.

2 १ AP कामिणिजणं.

1 २ दु वि डु हु द्विपुष्पय. 3 a मयणा ही मंडणु कस्तूरिका; मयलइ मलिनयति. 10 a पउरइ प्रचुरे. 12 a वेस वेद्या; b सरचूयं स्मरः काम एव आम्रवृक्षः. 14 खयवंकत्तणु क्षयं वक्रत्वं च.

2 3 a रावइ रजयति. 4 a कालइ कृष्णीकमेति. 5 b भल्लारी उत्तमा. 6 a पोसिय-पत्थावउ पोषितप्रस्तावः मुभापितयुक्तिः.

णञ्चइ बहुरसभावाणित्तउं सा जइ लहहि कह व मइं वुत्तउं ।
तो संसारहु पइं फलु लद्धउं सयलु वि तिहुवणु तुज्जु जि सिद्धउं ।
ससिजोणहाहीणें किं गयणें णासाविरहिणण किं वयणें ।
लवणजुत्तिवियलेण व भोज्जे ताइ विवज्जिणण किं रज्जे । 10

ग्रन्ता—तं णिसुणिवि राएं मंतिवरु देवि उवायणु पेसियैउ ॥
घरु जाइवि तेण सुसेणपहु पियवायइ संभासियउ ॥ २ ॥

3

दुवई—जां तुहुं विंशसत्ति सो दोहं मि भेउ ण लक्खिओ मण ॥

इहु कल्लोलणिवहु इहु जलणिहि केण विहत्तओ जण ॥ छ ॥

एक्कु जीउ विहिणा गंभीरइं पर रइयइं भिण्णाइं सरीरइं ।
जं तहु केरउ तं तुम्हारउं जं तेरउ तं तासु जि केरउं ।
एत्थु ण किज्जइं चित्तु अधीरउं णेहणिवंधणु वंधुहि स्सरउं । 5
णिरुवयारु तं णासइ सुंदरि देहि समित्तहु तुहुं गुणमंजरि ।
ता पहुणा दूयउ णिञ्चच्छिउ एहउ वंधु वण्ण कहिं अच्छिउ ।
धंणि सीमंतिणीउ जो मग्गइ अवसें सो धणपाणहु लग्गइ ।
दरिसियरइरसकरणाळिगण जाहि ण दूयं देमि पणयंगण ।
तं वयणें पुरु गं पि तुरंतउ णियकुलसामिहि कहइ महंतउ । 10
हंसवंसवीणारवभासिणि देव ण देइ सुसेणु विलासिणि ।

ग्रन्ता—आयण्णवि दूयहं जंपियइं णेहु चिराणउ भंजिवि ॥
अट्ठिभट्टु सुसेणहु विंशपुरणरवइ सीहु व रंजिवि ॥ ३ ॥

4

दुवई—वेणिण वि चरणरेहिं संचालिय वेणिण वि ते महाबला ॥

वरणारीकपण गणियारिरया इव भिडिय मयगला ॥ छ ॥

दोहुं वि साहणाइं आलग्गइं चालियचक्रइं तोलियखग्गइं ।
खलियरहंगइं मलियतुरंगइं दलियधुरग्गइं दूसियमग्गइं ।

२ AP फल पइं. ३ AP पेसिउ. ४ AP संभासिउ.

3 १ A परइयं. २ AP कीरइ. ३ P वंधे. ४ A वरसीमंतिणि. ५ AP देमि वूय.

4 १ A संचारिया.

11 दे वि उ वा यणु भाभृतं दस्वा.

3 २ कल्लोल णिवहु तरङ्गसमूहः. 3 b पर केवलम्. 6 a णिरुवयारु तं णासइ निरुप-
कारस्तं स्नेहं नाशयति; b स मि चहु स्वमित्रस्य. 9 b पणयंगण पण्णाङ्गता वेश्या. 13 विंशपुरणरवइ
विन्ध्यशक्तिः.

4 २ ग णि यारिरया हस्तिनीरतौ. 4 a खलियरहंगइं खलीकृतचक्राणि.

मोडियदंडं लुयधयसंडं	खंडियमुंडं णखियहंडं ।	5
जूरियपत्तं चूरियलत्तं	दारियगत्तं णिगायरत्तं ।	
लूरियताणं हयजपाणं	उद्वियप्राणं कयसिरवाणं ।	
हुंकारंतं हक्कारंतं	उरगयकौतं चललुलियंतं ।	
मगणभिण्णं तिलु तिलु छिण्णं	सेयवसिण्णं रत्तकिलिण्णं ।	
विरसु चवंतं वम्मु छिवंतं	संफ मुयंतं संकु धिवंतं ।	10
हत्थिणिसुंभं फाडियकुंभं	जोहणिसुंभं जयजसुलंभं ।	

घत्ता—ता सरिवि सुसेणं सरिउबलं सरहिं णिरंतह भिण्णउं ॥
जमदूयहं भूयहं भुक्खियहं णाइ दिसाबलि दिण्णउं ॥ ४ ॥

5

दुवई—ताव सुसेणमुक्खाणावलिचिहडियणिविडगयघडं ॥
हरिसंचलणदलणणिदुरखुरफांडियधवलधयवडं ॥ छु ॥

छंडियकिवाणु	गलियाहिमाणु ।	
लवंतकेसु	जणजणियहासु ।	
पत्तावमाणु	दिसि धावमाणु ।	5
धयलत्तलण्णु	पेच्छवि संसेणु ।	
पडिभडकयंतु	धाइउ तुरंतु ।	
बलपबलसत्ति	भडु विंझसत्ति ।	
रिउ भणिउ तेण	रेरे णिहीण ।	
दे देहि णारि	मा गिलउ मारि ।	10
सहुं परियणेण	पइं रणि खणेण ।	
तं सुणवि सत्तु	इयरेण वुत्तु ।	
गुणणिहियबाणि	मइं जीवमाणि ।	
को रमइ तरुणि	कमि पंडिय हरंणि ।	
जो हरिहि हरइ	सो झ त्ति मरइ ।	15
इय जंपमाण	वेण्णि वि समाण ।	
धिंधंति वीर	पुलइयसरीर ।	

२ AP जोहणिसुंभं. ३ AP जयजसुलंभं; P adds aftr this: कित्तिवियंभं. ४ AP ०बडु.

5 १ AP ०वलणं २ AP ०कालियं. ३ A संसेणु. ४ AP वडिय. ५ P हरिणि.

6 a जूरियपत्तं खेदितवाहनानि. 7 a लूरिय ताणं लूनगात्रवाणानि. 9 b सेयवसिण्णं स्वेदेन प्रस्विन्नानि; ०किलिण्णं लिप्तानि. 11 a हत्थिणिसुंभं हस्तिविदारणानि. 12 सरिउबलं स्वरिपु-संन्यानि.

5 1 ०णि वि डं संकीर्णम्. 3 a छंडियकिवाणु स्थक्खवडुः. 6 b संसेणु स्वसंन्यम्. 7 a पडिभडकयंतु प्रतिभयानां कृतान्तो यमः विन्ध्यशक्तिः. 12 b इयरेण इतरेण सुषेणेन. 14 b कमि पडिय सिंहस्य क्रमे पादे पतितां मृगीं को हरति.

फणिवइपमीण	बाणेहिं बाण ।	
णहि पडिखलंति	छत्तहिं पंडंति ।	
धय णिल्लुणंति ।	सारहि हणंति ।	20
हय कप्परंति	पुणु चप्परंति ।	
हणु हणु भणंति	अंगइ वणंति ।	
सहसा मिलंति	विहडेवि जंति ।	
पडिवलिवि पंति	थिर गिरि व थंति ।	
ता गयविलासु	विंझाहिवासु ।	25

घसा—संधाणु ण लक्खहुं सक्रियउं चवलसरावलि देंतहु ॥
गउ णासवि तासु सुसेणु रणि णं वम्महु अरहंतहु ॥ ५ ॥

6

दुवई—बंधुविआयसोयमलिणाणण पइपरिहवविवेश्या ॥
तेण णिवेण धरिय गुणमंजरि गुणमहुयरणिलेविया ॥ छु ॥

इई वरभरहखेत्ति विकखायउ	श्वत्तियधम्मधुरंधरु जायउ ।	
मित्तु सुसेणहु संतोसियमणु	राउ महापुरि मारुयसंदणु ।	
णिसुणेप्पिणु णियइदु पलाणउ	हिमहयकमलसरु व विहाणउ ।	5
घणरहणामहु वसुमइ देप्पिणु	कोहु लोहु मउ मोहु मुप्पिणु ।	
सुव्वयजिणहं पासि वउ लेप्पिणु	मुउ काले संणासु करेप्पिणु ।	
प्राणयकप्पि सक्कु सो ह्यउ	वीससमुहजीवि वररुवउ ।	
तासु जि गुरुहि पासि उवसंतं	दुद्धरु संजमभारु वहतं ।	
वारहविहतवतावणझीणं	वद्धु णियाणु अणेण सुसेणं ।	10
मेरुतुंगमाणुण्णइ ढालिय	जेण मज्झु माणिणि उहालिय ।	
जइ तवतरुवरहल्लु पापेसमि	तो तं पुरिमैजम्मि मारेसमि ।	
पंव सरंतु सरंतु जि णिट्ठिउ	सकलुसमइ संलेहणि संठिउ ।	
वरवंदारयवंदविणूयउ	तेत्थु जि सग्गि सो वि संभूयउ ।	

घसा—रमणीयहि मंदरमेहलहि णीलिरुम्मिगिरिकंदरि ॥
गयणयलि सयंभूरमणजलि ते रमंति सरिसरवरि ॥ ६ ॥

६ AP °पमाणु. ७ AP वाणु. ८ P adds after this: रोमं जलंति. ९ A लंति.

6 १ AP ह्य. २ AP पाणय°. ३ AP सग्गि. ४ AP पावेसमि. ५ A पुरिसु. ६ AP तेत्थु वि सो वि सग्गि संभूयउ.

21 b चप्परंति अभिभवन्ति. 22 b वणंति व्रणयन्ति.

6 1 °परिहवविवेश्या °पराभवेन कम्पिता वेश्या. 4 b मारुयसंदणु वायुरथः. 11 a °माणुण्णइ मानोन्नतिः; ढालिय पातित्ता. 12 b पुरिमैजम्मि आगामिनि जन्मनि. 13 a सरंतु स्सरनः; णिट्ठिउ मृतः. 14 a °विणूयउ स्तुतः. 15 °रुम्मि° रुक्मि°.

7

दुवई—विणिण वि सह वसंति विहरंति वि विल्लुलियकुसुमसेहरा ॥
विणिण वि परममित्त ते सुरवर सुररमणीमणोहरा ॥ छ ॥

एत्तहि विरु संसार भमेप्पिणु	विंशसत्ति जिणलिंगु लएप्पिणु ।	
तेरहविहु चारित्तु चरेप्पिणु	णिरसणविहिमग्गेण मेरेप्पिणु ।	
अच्छरकरयललालियचामरु	जायउ दिव्वदेहु कण्णामरु ।	5
देवहं ताहं विहिं मि दिवि जइयहुं	संखसमाउसु संठिउ तइयहुं ।	
जंबुदीवि लुहंपंकियगोउरु	भरहि भोयवड्डुणु णामें पुरु ।	
तहिं सिरिमाणउ राणउ सिरिहरु	सिरिमइदेविसिहिणसंगयकरु ।	
विंशपुराहिउ सग्गहु आयउ	एयहं विहिं मि पुत्तु संजायउ ।	10
जयसिरिसीमंतिणिभत्तारउ	जसससंकक्रिणणावलितारउ ।	
कोक्किउ सो णियतापं तारउ	वसिकयसव्वदेसकंतारउ ।	
तारयताराणाहें धित्तइं	असिकरेण रिउतिमिरइं जित्तइं ।	

वत्ता — मंडलियहं मयमाहप्पियहं सिरि पाडिवि समसुत्ती ॥

तिहिं खंडहि मंडिय मेइणिय चप्पिवि दासि व भुत्ती ॥ ७ ॥

8

दुवई—अण्णडिहयपयावकंपावियसयलदिसाविहायए ॥

सपचणतरणिवरुणवइसचणभयंकरि तम्मि जायए ॥ छ ॥

तावेत्तहि यहुसोक्खलपवट्टणि	इह भारहि दारावइपट्टणि ।	
पढमजिणेसरवंसविट्टसणु	खलखत्तियवलदप्पविणासणु ।	
रिउच्छवग्गसिंभीरहुयासणु	वंभेणराहिउ वंभपयासणु ।	5
मंदगमण वीणारववाणी	तासु सुहइ सुहइणिसेणी ।	
सिंविणइ तांइ दिहु संपययरु	दससययरु अवरु वि सियदिणयरु ।	
आसि वाउरहु जो सो आयइ	पाणइंदुसुउ जणियउ मायइ ।	

7 १ AP संसारं. २ AP लुहंपंकय. ३ AP विहं मि. ४ A सवमुत्ती.

8 १ P वंभ. २ AP दिहु ताह. ३ AP संपययरु.

7 1 b णिरसण वि हि मग्गेण संन्यासमार्गेण. 7 a लुहंपंकियं सुधाधवलितम्. 8 b 'सि हि णं' स्तनौ. 10 b 'तारउ निर्मलः. 12 a तारयताराणाहें तारक एव तारानाथश्चन्द्रः तैर्न; b असिकरेण खड्गकिरणेन. 11 चप्पिवि त्रलाद्रशीकृत्य.

8 1 a अण्णडिहयपयाव' अप्रतिहतप्रतापेन; 'विहायए' विभागे. 6 b सुहइ सुभद्रा; सुहइणिसेणी सुभद्राणां मङ्गलानां निःश्रेणी. 7 b दससययरु सहस्रकरः सूर्यैः; सियदिणयरु चन्द्रः 8 a आयइ अनया.

अण्ण सुंसेणु सृणु सग्गसुउ वीयंउ उववादेविइ द्दभुउ ।
 अचल दुविट्ठ णाम ते सुंदर णं केलास णीलमणिमहिहर । 10
 धवलउ एक्कु एक्कु अलिकालउ एक्कु सुसीलु एक्कु दुल्लीलउ ।
 गरुउ एक्कु एक्कु सिरिमाणु एक्कु सुभीसु एक्कु सोमाणु ।
 एक्कु चंदु णं एक्कु दिवायरु हलहरु एक्कु एक्कु दामोयरु ।
 घत्ता - ते वेण्णि वि भायर भुवणरवि जोइवि रोसविमीसिउ ॥
 महिणाद्दहु जाइवि ताग्यहु तहु चरेहिं आहासिउं ॥ ८ ॥ 15

9

दुवई— णं सियकसणपक्ख हलिसिरिधव वेण्णि वि धवलसामला ॥
 दारावइणरिंदवरतणुरुह गिरिवरंधरणभुयवला ॥ छ ॥

वइवसभउंहाभंगुरभाचइं दोहिं मि गयउ रयणविक्कु,रियउ विज्जादेविउ पेसणयरियउ ।
 लंगलसुसलसंखकर दुद्धर ते भिउंति जहिं केसरिकंधर । 5
 ताहिं थरहरइ मरइ रिउ ण मरइ करु असिवरहु कया वि ण पसरइ ।
 अण्णु वि अत्थि वइरिजुरावणु गंधहत्थि णावइ अइरावणु ।
 ताहं लील दीसइ विवररी णउ गणंति ते आण तुहारी ।
 भग्गा सइं सुहउत्तणवाएं तं आयण्णिवि जंपिउ राएं ।
 संगरु करिवि हेरमि करिरयणइं गलियंसुयइं सुहदहिं णयणइं । 10
 लुहउ वंभु हयणुत्तविओणं डउज्जउ सोसिउ दूसहसोएं ।
 मइं विरुद्धि जगि को वि ण जीवइ जंउं वि मरणु समरंगणि पावइ ।

घत्ता—महुं कमकमलाइं ण संभरइ जो रायत्तणु मग्गइ ॥
 नो ससयंण परियणपरियागिउ जमपुरपंथं लगइ ॥ ९ ॥

10

दुवई— इय गज्जंतु राउ णिजंमतिहिं बोह्लिउ हो ण जुजण ॥
 किं कलहेण तां व पडिवक्खइं महिवइ दूउ दिज्जण ॥ छ ॥

४ A सुमेणसृणु. ५ AP वीयउ वायादेविइ. ६ K दुस्मीलउ but corrects it to दुल्लीलउ.

9 १ P सिरिहर. २ P 'वखण'. ३ A हेरेवि; P हेरेमि. ४ P जम. ५ A सो सयणमपरियणं; P सो सयणपरियणं.

10 १ AP णियमंतिहि.

9 1 ० सिरिधव विण्णुः. 3 a वइवसभउंहा यमभूः. 4 a गयउ गदाः; b पेसणयरियउ आज्ञाकराः. 6 a ण मरइ न पयति. 9 a सुहउत्तणवाएं सुभउत्तवातेन. 11 a लुहउ अश्रुणि मार्जयतु.

सो गंधपीलु	सुरदंतिसीलु ।	
सिद्धाहं जाहं	ग्यणाहं ताहं ।	
सो दिव्वु संखु	तं धणु असंखु ।	5
जइ तुज्जु देति	पेसणु करंति ।	
तो ते जियंति	णं तो मरंति ।	
ती दिण्णु दूउ	कल्लाणभूउ ।	
दारावइसु	भीमारिभीसु ।	
जाणवि तेण	मउलियकरेण ।	10
कुलकुमुयचंदु	दिदुउ उविदु ।	
दूणण उत्तु	सुणु मंतसुत्तु ।	
भुयबलविसालु	कुलसामिसालु ।	
संभरहि देउ	गयाहिराउ ।	
गिरितुंगमाणु	ताराहिहाणु ।	15
भडवरवरिट्ट	तुहुं भो दुविदु ।	
मेल्लिवि दुआलि	मा करहि रालि ।	
पुहईपिणण	सह सामिणण ।	
खयरिंद जासु	वच्चंति पासु ।	
इच्छंति सव	असितसिय देव ।	20
तहु कवणु मल्लु	मुइ रोससल्लु ।	
दोइवि करिंदु	पवणाहि णरिंदु ।	

घत्ता — ता भणिउं दुविदुं रुदुणण सामि महारउ हलहरु ॥

अण्णहू सामण्णहू माणुसहू हउं होम्मि किं किंकरु ॥ १० ॥

11

दुवई — जो महं भणइ भिच्चं परु दुम्मइ दूथय तालु सीसयं ॥

तोडमि रणि तड ति मणिकुंडलमंडियगंडणसयं ॥ छु ॥

कायकंतिओहामियमसहरु	तहिं अवसरि भासइ जिव्वाहरु ।	
पहरणरुक्खराइसंछण्णउं	णिवकामिणिवडजक्खरवण्णउं ।	
लंबललंतचिंधकोमलदल्लु	चलवामरहंसावलिअविरलु ।	5

२ AP गंधपीलु, ३ AP लीलु, ४ A ता, ५ A सुणि, ६ AP मेल्लि, ७ P राहि.

11 १ AP भिच्च.

10 5 b असखु बहुलम्, 15 b ताराहिहाणु तारकाख्यः, 17 a तुआलि दुराग्रहमपन्याय-
मन्यायं वा; b रालि कलहः, 20 b असितसिय खड्गत्रस्ताः, 21 b मुइ मुख.

11 2 °गंडणसयं °गण्डदेशम्, 3 b जिव्वाहरु बलमद्रः, 4 a °रुक्खराइ° वृक्षश्रेणी.

करिगिरिवरु लोहियजलाणज्झरु उग्गयचित्तच्छंत्तईदीवरु ।
 सुहडंतावलिविसहरचुंभलु गयणविलग्गकांतवंसत्थलु ।
 दूय राउ जइ मग्गइ कुंजरु तो पइसउ सो समरवणंतरु ।
 रुद्धदुविट्टुसीहसरणक्खहं तहिं णउ चुक्कइ लुक्कविवक्खहं ।
 इहु वारणु तहु जीवियवारणु भयगारउ वच्छयलवियारणु । 10

ग्रन्था—तं णिसुणिवि दूए जंपियउं महुं पइउ मणि भावइ ॥

हरि तारयसरइहु कमि पडिउ अचल चलंतु ण जीवइ ॥ ११ ॥

12

दुवई — जासु तसंति पंति पणवंति धुणंति वि देवदाणवा ॥

तासु ण गहणु किं पि तुम्हारिस विवल वरायमाणवा ॥ छु ॥

तां कण्हं जंपिउं पेसुणणउं जाहि दूय मा जंपहि सुणणउं ।
 तं णिसुणिवि दूयउ णिग्गउ गउ कहइ ससामिहिं णउ अण्णइ गउ ।
 दुहु दुविट्टु धिट्टु ण्णु कंम्वइ तं वच्छिहिं करवालु णिरिक्खइ । 5
 सेव ण करइ ण सो पइं मण्णइ णियसंमुहं सिरिच्छिंइ सण्णइ ।
 भणइ ण भयवसेण वसि होममि चाउ दंति करि वरु ढोएसमि ।
 दंतमुसलजुयलें पेहावमि एम हत्थि हउं तहु रणि दावमि ।
 रायत्तणु महुं पुणु संकरिसणु अह व करइ पियवंभुं सुदरिसणु ।
 अण्णु राउ जइ होइ कुसुंभइ अण्णु राउ संज्ञापारंभइ । 10
 अण्णु राउ अहरहु तंबोलें अण्णु राउ छिंदमि करवालें ।
 हउं किं घेप्पमि अण्णे राणं ता पडिजंपिउं तारयराणं ।

ग्रन्था—हरिकरिभडलोहियकयच्छइ दूय ण वडिमं घोळमि ॥

रणरंगि दुविट्टुहु अट्टियइं पिट्टु करेप्पिणु गह्ममि ॥ १२ ॥

13

दुवई — एम भणंतु चलिउ हयगयरहणरभरणमियधरयलो ॥

हयसंगामतूरवहिरियदिसवहलुच्छलियकलयलो ॥ छु ॥

२ A चित्तच्छु. ३ AP लुक्क. ४ P जंपिउं.

12 १ A तो. २ AP दृउ गउ णिग्गउ. ३ A छेच्छइ. ४ AP पिउवंभु. ५ AP छिण्णमि.
 ६ A तारयराणं. ७ AP वडिमु.

13 १ AP ०णविय०.

6 b ०ई दीवरु नीलोत्पलम्. 7 a ०चुंभलु वीभत्सम्. 9 a ०सरणक्खहं वाणा एव नखास्तेपाम्;
 b लुक्क विवक्खहं लुक्कविपक्षाणां वाणानाम्. 12 तारयसरइ उ कमि तारक एव अष्टापदस्तस्य चरणे;
 अचल हे अचल.

12 3 a पेसुण्णउं पेशुण्यम्. 5 b तं वच्छिहिं ताम्रनेत्रैः. 6 b छिच्छइ पुंश्र्ल्. 7 b चाउ
 दंति करि वरु ढो एसमि हस्ते गृहीत्वा वरं चापं गजे ढौकयिष्यामि. 9 a संकरिसणु बलभद्र एव.

हरिखुरखयधूर्लारयलाइउ
थिउ दारावइणियडउ जावहिं
सकरि सगरुडविंध रहसुम्भड
गयमलधवलकमलकज्जलणिह
खयरणरामरसेवियपयजुय
रयणमालकोत्थुहजलयरधर
भइसुभइउवायाणंदण
जिह जिह तारणण अवलोइय
वलपम्भारं मेइणि हल्लइ

दसदिसु खंधावारु ण माइउ ।
णिग्गय सज्जणहरिबल तावहिं ।
सहरि गिरिंदधीर सुमहाभड । 5
कायतेयणिज्जियखयसिहिंसिह ।
दंतिदंतणिम्मूलणखमभुय ।
सीरसरासणसुरपहरणकर ।
दुइमदाणवचंदंविमइण ।
तिह तिह मइ विंभयवहि ढोइय । 10
विसहरु तसंइ रसइ विसु मेल्लइ ।

यत्ता— करिकारणि तारयमाहवहं सेण्णइ संमुहुं दुक्कइं ॥
लग्गइं पकलपाइकमुहमुक्कहकल्लकइं ॥ १३ ॥

14

दुवइ— दसदिसिवहपयासिजमल्लुइइं मुहमरुभमियभंमरयं ॥
धणुगुणमुक्कमंदसरजालइं कयसुरणियरडंमरयं ॥ छ ॥

जायघायलोहियभरियंगइं
भडताडियपाडियमायंगइं
वज्जमुट्टिफोडियसीमकइं
दंडदलियविथलियपासुलियइं
पित्तसंभग्गेणियजलण्हायइं
मोडियकडियैलकोण्परठाणइं
संघारियसामंतमहासइं
परिपोसियमिववायसगिज्जइं

आइरंगरंगंतुरंगइं ।
झसतिसूलकरवालपसंगइं ।
णीसारियमत्थयमत्थिकइं । 5
चलियइं उल्लियइं पडिवलियइं ।
असिणिहसणसिहिंसिहवमु आयइं ।
विहडियेदहसंधिसंठाणइं ।
मयमंडलियमउडभाभासइं ।
सिगिमहिगामरणपल्लुइइं । 10

यत्ता— अरिरुद्धिरतोयतण्हायतणु पक्खिहं पक्खज्जडप्पियउं ॥
उम्मुच्चिलउ को वि महासुहहु लग्गउ वइरिहिं विणियउं ॥ १४ ॥

२ A समहामड. ३ AP 'मुमदावाया'. ४ AP 'विड'. ५ AP 'रसइ तसइ.

14 १ AP 'भमरइ. २ AP 'डमरइ. ३ A 'कडयल'. ४ A सुय'.

13 6 a गयमलधवलकमल' निमलधेतकमलसदृशः; b 'खयमिहिंसिहणिह' प्रलयामि-
ज्जालासदृशः. 8 a 'जलयर' शंखः; b सीर' हलः. 10 b विंभयवहि आश्चर्यमार्गे. 11 a बल-
पम्भारं' सैन्यमूहेन. 13 पकलपाइकमुहमुक्क' प्रगतभृत्यमुखमुक्तेः.

14 1 मुहमरुभमियभंमरयं' मुखवातेन भ्रमिताः भ्रमरा यस्मिन् कर्मणि यथा भवति तथा.
3 आइरंग' संघामरङ्गः. 6 a 'पासुलियइं' 'पार्श्वस्थिकानि. 7 b असिणहसणिहिंसिहिं' म्बुजानां
षर्षणेन जनितोऽग्निः. 9 b मय' मृताः. 10 a 'मिव दृगालाः.

15

दुवई—परिफुडकरडगलियमयधारालालसभसलसइए ॥

को वि करिंददंतजुयसयणइ सुत्तउ मरणणिइए ॥ छ ॥

लद्धवीरभंडणमहाँमिसे
उच्छलंतवीसठवसौरसे
पहरभगगयभीरुमाणुसे
पुव्ववइरसंबंधदारुणे
खयररायसंघायमारणे
कंतदंतगिरिभित्तिदारुणो
बंधुकणकहुयं सुविण्पियं
अज्जु बाल किं णेव जुज्जसे
धरणिणाहजयलच्छिधारिणा
दीण पंचभूयहं ण लज्जसे
रायघायगव्वेण वग्गसे
इय भणेवि मुक्का तिणा सग
एतं तारएणं विवारिया
णाइं णाय णाएहिं कयफणा

घारचंचुभक्खियणरामिसे ।
कालदूयरक्खसमहाणसे ।
हम्ममाणभडभमियतामसे । 5
वणगलंतवणरुहवणारुणे ।
तारएण हरि कोक्किओ रणे ।
जेम वप्प दिण्णो ण वारणो ।
जेम दूयपुरओ पर्यपियं ।
संतमंतिमंतं ण बुज्जसे । 10
भणित्त महिवई दाणवारिणा ।
मम पुरो तुमं काइं गज्जसे ।
परहणाइं किं मुक्ख मग्गसे ।
पुंखलग्गहुंकारवरसरा ।
वइरियाण वाणेहिं वारिया । 15
लोहवंतं पिसुण व्व णिग्गुणा ।

घत्ता—पडिकण्हें कण्हहु पट्टविउ अलयइउ उहामउ ॥

अइदीहरु कालउ पंचफहु भीयरु मारणकामउ ॥ १५ ॥

16

दुवई—सो गरुडेण हणेवि खणि घल्लिउ पडिबलजलणवारिणा ॥

मायातिमिरपडल्लु तां पेस्सिउ तहु हुंकरिवि चइरिणा ॥ छ ॥

तं पि विवक्खलक्खखयकालं
इय दिव्वाउहपंतिउ छिण्णउ
पुणु बहुरूविणिचिज्जपहावें

हरिणा णासिउं रवियरजालं ।
बहुयउ लक्खकोडिसयगण्णउ ।
जुज्जिउ पडिहरि कुडिलसहावें । 5

15 १ AP पडिकरि^१; K पडिकरि but corrects it to परिफुड^२ २ AP महारसे.
३ AP रसावमे. ४ AP माणसे. ५ A दारणो. ६ A जेण. ७ AP तेम. ८ AP परहणाइं;
K परहणाइं but corrects it to परहणाइं. ९ A पंति. १० P लोहवंता.

16 १ A सो घल्लिउ. २ A तं पि पेस्सिउ.

15 1 परिफुडकरड^३ व्यक्तं गण्डस्थलम्. 3 भंडणमहाँमिसे भण्डणनिमित्ते. 5 b ता मसे
रीद्रपरिणामे. 6 b वणगलंतवणरुहवणारुणे वणगलदुधिरजलरक्के. 15 a एतं आगच्छन्तः. 16 a
णाएहिं सपैः. 17 अलयइउ जलसर्पः.

सा वि पणहृ जणहणपुण्णं
लेवि चक्कु करि भामिवि वुत्तउं
ता पडिलविय उवायापुत्तें
जइ ण धरमि रहंगु सइ हत्थे
मरु को मरइ संढ तुह घाएं

सिरिमइतणएं अंजणवण्णं ।
देहि हत्थि मा मरहि णिरुत्तउं ।
किं ससहरु जिप्पइ णक्खत्तें ।
तो पइसमि हुयवैहु परमत्थे ।
मुक्कु चक्कु तो तारयराएं । 10

घत्ता --- रक्खंतहं णियवइणिब्भयहं पहरणेहिं पहरंतहं ॥
तं आयउ सयलहं पत्थिवहं झ त्ति धरंत धरंतहं ॥ १६ ॥

17

दुवई — देवासुरणरिंदफाणिखेयरकिणरदप्पहारयं ॥
भुयणुज्जोयकारि माणिक्कमऊहविराइयारयं ॥ छ ॥

भाणुविंबु णं किरणहिं जडियउं
धरिवि तेण करिं जंपिउं पइउं
करहिं केर वलएवहु केरी
ता पडिसत्तु चवइ विहमेण्णिणु
जिह णच्चइ संतासें देसिउ
रासहु होइवि हत्थिहि लग्गइ
पत्थरु होइवि मेरु व मण्णहि
रे गोवालवाल णउ लज्जहि

वासुपवकरणियडइ पडियउं ।
एवहिं तुज्जु सरणु कहिं केहउं ।
अणुहुंजहि संपय गरुयारी । 5
मंडाखंडु भिक्खं पावेप्पिणु ।
तिह तुहुं एण रहंणे हेरिसिउ ।
वायसु होइवि गरुडहु विग्गहि ।
अप्पउ वारु वारु किं वण्णहि ।
महुं अग्गइ भडवाएं भज्जहि । 10

घत्ता — लइ रक्खउ तेरउ सीरहरु एवहिं मारमि लग्गउ ॥
किं चुक्कइ काणणि केसरिहि दिट्ठिपंथि णिच्चंडिउ मउं ॥ १७ ॥

18

दुवई — एव भणेवि धीरु विसविसमविसणवणिसियअसिवरं ॥
अरि करि कुंभकालियधवलुज्जलमोत्तियपंतिदंतुरं ॥ छ ॥

३ A हुववहि.

17 १ A जलियउ. २ A भिक्खु. ३ P रहसिउ. ४ AP चग्गहि. ५ AP णिवडिउ.
६ AP गउ.

18 १ AP 'गलिय'.

1 6 b सिरिमइतणएं तारकेण. 8 a उवायापुत्ते द्विष्टेण. 11 णियवइणिब्भयहं
निजस्वामिनिर्भयकारकाणां रक्षकाणाम्.

17 २ १ विरइयारये विराजिता: अरा यस्य तादृशं चक्रम्. 5 a केर आज्ञा. 6 b मंडा खंडु
अपूपखण्डः. 7 a देसिउ कार्पटिकः परदेशिकः. 8 b विग्गहि विग्रहं करोषि. 9 b वारु वारु वारंवारम्.
10 b भडवाएं मुभटवातेन. 12 मउ मृगः.

18 1 विसविसमविसणवो विषवद्विपमं विषं पानीयं यत्र तस्मिन्नर्णवे समुद्रे.

थक्कउ करयलेण उग्गामिवि
मुक्कु चक्कु दुक्कउ रिउकंठहु
जाइवि दिणयरब्बिबु णिमैण्णउं
ससयणसडयणदिण्णसुहेल्लिहि
हसियेपुसियेपरणरवइरायहु
खग्गे वसिकिउ लोउ असेसु वि
जिह महि सिद्धी अद्ध तिविट्ठहु
उत्तंगत्ते धणु सो सत्तरि
पावे पाविउ सत्तमु महियल्लु
जहिं पडिकेसउ तहिं गउ केसवु
एम भणपिण्णु पासि तिगुत्तहु
बहुरिसिवंदं^१ समउ समाहिउ

ता सिरिरमणे णहयलि भामिवि ।
णावेइ अत्थसिहरिउवकंठहु ।
लोहियलित्तउं लोहियवण्णउं । 5
फुल्लु णाई हरिसाहसवेल्लिहि ।
पडिउ सीसु तारयणरणाहहु ।
मागहु वरतणु जित्तु पहासु वि ।
तिह हूई णिर्बेरिद्धि दुविट्ठहु ।
जीविउं वरिसलक्ख वाहत्तरि । 10
तहिं अवसरि णियमाणि चित्तइ वल्लु ।
काले णडियउ णिवडइ वासवु ।
वउ लइयउं समत्थुं समचित्तहु ।
केवलणाणसिरीइ पंसाहिउ ।

घत्ता—गउ मोकखहु अचलु अकंपमइ भरहणरेसरवंदिउ ॥ 15
जोइसविमाणवासियपवर पुप्फदंतसयवंदिउ ॥ १८ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे अचलदुविट्ठतारयकहंतं
णाम चउवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५४ ॥

२ A णं रवि अत्थ°. ३ A णिवण्णउ. ४ P हसिउ पुसिय°. ५ A पुसिउ. ६ A णिव ज्ञत्ति दुविट्ठहु.
७ AP उत्तंगत्ते. ८ AP चित्तइ णियमणि वल्लु. ९ AP वउ. १० A समत्तु णियचित्तहु. ११ AP
रिसिविदंदिं. १२ P पहासिउ. १३ A अकंपमणु. १४ A पुप्फयंत°.

4 b अत्थ सि हरि उवकंठहु अस्तगिरिसमीपम्. 5 a णिमण्णउं निमग्गमिव. 6 a ससयणसडयण-
दिण्णसुहेल्लिहि स्वकीयस्वजना एव भ्रमरास्तेभ्यो दत्ते सुखं यथा. 8 पहासुवि प्रभासक्षेत्रमपि. 10 b
जीविउं आयुः. 12 b णडियउ प्रेरितः. 14 a समाहिउ सावधानः.

तवसिरिराइयहु मुणिह्नाइयहु सयमहमहियपंयावहु ॥
वंदिवि कमजमलु णिज्जियकमलु विमलहु विमलसहावहु ॥ धुवकं ॥

1

णरउलमहिलं	वज्जियमहिलं ।	
जेण विरइयं	भोयविरइयं ।	
सत्थं सारं	वयणंसारं ।	5
जस्स गहेउं	हिंसाहेउं ।	
णट्टसमोहं	वड्ढियमोहं ।	
काउं समयं	मयमाणमयं ।	
पत्ता णरयं	जे ताणरयं ।	
भुवणमहीसं	कह लहिही सं ।	10
पइं परिहीणं	जिण पडिही णं ।	
णारयविवरं	णविण विवरं ।	
णासइ गरयं	जणियंगरयं ।	
ण हु उलुहंते	सरणमहं ते ।	
देव पइट्ठो	तं महं इट्ठो ।	15
इय थुइवायं	करइ सुवायं ।	
तसियगहिंदो	जस्स महिंदो ।	
तं गुणविमलं	णविउं विमलं ।	
हयमोहंगं	तस्स कहंगं ।	
भणिमो सरसं	वारियसरसं ।	20

यत्ता—तेरहमउ अबरु जणसंतियरु सुत्तगोफसोमालइ ॥

अंचमि णरहियइ खयविरहियइ जिणु कब्बुप्पलमालइ ॥ १ ॥

1 १ A सिरिराइयहु. २ AP पहावहु; K पहावहु but corrects it to पयावहु. ३ AP ०जुवलु. ४ A जे ताणरयं; P जेताणरयं. ५ A महु. ६ AP ०गुफसोमालइ; T ०गोफं.

1 1 १ राइयहु राजितस्य. 2 कमजमलु पादयुग्मम्. 3 a णरउलमहिलं नरकुलानां पृथ्वी-
दायकम्. 4 a भोयविरइयं भोगविरक्तिदायकम्. 5 a सत्थं सारं शास्त्रं परमार्थभूतम्; b वयणंसारं
यस्य शास्त्रस्य वचनांशान् अरं अस्यर्थं. 6 a गहिउं गृहीत्वा पश्चान्मिथ्याशास्त्रं कृत्वा. 7 a पत्ता णरयं
नरकं प्राप्ताः; b ता णरयं तेषां पुरुषाणामनुरक्तम्. 8 a भुवणं भुवनम्; अही सं बुद्धिरहितम्; b लहि-
ही लस्ये; सं शे सुखम्. 9 b विवरं पक्षिवरेण गरुडेन. 10 a उलुहंते उदकहाः काकास्तेषामन्ते
समीपे. 11 b सुवायं शोभनवाचम्. 12 a हयमोहंगं हतं मोहस्याङ्गं कारणं स्वरूपं वा येन; b कहंगं
कथास्वरूपम्. 13 b वारियसरसं निषिद्धस्मरसुखम्. 14 सुत्तगोफं ० सुत्तप्रथनम्. 15 णरहियइ
प्राणिनां हितकारिण्या; कब्बुप्पलमालइ काव्यमेवोत्पलानि तेषां मालया.

2

धादइसंडइ परिभमियहरि
तहि पुर्वविदेहि तरंतकरि
तहि दाहिणकूलि कलंबहरि
फलरसवहरुक्खसोक्खसयरि
पहु पउमसेणु पउमारमणु
कयलीदलवीयणसीयरइ
मंदाणिलचालियकुसुमरइ
वयणुग्गयधीरधम्मज्झुणिहि
संपयपइ पउमणाहु करिचि
थक्कउ रिसिदिक्खइ दिक्खियउ

पुव्वामरगिरिगंभीरदरि ।
सीयौ णामे अत्थि सरि ।
णवसत्तच्छयच्छाइयमिहिरि ।
रम्मयवइदेसि महाणयरि ।
णवजोव्वणु रमणीमणदमणु । 5
दिसिउग्गयसरसरसीयरइ ।
अण्णहिं दिणि वणि पीइकरइ ।
पायंति य सव्वगुत्तमुणिहि ।
आरंभडंभविहि परिहरिवि ।
पयारह अंगइ सिक्खियउ । 10

घत्ता—मलु उट्टावियउ समु भावियउ पंकयसेणे घणघणु ॥
पक्खि व पंजरइ दुक्खियविरइ धम्मज्झाणि धरिउं मणु ॥ २ ॥

3

सुक्किउ भववासकिलेसहरु
मुउ मुक्काहारु विसुद्धमइ
अट्टारहजलहिपमाउधरु
णवमासहिं एकसु सो ससइ
णवणवसहंसहिं संवच्छरहं
जावंजणमहि ता णाणगइ
ते दीहु कालु दिवि संचरिउं
तइयहुं पढमिदं लक्खियउं

आवज्जिवि तित्थयरत्तयरु ।
हुउ सहसारइ सहसारवइ ।
चउरयणिसरीरु अरोयजरु ।
परमाणुय वर मणेण गसइ ।
सुहुं जणइ णिपवि मुहुं अच्छरहं । 5
तहु गुण किं वण्णइ खंडकइ ।
जइयहुं अयणंतरु उव्वरिउं ।
सहस ति कुवेरहु अक्खियउं ।

2 १ AP अवरविदेहि. २ AP सीओया. ३ P मिहरि. ४ A रसवहुभक्खसोक्खसयरि; P रसवहुभक्खसोक्खसयरि. ५ P धम्म ज्झुणिसि. ६ A सव्वगुत्ति. ७ AP धरियउ.

3 १ P जलहिपरमाउ. २ A चउरयण. ३ A परमाणुवरसुमणेण. ४ A सहसइ. ५ A तं.

2 1 a परि भ मिय हरि भ्रान्तसूर्य. 3 b सत्तच्छयच्छाइयमिहिरि समच्छदवृक्षाच्छादितसूर्ये. 4 a फलरसवहं फलरसमार्गः फलरसप्रवाहो वा; ०सोक्खसयरि सौख्यशतदायके. 6 b सरसरसीयरइ तडागजलशीकरे. 8 b पायंति पादान्ते; य च. 9 a संपयपइ संपत्स्थाने. 11 पंकयसेणे पद्ममेनेन.

3 1 a सुक्किउ सुकृतम्. 3 a जलहिपमाउधरु सागरोपमायुर्धरः; b चउरयणि चतुर्हस्तप्रमाणम्. 4 a एकसु एकदा; b परमाणुयवर परमाणुकान् वरान्. 5 b णिपवि दृष्ट्वा. 6 a जावंजणमहि पङ्कप्रभां यावत्; b खंडकइ पुष्पदन्तकविः. 7 b अयणंतरु प्रमासाः.

इह भरहखेत्ति कंपिलपुरि
कयवमु राउ तहु घराणि जय
घसा — ताहं महागुणहं वेणिणं वि जणहं होसइ भवणि भडारउ ॥
कम्ममणोरहहं अट्टारहहं णियदोसहं खयगारउ ॥ ३ ॥

4

जक्खाहिव तुरियउं जाहि तुहुं
ता पुरवरु णिहिणाहं विहिउं
दहिकुट्टिमयलजियसरयघणु
वणरुक्खराइसुरहियपवणु
सयणागमहरिसियपउरयणु
धणु दिज्जइ जेहिं बहुदेसियहं
सियसिहरवद्धधयपाडलिउं
ललियंगपसाहियकामियणु
करि पुरु धेरि चिंतिउं भोयसुहुं ।
णं सग्गाखंडु धराणिहि णिहिउं ।
गयणग्गलगमणिमयभवणु ।
वणरुहसररयकलहंसयणु ।
रयणंसुजालजियतियसधणु । 5
सियरहियहं णिच्चपवासियहं ।
पाडलपूयंफलदुमललिउं ।
कामियणपरोप्परदिणमणु ।
घसा — णरणियराउलइ तहिं राउलइ जयदेविइ सुहसुत्तइ ॥
भिविणावलि णिसिहिं उग्गयदिमिहिं दीसइ कामलगत्तइ ॥ ४ ॥ 10

5

करि दाणजलोल्लकवोलयलु
पंवाणणु रुइहयहारमणि
दुइ सुमणालउ मालउ खयलि
तिमि दोणिणं रमंतं तरंतं जलि
दो कलस ससलिलं सकमल मदल
ढेकंतु वसहु जियवसहबलु ।
अरविदणिलय माहवरमणि ।
हिमयर अहिमयरुग्गय विउलि ।
संणिट्टिय मणोरम धराणियालि ।
णलिणालय मयरालय विमल । 5

६ AP विभइयसुरि, ७ AP दोहं मि.

4 १ AP घर, २ A चिंतियभोयसुहुं, ३ A सिररयकलहंसगणु, ४ AP तहिं, ५ A पाडल-
पूयंफल, ६ AP सुहं सुत्तए.

5 १ A दिक्कु, २ A दोण, ३ AP तरंतं रमंतं, ४ P कलस सलिल.

4 1 a वणरुहसररय^० पद्मसरसि रतः, 5 b "तियसधणु इन्द्रधनुः, 6 b सियरहियहं
श्रीरहितानाम्, 7 a "पाडलिउं कर्तुरम्; b पूयफल" पूगफलम्, 10 उग्गयदिमिहिं उद्भासित-
दिशायां, प्रभाने इत्यर्थः.

5 1 a दाणजलोल्लकवोलयलु मदजलार्द्रकपोलः; b ढेकंतु गर्जनः; जियवसहबलु जिता-
न्यवृषभवलः, 2 a रुइहयहारमणि स्वरूपा तिरस्कृतहारमणिः सिंहः; b माहवरमणि लक्ष्मीः,
3 b विउलि विपुले आकाशे, 4 a तिमि मत्स्यौ.

आसंदी हरिणरायधरिय अमरिंदवसहि पहपरियरिय ।
 णाइणिगिजंतगेयमुहलु णाइंदहु केरउं सउहयलु ।
 मणिरासि सिहाहि फुरंतु सिहि सिविणोलि णिहालिय दिण्णदिहि ।
 यत्ता—सा सीमंतिणिय पीणत्थणिय दंसणु दइयहु भासइ ॥
 देउं णराहिवइ पडिबुद्धमइ तं फलु ताहि समासइ ॥ ५ ॥ 10

6

पयपुंडरीयजुयणंविद्यसुरु अरहंतु अणंतु तिलोयगुरु ।
 मयरद्धयधयणिल्लूरणउ परमेसरि होसइ तुह तणउ ।
 इंदाएसं णिम्मच्छरउ एत्थंतरि आयउ अच्छरउ ।
 जयदेविहि देहु पसंसियउ गव्भासयदोसु विहंसियउ ।
 छम्मासु हेमधाराधरहिं वरिसिउ जक्खहि णं जलहरहिं । 5
 जेद्धु मासहु तमदसमिदिणि उत्तरभइवयइ हिमकिरणि ।
 रयणहिं सुवेहि संथुयचरिउ करिरुवें गच्चि समोयरिउ ।
 णिहिकलससविक्रउं पयडियउं णवमास पुणु वि वसु णिवडियउं ।
 जइयहुं सायरसम तीस गय मिच्छत्तें दूसिय सयल पय ।
 पल्लंतपणदुइ धम्मि वरि णिव्वुइ वारहमइ तित्थयरि । 10
 कंचणचूलालिहियंवुहरि तइयहुं कयवम्महु तणइ घरि ।
 यत्ता—माहचउत्थिहि वंड्हियससिहि सिवजोयइ जिणु जायउ ॥
 संदणहयगयहि लंबियधयहि चउदिसु सुरयणु आइउ ॥ ६ ॥

7

मायासिसु मायहि ढोइयउ सक्कं जिणवयणु पलोइयउ ।
 कर मउलिवि पणविवि परमपरु पुणु भत्तिइ लेविणु तित्थयरु ।
 करि पेळ्ळिउ चाल्लिउ गयणयलि पडुपडहभेरिठक्कामुहलि ।
 लंघेविणु रविससिमंडलइं णं णहयललच्छिहि कुंडलइं ।

५ P ताउ.

6 १ AP °णमियं. २ A °कलसविसुक्रउ. ३ A धम्मवरि. ४ A °चउदसिहि; P चउत्थि-सिह. ५ AP वट्ठियं.

7 १ P भत्ति.

6 a आसंदी आसनम्; b अमरिंदवसहि देवविमानम्.

6 1 a पयपुंडरीयं पादकमलम्. 2 a णिल्लूरणउ स्फोटकः. 6 a तमदसमिं कृष्ण-दशमी. 7 a रयणे हिं रत्नैः. 8 a णिहिकलससविक्रउं निधिकलरोपु स्वविक्रमः प्रकटीकृतः. 11 a कंचणचूलं सौवर्णशिरम्. 12 सिवजोयइ अहिर्बुध्नयोगे उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे.

गउ तेत्तहिं जेतहिं पंडुसिल
मंदरगिरिसिरि विरइउं ण्हवणु
पंडुरि ससहरकररासिहरि
सिसु संसिवि जय चिरु सुकयतव
कालेण पत्रह्ठिउ जिणु तरुणु
सहंसदुत्तरमियलक्खणइं
वण्णेण वि सहइ सुवण्णणिहु
परमेसहु माणियवालवय
पुणु सयमहेण पणविवि ण्हविउ
वरिसहं वसिहइं दिण्णकरा

घत्ता—तुह्णिणविणिग्गमणि महुआगमणि तीरोसैरियजलालउ । 15
रविकिरणहिं हणिवि हिमकण धुणिवि मिंभे जिनु मियालउ ॥ ७ ॥

8

अवलोइवि सो दलवट्टियउ
पहु चितइ अणुदिणु परिणवइ
चिरु चित्तु दुच्चित्तहु णीणियउं
पुणु जीविउ जम्मणु आणियउं
इंदियवसेण ण विवेश्यउं
धणपुत्तकलत्तहिं मोहियउ
अच्छइ ण णियच्छमि किं पि किहं
ता संबोह्ठिउ लोयंतियहिं
किउ देवयत्तसिवियारुहणु

घत्ता—माहचउत्थियहिं ससहरसियहिं छावीसमि णक्खत्तइ ॥ 10
सहुं सहसें णिवहं इच्छियसिवहं थिउ जिणु जइणचरित्तइ ॥ ८ ॥

कालेण कालु पल्लट्टियउ ।
जणु तो वि ण जुंजइ धम्ममइं ।
दिवि दिव्वभोयसुहुं माणियउं ।
तिहिं णाणहिं तिहुवणु जाणियउं ।
हा मइं वि ण अणउं चेइयउं । 5
मयरइयवाणहिं जोहियउ ।
अणमणु अण्णु अण्णाणु जिहं ।
अहिसित्तउ सुरवरपंतियहिं ।
गउ झ त्ति सहेउयणाम वणु ।

२ देवहुं. ३ AP जणणिहरि; K जणणिकरं but corrects it to जणणिवरि. ४ A जिण तरुणु.
५ A अट्टोत्तरमयमियं; P सदुत्तरमयमियं. ६ A तहु णवमयमंगवइं; P तहु तवमयसंखइं. ७ A
नीरोसरिउ.

8 १ AP परिणमइ. २ AP धम्मे मइ. ३ AP धणमित्तं. ४ A किहा. ५ A जिहा.
६ A बार्वासमि and gloss श्रवणनक्षत्रे. ७ A जइचारित्तइ.

7 5 b सिद्धइल सिद्धभूमिः. 8 b णायहु स्वर्गम्; णायभव देवाः. 13 b तिजगराउ
त्रिभुवनराजः. 14 a दिण्णकरा दत्तदाना; b तिउणियं त्रिगुणितानि. 15 तुह्णिणविणिग्गमणि
शीतकाले विगते; महुं वसन्तः. 16 मियालउ शीतकालः.

8 1 a दलवट्टियउ चूर्णितः. 3 दुच्चित्तहु दुराचारात् दुष्परिणामात्; णीणियउं निष्का-
शितम्. 5 इंदियवसेण इन्द्रियपरवसेन. 6 b जोहियउ विद्धः. 7 b अण्णमणु उद्धान्तचित्तः. 9 a
देवयत्तं देवदत्ता. 10 छावीसमि उत्तराभद्रपदे. 11 जइणचरित्तइ जिनचारित्रे जिनदीक्षायाम्.

9

तर्हि दिणि जयवइ उववासियउ
वीयइ दिणि आयउ णंदउरु
झाणाणलहुयवम्मीसरहु
माणिपुंजें ढंकिउ तासु गिहु
छउंमत्थें मेइणियलु भमिवि
दिक्खावणि जंबूरुक्खयलि
छट्टइ दिणि दिवसभाइ अवरि
देवें केवलु उपाइयउं
गयणगलग्गमाणिक्कसिहु
छाहर्यणहमंडलु पंचविहु

मणपज्जवणाणें भूसियउ ।
णंदेण णमंसिउ पुरिसंपुरु ।
आहारु दिण्णु परमेसरहु ।
तर्हि चोज्जु वियंभिउं पंचविहु ।
संचच्छर तेण तिण्णि गमिवि । 5
माहम्मि मासि ससियरधवलि ।
छव्वीसमि जायइ उडुपवरि ।
तियसउलु ण कत्थइ माइयउं ।
संपत्तउ दहविहु अट्टविहु ।
सोलहविहु तेत्थु वि तं तिविहु । 10

ग्रन्था—थुणइ सुराहिवइ कुसुमइं धिवइ अरुहहु उप्परि पायहं ॥
जिण तुहुं गयमालिणि हियवयणलिणि वसहि रिसिहि हयरायहं ॥९॥

10

यत्तीसहं इंदहं तुहुं हियइ
तुहुं चंदु ण चंदु विमलवहणु
तुहुं सरहि ण सरहि वि खारजहु
पइं एहउ तेहउ जं कहमि
जहिं अचलइ तिजगु परिट्टियउं
संचलइ जेण जें परिणवइ
जं वण्णगंधरसफासधरु
पइं दिट्टइ दीसइ तं सयलु
पइं दिट्टुं मुच्चइ चउगइहि
तुह सुहि संपावइ परमु सुहुं

तुहुं संसेविउ सासयसियइ ।
तुहुं सूरु ण सूरु वि णिइहणु ।
तुहुं हरु णउ हरु वि पमंजु णहु ।
तं हउं बुहलोइ हासु लहमि ।
जें रुद्धउं णिच्चलु संठियउं । 5
जें णिच्चमेव चेयण वहइ ।
जं अवरु वि काइं वि वरु अवरु ।
तुट्टइ दढमोहलोहणियलु ।
पहु होइ जीउ पंचमगइहि ।
वइरियउं णिरंतरु तिव्वु दुहुं । 10

9 AP जइवइ. २ AP णंदउरु. ३ AP पुरिसवरु. ४ A छम्मत्थें. ५ A वावीसमि;
P छावीसमि. ६ AP छाइउ णहमंडलु. ७ A गयरायहं.

10 १ A पमत्तणहु. २ A जेण जं परि. ३ A वहरिउ ण णिर.

9 1 a जयवइ जगत्पतिः. 2 b पुरिसपुरु पुरुषप्रधानः. 7 a अवरि पश्चिमे; b छव्वी-
समि उत्तराभद्रपदे. 10 a पंचविहु ज्योतिष्का देवाः. 12 हियवयणलिणि विसक्तमंडः; हयरायहं
हतरागाणां मुनीनाम्.

10 1 b सासयसियइ शाश्वतलक्ष्म्या मोक्षलक्ष्म्या. 2 विमलवहणु विरूपकलाञ्जनधारकः.
3 a सरहि जलधिः; b हरु शिवः. 4 b बुहलोइ पण्डितजने. 5 b णियलु शृंखला. 10 a सुहि
सुहृत्.

तुहुं पुणु दोहं मि मज्झत्थमणु इयं चोञ्जु सहियवइ धरइ जणु ।
 घत्ता—वेइहरवणहिं बहुतोरणहिं धयपंतिहिं पिहियेकें ॥
 परिहागोउरहिं सालहिं सरहिं समवसरणु किउ सैकें ॥ १० ॥

11

तहिं जाया णीसरंतञ्जुणिहिं	पण्णास पंच गणहरमुणिहिं ।
गज्जंतमेहगंभीरसर	एयारहसयमिय पुव्वधर ।
छत्तीससहस पुणु पंचसय	तीसुत्तर सिक्खुय मुणियणय ।
चत्तारि सहस अडसयवरहं	अणगारहं सव्वावहिहरहं ।
पणसहसइं अवरु वि पंचसय	घोसंति साहु संजय विमय ।
केवलिहिं रिसिहिं मणपज्जयहं	णयसहसइं वेउव्वणवयहं ।
सहसाइं तिण्णि लेसासयइं	वाइहिं विद्धंसियपरममइं ।
संजइयहुं लक्खु तिसहससहिउं	सावयहं लक्खजुयलउं कहिउं ।
परियाणियजिणगुणपरिणइहिं	चत्तारि लक्ख तहु सावयहिं ।
तियसेहिं असंखहिं वंदियउ	संखेज्जतिरियअहिणंदियउ ।
तिवरिसरहियइं णडियच्छरहं	पण्णारह लक्खइं संवच्छरहं ।
महि हिंडिवि लोयतिमिरु लुहिवि	संभेयहु सिहरु समारहिवि ।

घत्ता—आसाढट्टमिहि कसणहि तमिहि परमप्पउ णिकलु हुउं ॥
 भरहमहीवइहिं फणिसुरवइहिं विमैलु पुष्पदंतहिं थुउं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारं महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुष्पयंतविरइप महाकव्वे विमलणाहणिव्वाणगमणं
 णाम पंचवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५५ ॥

४ P इह. ५ A पिहियेकहिं. ६ A सक्किहिं.

11 १ A सिक्खिय. २ AP हुवउ. ३ विमल. ४ AP थुयउ. ५ A पंचा^१.

12 पि हि य के आच्छादितसूर्येण.

11 7 a ले सा स य इं पश्यतानि. 12 छुहि वि स्फोटयित्वा. 13 त मि हि रात्री.

सुरवंद्हु विमलजिणिंदहु तित्थि भीमु पालियच्छलु ॥
रणि अत्थिभडियउ अमरिसि चडिउ महुहि सयंभु महाबलु ॥ धुवकं ॥

1

दुवई—अवरविदेहि जंबुदीवासिइ सिरिउरि पिसुणदूसणो ॥
महिवइ णांदिमित्तु मित्तो इव णियकुलकमलभूसणो ॥ छ ॥

सो चित्तइ णियमणि णरवरिंदु	खइ सव्वु लोउ णं पुंणिमिंदु ।	5
धणु सुरधणु जिह तिह थिरु ण टाइ	पणइणि पुणु अण्णहु पासि जाइ ।	
भायर णियभायहु अवयरंति	कुलभवणि कुलहु कलयलु करंति ।	
किंकर चहुयम्मु रयंति तेव	सव्वस्सु पयच्छइ पुरिसु जेव ।	
पोसंति णियंति सिंसुं ण्हवंति	मायाउ थण्णु आसाइ देंति ।	
भइणिउ बंधव बंधव भणंति	ता जाम उयरपूरणु लहंति ।	10
सिरिलंपहु धरदवावहरणु	तणुरुहु वि पडिच्छइ तायमरणु ।	
जगि कासु वि को वि ण एत्थु अत्थि	मयगंधवसिं भमरेण हत्थि ।	
गाइ वि सेविज्जइ वच्छण	रंभासइं दुद्धहु कएण ।	
जणु इच्छइ सयलु सकजकरणु	जीवहु पुणु जिणवरधम्मु सरणु ।	
यत्ता—ईय बोल्लिवि रंज्जु पमेल्लिवि सोसियभीमभवणणउ ॥		15
जियकामहु सुव्वयणामहु पासि तेण लइयउं वउ ॥ १ ॥		

2

दुवई—जायउ सो मरेवि संणासं वम्महजलणपाविसो ॥
पंचाणुत्तरम्मि तेत्तीसमहोवाहिदीहराउसो ॥ छ ॥

भासइ गांत्तमु णियगोत्तसूरु	पंचिंदियैरिउसंगामसूरु ।
सुणि सेणियं कहमि मणोहिरामु	पइ पइ वसंति पुरणंगरगामु ।

1 १ A omits रणि. २ A पुण्णमिंदु. ३ A कुल भवणु कलहकलयलु; P कुलभवणि कुलह-
कलयलु. ४ A सुसंण्हवंति. ५ P आसाउ. ६ P इउ. ७ AP मेइणि मेल्लिवि. ८ A सोसीय^०.

2 १ AP ^०पाउसो. २ AP जो इंदिय^०. ३ A मणि कहमि. ४ A णयर^०.

1 1 पालियच्छलु पालितसंग्रामः. 2 महुहि मधुना सह. 3 जंबुदीवासिइ जम्बूद्वीपाश्रिते;
सिरिउरि श्रीपुरं. 5 b खइ क्षये विनाशकाले. 8 a चहुयम्मु चाटुकरवचनम्; b सव्वस्सु सर्वस्वम्.
9 b आसाइ वाच्छया. 12 b मयगंधवसि मदगन्धवशेन. 13 b रंभासइं गोशब्देन.

2 1 ^०पावसो मंत्रः.

गोजूहचिण्णसुहँरियतणालु 5
 तहँ सावत्थी पुरि वसणहेउ
 अवरु वि बलि तेत्थु जि अक्खकील
 चरँगमणछेज्जकड्डणपवंचु
 जाणिवि रवंति फिर बे वि जाम
 हारंतउ सपुरु सकोसु देसु 10

घत्ता—णउ हय गय णउ संदण धय एक्कु जि वसणें णडियउ ॥

वारंतहं गुरुहं महंतहं रायविलासहु पडियउ ॥ २ ॥

3

दुघई—जे ण करंति देवगुरुभासिउं दुहमगव्वपरवसा ॥
 ते णिवडंति एंव णिवरा भुवि दुज्जसमसिमलीमसा ॥ ३ ॥

मायाविणीइ विन्भमहरीइ 5
 आजाणुविलंबियँसाडियाइ
 णीसेससोक्खणिद्धाडियाइ
 जूपण ण कासु वि कुसलु एत्थु
 वंदेवि सुदंसणु मुक्कवत्थु
 तउ लेप्पिणु थिउ लंबंतहत्थु
 जइ अत्थि फलु वि तवतिव्वकम्मि
 पाडेसमि मत्थइ तासु वज्जु
 इय संभरंतु संणासणेण
 लंतवि सुरु सुक्कियसोहमाणु 10

सेजातंवलसुहंकरीइ ।
 वँर खज्जउ माणउ चेडियाइ ।
 खणि खणि आयइ ण वराडियाइ । 5
 गउ सो सुकेउ होइवि अवत्थु ।
 णाणेणालोइयसयलवत्थु ।
 न्चितवइ अट्टहाणेण गत्थु ।
 तो मारेसमि आगमियजम्मि ।
 बलि जेण महारउ जित्तु रज्जु । 10
 मुउ जायउ भूसिउ भूसणेण ।
 चउंदहसमुद्दीजिवियपमाणु ।

घत्ता—णीसंगें जिणवरलिंगें बलि देवत्तु लंहप्पिणु ॥

असरालें जंतें कालें सुरणिलयाउ चवेप्पिणु ॥ ३ ॥

५ A सुरहियं. ६ A भरहेदसि. ७ P वरगमणं. ८ A वरदायघायं; P परदायघायं. ९ P रमंति.
 १० A कउं उड्डिउं.

3 १ AP गुरुजंपिउं. २ P विडंबियं. ३ P वरि. ४ AP मुक्क वत्थु. ५ AP चोइसं.
 ६ AP पवाणु. ७ P णीसंगें.

5 a गोजूहचिण्णं गोजूथेनास्वादितम्. 6 a वसणहेउ वृत्तादिकारि. 7 अक्खकील पाशकक्रोडा.
 8 a चरं बुद्धिकौशल्येन कोष्ठकान्तर्धानैः परसारिघातेन वृत्तरमणम्; गमणं आत्मीयशारिरक्षणं कुर्वद्भिः
 स्वशारीणां परपक्षात्स्वपक्षानयनम्; छेज्जं शारिघातः; कड्डणं आत्मीयशारीणां परघातरक्षणेन स्वपक्षा-
 नयनम्; b घरहरणं व्यादिसारिभिः परगृहस्वीकारः; संचु परशारिप्रविशनप्रतिषेधेन स्वगृहावर्तनम् (?).
 9 b उड्डिउं हारितम्. 12 रायविलासहु पडियउ राजभोगास्यतितः.

3 २ णिवरा ववराः. 5 b वराडियाइ कपर्दिकया. 8 b गत्थु प्रस्तः. 12 a सुक्कियसोह-
 माणु सुक्कनेन शोभमानः. 14 असरालें बहुलेन.

4

दुबई—इह भरहम्मि रयणपुरि णरवइ णामे समरकेसरी ॥

वीणाकलपलावसणिहञ्जुणि धरिणी तस्स सुंदरी ॥ छ ॥

सो ताहं विहिं मि दिग्गयणिणाउ	लक्खणलक्खंकिर्यद्विक्काउ ।
सुउ जायउ मयरद्वयसमाणु	महु णामे णं उग्गमिउ भाणु ।
तिसयल महि णिज्जिय तेण केव	णिहिघडधारिणि धरदासि जेव । 5
तहिं कालि गहीरत्ते समुदु	दारावइपुरवरि राउ रुदु ।
महपवि तासु णामे सुहंइ	अण्णेक्क पुहइ पुहइ व्व भइ ।
तहिं पढमइ जणियउ पढमपुत्तु	अहमिंदु देउ सो णंदिमिस्सु ।
बीयइ लंतवच्चुउ रिद्धिहेउ	संजणियउ णंदणु सो सुकेउ ।
ते वेणिण वि धम्मसयंभुणाम	ते वेणिण वि ससिरविसरिसधाम ॥10
ते वेणिण वि रामसुसामदेह	ते वेणिण वि गरुयणिबद्धणेह ।
ते वे वि सिद्धविज्जासमत्थ	ते वे वि दिव्वपहरणविहत्थ ।
ते वे वि विणिग्गयमलविलेय	ते वे वि सीरहर वासुएव ।

घत्ता—गुणवंतहिं तेहिं सुपुत्तहिं दोहिं मि उज्जालियउ कुलु ॥

पहवंतहिं गयणि वहंतहिं णं ससिसूरहिं महियल्लु ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—वेणिण वि ते महंत बलवंत महाजस धोयदसदिसा ॥

वे वि मइंदगरुडवाहिणिवइ वे वि अचितसाहसा ॥ छ ॥

जयसिरिरामाउकंठिएण	घरसत्तमभूमिपरिट्टिएण ।
जणधिंभयभावुप्पायणेण	एक्कहिं वासरि णारायणेण ।
अवलोइउ चिंधचलंतमयरु	पुरवाहिरि दूसावासणियरु । 5
पुच्छिउ समंति भणु कासु सिमिरु	दीसइ भूसणरुइराहियतिमिरु ।
दुव्वसणविसेसकयंतएण	तं णिसुणिवि वुत्तु महंतएण ।
रमणीयपंपसपुराहिवेण	मंडलियपं ससिसोमं णिवेण ।

4 १ AP लक्खंकिउ. २ AP सुभइ. ३ P लंतवि चुउ. ४ AP पवहंतहिं.

5 १ AP एक्कम्मि दियहि. २ A सुमंति. ३ AP रमणीयवेस^०.

4 2 वी णेत्या दि वीणायाः कलमनोहरप्रलापसहस्रध्वनिः. 5 a तिसयल त्रिशकला त्रिखण्डा. 11 a रामसुसामदेह शुकुदेहः कृष्णदेहश्च. 15 पहवंतहिं प्रभावद्भ्याम्.

5 2 मइंदगरुडवाहिणिवइ मृगेन्द्रवाहिनीपतिर्बलभद्रः; गरुडवाहिनीपतिः कृष्णः. 5 b दूसावासणियरु पटकुटीसमूहः. 6 a समंति आत्मनो मन्त्री; सिमिरु शिविरम्; ७ रहिय^० आच्छादितम्. 8 b ससिसोमं चन्द्रसौम्यनाम्ना.

भीष्ण देव परिहरिवि दप्पु महुणरणाहहु पेसियउ कप्पु ।
 मायंग तुरय मणि दिव्व चीरं कंकणकडिसुत्तयहारिहारु । 10
 आसिकरकिकररक्खिज्जमाणु ओहच्छइ पत्थु णिबद्धाणु ।
 यत्ता—विहसंतं भणिउं अणंतं पालियेच्चाउव्वण्णहु ॥
 जीवंतहु महु पेक्खंतहु जाइ कप्पु किं अण्णहु ॥ ५ ॥

6

दुवई—जिम लंगलि णरिंदु जिम पुणु हउं पुहविहि अधरु को पइ ॥
 णिच्छउ धिवमि कुद्धकालाणणि पिक्कउ महु व सो मइ ॥ छु ॥
 ता मंतं बुत्तउ भो कुमार किं गज्जसि किर परत्तियार ।
 महुराउ भणहि महुघोइ काइ हा ण वियाणहि तुहुं तहु कयाइं । 5
 मययंत णरेसर णिहिल व्हिय महि जेण तिखंड बलेण गहिय ।
 णिज्जिय विज्जाहर जक्ख जेण आहवि को जुज्झइ समउं तेण ।
 तं णिसुणिवि णीलणियासणेण पडिवयणु दिण्णु संकरिसणेण ।
 महु भाइहि रणि देव वि अदेव तुहुं वण्णहि अरिवरु वप्प कैव ।
 पुरिसंतरु ण मुणहि णिधिवेय ता पेसिय किंकर उग्गतेय ।
 रणि हणिवि जिणिवि ससिसोममंति संधिवि बंधिवि णं विंझदंति । 10
 आणिय मायंग तुरंग करह सोवण्णहार वरवसह सरह ।
 यत्ता—आहरणइं पसरियकिरणइं कण्हहु अग्गइ यित्तइं ॥
 पडिणेत्तइं वण्णविचित्तइं णं रिउअंतइं पित्तइं ॥ ६ ॥

7

दुवई—ससिसोमेण देव जं पेम्पिउ तं खलदुक्खदाइणा ॥
 हित्तउं तुज्झ दव्वु आंवंतउ रुद्धसुण्ण राइणा ॥ छु ॥
 इय णिसुणवि चरवयणाउ वयणु किउ रापं मुहुं रत्तंणयणु ।
 पट्टुविउ धओहरु गउ तुरंतु धरणीतणयहु वज्जरइ मंतु ।
 किं भग्गउ वसुमइणाहमाणु किं हित्तु हेमु आगच्छमाणु । 5

४ A चारु. ५ A परिपालिये^० with परि in the margin.

6 १ A णीलणियासणेण; P णीलणियंसणेण. २ A सोवण्णभार.

7 १ AP खल दुक्ख^०. २ AP आणंतउ. ३ P रत्तंणयणु.

9 b कप्पु करमारः. 10 b 'हारिहार मनोजहारः. 12 पालियच्चाउव्वण्णहु पालित्चातुर्वर्ण्यस्य मम पद्यतः.

6 2 पिक्कउ महुव पक्कमधुवत्. 4 a महुघोइ मधुगण्डूपः. 7 a णीलणियासणेण नील-
 वल्लेण. 13 पडिणेत्तइं शत्रुनेत्राणीव; पित्तइं पित्तानि.

7 2 आवंतउ आगच्छत्. 4 a व ओहरु वचोहरो दूतः.

किं खलिउ गयणि दिणयरु भमंतु आमंतितु किं भुक्खिउ कयंतु ।
 हा हे विबुद्धि धगधगधगंतु उच्चोद्धिहि अंगालउ णिहित्तु ।
 किं तोडिउ केसरिकेसरग्गु किं महिवइआणापसरु भग्गु ।
 आहव्वभावु परिहरहि दोसु पट्टवहि ससामिहि सव्वु कोसु ।
 ता चवइ उविंदुप्पणरोसु दक्खालमि तहु असिवरु विकोसु । 10
 जइ लोहिउ णउ पायमि पिसाय तो छित्ता लइ मइ धम्मपाय ।
 ता दूयहु मुहि णीसरिय वाय जिह जंपइ तिह को धिवइ घाय ।

घत्ता—कहजोग्गइ महिलहुं अग्गइ सयलु वि गज्जइ णिययघरि ॥
 जससंगहि जीवियणिग्गहि विरलउ पहरइ संगरि ॥ ७ ॥

8

दुवई—एवं चवंतु दूउ गउ रायहु कहियउ तेण वइयरो ॥
 देव ण देइ कप्पु वसुहासुउ गलगज्जइ भयंकरो ॥ छ ॥

ता वासुपवस्स	पडिवासुपवस्स ।	
दुंदुहिणिणायाइं	रणभूमिआयाइं ।	
संणाहवद्धाइं	णिइयइं कुद्धाइं ।	5
सेण्णाइं जुज्झंति	वीरेहिं रुज्झंति ।	
खग्गेहिं छिज्जंति	कांतेहिं भिज्जंति ।	
वम्माइं लुम्मंति	रत्तेण तिम्मंति ।	
चम्माइं फुट्ठंति	अट्टियइं तुट्ठंति ।	
बूहाइं विहडंति	मंडलिय णिवडंति ।	10
अंतेहिं गुप्पंति	खेयर समप्पंति ।	
वहुंतसमरट्ठि	गयदंतसंघट्ठि ।	
गरुलेस महुराय	उक्खित्त णाराय ।	
चिरवइरियालग्ग	धणुवेयकयमग्ग ।	
पंचाससरहेहिं	मायंगसीहेहिं ।	15
फणिपक्खिरापहिं	मेहेहिं वापहिं ।	

४ A इंगालउ.

8 १ AP तुट्ठंति. २ AP फुट्ठंति.

8 b उच्चो लि हि कटीवस्से. 9 a आहव्व भा बु प्रसृताभिलापः. 11 a पि सा य पिशाचान्.

8 1 वइयरो व्यतिकरः. 8 a वम्मा इं मर्माणि. 10 a बूहा इं व्यूहाः. 11 अंते हिं अन्त्रैः.
 12 a वहुंतसमरट्ठि वर्षमानाहंकारे. 14 b धणुवेयकयमग्ग अनुर्वेदे कृतो मार्गः प्रवृत्तियोभ्याम्.
 15 a पंचास^० सिंहः.

पहरंति ते बे वि ता चक्कु करि लेवि ।
 महुणा पजंपियउं कि दविणु महुं हियउं ।
 घत्ता—किं धम्मं गयभडकम्मं जो पहरणु णावेक्खइ ॥
 मइं कुइइ जयसिरिलुइइ एमहिं को पइं रक्खइ ॥ ८ ॥ 20

9

दुषई—ता दामोदरेण रिउ दुंछिउ धम्मपहाणुआरिणा ॥
 एण रहंगएण दारेव्वउं तुहुं मइं कित्तिकारिणा ॥ छु ॥

तं सुणिवि	भुय धुणिवि ।	
मणहरिहि	सुंदरिहि ।	
विउसयण-	कयवयण-	5
विणुएण	तणुएण ।	
खयकरण	रहचरणु ।	
गणि मुक्कु	खणि दुक्कु ।	
णहि चलिउं	जेलजलिउं ।	
समियक्कु	करि थक्कु ।	10
अहिणवहु	केसवहु ।	
तं धरिवि	छलु भरिवि ।	
दीहरेण	मच्छरेण ।	
विप्फुरिवि	हुंकरिवि ।	
माहवेण	घणरवेण ।	15
तणु गणिउं	अरिभणिउं ।	
रे पाव	करि सेव ।	
दुइहरहु	हलहरहु ।	
पइं कालु	दाढालु ।	
सेवंतु	घोरंतु ।	20
रूसेविउ	उट्टविउ ।	
कहुईवि	छलु मुइवि ।	
ओसरहि	मा मरहि ।	
घणघणइ	काणणइ ।	
पइसरिवि	जिणु सरिवि ।	25

9 १ AP दामोदरेण. २ P^०पहाणुरायणा. ३ A जले जलिउ. ४ AP तूसविउ. ५ A कंडएवि.

9 1 दुंछिउ निर्भस्मितः; धम्मपहाणुआरिणा धर्ममार्गानुच्चारिणा. 6 a विणुएण स्तुतेन;
 b तणुएण सुन्दरीः पुत्रेण. 7 b रहचरणु चक्रम्. 10 समियक्कु शमितार्कम्. 12 b छलु भरिवि
 पौरुषमवलम्ब्य.

ध्रुव धरहि	तउ करहि ।	
ता चवइ	चक्रवइ ।	
सुरउइ	दालिइ ।	
डिभस्स	बुहियस्स ।	
को कंदु	आणंदु ।	30
मणि जणइ	दिहि कुणइ ।	
सयडंगु	तुहुं तुंगु ।	
महुं चहुं	भुयदंडुं ।	
सकयत्थ	दिव्वत्थ ।	
मरु हणमि	सिर लुणमि ।	35

घत्ता— ता चकें महुमहमुकें महुवच्छत्थलु छिण्णउं ॥
करतवें णं रविधिंवे कालउ अब्भु विहिण्णउं ॥ ९ ॥

10

दुवई— पत्तउ महु मरि वि समरंगणि तमतमणांमवसुमई ॥
जायउ अद्धचकि लच्छीहरुं भुवणि सयंभु महिवई ॥ छ ॥

जलकीलइ वणकीलइ रमतु	अंगाइं कुसुमसयणइ धिवंतु ।	
भंडारवत्थुसारइं णियंतु	मायंगनुरंगसमारुहंतु ।	
घवघवघवंतुं चलणेवराइं	माणंतु चारुंअंतेउराइं ।	5
आसत्तु कामि णं भमरु गांधि	मुउ हुउ अंतिमणरयंतरंधि ।	
णिवसेप्पिणु पुहईजणणिगग्भि	हा हा सइंभु पडिओ सि सुब्भि ।	
सम्मत्तवंति मिच्छत्तविरइ	मइं भायरम्मि जिणधम्मणिरइ ।	
बुद्धो सि ण कम्महु अत्थि मल्लु	किं बद्धउ आसि णियाणसल्लु ।	
इय एव धम्मु विरएवि सोउ	णंदणहु समप्पिवि सिरिविहोउ ।	10
आउच्छिवि परियणु सर्यणु लोउ	दुज्जोउ व भेल्लिवि दिव्वभोउ ।	

६ AP वउ. ७ P कुंदु. ८ A चंड. ९ A दंड.

10 १ P णामि. २ P लच्छीहउ. ३ A घवंतचल. ४ AP णंउराइ. ५ AP माणंतु सुहयअंत. ६ AP सयल.

30 a कंदु इन्दुः. 32 a सय डंगु शकटाङ्गं चक्रम्. 37 करतवें किरणताम्रेण; वि हि ण्ण उ विदारितम्.

10 1 तमतमणामवसुमई सप्तमनरकभूमिः. 5 a चलणेवराइं चलनूपुराणि. 6 अंतिमणरयंतरंधि सप्तमनरकच्छिद्रे. 7 b सुब्भि श्वभ्रे नरके. 10 a विरएवि सोउ शोकं कृत्वा; b सिरिविहोउ श्रीविभोगः. 11 b दुज्जोउ दुष्टग्रहादीनां योग इव.

पणवेवि विमलवाहणु जिणिंदु
पावेप्पिणु करणविहीणणाणु

बहुरायहिं सहं ह्यउ मुणिंदु ।
भव्वयणि णिउंजिवि धम्मदाणु ।

घत्ता—भरहेसरु पढमणरेसरु जिह तिह धम्मु वि दढभुउ ॥

गउ मोक्खहु सासयसोक्खहु पुष्पदंतगणसंथुउ ॥ १० ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे धम्मसयंभुमहुकहंतरं
णाम छण्णणासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५६ ॥

७ A भव्वयण. ८ AP णिजुंजिवि. ९ A पुष्पयंत°. १० A महुमहकहंतरं.

13 a करण वि ही ण णा णु इन्द्रियरहितं केवलज्ञानम्.

पुणु भासइ गोत्तमु सेणियहु दुद्धरदुक्खकिलेसमह ॥
सिरिविमलणाहजिणगणहरहं मंदरमेरुहुं तणिय कह ॥ ध्रुवकं ॥

1

जंबूदीवइ अवरविदेहइ
मंदचूयच्चवच्चिचिणिचारइ
देसु गंधमालिणि जाणिज्जइ
भमरहिं वियलंतउं महु पिज्जइ
जहिं माहिसु सरसलिलम्भंतरि
अहिणवपल्लववेल्लीभवणइ
गंधसालिपरिमल्लु दिस वासइ
णिइवि छेत्तवाल्लिणिइ मुहुल्लउं
दहिउल्लउं जहिं कूरकरंबउ

माणवमिहुणयवहियणेहइ ।
सीओयाणइउत्तरतीरइ ।
गाइहिं कंगुकाणिसु जहिं चिज्जइ । 5
पम्भिवहिं कलरवु जहिं विरइज्जइ ।
ग्हाइ पउरपंकयरयपिंजरि ।
गोव सुवंति पुष्पपत्थरणइ ।
पूसउं कं धुणंतु जहिं वासइ ।
जहिं पंथिय चवंति सरसुल्लउं । 10
पवहि पवहि जिम्मइ अंबंबउ ।

यत्ता—तहिं देसि रवण्णु सुवण्णमउ णहविलगगमंदिरसिहरु ॥
परिहापायारहिं परियरिउ वीयसोउ णामे णयरु ॥ १ ॥

2

रायमहारिसि मुक्कवियारउ
जाइ जणिउ सा धण्णी णिव सइ
गेहिणि भव्व सव्वसिरि णामे
संजयंतु अण्णेक्कु जयंतउ
सारसमिहुणसरालवणंतरि
एकहिं दिणि दक्खवियरहंतहु
धम्मु अहिंसावंतु सुणेप्पिणु

सो सुयणायाणायवियारउ ।
णरवइ वइजयंतु तहिं णिवसइ ।
सुय उप्पण्णा सुहपरिणामे ।
अणिहणजसधवलियतिजयत्तउ ।
णासियसोय असोववणंतरि । 5
पयजुयल्लउं वंदिवि अरहंतहु ।
हियउल्लउं मुणिमग्गि धेबेप्पिणु ।

1 १ AP चूयच्चवि०. २ A गंधमालिणि. ३ A पूसउ कण चुणंतु; P पूसउ कण चुणंतु.

2 १ AP तिजयंतहु. २ A जिणमग्गि. ३ T सुणेप्पिणु सुट्टु नीत्वा.

1 1 ० किलेसमह ० क्लेशमथिका. 5 b चिज्जइ भक्ष्यते. 7 b पउरपंकयरयपिंजरि प्रचुरपन्न-
रजःपीते. 8 b पुष्पपत्थरणइ पुष्पास्तरणके. 9 b पूसउकंधुणंतुजहिंवासइ यत्र शुक्रः मस्तकं
कम्पयन् शब्दं करोति. 11 a दहिउल्लउं दधियुक्तम्; b पवहि मार्गे; पवहि प्रपायाम्; अंबंबउ अति-
शयेन अम्लः.

2 1 a रायमहारिसि राज्ञां प्रधानः, राजपूज्यः; b सुय श्रुतम्. 2 a सइ सती पतिव्रता.
3 b सुय सुतौ. 5 a ० सरालवणंतरि शब्दयुक्तजलविशेषे. 6 a दक्खवियरहंतहु दर्शितान्तरायान्तरस्य.

वहजयंतणामहु सहेपिणु
ते तिविहें णिव्वेपं लइय
आमेह्लियणियसुललियजाया
इय तवविहिहि णिति किर के बलु

संजयंततणयहु महि देपिणु ।
छिदिविं मोहलोहदुल्लइय ।
पिउ पुत्तय तिण्णि मि रिसि जाया । 10
वप्पहु उप्पणउ जहिं केवलु ।

घत्ता—तहिं आयहु देवहु फणिवइहि रूवु णिहालिवि हिययहरु ॥
णिज्जायइ लुद्धु जयंतु मुणि जइ फलु देसइ सुतवतरु ॥ २ ॥

3

तो मज्झु वि एहउं लायणउं
एव णियाणणिवंधंणवंधउ
मुउ जयंतु संपत्तइ कालइ
जेण वपण मोक्खु पाविज्जइ
मोहें मोहिउ लोउ ण याणइ
सवरुल्लउ किं मोत्तिउं बुज्झइ
आहिंडंतसरहपंचाणणि
णिज्जियरापं वज्जियकापं

होज्जउ भवि सोहग्गाइणउं ।
जणु तिहिं सल्लहिं सयलु वि खड्डउ ।
जायउ विसहरिंदु पायालइ ।
तें संसारु केंव मग्गिज्जइ ।
काणणि कायाणंतिय वीणइ । 5
मिच्छाइद्विहि दिट्ठि ण सुज्झइ ।
तावेक्कहिं दिणि भीसणकाणणि ।
संजयंतु धिउ पडिमाजोपं ।

घत्ता—मुणिमारउ धीरउ दुदरिसु दूसहु गुणसंणिहियसरु ॥
णियभामइ सामइ रामियउ णं रइरामइ कुसुमसरु ॥ ३ ॥ 10

4

णहयलि विज्जुदादु विज्जाहरु
सुरहरु रिसिहि उवरि ण पयट्टइ
ताव तेण अवलोइउं महियलु
सुमरिवि पुव्ववइरु भुइ दोइउ

विहरइ असिवरु वसुणंदयकरु ।
दुज्जणमणु व णं जाव विसट्टइ ।
दिट्ठउ मुणिवरु मेरु व णिच्चलु ।
विज्जासामत्थेणुच्चाइउ ।

४ AP दुल्ललिय. ५ A वप्पहं.

3 १ AP °बद्धउ. २ A कायाणंणिय. ३ A मिच्छाइद्विहि. ४ P आहिंडंत सरह°.

4 १ A विज्जदादु. २ AP जाव ण.

9 b °दुल्लइय दुर्लतिकाम्. 10 a °जाया भार्या. 11 a णि ति किर के बलु नयन्ति के नरा बलं शक्तिम्,
के पुरुषाः प्राप्नुवन्ति यथा पितुः केवलमुत्पन्नम्.

3 1 b सोहग्गाइणउं सौभाग्याकीर्णं व्याप्तम्. 5 b कायाणंतिय काकणी गुञ्जा; वीणइ
प्रार्थयति. 6 a सवरुल्लय भिल्लः. 8 a णिज्जियरापं निजितरणेण. 10 णियभामइ सामइ श्यामा-
नाभ्या निजभार्यया; रामियउ अनुरजितः.

4 2 a सुरइरु बिमानम्. 4 a भुइ दोइउ बाहुभ्यां विषये धृतः.

आणिउ तुंगसाहिसंघायइ
हरिवइ करिवइ चामीयरवइ
एयँउ मिलियउ जहिं तहिं पेछिउ
देसु असेसु तेण संचालिउ
णगउ णिग्घिणु वसणोवायउ
दुम्मुहु दुडुबुद्धि विवरेरउ
ता मणुयहिं मुणिंदु कयरोसहिं

भारहवरिसंपुव्वदिसिभायइ । 5
कुसुमवइ वि चंडवेर्याणइ ।
पंचमहासरिसंगमि घल्लिउ ।
अच्छइ एत्थुं एक्कु मलमइलिउ ।
तुम्हइं रक्खसु भक्खहुं आयउ ।
हणइ कुण्ह जइ मंतु महारउ । 10
ताडिउ उवलहिं दंडसहासहिं ।

घत्ता—यिरं सत्तु मित्तु समभावि थिउ सुक्कझाणसरुद्धमणु ॥

सो खवउ खँवयसेदिहि चडिउ तिणु वि ण मण्णइ णियवतणु ॥४

5

साहु भीमु उवसग्गु सहेप्पिणु
गउ तहिं जहिं गउ पुणरवि णावइ
मारिजंतु वि वइरिसमूहें
ताहं मि जणु पहरणु किं धारइ
सहुं देवहिं भवभावणिसुंभइ
आयउ सो जयंतु उरंजंगउ
फुक्कारुद्धावियणहयंदें
माणवणिवहु णिबद्धउ णायहिं
अवरहिं बुत्तु फणिंद वियारहि
उक्खयखगं मच्छरगहें
परियणसयणहिं सहुं थरहरियउ

तिकलेवरणिबंधु मेहेप्पिणु ।
मुणिवरलील तिजगि को पावइ ।
जे कया वि घिप्पंति ण कोहें ।
जहु अर्पणु अप्पाणउं मारइ ।
तहिं णिव्वाणपुज्ज पारंभइ । 5
पेच्छिवि चिरबंधुहि पडियंगउ ।
आरूसेप्पिणु खाणि धरणिंदें ।
विणिहंउ णीससंतु कसघायहिं ।
अम्हइं काइं भडारा मारहि ।
एउं सव्वु विलसिउं तडिदाहें । 10
ता णासंतु सत्तु सो धरियउ ।

घत्ता—किर वंधिवि घिवइ समुहजलि ता फणिवइ दुम्मियहियउ ॥

आइच्चपहावें सुरवरिण करुण करेप्पिणु पत्थियउ ॥ ५ ॥

३ A °वरिसि पुव्व. ४ A कुसुमचंडई व पाणइ; P कुसुमवइ वि चंडवियाणइ. ५ A जहिं एयउ मिलि-
यउ तहिं पेछिउ. ६ AP एक्कु एत्थु. ७ P कुणाइ. ८ A दुडुसहासहिं. ९ AP थिउ. १० AP
खवगामेदिहि.

5 १ A मलेप्पिणु. २ AP जहिं सो गउ पुणु णावइ. ३ A मोहें. ४ AP अप्पाणउं अप्पणु.
५ AP उरजंगसु. ६ A वणि हउ. ७ AP °आइच्चपहाहि. ८ A करणु; P करणु.

5 a °सा हि संघायइ वृक्षसंघाते. 6 a हरिवइ हरिमत्यादिपञ्च सरितः; b चंडवेया चंडवेगा. 9 a
वसणोवायउ दुःखोत्पादकः. 13 खवउ क्षपकः.

5 5 a भवभावणिसुंभइ संसारस्फेटके. 6 a उरजंगउ सर्पः धरणेन्द्रः. 8 a णायहिं
नागपाशेन; b कसघायहिं कशाघातैः. 9 a वियारहि विचारय. 10 b विलसिउं चेष्टितम्.
13 कइणकरेप्पिणु करुणां कृत्वा.

6

पायराय पहएं किं आपं
मुइ मुइ किं किर कलुससहावें
एत्थु ण को वि वंधु णउ वहरिउ
जेण सुसीलवंतु संताविउ
किर मुणि तवदुर्गिख तणु तावइ
इहु हिंसइ इहु धम्मि पयट्टइ
तं णिसुणेवि रोसु मेह्लेप्पिणु
दारणमारणविहिचिच्छणणउं

लज्जिज्जइ णिहएण वरापं ।
पावयम्मु सइं खज्जउ पावें ।
पिसुणु ण होइ एहु उवयारिउ ।
मोक्खु तुहारउ भायरु पाविउ ।
अण्णे किउ तं तहु णिरु भावइ । 5
चउंजम्मंतरु दोहं वि वट्टइ ।
चवइ अहीसरु सिरु विहुणेप्पिणु ।
भणु किह विहिं मि वइरु संपंणउं ।

घत्ता—तं णिसुणिवि दरंदरिसियदसणदित्तिइ जगु धवलउं करइ ॥

कह देवदिवायराहु फणिहि वहरुसभावहिं वज्जरइ ॥ ६ ॥ 10

7

भारंहगोत्तखेत्तरक्खणवइ
सयलकलाविण्णाणवियक्खण
पढमु मंति सिरिभूइ विणीयउ
विहसियंसरलसरोरुहणेत्तउ
तहु गेहिणिहि सुमित्तिहि हूयउ
हिंडतें जाएण जुवाणें
तेण किरणसंताणसिणिद्धंइ
देसिएण सीहउरि वसंतें
तक्करभीणं रुइविच्छणणइं

सीहसेणु सीहउरि महीवइ ।
रामयत्त तहु देवि सलक्खण ।
सच्चघोसु अवरु वि तहिं वीयउ ।
पउमसंडपुरि सेट्टि सुदत्तउ ।
भदमिचु सिसु णिरुवमरुवउ । 5
देसंतरु लंघिवि पहरिणें ।
रयणदीवि वररयणइं लद्धइं ।
सुद्धसहावें बहुगुणवंतें ।
सच्चघोसमतिहि करि दिण्णइं ।

घत्ता—गउ अण्णु पुणरवि णियघरहु लेवि सहायसमागयउ ॥ 10

जा मग्गइ रयणइं णिहियाइं ताव लुहु लोहें हयउ ॥ ७ ॥

6 १ P चउंजम्मं तरुदेहविषट्टइ. २ A उण्णउं. ३ AP दरंदरिसिय^०. ४ A देवदिवा-
यरु तहो; P देउ दिवायराहु.

7 १ AP भारहवेत्ति खेत्त^०. २ A रामदत्त. ३ A सो चिय सच्चघोस पुणु भणियउ;
P सोत्तिय सच्चघोसु तहिं भणियउ. ४ AP वियसिय^०; K वियसिय^० but corrects it to विहसिय.
५ AP सणिद्धंइ.

6 1 a पहएं किं आपं एतेन प्रहनेन किम्. 3 b उ व यारिउ उपकारकर्ता. 7 b वि हुणे-
प्पिणु कम्पयित्वा. 9 दरंदरिसियदसणदित्तिइ इंपदसितदन्तकान्त्या. 10 कह कथा.

7 6 b पहरिणें अध्वकान्तेन. 8 a देसिएण परदेशप्राप्तेन.

8

देइ ण मंति तासु पियरयणइं
वणिर्वरु घरि घरि फुडु पुक्कारइ
पुच्छिउ राएं कालउ तंबउ
दीणु रयंतउ णिञ्चु जि दीसइ
घोसहि सच्चघोस किं जुत्तउं
हउं वि तुहुं वि जइ चोरु णिरुत्तउ
तो किं जियइ को विं भुवणंतरि
हिंडइ दव्वपिसाएं भुत्तउ
णउ चोरु चित्तंतं गहियउं

णाइं विरत्तउ विडयणु णयणइं ।
खलु लच्छीमपण अवहेरइ ।
हित्तउ काइं वत्थुणित्तंबउ ।
पइं दूसइ अण्णाउ पघोसइ ।
तो विहसेप्पिणु विप्पे वुत्तउं । 5
जणणि गिलइ जइ डिंभउ सुत्तउ ।
एहु लयउ चोरोहिं वणंतरि ।
जंपइ जं जि तं जि अवचित्तउ ।
ता रापण वि तं सहहियउं ।

प्रत्ता—वणि डिंभसहाँसहिं परियरिउ भमइ णयरि परिमुक्कसरु ॥ 10
आरुइइ करुणु सूरुग्गमणि णिवर्धरणियडइ चडिवि तरु ॥ ८ ॥

9

मइं दिहिवंतइ सीलविमुद्धइ
परवंचणगुणतग्गयचित्तहिं
णिरणुट्टाणु दीणु दालिंहिउ
तहुं जंपिउ ण को वि आयण्णइ
णिधं तुह मंदिरि चोरहं उण्णइ ।
एम चवेप्पिणु सुंदरु विहियउं
पयहिं पडंतु संतु हकारिउ
दोहिं मि अक्खजूउ पारुद्धउं
मज्झु जाइ णीसेसहु देसहु
चामीयरसोहासोहिल्लहि

ता महपविइ वुत्तु विरुद्धइ ।
महिवइमइ भामिज्जइ धुत्तहिं ।
अप्पणु जइ वि होइ सोहहिउ ।
राउ वि णिद्धणवयणु ण मण्णइ । 5
पासाहलउ पासि सण्हियउ ।
आउ महंतु तहिं जि वइसारिउ ।
देविइ भल्लउं उत्तरु लद्धउं ।
तुज्झु विं सुत्तहु दियवरवेसहु ।
अवरु वि मुद्धइ मणितेइल्लहि । 10

8 १ A वणि वरु पुंडरीउ पुक्कारइ. २ AP राएं वणिउ चवंतउ. ३ P तो. ४ A omits वि.
५ A चोरु. ६ AP चित्तंतं. ७ A °सहासि. ८ AP णिवर्धरि णियडउं.

9 १ P तहिं. २ A adds this line in second hand; P omits it. ३ AP जि.
४ AP मुद्धहि.

8 1 b वि डयणु विटजनः. 2 b अवहेरइ भर्त्सयति. 3 b वत्थुणित्तंबउ वस्तु रत्नम्;
णित्तंबउ समूहः; रत्नसमूह इति यावत्. 8 b अवचित्तउ उद्भ्रान्तचिन्तः. 9 a चित्तंतं चिन्तनं
कुर्वता. 11 णिवर्धरणियडइ राजगृहसमीपे.

9 1 b विरुद्धइ विरुद्धया कुपितया. 2 b महिवइमइ राज्ञां मतिः. 3 a णिरणुट्टाणु निरु-
द्यमः; b सोहहिउ मौहार्दयुक्तः. स्नेहयुक्तः. 6 b पासाहलउ पाशाफलकः. 8 a अक्खजूउ सारिबूतम्.

बिण्णि वि एयइं भूसियगत्तइं
महियंगुलियइ वज्जुजलियइ

रायाणियइ छइल्लइ जित्तइं ।
उववीयउ सहुं अंगुत्थलियइ ।

यत्ता — तं णिउणमईहिं समणियउं धाइहिं हियवउं हरिसियउं ॥

अहिणाणु महामंतिहिं तणउ भंडांयारिहिं दरिसियउं ॥ ९ ॥

10

पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ
अच्छइ गुरु राउलि अवलोयहि
तां कोसाहिवेण सामुंगउ
गय सा तं लेप्पिणुं खणि तेत्तहि
जूयपवंचु पहुहि वज्जरियउ
ता रापं पायावलज्जडियइं
पडिहारं आहूयउ वणिवरु
भणिउं णरिंदं वणिउ णिरिक्खइ
लइयउ तेत्थु तेणं णियमणिगणु
दिण्णउं पुरमहल्लसेट्ठित्तणु
मंतिणिरिक्कु दुक्कु अवमाणहु
सीसि तीस खरंटक्करघायहिं

चिंधु पदंसिवि बुत्तउं धुत्तइ ।
भइमित्तमाणिक्कइं ढोयहि ।
अप्पिउ धाइहि वत्थुसमुग्गउ ।
अच्छइ सणिवणिवाणी जेत्तहि ।
वसुविसेसु कुडिले अवहरियउ । 5
अण्णइं रयणइं तहिं तौतडियइं ।
लइ णियमाणिक्कइं पसरहि करु ।
णियधणु किं ण को वि ओलक्खइ ।
जिह मणिगणु तिह णरणाहहु मणु ।
पावइ को ण सुइत्ते कित्तणु । 10
कंसथालि खावाविउ छाणहु ।
ताडिउ मल्लहिं कुंचियकायहिं ।

यत्ता - कसपहरपरंपरसुद्धियतणु वरवेयणवद्धियजरउ ॥

मुउ रायहु उण्णरि कुवियमणु हुउ वसुवासइ विसंहरउ ॥ १० ॥

५ AT विज्जुजलियइ; but gloss in T हीरदीप्पया. ६ A महिवइहियउं. ७ P भडायारिहे.

10 १ P तो. २ A साचमउ; P साममउ. ३ P लेप्पिणु तंखणि. ४ P सणिवइराणी.
५ P adds वि after तेण. ६ A पावइ को ण सुइत्ते; P पावइ किं ण सुइत्ते. ७ A सीस तीस खर-
टक्कर^०; P सीसि तीस खरटक्कर^०. ८ A धणवेयण^०; P वणवेयण^०. ९ A विसहरु.

11 b छइल्लइ चतुरया. 12 a महियंगुलियइ पूजिताङ्गुलिकया; वज्जुजलियइ हीरकैदीप्पया;
b उववीयउ यज्जोपवीतम्. 11 भंडायारिहिं भाण्डागारिकस्य.

10 1 a पप्फुल्लियसुवत्तसयवत्तइ प्रोत्कुलितसुवक्त्रकमलया. 3 a सामुग्गउ समुद्रकः
करण्डकः; b वत्थुसमग्गउ वस्तुपूर्णः रत्नपरिपूर्णः. 4 b सणिवणिवाणी स्वनृपभार्या. 5 b वसुविसेसु
द्रव्यविशेषः. 6 a पायावलि^० किरणपंक्तिः; b तौतडियइ मिश्रितानि. 10 b सुइत्ते शुचित्वेन. 11 a
मंतिणिरिक्कु मन्त्रिचोरः; b छाणहु गोमयस्थ. 13 ^०मुडिय^० शूना; वरवेयण^० तीव्रवेदनाः. 14 वसु-
वासइ भाण्डागारे.

11

भीसु अगंधणकुलि संभूयउ
सिसुससिसरिसविसमदाढाणणु
कज्जलकण्हलतंबिरलोयणु
फुकरंतु दुम्मुहु अहि अच्छइ
ता राएण रिद्धिपरिउण्णउं
असणवणंतरि कंतारायलि
सुणिवि धम्मु संसारहु संकिउ
णियजणणिइ छुहियइ उवलद्धउ
मरिवि महाबलु पडिबलमद्दणु
सीहचंदु पहिलारउ भासिउ
रामयत्त विहिं पुत्तहिं राहिय
अण्णहिं दिणि कुलकमलदिणेसरु

णं जमपासउ णं जमदूयउ ।
धणणिहिकलसयवलइयणियतणु ।
कोइलभसलकसणु मरुभोयणु ।
दीहरु कालु जाव तहिं गच्छइ ।
मंतित्तणु धम्मिल्लहु दिण्णउं । 5
धम्मणाममुणिवरपयजुयतलि ।
भद्दमित्तु जिणवरदिकखंकिउ ।
गह्णणि सुमित्तौवग्घिइ खद्धउ ।
मयवइसेणहु जायउ णंदणु ।
पुण्णयंदु तहु अणुउ पयासिउ । 10
णं पुण्णिम रविससिहिं पसाहिय ।
दविणागारु णियंतुं णरेसरु ।

घत्ता—जो सच्चघोसु चिरु मंतिवरु बद्धवइरु हुउ सण्णु घरि ॥

तं रूसिवि डक्किउं भीसणिण णउलीयरणु करेवि करि ॥ ११ ॥

12

मुउ सल्लइवणि जायउ करिवरु
णवर ससामिमराणि कुज्झंतं
गारुडदंडणण गारुडिणं
भणिउ काइं मधुं वयणु णियच्छहु
ता पइसरिवि जल्लणि अहि णिग्गय
पच्चारियउ इयरु मंतीसं
एवहिं एम काइं अच्छिज्जइ

असणिघोसु णामं दीहरुकरु ।
मंतसारु सयलु वि बुज्झंतं ।
फणि आवाहिय मच्छरचंडिणं ।
दीधुं धरेप्पिणु णिलयहु गच्छहु ।
अकयदोस जे ते सयल वि गय । 5
राउ महारउ भक्खिवि रोसं ।
जिम सिहि खज्जइ जिम विसु छिज्जइ ।

11 १ P °सरिससविसदाढा°. २ A कज्जलकण्हलतंबिर°; P कज्जलकज्जलतंबिर°. ३ A °वग्घिणि-
खद्धउ. ४ P सीहचंदु. ५ AP पुण्णचंदु. ६ AP ससिरविहिं. ७ AP णियत्तु. ८ P तं रूसिवि.
९ AP डंकिउ.

12 १ A गारुडियइ. २ १ चडियइ. ३ A दिव्हु धरेप्पिणु; P दीउ धरेप्पिणु. ४ P जल्लणि.
५ A चिज्जइ.

11 2 b °कलसयवलइय° कलशकवेष्टिता. 3 b मरुभोयणु वातभोजनः सर्पः. 6 a
कंता रायलि कान्ताराचले. 8 a छुहियइ बुभुक्षितया. 9 b मयवइसेणहु सिंहसनस्य. 10 b अणुउ
अनुजः. 14 डक्किउ दष्टः.

12 2 a कुज्झंतं कुक्ष्यतः. 6 a इयरु इतरो दीपवान्.

ता चितइ कुंभीणसु गियमणि
उंगिल्लिउ विसु केम गिलिजइ

अम्हइं जाया गोत्ति अगंधणि ।
कुलसामत्थु केम महलिजइ ।

घत्ता—मैरणि वि संपणइ गरुयगरु कुलछल्लु माणु ण मेह्लियउ ॥ 10
जालावलिजलियइ विसहरिण अप्पउं हुयवहि घह्लियउ ॥ १२॥

13

अट्टञ्जाणमरहें सो मुउ
खंति हिरण्णवई वणि वंदिवि
रामयत्त पियदुक्खें भग्गी
सिहँचंदु चिरु रञ्जु करेप्पिणु
पुण्णचंदु भयवंतु णेवेप्पिणु
जायउ इदियदप्पवियारणु
रामयत्तदेवीइ मणोहरि
वंदिउ वंदणिज्जु गियमायइ
कुच्छि सलक्खण एक महारी
अज्ज वि अरुइइ काइं रमारउ
तं गिसुणेप्पिणु भणइ भडारउ

कालवणंतरी हुयउ चमरीमउ ।
दुक्किउ पुणु पुणु णिंदिविं गरहिवि ।
पंचमहव्वयचरियहि लग्गी ।
पुरु धरिस्ति गियभायहु देप्पिणु ।
पवरदियंवरवित्ति लप्पिणु । 5
मणपज्जयणाणिउ णहचारणु ।
दिट्टउ काणणि ललियलयाहरि ।
पुणु आउच्छिउ सुंमहुरवायइ ।
तुहुं जणिओ सि जाइ भववइरी ।
धम्मु ण गेण्हइ भाइ तुहारउ । 10
गिसुणाहि ससयणभववित्थारउ ।

घत्ता—कोसलविसयंतरी धणभरिउ वुडुगाउं वइपरियरिउ ॥

तहिं आसि मृर्गायणु विप्पवरु महुरइ वंभणीइ धरिउ ॥ १३ ॥

14

सज्जणमांहाणि णावइ वारुणि
मरिवि मर्यायणु पुरि साकियइ

धीय विहिं मि उप्पणी वारुणि ।
अइवलणामणरिंदणिकेयइ ।

६ AP उगिलियउ. ७ AP ते मरणे वि होंतए गरुयगरु कुलुच्छल्लु.

13 १ A उञ्जाणमरणेण य सो मुउ. २ AP गरहिविं णिंदिवि. ३ AP सीहचंदु. ४ A णएप्पिणु. ५ A समहुरं ६ AP मियाणु. ७ AP वरिउ.

14 १ P मियाणु.

8 a कुंभीणसु सर्पः. 10 कुलछल्लु कुलवल्लम्.

13 1 a मरहें दर्पणः; b चमरीमउ चमरीमृगो गवयः. 2 a हिरण्णवई मृगायणविप्रचरा सा; अस्मिन्भवे माता पूर्वजन्मनि भर्ताभूत्. 3 a पियदुक्खें भर्तृदुःखेन. 7 b लयाहरि लतायहे. 11 b ससयण भववित्थारउ निजस्वजनभवविस्तारः 12 वइं वृत्तिः.

14 1 a वारुणि मध्यम्; b वारुणि वारुणीनाम्नी.

सुमहदेविहि गन्धि समायउ
धीय हिरण्यवइ त्ति य जायउ
पोयणपुरवरि रुवरवणी
जा चिरु महुर सा जि तुहं हई
भहमित्तु सुउ तुह उप्पणउ
वारुणि पुण्यंदु जाणिज्जसु
पुण्यचंदु जो पोयणसामिउ
जो तुह जणणु तुज्जु गुरु जायउ
ताउ महारउ कंतु तुहारउ
कूरतिरियजम्मं संमोहिउ

पुरिसु वि थीलिंगत्तहु आयउ ।
भुवणि वियंभइ कम्मविवायउ ।
पुण्यंदणरणाहहु दिष्णी । 5
रामयत्त दोहं मि सिरिदूई ।
सीहंइंदु हउं णेहिं भिण्णउ ।
अम्मिइ मोहु हवंतु खमिज्जसु ।
भहवाहुगुरुणा उवसामिउ ।
महं वि सो जि सुरपुज्जियपायउ ।
जायउ वणि वारणु दुज्जारउ ।
हणणकामु सो मइ संबोहिउ ।

घत्ता—ओसरु गयवर मयरयभमर मा दूसहु दुक्कित करहि ॥

किं णिहणहि णंदणु अप्पणउं सीहयंदु णउ संभरहि ॥ १४ ॥

15

ता जाइंभरु जायउ कुंजरु
झायइ इहु रिसि तणुरुहु मरउ
जो चिरु भुंजंतउ रस णव णव
जो चिरु सेवंतउ वरणारिउ
जो चिरु चंदणकुंकुमलित्तउ
जो चिरु सुहुं सोवंतउ तूलिहि
जो चिरु देंतउ दाणु सुदीणहं
जो चिरु जाणंतउ छगुण्णउं
डज्जउ देव एय तिरियत्तणु

दुद्धरु गिरिवरगेरुयपिंजरु ।
हउं जायउ वणि करि विवरेरउ ।
सो एवहिं भक्खमि तरुपल्लव ।
तहु एवहिं दुक्कउं गणियारउ ।
सो एवहिं कइमि पंगुत्तउ । 5
सो एवहिं हउं लोलमि धूलिहि ।
सो एवहिं महुरसंताणहं ।
तं किह पुत्तं णिहणु पडिषण्णउं ।
ता मइ भणिउं मुणेप्पिणु तहु मणु ।

घत्ता—मा णिहणहि पडिकरि गिरितरु वि जीव णिहालिवि पउ घिवहि । 10

गय भक्खहि णिवडियदुमदलइं परकलुसिउ पाणिउ पियहि ॥ १५ ॥

२ AP सुमहदेविहि. ३ A थीलिंगिं तहु. ४ P पुण्यइंदु. ५ AP सीहचंदु. ६ AP खवेजसु.
७ AP पुज्जियसुरपायउ. ८ A मयरसभमर.

15 १ A जाइंभरु; P जाएभरु; K जाइंभरु but corrects it to जाइंभरु. २ P omits this line. ३ AP भुंजंतउ. ४ A दुक्कहि. ५ A कइमहि. ६ A सो एमहि लोलिवि तणु; P सो एमहि लोलिमि तणु. ७ A तं किह णिहणु पुत्तं पडि^०; P तं किह णिहण पुत्तु पडि^०. ८ A डज्जउ देव एहु; P डज्जउ एउ देव.

13 मयरय भमर मदे रता; भ्रमरा यस्य.

15 1 a जाइंभरु जातिस्वरः. 2 b विवरेरउ विपरीतः. 4 b गणियारिउ करेणुकाः.
5 b पंगुत्तउ पङ्कुरणवल्लिः. 8 a छगुण्णउं प्राङ्गुण्णम्.

16

मारंतउ वि अण्णु मा मारहि
ता कुंभत्थलणवियमुणिं
बंभचेरु दिहुं णिञ्चलु धरियउं
खविउ कलेघरु कायकिलेसें
केसरितीरिणितडंगउ जइयहुं
णवेरि चमरिजम्मंतरमुक्के
कुंभारोहणु करिवि सदप्ये
मुउ हुउ उर्वसमेण सोक्खावहि
सिरिहरु देउ काइं वण्णिज्जइ
हुउ धम्मिल्लु वाणरु रोसुकुड
णियपावे पंकप्पहि पत्तउ

अप्पउ संसारहु उत्तारहि ।
थिरु वउं पालिउं तेण गइंहे ।
जिणपायारविंदु संभरियउं ।
परियट्टंते कालविससें ।
खुत्तउ दुइमि कइमि तइयहुं । 5
पिसुणे अवरभवंतरहुक्के ।
भक्खिउ गयवइ कुक्कुडसप्ये ।
सहसारइ सुरभवणि रविप्पहि ।
एहउं जाणिवि धम्मु जिं किज्जइ ।
मारिउं तेण रणे सो कुक्कुड । 10
अण्णु वि एव जि जाइ पमत्तउ ।

घत्ता—जणु जिणवरचयणु ण पत्तियइ खाइ मासु मारिवि पसु ॥
संतावइ साहु समंजस वि णिवडइ णरइ सकम्मवसु ॥ १६ ॥

17

गयमात्तियइ दंतजुयसहियइं
वणिय सत्थवाहहु हिमवण्णइं
सीहसेणतणयहु जसधामहु
कारिय तेण तमीयरकंतिहिं
णियसीमंतिणियंहि रुइरिद्धइं
हा केत्तिउ संसारु कहिज्जइ
मोहमहंतइ णिइइ भुत्तउ
जाहि अम्मि तुह वयणे जग्गइ
णियणंदणमुणिवरचयणुल्लउ
गय मायरि तहिं जहिं तं पट्टणु

वणि सिगालभिल्ले मंगहियइं ।
पुरसंत्तिहि धणमित्तहु दिण्णइं ।
धणमित्तेण वि छणसस्मिणामहु ।
णियमंचयहु पाय गयदंतहिं ।
मोत्तियाइं कोडगि णिवडइं । 5
जं चितंतहं मइ दुम्मिज्जइ ।
अच्छइ सुहि णं मुच्छिउं सुत्तउ ।
पुण्णयदु जिणधम्महु लग्गइ ।
तं आयणिवि सवणसुहिल्लउ ।
जहिं सो राणउ वइरिविहट्टणु । 10

घत्ता—पणवंतहु पुत्तहु परियणहु अज्जइ सुमहरु साहियउं ॥

जिह राए जाए मयगलिण णिज्जणु गहणु पसाहियउं ॥ १७ ॥

16 १ AP नो. २ AP वउ. ३ AP चिरु. ४ P तहु गउ. ५ AP णवर. ६ A दम-
समेण. ७ A वि. ८ मारिउ रणिण तेण सो; P मारिउ तेण रणिण सो.

17 १ AP सिगालभिल्ले गहियइं. २ A सीमंतिणिवहरुइरिद्धइं. ३ AP कंठगि. ४ A
मुच्छियसुत्तउ. ५ A पुण्णइंदु. ६ A अज्जिए. ७ A णिज्जणगहणु.

16 6 a च मरि ज म्मं तर हु क्के सत्यघोषचरः चमरीमृगः अन्यभवं प्राप्तः सर्पो जातः. 10 a
रो सुक्कुडु रोपोत्कटः.

17 1 b सि गाल भिल्ले शुगालनाम्ना भिल्लेन. 3 b छण स स्मि णा म हु पूर्णचन्द्रस्य. 4 a
त मी य र चन्द्रः. 5 b को ड गि श्रीवाघ्रे.

18

जं धणमिच्चै आणित आयउ
तं दियमुसलजुवलु तहु केरउ
पणइणिकंठइ णिहिउ णिहालहि
पुत्तय णिरु विचित्तु संसारउ
ता हियवउ पिउणैहं भिण्णउं
पुत्तं परिवारेण वि सोइउ
उवसमेण हई पविमलमइ
रामयत्त सणियाण मरेप्पिणु

पलंकहं पयजोग्गउ जायउ ।
मुत्ताहलणितरुंबउ सारउ ।
पुत्तय सावयवय परिपालहि ।
पुत्तय पहु वि होइ कम्मरउ ।
दंतिदंतु अवरुंडिवि रुण्णउं । 5
कुसुमहिं अंचिवि हुयवहि ढोइउ ।
थिउ धैरि धम्मणिरउ सो णरवइ ।
कप्पु महंतु सुक्कु पावेप्पिणु ।

घत्ता—मंदारदामसोहियमउहु रयणाहरणावियारधरं ॥

सा हई रविसंणिहणिलइ रविभांभासुरु सुरपवरु ॥ १८ ॥ 10

19

पुणु फणिरायहु गुज्जु ण रक्खइ
काले जंतं सुक्कियलीलइ
पुण्णयंदु पुण्णे उप्पणउ
विसमविसमसरवाण णिवारिवि
संभूयउ संतहि णिरवज्जहि
इह रययायलि दाहिणसेदिहि
पइ अइवेउ पुरंधि सुलक्खण
सा सग्गाउ हलिय पंकयकर
दिण्णी पिउणा दग्गिसियणामहु

आइच्चाहु कहंतरु अक्खइ ।
वरवेरुलियविर्माणि विसालइ ।
वेहलियप्पहु तंहि संपण्णउ ।
दंसणणाणचरित्तइ धारिवि ।
सीहचंदु उवरिमगेवज्जहि । 5
धरणिर्तिलयपुरु रुढउ रुद्धिहि ।
रामयत्त जां चिरु सेवियवण ।
सुय उप्पण्णी णामं सिरिहर ।
अलयाणाहहु वड्डियकामहु ।

घत्ता—सो पुण्णयंदु दिवि देवसुहुं माणिवि हर्यविहलत्तणउं ॥ 10

णियकम्मविवापं णिवड्डियउ पुणु पत्तउ महिलत्तणउं ॥ १९ ॥

18 १ A °कंठहो. २ A पियणंहे. ३ A धरधम्म णिरउ. ४ AP °वियारहरु. ५ A रवि-
भाभासुरु; P रविभासासुरु.

19 १ A °विमाणविसालइ. २ A पुण्णइंदु. ३ P तंहि जि संपण्णउ. ४ AP °तिलयपुरि.
५ A त्ता सेविय चिरु वण. ६ A विहवविहत्तणउं.

18 1 a आ यउ आयपदवस्तु. 2 a दियमुसलजुवलु दन्तमुसलयुगलम्. 5 a पिउ णे हे
पितृस्नेहेन; अव रुंडि वि आलिङ्गय. 10 रवि सं णि ह णि ल इ र्श्या भविमाने.

19 4 a विसमविसमसरवाण विपमाश्च ते विपमशरस्य कामस्य वाणाः. 5 a संत हि
श्रेयैके शान्तस्थाने. 6 a इह भरतवर्ये; रययायलि रजताचले. 7 a अइवेउ अतिवेगः. 10 ह य-
विहलत्तणउं हतदरिद्रत्वम्. 11 महिलत्तणउं स्त्रीत्वम्.

20

दरिसियरापं ह्रई दुहहर
विष्णी तापं कामासत्तहु
सीहसेणु करि सिरिहंरु भणियउ
रस्सिंवेउ णंदणु संमाणिवि
आंदरिसेण पासि ह्ययंदहु
तइयहुं सिरिजसहरउ विणीयउ
मुणिवरणारविंदरइमइयहि
पवणुद्धयधवलधयमालउं
थावरजंगमविरहयमेत्तिह
तहिं हरिचंडु भडारउ पेक्खिवि

सिरिहराहि सुय णामं जसहर ।
दिणयराहपुरि सूरावत्तहु ।
जो सो एयहिं दोहिं मि जणियउ ।
सिरि ढांइवि सिरिकलसहिं ण्हाणिवि ।
लइयउ वउ जइयहु मुणियंदहु । 5
पावइयउ तहिं मायाधीयउ ।
पासु वसंतियाहिं गुणमइयहि ।
सिद्धसिहरु णामेण जिणालउं ।
किरणवेउ गउ वंदणहत्तिइ ।
थिउ अप्पउ रिसिदिक्खइ दिक्खिवि ।

यत्ता—सो आयहिं सिरिहरजसहरहिं दोहिं वि गिरिगरुयंगु गुणि ॥
गुहकुंहरि णिसण्णु णिरिक्खियउ पलियंकेण णिसण्णु मुणि ॥ २० ॥

21

वंदिवि खरतवतावें खीणउ
खुडु कम्मकखयवयणु पयच्छिउउ
ता सो तंबचूलफणि णारउ
दीहु कालु संसारु सरोप्पिणु
जायउ अजयरु विसमखयालइ
मुहविससिहिंमसिकयसारंगउ
फणताडणफोडियधरणीयलु
वइवसदंहु चंडु अवलोइवि
मरणि वि धीरत्तेण ण मुक्कंइं
अहिणा दढदाढहिं णिइलियइं

ताउ तासु णियइइ आसीणउ ।
रयणत्तयहु कुसलु फुडु पुच्छिउउ ।
णरयहु णीसरंवि हिंसारउ ।
अणणणइं अंगाइं धरोप्पिणु ।
फुल्लियवउलकलंबतमालइ । 5
मांडियविडुवुइवियविहंगउ ।
वयणरंधघल्लियवणंमयगलु ।
खणि आहारु सररीरु पमाइवि ।
निणिण वि पावेंइयइं थिरु थक्कंइं ।
कसमसंति चावेंतें गिलियइं । 10

20 १ P सिरिहरु. २ A आदग्मेण. ३ P ह्ययंदहु. ४ AP मुणिवंदहु. ५ A °कुहरणिसण्णु.

21 १ AP तंबचूल. २ P संसारि. ३ AP °सिहिसिहइयसारंगउ. ४ A फलताडण°. ५ P
°वणयरपल. ६ A मुक्कउ. ७ P पवइयइं थक्कंइं. ८ A थक्कउ.

20 २ b दिणयराहपुरि सूर्याभपुरे. 4 a रस्सिंवेउ रस्सिंवेगः. 6 a सिरिजसहरउ
श्रीधरायशोधरे. 9 b किरणवेउ रस्सिंवेगः. 11 आयहिं आगताभ्याम्; गिरिगरुयंगु गिरिवदुस्सरीरः.

21 1 b ताउ ते द्वे श्रीधरायशोधरे. 3 a तंबचूलफणि कुक्कुटमर्षः. 6 a मुहविससिहि-
मसिकयसारंगउ मुखविपाग्निना अङ्गारीकृतहरिणः. 8 a वइवसदंहु यमदण्ड इव.

हेमणिवासविसेसवरिडुइ

उप्पण्णहं मरेवि काविट्टुइ ।

घत्ता—तहिं रुययविमाणि मणोरमणि जायउ अमरु वरंक्कपहु ॥

सो अजयरु चोत्थइ णरयबिलि णिवडिउ मुणिवररइयवहु ॥ २१ ॥

22

चक्कउरइ जयलच्छिसहायहु
 आयउ जिणगुणगणु सुयरंतउ
 सीहचंदु णं हुउ कुसुमाउहु
 चित्तमाल तहु पियरायाणी
 ताहं विहिं मि णं पुण्णविहायउ
 जो चिरु रस्सिवेउ अजयरहउ
 णामं वज्जाउहु जयलंपहु
 पुहईतिलइ णयरि रवितेयहु
 सिरिहर काविट्टुहु पम्भट्ठी
 दिण्णी कुलिसाउहहु सण्णेहं

णयवंतहु अवराइयरायहु ।
 पवरुवरिमगेवज्जहि हांतउ ।
 सुंदरिदेविहि सुउ चक्काउहु ।
 णं मयरद्दयवाणणिसेणी ।
 अक्कप्पहु सुरु तणुरुहु जायउ । 5
 पहुं जि सो णरंजम्मसमागउ ।
 समरंगणि पल्हत्थियगयघ्रहु ।
 पियकारिणिदइयहु मइवेयहु ।
 रयणमाल सुय हई दिट्ठी ।
 पुणु पवहंतं कालपवाहं । 10

घत्ता—कीलंतहं पेम्मपरव्वसहं ताहं तेत्थु पर्यडियपणउ ॥

सा जसहर सग्गहु ओयरिवि रयणाउहु हई तणउ ॥ २२ ॥

23

पिहियासउ णवेवि अवराइउ
 रज्जु करेवि सुइरु चक्काउहु
 तेण कयउं भीसणु वम्महरणु
 दूरुज्झियपरमहिलापरधणु
 दंसणणाणचरिसि अभंतउ

तउ चरंतु संतनु पराइउ ।
 गउ तायहु जि सरणु वियसियमुहु ।
 चरमदेहु जाणइ विहिविहरणु ।
 सिरि भुजिवि तेत्तिउं पविपहरणु ।
 वप्पहु पासि पुत्तु णिकखंतउ । 5

१ A उप्पणाहं. १० अमरवरंक्कपहु.

22 १ A गुणगुण. २ A पुण्णणिहायउ. ३ A एहु जो सो. ४ AP णरजम्मि समागउ.
 ५ AP पियकारणे. ६ P सणाहं. ७ A पर्यडियपणउ.

23 १ A तित्तिउ; P तित्तउ. २ P चरित्तहं भत्तउ.

12 वरक्कपहु श्रेष्ठः सूर्यप्रभः 13 १रइयवहु कृतवधः.

22 4 b ०वाणणिसेणी वाणपंक्तिः. 5 पुण्णविहायउ पुण्यविभागः. 7 b पल्हत्थिय
 पातिताः. 8 a रवितेयहु सूर्यवनेजमः. 10 a कुलिसाउहहु वज्रायुधस्य.

23 1 b संतनु शान्तत्वम्. 3 b विहिविहरणु चारित्रम्. 4 b तेत्तिउं तृप्तः; पविपहरणु
 वज्रायुधः. 5 a अभंतउ भ्रान्तिरहितः.

खवइ पुराइउ कम्मु गयालसु
माणइ सोक्खु ण तिप्पइ भोए
जायवेउ णं तरुपम्भारें

तहु सुउ रयणाउहु रइलालसु ।
णं मय्यरहरु तरंगिणितोए ।
अइरारिउ वित्थरइ वियारें ।

घत्ता—अण्हि दिणि पवरुज्जाणहरि गिरिसरिखेत्तविहसियउ ॥
सिरिवज्जदंतमुणिणा जणहु तिहुयणमाणु पयासियउ ॥ २३ ॥ 10

24

विजयमेहु णामं कुंभीसरु
तं णिसुणिवि मुणिभासिउ कंखइ
मंतिविज्ज आउच्छइ राणउ
ताव तेहिं अवलोइउ जाइवि
जंगलकवलु णिवहु ण ढोइउ
सो कवलिउ करिणा करु देंतं
मत्थण्ण भंदिवि मुणिपुंगमु
कहइ महारिभि जियवम्मीसरु
पीयंभहु णामं णं वम्महुं

णिवंकल्लाणकारि जलहरसरु ।
दिण्णु वि मासगासु ण वि भक्खइ ।
महु तंवेरमु किं विहाणउ ।
लब्धिखउ तणु गुणदोस पलोइवि ।
पयधियकूरपिंहु संजोइउ । 5
वज्जदंतु पुच्छिउ महिवंतें ।
मासु ण खाइ काइं तंवेरमु ।
ण्थु भरहि छत्तउरि णरेसरु ।
सइदेवीवइ णावइ मयमुहु ।

घत्ता—पीइंकरु पुत्तु पस्सिहु जइ मंतिवि जाणिउं चित्तमइ ॥ 10
कमला इव कमला तासु पिय तणुरुहु ताहं विचित्तमइ ॥ २४ ॥

25

धीरु धम्मरुइ सिरिगुरु मणिणवि
मणि पडिवज्जिभि गुत्तिउ तिणिण वि
गय रिमिवउ लेप्पिणु साकेयहु

धम्मु अहिंसिल्लउ आयणिणवि ।
पीइंकरु विचित्तमइ विणिण वि ।
सत्तभूमिसउहावलिसंयहु ।

३ A मयहर. ४ AP अवरहि दिणि.

24 १ A णवकल्लाण. २ A पलोयवि; P पलाइवि. ३ A पीइंभहु; P पाइंभहु.

25 १ AP समिदिउ पंच भंदिपिणु विणिण वि; A adds a new line after this: पीइं-
करु विचित्तमइ वेणिण वि in second hand. २ A रिसि गयवउ.

7 b मयरहरु समुद्रः. 8 a तरुपम्भारें वृक्षसमूहेन; b अइरारिउ अतीव लालितः.

24 1 a कुंभीसरु गजेश्वरः. 3 a मंतिविज्ज मन्त्रिणः धैयांश्रु; b तंवेरमु हस्तीः. विहा-
णउ दुर्बलो जानः. 4 b तणु तणुम्. 6 a करु देंतं गुणदां ददता. 9 b ०देवीवइ ०देवीपतिः. 10 जइ
जगति; चित्तमइ चित्रमतिर्नाम मन्त्री.

25 3 b ०मउहावलिसंयहु ०सौभावलीभिः श्वेतस्य.

खीरैरिद्धि उप्पण्णी जेद्धु
चंद्रसूर णाचइ गयणंगणि
बहुउववासरीणमुणिपंथिय
थाहु भणंतियाइ पणवेप्पिणु
कामिणीइ अप्पाणउ गरहिउं
पुच्छइ लहुयउ साहु ससंसउ

णिज्जियणियजीहिंदियचेद्धु ।
वेण्णि वि चडिय छुहु जि धरंप्रंगणि । 5
ते धीसेणइ वेसइ पत्थिय ।
ण थिय भडारा विगय वलेप्पिणु ।
किं जीविउ मुणिदाणं विरहिउं ।
किं आया से ण गहियउ गासउ ।

धत्ता—गुरु अक्खइ महुमासासियहं णिप्पिह कयपरलोयकिसि ॥ 10
अविणीयहं रायहं कामिणिहिं दिण्णु वि पिंडु ण लेंति रिसि ॥२५॥

26

तहि विचित्तमइ सुमरंइ रामहि
मयणसरोहं हिययउं भिण्णउं
गउ सहाउ नहु मेळ्ळिवि मंदिरु
मिसुमृगणयणइ पीवरथंणियइ
दिण्णउ तासु भोज्जु जं चंगउं
सरसवयणु तहिं तेण णिउंजिउं
रत्तु मुणेवि ताइ अवहेरिउ
तो गुणवंतु ताम गह्यत्तणु
णिग्गउ गउ परिहेप्पिणु राउत्तु

गीओलंविमोत्तियदामहि ।
जंपंतहं हुंकारइ सुण्णउं ।
णं इंदीवरासु इंदीवरासु इंदिंदिरु ।
वदिउ सं पडिगाहिउ गणियइ ।
विडसाहुहि संपीणिउ अंगउं । 5
दहुउं चरियधण्णु जं पुंजिउं ।
णारिहि भुवणि को ण किर मारिउ ।
जाम ण लग्गइ मणसियमग्गणु ।
विसयालुद्धउ जायउ आउत्तु ।

धत्ता—पलपाएं जाणं मिट्ठएण सूयारउ णिवमणि चडिउ ॥ 10
कय कामिणि द्विणें तेण वस रिसि चारित्तहु परिवडिउ ॥ २६ ॥

३ A खीणरिद्धि. ४ AP पंगणि. ५ A ते विसणीयइ; P ते विसणीयइ. ६ A किं आयाहो धरे गहिउ ण गासउ; P किं आये धरे गहिउ ण गासउ. T supports the reading of K.

26 १ सुउरइ. २ AP छिण्णउं. ३ AP मेळ्ळिवि तहि. ४ AP मृगणयणइ. ५ AP थणिइ. ६ A ताइ. ७ AP गुरुत्तणु. ८ A सिट्ठएण.

6 b धीसेणइ बुद्धिपेणानान्या. 9 a ससंसउ स्वसेशयम्; b किं आया किमर्थमागतौ; मे अस्याः (गृहम्); ण गहियउ गासउ प्राप्तु न गृहीतः. 10 कयपरलोयकिसि कुतपरलोककणयो ऋषयः.

26 1 b गी ओलंवि य? प्रीवावलभ्यता. 2 a सरोहं शरममूहेन. 3 a सहाउ सखा. 4 b पडिगाहिउ प्रतिग्राहितः; गणियइ वेदयया. 6 b चरियधण्णु चारित्रधान्यम्. 7 a अवहेरिउ निरादतः तिरस्कृतः. 8 b मणसियमग्गणु कामबाणः. 9 a परिहेप्पिणु वस्त्रं गृहीत्वा. 10 पलपाएं मांसपाकेन; सूयारउ सूषकारः. 11 वस वशीकृता.

27

मरिवि तुहारउ जायउ कुंजरु
एहु एवहि जाउ जाईभरु
ता रयणाउहेण णियतणयहु
तासु जि गुरुहि पाँसि तउ चिण्णउं
विण्णि वि संतइं मायापुत्तइं
अजर्यंरु पंकप्पहरणयंतहु
दारुणभिल्लहु सुउ अइदारुणु
तेण पियंगुदुग्गि अवलोइउ
मुउ सव्वत्थसिद्धि संपत्तउ
सत्तमि तमतमपहि भीसावणि

महु भासंतहु तिहुवणपंजरु ।
तुहं वि बप्प अप्पाणउ संभरु ।
रञ्जु समप्पिउ पयडियपणयहु ।
तहु मायाइ तं जि पडिवण्णउं ।
अच्चुइ अणिमिसत्तु संपत्तइं । 5
णीसरियउ कह कह व कयंतहु ।
मंगिहि सवरिहि हुउ करिमारणु ।
तउ तवंतु वज्जाउहु घाइउ ।
सयरु वि पावें णरइ णिहित्तउ ।
पंचपयारदुक्खदरिसावणि । 10

घत्ता—धाइइसंडइ सुरवरदिसहि मेरुहि पराविदेहि सरइ ॥

गंधिल्लदेसि उज्झाउरिहि णरवइ अरुहदासु वसइ ॥ २७ ॥

28

कामहुयासहु णं कालंविणि
अवरं वि तहु जिणयत्त घरेसरि
अञ्जयच्चुय तेपं णं दिणयरु
विहिं वि वेण्णि संजणिय तणूरुह
ते वेण्णि मि णं^३ छणससिसायर
वीयहु णरयहु गयउ विहीसणु
लंतवि जायउ देउ महामहु
सम्मइंसणसासणि लग्गउ
जंबुदीवपरावयउज्झहि
सो केसवु दुहुं भुंजिवि आयउ

सुव्वयं णामं तासु णियंविणि ।
अमरमहामयरहरहु णं सरि ।
रयणमाल रयणाउह सुरवरु ।
विजय विहीसण णवपंकयमुह ।
ते वेण्णि वि बलकेसव भायर । 5
दुद्धरु तउ करंवि संकरिसणु ।
आइच्चाहु हउं जि सो सुहवहु ।
मइं संबोहिउ णरयहु णिग्गउ ।
सिरिवम्महु सीमहि तणुमज्झहि ।
लच्छिधामु णामं सुउ जायउ । 10

27 १ APT जाईभरु. २ A रयणाहिवेण. ३ AP पाम. ४ AP अजरु.

28 १ AP सुव्वइय. २ AP अवरु वि. ३ A णंदण ससिसायर.

27 2 a जाईभरु जातिस्मरः. 4 b मा या इ रत्नमालया. 5 b अणि मि सत्तु देवत्वम्.
6 b कयंतहु कृतनरकभवपर्यन्तात्. 10 b पंचपयारदुक्खं परिणामदेहवेदनाविक्रियापरस्पोदीरित-
दुःखाः. 11 सरइ सरतिः भोगयुक्तः.

28 1 a काले वि णि मेघमाला. 2 b अमरमहामयरहरहु क्षीरसमुद्रस्य. 7 a महामहु
महातेजाः; b सुहवहु सुखावहः. 9 b सीमहि श्रीमत्याः.

रिसिहि विणासियवम्महलीलहु
पत्तउ बंभकण्णि मेल्लिवि तणु

घत्ता — वज्जाउहु सव्थत्थहु वविवि संजयंतु जिणतवि गिरउ ॥

तुहुं हुउ जयंतु बंभाउ खुउ रिसि णियाणसल्लेण मुउ ॥ २८ ॥

विरु पावइयउ पासि सुसीलहु ।
अट्टगुणट्टिवंतु देवत्तणु ।

29

पायराउ जाओ सि भयंकरु
अहंमणिबद्धाउसु अहगारउ
पुणु वाल्लयपहि वालु णिमण्णउ
तसथावरतिरिक्खभवज्जालइ
पविउलअइरावइ णइतीरइ
गोसिंणं घरिणिहि संखिणियहि
तावसेण संजणियउ तावसु
दिव्वतिल्लयपुरि खेयरराणउ
णाम सुमालि णिवंध णिबद्धउ
खगधरणीहरि उत्तरसेणिहि
विज्जदादु खगु पिय विज्जुप्पह
ताहं विहिं मि हियइच्छियरूवउ
विज्जदादु णामं ददयरमुउ

घत्ता — इहु भाइ तुहारउ गरुययरु मेरुधीरु परिचत्तभउ ॥

एयं जम्मंतरवहरिइण हुउ परमेसरु मोक्खगउ ॥ २९ ॥

इयरु वि पाउ मुण्डिखयंकरु ।
अहि इयउ अंतिममहिणारउ ।
दुक्खपरंपराइ अहण्णउ ।
णिवडिउ हिंडमाणु गयकालइ ।
भूयरमणि काणणि गंभीरइ । 5
संखुब्भउ समुहसंखिणियहि ।
पंचहुयासणु सहइ सतामसु ।
जोइवि जंतउ सक्कसमाणउ ।
अण्णाणं णियतवहलु लद्धउ ।
णहयलवल्लहपुरि सुहजोणिहि । 10
मुहससियरधवलियदसदिसिवह ।
हरिणसिंणु मुउ सुउ संभूयउ ।
जमदूयाणुरूउ भडसंथुउ ।

15

30

एहउ भवसंबंधु विथारिउ
म करहि तुहुं जिणधम्मविरुद्धउं
तं णिसुणिवि पडिजंपइ उरयरु
पइं जिणमग्गु मज्झु वज्जरियउ
तइ वि साहु उवसंग्गणिरुंभणु

एत्थु केण किर को णउ मारिउ ।
णियमहि हियवउं रोसाइद्धउं ।
तुह वयणेण ण मारमि खेयरु ।
भवकहमि पडंतु उद्धरियउ ।
लइ कीरइ खलदप्पणिसुंभणु । 5

29 १ A अहमु. २ P वालय^०; ३ A भयजालइ. ४ A हरिणसिंणु इयउ तवसिणियहि;
P संखु व भवसमुहसंखिणियहि. ५ A ^०पुरखेयर. ६ A वज्जदादु. ७ A विज्जप्पह. ८ P विज्जदादु.

30 १ AP उवसंग्गु. २ AP ^०दप्पणिसुंभणि.

29 2 a अहम^० जघन्यसत्तमनरके; अहगारउ पापकारी. 3 b अहण्णउ विदारितः. 6 b
संखुब्भउ हरिणशृङ्गापरनामा; समुहसंखिणियहि स्वमुद्रया निजाकारेण शक्तिन्यां निर्भाग्यायाम्. 9 a
णिवंधणिबद्धउ निदानं बद्धम्.

30 2 b णियमहि नियमय. 3 a उरयरु उरगः सर्पः.

एयहु कुलि सिज्झंतु म विज्जउ
णारिहिं सिज्झिहिंति णियमालइ
मागहमंडलकुचलयचंदहु
हिरिबध्दणि पयणियखयरिंदहु
मुइवि णिवद्धवइरबंदिग्गहु
गउ फणि संजयंतु मुणि वंदिवि
सुरु जाइवि सुहि संठिउ लंतवि

पुरिसहं दुद्धरंविहुरसहेज्जउ ।
संजयंतपडिमापयमूलइ ।
इंदभूइ पुणु कहइ णरिंदहु ।
णामु करिवि हिरिमंतु गिरिंदहु ।
लहु णीसलु चविवि सपरिग्गहु । 10
रविआहउ सुरवरु अहिणंदिवि ।
आउमाणि बोलीणि सउच्छवि ।

घत्ता—इह भरहखेत्ति उत्तरमहुरि पुरि अणंतवीरिउ णिवइ ॥

लायणरूवसोहग्गणिहिं णारि मेरुमालिणिय सइ ॥ ३० ॥

31

आइच्चाहु मोहमयमइणु
णियकुलसतइवेत्तिवराहें
हुउ सपुण्णविहवेणुइमैं
आयण्णह विरएप्पिणु अंजलि
सीहसेणु करि सिरिहरु सुरवरु
वज्जाउहु अहमिंदु पियारउ
महुर रामदत्त वि जाणिज्जइ
सिरिहर पुणु वसुसमदिवि अंणिमिसु
पुणु विजयंकु वि आइच्चाहउ
वारुणि छणविहु वेहैलियप्पहु
रयणाउहु अच्चयउ विहीसणु
सिरिधामउ सुंउ बंभणिवासउ
पुणु मंदरगुंणिगणसंजुत्तउ

हूयउ मेरुणामु तहु णंदणु ।
अमयवईहि तेण णरणाहें ।
धरणु चविवि सुउ मंदरु णामैं ।
एयहं सयलहं भणमि भवावलि । 5
रस्सिवेउ रविंतउ वरामरु ।
संजयंतु दय करउ भडारउ ।
भक्खराहु पुणु देउ भणिज्जइ ।
रयणमाल अच्चयसुरु सहरिसु ।
जाउ मेरु पुणु मुणिगणणाहउ ।
जसहर काविट्टइ रुर्यप्पहु । 10
सक्करवसुमइणारउ भीसणु ।
णिउ जयंतु फणिवइविवरासउ ।
सिरिभूइ वि फणि चमरि पवुत्तउ ।

घत्ता—कुक्कुडफणि चैत्थयणरयरुहु अजयरु पंक्कप्पहुदुहिउ ॥

समरुल्लउ सत्तमपुहविभउ अहि पुणु सयलदुक्खगहिउ ॥ ३१ ॥ 15

३ A सिज्झंतु. ४ A दुद्धरु विहुरं; P दुद्धरि विहुरि. ५ A हरिवद्धणि पयलियं; P हिरिबद्धणि पयलियं.

31 AP अणमिसु. २ A विजयंतु वि. ३ A वेरुडियं. ४ A भूयप्पहु. ५ AP सुरु. ६ A मंदरमुणिगणं; P मंदरि मुणिगणं. ७ १ चउत्थइ णरइ तुहु. ८ A सव्वदुक्कलं.

9 a हि री त्या दि हीलेज्जा बन्धने सति प्रजनिता खचरेन्द्रस्य विद्युदंप्रस्य यतः कारणात्ततः कारणात् हीमानिति नाम गिरीन्द्रस्य विजयार्थस्य कृत्वा धरणेन्द्रो गतः. 12 b सउ च्छ वि उत्सवसहिते.

31 10 a छण वि हु पूर्णचन्द्रः.

हिंडिवि भवंसंसारि परव्वसु
 विज्जंदादु मुणिमारणदुज्जणु
 भद्दमित्तु पुणु केसरिससहरु
 चक्काउहु सासयगईगामिउ
 णविवि विमलवाहणु तित्थंकरु
 गणहर र्गणु परिपालिवि णीरय
 महु पसियंतु देंतु गुणदित्तदं
 णिञ्चल होउ फुरियणहविमलइ

पचलइ हरिणसिगुं हुउ तावसु ।
 हो डज्जउ दुक्कम्मवियंभणु ।
 पुणरवि उवरिमगेवज्जामरु ।
 देउ समाहि मज्जु रिसिसांमिउ ।
 तेरहमउ परमेट्टि सुहंकरु । 5
 मोक्खहु बे वि मेरु मंदर गय
 सुद्धइ वंसणणाणवरित्तइ ।
 भत्ति भवंतयारिकमकमलइ ।

घत्ता—कह णिसुणिवि मेरुहि मंदरहु विंभियं भरहणराहिवइ ॥
 थिय जिणवरपयसंणिहियमइ पुप्फयंतकरसरिसरुइ ॥ ३२ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे संजयंतमेरुमंदरकंहंतरं
 णाम सत्तवर्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५७ ॥

32 १ A °संसार°. २ A °सिंसुउ. ३ AP विज्जुदादु मुणिमारणु. ४ A सासयगय°. ५ P °सासिउ. ६ A गुण. ७ A विंभिउ. ८ AP पुप्फदंत°. ९ A °कंहंतरवण्णं. १० AP सत्तावण्णा°.

32 ३ a केसरिससहरु सिंहचन्द्रः. ४ a फुरियणहविमलइ स्फुरितनखविमले जिन-
 चरणकमले.

जेणेकें कम्मविमुकें जगु तं तेहउं लक्खिउं ॥
कयडंभहिं हरिहरबंभहिं जं जम्मि वि णं सिक्खिउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो ण महइ जीवहं सासणासु	जं होंतें मेहइ सासणासु ।	
सुज्झइ सम्मत्तं खाइएण	ध्रुवइ देवोहें ^१ खाइएण ।	
णांयंदणमंसियसासणासु	तहु णित्तदिव्वभासासणासु ।	5
जम्मंतरि भावियभावणासु	संखोहियवितरभावणासु ।	
समदिट्ठिदिट्ठुकंचणतणासु	तवजलणइदुक्कियतणासु ।	
णाणंतणिवेसियतिहुवणासु	दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु ।	
उब्भियसियायवत्तत्तयासु	एक्काहियवरवत्तत्तयासु ।	
पवयणवारियपेसियसुरासु	कमकमलणं वियदेवासुरासु ।	10

घत्ता—हर्यंधंतहु गुणवंतहु अणिमिसकेउकयंतहु ॥
भयवंतहु अरहंतहु पणवित्रि पयइ अणंतहु ॥ १ ॥

A has, at the beginning of this saṃdhi, the following stanza:—

संजुडियजाणुक्कोप्परगीवाकडिवन्धणावयवो ।
अणुहवइ वेरिये तुज्झ जं पावइ नेहओ दुक्खं ॥ १ ॥

P and K do not give it anywhere.

1 १ P लक्खियउं. २ AP ण वि सिक्खि^०. ३ P सिक्खियउं. ४ A देवोहिं. P देवोहिं.
५ AP णाहं^०. ६ A जम्मंतरभमिय^०. ७ P^० णाणंति णिवं^०. ८ P^० पेसीसुरासु. ९ AP^० णमियं.
१० A भयवंतहु गुणं. ११ A हयवंतहु अरं^०.

1 1 जेणेकें येन एकेन अद्वितीयेन. २ जम्मि वि जन्मन्यपि. ३ a ण महइ नेच्छति; सासणासु प्राणनाशः; b सासणासु सा लक्ष्मीः स्वनाशं चपलत्वं मुञ्चति; अथवा, सास लक्ष्म्याः आशा तां णा पुरुषः आसु आशु स्वरितं मुञ्चति. 4 a खाइएण क्षायिकेन; b देवोहें देवसमूहेन; खाइएण आकाशादागतं. 5 a णित्तदिव्वभासासणासु निर्गतः दिव्यभाषया सर्वभाषात्मिकया स्वनः शब्दो यस्य. 7 b^० दुक्कियतणासु दुष्कृतमेव तृणं तस्य. 8 a णाणंतं ज्ञानमध्ये; b दिहिवइपरिरक्खियवयवणासु धृतिरेव वृत्तिः तथा परिरक्षितं व्रतान्येव वने येन. 10 a^० पेसियसुरासु पेशी मांसं सुरामद्यम्. 11 हयंधंतहु हंतं विनाशितं स्वस्य परेषां च ध्वान्तभज्जानं येन तस्य; अणिमिसकेउं^० ज्ञापकेतुः कामः.

2

पुणु कहमि कहाणउं कामहारि
धादइसंडहुपच्छिमदिसाइ
परिहापौणियपरिभेमियमयरि
पउमावल्लहु पउमरहु राउ
आणियसंमाणियदुज्जणाइ
अविणीयइ धणमयवेभलाइ
बहुकवडडविडणिवरंजियाइ
महिवइलच्छइ एयइ खलाइ
बद्धउ हउं णिवसमि एत्थु काइं
सिरि दोयमि तणयहु घणरहासु
इय चिंतिवि पासि सयंपहासु

तहु केरउं सासयसोक्खकारि ।
वित्थिण्णिं मेरुपुव्विल्लभाइ ।
मणितोरणवंति अरिट्ठणयरि ।
तहु एक्कु दिवंसु जायउ विराउ ।
णीणियअवमाणियसज्जणाइ । 5
पवणाहयतणजललवचलाइ ।
भंगुरभावे णं लंजियाइ ।
मणवारणवंधणसंखलाइ ।
अणुसरमि सत्ततच्चाइं ताइं ।
संसारइ सरणु ण को वि कासु । 10
वउ लइयउ छिंदिवि मोहपासु ।

ग्रन्ता—अविहंगइं धरिवि सुयंगइं एयारह जिणदिट्ठं ॥

कयवसणइं इंदियपिसुणइं जिणियि पंच दप्पिट्ठं ॥ २ ॥

3

वंधिवि तित्थंकरणांमगोत्तु
सो पंकयसंदणु णरवरिंदु
वावीसमहोवहिपरिमियाउ
पुंफ्फतरपवगविमाणवासि
वावीसहिं पक्खहिं कहिं वि ससइ
जाणवि तेत्तियहिं जि वच्छरेहिं
अवहीइ रूविवित्थारु ताम

संणासें मुउं जइवइ पवित्तु ।
सोलहमइ दिवि हूयउ सुरिंदु ।
तिकरद्धपाणिपरिमाणु काउ ।
तणुतेओहामियदुद्धरासि ।
हियएण देउ आहारु गसइ । 5
सेविज्जइ अमरहिं अच्छरेहिं ।
पच्छइ लट्ठउं णरयंतु जाम ।

2 १ AP पावहारि. १ A वित्थिण्णमेरु. २ A भावि. ३ A वाणिय. ४ P परिसमिय. ५ AP दिवसि. ६ A कवडणिविडमहरंजियाइ; P कवडणिविडरंजियाइ. ७ P दोहवि.

3 १ A णासु; P णाउं. २ AP सुवउ. ३ A तिकरद्धपाणिपरिमाणकाउ; P तिकरुइयणिय-परिमाणकाउ. ४ AP पुंफ्फत्तर, ५ AP विवाण. ६ A रुउ विथारु. ७ A जाम. ८ ताम.

2 २ a अपच्छिमदिसाइ पूर्वभागे. 5 b णीणियं निष्काशिताः. 7 ०डविडं दद्विटाः; b लंजियाइ दास्या. 10 a घणरहासु घनरथस्य. 1२ अविहंगइं अस्वण्डितानि; सुयंगइं श्रुतस्य अङ्गानि.

3 २ a पंकयसंदणु पद्मरथः 3 b तिकरद्धपाणिं त्रयः कराः अर्धपाणिश्च. 5 b हियएण मनसा. 6 a जाणवि जानामि. 7 a रूवि वित्थारु रूपिपदार्थविस्तारः.

किं वण्णामि सुरवइ सुकलेसु
जइयहुं तइयहुं धम्मोवयारि
इह भरहखेत्ति साकेयणाहु
इक्खाउवंसुं कूरारिकालु

तहुं जीविउ थियु छम्माससेसु ।
वज्जरइ कुवेरहु कुलिसधारि ।
पहु सीहसेणु थिरथोरबाहु । 10
जयसामासुंदरिसामिसालु ।

घत्ता—लहु एयहुं दिणयरतेयहुं करहि घणय पुरवरु घरु ॥

तं इच्छिवि सिरिण पंडिच्छिवि चलिउ जक्खु पंजलियरु ॥ ३ ॥

4

उज्झाउरि कण्णं कहिं वि पीय
कत्थइ हरिणीलमणीहिं काल
कत्थइ थिय मरगाय पोमराय
कत्थइ हल्लइ चिंधेहिं चलेहिं
णं गायइ भमरहिं रुणुरुणंति
पुरि अक्खइ खुत्तउ कामवाणु
जा णिमिय पालियणिहिघडेण
तण्णयरीसहु पियगेहिणीइ
हिमहासकाससंकासवासि

कत्थइ ससियंतजलेहिं सीय ।
णं महियलि णिवाडिय मेहमाल ।
णं आहंडलघणुदंडछाय ।
णं णच्चइ कामिणि करयलेहिं ।
पारावयसदं णं कणंति । 5
दरिसइ व कुसुमधूलीवियाणु ।
सा मइ वण्णजइ किं जडेण ।
सोहग्गमहाजलवाहिणीइ ।
णिद्दायंतिइ तल्लिमप्पएसि ।

घत्ता—सुंहुं सुत्तइ पुण्णपवित्तइ रयणिहि पच्छिमजामइ ॥ 10

अवलोइय मणि पोमाइय सिविणावलि जयसामइ ॥ ४ ॥

5

करइगलियमयधारओ
वसहो सण्हासाहिओ
पविणिहणहरुक्केरओ
णवपंकयसरसामिणी
गुमुगुमंतमहुयरचलं

करि गिरिभित्तिवियारओ ।
खुरलंगूलपसाहिओ ।
विसंमो सीहकिसोरओ ।
गयवरणहविया गोमिणी ।
दामजुयं सुहपरिमलं । 5

९ A जीविउ तहु. १० A 'वंसकूरारि'.

4 १ AP कणयं. २ A चंधं. ३ P कुणंति. ४ P णउ. ५ A सुहसुत्तइ.

5 १ AP विसमउ.

4 1 a कण एं कनकेन; b ससियंतजलेहिं चन्द्रकान्तजलैः. 2 a काल कृष्णवर्णा. 6 a अक्खइ कथयतीव; b 'वियाणु' विशानम्. 7 a पालियणिहिघडेण कुवेरेण. 9 b तल्लिमप्पएसि पल्लङ्गप्रदेशे. 11 पोमाइय प्रशंसिता.

5 2 a सण्हा^१ साखा. 3 a पविणिहणहरुक्केरओ वज्रसदृशनखराङ्कुरः.

पुणो लच्छिसहोयरो	गयणे उइउ दिवायरो ।	
कीलाण उड्डीणया	सरभमिरा पाढीणया ।	
वयणसमण्णियसयदला	कलसा दोण्णि समंगला ।	
वियसियतामरसायरो	मयरकरिहो सायरो ।	
गरुयं गयरिउआसणं	सुरसउहं तमणासणं ।	10
णिद्धं णायणिहेलणं	काओयरकयकीलणं ।	
दिसिवहपत्तमऊहओ	चंचिररयणसमूहओ ।	
पसरियजालाणियकरो	विमलो मारुयसंहयरो ।	
घत्ता—फलु बालहि सिविणयमालहि पुच्छंतिहि धवलच्छिहि ॥		
पइ भासइ तणुरुहु होसइ तिजगणाहु तुह कुच्छिहि ॥ ५ ॥		15

6

रायहु वरु सयमहेपसणेण	कंचीणिवद्धकिंकिणिसणेण ।	
आगय सिरि हिरि दिहि कंति बुद्धि	विरइय जयसामहि गम्भसुद्धि ।	
माणिकिरणपसरियवियार	छम्मास पडिय ग्ररि कणयधार ।	
कत्तियपडियदिणि चंदंसुक्कि	रंघइणवखत्ति मलोहमुक्कि ।	
गयरुवं गंगापंडुरण	कयसुकयमहीरुहफलभरण ।	5
अवइण्णु सुराहिउ गम्भवासि	चउभेयदेवपुंजाणिवासि ।	
अहिसिन्तई मायापियरयाइं	मंगलकलसहिं जिणगुणरयाइं ।	
तिहुवणवइगुरुहि गुरुत्तणेण	समलंकियाइं सुपहुत्तणेण ।	
घत्ता—णच्चंतहिं मउ गायंतहिं करहयतूरणिणायहिं ॥		
घरपंगणु दिसि गयणंगणु छायाउ अमरणिकायहिं ॥ ६ ॥		10

7

पुणु वसुवरिसणविहवें गयाइं	सत्तरइं दोण्णि वासरसयाइं ।
गइ विमलरिसीसरि दीहराइं	जइयहुं गयाइं णवसायराइं ।

२ P दिहं णाय° . ३ P सहोयरो.

6 १ A जयसामहो. २ A चंदमुक्कि. ३ AP °पुजापवेसे.

7 १ P विमलि रिसी°.

6 a लच्छिसहोयरो चन्द्रः. 7 b पाढीणया मत्स्यौ. 10 a गयरिउआसणं सिंहासनम्. 11 b काओयर° सर्पाः. 12 b चंचिर° कर्पूरः. 13 b मारुयसंहयरो अग्निः.

6 4 a चंदमुक्कि चन्द्रेण अशुक्ले, कृष्णपक्षे इत्यर्थः; b मलोहमुक्कि निर्मलं. 8 a तिहुवणवइगुरुहि जिनगुरोः.

7 1 b सत्तरइं दोण्णि वासरसयाइं नव मासा इत्यर्थः.]

जइयहुं अंतिमपल्लहु तिपाय
तइयहुं भवंभूरुहसत्तहेइ
जेट्टहु मासहु तमकसैणपक्खि
उप्पण्णउ तिहुवणसामिसालु
दावियसुरकामिणिणट्टलीलु
परियंचिवि तं पुरवरु विसालु

घत्ता—उत्तुंगहु रुम्ममयंगहु सूयरखद्धकसेरुहि ।

गउ सुंदरु देउ पुरंदरु णाहु लपप्पिणु मेरुहि ॥ ७ ॥

10

8

भावालउ णञ्चंतहिं णडेहिं
अहिसिन्नु भडारउ भावणंहिं
वइमाणिण्हिं वीणाहरेहिं
भूसिउ परिहाविउ अरुहु संतु
आणेप्पिणु पुणु पुरवरु पसण्णु
पणविचि सुरवइ गउ णियविमाणु
जोणहालउ णिहिलकलाउ लेंतु
कामग्गिताववित्थरु हरंतु

घत्ता—जिणु वरिसहं कयजणहरिसहं माणियइच्छियसोकखइं ॥

जहिं कुर्वरत्तणि थिउ सिसुकीलाणि तहिं सत्तद्ध जि लक्खइं ॥८॥ 10

खीरोयखीरधाराघडेहिं ।
वणंसुरवरेहिं जाइसगणेहिं ।
गायउ वंदिउ मउलियकरेहिं ।
णाणं अणंतु कोक्खिउ अणंतु ।
देविदें देविहि देउ दिण्णु । 5
वडुइ सिसु णं सिसुमेयमाणु ।
सुहदंसणु कुवलयदिहि करंतु ।
अकलंकु अखंडु पसण्णकंतु ।

9

पुणु तहु कइ पत्ती मयणताउ
सिचिय अहिसेयघंडंबुएहिं

सिरि मुच्छिय चमरहिं दिण्णु वाउ ।
सञ्चेयण कय मइवरणंएहिं ।

२ A °भूरुहलेत्तहेउ. ३ A °कसिण°. ४ AP अवयारउ. ५ A कवडवाडु. ६ A भम्ममयंगहु.

8 १ P omits वण°. २ P पसण्णु कंतु. ३ A omits जहिं. ४ AP कुमरत्तणि.

9 १ AP °घटंभएहिं. २ AP °वरणरेहिं.

4 a °सत्तहेइ सत्तहेतिरमिः. 5 b णासियविवक्खि विघ्नरहिते. 9 रुम्ममयंगहु रुम्ममयं सुवर्णमयं अङ्ग यस्य तस्य मेरोः.

8 1 b खीरोय° क्षीरसमुद्रः. 4 a परिहाविउ वल्लेः परिधापितः. 5 b देविहि मातुः
6 b सिसुमेयमाणु बालचन्द्रः.

9 1 a तहुकइ इत्यादि अनन्तनाथेन सह भोगार्थं भोगनिमित्तं मदनतापं प्राप्ता का राज्य-
लक्ष्मीः. 2 a अहिसेयवडंबुएहिं अभिषेकघटजलैः; b मइवरणंएहिं मतिबराणां मन्त्रिणां नयैः.

उट्टिय लहु सत्तंगं धुपांति
णियपरियणणिवसणु संवरंति
अवलोइय णाहहु खेउं देंति
पुज्जिउ सूहउ इंदाइएहिं
भुंजंतहु संपयसुहसयाइं
पण्णाससरासणं देह तुंगु
णाणामहिवाल्यकुलसमग्गि

अरि सुहि मज्झैत्थु वि मणि मुपांति ।
मिलियहं मंडलियहं मणु हरंति ।
वच्छयलि विउलि लीलइ वसंति । 5
सीसेण णमंसिउ दाइएहिं ।
पणदहसमाहं लक्खइं गयाइं ।
तवणीयवण्णु णं णवपयंगु ।
सो रयणिहिं थिउ अत्थाणमग्गि ।

घत्ता—तहिं रायं भवियसहाएं उक्क पडंति णिरिक्खिय ॥ 10
गय चंचल जिह सा सयदल तिह णररिद्धि वि लक्खिय ॥ ९ ॥

10

ता तणुइरंजियछणससीहिं
णहवणाइउं पोमासंगमेहिं
अप्पिवि अणंतविजयहु सधामु
महुरज्जुणिकिंकिणिंलंबमाणु
छट्टेण जेट्टमासंतरालि
वरुणासाधुलिइ खरंसुजालि
पहु पंचमुट्टि सिरि लोउ देवि
वीयइ दिणि दिणयरकरफुरंति
रायं विसाहंभूएं अणंतु
दिण्णउं तें तहु आहारदाणु

संचोहिउ दिव्वमहारिसीहिं ।
कल्लाणु कयउं सुरपुंगमेहिं ।
णीसेसु रंजु धणुं साहिरामु ।
आरुढउ सायरदत्तजाणु ।
बारसिवासरि णित्तरवालि । 5
उज्जाणि सहेउइ घणतमालि ।
सहसेण णिवहं सहं दिक्ख लेवि ।
हिंडंतु देउ उज्जाउरंति ।
जयकारिवि धरिउ महीमहंतु ।
पंचविहु वियंभिउ चोज्जाठाणु । 10

घत्ता—णियमत्थहु दसदिसिवत्थहु खरतवचरणसमत्थहु ॥
दुइ अहइं दुरियविमहइं गयइं तासु छम्मत्थहु ॥ १० ॥

11

मासम्मि पहिल्लइ महुपमत्ति
पुव्विल्लइ वणि आसत्थमूलि

णिच्चंदइ दिणि मासंतपत्ति ।
पंचमउ णाणु ह्यघाइमूलि ।

३ A मज्झत्थइं. ४ P^०सरासणु.

10 १ AP देसु. २ A धणसाहिरामु. ३ AP सायरदत्तु. ४ AP^०कुसिइ. ५ A विसाह-
भूइं; P वसाहभुइ. ६ A तं तहु. ७ AP चोज्जु.

3 a सत्तंगं इं स्वाम्यमात्यादि. 4 a^०परियणणिवसणु परिजन एव निवसन्तं वल्लम्. 7 b^०समाहं
वर्षाणाम्. 8 b णवपयंगु बालसूर्यः. 11 सयदल शतखण्डम्.

10 1 a^०रंजियं द्योतितः. 3 a सधामु स्वयहम्. 4 b सायरदत्तजाणु सागरदत्तशिविकाम्.
5 b णित्तरवालि तारापतिरहितं. 6 a^०युलिइ पतितं; खरंसुजालि सूर्यं.

11 1 a महुपमत्ति भ्रमरैर्मत्ते; b मासंतपत्ति अमावास्यायाम्.

संभूयउं लोयालोयगामि
आइय बत्तीस वि सुरवरिंद
तडि मेह सुवण्ण दिसग्गिणाय
किंणर किंपुरिस महोरगाय
संपत्त भूय भत्तिह्लभाव
जय जय सामासुय जय अणंत
जय जणणणिहणमयरहरसेउ

थिउ अरुहावत्थहि भुवणसामि ।
गह तारा रिक्ख खरंसु चंद ।
मरु जलणिहि थणियासुरणिहाय । 5
गंधव्व जक्ख रक्खस पिसाय ।
सयल वि थुणंति जय देव देव ।
जय मिहिरमहाहिय गुणमहंत ।
जय सिव सासयसिधलच्छिहेउ ।

घत्ता—जिणणामे भत्तिपणामे पावमहेतरु भेजइ ॥

10

गयगव्वहं सव्वहं भव्वहं भावसुद्धि संपज्जइ ॥ ११ ॥

12

अंतरियउं जं महिसुरहरेहिं
जं केण वि णउ दिट्ठउं सुट्ठरु
धणपुत्तकलत्तइं अहिलसंति
तुहुं पुणु संसारु जि संपुसंतु
दिणि अच्छइ घरि वावारलीणु
तुहुं पुणु रिसि अहणिंसु जग्गमाणु
वाहिरतवेण पइं अंतरंगु
तवतावे पइं ताविउं णियंगु

जं सुट्ठमु ण याणिउं जगि परेहिं ।
तं पइं पयडिउं तुहुं भावसूरु ।
भोयासइ तावस तउ करंति ।
संचरहि महामुणि चरिउं संतु ।
णिसि सोवइ जणु समदुक्खरीणु । 5
दीसहि परिमुक्कपमायठाणु ।
रक्खिउं णीसेसु वि सुइवि संगु ।
विद्वियउ पइं दुइसु अणंगु ।

घत्ता—अणुसंकुलु हत्थयलामलु जिह तिह णिहिलुं णिरिक्खिउं ॥

मयमत्तउं मयणासत्तउं तिहुवणु पइं पइं रक्खिउं ॥ १२ ॥

13

णिम्मुककसाय जिणेसरासु
पुव्वंगधराहं सहासु बुत्तु

जाया गणहर पण्णास तासु ।
तं तिउणउं वाइहिं दुसयजुत्तु ।

11 १ A °भत्तिलभाय. २ P °णिहल°. ३ AP °जयलच्छि. 4 P महाभरु. ५ A भेजइ.
६ AP भव्वहं सव्वहं.

12 १ P सुइसु. २ A सट्ठरु. ३ A संफुसंतु. ४ AP महामुणि सचरित्तु. ५ A अहणिसि.
६ A हत्थतला°. ७ AP सयल. ८ AP पइं पइं.

8 a सा मा सु य जयश्यामापुत्र. 9 a °म य र हर° ससुद्रः.

12 1 a अं तरि य उं अन्तरितमन्तर्हितम्; b परे हिं रुद्रादिभिः. 2 b भावसूरु परमार्थेना-
दित्यः. 4 a संपुसंतु संमार्जयन्. 5 b सम° श्रमः. 6 a अहणिंसु अहर्निशम्. 8 a णियंगु स्व-
शरीरम्. 9 अणुसंकुलु परमाणुसंकुलम्; हत्थयलामलु हस्ततले अमलः स्फटिक इव.

चालीससहस्र एकृण भणमि
चत्तारि सहस्र तिण्णि जि सयाइं
वयसहस्रं केवलदंसणाहं
तेत्तियइं जि मयविद्वावणाहं
अट्टेव सहासइं एकु लक्खु
सावयहं लक्ख दो चउ भणंति
गयसंख तियंसगण वंदणिज्ज
संमेयहु सिहरु समारुहेवि
विच्छिण्णउं किरियाजालु सयल्लु
गउ मोक्खहु अमवासौणिसियहि
रिदुसमसहसाइं सउत्तराइं

पंच जि सयाइं भिक्खुवयहं गणमि ।
अवहीहराहं पालियवयाइं ।
मणपज्जवणाणमहागुणाहं । 5
वसुंसमयइं सिद्धविउव्वणाहं ।
संजमधारिहिं सण्णाणचक्खु ।
सावइहिं महाकइ किर भणंति ।
संखेज्ज तिरिक्ख णमंसणिज्ज ।
छेइल्लु ज्ञाणु दढयरु धरेवि । 10
ओसारिवि देउ तिदेहणियल्लु ।
गुरुजोयव्भासें तहिं जि दियहि ।
सिद्धाइं रिसिहिं पणमामि ताइं ।

घत्ता—तमहारहिं जलणकुमारहिं जिणसरीरु संकारिउं ॥

णीसल्लहिं घल्लियफुल्लहिं अमरिंदहिं जयकारिउ ॥ १३ ॥ 15

14

संपण्णदुवालसतवविहइ
अवरु वि समदमसंजमपसत्थि
सुप्पहपुरिसुत्तमगुणिहाणु
पंचसयधणुण्णयमणुयंदहि
उत्तंगुं काउ दिण्णायणाउ
पयपालहु अरिहहु पय णवेवि
मई णउ रुद्धी सल्लं अणेण
उप्पण्णउ कयदहंविहवियण्णि
अट्टारहसायरपरिमियाउ

पुणु भासइ गणहरु इंदभूइ ।
वित्तउं अणंतजिणणाहतित्थि ।
सुणि मागहेसहरिबलपुराणु ।
इह जंबुदीवि सुरदिसिविदेहि ।
णंदउरि महाबलु णाम राउ । 5
रिसि जायउ तणयहु रज्जु देवि ।
तणुचाउ करिवि सल्लेहणेण ।
सुर सहसारइ सहसारकण्णि ।
किं वण्णामि सुरवरु सुद्धभाउ ।

घत्ता—इह भारहि पयडियसुहवहि पोयणपुरि चिरु होंतउ ॥ 10

वसुसेणउ त्थमणथेणउ णरवइ वहरिकयंतउ ॥ १४ ॥

13 १ A सहासैकृण. २ AP सिक्खुयहं. ३ A वसुमहस सिद्धं; P वसुमहसइं सिद्धं.
४ AP वेउव्वणाहं. ५ A सणाणचक्खु. ६ P omits गण. ७ A अमवासहो णिसाहे; P अमवासा-
णिसीहि. ८ A सदुत्तराहं. ९ A सक्कारिउ.

14 १ P has before this: जिणतणु पणवेण्णिणु गउ सुरिंदु, धरणेदु णरिंदु खगिंदु चंदु;
K gives it in margin in second hand. २ A संपुण्णु. ३ AP उत्तंग काउ. ४ AT मह
णावरुद्ध. ५ AP दहवियवियण्णि. ६ AP तियमण.

13 10 b छे इ ल्लु ज्ञा णु अन्तिमध्यानम्. 11 b ति दे ह णि य ल्ल औदारिकतैजसकामणदेहत्रय-
निगडम्.

14 2 a संपण्ण उत्यन्ना. 5 b सुरदि सि वि दे हि पूर्वविदेहे. 6 a दि ण्णा य णा उ दिग्गज-
नादः. 7 a पय पा ल हु प्रजापालतीर्थकरस्य. 11 सु ह व हि शुभपथे. 12 त्थ म ण थे ण उ स्त्रीमनसः स्तेनः.

15

मुहंद्दोहामियसरयचंद
रहरहसपसाहियजोव्वणाइं
तामायउ जियपडिवक्खेदंहु
अहरावयकरथिरथोरबाहु
वसुसेणें मण्णिउ परममित्तु
अवलोइवि णंदहि चारु वयणु
अवलोइवि णंदहि खीणु मज्जु
विहु सहेहुं ण सक्किउ मयणथाणु
वसुसेणें दइयविओइएण
वउं लइउ पासि णासियसरासु
अप्पउं दंडिउ छंडिउ ण माणु

यत्ता—तवचरणहु खंचियकरणहु हउं फलु पत्तिउं मग्गामि ॥

परयारिउ सो खलु वहरिउ मारिवि परभवि वग्गामि ॥ १५ ॥

महपवि तासु णामेण णंद ।
अच्छंति जाम बिण्णि वि जणाइं ।
णामेण चंडसासणुं पयंहु ।
राणउ सुहडग्गणि मलयणाहु ।
तहु कंतहि लग्गउ तासु चित्तु । 5
विहु जूरइ ओहुल्लंतवयणु ।
विहु कुप्पइ तप्पइ हिययमज्जु ।
अवहरिवि णंद गउ णिययटाणु ।
असमत्थें विहिणित्तेइएण ।
सेयंसणामजोईसरासु । 10
संमोहजणणु वद्धउं णियाणु ।

16

तहु रहिरवारिधाराइ जेव
इय वंधिवि दुट्टु णियाणसल्लु
संभूयउ तहिं सहसारसग्गि
तहिं दिट्टुउ तेण महावलेण
वद्धउ सणेहु कीलाविसालु
तहिं कालि सहिवि णाणाकिलेसु
इह भारहि कासीणामदेसिं
पुहईसरु तहिं णामें विलासु
पयहं दोहं मि लक्खणणित्तु

यत्ता—रणि मिलियहं परमंडलियहं भुयबलु पवलु विजित्तउं ॥ 10

तें सुहयरु रूपयगिरिवरु धरिवि महीयलु भुत्तउं ॥ १६ ॥

15 १ AP मुहंद्दो. २ A पडिवक्खुदु; P पडिवक्खददु. ३ A चंडसासणपयंहु. ४ A सुहडग्गामि. ५ AP झूरइ. ६ A ओहुल्लंतवयणु; P उहुल्लंतवयणु. ७ A सहिवि. ८ AP वउ.

16 १ A मोहंधगिह्लु but T मोहजलार्द्रः. २ AP देसु. ३ A पुरधरवरविसेसु; P पुरि धरवरविसेसु. ४ AP महसूयणु. ५ A तं सुहयरु.

15 4 b सुहडग्गणि सुभटाग्गणीः; मलयणाहु मलयदेशस्वामी. 6 b ओ हुल्लंतवयणु सुप्यद्वदनः. 9 b वि हि णि त्ते इ ए ण विधिना कृत्वा निस्तेजस्केन, पुण्यहीनत्वाच्चिर्वलेन. 13 परयारिउ पारदारिकः; वग्गामि नृत्यं करोमि.

16 1 b परिहवपहु परिभव एव पटो वस्त्रम्. 2 b मोहं बु गि ह्लु मोहजलार्द्रः. 9 a लक्खणणित्तु लक्षणयुक्तः. 11 तं तेन मधुसूदनेन.

17

जहिं वरिसहं लक्खइं णिट्टियाइं
 तहुं भुंजंतहुं लच्छीविलासु
 दारावइपुरि णं दससयक्खु
 तहुं जयवइ अवर वि अत्थि वीय
 कालेण भुवणि किर को ण गसिउ
 पढमाइ महाबलु पुत्तु जणिउ
 सुप्पहुं पुरिसुत्तमु णामधारि
 ते बेण्णि वि पंडुरकसणवण्ण
 ते बेण्णि वि साहियसिद्धविज्ज

जहिं वरिससयाइं जि संठियाइं ।
 तहिं अवसरि सुणि अवरं वि पयासु ।
 सोमप्पहुं पहुं णवपउमच्चक्खु ।
 लहुइं पणइणि णामेण सीय ।
 सुरवरु सहसारविमाणल्लहसिउ । 5
 बीयइं जो चिरु वसुसेणु भणिउ ।
 ते बेण्णि वि हलहरदाणवारि ।
 ते बेण्णि वि उण्णयपुण्णधण्ण ।
 ते बेण्णि वि खयरामरहं पुज्ज ।

घत्ता—हरिकंधर धवलधुरंधर जोइवि कलहपियारउ ॥ 10
 महिरायहुं दावियघायहुं जाइवि अक्खइं णारउ ॥ १७ ॥

18

भो भो महसूयण सुहउसीह
 सुंदर सोमप्पहदेहजाय
 दारावइपुरवरि दोण्णि भाय
 णं तुहिणज्जणमहिहर महंत
 पण्णाससरासणदेहमाण
 तहिं कालसलोणउ भणइ पम्ब
 को अण्णु राउ मइं जीवमाणि
 आरूसेप्पिणुं दुम्मियमणेण
 पडिवक्खपसंसियविक्रमासु
 पभणिउं भो भो लहुं देहि कण्णु

समरंगणि को तुहं लुहइं लीह ।
 मइं दिट्ठा सुणि रायाहिराय ।
 सक्कु वि णउ पावइ ताहं छाय ।
 थिर तीसंवरिसलक्खाउवंत ।
 संगामरंगणिव्वहमाण । 5
 भो सुप्पह महिवइ तुहुं जि देव ।
 को जीवइ गुणसंणिहियवाणि ।
 ता दूउ दिण्णु महसूयणेण ।
 गउ तासु पासि पुरिसुत्तमासु ।
 अवियक्खणुं किं किर करहिं दण्णु । 10

घत्ता—पहुं मण्णाहि कलि अवगण्णहि करि उत्तउं महुं केरउं ॥
 महसूयणि भिडिय महारणि ण रंमइं खग्गु तुहारउं ॥ १८ ॥

17 १ AP तहिं. २ AP अवर. ३ P णउ पउम°. ४ AP °विवाण°. ५ P वीयउ.
 ६ AP पुण्णवण्ण.

18 १ A लहइ. २ AP तीसलक्खवरिसाउअंत. ३ AP काले. ४ AP दूमिय°. ५ A
 धरइ; K धरइ but corrects it to रमइ.

17 1 a णि ट्टियाइं गतानि. 2 b पयासु प्रकाशः महिमा. 3 a दससयक्खु इन्द्र इव
 सहस्राक्षः. 5 b °ल्लहसिउ च्युतः. 6 a पढमाइ प्रथमया जयावत्या. 7 b °दाणवारि विण्णुः. 9 a
 साहियसिद्धविज्ज सर्वेभ्यः साधिकसिद्धविद्यौ. 11 णारउ नारदः.

18 1 b लुहइ स्फोटयति; लीह रेखा. 6 a कालसलोणउ वासुदेवः. 8 a दुम्मिय-
 मणेण सखेदचित्तेन. 11 अवगण्णहि मुञ्च.

19

तं गिसुणिवि भासइ सीरधारि
अम्हारउ करु मग्गइ अयाणु
अम्हारउ करु सहं धणुंहरेण
अम्हारउ करु चक्रेण फुरइ
अम्हारउ करु तहु कालवासु
तं सुणिवि महंतउ गउ तुरंतु
ण समिच्छइ संधि ण देइ दव्वु
तं गिसुणिवि मणि उप्पण खेरि
संणद्ध सुहड हणु हणु भणंति
आरोहचरणचोइयमयंग
धाइय रहंवर धयधुव्वमाण
णिग्गउ आरुसिवि राउ जाम
आयउ रिउ हय दुंदुहिणिणाउ

भो दूय म कोक्कउ गोसमारि ।
किं ण मरइ रंणि सो हम्ममाणु ।
अम्हारउ करु सहं असिचरेण ।
अम्हारउ करु तहु जीउ हरइ ।
जिणु मेल्लिवि अम्हइं मिच्च कासु । 5
विण्णवइ ससामिहि पय णमंतु ।
पर चवइ रामु केसउ सगव्वु ।
हय रसमसंति संणाहभेरि ।
दट्टोदु रुद्ध दढंभुय धुणंति ।
धारासिवारवाहियतुरंग । 10
गयणयलि ण माइय खगविमाण ।
चरपुरिसहिं कंहियउं हरिहि ताम ।
थिय रणभूमिहि वहियकसाउ ।

घत्ता—तं गिसुणिवि णियभुय धुंणिवि केसउ जंपइ कुद्धउ ।

मरु मारमि पलउ समारमि रिउ बहुकालहुं लद्धउ ॥ १९ ॥ 15

20

हरिवाहिणिग्गवाहिणिसमेय
रह तुरय दुरय णरंवरउद्द
चलचमरल्लसधयल्लणसेणुं
दसदिसिर्वहभरिय ण कहि मि माइ
फणि तेण भरेण ण केमं मरइ
णरभोयणकइ रोमंचियाइ

णिग्गय वेण्णि वि हिमगरल्लतेय ।
मज्जायविवज्जिय णं समुद्द ।
उग्गयधूल्लीरयकविलवणुं ।
महि वज्जघडिय विहडियि ण जाइ ।
धुयफडकडप्पु थरहरइ सरइ । 5
सुपहूयइं भूयइं णच्चियाइं ।

19 १ AP सो रणि. २ AP धणहरेण. ३ AP भुयबलि. ४ P धारासवार. ५ A रह रणि
घय°. ६ AP साहिउं. ७ AP विहणिवि.

20 १ AP णरवरउद्द. २ AP मज्जायमुक्क णं चल समुद्द. ३ A °सेण. ४ A धूल्लीरव°.
५ A °वण. ६ A °दिसवह°. ७ AP कह व. ८ A वण° but corrects it to णर in second
hand.

19 2 a करु राजदेयम्. 8 a खेरि वैरम्. 15 पलउ समारमि प्रलयकालमानयामि.

20 1 b हिमगरल्लतेय धवलवर्णः कृष्णवर्णश्च. 2 a दुरय गजाः. 4 b वज्जघडिय वज्ज-
घटितेव. 5 b °फडकडप्पु °फणासमूहः. 6 a णरभोयणकइ नरा एव भोजनं तस्य कृते; b सुपहू-
यइं सुप्रभूतानि प्रचुराणि.

बिण्णि मि सेण्णं समुहागयाइं
जयगोमिणिमेइणिलंपडाइं

आलग्गं तासियदिग्गयाइं ।
मुसुमूरियचूरियभडथडाइं ।

घत्ता—दप्पिट्ठं वेण्णि मि दिट्ठं सेण्णं समरि भिडंतं ॥
हलसूल्लं शसंकरवालहिं पहरंताइं पडंतं ॥ २० ॥

10

21

पवरासवारवेदियरहोहि
जोहंधिदलियमंडलियमउडि
वियडियकवाडसंदोहणीडि
मीडामहग्घजुज्झंतवीरि
णीरेरुहसममुहपंकएण
कयहलणित्तेइयकयखलेण
वलएवहु पइसरु सरणु अज्जु
कज्जु वि मइं अक्खिउ तुज्जु सारु
आरुहसु म जमसासणु अजाण
माणहि मा महुं रणि बाणविट्ठि

रहसंकडि णिवडियविचिहजोहि ।
मउडुच्छलंतमणिकिरणविउडि ।
णीडाहिरुठसुरवरसमीडि ।
वीरंगगलियकीलालणीरि ।
पंकयणाहें दप्पंकएण । 5
खलु दुच्छिउं दुदमभुयबलेण ।
अज्ज वि णउ णासइ मित्तकज्जु ।
सारुइ मुइ अवरु वि हत्थियारु ।
जाणेण जाहि मुक्काहिमाण ।
विट्ठि वै भीसण तुह हणइ तुट्ठि । 10

घत्ता—पडिकण्हें भणिउं सतण्हें फलवज्जिउ किं गज्जहि ॥
धणुदंडें डिंभय कंडें रे कुमार मइं तज्जहि ॥ २१ ॥

22

दे देहि कप्पु किं जंपिएण
तुहुं किंकरु हउं तुहुं परमणाहु
इय भणिवि विसमभडघाइणीइ
सीयासुएण भग्गइ अणीइ
ता रिउणा घल्लिउ फुरियधारु

दुण्णयवंतें सुइविणिएण ।
किं वज्जउ विहलु पहुत्तगाहु ।
जुज्झिउ विज्जइ बहुरुविणीइ ।
वहुरुविणि जिय पडिरुविणीइ ।
रहचरणु चवेलु सहसौरफारु । 5

१ P समुहं गयाइं. १० A हलसूल्लिहिं. ११ AP वरकरवालहिं.

21 १ A जोहोहदलियं. २ AP दोच्छिउ. ३ A वि. ४ AP सयण्हें. ५ AP डिंभियकंडें.

22 १ A बहुरुपिणि. २ A तरणु. ३ AP सहसारु फारु.

8 b °भडथडाइं °भट्टसमूहानि.

21 1 a °वेदियरहोहि °वेष्टितरथौघे. 2 a जोहंधिं योधपादैः. 3 a वियडियं विरु-
टितम्. 4 a मीडामहग्घं मा च ईडा च ताभ्यां महार्धैः. 5 णीरेरुहं पङ्कजम्. 8 b सारुइ लक्ष्मी-
रुचिम्. 12 डिंभय हे शिशो.

22 2 b विहलु विफलम्. 4 a अणीइ सैन्ये.

गिरिधरणिबलयचालणबलेण	तं हरिणा धरियउ करयलेण ।	
सो रेहइ तेण सुणिम्मलेण	णवमेहु व रविणा णित्तलेण ।	
णियेरूवपरज्जियणित्तणेण	अलियंजणसामे पत्तलेण ।	
पुणु भणित्ठ वइरि रे सुप्पहासु	करि केर म जाहि कयंतवासु ।	
पालियतिखंडमंडियधरेण	पडिजंपिउं पडिदामोयरेण ।	10
तुहुं सुप्पहु विणिण वि मज्जु दास	को गवु रहंमं रे हयास ।	
सरसलिलि रहंगसयाइ अत्थि	किं तेहिं धरिज्जइ मत्तहत्थि ।	
मरु मरु मारंतहु णत्थि खेउ	संभरहि को वि णियइट्टदेउ ।	
घत्ता—असमिच्छिवि पुणु णिम्मिच्छिवि चक्के रिउसिरु तोडिउ ॥		
हरिहंसं लद्धपसंसं णं रणंतरुहलु साडिउ ॥ २२ ॥		15

23

मंहरिक्खसि खद्धणिमासखंड	पुरिसुत्तमेण भुत्ती तिखंड ।	
पत्थिव पसु गिलइ ण कहिं मि धाइ	ओहच्छइ केण वि सहुं ण जाइ ।	
कालेण कणहु गउ अवहिठाणु	हलिणा वित्तिउ रिसिणाहणाणु ।	
णिट्ठुंचियकुंतलु करिवि सीसु	जायउ सोमण्णहगुरुहि सीसु ।	
परिसिसिवि भवसंसरणवित्ति	थिउ भूसिवि मोक्खमहाधरित्ति ।	5
जहिं भुक्खु णत्थि आहारवग्गु	जहिं णिइ ण मंदिरु सयणवग्गु ।	
जहिं कामिणि कामु ण रोसु तोसु	जहिं दीसइ पक्कु वि णाहिं दोसु ।	
जहिं वाहि ण विज्जु ण मलु ण ण्हाणु	जहिं अप्पे अप्पउं जाणमाणु ।	
इच्छइ पेच्छइ णीसेसु ताम	तिहुयणु अणंतु आयासु जाम ।	
संतणेण समियफुल्लाउहेण	चउथेण तेण सीराउहेण ।	10

घत्ता—ववगयरइ भरहेरावइ जं णरेहिं आराहिउं ॥

तं सिद्धउं सिवसुहुं लद्धउं पुष्पदंतजिणसाहिउं ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिए महा-
कइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे अणंतणाहसुप्पहपुरिसुत्तममहसूयणकहंतरं

णाम अट्टवण्णासमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ५८ ॥

३ AP णित्तवेण. ४ A omits Sa. ५ AP मंडलवरेण. ६ A तो जंपिउं पडि^०; P ता जंपिउं पडि^०.
७ A महु मारंतहु. ८ AP णिम्मिच्छिवि. ९ P णं णवसररुह पाडिउ.

23 १ AP have before this: बहुपाउ करिवि बहुभोयसत्तु. तमतमि पत्तउ पडिलिच्छि-
कंतु. २ AP सयणमग्गु. ३ AP अप्पइ अप्पउं जायमाणु. ४ AP अच्छइ. ५ A पुल्लाउहेण. ६ AP
चोत्थेण. ७ AP तं लद्धउं सिवसुहुं सिद्धउं. ८ AP पुरिसोत्तम^०. ९ AP अट्टवण्णा^०.

7 b णित्तलेण निर्दोषेण, भासुरेणेत्यर्थः. 9 b केर आज्ञा. 13 a खउ कालक्षेपः.

23 1 a णि मा स नृमांसम्. 4 a अव हि ठा णु सप्तमनरके अवधिष्ठानं नरकविलम्. 6 a
परिसे सि वि परित्यज्य. 7 a भुक्खु भोदकादिकं भक्ष्यम्. 9 a विज्जु वैद्यः. 11 फुल्लाउहेण कामेन.

जिणुं धम्मु भडारउ तिहुवणसारउ मइं जडेण किं गिज्जइ ॥
चवलुकलियायरु भरियउ सायरु किं कुहुवेण मविज्जइ ॥ धुवकं ॥

1

लच्छीरामालिगियवच्छं	उण्णयसिरिवच्छं ।	
दिव्वज्जुणिं छत्तत्तयवंतं	कंतं भयवंतं ।	
भामंडलरुइणिज्जियचंदं	भध्वकुमुयचंदं ।	5
अमरमुक्कुसुमंजलिवासं	देवं दिव्वासं ।	
बुद्धं बहुसंबोहियसुरवं	जयदुंदुहिसुरवं ।	
वरकंठीरवपीढारूढं	मीमांसारूढं ।	
पंचिदियभडसंगरसूरं	भुवणणलिणसूरं ।	
मंदराइधीरं सवरद्वियं	रायरोसरद्वियं ।	10
दूरुज्जियमायाविरहंसं	मुणिमणसरहंसं ।	
एयाणेयवियप्पविवायं	मोहमेहवायं ।	
पायपोमपाडियगिब्बाणं	उग्गयगिब्बाणं ।	
दिसिणासियदुण्णयसारंगं	हयवसुसारंगं ।	

All mss., A, K and P, have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

अत्र प्राकृतलक्षणानि सकला नीतिः स्थितश्छन्दसा-
मथोलकृतयो रसाश्च विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः ।
किं चान्यद्यदिहास्ति जैनचरितं नान्यत्र तद्विद्यते
द्रावंती भरतेशपुष्पदशनौ सिद्धं यथोरीदृशम् ॥ १ ॥

K reads ते चार्थनिर्णीतयः for तत्त्वार्थं; देवंती for द्रावंती, and भरताख्यं for भरतेशं; P reads देवेती भरतं तु पुष्पं. K has a gloss on देवेती as देवत्वं इती प्राप्ती देवेती.

1 १ A जिणधम्म. २ P किं तं.

1 2 उ क्क लिय यरु उत्कलिकाकारः कल्लोलसमूहयुक्तः; कुहुवेण मानप्रमाणविशेषेण. 3 b °सि रिव च्छं श्रीवृक्षमशोकवृक्षम्. 4 b भयवंतं ज्ञानिनम्. 6 b दिव्वासं दिग्बसनम्. 7 a °सुरवं °सुरपतिम्; b °सुरवं शोभनशब्दम्. 8 b मीमांसारूढं मीमांसाविचाररूढं परीक्षाप्रसिद्धमित्यर्थः. 10 a सवरद्वियं स्वपरहितं भिल्लहितं वा. 11 a °मायाविरहंसं मायाविरहयोरंशं भागम्. 13 b उग्गयगिब्बाणं उद्गता निष्पन्ना गीर्वाणाः पण्डितगणधरदेवादयो यस्मात्; अथवा उन्नतग्रीवाणां मिथ्यादृष्टीनां ध्वस्तसंबन्धिनम्. 14 a दुण्णयसारंगं °दुर्मतहरिणम्; b हयवसुसारंगं हतद्रव्यलक्ष्म्यनुरागम्.

तवहुयवहहुयवम्महधम्मं
भणिमो तस्स चरित्तं चित्तं

णमिऊणं धम्मं ।
रंजियपरचित्तं ।

15

घत्ता—जिह अक्खइ गोत्तमु उत्तमु णित्तमु सत्तमु सेणियरायहु ॥
तिह हउं दुक्कियहरु कहंमि कहंतरु भरहहु भव्वसर्हायहु ॥ १ ॥

2

धादइसंडइ पुव्वदिसायलि पुव्वविदेहइ अंकुरपल्लवसोहियपायवि माहवगेहइ ।
सीयातीरिणिदाहिणतीरइ वच्छयदेसइ पुरिहि सुसीमहि दसरहु राणउ जयसिरिसेसइ ।
सुपसाहियसिरु बुहयणवच्छलु णिवसंड केहउ चाएं भोएं विहवें रुवें वम्महु जेहउ ।
रयणिसमागमि गिलियउ छणससि अब्भपिसाएं खीरामेलउ णावइ णाएं दिट्ठउ राएं ।
चित्तिउ णियमणि सच्छसहावें वियलियदप्पें अमयकलायरु जेम णिसायरु गसिउ विडप्पें 15
तेम गसेव्वउ जीउ पुसेव्वउ कूरकयंतं णिव्वयवंतं कारिमजंतं काइं जियंतं ।
एव चवेप्पिणु रज्जि थवेप्पिणु अहरहु णंदणु संगु मुपप्पिणु गउ तउ लेप्पिणु णिम्माणुसु वणु ।
पढिउ सुयंगइ सो एयांरह णिट्ठइ क्षिज्जिवि तिहुवणखोहणु तित्थयरत्तणु पुणु समज्जिवि ।
पाववि गासं मुउ संणासं गउ सब्वत्थहु जणि णउ काइं मि दीसइ दुग्गमु धम्मसमत्थहु ।
जं तसणाडिहि लहुयउ गरुयउ काइं वि अच्छइ तं णियणाणं एक्कं करंगउ जाणइ पेच्छइ । 10
सो तिहिं तीसहिं पक्खहिं गलियहिं सासु पउंजइ तेत्तियवरिससहासहिं संखइ शीणइ भुंजइ ।
सुक्कलेसु ससिसुक्कवणु सुइ णिप्पडियारउ किं वणिज्जइ इंदु चंदु अहमिंदु भडारउ ।
तेण तितीससमुद्दमाणु परमाउसु भुत्तउं परियाणिवि उव्वरिउं सेसु छम्मासु णिरुत्तउं ।
पेसणु पढमं सयमहिण जक्खिदहु सिट्ठउं कुरु कुरु जिणपुजाविहाणु परमागमि दिट्ठउं ।

घत्ता—सुंणि जंवूदीवइ ससिरविदीवइ भरहखेत्ति जणपउंरइ ॥ 15

महराउ णरसरु सुरकरिकरकरु अत्थि जक्ख रयणउरइ ॥ २ ॥

३ AP णविऊणं. ४ P omits चित्तं. ५ A कहवि. ६ P सयायहु.

2 १ A सिरि. २ P णिवइ स. ३ A गमेवउ. ४ A पुसेवउ. ५ AP read this line as पढिउ सुयंगइ सो अविहंगइ एयांरह पुणु; P adds after this: सरिवि सुहंगइ दहधम्मंगइ सोसिवि णियतणु; AP add after this: छत्तीस वि गुणसहिण तवणिट्ठइ (A तवणिट्ठविणं क्षिज्जिवि. ६ P एक्क. ७ A सो तंतीसहि. ८ A सुइ. ९ A तिणि तंतीस. १० A पुण जंबू; P मुणि जंबू. ११ P जणं पउरइ; K जणपवरइ but corrects it to जणपउरइ. १२ A महराउ; P महाराउ.

15 a वम्महधम्मं कामदेवधनुः. 17 सत्तमु अतिशयेन प्रशस्तः.

2 1 a पुव्वदिसायलि पूर्वमेरौ; b माहवगेहइ माधवा लक्ष्मीपतयः तं पां गृहके. 2 b-3 a जयसिरिसेसइ सुपसाहियसिरु जयलक्ष्मीशेषया पुष्पमालया प्रसाधितं शृङ्गारितं शिरो यस्य स राजा. 4 a अब्भपिसाएं राहुणा. 5 b विडप्पें राहुणा. 6 a पुसेव्वउ कूरकयंतं स्फोटयितव्यः क्रूरकृतान्तेन यमेन; b णिव्वयवंतं मतरहितेन; कारिमजंतं शरंगेण; जियंतं जीवता. 9 a सब्वत्थहु सर्वार्थसिद्धिविमानं गतः. 10 b एक्कं करंगउ एकहस्तकायः, अथवा एकाङ्गुलिवत्. 11 a तिहिं तीसहिं त्रिभिस्त्रिंशता च. 12 a मुइ शुचिः; णिप्पडियारउ प्रवीचाराहितः. 15 a पढमं सयमहिण प्रथमेन देवेन्द्रेण, सौधमैन्द्रेण. 17 महाराउ महसा तेजसा राजितः भानुराजा.

3

पुरंधि तस्स सुप्पहा	सई अणंगमापहा ।	
जणेदिही जिणेसरं	रईणिसादिणेसरं ।	
पुरं णिवद्धतोरणं	घरं समत्तवारणं ।	
करेहि तं तहा तुमं	कुलक्कमागयं इमं ।	
णमंसिउं सुराहिवं	तओ गओ धणी भुवं ।	5
णवप्पसंडिपीयलं	अणेयखाइयाजलं ।	
अणेयवण्णसालयं	अणेयणट्टसालयं ।	
अणेयकेउच्छाइयं	अणेयदूरणाइयं ।	
अणेयदरदावणं	अणेयवल्लरीवणं ।	
अणेयसुंदरावणं	अणेयतित्थपावणं ।	10
कयं पुरं महासरं	तैहि चि रायमंदिरं ।	

यत्ता—तहिं पच्छिमरयणिहि सुत्तइ सयणिहि दीसइ देविइ कुंजरु ॥
पमुवइ पंचाणणु विक्कुरियाणणु मयमारणणहपंजरु ॥ ३ ॥

4

अवरं वि सिरिदामइं दिट्ठिहि सोम्मइं दोइयइं	
णहि पंडूरतंवइं ससिरविधिवइं जोइयइं ।	
दुइ मीण रईणड दुइ मंगलघड सरयसरु	
जलणिहि जलभीसणु सेहीरासणु सक्कघरु ।	
उरगिंक्षणिहेलणु णाणामणिगणु सत्तसिहु	5
मुद्धइ अवलोइउ मणि संमाइउ भणिउ पहु ।	
मइं दिट्ठा सिविणयं सोलह सिविणय दंतु सुहुं	
फलु ताहं भडारा णरवरसारा कहहि तुहुं ।	
पइ कंतहि अक्खइ गुज्जु ण रक्खइ भुयणगुरु	
तुह होसइ तणुरुहु णवसररुहमुहु गुणपउरु ।	10

3 १ AP जणेइही. २ P सम्मत्त°. ३ A तहिं च राय°.

4 १ AP अवरु. २ AP सुविणय. ३ A णवससररुहमुहु.

3 1 b अणंगमापहा कामश्रीसदृशी. 2 a जणेदिही जनिष्यति; b रईणि सादिणेसरं रतिरेव निशा तस्या विनाशसूर्यः. 5 b धणी धनदः. 6 a णवप्पसंडिपीयलं नवमुवर्णीपीतम्. 10 a सुंदरावणं शोभनहट्टं आपणम्. 11 a महासरं सरोयुक्तम्; b तहिं चि तत्रैव नगरे.

4 3 सरयसरु पद्मसरः. 5 सत्तसिहु सत्तार्चिरमिः. 7 सिविणय दंतु सुहुं श्रीविनतानां राज्ञां सुखं ददत् त्वम्. 10 णवसररुहमुहु नवपङ्कजमुखः.

तं णिसुणिवि राणी णं सहसाणी घणरविण
 णच्चइ सिंगारं रसविन्धारं णवणविण ।
 हेमुज्जलभित्तिहि उग्गयदित्तिहि जियतवणि
 वोलावियं अयणइं पडियइं रयणइं णिवभवणि ।
 वइसाहइ मासइ तेरसिदिवसइ ससिधवलि 15
 थिउ गच्चि जिणेसरु अहममरेसरु गलियमलि ।
 रेवइणक्खत्तइ णैविउ पवित्तइ सुरवरहिं
 आयहिं दिहिकंतिहिं सिरिहिरिकित्तिहिं अच्छरहिं ।
 चउसायरमेत्तइ सिद्धि अणंतइ मयमइणु 20
 अंतिमपल्लइइ धम्मविसुद्धइ गइ णिहणु ।
 माहम्मि रवणइ धण्णपउण्णइ जणियसुहि
 ओसाकणसंकुलि णवतणकोमलि तुहिणवहि ।
 सियपक्खहु अवसरि तेरसिवासरि दिण्णदिहि
 उप्पण्णउ जगगुरु सिरिसेवियउरु णाणणिहि ।
 गुरुजोइ सुरिदहिं ण्हविउ फणिदहिं सुरगिरिहि 25
 आणिवि पियवाइहि अप्पिउ मायहि सुंदरिहि ।
 गउ सक्कु सुहम्महु पणविवि धम्महु पणइसिरु
 चइइ परमेसरु रुवें जियसरु महुरगिरु ।
 वत्ता—पणयालसुंवावइं उज्जयभावइं गरुणं तणु तुंगत्तं ॥
 तेलोकहु सारं अरुहकुमारं जणु रंजिउ धणु देत्तं ॥ ४ ॥ 30

5

ताव कुंअरत्तणे	देवकयकित्तणे ।	
लक्खजुयसंजुयं	अद्धलक्खं गयं ।	
वच्छरविसेमेहं	अच्छरसुरेमेहं ।	
विरइय अणिदओ	जसविडविकंदओ ।	
इंदकयण्हाणओ	जायओ राणओ ।	5

४ A सहसाणी; P सहसाणी. ५ P वोलाविय. ६ A अट्टमिदिवसइ. ७ AP णववि. ८ A धम्मपउ-
णइ. ९ P उंसां १० A गुरुजोय. १३ AP पणयसिरु. १२ A सच्चावइं.

5 १ AP कुमरत्तणे. २ P °विसेमेहि. ३ P °सुरेमेहि. ४ AP विरइयाणंदओ.

11 सहसाणी मयूरी. 12 णवणविण नवनवेन. 13 वोलाविय यापितानि; अयणइं पण्मासपर्यन्तम्.
15 अससिधवलि कृष्णे. 17 णविउ नमस्कृतः. 22 ओसाकणं अवश्यायकणाः. 25 गुरुजोइ
पुष्यनक्षत्रे. 27 पणइसिरु प्रणतशिराः.

वयसमोलक्खहं	गयहं कयसोक्खहं ।	
चंदिमाकंतिया	उक्क णिवडंतिया ।	
तेण अवलोइया	विहियणिव्वेइया ।	
सइं जि उम्मोहिओ	पुणु वि संबोहिओ ।	
वरं कुसुमहन्थहिं	दिव्वरिसिसत्थहिं ।	10
हरिहिं अहिसिन्धिओ	वंदिओ अंन्धिओ ।	
सिहरलिहियंवरं	णाययत्तं वरं ।	
सिवियमारोहिउं	वम्महं जोहिउं ।	
मंदिरा णिग्गओ	सालवणमुव्वगओ ।	
माहि तेरहमए	दियाहि सैमियंक्कए ।	15
पूसि सायण्हए	रहिउ रइत्तण्हए ।	
छट्टुववासओ	करिवि णिहियासओ ।	
णिवसहससंजुओ	मुणिवरिंदो हुओ ।	
खंतिकंतापिओ	तुरियणाणांकिओ ।	
पुरिं धरविच्चिए	पांडलीउत्तए ।	20
भमिउ पिंडत्थिओ	विणयणविओ थिओ ।	
धण्णसेणालए	ढोइयं कालए ।	
भोयणं फौसुयं	सव्वदोसच्चयं ।	
जायपंवब्भुयं	दाणममरत्थुयं ।	
सहइ तवतावणं	करइ गुणभावणं ।	25

घत्ता—उवसंतइ मच्छरि गइ संवच्छरि खाइयभावहु आइउ ॥
फुल्लंतपियालउं तुंगतमालउं तं सालवणु पराइउ ॥ ५ ॥

6

तहिं सत्तच्छयतरुहि तालि	खगउलमंहुलि ।
छट्टुववासालंकियहु	अविसंकियहु ।
पूसरिक्खि छणससिदिवसि	हइ कम्मरसि ।

५ A वयसमलक्खहं; P वयसमसुलक्खहं. ६ A णवकुसुम^०. ७ A समयंक्कए. ८ A पिहियासवो. ९ A पुरव्वरं. १० AP पांडलीपुत्तए. ११ AP पासुयं.

6 १ AP ^०मुहलि.

5 6 a वयसमालक्खहं पञ्चसंवत्सरलक्षणाम्. 7 a चंदिमाकंतिया दीपयाक्रान्ता. 12 b णायदत्ते नागदत्ताम्; वरं वरामुत्कृष्टाम्. 13 b जोहिउं जित्वा. 15 b समियंक्कए चन्द्रसहिते. 19 b तुरियणाणांकिओ मनःपर्यायज्ञानयुक्तः. 26 खाइयभावहु आइउ घातिचतुष्टयं विनाशमागतम्.

6 1 b खगउलमंहुलि पक्षिसमूहमुखरे. 3 b कम्मरसि कर्मरमे कर्मसामर्थ्ये हते सति.

अवरण्हइ ह्यउ सयलु	केवलु विमलुं ।	
आयउ तुरियंउं सतियसयणु	दससयणयणु ।	5
थुणइ थुणंतु गहीरञ्जुणि	जय परममुणि ।	
धम्मु ण णहयलि गिरिगुहिलि	णउ धरणियलि ।	
धम्मु ण ण्हाणि ण पसुर्गसणि	ण सुरावसणि ।	
तुहुं जि धम्मु जिणधम्ममउ	कयजीवदउ ।	
णरयपडंतं दिण्णु करु	तुहुं दुरियइरु ।	10
हंरु तुहुं संकरु परमपरु	तुहुं तित्थयरु ।	
बुद्धु सिद्धु तुहुं महु सरणु	हयजरमरणु ।	
जिहं मणु धावइ णारियणि	उत्तुंगथणि ।	
जिह मणु धावइ भवणि धणि	णियबंधुयणि ।	
तिह जइ धावइ तुह पयहं	गयभवभयहं ।	15
तो संसारि ण संसरइ	ण हवइ मरइ ।	
जाइ जीउ तिहुवणसिरहु	तहु सिवपुरहु ।	
पंव थुणेधि पुरंदरिण	वीणासरिण ।	
समवसरणु णिम्मउ विउलु	तहिं जीवउलु ।	
धम्मचक्रपहुणा जिणिण	संबोहियउं ।	20
इंदियविसयकसायवसु	सुणिरोहियउं ।	

यत्ता—तहु वज्जियल्लम्महु देवहु धम्महु तवभरधरदहयरभुय ॥

चालीस मणोहर जाया गणहर विहिं गणणाहहिं संजुय ॥ ६ ॥

7

णवसयइं पुव्वपारयरिसिहिं
चालीससहास सत्तसयइं
रिदुसयइं तिणिण सहसइं परहं

संदरिसियमोक्खमग्गादिसिहिं ।
सिक्खुयहं णमंसियगुरुपयइं ।
अवहिल्लहं संजमभरधरहं ।

२ AP add after this: देवं सयरायरु मणिउं, जगु जाणियउं (A omits जगु जाणियउं); खणि जाइय (A जाइयउ) देवगमणु, छण्ह (A सुण्णयं) गयणु; णाणाविहहिं पडाइयहिं, अवराइयहिं; संथुउ देउ सुरासुरहिं, मउलियकरहिं; K gives these lines but scores them off.
३ A तुरिउ. ४ A पमुवहणे. ५ P has तुहुं before हरु. ६ A मह सुयणु. ७ P omits this line. ८ A धावइ भवणि वणि; P धावइ णियभवणि धणि. ९ P तिहिं.

7 १ P भिक्खुयहं.

5 b दससयणयणु इन्द्रः. 7 a गिरिगुहिलि गिरिगहरे. 8 b सुरावसणि मद्यव्यसने.

7 1 a पुव्वपारयं पूर्वपारगाणां ऋषीणाम्. 3 b अवहिल्लहं अवधिज्ञानयुक्तानाम्.

चउसहस पंचसय केवलहिं
भयसहसइं विकिरियाइयहं
सहसाइं सट्टि चउसयजुयइं
दोलकखइं भणियइं सावयाहं
गिन्वाण मिलिय संखारहिय
पणवांति जासुं को तेण सहुं
गिंभागमि अट्टणवुत्तरहिं
चोत्थिइ पच्छिमपहरइ गिसिहि
संपण्णी धम्महु परमगइ

मणपज्जयाहं तइं मणबलिहिं ।
दोसहसइं वसुसयवाइयहं । 5
अज्जियहं मोहवासहु चुयइं ।
दुगुणाइं तयंहं पालियवयाहं ।
संखेज्ज तिरिकख दिक्खसहिय ।
उवमिज्जइ हईं चित्तं महुं ।
सह जइसपहिं कयसंवरहिं । 10
संमेयसिहरि अरिहहु रिसिहि ।
महुं देउ भडारउ सुद्धमइ ।

घत्ता—वंदारयवंदहु देहुं जिणिंदहु पुज्जिवि हयभवपासहु ॥

पहंजियरविमंडलु गउ आहंडलु गय अवर वि णियवासहु ॥ ७ ॥

8

धम्मवारिविहरणवाहित्थे
सेणिय हलहरचक्कराणं
णवसासंचियवसुमइदेहे
णिवसइ णरवइ परदुव्विसहो
सो संसारजायणिव्वेयउ
काउं तवचरणं जिणदिट्ठं
पत्तो णिरसणविहिणा सग्गं
अट्टारहजलणिहपरिमाणं
जइया तइया इह रायगिहे
णाम सुमित्तो अप्पडिमल्लो
जुज्जे सो भुयबलमयमत्तो
ताम तेण परिमउलियणेत्ते

अस्सि परमधम्मजिणत्तित्थे ।
णिसुणहि चरियं णरपवराणं ।
जंबूदीवे अवरविंदहे ।
वीयसोयणयरे णरवसहो ।
दमवरपासे सुद्धिसंमेयउ । 5
विसहियकेसालुंचणणिट्ठं ।
तं सहसारं भोयसमग्गं ।
तस्सेयारहमे वोलीणे ।
णयरे घरसिरणच्चियवरिहे ।
दुज्जणहियउप्पाइयसल्लो । 10
रायसीहराण णिहित्तो ।
परिभवदुक्खपरंपरच्छित्तं ।

घत्ता— णियरज्जु मुपप्पिणु तणयहु देप्पिणु जुण्णउं तणु व गणेप्पिणु ॥

चिण्णउं वउं दुसहु कयवम्महवहु कण्हसूरि पणवेप्पिणु ॥ ८ ॥

२ A जिह केवलहिं. ३ AP तियहं. ४ AP जासु सो केण सहुं. ५ A अट्टणवुत्तरहिं. ६ A देवजिणिंदहु.

8 १ A अस्स. २ P णरवासहो. ३ P संसारहु जायं. ४ ०संमेयउ. ५ A रायहरे. ६ A वउ; P तउ.

4 b तइ तावन्तः केवलिप्रमाणाः; म ण ब लि हिं मनःपर्यायज्ञानसहितानाम्. 10 a गि भा ग मि आपादे शुक्के.

8 1 a ० वी हि त्थे प्रवहणे नौकायाम्; b अस्सि अस्मिन्. 4 b णरवसहो नरवृषभनामा. 9 b ०वरिहे ०मयूरे. 11 b णि हि त्तो निराकृतो मानभङ्गं प्रापितः. 12 a परि म उ लिय णे त्तं परिमुकुलितनेत्रेण; b ०छित्तं ०सृष्टेन.

9

णवर पमाणं	माणकसाएं ।	
भीमें रुद्धउ	हियवइ कुद्धउ ।	
खरतवल्लीणउ	साहु अयाणउ ।	
पत्थइ तवहलु	होज्जउ भुयबलु ।	
आगामिणि भवि	भडेरवि रउरवि ।	5
जेण वियारमि	सो रिउ मारमि ।	
इय णिज्जाइवि	देहु पमाइवि ।	
सल्लकिलेसें	मुउ संणासें ।	
थिउं सुरविदइ	हुउ माहिंदइ ।	
जाउ मणोरमि	अणुवमतणुरमि ।	10
आउअणिदइ	सत्तसमुदइ ।	
जहिं जिणगीयइं	अच्छरगीयइं ।	
जहिं सवणिज्जइं	सुइरमणिज्जइं ।	
जें चिरु जित्तउ	राउ सुमित्तउ ।	
सो पत्थिवहरि	णं मत्तउ करि ।	15
हिंडिवि भववाणि	विहुरावलिघणि ।	
फलियधरायलि	इह कुरुजंगलि ।	
पंडुरगोउरि	ह्यउ गयउरि ।	
राउ कुसीलउ	सो महुकीलउ ।	
घत्ता—करयलकरवालें भिउडिकरालें पुहइ तिखंडं पसाहिय ॥		20
मंडलिय मउंद्धर जेम धुरंधर तेम तेण घरि वाहिय ॥ ९ ॥		

10

रज्जु कंसिणसुहसारउं अणहुत्तिहिं णियउं

कइवइ वरिसइं जइयहुं तहु जीविउं थियउं ।

9 १ AP अजाणउ. २ AP भडयणि. ३ A थिय. ४ P जिणगेहइं. ५ A अच्छरिगीयइं. ६ A तिखंडइं साहिय. ८ AP मउउधर.

10 १ A कसण^०. २ AP अणहुंजिवि.

9 1 a पमाणं प्रमादेन. 2 a भीमें रौद्रेण. 3 b मडरवि रउरवि मटकोलाहले रौद्रे. 10 b अणुवमतणुरमि अनुपमा शरीरस्य रमा शोभा यत्र. 11 a आउअणिदइ आयुषा अनिन्दे. 12 a जिणगीयइं जिनसंबन्धीनि गीतानि. 16 b विहुरावलिघणि दुःखपरंपराप्रचुरे. 19 b महुकीलउ मधुक्कीडः. 21 मउद्धर मदोद्धराः; धुरंधर वृषभाः.

10 1 कसिण^० क्लृप्तं संपूर्णम्; अणहुत्तिहिं णियउं अनुभुक्तिं नीतम्.

- तइयहुं खगउरणाहहु सीहसेणणिवहु
इक्खाउहि सुपसिद्धहु इह भरहुम्भवहु ।
विजयादेविहि गम्भइ उप्पणउ धवलु 5
सो णरवसहवरामरु भुयजुयबलपवलु ।
सुहिहिं सुदंसणु कोक्किउ कुलसरहंसवरु
तहि अवसरि माहिंदहु णिवडिउं सइं इयरु ।
अहरबिंवरुइणिज्जियणवरविंविबियहि
सो सुमित्तु सुउ जायउ उयँरइ अंबियहि । 10
पुरिससीहु हकारिउ लहुयउ बंधवहिं
पहु पमाणु संपत्तउ थणयथण्णधुयहिं ।
ते वेण्णि वि ससियरहिमकज्जलगरलण्ह
वेण्णि वि ते सुरगिरिवरसंणिहमाणसिह ।
वेण्णि वि ते वल केसव वासवविहियभय 15
ते विण्णि वि नृवंसिरमणिकिरणारुणियपय ।
ते विण्णि मि संसेविय विज्जाजोइणिहिं
समलंकिय हरिवाहिणिगारुलवाहिणिहिं ।
ते तेहँ आयण्णिवि परसिरिअसहणउ
महुकीलउ आरुट्टउ राणि जुज्झणमणउ । 20
पेसियदूएं जाइवि बोह्लिय रायसुय
किं तुम्हइं ण कयाइ वि एही वत्त सुय ।
यत्ता—खोणीयलपालहु जो महुकीलहु कप्पु देइ सो जीवइ ॥
हलहर सुहभायण सुँणि णारायण अवरु जमाणु पावइ ॥ १० ॥

11

भग्गणरिंदो
माणमहंतो

तां गोविंदो ।
भणइ हसंतो ।

३ A गोउरणाहहु; K गोउर° but corrects it to खगउर°. ४ A णरवसहु. ५ A °पवलवलु.
६ A णिवडिउ सो इयरु. ७ P अवरइ. ८ A थणयथण्णधुवहिं; P थणयथण्णधुवहिं. ९ AP वेण्णि
मि ते. १० AP णिव°. ११ AP तहा. १२ AP बोह्लिय जाइवि. १३ AP णिसुणि णारायण.

11 १ A तो.

४ इ क्खा उ हि इक्खाकुवरो. ७ सु हि हिं सुहद्धिः. ८ स इ स्वयम्; इ य रु मुमित्रचरः. ९ अ ह रे त्या दि अपर-
बिम्बकान्त्या निजिते तिरस्कृते रविबिम्बे द्वे यया. 1० प मा णु संपत्त उ प्रामाण्यं प्राप्तः, सर्वोत्कृष्टो बभूवे-
त्यर्थः; थ ण य थ ण्ण धु य हिं स्तनपेषु बालेषु स्तन्यधुतेषु स्पर्शकेषु तरुणेषु च प्रामाण्यं प्राप्तः. 16 °कि र णा-
रु णि य प य °किरणैः अरुणितौ पादौ ययोः. 17 वि ज्जा जो इ णि हिं विद्यादेवताभिः. 19 तेहा ताटशी.
2० ए ही व त्त एषा वार्ता.

भुवि जो मंदां	मंइं सच्छंदो ।	
मग्गइ कप्पं	तमहं भप्पं ।	
करमि अदप्पं	किं माहप्पं ।	5
अत्थि पराणं	खग्गकराणं ।	
दोण्णयमुक्कं	मोत्तूणेक्कं ।	
लंगलपाणिं	को पहु दाणिं ।	
मंइं जीवतं	वइरि कयंतं ।	
वयणं चंडं	सुइवहकंडं ।	10
तं सोऊणं	चारु अदीणं ।	
विगओ हूओ	हरिसियभूओ ।	
कुंजरगइणो	तेण सवइणो ।	
कहिया वत्ता	कुरुं रणजत्ता ।	
ण करइ संधी	लच्छिपुरंधी- ।	15
लोलो रामो	कण्हो भीमो ।	

घत्ता—तक्खणि संणद्धउ उब्भियधुयधउ रोसें कहिं वि ण माइउ ॥
हयतूरगहीरें सहुं परिवारें महुंकीडउ उद्दाइउ ॥ ११ ॥

12

रमणीदमणइं	रिउआगमणइं ।	
जूरियसयणइं	णिसुणिवि वयणइं ।	
जोईयभुयबल	णिग्गय हारे बल ।	
झल्लरि वज्जइ	दुंदुहि गज्जइ ।	
संचल्लिय चमु	हुउ महिविग्गभमु ।	5
उक्खयखग्गइं	सेण्णइं लग्गइं ।	
भडकडव्हणि	मोडियसंदणि ।	
फाडियधयवडि	तोडियग्गयगुडि ।	

२ A भमइ सच्छंदो. ३ A मंगइ. ४ A करुणाजुत्ता. ५ AP महुंकीडउ.

12 १ A जोहवि. २ AP °महणि. ३ P फाडिय°. ४ P °हयगुडि.

11 3 a मंदां जडः. 4 b भप्पं भस्म. 7 a दो ण य मुक्कं दुर्णयमुक्कं बलभद्रम्. 8 b दा णि इदानीम्. 10 b सुइवहकंडं कर्णपथाकृष्टयाणम्. 12 b हरि सिय भूओ हर्षसंपन्नः, अथवा हर्षितानि भूतानि येन संग्रामजनकत्वात्. 14 b कुरु रणजत्ता रणयात्रां संग्रामप्रयाणं कुरु. 15 b — 16 a लच्छिपुरंधी लो लो लक्ष्मीलम्पटः. 17 °धु य ध उ °आन्दोलितध्वजः.

12 7 a भडकडव्हणि भद्रानां प्रकटचूर्णीकरणे. 8 b °ग य गु डि गुडा गजपाखरः (पृष्ठा-
स्तरणम्).

पहरणसंकडि	विहडाधियघडि ।	
सुरवरदारुणि	णवकोवारुणि ।	10
देहवियारणि	खेयरमारणि ।	
चुयजंपाणइ	खलियविवाणइ ।	
कुरयंधारइ	धणुंठंकारइ ।	
धाइयवाणइ	लुयतणुताणइ ।	
रुहिरज्जलझलि	णरवरगोंदलि ।	15
मारियवारणि	तहि पइसिवि रणि ।	

घत्ता—पडिसत्तुं वुत्तउं एउं अजुत्तउं जं मइं सहं रणि जुज्झहि ॥
तुहुं भिष्णु कुलीणउ हउं तुह राणउ पत्तिउं कज्जु ण बुज्झहि ॥ १२ ॥

13

दे वेहि कप्पु	मा कालसप्पु ।	
पइं गिल्लउ अज्जु	अणुहुंजि रज्जु ।	
ता भणिउं तेण	दामोयरेण ।	
को पत्थु सामि	कहु तणिय भूमि ।	
कुलभूसणम्मि	सिरिसासणम्मि ।	5
भणु लिहिय कासु	बलु जासु तासु ।	
इय वजरंत	अमरिसंफुरंत ।	
आउहइं लेवि	अब्भिट्ट बे वि ।	
ते वरणरिंद	पडिहरिउविंद ।	
कयरोलियाउ	दाढालियाउ ।	10
पिंगाच्छियाउ	वीहच्छियाउ ।	
फणिकंकणाउ	लंबियथणाउ ।	
उक्केसियाउ	रिउपेसियाउ ।	
बहुरूविणीउ	सुरकामिणीउ ।	
कण्हें हयाउ	णासिवि गयाउ ।	15

५ AP अलिशंकारइ. ६ A तणताणइ. ७ A पडिसत्ते.

13 १ P गिलइ. २ A अमरिसु. ३ AP वीहच्छियाउ. ४ A उक्केसियाउ.

13 a कुरयंधारइ भूरजसा अन्धकारिने. 14 b तणुताणइ तनुत्राणे कवचे. 15 b गोंदलि युद्धे.
17 पडिसत्तुं प्रतिशत्रुणा.

13 6 a लिहिय लिखिता कस्य वर्तते भूः; यः सुभटस्तस्य भूर्धवतीति प्रसिद्धमेतत्. 10 a
कयरोलियाउ कृतकोलाहलाः. 13 a उक्केसियाउ ऊर्ध्वकेशिकाः.

परणिक्विणेण	करिउरणिवेण ।
वालिवि गुरुक्कु	उम्मुकुं चक्कु ।
आरालिफुरिउं	कण्हेण धरिउं ।
दाहिणकरेण	णं गहवरेण ।
कसणेण तंबु	णवभाणुबिंबु ।
पुणु भणिउ पिसुणु	महुकील णिसुणु ।

20

घत्ता—रेरे रिउकुंजर दढदीहरकर सीरिहि सरणु पदुक्कहि ॥

एवहिं असिजीहहु महुं णरसीहहु कमि पडियउ कहिं चुक्कहि ॥१३॥

14

इय भणिवि सयडंगु अणेण पमेल्लियउं
दो वि पंचचालीसधणुणयदेहधरं
ते हलहरहैरिराणा मंगलभासिणिइ
खयकाले मुसुमूरिउ पुरिससीहु गहिरि
भाइपेउं सक्कारिवि सीहसेणतणउ
छट्टमउववासहिं दसमदुवालसहिं
रुक्खमूलवहि सयणहिं रवियरत्तावणहिं
भुवणत्तयसिहरग्गहु मोक्खहु णिक्कलहु
मुणिग्गणिंदु आहासइ गोत्तमु विप्पसुउ

उरयलु वइरिहि विउलु वियरिवि घल्लियउं ।
सुहुं दहलक्खइं वरिसहं थिय भुंजंत धर ।
वीर वे वि आलिंगिय विजयविलासिणिइ ।
रउरवि रंणरवि णिवडिउ सत्तममहिविवरि ।
धम्महु सरणु पइट्टउ रामु सुदंसणउ । 5
परवसलद्धाहारहिं विलवणणीरसहिं ।
कम्मकंदु णिहूरिवि मुणिगुणभावणहिं ।
णिक्कसायणीरायहु गउ सो णिक्कलहु ।
फणिकिणरविज्जाहरगणगंधवंधुउ ।

घत्ता— मागहणिव मण्णहि पुणु आयण्णहि चरिउं चक्कणेरारहं ॥ 10

संगामसमन्थहं तइयच्चउत्थहं मघवसंणाराइकुमारहं ॥ १४ ॥

15

पडिवइरिइ हइ णिवडिइ तमतमधरणियलि

गिद्धखड्डमणुअंतइ वित्तइ भडतुमुलि ।

५ AP परिमुक्क. ६ P वरसीहहु. ७ A कमपडियउ.

14 १ A °देहवर. २ A सुहदह°. ३ A °हरिणामिं. ४ A रणयविणिवडिउ. ५ A भाइ-
देहु. ६ A णिक्कसाउ णीराउ सुदंसणु णिक्कलहु. ७ A गणिमुणिंदु. ८ AP °विज्जाहरवर°. ९ P °गंधयुउ.
१० P मघवासणईकुमारहं.

16 b करिउरणिवेण हास्तिननृपेण. 19 b गहवरेण राहुणा. 23 कमि पडियउ आक्रान्तः.

14 5 a भाइपेउ भ्रातृमृतकशरीरम्; सीहसेणतणउ सिंहसेनपुत्री बलभद्रः. 6 b °विल-
वण° निलंबणैः लवणरहितैः. 7 b कम्मकंदु कर्मसमूहः; णिहूरिवि छेदयित्वा. 8 a णिक्कलहु कला-
रहितं शरीररहितं मोक्षम्; b णिक्कलहु कलहरहितः. 10 चक्कणेरारहं चक्रस्वामिनोः.

15 1 पडिवइरिइ प्रतिकृष्णे.

दामोयरि गइ णरयहु भीमरहंगकरि
 मारवियारणिवारइ णिव्वुइ सीरंधरि ।
 दीहकाल बोलीणइ णरणियराउहरि 5
 धम्मणाहत्तित्थंतरि बुद्दयणसंतियरि ।
 सुणि जे जाया भारहि भासुरचक्रवइ
 बेणिण सयलइलपालय जिणकमणिहियमइ ।
 एत्थु खेत्ति महिमंडलि णयरि विचिच्चरि
 मोरकीरकुरराउलि सीमारामसरि । 10
 तित्थि वासुपुज्जेसहु दुद्धर वय धरिवि
 णरवइ णामे राणउ दुक्करु तउ करिवि ।
 हुउ मज्झिमगेवज्जहि अहममराहिवइ
 जिणधम्मं पाविज्जइ सासयसोक्खगइ ।
 कवणु गहणु देवत्तणु परियत्तणसहिउं 15
 एउं बप्प मइं जाणिउं लोपहिं वि कहिउं ।
 सत्तवीससायरखइ जायउं मरणु सुरि
 सउहावलिसिहरुब्भडि सिरिसाकेयपुरि ।
 इइ सुमित्तणरणाहहु सुहिसंमाणियहि
 हंसवंसकलसइहि भदाराणियहि । 20
 मघउ णाम ह्यउ सुउ सुयणाणंदयरु
 असियरपसमियरिउतमु भमिउ णिवदिवसयरु ।
 यत्ता—जिउ मागहुं वरतणु सुरखेयरगणु णट्टंमालितुहिणामरु ॥
 वंसिकिय मंदाइणि साहिवि मेइणि पुणरवि आयउ णिययघरु ॥१५॥

16

दोचालीससद्धधणुतुंगं	कणयच्छवि णं मंदिरसिंगं ।
अंगं तस्स सुलक्खणवंतं	कामिणिमणसंखोहणवंतं ।
पंचलक्खवरिसह बद्धाउ	णिच्चं सिद्धसमीहियघाउ ।
दिव्वकामभोएं भोत्तुणं	चक्रवट्टिरिद्धिं मोत्तुणं ।

15 १ AP सीरहरि. २ A दीहकालु; P दीहकालि. ३ P °णिरयाउ°. ४ A धम्मदेवतित्थकरि; P धम्मदेवतित्थंतरि. ५ AP °इलवालथ°. ६ A विचिच्चरि. ७ P णामे. ८ P भमिउ जि दिवसयरु. ९ A मागहवर°. १० P °मालिरु तुहिणामरु. ११ AP वसिकय.

16 १ A मंदरसिंगं; P मंदरे सिंगं. २ A रिद्धी मोत्तुणं.

३ °रहंगकरि °चक्रकरे. ५ णरणियराउहरि नरनिकरस्यायुःक्षयकरे. ८ °इलपालय भूपालकौ. २० °वंस° वेणुः. २२ असियर° खड्गकिरणैः. २३ तुहिणामरु हिमवंतकुमारः.

16 ३ b °समीहियघाउ नवनिधानरूप्यमुवर्णादिघातुः.

प्रियमिच्छु पुच्छु दाऊणं
मणहरउजाणं गंतूणं
गहिउं दिक्खं सहिउं दुक्खं
मघवंतो पयणयमघवंतो

सव्वं जिणतच्चं णाऊणं । 5
अभयघोसदेवं थोत्तूणं ।
जिणिउं तण्हं णिहं भुक्खं ।
रयपरिचत्तो मोक्खं पत्तो ।

घत्ता—जहिं कामु ण कामिणि दिणु णउ जामिणि ताराणाहु ण णेसरु ॥
जहिं वसइ ण सज्जणु भसइ ण बुज्जणु तहिं थिउ मघवमहेसरु ॥१६॥

17

काले जंतं अवरु जिह
चिंधचीरुं चियस्खयलि
सूरवंसणहदिणयरउ
पहु अणंतवीरिउ वसइ
हरि करि विसवइ कुमुयपिउ
अञ्जयकप्पहु ओर्यरिउ
किंणरवीणारवञ्जुणिउ
विरइयणाभकरणविहिहिं
तेण समुदुणियंसणिय
घणणंदणवणकौतलियं
बहुणरिंदकोडुवाणिया
छक्खंड वि महि जिच्च किह
पुव्वभणियधणुंतुंगयरु

नेवु उप्पणणउ कहमि तिह ।
इह विणीयपुरि छहधवलि ।
धीरउ पयपालणणिरउ ।
तहु महएवी धरिणि सइ ।
जोइवि सिविणय णैलिणहिउ । 5
सुरंसिसु उयरि ताइ धरिउ ।
पुणु णवमासहिं संजाणिउ ।
सणकुमारु कोकिउ सुहिहिं ।
चउदहरयणविहसणिय ।
गंगाजलवेलंचलियं । 10
गरुयगिरिंदसिहरथणियं ।
णिहिघडधारिणि दासि जिह ।
तिणिण लक्ख वरिसाउधरु ।

घत्ता—बत्तीससहासाहिं मउडविहमहिं णरणाहहिं पणविज्जइ ॥
जो सयलमहीसरु णरपरमेसरु तासु काइं वणिणज्जइ ॥ १७ ॥ 15

18

रंभापारंभियतंडवइ
अत्थाणि परिट्टिउ सक्कु जहिं

तावेकहिं दिणि मणिमंडवइ ।
आलाव जाय सुरवरहिं तहिं ।

३ AP प्रियमिच्छु.

17 १ A णिव; P णिउ. २ A महदेवी. ३ P णलिणिहिउ. ४ A अवयरिउ. ५ P सुरु
सिसु. ६ AP ०कौतलिया. ७ AP ०चलिया. ८ A ०कोडावणिया; P कोडुवाणिया. ९ AP ०थणिया.

8 a पयणयमघवंतो पादयोर्नंतः इन्द्रो यस्य; b रयपरिचत्तो कर्मरजोविमुक्तः.

17 2 a चिंधचीरं ० ध्वजः. 9 a ०णियंसणिय ०वसना. 13 a पुव्वभणियधणुं ० सार्ध-
द्विचत्वारिंशद्वन्पूर्विकं.

18 1 a रंभापारंभियतंडवइ स्वर्गवेद्यया प्रारब्धे नृत्ये.

भो अत्थि णत्थि किं सुहयरहु	णरलोइ रूउ कासु वि णरहु ।
तं णिसुणिवि भणइ सुराहिवइ	जो संपइ वट्टइ चक्कवइ ।
सुरणरकामिणियणणलिणरवि	सो सणकुमारु किं विट्ठु णवि । 5
माणुसु णवत्थि रूउज्जलउं	जेणेहउं भासिउं मोक्कलउं ।
ता झत्ति समागय तियस तहिं	अच्छइ वसुहेसरु भवणि जहिं ।
अवलोइवि णरवइ सुरवरहिं	अहिणंदिउ विट्ठुणियसिरकरहिं ।
रूयं तेल्लोक्करूवविजइ	एहउ सुरिंदु दुक्करु हवइ ।
जिणणाहु वि जहिं संसइ चडइ	तहिं अवरु रूउ किर कहिं घडइ । 10
यत्ता—पयडेवि सरूवइं सोम्मसहावइं विहसिवि देवहिं भासिउं ॥	
जइ मरणु णं होंतउ तो पज्जत्तउ एउ जि रूउ सुहासिउं ॥ १८ ॥	

19

ता जरमरणसइ आयणिवि मणिवि तणु व महियलं ।	
देवकुमारणामे सुइ अप्पिवि सतुरंगं समयगलं ॥ १ ॥	
णिच्चतिगुत्तिगुत्तसिवगुत्तमहामुणिपायपंकयं ।	
तेणासंघिऊण पक्खालिय बहुभवपावपंकयं ॥ २ ॥	
गहियं वीरपुरिसचरियं चित्तं तडिदंडचंचलं ।	5
रुद्धं चंडकुसुमसरकंडांडंबरडमरविंभलं ॥ ३ ॥	
ससिडिंडीरपिंडपंडुरयंरहिमपडछइयदेहयं ।	
वसियं बाहिरम्मि परिसिसियघरपंगुरणणेहयं ॥ ४ ॥	
चलतडयडियपडियसोयामणिताडैणविहडियायलं ।	
सहियं पावसम्मि वणतरुताले विसरिसजलझलज्जलं ॥ ५ ॥	10
महिहरवियडकडयविउलविउलयलसिलायलणहियकाइणं ।	
सूरस्सहिम्मुहेण सूरुणे वरेण विमुक्कराइणं ॥ ६ ॥	

18 १ P णेवि. २ A णयत्थि. ३ A वडइ. ४ AP सोम°. ५ A ण हुंतउ ता; P ण हु तउ तो.

19 १ AP मरणघोसु. २ AP अप्पवि. ३ A कंडंडंबर°. ४ A पंडुरपरहिम°. ५ P ताडण-विणणविहडिया°. ६ AP वियल°. ७ A सूरशिहिमुहेण; P सूरराहिमुहेण.

3 a सुहयरहु शुभकरस्य. 6 a णवत्थि अस्ति न वा; b मोक्कलउ यदच्छया. 10 जिणेत्यादि जिननाथोऽपि रूपेण ईदृशो भवति न वेति संशये पतति. 12 मरणु ण होंतउ मरणं चेन्नाभविष्यत्; सुहासिउ सुखाश्रितं श्लाघितम्.

19 2 सुइ सुते पुत्रे. 4 °पावपंकयं पापकर्दमः. 6 °कंडाडंबरडमरविंभलं °काण्डानां समूहानामाडम्बरमाटोपस्तेन डमरं भयं तेन विह्वलं चपलम्. 7 ससिडिंडीर° चन्द्रवत् फेनः; °पंडुरयर° अतिश्वेतवर्णम्. 10 पावसम्मि प्रावृट्काले. 11 °काइणं °देहेन.

सोढुं गिंभयालरविकिरणकलावखरवियंभियं ।
 दुइमकोहमोहदढलोहमयं णियलं णिसुंभियं ॥ ७ ॥
 सहसा दिट्ठसयलसयरायरकेवलविमललोयणो ।
 देउ सणक्कुमारु जइ सुहमइ जायउ सो णिरंजणो ॥ ८ ॥
 घत्ता—मइलिउ मोक्खत्ते कइधिट्ठत्ते काइ कइत्तणु पोसइ ॥
 भरहाइणरिंदहं चरिउं अणिंदहं पुष्पयंतु जइ घोसइ ॥ १९ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिणए
 महाकइपुष्पयंतविरइए महाकव्वे धम्मपरमेट्ठिसुदंसणपुरिससीह-
 महुक्कीलयमघवसणक्कुमारकहंतरं णाम एक्कुणसट्ठिमो
 परिच्छेओ समत्तो ॥ ५९ ॥

८ A °खरं वियंभियं. ९ AP जाओ. १० AP मुक्खत्ते.

17 मोक्खत्ते मूखत्वेन; कइत्तणु कवित्वम्. 18 पुष्पयंतु जइ पुष्पसमानदन्तो यत्तिः सर्वज्ञः.

दुक्खियपसरणिवारओ
मोहमहारिउमारओ

जो दीणोसु किवारओ ॥
जो सासयसिवमारओ ॥ धुवकं ॥

1

पंचमच्चक्रहरो णरईसो
सोलहमो परमेट्टि पसण्णो
तत्तसमुज्जलकंचणवण्णो
केवलणाणमहामयमेहो
भूसणभारधिवज्जियकण्णो
जो ल्लणयंदकरावलिकंतो
भत्तजणात्तिहरो भयवंतो
फुल्लियकोमलपंकयवत्तो
संतियरो भुवणुत्तमसत्तो

घत्ता—सो भवसायरतारओ
णियसुकइत्तु पयासमि

जेण णिओ समणं ण रईसो ।
सुत्तणिसेहियपेसिपसण्णो ।
णायणिउत्तचउव्विहवण्णो । 5
भव्वसमूहणिरूवियमेहो ।
पंगणणञ्चियखेयरकण्णो ।
संतसहावो उज्झियकंतो ।
जो गिरिधीरो णो भयवंतो ।
धत्थकुत्तित्थ सुत्तित्थपवत्तो । 10
बुद्धदयो परिरिक्खियसत्तो ।

पणविवि संतिभडारओ ॥
तासु जि चरिउं समासमि ॥ १ ॥

2

जंवूदीवि भरहि विजयाचल्लु
जहि सुरणारिहिं गेयपवीणहिं
जहिं रिसिवसइ अल्लित्तु अहंसं
जहिं जं भूसिज्जइ सरककं

अहिणवचंदणचंपयपरिमल्लु ।
सरुं सुम्मइ वजंतहि वीणहि ।
जसु मेहल सेविजइ हंसं ।
णिम्मल्लु तं वण्णिज्जइ कं कं ।

1 १ A ल्लणइंद°.

2 १ A सरु. २ A सरु ककं.

1 1 b किवारओ कुपारतः. 2 a °मारओ °हिसकः; b मारओ °लधमीरतः. 3 a णर-
ईसो राजा, न तु कुम्भकारः चक्रपाणित्वात्; b समणं स्वचित्तं प्रति; रईसो कामः. 4 b सुत्तणिसेहिय-
पेसिपसण्णो सूत्रे निषिद्धा पेशी मांसं प्रसन्ना मद्यं च येन. 5 b णायणिउत्तचउव्विहवण्णो न्यायं
स्थापिताश्चत्वारो वर्णा येन. 6 a महा मयमेहो महाजलमेघः; b °णिरूवियमेहो निरूपिता मेधा बुद्धि-
येन. 7 b °खेयरकण्णो °खेचरकन्यः. 8 b णो भयवंतो न भययुक्तः. 10 b धत्थकुत्तित्थ ध्वस्तानि
कुतीर्थानि यस्य.

2 a गेयपवीणहिं गीतचतुराभिः; b सरु शब्दः. 3 a रिसिवसइ चैत्यालयः; अथवा
ऋधिरिवाखण्डितव्रता सती; अल्लित्तु असृष्टः पापांशेन. 4 a सरककं जलबकेन; b कं जलम्; कं केन.

जहिं केवलि णिव्वाणपयं गउ
फलिहसिलायलि जहिं मायंगहिं
वाहिणसेदिहि तहि रहणेउरु
तेथु जलणजडि णिवसइ खगवइ
णियजसेण कंतहु चंदाहहु
तासु सुहइदेवि पियराणी

घत्ता — ताहं विहिं मि सुय इई
वाउवेय सा पयहु

जहिं मणियैरहिं ण दिट्ठु पयंगउ । 5
मुहुं दिज्जइ जोइयणिययंगहिं ।
पुरु णारियणरणियपयणेउरु ।
विणभोणयसिरु णारइ खगवइ ।
तिलयणयरणाहहु चंदाहहु ।
णं आसीस पुव्वपियराणी । 10

णं रइणाहहु इई ॥
दिण्णी दिणयरतेयहु ॥ २ ॥

3

सिहिजडिणामहु जयसिरिधामहु
अक्ककित्ति सुउ जायउ केहउ
अवर वि चंदसरीरइ णं पह
देसिं सुरम्मइ पंकयणेत्तहु
विजयाणुयहु महाहवपबलहु
मुसुमूरियकंतीरवकंतहु
जणिउ ताइ सिसु सिरिविजयंकउ
उत्तरसेदिहि वसियंतेउरि

घत्ता — परिहावलयसुदुग्गमि
पंचवण्णधयसोहणि

रुउंहामहु णिजियकामहु ।
खत्तधम्मु णरवेसं जेहउ ।
उपण्णी सुय णाम सयंपह ।
पोयणणयरि पयावइपुत्तहु ।
कोडिसिलासंचालणधवलहु । 5
दिण्णी पढमहु हरिहि तिविट्ठु ।
विजयमहु कंतीइ ससंकउ ।
पुरि सुरिंदकंतारि सुगोउरि ।

रयणदीवणासियतमि ॥
देवदेविमणमोहणि ॥ ३ ॥ 10

4

खयरु मेहवाहणु पीणत्थाणि
जुइमाला णामे सुय वल्लह

णाम मेहमालिणि तहु पणइणि ।
ढोइय रविकित्तिहि परदुल्लह ।

३ A मणिययरहि. ४ AP महं. ५ A णारीयण°. ६ A विणउण्णय°.

3 १ A सिहजडि°. २ A रुवोदामहु. ३ A देससुरम्मह.

५ a णि व्वा णपयं गउ निर्वाणपदं प्राप्तः; b पयंगउ सूर्यः. 6 b °णि ययंग हिं °निजाङ्गप्रतिविम्बैः, प्रतिगजदाङ्कया इत्यर्थः. 9 a चं दा ह हु चन्द्राभनाम्नः. 10 b आ सी स पु व्व पि य रा णी पूर्वपितृणामाशी-
रिव. 12 ए य हु ज्वलनजटिनः.

3 3 a पह प्रभा. 5 a वि ज या णु य हु विजयवलभद्रानुजस्य त्रिपुष्टस्य; b °ध व ल हु वृषभस्य
धुरंधरस्य. 6 b हरि हि कृष्णस्य. 7 a सिरि ति ज यं क उ श्रीविजयनामा. 8 a व सियंते उ रि वसितान्तः-
पुरे; b सुरिंद कं तारि सुरेन्द्रकान्तारनगरे.

4 2 a जु इ मा ला ज्योतिर्माला.

परिणिय पुंत्तु तेण तहि जायउ
धीय सुतार तारवरलोयण
तापं पोढत्तणि कयपणयहु
अमियतेउ भल्लारउ भाविउ
भुत्तउं तेण णिबद्धं णियाणउं
सिरि सिरिविजयहु देवि हियत्तं
विजपं तउं लइयउं आयण्णिवि
अमियतेउ णियराज्जि थवेण्णिणु
अक्कफित्ति जइवइ गउ मोक्खहु
विजयभहु सिरिविजयहु वच्छलु
पाहुडगमणागमणपवाहं

घत्ता—जा तावेक्कु सुसोत्तिउ
सत्तमि दिणि जं होसइ

अमियतेउ णामं विक्खायउ ।
सुंदरि मुणिहिं वि कामुक्कोयण ।
दिष्णी सिरिविजयहु ससतणयहु । 5
जुइवह सुय कण्हं परिणाविउ ।
पत्तउ कालं अवहियठाणउ ।
कामभोयपरिभारविरत्तं ।
वित्तु कलत्तु वि तिणंसमु मण्णिणवि ।
भत्तिइ तउ तिक्खयरु तवेण्णिणु । 10
मुक्कउ भवसंसरणहु दुक्खहु ।
जिह तिह अमियतेउ णिरु णेहलु ।
जाइ कालु बंधुहुं उच्छाहं ।

तहिं आयउ णिमिर्त्तिउ ॥
तं सिरिविजयहु घोसइ ॥ ४ ॥ 15

5

अरिपुरवरणिवसावयवाहहु
तडयडंति सिरि' दत्ति भयंकरि
विजयभहु पभणइ रे बंभण
जइ रायहु सिरि विज्जु पडेसइ
तं आयण्णिवि तणुविच्छायहु
पत्थिव महु मत्थइ मलमुक्कइं
मरणवयणवापं विहाणउ
को तुहुं कासु पासि कंहिं सिक्खिउ
अक्खइ सुत्तकंठु पुहइसहु

तडि णिवडेसइ पोयणणाहहु ।
सहसा दहविहप्राणखयंकरि ।
णिइय सज्जणहिययणिसुंभण ।
तो तुहुं सिरि भणु किं णिवडेसइ ।
दियवरु आहासइ जुवरायहु । 5
णिवडिंहिति णाणामाणिकइं ।
तहिं अवसरि सइं पुच्छइ राणउ ।
केमं भविस्सु वप्प पइं लक्खिउ ।
हउं पव्वइयउ समउं हलीसहु ।

4 १ AP तेण पुत्तु. २ AP णिवहु. ३ A अवहियठाणउ; P अवहियठाणउ. ४ P वउ.
५ AP तिणसउं. ६ AP णेमित्तिउ.

5 १ A सिरि दुत्ति; P सिरि दत्ति. २ AP °पाण°. ३ AP °वायइ. ४ AP किर. ५ P
केम इहु भविस्सु.

4 b कामुक्कोयण कामोत्पादिका. 5 a ता एं पित्रा; b सिरि विजयहु त्रिपृष्ठपुत्रस्य; ससतणयहु भगिनी-
स्वर्यप्रभापुत्रस्य. 6 b जुइवह ज्योतिःप्रभा. 7 b अवहियठाणउं सप्तमनरकः.

5 1 a अरीत्यादि शत्रुनगरनृपश्चापदव्याधस्य; b णिवडेसइ पतिष्यति. 2 a दत्ति शीघ्रम्.
6 a मलमुक्कइं निर्मलानि. 7 a °वा एं विहाणउं °वातेन शुष्कः. 9 a सुत्तकंठु ब्राह्मणः; b पव्वइ-
यउ पूर्वं दीक्षितः पश्चाद्भ्रमः.

गउ विहरंतु देसि पुरु कुंडलु
दूसहविसैयपरीसहभग्गउ
घत्ता—अंतरिकखसुणिमित्तइं
भउमु वि खेत्तपमाणउं

णं महिणारिहि परिहिउ कुंडलु । 10
काइं मि जीवियवित्तिहि लग्गउ ।
सिक्खिउ गहणक्खत्तइं ॥
अंगउं अंगणिवाणउं ॥ ५ ॥

6

सरु गंभीरु इयर उवलक्खिउ
लक्खणाइं कमलाइं पसत्थइं
वक्खणाणि जं जिह सिविणंतरु
तं हउं सिक्खिवि अट्टपयारउं
केसरिरहहु पुरोहिउ सुरगुरु
वंदिवि आयउ पोमिणिखेडहु
सोमसम्मु णियजणणीभायरु
मेलविउ हउं तेण सन्दुहियहि
ससुरयदिणु दव्वु भुंजंतहं
हउं पर केवलु पढमि णिमित्तइं
मामसमण्णिउ कंचणु णिट्ठिउ
महुं कडियलि लग्गउं कोवीणउं
घत्ता—घरिणिइ पसरियदुक्खइ
भुंजहि भणिवि विसालइ

विंजणु पुणु तिलयाइउं सिक्खिउ ।
जाणमि मूसयच्छिण्णंइं वत्थइं ।
पावइ जेण सुहासुहु णरवरु ।
इय प्हउ णिमित्तु सवियारउं ।
तासु वि सीसु विसारउ महुं गुरु । 5
फलिहालंकियकुलिसकवाडहु ।
मइं दिट्ठु तहि कयपरमायरु ।
लोमंजणियहि ससहरमुहियहि ।
दोहं मि गलिउ कालु कीलंतहं ।
किं पि वि णिव ण समज्जमि वित्तइं । 10
घरि दालिहु रउहु परिट्ठिउ ।
तो वि ण भासमि कासु वि दीणउं ।
महुं डज्जंतहु भुक्खइ ॥
वित्त वराडय थालइ ॥ ६ ॥

7

तुहुं महुं दइवें दिण्णउं वंभणु
उज्जउ करहि ण भरहि कुडुंवउं

एत्तिउं तेरउं अच्छइ कुलहणु ।
लोयणजुयलु करिवि आयंबउं ।

६ AP ^०विसहपरीसह^०.

6 १ A छिन्नइं; P छित्तइं. २ P सुदुहियहि. ३ A लोमंजणियहि. ४ AP ससयर^० ५ A सुसुरय^०.

7 १ AP उज्जमु.

13 a भउमु भूमौ भवम्; b अंगउं अङ्गलक्षणं सामुद्रिकम्; अंगणिवाणउं अङ्गे शरीरे निर्माण-
मुत्पत्तिर्यस्य.

6 1 a इयरु तुच्छः २ b मूसयच्छिण्णंइं मूपकच्छिन्नानि. 4 a अट्टपयारउं अष्टाङ्गम्;
b सवियारउं विचारयुक्तम्. 5 a केसरिरहहु सिहरथस्य; b विसारउं विशारदः. 9 a ससुरय-
दिण्णउं श्वसुरेण दत्तम्. 10 a कोवीणउं कौपीनं कटिवस्त्रम्. 14 वराडय कपर्दिका.

7 1 b एत्तिउं कपर्दिकामात्रम्. 2 a उज्जउ उद्यमम्; b आयंबउं आताम्रम्.

पम जाम घरणीइ पवोल्लिउ
अइणियडउं जि जलणु पज्जालिउ
तक्खणि सिद्धिफुल्लिगु उच्छलियउ
हउं थिउ तं जोयंतु सइत्तउ
उत्तरु महुं ण देसि जंपंतिहि
जं इंगालउ पडिउ वरालइ
जं पइ पाणिण अहिसिचिउ
सी जंपइ पइ बुद्धिहि भुल्लउ
घत्ता—उज्झउ णिद्धणजंपिउं
परु जणयउ किं बुच्चइ

ता महुं हियवउ णं झसंसल्लिउ ।
इंधइ इंधणु केण वि चालिउ ।
आविवि जल्लयरि गरुयइ धिवियउं । 5
ता कंतइ सिरि सल्लिलिं सित्तउ ।
मइं दर विहासिवि भासिउं पत्तिहि ।
तं तडि पडिही पोयणपालइ ।
तं जाणहि हउं रयणहिं अंचिउ ।
चप्फल्लु इंसइ चंदगहिल्लउ । 10
महुरु वि कण्हं विप्पिउं ॥
कुलवरणिहिं वि ण रुच्चइ ॥ ७ ॥

8

इय चिंतंतु घरहु णीसरियउ
णाम अमोहजीहु ओहच्छमि
जइ चुक्कइ नृवं केवल्लिदिट्टउं
सउणु भडाग सच्चउं सुच्चइ
तं तहु भणिउ चित्तं सेमाइउ
भणइ सुवुद्धि कुलिसमंजूसहि
वसहि णगाहिव मज्झि समुद्धु
चवइ मुमइ पइसहि परदुच्चरि
मइसायरु भासइ ण तसिज्जइ
जं लिहियउं तं अग्गइ थक्कइ
घत्ता—सुरमहिहरथिरचित्तं
धरियणराहिवमुहं

हउं तुम्हारइ पुरि अवयरियउ ।
पट्टणणाहहु पलउ णियच्छमि ।
तो जाणहि चुक्कइ मइं सिट्टुं ।
केरु पडियारु जेम तुहुं रुच्चइ । 5
राणं मंतिहि वयणु पलोइउ ।
आयससंखलवलयविहूसहि ।
जेणुंवरसि सदेहविमहहु ।
रूपयगिरिवरगुहविवरंतरि ।
णरवइ जिणवरिंदु सुमरिज्जइ ।
जमकरणहु मरणहु को चुक्कइ । 10
कयपहुरक्खपयत्तं ॥
भासिउं बुद्धिसमुहं ॥ ८ ॥

२ P झसंसल्लिउ. २ AP पज्जालिउ. ४ AP गरुयइ जलयरि. ५ AP जं जोयंतु ६ A omits this foot. ७ P वरालइ. ८ P तडि पडिहीसी. ९ AP जाणमि. १० A सइ जंपइ; P स वि जंपइ. ११ P चप्फल्लु. १२ AP रुच्चइ.

8 १ AP जा अच्छमि. २ AP णिव. ३ AP करि. ४ AP जेणुंवरसि.

4 b इंधइ चुल्लके. 5 b जलयरि कपर्दके वराटके. 6 a सइत्तउ सावधानः. 8 a वरालइ कपर्दके. 10 पइ पतिः.

8 2 a अमोहजीहु अमोघजिह्वः; ओहच्छमि एष तिष्ठामि; b पलउ प्रलयं क्षयम्. 4 a सउणु निमित्तम्. 7 b सदेहविमहहु स्वदेहनाशात्. 9 a तसिज्जइ त्रस्यते. 11 a सुरमहि वरथिरचित्तं मेरुवत् स्थिरचित्तेन मन्त्रिणा; b कयपहुरक्खपयत्तं कृतप्रभुशुभाप्रयत्नेन. 12 a बुद्धिसमुहं मत्तिसागरेण.

9

विबरि णिहिंसु उ विचु पहाणउ
 गेहि जयंतीपंतिहि वेविइ
 अच्छइ तीहिं वि संझहिं पहायउ
 समयंतरपवियाराणि जाए
 दुप्परिणामे मुउ कयमायउ
 णासावंसउ विधिर्वि साहिउ
 काले जंते जायउ दुब्बलु
 गलियसत्ति सो णिवाडिवि थक्कउ
 को वि ण तिणै णउ पाणिउं दावइ
 जइयहुं हउं बलवंतउ होंतउ
 तइयहुं सयल देति महुं भोयणु
 कसंमसत्ति दंतेहिं दलेवउं
 घत्ता—इय भरंतु माहिंदउ
 मरिवि भरेण सतामसु

सुणि महिवइ दिट्टंतकहाणउ ।
 सीहउरइ सिरिरामासेविइ ।
 खलु दप्पिडु सोमुं परिवाइउ ।
 सो जिणदासें जित्तु विवाए ।
 तहिं जि महिसु सविसाणउ जायउ । 5
 लोएं लोणु भरेप्पिणु वाहिउ ।
 एम जीउ भुंजइ दुक्कियफलु ।
 णायरणरणिउरुंवे मुक्कउ ।
 रूसिवि सेरिहु णियमणि भावइ ।
 जइयहुं बलइउ भारु वहंतउ । 10
 अज्ज ण केण वि किउ अवलोयणु ।
 पुरयणु मइं कइयहुं वि गिलिब्बउं ।
 दुग्गाइवेल्लीकंदउ ॥
 हुउ तहिं पिउवणि रक्खसु ॥ ९ ॥

10

तेत्थु जि पुरि अण्णायविहसिउ
 तेण सयलु काणणमृगुं खद्धउ
 चितइ सूयारउ णिरु णिक्किउ
 वणयरु णत्थि केत्थु पावमि पलु
 आणिउं घल्लियडिभयजंगलु
 पइवि महाणससत्थणिओए

कुंभु णाम राणउ मंसासिउ ।
 हरिणु ससउ सारंगु ण लद्धउ ।
 विणु मासेण ण भुंजइ धुवुं न्वु ।
 आहिंडवि मसाणधरणीयलु ।
 जीहालोलहं पेउ जि मंगलु । 5
 ढोइउ पइहि रसायणपाए ।

9 १ A णिहिचहु. २ AP सोमु परिवायउ. ३ A हयमाणउ; K also records: हयमाणउ इति पाठान्तरे. ४ AP जायउ सुविसाणउ. ५ AP णासावंसे. ६ P विधिवि. ७ A तणु. ८ P रुसइ. ९ A कसमसंतदंतेहिं.

10 १ P ०सिगु. २ P धुउ णिउ.

9 2 a जयंती पंति हिं वेविइ ध्वजापंक्तिभिः कम्पिते. 3 b सोमु परिवाइउ सोमनामा परि-
 ब्राजकः. 5 a कयमायउ कृतमायः. 6 a साहिउ वशीकृतः. 9 b सेरिहु महिषः. 10 b बलइउ
 गोण्या वेष्टितः, उभयपार्श्वलम्बितगोणिः. 13 a भरंतु सरन्; माहिंदउ महिषः. 14 b पिउवणि
 श्मशाने.

10 1 a अण्णाय विहसिउ अन्यायविभूषितः, b मंसासिउ मांसभक्षकः. 3 a सूयारउ
 सूषकारः. 5 a घल्लियडिभयजंगलु निक्षिप्तपतितडिम्भमांसम्. 6 a पइवि पक्त्वा; महाणससत्थ^०
 महानसशास्त्रम्; b रसायणपाए रसायनपाचकेन, सूदेन.

तूसिवि तहु मुहकमलु णिरिक्खिउ
माणुसमासहु राउ पइद्धउ
साहियरक्खसविज्जाणियरउ
तहिं अवसरि पुव्विल्लउ णिसियरु
कुलिसकटिणणक्खेहिं वियारइ
वाहिवि वाहिवि पुणु अवहेरिउ
अण्णसयत्थियाइं तमवंतइं

घत्ता—पंडुरमंदिरपयडइ
सयलु लोउ थिउ पइसिवि

चारु चारु पभणंतं भक्खिउ ।
अवरहिं दिणि सूर्योरु जि खद्धउ ।
णरवरिंदु ह्वयउ रयणियरउ ।
तहु सरीरि संठिउ भीसणयरु । 10
णासंतइं जंतइं पञ्चारइ ।
चंगउं हउं चिरु भुक्खइ मारिउ ।
एमहिं कहिं महुं जाहु जियंतइं ।

ता पट्टणि कारयडइ ॥
तहु रयणियरहु णासिवि ॥ १० ॥ 15

11

ता सीहउरु पमेल्लिवि णिग्गउ
घंडहड त्ति णरलोहिउ घोट्टइ
चरयंतं तणुचम्मइं फाडइ
रायणिसाडचरणजुयलग्गइ
चरुयसयहु मणुणं संजुत्तउ
जइयहुं तं आयउं ण णिरिक्खहि
कुंभकारकडु पुरवरु घुट्टउं
तहिं जि चंडकोसिउ दियसारउ
पउरणिवद्धउ णिरु दुव्वारउ
विण्णेण वि अणुउवरि णिवेसिउ
भूयहिं चालिउ पासि णिसीहहु

घत्ता—दंडपाणि अवराइउ
दंडरेहिं माहिरंधइ

णिवरक्खसु जणपच्छइ लग्गउ ।
कडयड त्ति हडुइं दलवट्टइ ।
णाइं णिवद्धणाइं अच्छोडइ ।
ता वुत्तउ पयाइ भयभग्गइ ।
दियहि दियहि लइ तुज्जु णिउत्तउ । 5
तइयहुं तुहुं पुणु सव्वइं भक्खहि ।
णिच्चमेव दिज्जइ उवइट्टउं ।
सोमसिरीमणणयणपियारउ ।
अण्णहिं दिणि तहु आयहु धारउ ।
पुत्तु मंडकोसिउ लहु पेसिउ । 10
ललललंतमुहणिग्गयजीहहु ।

रक्खसु संमुहुं धाइउ ॥
बहुंवउ धित्तु तमंधइ ॥ ११ ॥

३ AP रुसिवि. ४ AP स्यारु वि.

11 इ AP घडयडत्ति. २ AP कडयडत्ति. ३ AP चरयत्ति. ४ AP णिवंधणाइं. ५ AP आयउ तं. ६ P चंडकासिउ. ७ AT अणु उवरि. ८ P दंडरेहिं. ९ AP बडुयउ.

9 b रय णियरउ रजनीचरो राक्षसः. 13 a अण्णसयत्थियाइं स्वार्थिनः. 14 b कारयडइ कारकटे नगरे.

11 2 b हडुइं अस्थीनि. 3 b णिवद्धणाइं शिराबन्धनानि; अच्छोडइ त्रोटयति. 4 a रायणिसाड राजा चासौ निशाटो राक्षसश्च. 5 a चरुयसयहु नैवेद्यशकटम्; मणुणं संजुत्तउं मनुष्येण युक्तम्. 7 a कुंभकारकडु नामेदम्. 8 a दियसारउ द्विजप्रधानः. 10 a अणुउवरि अनः शकटः, तस्योपरि. 12 a अवराइउ अपराजितनामा. 13 a दंडरेहिं अन्यराक्षसैः.

12

तहिं अच्छिउ अजयरु तें गिलियउ
तेण देव तुहुं विवरि ण विष्पहि
पभणइ महसायरु महि दिज्जइ
ता अहिसिंचिवि मेइणिसासणि
सो किंकरजणेण पणविज्जइ
जीय देव आएसु भणिज्जइ
गयणविलंबमाणधयमालउ

झायइ अधुवु असरणु तिहुवणु
ता सत्तमउ दियहु संपत्तउ
असणि पडिय तहु जक्खहु उप्परि
पउमिणिवेहु गामसयसहियउं

घत्ता—अणु वि रयणिंहि संचिउ
किउ बंभणु परिपुण्णउ

पुणु सो वलिवि ण जणणिहि मिलियउ ।
पत्थु जि जीवोधाउ वियप्पहि ।
पोयणणाहु अवरु इह किज्जइ ।
कंचणजक्खु णिहिउ मिहोसणि ।
सो चलचामरेहिं विज्जिज्जइ । 5
तासु पुरउ णच्चिज्जइ गिज्जइ ।
णरवइ गंपि पइहु जिणालउ ।

जिणपडिविबणिहियणिच्चलमणु ।
जो जणेण पोयणवइ उत्तउ ।
णेमित्तियहु दिण्ण रहं हरि करि । 10
णंदणवणमारुयमहिमहियउं ।

मोत्तियदामहिं अंचिउ ॥
पुणु पहु रज्जि णिसण्णउ ॥ १२ ॥

13

चंदकुंदणिहदहियहिं खीरहिं
अट्टायकलसहिं जिणुं ण्हाणइ
अप्पाणहु कुलकुवलयचंदं
कालें जंतें तहिं णिवसंतें
जणणिसापं मंतु लहेण्णिणु
सुज्जतेय विजाहरसामिणि
जोव्वणभावजणियसिगारइ
गउ णहेण वणि दुमदलणीलइ
तावेत्तहिं विहरणअणुगइउ

घत्ता—हित्तमहारिउछापं
आसुरियहि उप्पण्णउ

गंगासिंधुमहासरिणीरहिं ।
करिवि विइण्णइं दीणहं दाणइं ।
विहिय संति सिरिविजयणरिंदं ।
पोयणपुरवरु परिपालंतं ।
पंचपरमपरमेट्टि णवेण्णिणु । 5
साहिय विज्ज णहंगणगामिणि ।
एकहिं वासरि समउं मुतारइ ।
थिउ कामिणिकिलिक्किचियकीलइ ।
भांभरिविज्ज लहेवि पराइउ ।

इंदासणि खगरापं ॥ 10
लच्छिहि गुणसंपुण्णउ ॥ १३ ॥

12 १ वेष्पहि; P वेष्पहि. २ AP अवर वर. ३ AP सीहासणि. ४ P वज्जिज्ज. ५ AP अद्धउ. ६ AP रह करि हरि. ७ AP महमहियउं. ८ AP रयणहिं.

13 १ AP ^०महाणहणीरहिं. २ A जिणहवणइं. ३ AP भावरिं.

12 1 a अच्छिउ स्थितः; b वलि वि पश्चाद्वा. 2 b जीवोधाउ जीवितव्योपायः 11 a पउमिणिवेहु पञ्चिनिखेट्ठकं नाम. 12 a रयणि हि रत्तः. 13 a परिपुण्णउ परिपूर्णमनोरथः.

13 6 b णहंगणगामिणि आकाशगामिनी. 8 b ^०किलिक्किचियकीलइ हास्यरुदनयुक्त-
क्रीडया. 9 b भांभरिविज्ज भ्रमररूपा विद्या. 10 a हित्तमहारिउछापं क्षिप्रिपुमाहात्म्येन. 11 a आसुरियहि असुरलक्ष्या.

14

चमरचंचपुरवइ रइराइउ
तेणासुररिउसुयसीमंतिणि
मोहिउ णावइ मोहणवेह्लिइ
मायाहरिणु तेण दक्खालिउ
रुवु धरिवि वरइत्तहु केरउ
अप्पणु झ त्ति जारु तहिं पत्तउ
देव मृगाइं धरंतु ण लज्जहि
कीलणु तुज्जु तासु भयभंगउं
तं णिसुणिवि पररमणें भासिउं
हउं परियत्तउ एण जि करुणं
एम भणेवि चडाविय सुरहरि
णाहि जंतं दाविउं ससरोरउं
मुक्क धाह हा णाह भणंतिइ

असाणिघोसु णामेण पराइउ ।
दिइ सुतार हारभूसियथणि ।
उरि विद्धउ मथरद्धयभल्लिइ ।
पइ सइसामीवहु संचालिउ ।
अज्झाहियआणंदजणेरउ । 5
अमुणंतिइ घरिणीइ पवुत्तैउ ।
अज्ज वि बालत्तणु पडिवज्जहि ।
कंपइ मरणविसंहुलु अंगउं ।
सुंदरि चारु चारु उवएसिउं ।
आउ जाहुं पुरवरु किं हरिणे । 10
रेहइ चंदरेहं णं जलहरि ।
मुद्धइ तं जोइवि विवरेरउ ।
करजुयलेण सीसु पहणांतिइ ।

घत्ता—पुणु परंपुरिसु ण जोइउ एण णाहु विच्छोइउ ॥

सुघडिउं विहि विहडावइ एवहिं को मेलावइ ॥ १४ ॥ 15

15

एम रुयंति तेण सा णिज्जइ
एत्तहि पवणु व वेयपयट्टउ
मत्तमयूरवंदकयतंडवु
पररमणीहरणेण णिवेसिय
लोलइ विज्ज सुतारारूवें
उत्तउं भत्तारें किं जायउं
अक्खइ मायाविणि हउं णट्ठी

पिययमविरहें तिलु तिलु शिज्जइ ।
गउ मृगुं पुहइणाहु पल्लट्टउ ।
पडिआयउ सुंदरिलयमंडउ ।
रयणासिलायलि तेत्थु जि दरिसिय ।
जाणिवि गहिय कंत जमदूएं । 5
दीसइ वयणैकमलु विच्छायउं ।
कुक्कुडफणिणा करयलि दट्ठी ।

14 १ A दिक्खालिउ. ३ AP घरिणीइ पइ उत्तउ. ३ AP मृगाइं. ४ AP चंदलेह.
५ AP पुसु.

15 १ AP मिगु. २ A कमलवयणु; P वयणु कमलु.

14 1 a रइराइउ सुरतराजितः. 4 b पइ श्रीविजयः; सइसामीवहु सतीसामीप्यात्. 5 a
वरइत्तहु श्रीविजयस्य; b अज्झा हिये सुताराहृदयम्; अज्झा इति सुताराया द्वितीयं नाम. 9 a पर-
रमणे जारेण. 10 a करुणं करुणया. 15 a विहडावइ विघटयति.

15 2 a वेयपयट्टउ वेगेन प्रवृत्तः. 5 a विज्ज विद्या; b कंत कान्ता; जमदूएं मृत्युनाः

विसरिसविसरसवियणगुरुक्की
चंदणवंदणइंधणु पुंजिवि
घत्ता—पियविओयआयंपिउ
संकप्पहु जि वसंगउ

इय भणंति पाणेहिं विमुक्की ।
सूरकंतमणिजलणु पंडंजिवि ।
परिसेसियइहपराहिउ ॥ 10
णरवइ सलहि वलग्गउ ॥ १५ ॥

16

ता संपत्त बिण्णि विजाहर
तेहिं तिविट्टुपुत्तु ओलक्खिउ
एक्के बुज्झियमायामग्गे
पायड करिवि नृवेहु दक्खालिय
महिइवि विंभइवसु अवलोइवि
जंबुहीवि भरहखेत्तंतिरि
दाहिणसेदिहि जोइप्पहपुरि
हउं तहिं पहु णामे संभिण्णउ
संजय पणइणि सुउ दीवयसिहु
जणण तणये ए अम्हइ सुंदर
चिरु परिभमिवि रमिवि पिउ बोह्लिवि
पइवय परमेसरि अहिमाणिणि
घत्ता—णिह उकंठिय अच्छमि
हा सिरिविजय पधावहि

सयणविहुरहर असिवरफरकर ।
णिज्जाणि वणि मरंतु णोवेक्खिउ ।
ताडिय झ त्ति वामपायग्गे ।
विज्ज पणट्टु भीयवेयालिय ।
खयरं भणिउ णिसुणि मणु दोइवि । 5
चारुधोयकलहोयमहीहारि ।
उज्जाणंतथंतकीलासुरि ।
अमियतेर्येकिंकरु माणुण्णउ ।
महुं ओहच्छइ णं कंतिइ विहु ।
अवलोयंति सिहरिदरिक्कंदर । 10
गयणुल्ललिय जाम वणु मेह्लिवि ।
ता रुयंति णहि णिसुणिय माणिणि ।
वल्लह पईं कहि पेच्छमि ॥
कुट्टि लग्गाहि म चिरावहि ॥ १६ ॥

17

हा हा अमियतेय तुंदुहिरव
हा हा माम तिविट्टु महाबल

इहु अवसरु तुहु वट्टइ बंधव ।
पहं जीवंति णेति मेइं किं खल ।

३ A °इंधण, ४ A °आयामिउ.

16 १ AP ण उवेक्खिउ, २ P णिवहु, ३ AP विंमयवसु, ४ P °तेउ, ५ A तणय वे यम्हइ, ६ AP कह पहं.

17 १ AP किं महं.

8 a °वियण° वेदना, 9 °वंदण° रक्तचन्दनम्; सूरकंतमणिजलणु सूर्यकान्तमणेरमिः. 10 a °वि-ओयआयंपिउ वियोगेन आकम्पितः; b परिसेसिय° त्यक्तम्. 11 b सलहि काष्ठभक्षणार्थं चितायाम्; वलग्गउ आरूढः.

16 1 b सयणविहुरहर स्वजनकष्टहरी. 2 b णोवेक्खिउ न निरादत्तः. 4 a पायड करिवि विद्यां प्रकटीकृत्य. 5 a विंभइवसु विस्मयवशः; b मणु दोइवि चित्तं सावधानं कृत्वा. 6 b °कलहोय° कलपौतं रूपम्. 10 ए ती आवाम्. 14 b कुट्टि पृष्ठे.

हा सासुइ देवर साहारहि
हा हलहर पइं अप्पउं तारिउ
हा हे घोर जार जैगि सारहु
जइ वि मइणु तुहुं तो वि ण इच्छमि
णिसुणिवि णियसांमिहि णामक्खरु
भणिउ वइरि भइवापं भज्जहि
अप्पहि तरुणि घुलियहारावलि

घत्ता—ता देवीइ पवुत्तउं
काणणि कामसमाणउ

मइं रोवंति काइं ण णिवारहि ।
महुं लग्गंतु कुपुरिसु णं णिवारिउ ।
मइं लहु णेहि पासि भत्तारहु । 5
पइं हउं जणणसरिच्छु णियच्छमि ।
अम्हइं घाइय गुणि संधिवि सरु ।
अवरकलत्तु हरंतु ण लज्जहि ।
दूसह सिरिविजयहु बाणावलि ।

एव्वहिं भिडहुं ण जुत्तउं ॥ 10
जाइवि जोइवि राणउ ॥ १७ ॥

18

लहु महुं तणिय वत्त तहु अक्खहु
तं परिहच्छियं पणवियमत्था
ए अम्हइं आइय वेणिण वि जण
एम भणिवि दीवयसिहु पेसिउ
जिह हरिसुउ गउ मयणिहेसैं
जिह वेयालियविज्जइ विलसिउ
जइ ण वि सिट्ठउं अण्णं केण वि
तो वि सव्वु सग्भावहु आणिउं
अम्हइं घरि जायइं दुणिमित्तइं
पणइणिहरणु जाउं पियणीसहु
परं किं कुसल्लु पडीवउं दीसइ

घत्ता—इय जिह विप्पहिं सिट्ठउं
सुयरिवि भुयहु सर्याणउं

जीउ जंतु णरणाहहु रक्खहु ।
चंडकंडकोदंडविहत्था ।
तुहुं मा मरु रामारंजियमण ।
तैं पोयणपुरि वइयरु भासिउ ।
जिह णिय घरिणि चमरचंचेसैं । 5
ता पहुजणणिहि वयणु विणीसिउ ।
जयगुत्तं अमोहजीहेण वि ।
सपरोक्खु वि पक्खक्खु वि जाणिउं ।
पडियइं णहयलाउ णक्खत्तइं ।
जायउं विग्घु किं पि धरणीसहु । 10
को वि कुसलवत्तिउ आवेसइ ।

तिह तुहुं आयुउं दिट्ठउं ॥
देविइ दिण्णु पयाणउं ॥ १८ ॥

19

छत्तल्लण्णरविकिरणविलासैं
दिट्ठु पुत्तु आलिंणित्तु मायइ

गय तं वणु ससेण्ण आयासैं ।
भूमिभाउ णं पाउसच्छायइ ।

२ A ण वारिउ. ३ AP जगसारहु. ४ AP मयणु. ५ AP णियसामियणाक्खरु.

18 १ AP परिहच्छिवि. २ A जाम. ३ AP आइउ. ४ A कहाणउं.

17 3 a सा हारहि आश्वासनं देहि. 6 a मइणु मदनः. 10 b भिडहुं युद्धं कर्तुम्.

18 2 a तं परिहच्छियं तां परिपृच्छय. 4 b तैं दीपशिखेन. 5 a मयणिहेसैं मृगशृङ्गेन;
णिय नीता; चमरचंचेसैं चमरचंचापुत्राधीशेन. 10 a पियणीसहु प्रिया; त्रीशा राजानो यस्य. 13 a
सुयरिवि स्मृत्वा; सयाणउं यानवाहनयुक्तम्; देविइ स्वयंप्रभया.

19 1 b ससेण्ण सैन्येन सह गय गता.

पयहिं णवंतु विवाणि चडाविउ
 पहु रहणेउरु णियउ सहरिसहिं
 कहिउ सो वि सवडंमुहुं णिग्गउ
 पायबडणु घरपाहुणयत्तणु
 मंतिउ मंतु कहिउ मंतीसहिं
 णाम मरीइ वइरिजलसोसहु
 तेण वि णारीरयणु ण दिण्णउं
 घत्ता—आइय दूय सुहिंत्ते
 हरिकुलहरपायारहु

वीयउ सिसु पोयणु पट्टाविउ ।
 अमियतेयरायहु चरपुरिसहिं ।
 मिलियउ णं विसदंतिहि दिग्गउ । 5
 किउ महल्लपरिवाडिपवत्तणु ।
 अमियतेयसिरिविजयमहीसहिं ।
 पेसिउ दूयउ असणिणियोसहु ।
 भंडणु भडखंडणु पडिवण्णउं ।
 जलणजडीसुयपुत्ते ॥ 10
 तहु सिरिविजयकुमारहु ॥ १९ ॥

20

दिण्ण विज्ज वीरियपोरिसिखणि
 ओसारियखलखेयरसत्थहं
 भीममहाहवभरधुरजुत्तहं
 बहिणीवइदिण्णाइं लपप्पिणु
 चमरचंचपुरवइहि ससंदणु
 णियसोहाणिज्जियाहिमवंतहु
 सहसरस्सिपुत्तेण समेयउ
 तहिं आराहियसुर्गसंवग्गइ
 णं णिवइहि महिमंडलरिद्धी
 एत्तहि असाणिघोससिरिविजयहं
 णियसुय असाणिसुघोसें पेसिय
 सहसघोस सयघोस सुघोस वि
 जं गय ते पविहंडियमाणा
 घत्ता—णिर्यवि सुताराहारउ
 छाइउ सरवरपंतिहिं

पहरणवारणि बंधविमोयणि ।
 रस्सिसुवेयाइयहं समत्थहं ।
 पंचसयाइं सहायइं पुत्तहं ।
 विज्जादेवयाउ सुमरेप्पिणु ।
 उक्खंधे गउ केसवणंदणु । 5
 अमियतेउ सिहरिहि हिरिवंतैहु ।
 गउ मरुवेणं मारुयवेयउ ।
 संजयंतपडिमापायग्गइ ।
 विज्ज महाजालिणि तहु सिद्धी ।
 जायउ संगरु सधयहं सगयहं । 10
 जे ते जुज्झिंवि दिसिहिं पणासिय ।
 मेहघोस अरिघोस असेस वि ।
 तं मेहंतुं वाण फणिमाणा ।
 सिरिविजयं दुव्वारउ ॥
 णाइ उवइउ संतिहिं ॥ २० ॥ 15

19 १ P पट्टविउ. २ AP आइए दूए.

20 १ AP परहणं २ A रस्सिसुवेयाइयहं. ३ A ओखंधि; P उद्धद्धं. ४ AP हिरिमंतहु.
 ५ A मरुमणं; T मरुवेणं आकाशेन. ६ P °मिगं. ७ A मेहंतु. ८ AP णिएवि.

३ a विवाणि विमाने; b वीयउ सिसु विजयभद्रः. 5 a सो वि अभिततेजाः अपि. 6 a महल्लपरि-
 वाडियवत्तणु महत्तराणां वृद्धानां परिपाटिकाप्रवर्तनम्. 8 a मरीइ मरीचिर्नाम. 10 सुहिंत्ते सुहृदत्वेन;
 b जलणजडी सुयपुत्ते अर्ककार्तिपुत्रेण. 11 a °कुलहरपायारहु °कुलगृहप्राकारस्थ.

20 5 a उक्खंधे अश्रमाच्छ. 7 b मरुवेणं आकाशमार्गेण. 13 a जं यावत्; b तं तावत्.
 14 a णियवि दृष्टा; सुताराहारउ अशनिघोषः.

21

आसुरियहि लच्छिहि सुउ धायउ
 धाराजियखयहुयवहजाले
 रिउ भामरिविज्जामाहप्ये
 हय बेणिण वि चत्तारि समुग्गय
 अट्ट णिहय सोलह संजाया
 बत्तीस वि दोखंडिय जामहिं
 चउसट्टि वि विहलिय सरूवउ
 एम दुवद्धिइ वद्धिउ दुद्धरु
 जलि थलि दसदिसिवहि णहपंगणि
 वेद्धिउ पोयणणाहु खर्गिदहिं

घत्ता—जरफेरवरवभीमइ
 पत्तउ सेण्णसणाहउ

णाइ कयंतें दंहु णिवेइउ ।
 हउ विजएं पइसिवि करवालें ।
 बिहिं रूवहिं उत्थरइ सद्धप्ये ।
 ते वि दुहाइय अट्ट समुग्गयें ।
 सोलह तयं बत्तीस समाया । 5
 रिउ चउसट्टि पराइय तामहिं ।
 अट्टावीसउ सउ संभूयउ ।
 हणु भणंतु असिवसुणंदयकरु ।
 दीसइ असणिघोसु समरंगणि ।
 णं विंझइरि महाघणविदहिं । 10

तहिं तेहइ संगामइ ॥
 रहणेउरपुरणाहउ ॥ २१ ॥

22

राउ सयंपहपुत्तु खलत्तें
 तांव अमियतेएण पवुत्तउं
 परकलत्तु किं आणिउ गेहहु
 एम भणेवि तेण लहु मुक्की
 पवणुद्धयचिंधु सविमाणउ
 जहिं णाहेयहु सीमागिरिवरु
 परणारीहरु भयवसु तट्टउ
 सिरिविजयाइय चोइयगायघड
 मणखंभअवलोर्येणभावे
 केवलणाणसमुज्जलदिट्टिहि

घत्ता—जसधवलियल्लणयंदहु
 विद्धंसियवम्मीसरु

जाम ण हम्मइ तेहिं अखत्तें ।
 असणिघोस किं कियउं अजुत्तउं ।
 हक्कारिय भवित्ति णियदेहहु ।
 विज्ज महाजालणि रणि दुक्की ।
 तं पेक्खिवि सहस त्ति पलाणउ । 5
 विजउ णामु जहिं अच्छइ जिणवरु ।
 समवसरणि तहिं सरणु पइट्टउ ।
 अणुमग्गें तहु लग्ग महाभड ।
 मुक्का पत्थिव मच्छरभावे ।
 मउलियकर णवन्ति परमेट्टिहि । 10

पुच्छंतहु खयरिंदहु ॥
 अक्खइ धम्मु रिस्सीसरु ॥ २२ ॥

21 १ A समागयं. २ AP हय. ३ A जरफेकारवभीमइ. ४ P^०णाहहु.

22 AP महाजालिणि णहि दुक्की. २ AP सरणि. ३ AP^०लोयणगावे.

21 2 b धाराजिय धारया जितः; b विजएं श्रीविजयेन; पइसिवि संग्राममध्ये प्रविश्य.
 8 a दुवद्धिइ द्विवृद्ध्या. 11 जरफेरव^० वृद्धशुगालः.

22 1 b अखत्तें अन्यायेन. 3 b भवित्ति मरणम्. 5 b पलाणउ नष्टः. 6 a णाहेयहु
 श्रीवृषभनाथस्य. 7 a तट्टउ त्रस्तः.

23

भणइ भडारउ रोसु ण किज्जइ
 रोसवंतु णरु कह व ण रुच्चइ
 रोसु करइ बहुआवइसंकडु
 रोसु कयंतु व कं णउ तासइ
 जो रोसेण परव्वसु अच्छइ
 माणपमत्तु ण काइं वि मण्णइ
 माणयैद्दु बंधुहिं वि ण भावइ
 मायाभावे जो चिम्मक्कइ
 णउ वीससइ को वि णिधम्महु
 मायारउ तिरिक्खु उप्पज्जइ
 लोहें जणु चामीयरु संचइ
 खाइ ण देइ धिवइ धणु खोणिहि
 घत्ता—एयहं चउहुं कसायहं
 जो अप्पाणउं रक्खइ

रोसें णरयविवरि णिवडिज्जइ ।
 जइ वि सुवल्लु तो वि पमुच्चइ ।
 रोसें पुरिसु थाइ णं मक्केडु ।
 अत्थु धम्मु कामु वि णिण्णासइ ।
 तडु मुहकमलु ण लच्छि णियच्छइ । 5
 माणें गुरु देव वि अवगण्णइ ।
 णिरें दुणिरिक्खइं दुक्खइं पावइ ।
 तडु संमुहउ ण सज्जणु दुक्कइ ।
 णिच्चपउंजियमायाकम्महु ।
 लोहें णियज्जणी वि विरज्जइ । 10
 लोहें अप्पणु अप्पउं वंचइ ।
 लुद्धउ णिवडइ दुग्गयजोणिहि ।
 दावियणरयणियायहं ॥
 मोक्खसोक्खु सो चक्खइ ॥ २३ ॥

24

मिच्छत्तें जणवउ लारज्जइ
 मिच्छत्तें विडगुरुपय पुज्जइ
 मयणमत्तमहिलामहुसेवहं
 मिच्छत्तेण जीउ मोहिज्जइ
 मिच्छत्तेण असंजमु वहुइ
 पोसइ पंचिदियइं दुरासइं
 परहणपरकलत्तअणुबंधे
 तहिं अवसरि आसुरियइ लच्छिइ
 अमियतेयसिरिविजयहं टोइय
 किउ खंतव्वच्चित्तु णीसल्लउं

हिंसइ सग्गगमणु पडिवज्जइ ।
 मिच्छत्तें जिणणाहु विवज्जइ ।
 पायहिं पडइ रउइहं देवहं ।
 भवविच्चमि भामिज्जइ छिज्जइ ।
 जीवहं जीविउ मंडेइ कडुइ । 5
 पावइ माणउ विडुरसहासइं ।
 वज्जइ एम जीउ रयबंधे ।
 आपि वि सा सुतार धवलच्छिइ ।
 भायरपइहिं सणेहें जोइय ।
 भव्वेहं खम मंडणउ पहिल्लउं । 10

23 १ AP कह वि. २ A मंकडु. ३ A माणवंतु. ४ AP णरु. ५ AP णिद्धम्महु. ६ P विरइज्जइ.

24 १ AP गवणु. २ A मडुइ; P मंडुइ. ३ P खंतव्वु चित्तु. ४ A सव्वहं.

23 5 b ण णियच्छइ नेक्षते. 7 a माणथ डु मानेन स्तब्धः. 12 a खो णि हि भूमौ. 13 b णि वा यहं निपातानाम्. 14 b च क्व इ आस्वादयति.

24 5 b मंडइ बलात्कारेण. 6 a दुरासइं दुष्टाश्वान्.

तं रिउजणाणिहि वयणु समिच्छिउ
घत्ता—दुहमपावखयंकरु
उगयसंसयसंकहु

पुणु रहणेउरवइणा पुच्छिउ ।
कहइ णरोहंसुहंकरु ॥
विजय अमियतेयंकहु ॥ २४ ॥

25

जंबूदीवि भरहवरिसंतरि
अचलगामि धरणीजहु बंभणु
तहु इंदग्गिभूइसुय सुहयर
कविलु णामु दासेरु अलक्खिउ
कुलविद्धंसणु जाणिउ विप्पे
गउ रयणउरहु भल्लउं भाविउं
जंबूधरिणिहि हूई सुंदरि
कुलणिदिउं करंतु गुणवंतइ
घत्ता—णवर धणोहें चत्तउ
दालिहें संतत्तउ

मागहविसइ सुसासणिरंतरि ।
अग्गिलबंभणिउररुहसुंभणु ।
सुयसत्थत्थमहत्य मणोहर ।
वेयचउक्कु सडंगइं सिक्खिउ ।
दुज्जसमीपं धाडिउं बेषे । 5
सच्चैयदियवरेण परिणाविउ ।
सच्चभौम णामेण किसोयरि ।
वरु कुलहीणु वियाणिउ कंतइ ।
आर्यणिणवि सुयवत्तउ ॥
तहिं जि ताउ संपत्तउ ॥ २५ ॥ 10

26

सपराहवभीरण णमंसिउ
तहु पयजुवलु तेण ओलाग्गिउं
कुलदूसणरुहणीसासुण्हइ
कहइ जणणु पियवयणहिं तुड्डउ
कंतु तुहारउ होइ ण वियवरु
तहिं सिरिसेणु राउ णरसिरमणि
वीय अण्णिदियं काइं भणिज्जइ

कविलें पुरयणमज्झि पसंसिउ ।
दिण्णउं कंचणु जेत्तिउं मग्गिउं ।
धणु दोइवि आउच्छिउ सुण्हइ ।
महुं धरि दासीसुउ णिकिड्डउ ।
पेउं भणेप्पिणु गउ सो णियघरु । 5
पढम सीहणंदिय तहु पणइणि ।
जाहि २इ वि दासि व्व गणिज्जइ ।

५ A णराह सुहंकरु.

25 १ A दषे. २ AP सच्चइ°. ३ P सच्चसामि. ३ AP आयणिणय.

26 १ AP एम. २ P अण्णदिय.

11 a वयणु वचनम्. 13 a उमायसंसयसंकहु उद्रतसंदेहकीलकस्य; b विजय विजयो जिनः.

25 1 b सुसासं सुधान्यम्. 2 b उररुहसुंभणु स्तनमर्दकः. 4 a दासेरु दासीपुत्रः; अलक्खिउ प्रच्छन्नतया, न ज्ञातः कदा शिक्षितः. 6 b सच्चयं सात्यकनाम्ना. 8 a कुलणिदिउं कुलनिन्दितं विकर्म रजस्वलागमनम्. 9 b सुयवत्तउ पुत्रस्य वार्ताम्. 10 b ताउ तातः.

26 1 a सपराहवभीरण स्वमानभङ्गभीतेन. 3 a कुलेत्यादि विटकर्मप्रभवो निश्वासः उष्णो यस्य; b सुण्हइ पुत्रभार्यया.

ताहं विहिं मि कंतिह सुच्छाया
कुललंछणउं धरियमजायहु
घत्ता—तेणं कविलु अबगणिउ
ककसदंडं ताडिउ

इंदउविंदसेण सुय जाया ।
जंबूधूयइ साँहिउं रायहु ।
जणि चंडालु व मणिणउ ॥ 10
पुरवराउ णिद्धाडिउ ॥ २६ ॥

27

सच्चंभाम सह सुद्ध हवेप्पिणु
सदंम अमियेगइ णामारिजय
सिरिसेणं आहारु पयच्छिउ
चउदहमलपरिमुक्कु अकुच्छिउ
भायणधरणाइयउ सुधम्मउ
चउहुं वि सुकयबीउ लइ लद्धउं
संमररंगदलवट्टियपरबलु
सिरिमइदेविहि उयरुप्पणी
दुज्जणमणपइसारियसल्लहु
समउं बहुल्लियाइ गयगामिणि
साणंतमइ उविंदहु रत्ती

घत्ता—णंदणवणि णिवसंतहिं
कारणि ताहि अजुत्तउं

थियं उवसमु हियउल्लइ लेप्पिणु ।
आइय भिक्खहि चारण संजय ।
दिज्जंतउ घरिणीहिं समिच्छिउ ।
रिसिहिं पाणिवत्तेण षडिच्छिउ ।
सच्चयतणयइ किउ सुहकम्मउ । 5
भोयभूमिपरमाउ णिवद्धउं ।
कोसंबीणयरीसु महाबलु ।
तें सिरिकंत णाम सुय द्विणी ।
सिरिसेणंगरुहहु पुरिमिल्लहु ।
अवर पवर संपेसिय कामिणि । 10
मोहें मयरोहेण व मत्ती ।

दोसु रोसु चितंतहिं ॥
बिहिं मि जुज्झु आढत्तउं ॥ २७ ॥

28

घाइय पहरणपाणि ससंदण
कह व णिवारहुं वे वि ण सक्किउ
रज्जु सणेहु सदेहु पमाइवि
रायाणीयउ तेण जि नग्गे

सिरिसेणं अबलोइय णंदण ।
णरवइ दूमिउ चिसि च्चमाक्किउ ।
विससेलिंधगंधु अग्घाइवि ।
दियधीय वि तं तिह णासग्गे ।

३ P साहियउं. ४ A तेण वि खल.

27 १ AP सच्चंभाव. २ AP लएप्पिणु. ३ A सदणे but records a *p*: सवणि वा.
४ AP अभियगय. ५ AP समरंगण°. ६ AP पुव्विल्लहु.

28 १ १ P °मल्लेध°. २ A रायाणियउ जि तेण जि.

9 a धरियमजायहु पालितमर्यादस्य.

27 1 a सह सती. 5 b सच्चयतणयइ सत्यभामया. 8 a उयरुप्पणी उदरे उत्पन्ना. 9 a पुरिमिल्लहु ज्येष्ठस्य. 10 a बहुल्लियाइ वध्वा; गयगामिणि गजगामिनी अनन्तमतिः. 11 a मोहें स्नेहेन प्रेम्णा; मयरोहेण व मदिरासमूहेनेव. 13 कारणि ताहि तस्या अनन्तमत्याः कारणे.

28 2 b दूमिउ दुःखितः. 3 b विससेलिंधगंधु विषकमलगन्धम्. 4 b दियधीय द्विज दुहिता सत्यभामा; णासग्गे नासाप्रेण.

गरुडवेहं महियलि णिवडेप्पिणु
धादसंडि पुव्वभायंतरि
वत्तारि वि अज्झं संजायइं
जायउ णिव्वरु पेमरसिल्लउं
हई मुणिवरदाणे णंदिय

घत्ता—जुज्जेवंतहं दुव्वारहं
अंतरि थिउ विज्जाहरु

मउलियणयणइं तेत्थु मरेप्पिणु । 5
उत्तरकुरुहि सुभोयणिरंतरि ।
छहधणुसहसपमाणियकायइं ।
राउ सीहणंदिय मिहुणुल्लउं ।
वंभणि भौमिणि पुरिसं अणंदिय ।

दोहं मि रायकुमारहं ॥ 10
णाइ गिरिंदहं जलहरु ॥ २८ ॥

29

पभणइ जिणकमकमल्लेदिंदिरु
किं पुणु पहरणेहिं पिहियक्कहिं
तं णिसुणिवि भणंति ते भायर
अक्खइ खेयैरु दिव्वइ वायइ
मंदरपुव्वासइ सुहवासइ
तहिं रययायलि दाहिणसेठिहि
खयरु सुकुंडलि रंभसमार्णा
माणिकुंडलि हउं तहिं संभूयउ
प्रवरि पुंडरिक्किणि गउ तेत्तहि
पुच्छिउ सो मइं णिययभवावलि
पुक्खरदीवि वरुणसुरसिहरिहि

घत्ता—रूवे णं मयरद्धउ
कणयमाल पीवरथाणि

जुज्जेवउं फुल्लहिं वि असुंदरु ।
सत्तिसेल्लेगलचलचक्कहिं ।
के तुमहइं पडिसेहकयायर ।
धादसंडिहु सुरदिसिभायइ । 5
खलविरहियपुक्खलवइदेसइ ।
आइष्वाहणयरि गउ रूढिहि ।
अमियसेण णामं तहु राणी ।
अत्थु व सुकइक्कहिं जणणूयउ ।
अमियप्पहु जिणपुंगमु जेत्तहि ।
कहइ भडारउ समंयसमियकलि । 10
पुव्वदिसहि हयसोयहि णयरिहि ।

महिवइ तहिं चक्कइउ ॥
तहु वल्लह सीमंतिणि ॥ २९ ॥

30

कणयलया सररुहलय णामं
धीयउ वेण्णि ताहि मृगणेत्तउ

णियकरभल्लि घित्त णं कामं ।
कयलीकंदलकोमलगत्तउ ।

३ A गरडवेय; P गरवेणं. ४ A मुल्लियणिरंतरि. ५ A जोयउ णिव्वरपेम्म°. ६ AP राय. ७ A भाविणि. ८ AP पुरिसु.

29 १ A जुज्जेवउ. २ P मल°. ३ P वेयरु. ४ A संडइ. ५ A सुकइक्कहिं जणियउ. ६ A पवरपुंडरिक्किणि; P पवरपुंडरिक्किणि. ७ A समपसमिय°. ८ P कणयद्धउ.

30 १ A णिवकर°. २ A तहो मिग°; P ताहि मिग°.

5 a गरयवेहं विषवेणेण. () a पुरिस अ णिं दिय अनिन्दिता पुरुयो जातः सत्यभामा स्त्री जाता.

29 1 b जुज्जेवउं फुल्लहिं वि असुंदरु पुण्णैरपि युद्धममुन्दरम्. 2 a पिहियक्कहिं छादित-
सूर्यैः. 3 b पडिसेहकयायर निषेधकृतादराः. 4 b रूढिहि प्रसिध्या. 5 b जणणूयउ जनस्तुतः.
10 b समय° समीचीनो बोधः आगमो वा. 12 b चक्कइउ चक्रवजः.

30 1 a सररुहलय कमललता.

विज्जुमईदेविहि हयदुम्मह
अमियसेण कंतियहि णवेप्पिणु
सा गय सग्गहु आराईयहु
सुर जोपवि सुरुवें रंजिय
कालें जंतें सुरलोयहु चुउ
कणयलया जलरुहलय धीयउ
इंदउविंदसेण पंकयमुह
सोक्खु असंखु सुइरु भुंजेप्पिणु
इइ कहिं मि महाबलकामिणि
घत्ता—जं जिणणाहें सिट्ठुं
हउं आयउ ओसारहुं

तासु जि रायहु सुय पोमावइ ।
कणयमाल सावयवउ छेप्पिणु ।
भोयभारसंपीणियंजीबहु । 5
पोमावइ इइ सुरलंजिय ।
कणयमालकुंडलि हउं हुउ ।
वेणि वि मरिवि सुकम्मविणीयउ ।
जाया रयणउराहिं वतणुरुह ।
सुरलंजिय सग्गाउ चर्पिणु । 10
दिण्ण विवाहि तुज्झु गयगामिणि ।
तं पच्चक्खु वि दिट्ठुं ॥
दोहिं मि जुज्झु णिवारहुं ॥ ३० ॥

31

कासु वि को वि ण किं किर जुज्झहु
हउं मायरि चिरु तुमहइं तणयउ
देवत्तणु माणिवि णरजाया
तं णिसुणिवि कुमौर हयछम्महु
गय मोक्खहु णिक्खवियरओहहु
जो सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु
सिरिपहु सुरहरि णं ससहरपह
कुरुमणुयत्तणु माणिवि बहुंमहु
सुरु इइ पुणुं वंभणि वयसह
घत्ता—जो सिरिसेणु महाइउ
सो एवहिं तुहुं जायउ

भवसंसरणु ण किं पि वि बुज्झहु ।
हांतियाउ परिपालियपणयउ ।
किं पहरह उग्गामियवाया ।
तउ चरेवि पयमूलि सुधम्महु । 5
अट्टमहागुणविरहयसोहहु ।
पढमकप्पि सो जाउ वरामरु ।
हुय हरिणंदियज्ज विज्जुपह ।
देवि अणिंदिय दिवि विमलप्पहु ।
सच्चभामं तहु कंतं ससिप्पह ।
कुरुणरु सुरु सग्गाइउ ॥ 10
अमियतेउ खगरायउ ॥ ३१ ॥

३ AP विज्जमई. ४ AP ^१जीयहु. ५ AP सरुवें. ६ A चुएप्पिणु.

31 १ A ^१पालियविणयउ. २ AP माणिवि. ३ A कुमारयछम्महु. ४ P विजापह.
५ A बहुसुहु. ६ AP वंभणि पुणु. ७ सच्चभाव.

5 a आ राईयहु सौधर्मस्वर्गम्. 8 a जलरुहलय कमललता. 11 a महाबलकामिणि वेद्या
अनन्तमतिः. 13 a ओ सारहुं निपेडुम्.

31 3 a मा णि वि भुक्त्वा. 4 a हयछम्महु हतकपटस्य. 6 a कुरुणरु आर्यः. 8 a बहु-
महु बहुतेजः मान्यता वा 9 a वयसह व्रतं सहमाना; b तहु विमलप्रभस्य. 10 a महाइउ महर्दिकः.

जा सा सइ पंचाणणंदिद्य
 पुणु हई सिरिविजउ वियाणहि
 जा सा धुवु सुतार सस तेरी
 कविलु सुइरु हिंडिवि संसारइ
 पविउलअइरावयणइतीरइ
 चवलवेयतवसिणियइ जणियउ
 तेण तवंतें कामविलुद्धउं
 जायउ सुउ आसुरियहि तरुणिहि
 पिउं णियविजाविहवें मोहिवि
 पभणइ तिजगणाहु ण रुसिजइ
 णिसुणि णिसुणि किं वहुयइ वत्तइ
 घत्ता—धुव पंचमु चक्केसरु
 भरहि राय तुहुं होसहि

सा जोइप्पह घरिणि अणिदिद्य ।
 सोत्तिणि सच्चंभाम अहिणाणहि ।
 सुरणरविसहरहिययवियारी ।
 भूर्यमणकाणणि भयगारइ ।
 कोसियतावसभुत्तसरीरइ । 5
 सो मयसिंणु णाम सुउ भणियउ ।
 खयरु णिपवि णियाणु णिवद्धउं ।
 अमणिघोसु रत्तउ चिरघरणिहि ।
 णिय कंचणयिमाणि आरोहिवि ।
 अमियतेय जीवहं खम किजइ । 10
 णवमइ जम्मंतरि संपत्तइ ।
 इह सोलहमु जिणेसरु ॥
 पुप्फदंतसिरि लेसहि ॥ ३२ ॥

इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्ये संतिणाहभवावलिवणणं
 णाम सद्विमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६० ॥

32 १ AP सच्चभाव. २ P ०रमणि काणणि. ३ P आसुरिहि.. ४ AP चिर घरिणिहि.
 ५ A थिउ णिय०; P पिउ मय०. ६ P बुत्तइ. ७ A धुव. ८ A राउ.

32 1 a पंचाणणंदिद्य सिंहनन्दिता; a जोइप्पह विद्युत्प्रभा. 2 a सोत्तिणि ब्राह्मणी;
 अहिणाणहि अभिजानीहि. 3 a सस तेरी तव अमिततेजसः स्वसा. 8 a चिरघरिणिहि सत्यभामा-
 चरी तस्याम्. 9 a पिउ श्रीविजयः. 13 b पुप्फदंतसिरि पुष्पवत्कान्ता श्रीः मोक्षलक्ष्मीः; लेसहि
 त्वं ग्ल्हासि महीष्यसि.

सो असणिघोसु आसुरियसिरि देवि सुतार सयंपह वि ॥
पंव्वइयइं णिसुंणिवि जिणवयणु जिणु पणवेप्पिणु तिजगरवि ॥ ध्रुवकं ॥

1

सिरिविजयकं	णिग्गयसकं ।	
मारुयवेपं	अपमियतेपं ।	
वउ उज्जालिउ	पोसहु पालिउ ।	5
घरु वेण्णि वि जण	गय ते सज्जण ।	
सुरकरिकरभुउ	रविकिन्तीसुउ ।	
णिरु णिरवज्जउ	साहइ विज्जउ ।	
उत्तमसत्ती	चलपणत्ती ।	
णहयलगामिणि	इच्छियरुविणि ।	10
जलसिद्धिभंभिणि	बंधणि संभणि ।	
अंधीकरणी	पहरावरणी ।	
विस्सपवेसिणि	अवि आवेसिणि ।	
अप्पडिगामिणि	विचिहपलाविणि ।	
पासविमोयणि	गहणीरोयणि ।	15
बल्लणिक्खेवणि	चंडपहावणि ।	
पहराणि मोहाणि	जंभणि पाडणि ।	
अवर पहावइ	सइ पविरलगइ ।	
भीमावत्तणि	पवरपवत्तणि ।	
पुणु लहुकारिणि	भूमिवियारणि ।	20
रोहिणि मणजव	देवि महाजव ।	
चंडाणिलेजव	णिरु चंचलजव ।	
बहुलुप्पायणि	सत्तुणिवारिणि ।	

1 १ AP पावइयइं. २ P णिसुणवि. ३ AP ^०थभिणि. ४ AP ^०णिसंभणि. ५ A पहरा-
घरणी. ६ K records a p: चल इति पाठे चपला. ७ AP ^०पहाविणि. ८ A भंडणि पाडणि; P बंधणि
पाडणि. ९ AP ^०वियारिणि. १० A चंडालिनिजव.

1 4 b अपसियत्तं एं अप्रमित्तं जसा. 9 b चलपणत्ती चला चपला प्रज्ञतिः. 11 a ^०सि हि^०
अग्निः. 12 b पहरावरणी प्रहारनिषेधिका. 13 a विस्सपवेसिणि त्रैलोक्यप्रवेशिका. 14 a अप्पडि-
गामिणि जेतुमशक्या. 15 b गहणीरोयणि भूतादिग्रहनिषेधिका. 16 b चंडपहावणि प्रचण्डप्रभा.
18 b पविरलगइ प्रगतविरलगतः शीघ्रगामिनी. 22 a चंडाणिलजव वायुवेगा. 23 a बहुलुप्पा-
यणि अन्वकागेत्यादिका.

अक्षरसंकुल	खलगलसंखल ।	
मार्याबहुई	पणलहुई ।	25
हिमवेयाली	सिहिवेयाली ।	
मोक्कलवाली	चलचंडाली ।	
अलिसामंगी	सिरिमायंगी ।	
इय वरविजहिं	णहयरपुजहिं ।	
उहसेदीसरु	हुउ परमेसरु ।	30
अण्णाहि वासरि	तेणं सणेसरि ।	
दमवरणामहु	णिजियकामहु ।	
पुण्णुप्पायणु	दिण्णउ भोयणु ।	

घत्ता—ते चारणदिणं भोयणेण इहं रत्ति जि संभविउ फलु ॥

सुररवु दुंदुहिसरु वसुवरिसु मेहहिं वुट्टउ सुरहजलु ॥ १ ॥ 35

2

अमरगुरुदेवगुरु-	णामाणं सावसरु ।	
हयमोहवासम्मि	साहण पासम्मि ।	
तहिं अमियतेएण	सिरिविजयराएण ।	
णियतायजम्माइं	वणहरणकम्माइं ।	
सिलखंभदलणाइं	दाइजमलणाइं ।	5
तवचरणकरणाइं	सणियाणमरणाइं ।	
सुरलोयवासाइं	णरभवविलासाइं ।	
पडिवक्खमहणाइं	हरिगीवणिहणाइं ।	
सिरिरमणिरमणाइं	कयणरयगमणाइं ।	
जसकंतिफुरणाइं	असुरारिचरियाइं ।	10
रिसिणाहकहियाइं	सोऊण गहियाइं ।	

११ A मायापहुई; K मायवहुई but corrects it to माया°. १२ P पणह लहुई. १३ A तेण परेसरि. १४ A इह रत्त जि. १५ A सुहु जलु.

2 १ A दिव्वगुरु. २ A णामेण. ३ P adds after this: जसकत्तिपुरियाइ, असुरारिचरियाइ, which in our text is line 10 below. ४ A जसकत्तिफुरियाइ.

25 a मायावहुई मायावह्नी; b पणलहुई पर्णलध्वी. 30 a उहसेदीसरु उभयश्रेणिराजा. 31 b सणेसरि आदित्यसहिते. 34 इह रत्ति जि इहेव जन्मनि.

2 1 b सावसरु स्वावसरं यथा भवति तथा. 4 b वणहरणकम्माइं विशाखनन्दिभवे वनहरणादिकथानकानि. 5 b दाइजमलणाइं पितृव्यपुत्रमानभङ्गादिकम्. 8 b हरिगीव° अश्वघ्नीवः. 11 b सोऊण श्रुत्वा.

दोहि पि सुवयाइं
सिरिविजउ तण्हंतु
पुणु कालमाणेण
विउलमइ विमलमइ
णाऊण मासाउ
रवितेय सिरियत्त
णियणियतणुभूय
दोण्हं पि ण्हविऊण
चंदणवणंतम्मि
णिम्मुक्कम्मम्मि

अमयाइं सुदंयाइं ।
मणि महइ कण्हंतु ।
परिवट्टमाणेण ।
णमिऊण परमजइ ।
मोत्तण मासाउ ।
राइवदलणेत्त ।
कंदप्पसमरूय ।
कुलमग्गि थविऊण ।
णंदणमुणी जम्मि ।
पईसरिवि लहु तम्मि ।

15

20

घत्ता—अहिंसिचिवि पुज्जिवि परमजिणु वंदिवि भत्तिसमंघविउं ॥
आहारु सरीरु वि परिहरिवि विहिं मि परत्तु जि चिंतविउं ॥ २ ॥

3

जं णियपरपेसणसुणिरवेक्खु
जं घोरसरायकसायसमणु
तेरहमइ कप्पि मणोहिरामि
हुउ अमियतेउ रविचूलु देउ
मणिचूलु णामु सिरिविजउ तेत्थु
को वण्णइ ताहं महापहाउ
कालेण जंबुदीवंतरालि
वच्छावइदेसि पहायरीहि
णीसेसकलालउ मणुययंदु

जं णिण्णासियभवबंधदुक्खु ।
तं कयउं तेहिं पाओवमरणु ।
सुरणंदिय णंदावत्तधामि ।
सत्थिय उ णामं अवरु वि णिकेउ ।
सुरवरु जायउ लक्खणपसत्थु । 5
ते वे वि वीससायरसमाउ ।
इह पुव्वविदेहि रमाविसालि ।
णयरिहि वणकीलियकिणरीहि ।
णामेण थिमियैसायरु णरिंदु ।

५ A सदयाइं; A adds after this; भवभावगमियाइं; K also writes it but scores it off. ६ A परिवट्टमाणेण; P परिवट्टमाणेण. ७ AP णविऊण. ८ AP दोहि पि. ९ A णविऊण. १० पइसरवि. ११ P समुग्गविउ.

3 १ A पावोगमरणु; P पाओवगमरणु. २ A पहावरीहि. ३ A अमियसायरु; P तिमिय-सायरु.

13 a तण्हंतु आकांक्षार्तः; b कण्हंतु कृष्णत्वम्; 16 a मासा उ मासमात्रजीवितम्; b मासा उ लक्ष्म्या आस्वादम्. 17 a रवितेय सिरिदत्त अमिततेजसः पुत्रो रवितेजसः, श्रीविजयस्य पुत्रः श्रीदत्तः. 22 भत्तिसमंघविउं भक्त्या समर्पितं सुप्रापम्.

3 1 a ० मुणिरवेक्खु सुनिरपेक्षम् (पादपोषणमनम्). 3 b णंदावत्तधामि नन्द्यावर्तविमाने. 4 b सत्थियउ स्वस्तिकं नाम विमानम्. 6 a महापहाउ महाप्रभावः. 8 a पहायरीहि प्रभाकरी-नगर्याम्.

तद्दु देबिहि देउ वसुंधरीहि

आषेष्पिणु णंदावत्तणाहु

घत्ता—मणिचूलु वि सत्थियसुरंहरहु णिवडिवि हुउ अणुमइतणउ ॥

सो सूहउ सोम्मु सुल्लक्खणउ वण्णे जियणीलंजणउ ॥ ३ ॥

रविचूलु गम्भि थिय सुंदरीहि । 10

अवराइउ हुउ थिरथोरबाहु ।

4

परदुज्जउ केसउ मणि गणेवि

पढमहु विरण्णपिणु पट्टबंधु

सिहांसणु छत्तइं परिहरेवि

अरहंतहु अविचिंतियपहासु

अवलोइवि कत्थइ णायराउ

पुरि सुहुं वसंति ते वे वि भाइ

णच्चंति ताउ ते तहिं णियंति

आयउ णारउ दिग्गयजसेहिं

घत्ता—मणि रोसु हुयासणु पज्जलिउ सहहुं ण सक्किउ चेलियगहि ॥

सो जंतु ण केण वि दिट्ठु तहिं पवणु चडुलु उल्ललिउ णहि ॥ ४ ॥ 10

कोक्किउ अणंतवीरिउ भणेवि ।

लहुयहु ढोइवि जुवरायच्चिधु ।

णिम्मोहभावभावणउ लेवि ।

पिउ सरणु पइट्ठु सयंपहासु ।

सिरितण्हइ मरिवि फणिट्ठु जाउ । 5

णडि बच्चरि अण्णेक्क वि चिलाइ ।

जा ताम हारहिमहासकंति ।

संमाणुउ णउ रसपरवसेहिं ।

5

गउ रूसिवि सिवमंदिरपुरासु

वज्जरिउ तेण रयणाइं कासु

वच्चरिचिलाइणामालियाउ

पहयरिपुरि अवराइयहु गेहि

वेण्णि वि थणभारें भग्गियाउ

पट्टवहि मंति आणवहि तुरिउं

अवलोइय मंतिमहंत संत

दमियारिहि विज्जाहराणिवासु ।

पइं मेल्लिवि को महियालि महीसु ।

णच्चणिउ दोण्णि वरवालियाउ ।

णं विज्जुलियउ अच्छंति मेहि ।

लइ णरवइ तुज्जु जि जोगियाउ । 5

राएण वि तं णियचित्ति धरिउं ।

सहसा संपेसिय बुद्धिवंत ।

४ A मणिचूलि. ५ A ^०सुरवरहु णिवडिवि ताहि जि हुउ तणउ. ६ A सलक्खणउ.

4 १ AP सीहासणु. २ A चलयग्गहि.

5 १ AP जोगियाउ. २ AP आलोइय. ३ A संतमहंत.

12 अणुमइ तणउ अनुमतीराज्ञीपुत्रः 13 जि यणी लंज णउ जितकज्जलकृष्णवर्णः.

4 2 a पढमहु अपराजितस्य. 4 a अ वि चिं तिय पहासु अत्यद्भुतमाहात्म्यस्य. 5 b सिरितण्हइ श्रीतृणया. 6 b णडि नर्तकी. 9 सहहुं सोढुम्; च लिय ग हि गच्छद्ग्रहे नभसि. 10 चडुल चपलः.

5 1 b ^०णिवासु नृपस्य. 3 b ^०वालियाउ बालिके नवशौवनवत्स्यौ. 6 a आणवहि आनय.

7 a संत विद्वांसः.

गय ते वि पुरिहि पहायरीहि जे वल्लह तणय वसुंधरीहि ।
 लइ तेहि ताहं उवइट्टु कज्जु जइ इच्छह संपयविउल्लु पूज्जु ।
 तो णियणाडिजुयलउं देहु ताम दमियारिदेउ रूसइ ण जाम । 10
 ता पोसहणियमालंकिएण जिणपायपोमसेवापिएण ।
 घत्ता - जिणभेवणथिएण णराहिविण अवराइइण समंतियणु ॥
 आउच्छिउ दिज्जउ तियजुयलु किं किज्जउ सह तेण रणु ॥ ५ ॥

6

तं णिसुणिवि मंति भणंति एम्ब खयराहिउ दुज्जउ समरि देव ।
 णारीदाणेण वे होइ मलिणु तं णिसुणिवि मउल्लियणयणवयणु ।
 थिउ चिंताउरु णरणाहु जाम चिरंभवविज्जउ पत्ताउ ताम ।
 सव्वउ पण्णत्तिपहइयाउ रिउवहु चवंति वसिहइयाँउ ।
 वयणेण तेण संतुट्टु वे वि भायर णियमंतिहि रज्जु देवि । 5
 गय सिवमांदिरु वित्थारएण कवडेँ णडिबेसायारएण ।
 वरिसिउ रायहु पडिहारएण जं संजुत्तउं सिगारएण ।
 ईएण कहिउ तं एउ राय को सहइ तुहारा विसमघाय ।
 अवराइएण लइ दिण्णु तुज्जु कामिणिजुयलुल्लउं खीणमज्जु ।
 घत्ता - ता कडयमउडमणिकुंडलहिं कंचीदामहिं भूसियउ ॥ 10
 दमियारें मायामाणिणु सुइसुमहुरु संभासियउ ॥ ६ ॥

7

करणंगहारबहुरसविसट्टु वीयइ दिणि अवलोपवि णट्टु ।
 वीणाञ्जुणि घणथण मज्झखाम अदुईय धीय कणयसिरिणाम ।

४ A जे पियसुय वसुहवसुंधरीहि; P जे पियसुहवसहि वसुंधरीहि. ५ AP^१ भवणि थिएण. ६ P^१ तियजमलु.

6 १ AP वि. २ AP मउल्लियवयणणलिणु. ३ AP चिरभव^० ४ AP add after this: जंपंति णवंति सदुइयाउ, निरु सामिहि दासत्तणु गयाउ, को पहणहु को आणहु धरेवि. ५ AP add after this: परिमिय (P परमिय) जणेहि णीसरिय वे वि. ६ AP दूयएण.

7 १ A तहिं आय धीय.

8 b जे बल्लकेसवौ; वसुंधरी हि अपराजितमाता वसुंधरी तस्याः. 9 b संपयविउल्लु संपदा विपुलम्.

6 1 b खयराहिउ दमितारिः; देव हे अपराजितराजन. 2 a मलिणु भग्मानः; अस्-द्विग्रहे कृतलजो वा. 4 b रिउवहु शत्रुवधम्. 11 सुइसुमहुरु कर्णमधुरम्.

7 1 a करण^० अष्टोत्तरं शतं हस्तनर्तनं करणमुच्यते; ^०अंगहार^० अङ्गविक्षेपः. 2 b अदुईय अद्वितीया.

अप्पिय तापं मायाविणीहिं
णञ्चंतिहि तैहि पुणु कामवेसु
कण्णाइ भणिउं को सो अणिटु
कित्तिमरूवाजीवाइ बुत्तु
परमेसरु पहयरिपुरिणिवासु
उवमिज्जइ सो भुवणयलि कासु
सा भणइ मोरकेक्कारवाइ
दूसहविरहगिगुलकभीउ

णाडउं सिक्खाविय भाविणीहिं ।
गाइउ अणंतवीरिउ णरेसु ।
किं किंणरु किं सुंरु किं फणिटु । 5
सो कुमरु थिमिर्यसायरहु पुत्तु ।
अचराइउ भायरु होइ जासु ।
ता कण्णहि लगउ कामपासु ।
तहु दंसणु लब्भइ केर्म माइ ।
दक्खालाहि जाम ण जाइ जीउ । 10

घत्ता — ता कवडणडित्तणु अवहरिवि थिउ हरि पायडु तणु करिवि ॥
जोयंति तरुणि णं सिसुहरिणि विद्धी मयणं हुंकरिवि ॥ ७ ॥

8

मणि खुत्तु कुमारिहि कामवाणु
णिय सुंदरि तायहु कहिय वत्त
पेसिय मंडलिय अणयभेय
ते जित्त धित्त रणराइएण
सयमेव पत्तु ता चायपाणि
किर बेणिण वि सर संधंति जाव
जुज्झिय बेणिण वि बहुपहरणेहिं
पच्छइ पुणु कित्तिहरहु सुएण
तं लेप्पिणु हरिणा तहु जि दिण्णु
रिउ मारिवि किर चल्लंति जाम

आरोहिवि धयचंचलु विमाणु ।
तेण वि पारंभिय समरजत्त ।
सुर विजाहर चंदकत्तेय ।
हंलिणा बलिणा अचराइएण ।
हणु हणु भणंतु अहिमाणि दाणि । 5
अंतरि पइहु दणुयारि ताव ।
ते केसव पडिकेसव घणेहिं ।
मुक्कउ रहंगु णिटुरभुएण ।
विथंलंतरुहिरु वच्छयलु भिण्णु ।
पयमेत्तु णं चलइ विमाणु ताम । 10

घत्ता — ता पक्खंतहिं सयलउ दिसउ समवसरणु अवलोइउं ॥
हरिबलहिं विहि मि विंभिर्यवसहिं णियविजामुहुं जोइउं ॥ ८ ॥

२ AP पुणु तहि. ३ A णरु. ४ तिमियं. ५ AP कण्हइ. ६ P किं ण माइ.

8 १ AP विवाणु. २ AP हरिणा. ३ A अहिमाणदाणि; P अहिमाणखाणि. ४ A णिमांत-
रुहिरु. ५ AP पयमेत्तु विवाणु ण चलइ ताम. ६ AP विंभयं.

4 a काम वे सु कन्दर्पसदृशः 6 a कि त्ति मरूवा जी वा इ कुत्रिमवेदयया. 10 a ० ह्युल कं ज्वाला.
11 क व ड ण डित्त णु अव हरि वि कपटनटीत्वमपहृत्य.

8 4 a धित्त क्षिताः; रण रा इ ए ण रणशोभिना. 6 b दणु यारि कृष्णः. 9 b वि थं लं त-
रु हिरु विगलट्टधिरम्.

9

सा भणइ महापहु विजयकंखु
तहु तणउ तणउ किस्तिहरु राउ
संतियरहु सीसु मुयवि राउ
अच्छइ भो केवलि जाहुं एहु
ता सव्वइं भव्वइं तहिं गयाइं
लायणवण्णणिज्जियसिरीइ
भणु देवदेव णियजणणमरणु
तं सुणिवि कैहइ समसत्तुमित्तु

घत्ता - इह दीवि भरहि संखउरवरि वणि देविल्लु चकलथणिय ॥

बंधुसिरि घरिणि गुणगणणिलय सुय सिरिदत्त ताइ जणिय ॥९॥ 10

होतउ सिवमंदिरि कणयपुंखु ।
एयहु दमियारिहि होइ ताउ ।
थिउ वरिसमेत्तु परिमुक्ककाउ ।
भत्तिइ वंदहुं वोसट्टदेहु ।
वंदंप्पिणु परमप्यथपयाइं । 5
आउच्छिउ चामीयरसिरीइ ।
मइं दिट्टउ किं सुहिसोयकरणु ।
भुवणत्तयणवराइंवमित्तु ।

10

पुणु कुंटे' पंगु अण्णेक्क दीण
अण्णेक्क वहिर णउ सुणइ चाय
अण्णेक्क एकलोयणिय जाय
लहुवाहिणउ करुणं तोसियाउ
वणि संखमहीहरि सीलवाहु
पालिय अहिंस वयणेण तासु
दिण्णउं सुव्वयखंतिथहि दाणु
सम्मत्ताभावे कयउ वालि
सोहम्मसग्गि सामण्णदेवि
हई दमियारिहि तणिय पुत्ति

घत्ता—तं वयणीयमणविणिदणहु फलु पइं सुइ अणुहुंजियउं ॥

हियउल्लुउं जणणहु राणि वडिउ दिट्टउं रुहिरं मंडियउं ॥ १० ॥

णिल्लक्खण हई हथहाण ।
खुज्जी अण्णेक्क विमुक्कलाय ।
पिउ मुउ काले गय मरिवि माय ।
ल्ले वि एयउ पइं घरि पोसियाउ ।
अवलोइउ सव्वजैसंकु साहु । 5
अण्णेक्कु धम्मचक्रोववासु ।
आहारवमणि विदिग्गिंल्लेठाणु ।
मोहेण पडइ जणु जम्मजालि ।
होइवि मुय माणुसदेहु लेवि ।
जं दिट्ठी पिउखयदुहपवित्ति । 10

9 १ AP दमियारिहि. २ AP केवलि भो. ३ AP भणइ. ४ A भरइ.

10 १ A कुंटे; P कुट्टि. २ AP सच्छवि. ३ A सच्चत्रसंक. ४ K धम्म. ५ AP विजि-
गिल्ल. ६ A तं वइणीय; P तं वइणीव. ७ AP अणुहुंजियउं. ८ AP रंजियउं.

9 1 a सा भणइ विया कथयति; विजयकंखु दिग्बिजयवाञ्छकः. 2 a तणउ संबन्धी;
तणउ पुत्रः. 4 b वोसट्टदेहु काशोत्सर्गयुक्तः. 8 b °णवराइं वमित्तु °नवीनपद्मस्य सूर्य इव. 9 वणि
वणिकु; चकल° विस्तीर्णः. 10 सिरिदत्त श्रीदत्ता.

10 3 a एकलोयणिय काणा. 4 b पइं स्वया श्रीदत्ताचार्या. 6 b धम्मचक्रोववासु अरा-
णामष्टोत्तरशतेन धर्मचक्रं भवति । तत्र एकोपवामेन आरात्रयं लभ्यते इति पट्टत्रिंशत्तुपवासाः । तुम्बस्य चैक
उपवासः । आदाववसाने च षष्ठः । एवमशीतिदिवसैः समाप्यते । किंविकल्पाः किंभेदा अरतुम्बकोपवासाः
क्रियन्ते इति चेदुच्यते । दर्शनस्याष्टौ । ज्ञानस्याष्टौ । चारित्रस्य प्रवचनमातृवापेक्षयाष्टौ । तपसो द्वादशोप-
वासाः । इति पट्टत्रिंशत् । अरात्रिभोजनस्य चैकः उपवासः. 7 a सुव्वयखंति हि सुव्वतार्यायाः. 9 वयणी-
वमणविणिदणहु वृत्तिनी आर्या तस्या वमननिन्दनस्य फलं तत् .

11

तं णिसुणिवि हरि बल णियघरासु
 गोविंदतणउ कइकामधेणु
 रिउसुय तं तहु पइसहुं ण दँति
 कंचणसिरियहि संरंभगाढ
 आवेप्पिणु चवलाउहकरोहि
 सोयग्गिं दहु सरीररुक्खु
 बलकेसव पत्थिवि गय कुमारि
 सुण्णहहि पासि थिय संजमेण
 सोहम्मि अमरु हई मरंवि
 खग माणव दाणव जिणिवि समरि

गय कण्ण लेवि पहंयरिपुरासु ।
 सिवमंदिरु गयउ अणंतसेणु ।
 करवालहिं सूलहिं उत्थरंति ।
 भायर सुघोस वर विज्जदाढ ।
 ते वे वि णिहय हरिहलहरोहि । 5
 असहंति सबंधवपलयदुक्खु ।
 जिणु णविवि सयंपहु णाणधारि ।
 गणणिहि संतिहि कहिणं कमेण ।
 एत्तहि महि चक्कं वसि करोवि ।
 णार्रायण सीरि पइट्ठ णयरि । 10

ग्रन्था—बलपवें विजयासुंदरिहि हई सुय णामें सुमइ ॥

कंकलिपलवारत्तकर पाडलपिलयमंदगइ ॥ ११ ॥

12

णियमियदुइममणवारणासु
 संपुण्णु अण्णु दिण्णउं समिद्धे
 दिट्ठी पिउणा सुय दिण्णदाण
 सांणहियसयंवरमंडवंति
 जोवइ वरु जा किर रहवरत्थ
 हलि दिल्लिदिल्लिण ण भरंहि काइं
 जा पुव्वमेव ण लहइ णिजंमु
 सुणि विहिं मि भवंतरु कहमि माइ
 भरहे णंदंउरइ णं सुरिंदु
 तहु अत्थि अणंतमइ त्ति भज्ज
 धणसिरि अणंतसिरि तहि सुयाउ

ग्ररु आयउ दमवरच्चारणासु ।
 पंचच्छेरउ पत्ती पसिद्धे ।
 णवजोव्वण रूवें सोहमाण ।
 देसंतरायणररायकंति ।
 तावच्छर चवइ वरंवरत्थ । 5
 पइं मइं मि सग्गि भणियाइं जाइं ।
 सा इयरहि अक्खइ परमधम्मु ।
 पुक्खरवरद्धपुव्विल्लभाइ ।
 णामेण अमियविक्रमु णरिंदु ।
 वरकइविज्जा इव जणमणोज्ज । 10
 हउं तुहुं वेण्णि वि सुललियभुयाउ ।

ग्रन्था—वणि सिद्धमहागिरि गंपि हलि णंदणमुणिवरपयजुयलु ॥

वंदेप्पिणु व्रैउ उववासतउ चिण्णउं दुक्खरु गलियमलु ॥ १२ ॥

11 १ AP पहयरपुरासु, २ AP दाणव माणव, ३ AP सवरि, ४ AP णाराइण.

12 १ AP संपक्क, २ A समिद्ध, ३ A सिद्ध, ४ A सरहि, ५ A नृजम्मु, ६ P णंदउरिहि,
 ७ AP वउ.

11 3 a रिउउ सुय दमितारिपुत्रौ; b उत्थरंति संमुखमागच्छन्ति. 4 a संरंभगाढ संरंभेण
 क्रोधेन गाढौ दटौ. 6 a दहु दग्धा. 7 a पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा. 12 पाडलपिलय^० बालहंसः.

12 5 b वरंवरत्थ विमलाकाशस्था. 6 a दिल्लिदिल्लिण हे बाले; भरहि स्मरसि. 7 a
 णिजंमु मनुष्यजन्म.

13

वज्जंगउ णामे ससहराहु
 कंताइ कुलिसमालिणइ सहिउ
 गउ णियपुरि णियपणइणि थवेवि
 बेणिण वि जणीउ संचालियाउ
 आयासि जाम धावइ तुरंतु
 भत्तारच्चित्तगइ संभरंतु
 णिकुरुणे दइवुपेल्लियाउ
 परिहरियभीमवणथरभयाउ

तहिं आयउ कथइ तिउरणाहु ।
 अम्हइं णियंतु मारेण महिउ ।
 कामाउरु पडियागउ वलेवि ।
 णं हंसं कुवलयमालियाउ ।
 ता दिट्टउ तेण कलत्तु पंतु । 5
 ईसाकसायवसु विष्फुरंतु ।
 भीएण वेणुवणि घल्लियाउ ।
 तहिं बेणिण वि संणासें मुयाउ ।

घत्ता—णउ कंदु ण मूत्तु ण फल्लु ण दत्तु अहिलसियउ णउ किं पि वणि ॥

जोईसरु सासयसिद्धियरु परमजिणेसरु धरिवि मणि ॥ १३ ॥ 10

14

हउं णवमी आहंडलहु देवि
 णामे रइ पवर कुबेरणारि
 मंदरयलि दिट्टउ चरियतिकवु
 पुच्छिउ सिद्धत्तणु कम्म कालि
 चोत्थइ णित्थरह भवद्धिणीरु
 आउच्छिवि हरि बल वे वि ताय
 णिवकुमरिहिं सहं सत्तहिं सणहिं
 पयारहमइ दिवि सुहणिहाणि
 केसवु महि भुंजिवि कम्मणडिउ
 सुउ रज्जि थवेवि अणंतसेणु
 तउ चरिवि सीरि चिहडियकसाउ

हई तुहु माणुसतणु मुपवि ।
 णंदीसरजत्तहि दुक्खहारि ।
 दिहिसेणु णाम पणवेवि भिक्खु ।
 होसइ रिसि भणइ भवंतरालि ।
 तं सुणिवि कण्ण विहुणिवि सरीरु । 5
 वंदिवि सुव्वयसंजइहि पाय ।
 पावज्ज लइय भूसियवपहिं ।
 सुरवरु हई प्राणावसाणि ।
 रयणपहवसुहाविवरि पडिउ ।
 जसहरगुरुचरणंबुरुहि लीणु । 10
 सोलहमइ सग्गि सुरिंदु जाउ ।

घत्ता—पिउ जायउ जो उरयाहिवइ तासु पासि दंसर्णरयणु ॥

पावेपिणु णरयहु णीसरिउ सो अणंतवीरियउ पुणु ॥ १४ ॥

13 १ A सहसत्राहु. २ P^c मालिणए. ३ AP^c दइउ पेल्लियाउ.

14 १ A नृवकुमरिहि; P^c णिवकुअरिहि. २ AP^c पाणावसाणि. ३ P^c जसहरचरणंबुरुहे णिलीणु. ४ AP^c देसणु रयणु. ५ P^c वीरिउ.

13 1 a ससहराहु शशधरामः चन्द्रप्रभः. 2 b णियंतु अवलोकयन्. 7 a दइवुपेल्लियाउ कर्मप्रेरिते द्वे; b वेणुवणि वंशवने.

14 1 a णवमी नवमीनाम्नी. 2 a कुबेरणारि रातिनाम्नी कुंबरभार्या. 3 a चरियतिकवु उग्रचारित्रः. 5 a णित्थरह भवद्धिणीरु संमाराब्धि तरिप्यथ. 12 पिउ स्तिमितसागरः; उरयाहिवइ धरणेन्द्रः.

15

भरहम्मि पत्थु विजयाचलिदि
णहवल्लहपुरि घणयाहु राउ
घणवण्णउ जायउ ताहं पुत्तु
सो सयलखयरखोणीवईसु
पण्णत्तिविज्ज संसाहमाणु
सम्मत्तु लप्पिणु तिमिरणासु
अण्णहिं दिणि गउ णंदणगिरिदु
हयकंठभाइ णामे सुकंठु
जायउ भीमासुरु सरिवि वेरु
उवसग्गहु ण चलइ किं पि जाम
रिसि साहिवि आराहण अमंदु
इह दीवंतरि सुरदिसिविदेहि

घत्ता — पुरि रयणसंचि मणिचंचइइ थिरु आउंचियारिपसरु ॥
गणउ खेमंकरु दीहकरु धीमहंतु उद्धरियधरु ॥ १५ ॥

उत्तरसेदिहि धवलहरुंदि ।
घणमालिणिवरकंतासहाउ ।
घणणाहु णाम णवणलिणणेतु ।
मंदरणंदणवणि णमियसीसु ।
अञ्चयणाहे बोहिउ सणौणु । 5
णिकखंतु सुरामरगुरुहि पासु ।
थिउ पडिमाजोपं मुणिवरिदु ।
संसार भमिवि दुक्खीहिदहु ।
आढसु तेण मुणि मेरुधीरु ।
सइं लज्जिउ गउ रिउ गयणु ताम । 10
अञ्चइ इंदहु ह्ययउ पडिंदु ।
मंगलवइदेसि विचिच्चगेहि ।

16

तहु कणयच्चित्त णामेण देवि
जाया हियमाणिणिहिययसार
सिरिसेणहि सुउ सहसाउहेण
णियसंति णामु सुरणाहमहिउ
जांचच्छइ ता दिवि देवसत्थु
अण्णहिं वण्णिउ कुलिसाउहासु
तं णिसुणिवि सुरवरु चित्तचूलु
जिणजेइत्तणुब्भवु भणिउ तेण

घत्ता — णउ अत्थि तो वि दीसइ पयहु जिह सिविणउ तेलोक्कु तिह ॥

लइ सुण्णुं जि णिच्छउ आवडिउं कहिं अच्छइ गय दीवसिह ॥१६॥ 10

तहि णंदण इंद पडिंद वे वि ।
वज्जाउह सहसाउह कुमार ।
जणियउ णेहु व कुसुमाउहेण ।
खेमंकरु पुत्तपउत्तसहिउ ।
पभणइ भुवि को सइंसणत्थु । 5
णिम्मलुं सम्मत्तु गुणावयासु ।
आयउ णिवंघरु णहलग्गचूलु ।
अणणणु होइ तिहुवणु खणेण ।

15 १ A वण्णिउ. २ A पण्णत्त. ३ P अणाणु; K अणाणु but corrects it to सणाणु.
४ AP जयवरिदु. ५ AP संसारि. ६ P दुक्खेहि दहु.

16 १ A तहि णंदणु अञ्चवइंदु ए वि. २ A reads this line and 3 a as: वज्जाउहु
णामे तिजयसार, ते परिणिय सिरिमइ णं कुमार, तीए जणियउ सहसाउहु कुमार. ३ AP को भुवि.
P भण्णिउ. ५ A णिम्मल. ६ A नृवघरु. ७ AP सुण्णउ णिच्छउ.

15 3 a घ ण व ण्ण उ मेघवर्णीः कृष्णवर्णीः. 8 a ह य कंठ भा इ अश्वमीवस्य भ्राता; b दु क्खा-
हि द हु दुःखसर्पेण दष्टः. 9 a सर वि वेरु वैरं स्मृत्वा. 13 ० चंचइइ देदीप्यमाने.

16 3 a सिरिसेणइ श्रीषेणायां सहस्रायुधभार्यायाम्. 4 a णियसंति कनकधान्तिः, निज-
शब्देन कनकम्. 5 a देवसत्थु देवसमूहः; b सइंसणत्थु सहस्रानस्थः. 10 आवडिउं शतम्.

17

तं सुणिवि भणइ पविपहरणक्खु
जइ अवरु जि खणि खणि होइ सव्वु
पज्जायारूढी सव्वसिट्ठि
अण्णयविरहिउं जि जगु भणंति
जइ सिविणु व तच्चु परोवहासि
जइ सुण्णत्तहु दीवच्चि जाइ
तं सुणिवि पवुद्धउ सुरु वउद्धु
को करइ वण्ण पइं सहं विवाउ

अण्णणहं दुक्कुरु णाणचक्खु ।
तो किं जाणइ जणु णिहिउ दंठु ।
आउंचिउ हत्थु जि होइ मुट्ठि ।
खकुसुमुं ते सससिगे हणति ।
तो सिविणयभोयणि किं ण धासि । 5
तो खण्णपरि कज्जल्लु केमं थाइ ।
संसइ तुहं णरवइ णाणसुद्धु ।
अरहंतु भडारउ जासु ताउ ।

घत्ता—गउ चित्तचूलु सणिहेलणहु इंदचंदफणिपरियरिउ ॥

खेमंकरु पढमहु तणुरुहहु अप्पिवि वसुमइ णीसरिउ ॥ १७ ॥ 10

18

घरु भेल्लिवि वणि थिउ मुक्कगत्तु
रायाहिराउ णिव्वूढमाणु
वजाउहु अवइण्णइ वसंति
तडिदाढे चिरभववइरिपण
खयरेण णायपासेण वद्धु
सा तेण णिहय दहकरयलेण
रिउ णासिवि गउ भयभीयजीउ
वसिकयसुरणरविज्जाहरासु
घरु आयइं ता परिहरिवि मरणु

काले अरहंतावत्थ पत्तु ।
गोमिणिकामिणि अणुहुंजमाणु ।
जलि रमइ सुदंसणसरवरंति ।
दुक्कम्मभावसंचारिपण ।
विउलइ सिलाइ सह संणिरुद्धु । 5
गय सयदंलु णारि व रयमलेण ।
णियंघरि पइहु कुलहरपईउ ।
णवणिहि चउदहरयणाइं तासु ।
घरि णहयरु पक्कु पवण्णु सरणु ।

घत्ता—तहु अणु आगय असियरखयरि चवइ हणामि की मइं धरइ ॥ 10

पहरणकरु थविरु अवरु अइउ णिवहु सवइयरु वज्जरइ ॥ १८ ॥

17 १ AP जइ खणे खणं अवरु जि होइ. २ P खकुसुम. ३ AP किं ण थाइ. ४ A सुरु पवुद्धु: P सुरु ववुद्धु.

18 १ AP सहसा णिरुद्धु. २ A सयदण. ३ AP णियपुरि. ४ AP मइं को.

17 1 a पवि पहरणक्खु वजायुधाख्यः. 3 a पज्जायारूढी पर्यायमारूढा; सव्वसिट्ठि सर्व-सृष्टिः. 4 a अण्णयविरहिउं अन्वयरहितम्; द्रव्यरूपतया अपरापरपर्यायेष्वनुवर्तनमन्वयः; b सससिगे शशशृङ्गेण. 5 a परोवहासि हे परोपहासिनः; b ण धासि न तृप्यसि. 6 a दीवच्चि दीपशिखा. 7 a वउद्धु क्षणिकवादी: b संसइ प्रशंसति.

18 1 a मुक्कगत्तु मुक्तशरीरः; b अरहंतावत्थ केवलज्ञानम्. 3 a अवइण्णइ अवतीर्णे प्राप्ते; b सुदंसणसरवरंति सुदर्शननाम्नि सरोवरे. 4 a तडिदाढे विद्युदंष्ट्रेण. 6 a णिहय निहता चूर्णीकृता: b सयदंलु शतखण्डम्; णारिव रयमलेण यथा रजस्वला स्त्री लज्जया शतखण्डं व्रजति रक्त-मलेन. 9 a परिहरिवि मरणु मरणभयात्. 10 अणु पश्चात्. 11 थविरु वृद्धः; अइउ आगतः.

19

इह वरिसि खगायलि अरिहभन्तु
तहु देवि जसोहर वाउवेउ
तेत्थु जि पुरु किणरगीउ अत्थि
तहु सुय सुकंत महं तणिय कंत
ओहच्छइ तुह पयणय विणीय
विज्जासाहाणि थियवणयरासु
किर साहइ इच्छियसिद्धि जाव
तं अवगणिवि मृगंणयणाइ
आरुसिवि कद्धिउ मंडलगु
आवेप्पिणु तुज्जु पइट्टु गेहि
आगच्छमि जा महिहरधरिसि
इह आयउ अक्खिउ तुज्जु राय
गंभीरघोरवइराउहेण

सकंप्पहपुरि पहु इंदयत्तु ।
हउं पुत्तु पुण्णसंपुण्णतेउ ।
तहिं चित्तचूलु खगु जसगभत्थि ।
बहुतंतमंतविहिवुद्धिवंत ।
संतिमइ णाम महं तणिय धीय । 5
उवगय मुणिसायरगिरिवरासु ।
गुरुविग्घु पउंजिउ एण ताव ।
सिद्धी देवय जाणिवि अणाइ ।
पहु वि लंघिय णंहमंडलगु ।
हउं पुज्ज लेवि खे भमियमेहि । 10
ता पेच्छिवि णहि धावंति पुत्ति ।
पेक्खहि परिरक्खहि णायैछाय ।
तं सुणिवि वुत्तु वज्जाउहेण ।

यत्ता—इह दीवइरावयविंझउरि विंझसेणु णामे नृवइं ॥

णामेण सुलक्खण मृगंणयण तहु रायाणी हंसगइ ॥ १९ ॥ 15

20

तहु णंदणु णामे णल्लिणकेउ
तेत्थु जि वणिवरु णामे सुमित्तु
पीयंकरि णामे तासु भज्ज
महिलाचिरहेण मुण्णिदवासि
भंजिवि दुम्महु कंदप्पदणु
जंबूदीवंतरि कच्छदेसि
पुरि कणयत्तिलइ णं पुण्णयंदु
तहु पणइणि णामे णीलवेय

णं थिउ णररूवं मयरकेउ ।
सिरिदत्त कंत तणुरुहु सुदत्तु ।
सा हित्ती णिवतणं मणाज्ज ।
रिसि हुउ सुदत्तु सुव्वयहु पासि ।
संणामे गउं ईसाणकणु । 5
वेयड्डइ उत्तरसेदिवासि ।
णामे महिंदविक्कमु खगिंदु ।
सुरु मेल्लिवि सुरतणु अमियतेय ।

19 १ A अरुहं. २ A सुक्कं. ३ P सिगं. ४ AP णहि मंडलगु. ५ P णायणाय.
६ AP णिसुणिवि. ७ P णिवइ. ८ A सलक्खण. ९ P सिगं.

20 १ AP पीयंकरि. २ A नृवतणं. ३ AP हुउ. ४ A पुण्णिविंदु; P पुण्णियंदु.

19 3 b जसगभत्थि यथाःकिरणः. 6 a थियवणयरासु स्थिता वनचरा यत्र तस्य; b मुणि-
सायरगिरिवरासु पर्वतस्य नामेदम्. 9 b अणाइ अनया शान्तिमत्या. 12 b णायछाय
नीतिप्रभावः.

20 3 a पीयंकरि प्रीतिकरी; b हित्ती दृता; णिवतणं नलिनकेतुना.

चिरु वणि सुदत्तु जो दुक्खरीणु
इंदीवरदलसंकासणेत्तु
सीमंकरसुरिहि णविवि पाथ
णियवुक्किउ णिंदिवि णायणेउ

सो तहि सुउ जायउ अजियसेणु ।
जं हित्तउ वणितणयहु कलत्तु । 10
तउ चरिवि घोरु चूरिवि कसाय ।
गउ मोक्खहु सो नृत्तु णालिणकेउ ।

घत्ता—पीइंकरि सुव्वयसंजइहि पासि मुणप्पिणु घराणियत्तु ॥

चंदायणु चरिवि पसणमइ मय पक्खालिवि पावंमत्तु ॥ २० ॥

21

ईसाणि देवि तित्थाउ आय
इहु अजियसेणु चिरवरु दुलंघु
इय णिसुणिवि कण्णइ पुव्वजम्म
संतिमइ सुगंधवियक्खणाहि
देवत्तु लहेप्पिणु बीयसग्गि
ता पेक्खइ जो णरजम्मि ताउ
जिह सो तिह अवरु वि अजियसेणु
थुइसयहिं पसंसिवि वरगिरेण
देविं चित्तिउ संसारु चित्तु
काणीणदीणदिज्जंतदाणि

संतिमइ तुहंरिय धीय जाय ।
विज्जउ साहंतिहि करइ विग्घु ।
खेमंकरणाहहु पासि धम्मु ।
हुई सीसिणिय सुलक्खणाहि ।
संचरइ जाम गयणयलमग्गि । 5
सो जिणवरु जायउ वाउवेउ ।
रयणत्तयजलधुयकम्मरेणु ।
वेण्णिं वि वंदिय पणमियसिरेण ।
जिणधम्मि ण किज्जइ केम चित्तु ।
चक्केसररज्जि पवहुमाणि । 10

घत्ता—खगमहिहरदाहिणंपंतियहि सिवमंदिरि घणवाहणहु ॥

विमलादेविहि संभूय सुय कणयमाल संपसाहणहु ॥ २१ ॥

22

संगरभरमारियखत्तियासु
गुणमणिउज्जोइयकुलहरासु

दिण्णी वसुहादिवणत्तियासु ।
सोवण्णसंतिणामहु वरासु ।

५ A अमियसेणु. ६ A नृत्तु; P णित्तु. ७ A पीइंकर. ८ AP सुय. ९ A पायमत्तु.

21 AP तुहाते. २ AP इय णिसुणोप्पिणु अप्पणउ जम्म. ३ AP गयणमग्गमग्गि. ४ AP वेण्णिं वि पणविवि वंदिवि सिरेण. ५ A देविं; P देविण. ६ AP दाहिणसेदियहि. ७ AP सुपसाहणहु.

13 a णायणेउ ज्ञातपदार्थः. 14 घरणियत्तु गृहनिगडम्. 15 चंदायणु अमावास्यायामुपवासं कृत्वा एकादिप्रासानामेकोत्तरेण चतुर्दशपारणानि । पुनरुपवासं कृत्वा चतुर्दशप्रासानामेकोत्तरहान्या चतुर्दशपारणानि । तत एक उपवासः; मय मृता.

21 4 a सुगंधवियक्खणाहि सुशास्त्रविचक्षणायाः 6 a ताउ पिता वायुवंगः. 7 धुयकम्मरेणु प्रक्षालितकर्मरजाः 9 a चित्तु वैचित्र्यम्. 12 सपसाहणहु ससैन्यस्य समण्डनस्य वा.

22 2 b सोवण्णसंतिं कनकशान्तेः श्रीषेणपुत्रस्य.

वसुसारयणयरि समुहसेण
दोहिं मि सहुं गउ गहणंतरालु
चिमलप्पहु णामे तेत्थु साहु
णिसुणेवि तच्चु पावज्ज लइय
णारिहि णं चल मइ जणियसंति
सिद्धायलि काओसग्गु देवि
अवियाणियसमचिच्चै जडेण
लहुपणइणिमेहुणपण ताहं
ताज्जिउ खयरिदं असिगहेण

रायहु जयसेण वसंतसेण ।
घोलंतणीलदलवेह्लिजालु ।
अवलोइउ णाणजलोहवाहु । 5
सहुं घरणिहिं तेण विमुक्कदइय ।
आसंघिय विमलमइ त्ति खंति ।
तिणिण वि थियाइं माणि जोउ लेवि ।
विज्जाहरेण वइरुब्भडेण ।
उवसग्गु रइउ तीहिं मि जणाहं । 10
गउ चित्तचूत्तु णासिवि णहेण ।

घत्ता—णिवसुयसुउ कणयसंति णिवइ कणयमाल परिसेसिवि ॥

आहिंडइ महियलि सुद्धमणु अण्णउ तविण विहासिवि ॥ २२ ॥

23

रयणउरइ राणउ रयणसेणु
अण्णेक्के वणि अउल्लंतु संतु
एयहं दोहं मि मुणिवर समाणु
देवागमु पेक्खिवि हीणु दीणु
सो खलु वसंतसेणाहि सयणु
णियणत्तिउ णिवि अणंतणाणि
खेमंकरतायहु पासि दिक्ख
सिद्धइरिहि लेप्पिणु वरिसजोउ

तें तहु भयवंतहु दिण्णु दाणु ।
आढत्तु हणहुं कम्मइं खवंतु ।
संजायउ केवलि तिजगभाणु ।
पुणु मुणिवरकमकमलयलि लीणु ।
पणाविउ हिरिभावोणल्लवयणु । 5
णिच्चिण्णउ रइसुहि चक्कपाणि ।
माणि धरिवि असेस वि समयसिक्ख ।
थिउ देहविसग्गे मुक्कभोउ ।

घत्ता—संज्ञायइ पंचमहव्वयइं पंचहिं पंचे जि भावणउ ॥

पंचमगइणिञ्चलाणिहियमइ परिगयपंचेदियपणउ ॥ २३ ॥ 10

22 १ A adds after this: तह सुय उण्णणी वरमुएण, सा पुणु परिणिय पहुसुयसुएण.
२ AP णिच्चलमइ.

23 १ AP मुणिवर. २ A हरिवाहोणवल्लवयणु. AP पंच वि.

6 b विमुक्कदइय प्रव्रज्याया विशेषणमिदम्; विमुक्ता दयिता भार्या यस्यां सा प्रव्रज्या. 10 a लहु-
पण इ णि मे हु ण ए ण वसन्तसेनामातुलपुत्रेण चित्रचूलेण.

23 3 a एयहं दातृमारकयोरुपरि. 5 a सयणु मेहुणकः मातुलपुत्रः; b हिरिभावोणल्ल-
वयणु हीभावेन लज्जाभावेन अवनतवदनो नीचमुखः. 6 b चक्कपाणि वज्रायुधः. 7 b समयसिक्ख
आगमजिनशासनशिक्षाम्. 10 पणउ स्नेहः.

24

चिरु हरिगीवहु सुय धम्मभट्ट	णामे रयणाउह रयणकंठ ।
संसारु भमेप्पिणु जाय देव	पहरंति पाव तं सावलेव ।
आयइ रंभाइ तिलोत्तिमाइ	णिब्भच्छिय वंदियजइकमाइ ।
अइबलु समहाबलु खणि पलाणु	पाविट्टहु कासु ण भग्गु माणु ।
सहसाउहेण सयवलिहि रज्जु	ढोइवि ववसिउ परलोयकज्जु । 5
वंउ लइयउं पिहियासवहु पासि	मइ रमइ ण संतहु मेहवासि ।
वइभारमहीहरि सिद्धिठाणि	दिट्टउ णियसुहि जोयावसाणि ।
तउ चरिवि तहिं जि रिसिजुवलु मयउं	उवरिमगेवज्जहि णवरेि गयउं ।
घत्ता—एकूणतीससायरसमइं बेण्णि वि सुहुं भुजंत थिय ॥	
भरहुवरिगामि हिमअहिमरय पुष्पयंतसुराणियर पिय ॥ २४ ॥ 10	

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे वजाउहचक्रवद्विवण्णं णाम
एकसट्ठिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६१ ॥

24 १ AP संसारि. २ AP वउ. ३ AP वहमारि महीहरि सिद्धिठाणि. ४ P सुयउं.
५ AP णवर. ६ A अहिमरय. ७ AP पुष्पदंत°.

24 सावलेव पापसहितौ. 3 b वं दि य ज इ क मा इ वन्दितयतिचरणया. 6 b मे ह वा सि
गुहवासि गुहपाशे वा. 7 b जो या व सा णि ध्यानावसाने.

पढमदीवि थियमेहइ
पुःखलवइदेसंतरि

सुरगिरिपुव्वविदेहइ ॥
पवरपुंडरिगिणिपुरि ॥ ध्रुवकं ॥

1

तहिं घणरहु पहु सयमहणमिउ
तहु देवि मणोहर तुंगथणि
वज्जाउहु जो अहमिंदु हुउ
तणुतेओहामियभाणुरहु
सहसाउहु अमरु मणोरमइ
णिवकंतइ णंदणु संजणित्त
भायरहं विहिं मि कमभाणियउ
हुउ एकह्नि णंदिवुहु तणउ
अचरेक्काहिं दिणि सुसेण गणिय
सा घणमुहु कुकुडु लेवि गय
पडिपक्खि पक्खणक्खहिं हणइ
घत्ता—दिज्जइ सालंकारहं
पह वत्त गिसुणेपिणु

तिहुयणसिरिरमणीप्राणपिउ ।
गलकंदललंघियहारमणि ।
संभूउ गब्भि सो ताहि सुउ । 5
हक्कारिउ तापं मेहरहु ।
गेवज्जहि आयउ सुहसमइ ।
सो सज्जणेहिं दढरहु भणित्त ।
पियमित्त सुमइ वरराणियउ ।
अण्णाहि वरसेणु वराणणउ । 10
पियमित्तहि घरु कोड्ढावणिय ।
भासइ देविहि पणमंति पय ।
क्रियवाउ एहु जो रणि जिणइ ।
ताहं सहस्सु दीणारहं ॥
अवरं वि पक्खि लपप्पिणु ॥ १ ॥ 15

2

कुलिसाणणु कुकुडु कंचणिय
गरुडेण वि जिणइ एहु ण वि
ता हरिसं वाइय जयवडह
तहिं आया घणरह मेहरह
पियमित्तसुमइकरयलपुसिय

अक्खइ सुमइहि धरंकामिणिय ।
उडुंतहु संकइ गयणि रवि ।
खुञ्जुय णच्चंति लडहमडइ ।
दढरह वरसेण णंदि सुमइ ।
चिरजम्मणिबद्धवैइरिवसिय । 5

1 १ AP थिए मेहए. २ AP पाणपिउ. ३ AP णिवकंताणंदणु. ४ A सहासु. ५ AP अवरु.

2 १ P धरि कामिणिय. २ AP कुज्जय. ३ A णंदिपमुह. ४ AP वहरसिय.

1 1 a पढमदीवि जम्बूद्वीपे; थियमेहइ स्थितमंघ्रे. 7 b सुहसमइ शुभसमये. 9 b कमभाणियउ क्रमेण भणित्ते. 12 a घणमुहु घनमुख इति कुकुटनाम. 13 b क्रियवाउ कृकवाकुः कुकुटः. 15 b अवर अपरा प्रियमित्रा नाम.

2 1 a कुलिसाणणु वज्रतुण्डः; कंचणिय काञ्चनानाम्नी सा सुमतेर्गणिका. 3 b लडहमडइ मनोहरम्. 4 b णंदि नन्दिवर्धनः; सुमह सुतेजाः.

जुञ्झंति पक्खि ते पवलबल
उल्लणवलणपरियत्तणहिं
रोसुद्धयकंधरकेसरय
तं तापं पुच्छिउ मेहरहु
किं तंबचूल जुञ्झंति सुय

घत्ता—कहइ कुमार सुहावइ
सयडजीवि तिद्दावर

चंचेलचंचुचरणारंचल ।
पेहुणसिरसिहरवियत्तणहिं ।
जं केव वि ण ओसरंति सरय ।
संबोहहुं भव्वजीवणिवहु ।
भणु अवाहिवंत सम्गगचुय । 10

एत्थु दीवि अइरावइ ॥
रयणउरइ णर भायर ॥ २ ॥

3

पहरेवि परुप्पर कढिणभुय
णामेण पसिद्धा भइ धाणि
बहुपुंडरीयपंचाणणइ
सियकण्ण तंबकण्ण त्ति गय
कोसलणयरिहि गोउलियघरि
एप्पिणु जुञ्जेप्पिणु खयहु गय
वरसेणसत्तिसेणहं णिवहं
ए चूलि पहया संभरमि
दीवाइदीवि खगसिह्रि वरि
खगु गरुलवेउ दिहिसेण प्रियं

घत्ता—कुसुमालुद्धइदिदिदिदि
जइवरु तेहि णियच्छिउ

वलिवइहु कारणि कोवजुय ।
ते बे वि मरोप्पिणु तेत्थु धणि ।
कंचणसरितीरइ काणणइ ।
संजाया पुणु जुञ्जेवि मुय ।
जाया सेरिह णववयहु भरि । 5
तेत्थु जि पुरि कुररं पलद्धजय ।
अग्गइ जुञ्जेवि उज्जियकिवहं ।
भउ पेक्खालुअहं मि वज्जरमि ।
उत्तरसेदिदिहि कणयाइपुरि ।
सुय चंदविचंदतिलय सुहिय । 10

सिद्धकूडजिणमंदिरि ॥
णियजम्मंतरु पुच्छिउ ॥ ३ ॥

4

थिउ लंछणु धादइविडवि जहिं
सुरदिसि अइरावइ तिलयपुरि

रिसि अक्खइ धादइसंडि तहिं ।
पइ अभयघोसु सिरि तासु उरि ।

५ A चरणा चवल. ६ AP केम वि णोसरंति.

3 १ AP वणि. २ A °तंबकण्णंत गय. ३ A मय. ४ A उरय लद्धजय; P उरर पलद्ध-
जय; T कुररय मेपौ, K कुरर मेपौ, पलद्धजय प्रलब्धजयौ. ५ AP चूलिय हूया. ६ AP °सिहरिसिरि.
७ AP पिय. ८ A कुसुमलुद्ध°.

6 b चंचेलचंचु वक्कच्चुः. 7 a °परियत्तणहिं परिवर्तनैः; b पेहुण° पिच्छानि. 8 b सरय
कोपयुक्तौ. 11 a सुहावइ सुखास्पदे. 12 a सयडजीवि शकटजीविनौ; तिद्दावर तृष्णापरौ.

3 3 a °पुंडरीय व्याघ्रः. 4 a सियकण्ण श्वेतकर्णः; तंबकण्ण ताम्रकर्णः इति गजौ जातौ.
5 b सेरिह महिपौ. 6 b कुरर मेपौ. 8 b पेक्खालुअहं प्रेक्षकयोर्द्वयोर्विधाधरयोः. 9 a दीवाइदीवि
जम्बूद्वीपे; खगसिहरिवरि विजयार्थे. 10 चंदविचंदतिलय चन्द्रतिलकविचन्द्रतिलकौ.

जिह तिह गेहिणि कंचणतिलय
मथरद्धयबाणवरोल्लियहि
णामे जगि जाणिय जय विजय
विजाहरगिरिदाहिणइ तडि
तहिं संखु खयर तहु जय घरिणि
दिण्णी जयविजयजणेरयहु
संवच्छरंति कइयवणिलय
पभणइ सुवण्णतिलयहि तणउं
आवेहि जाहुं जोयहि णिवइ
मेरउं वणु जोव्वणु किं ण सुहुं

घत्ता—ताहि वयणु अवगण्णिवि
गउ महिवइ वणजत्तहि

णाचइ रइणाहहु रइविलय ।
जाया सुय वेणिण पियल्लियहि ।
णं कामदेव णिम्मयरधय । 5
मंदरपुरि सरसु णंडंतणडि ।
सुय पुहइतिलय सलिमुहि तरुणि ।
तहु अवर ण रुच्चइ तहि रयहु ।
णामेण विसारि चंदतिलय ।
वणु फुल्लिउं फलियउं घणघणउं । 10
ता चवइ सवत्ति विरुद्धमइ ।
जे जोयहि दूयहि तणउं मुहुं ।

पडिवक्खु जि बहु मण्णिवि ।
मलिवि माणु मृगणेत्तहि ॥ ४ ॥

5

साहीण काहि भत्तारदय
करपंकयलुहियभालतिलय
रिसिणाहहु संजमवयधरहु
अवल्लोइवि पंचमहच्चुयइ
अण्णउं मोहें ण विडंविउं
इंदियपडिवलु रणि णिज्जियउं
मुउ सव्भावें सम्मयणिरउ
सिसु तासुं वे वि तेत्थु जि अमर
दिवि मरिवि वे वि ते भाइवर
भुवि जाया गरुल्लवेयधणहि

सुमईगणिणिहि सा सरणु गय ।
तच्चरणि लग्ग पुहइतिलय ।
पहुणा किउ भोयणु दमवरहु ।
सुरकिंणरणायरायथुयइ ।
ससुएण वउ जि अवलंबियउं । 5
अरहंतेणामु तेणज्जियउं ।
हुउ अंतिमकप्पि पुरंदरउ ।
जाया अच्छरकरधुयचमर ।
तिलयंतिम चंद विचंद णर ।
जाउडयजडिलमंडियथणहि । 10

4 १ AP °बाणविरोल्लियहि. २ AP णं मयरधय. ३ AP मंदिरपुरि. ४ AP णंडंति णडि.
५ AP कइयवणिलय. ६ A फलियउं घणउं घणउं; P फलिउं घणघणउं. ७ A नृवइ. ८ A जं
जोयहि; P जं जायहि. ९ P मृगणेत्तहि.

5 AP अरहंतु. २ AP वे वि तासु. ३ P जाउडुय°.

4 ३ b रइ विलय रतिवनिता. 4 a °बा ण व रो ल्लि य हि बाणवरपंक्तेः. 5 b णि म्म य र ध य
कामदेवौ परंतु मकरध्वजरहितौ मस्तके. 8 a °जणेरयहु पितुरभयघोषस्य; b तहि रयहु तस्यां रतस्य.
9 a कइ य व णि ल य कपटगृहभूता; b वि सारि दूतिका. 11 b स व त्ति पृथ्वीतिलका. 12 b जे जो य हि
दूयहि तण उं मुहुं येन चन्द्रतिलकाया सुग्वं वनगमनार्थमवलोकयसि. 13 b प डि व क्खु काञ्चनतिलकाम्.

5 1 a सा ही णे त्या दि स्वाधीना न कस्या अपि भर्तृदया. 2 a °उ हियं मृष्टः स्फेटितः. ३ b
पहुणा अभयघोषेण. 5 b ससुएण पुत्राभ्यां सह. 7 सम्मयं जिनमतम्. 9 b तिलयंतिमचंद-
विचंदणर चन्द्रतिलकः विचन्द्रतिलकश्च. 10 b जाउडय° कुङ्कुमम्.

तं सुणिवि कुमारहिं वोह्लियउं
भणु अभयघोसु उप्पणु कहिं
जइ चवइ पुंडरिंकिणिपुरिहि

घत्ता — तणु मेह्लिवि तियसाहिउ
जो सक्के पणविज्जइ

मुणि जम्मंतरु उव्वेह्लियउं ।
पिउ वसइ जहिं जि गच्छामि तहिं ।
णंदणु घणमालिणिसुंदरिहि ।

जायउ तेलुक्काहिउ ॥

सो जिणु किं वणिज्जइ ॥ ५ ॥ 15

6

तहिं अच्छइ देउ सबंधुयणु
परिभमणणमणउट्टाणाणिहि
दिव्वासैं पइउ वज्जरिउं
गय बेणिण वि चिरजणणासयहु
तायत्तणु तहु ससुयत्तणउं
गुणवंतहु गुत्तिगुत्तमणहु
गय णिव्वाणहु खरतवतवण
भउ णिसुणिवि पक्खिहिं कंदियउं
किमिपिंडु ण भक्खिउ मरिवि गय
वंतरसुर जाया भूयकुलि
अण्णेक्कु भूयरमणंतवणि
तहिं जहिं अच्छइ सुउ घणरहहु

घत्ता — भणिउं तेहिं जडपक्खिहिं
तुज्जु पसाणं आयउं

जोयंतु कूडकुक्कुडयरंणु ।
चितंतु घोरसंसारविहि ।
तं सुणिवि खयरभायर तुरिउं ।
पयडेप्पिणु अग्गइ जणसयहु ।
कम्माणुबंधविणियत्तणउं । 5
वेउ लइउ णविवि गोवज्जणहु ।
ते चंदविचंदतिलय सवण ।
अप्पाणउं गरहिउं णिंदियउं ।
जिणवयणं दुक्कियवेह्लिहय ।
तहिं पक्कु देववणि गिरिगुहिलि । 10
भूयाहिच बेणिण वि पत्त खणि ।
संदरिसियविमलणाणपहहु ।

अम्हंहिं किमिउलभक्खिहिं ॥
दिव्वंभवंतरु जायउं ॥ ६ ॥

7

मेहरहदेव पइं दिणु सुहुं
मणुउत्तरमहिहरपरियरिउं
पणयाललक्खजोयणविउल्लु

आवहि विमाणि आरुहहि तुहुं ।
सरसरिकुलसिहरिअलंकरिउं ।
अवलोयहि मणुयखेत्तु सयलु ।

४ A गच्छामु; P गच्छमि. ५ AP तदलोक्का°.

6 १ A रयणु. १ AP वउ. ३ A दुक्खिय बेणिण हय; P दुक्खियवेह्लिहय. ४ AP सुउ अच्छइ. ५ A अम्हं. ६ AP दिव्वु.

7 १ AP विवाणि. २ P मणुसुत्तर°. ३ P परियरउं. ४ AP सरिसर°.

11 b उव्वे ह्लियउं प्रकटीकृतम्.

6 3 a दिव्वासैं दिव्वाससा. 4 a °जणणासयहु पितुग्गहम्. 7 b सवण अमणौ. 8 a भउ पूर्वभवम्. 10 b देववणि देवारण्ये.

7 2 a मणुउत्तरमहिहरपरियरिउं मानुषोत्तरगिरिवेष्टितं मनुष्यक्षेत्रम्.

उच्यारहु पडिउवयारु किह
दुलंधु सदेवहं दाणवहं
तां इच्छिवि कीलाभवणु मणि
णिर्यसहयरकिंकरगुरुसहिउ
णहि सुरहरि जंति विविहंपुरइं
घत्ता—एहु भरहु अवलोयहि
एह दिव्व गंगाणइ

तुह किजइ जसु जगि रिद्धिसिह ।
अहिवंदणिज्जु वरमाणवहं । 5
आरूढउ सुंदरु सुरभवणि ।
कुक्कुडदेविहिं भत्तिइ महिउ ।
दावति देव देसंतरइं ।
इहु हिमवंतु विवेयहि ॥
एह सिंधु मंथरगइ ॥ ७ ॥ 10

8

इहु दीसइ णिम्मलु पोमसरु
हइमवउ एहु पूरियदरिउ
तुहिणरि एहु गरुयउ अवरु
हिरिदेवि एत्थु णिष्णु जि वसइ
इहु एत्थु वहइ णामेण हरि
इहु मंदरु ए गयदंतगिरि
इहु णिसहु णाम महिहरु पवरु
दिहिदेवि एत्थु विरइयभवणं
पयाइं विदेहइं दोण्णि पिय
इहु णील्लिहि केसरि णाम दहु
इहु रम्मु एउ णइणारिवर
इहु रम्मिंधेराहरु पुंडरिउ
घत्ता—बुद्धिदेवि इहं अच्छइ
जिणवरसेवासिद्धउं

सिरिदेविसहिउ रंजियंभमरु ।
वररोहियरोहियाससरिउ ।
अण्णेकु महासयवत्तसरु ।
हरिवरिसु एउ सग्गु वि हसइ । 5
अण्णेकु पेक्खु हरिकंतसरि ।
इहु सुरंकरु उत्तरकरु ससरि ।
इहु जोवहि णिव तिगिंछिसरु ।
अच्छइ सुरंरायणिहत्तमण ।
सरि सीया सीओया वि गिय ।
इहु दीसइ कित्तीदेविसहु । 10
णरकंत एह पवहइ अवर ।
सरु एत्थु देव पाणियभरिउं ।
जगि माणउ जो पेच्छइ ॥
तेण णयणफलु लद्धउं ॥ ८ ॥

५ P तो. ६ AP णिउ सह्यरं. ७ A विविण्णुरइं. ८ K देसंतरइं.

8 Mss. read एहु and इहु promiscuously here. १ A रंजियं. २ A हइमवइ. ३ P रोहिणि रोहियासउ सरिउ. ४ A तुहिणयरि. ५ P reads this line after 8 b. ६ A सुरु करु. ७ A ससरि. ८ AP भवणु. ९ A सुयरायं. १० AP णिहित्तमणु. ११ A केसरु. १२ A ओ दीसइ; P पहु दीसइ. १३ A सुहु. १४ AP पहु, probably प is confounded with ए. १५ A रम्मि. १६ AP एह.

4 b रिद्धि सि ह ऋद्धिशिखा लक्ष्मीपरमप्रकर्षः. 6 a कीला भवणु क्रीडाभ्रमणम्. 7 b कुक्कुडदेवि हिं कुक्कुटचराभ्याम्. 9 b विवेयहि जानीहि.

8 2 a हइमवउ हैमवतगिरिः; b रोहियरोहियास रोहितरोहितास्ये नद्यौ. 3 a तुहिण- हरि महाहिमवान्; b महासयवत्तसरु महापद्महृदः. 5 a a हरि हरिन्नदी. 6 b ससरि नदीसहितौ. 8 b सुररायणि हत्तमण सौधमेन्द्रे आरोपितचित्ता. 10 a दहु हदः; b देविसहु देव्या सह.

9

णिव खेत्तु हिरण्वंतु णियहि
रुपयकूल वि इह एम गय
सो पट्टु सिहरिगिरि सिहरापिउ
लच्छीदेविहि रुच्चइ रमइ
रत्तारत्तोयसरिहिं सहिउं
फुल्लियतरुमालापरिमलइं
पिच्चंति कलमकयैलीहलइं
कच्छाइयाइं विसयंतरइं
दरिसंति अमर जोयंति णर

घत्ता—कंदरदरिकीलियसुर
अकयइं मणियरतंबेइं

सोवण्णकूलसरिजलु पियहि ।
जहिं कुच्चहिं सीहहिं हात्थि हय ।
सरु एत्थु महापुंडरिउ हिउ ।
ओहच्छइ इह वासरु गमइ ।
अइरावउ एउं खेत्तु कहिउं । 5
वरिसंति मेह धाराजलइं ।
णच्चंतमोरपिच्छुज्जलइं ।
खेमाइयाइं णयरइं वरइं ।
विमहइयहियय कंपवियकर ।

जोइवि णाणागिरिवर ॥ 10
वांदिवि जिणपडिदिवइं ॥ ९ ॥

10

णरखेत्तु गिरीसरिमालियउं
तहु उप्परि मणुयहं णत्थि गइ
पडिआया घणरहनृवणयरु
पुज्जिवि कुमारु गय तियस तहिं
संसारु असारु विवेइयउ
घणरहिण पुत्तु हकारियउ
लोयंतिणहिं उदीवियउं
जाणं माणिक्कविराइएण
गउ वंणि किउ देवें तवचरणु

घत्ता—भूगोयरखगरायहिं
णमिउ जिणिदु हयत्तिइ

मणुसुत्तरु जाम णिहालियउं ।
पल्लट्टु सविमहयभिण्णमइ ।
जयजयसदं पइसरिवि घरु ।
णंदणंवाणि णियणयरइं जहिं । 5
इंदियकंसइ पडिचोइयउ ।
मेहरहु राज्जि वइसारियउ ।
वेरग्गु तेणं णिरु भावियउं ।
णरखयरसुरिंदुच्चाइएण ।
उप्पायउ केवल्लु मलहरणु ।

चउविहदेवणिकायहिं ॥ 10
तणए जाइवि भत्तिइ ॥ १० ॥

9 १ A वरिसंत. २ A जलधाराइं. ३ A 'केली'. ४ AP णच्चंति. ५ P 'पिच्छुज्जलइं. ६ P दरिसंति य अमर'. ७ P विमहय'. ८ A दरकेलिय'.

10 १ A मणुउत्तर. २ AP सविभय'. ३ AP णिवणयर. ४ A पइसेवि; P पइसरवि.
५ A 'वणणिय'. ६ AP तेहिं. ७ A वणु. ८ AP णविउ.

9 3 a सि हरि गिरि शिखरी नाम पर्वतः; सि हर पि उ शिखरैः प्रियः. 4 b ओ हच्छइ एपा लक्ष्मीः तिष्ठति. 5 a रत्तारत्तोय' रक्ता रक्तोदा च. 7 a पि चंति पक्कानि भवन्ति. 8 a विसयंतरइं कच्छादिदेशाः. 11 a अकयइं अकृत्रिमाणि; मणियरतंबेइं रत्नकिरणताम्राणि.

10 1 a मालियउं 'मालायुक्तम्, सहितमित्यर्थः. 3 a घणरहनृवणयरु पुण्डरीकिणी. 5 b पडिचोइयउ पश्चाद्वलितः, पुनः प्रेरितो वा. 11 a हयत्तिइ हतपीडया भक्त्या.

11

अण्णहिं दिणि वणि तरुकोमलइ	पियमित्तइ समउं सिलायलइ ।
आसीणउ राणउ मेहरइ	जांवच्छइ ता ढकंतु णहु ।
विज्जाहरविज्जाचोइयउं	उप्परि विमाणु संप्राइयउं ।
तं ताहं ण वच्चइ पँउ वि किह	वायरणावियारणु जडहुं जिहं ।
आरुंउउ वड्ढियभमरिसउ	खेयरु अवलोयइ दसदिसउ ।
महियलि कीलंतु रत्तुं सुयणु	दिट्टउं उवविट्टउं णरमिहुणु ।
उत्थल्लिवि घल्लंमि एउ खलु	अणुहवउ विमाणणिरोहफलु ।
इय चित्तिवि कुट्टु अकारणइ	विज्जाइ पायालवियारणइ ।
तलि पइसिवि चालिय तेण सिल	डोल्लिउ वहुवरु थरहरिय इल ।
घत्ता—अरिवरु तणु व वियप्पिवि	सिल चरणयलें चप्पिवि ॥
मेहरहं पंडिपेल्लिय	तासु जि मत्थइ घल्लिय ॥ ११ ॥

12

संचलहुं ण सकइ सो खयरु	आकंदइ रवपूरियविवरु ।
तहु घरिणि भणइ उडरहि लहुं	दे देहि वप्प पइभिक्ख महुं ।
मा मारहि रमणु महुं तणउ	तुहुं देवै वइरिविहावणउ ।
तं णिसुणिवि करपल्लवि धरिवि	कट्टिउ कारुण्णे दय करिवि ।
पहु भणइ म मेल्लहि करुणसरु	लइ अम्मि तुहारउ एहु वरु ।
विहलुद्धारणि पसरियहरिस	पिसुणहं मि खमति महापुरिस ।
थिउ वीलावसु ओणल्लमुहु	णहंयलु अवलोइवि जायंहुहु ।
पियमित्तइ णाहु पपुच्छियउ	कहु तणउ पहु कहिं अच्छियउ ।
तं णिसुणिवि ओहिणाणयणु	अक्खइ णारवइ पहुल्लवयणु ।
घत्ता—धादइसंडपरावइ	तहिं संखउरि सुहावइ ॥
रामणुत्तु नृवु होंतउ	संखिणिरमणीरत्तउ ॥ १२ ॥

11 १ P ढकंतु. २ A विजाहरु. ३ AP विवाणु संप्राइयउं. ४ P वच्चइ उवरि किह. ५ A आरुडउ. ६ A चत्तसुयणु. ७ A घल्लिवि एहु; P घल्लिमि एउ. ८ AP विवाणु. ९ P विजाइ. १० A तेणुअइय सिल. ११ A अरिवर. १२ A पडिमेह्लिय.

12 १ A महुं तणउ. २ AP देउ. ३ P तं. ४ AP ओणुल्लमुहु. ५ AP णहयरु. ६ A जायसुहु. ७ AP महिवइ. ८ A पफुल्लवयणु; P पफुल्लवयणु. ९ AP णिउ.

11 2 b ढकंतु आच्छादयन्. 4 a पउ वि पदमपि; b वा यरण वियारणु व्याकरणविचारः. 8 b पायालवियारणइ पातालविदारिण्या. 9 b इल पृथ्वी. 10 a तणु व तृणमिव. 11 घल्लिय क्षिता.

12 2 b पइ भिक्ख पतिभिक्षा; पतिजीवितमित्यर्थः. 3 a महुं तणउ मदीयः. 6 a विहलुद्धारणि दुःखितजनोद्धरणे. 7 a वीलावसु लजापरः; ओणल्लमुहु अधोमुखः. 9 b पहुल्लवयणु प्रफुल्लवदनः.

13

रंजियसहूलणिरंतरइ
मुणि सव्वगुत्तु आसंघियउ
जिणगुणउववासै खविवि तणु
दिहिसेणहु दाणु पयच्छियउं
विरण्णिणु परमेट्ठिहि ण्हवणु
संणासै मुउ बंभेदु हुउ
सीहरहु एहु खयरहिबइ
इहु पुण्णवंतु जयलच्छियउ

घत्ता—अंगइं गेण्हैवि छंडिवि
दुल्लहभोयाकंखिणि

संखइरिगुहाकुहरंतरइ ।

दोहिं मि संसारु विलंघियउ ।
जिणचरणकमलि थिरुं करिवि मणु ।
पंचविहु वि चोच्चु णियच्छियउं ।
पणाविवि समाहिगुत्तु समणु । 5
कालेण णवर तेत्थाउ चुउ ।
देवहुं दुज्जउ तिहुवणविजइ ।
मइं जित्तउ तो किं मज्जु मउ ।

चिरु संसारि विहांडिवि ॥
जिणतवेण सा संखिणि ॥ १३ ॥ 10

14

गय सग्गहु पुणु वेय्यइधरि
विज्जाहरु इदकेउ वसइ
सुप्पह उप्पण्णी ताहं सुय
एयइ पिययमु ओलगियउ
णिसुणिवि भवि संसरियउं विउलि
घणरहजिणकमकमलउं मंहियउं
पियमित्तवेयगणणीकहिउ
थिय मयणवेयविरइइ किह
दक्खालइ लोयहुं णायवहु

घत्ता—णंदीसरि संपत्तइ
दंसणु णाणु समिच्छइ

दाहिणसेदिहि वसुमालपुरि ।
पिय मयणवेय तहु अत्थि सइ ।
ओहच्छइ बालमुणालभुय ।
भत्तारभिकख हउं मग्गियउ ।
सुउ थविवि सुवण्णतिलउ सउलि । 5
सीहरहं मुणिचरित्तु गंहियउं ।
संजमु जमु अवलंबिवि सहियउ ।
कइमइ दुक्करकहरीण जिह ।
तहिं रज्जु करइ सो मेहरहु ।

जिणु श्चायंतु सचिंत्तइ ॥ 10
उववासियु जायंच्छइ ॥ १४ ॥

13 १ A खवियतणु. २ AP संणिहिउ मणु. ३ A गिण्हइ. ४ A संसारु.

14 १ A वेय्यइधरि. २ A तामु. ३ P has तं before णिसुणिवि. ४ A भव संसरियउं;
P भवि संसरियउं. ५ AP कमजुयलउं. ६ P महियउं. ७ P गहियउं. ८ A ०गणिणी°. ९ A सइ-
त्तइ. १० A जा अच्छइ; P जामच्छइ.

13 2 a आसंघियउ आश्रितः. 3 a जिणगुणउववासै पञ्चकल्याणानां क्रमेण पञ्चोप-
वासाः । षोडशतीर्थकरत्वकारणानां षोडश । अष्टप्रातिहार्याणामष्टौ । चतुस्त्रिंशदतिशयानां चतुस्त्रिंशत् ।
आदावसाने च षष्ठाष्टमम्. 4 b णियच्छियउं दृष्टम्. 8 a षउ धवो भर्ता; b मउ मदो गर्वः.

14 4 a ओलगियउ सेवितः. 5 b सउलि स्वकुले. 7 b सहियउ स्वहितम्. 8 b कइ-
मइ दुक्करकहरीण जिह कविमतिर्यथा दुक्करकथाकथने श्रान्ता. 9 a णायवहु न्यायपथः. 11 b
जां वच्छइ यावत्तिष्ठति मेघरथः.

15

भवभावपवेवियसव्यतणु
तावेच्छु कवोउ पराइयउ
किर झ सि झडप्पिवि लेइ खलु
ता पक्खिण गारिं दे वारियउ
किं मारहि वारहि अप्पणउं
ता पुच्छइ दहरहु देव किह
पहु अक्खइ मंदरउत्तरइ
पुरि पउमिणिवेडइ मंदगइ
धणमिन्नु तासु वल्लहु तणुउ
मुइ वणिवरि भायर जायरइ
ते लुद्ध मुद्ध मुय बे वि जण

घत्ता—इहु मारइ इहु णासइ
णहि पंते हउं दिट्ठउ

चलंमरणुत्तासिउ सरणमणु ।
तहु पच्छइ गिद्धुं पराइयउ ।
णियवइरिहि लुंचिवि खाइ पलु ।
पइं एहु भवंतरि मारियउ ।
मा पावहि भवि दुहुं घणघणउं । 5
महुं कहहि कहाणउं वित्तु जिह ।
खेत्तंतरि सोक्खणिंरंतरइ ।
धेण सागरसेणहु अमियमइ ।
पुणु जायउ णंदिसेणु अणुउ ।
अवरोप्पर पंहणिवि धणहु कइ । 10
आया खग मारणदिण्णखण ।

भीयउ रक्ख गवेसइ ॥

मज्झु जि सरणु पइट्ठउ ॥ १५ ॥

16

अण्णोण्णु जि भक्खिवि जणु जियइ
इहु दीणु इहु णिरु भुक्खियउ
किं किज्जइ खगु दिज्जइ जइ वि
तहिं अवसरि कुंडलमउडधरु
जइ देसि ण तो गिद्धहु पलउ
चाइत्तणु तेरउ किं करइ
मइं चाउ करेवउ तेम तिह
वर अच्छउ णिग्गुणु लुहियतणु

ण णिहालइ णिवडंती णियइ ।
इय चिंतिवि राउ द्रवक्कियउ ।
णउ लब्भइ धम्मलाहु तइ वि ।
अंबरयलि थिउ भासइ अमरु ।
पलि दिण्णइ पागवयहु खउ । 5
तां विहसिवि महिवइ वज्जरइ ।
जिउ ण मरइ ण हवइ हिंस जिह ।
णउ ओर्याविज्जइ प्राणिगणु ।

15 १ AP चल. २ AP सेणु. ३ A झडेप्पिणु. ४ P भवि भवि दुहुं घणउं. ५ P वणि सागर. ६ A पहरिवि. ७ P ०दिण्णमण.

16 १ A एउ. २ A दुवक्कियउ; P दुवक्खियउ; T दुवक्खियउ पक्षद्रयः. ३ A हिज्जइ. ४ AP सेणहु. ५ A तो. ६ A उज्जाविज्जइ. ७ A पाणियणु; P पाणियणु.

15 1 a ०पवे विय ० प्रकम्पिता. 2 a कवोउ कपोतः. 4 a पक्खि गृध्रः. 8 b धण भार्या. 9 b अणुउ अनुजः. 10 a जायरइ जातरजसी जातकालुष्यौ; b धणहु कइ धनस्य कृते, धनार्थम्. 11 b ०दिण्णखण ०दत्तप्रस्तावौ. 12 b रक्ख रक्षणम्.

16 2 b द्रवक्कियउ भीतः. 5 a पलउ क्षयः; b पलि दिण्णइ मांसे दत्ते सति. 6 a चाइत्तणु त्यागित्वम्. 7 b जिउ जीवः. 8 b ओयाविज्जइ उपद्रवं प्राप्यते, मार्यते.

किं वग्नु भणिज्जइ पत्तु गुणि आहारु असुद्धु ण लेंति मुणि ।
 वत्ता—जेहिं णियागमि वुत्तउं आमिसु दिण्णउं भुत्तउं ॥ 10
 ते लहंति दुणिरिक्खइं भवि भवि विविहइं दुक्खइं ॥ १६ ॥

17

तं णिसुणिवि देवें संसियउ मेहरहु सियेण णमंसियउ ।
 गउ अमरु णिवाणुएण भणिउ कोऊहल्लु महुं हियवइ जणिउ ।
 को एहु किमत्थु समागमणु तां कहइ णराहिउ रिउदमणु ।
 पइं दमियारिहि रणि पाइयउ हेमरहु णाम णिउ घाइयउ ।
 भवि भमिवि सुइरु कहलासयडि वणि पण्णकंततीरिणिणियडि । 5
 वरसिरिदत्ताकंतावसहु सुउ जायउ सोम्महु तावसहु ।
 चंदाहु णाम प्रिउं पाण्णिउ पंचग्गिताउ तउ तेण किउ ।
 जोइसकुलि उप्पणउ अमरु गउ जहिं हरि अच्छइ कुलिसकरु ।
 ईसाणणामकप्पाहिवइ तहिं तियसहं णिसुणिवि वयणगइ ।
 महुं केरी चायसुभोयथुइ इहु आयउ कुद्धं अजायरुइ । 10
 आपं महु सीलु णिरिक्खियउ चित्तेण असेसु परिक्खियउ ।
 वत्ता—एउ वयणु णिसुणेप्पिणु पक्खें रोसु मुपप्पिणु ॥
 वंदिवि जिणवरसासणु कयउं बिहिं मि संणासणु ॥ १७ ॥

18

वेणिण वि सुरूवअइरुववर सुररमणवणंतरि जाय सुर ।
 णरणाहु तेहिं संमाणियउ पइं देवं धम्मु जगि जाणियउ ।
 पइं रउरवि णिविडमाण धरिय अम्हइं मि कुजोणिहि णीसरिय ।
 गय सुरवररापं दमवरहु कय भोज्जुत्ति संजमधरहु ।
 दुंदुहिरउ मणिकंचणवरिसु सुरजयसरु पाउसु कयहरिसु । 5

17 १ A तो. २ AP पण्णकंति°. ३ A सोमहु. ४ AP पिउ. ५ A कुलिसवरु. ६ A वायसुभोय°. ७ A कुद्धु व जायरुइ. ८ P णिसुणेविणु.

18 १ AP धम्मु देव.

17 2 a णिवाणुएण नृपानुजेन दृढरथेन. 4 a पइं त्वया अनन्तवीर्येण सता दमितारिनृपस्य भृत्यो हेमरथो मारितः; पाइयउ पदातिः. 5 b पण्णकंत° पर्णकान्ता नाम नदी. 6 a वरेत्यादि वरा श्रीदत्ता कान्ता तस्या वशस्य. 10 a चायसुभोयथुइ त्यागभोगस्तुतिः; b अजायरुइ अजातरुचिः.

18 1 a सुरूवअइरुवव° सुरूपातिरूपनामानौ; b सुररमणवणंतरि देवारण्ये. 5 b पाउसु गन्वोदकवृष्टिः.

मरु सुरहियंगु मंथरु वहइ
पुणु षंदीसरि पोसहु करिवि
ईसाणसुरिदे वणिणियउ
वणिणउ कहु केरउं चरिउ पइं

घत्ता—ते^३ णियगुज्झु ण रक्खिउ
मइं संथुउ परमेसरु

जणु जणहु दाणु विलसिउ कहइ ।
थिउ पडिमाजोपं जिणु सरिवि ।
अण्णहिं देवहिं आयणियउं ।
को तुज्झु वि गरुयउ देवै सइं ।

सुरवररापं अक्खिउ ॥
सिरिमेहरहु महीसरु ॥ १८ ॥

10

19

तं णिसुणिवि देवि सुरुविणिय
जहिं अच्छइ राउ समाहिरउ
दोहिं मि गाढउ आलिंगियउ
दोहिं मि सुमहुरु संभासियउ
णीवीणिबंधु आमेल्लियउ
दोहिं मि सवियारु पलोइयउ
अचलत्ते अहिणवमंदरहु
तं वेणिण मि वंदेप्पिणु गयउ
अण्णहिं दिणि सुर चवंति जुवइ
ता भासइ ईसाणाहिवइ

घत्ता—ता देवय माणि कंपइ
रूवे मण्णइ माणवि

अणेक्क दुक्क अइरुविणिय ।
तहिं ताहिं तासु दाविउ समउ ।
दोहिं मि मुहत्तुंबणु मग्गियउ ।
दोहिं मि आहरणाहिं भूसियउ ।
दोहिं मि थणकलसाहिं पेह्लियउ । 5
दोहिं मि उरुउप्परि ढोइयउ ।
जं हियउ ण हित्तउ सुंदरहु ।
वंदारयघरिणिय अविरेयउ ।
णरलोइ अत्थि किं रूवइ ।
पियमित्तहि केरी रूवगइ । 10

पुरहयउ किं जंपइ ॥
आगय रइ रइसेण वि ॥ १९ ॥

20

अहंसणीहिं सुरकामिणिहिं
अभंगिउ अंगु मणोहरउं
वेणिण वि पुणु दारि परिट्टियउ
अक्खिउ कण्णइ काट्टियहरइ

जोइवि अइरावयगामिणिहिं ।
उग्घाडउं तुंगपयोहरउं ।
देविउं दंसणउकंठियउ ।
अच्छंति तृयउं दारंतरइ ।

२ AP देउ. २ AP तं.

19 १ A समहुरु. २ AP पुरुहुअउ.

20 १ A सहंसणीहिं. २ P देविहिं. ३ AP तियउ.

6 b सुरहियंगु सुरमिताङ्गः; सुगन्धस्वरूप इति भाष्ये.

19 2 a समाहिरउ समाधिरतः; b दाविउ समउ अवसरो दर्शितः. 5 a णीवीणिबंधु कटीवल्लवन्धनम्. 6 b उरुउप्परि हृदयोपरि, वक्षसि. 8 b अविरेयउ अविरेते अव्रते द्वे. 11 b पुरहयउ देवेन्द्रः. 12 a माणवि मनुष्यस्त्री.

20 1 a अहंसणीहिं प्रच्छन्नाभ्याम्. 3 a दारि द्वारे.

किं खेयरीउ किं अच्छरउ
तं ष्हाइवि जणमणसाहणउं
सुरणारिउ पुणु पइसारियउ
अबलोइवि झीणु रूवविहयु
तेरउं सरूउ रूवहु ढलिउ

घत्ता—ता रइसुहि णिव्विणी
उम्मण दुम्मण थकी

तुह दंसणमणउ अमच्छरउ । 5
लहुं लइयउं ताइ पसाहणउं ।
माणवजणदूरोसारियउ ।
देवयहिं पवुत्तु ण किं पि धुवु ।
पुव्विल्लहि रेहहि परिगलिउ ।

सा पियमित्त विसण्णी ॥ 10
माणमरट्टे मुक्की ॥ २० ॥

21

तं पेक्खिवि गउ मणहरवणहु
चउपव्वपयारि अणासयहं
सावयअज्झयणु ण तं रइइ
विविहउ घरधम्मपवित्तियउ
दढरहिण ण रज्जु समिच्छियउ
सुउ मेहसेणु पच्छइ थविवि
सहुं भाइइ सहसा लइउ तउ
धीरहिं णिंदियइंदियसिवहिं

घत्ता—सिरिपुरि घरि सिरिसेणहु
अंतयपुरि णिव्वणंदहु

राणउ पणाविवि घणरहजिणहु ।
आउच्छइ वित्ति उवासयहं ।
सत्तमउ अंगु रिसिवइ कहइ ।
किरियाउ असेसउ उत्तियउ । 5
णीसारु दुगुं दुगुंछियउ ।
मेहरहिं जिणवरु विण्णविवि ।
बारहविहु सोसिउ विसमभउ ।
भयसमसहसहिं सह पत्थिवहिं ।

भुंजिवि दिणसुदाणहु ॥ 10
थाइवि अमराणंदहु ॥ २१ ॥

22

तहिं भत्तपाणगिद्धिइ रहिउ
पइसिवि वणंगिरिवरकंदरइ

इच्छिवि णिच्छियमत्तासहिउ ।
फणिविच्छियंघरि तरुकीडुरइ ।

४ A समच्छरउ. ५ A सुहणिव्विणी.

21 १ A हरइ. २ A विण्णविवि; P वेण्णविवि. ३ A विसमतउ. ४ A णिवदाणहु.

22 १ AP भत्तु पाणु. २ A वणे गिरि°. ३ A विच्छियतरुगिरि°. ४ AP कोडरइ.

5 b अमच्छरउ मत्सररहिते. 9 b रेहहि शोभायाः. 10 रइसुहि रतिमुखे.

21 2 a चउपव्वयारि चतुःपर्वप्रकारे; अणासयहं अनाशानामुपोषितानाम्, अथवा कर्मा-
भवरहितानाम्; b उवासयहं श्रावकाणाम्. 3 a-b सावयअज्झयणु सत्तमउ अंगु उपासकाध्ययनं
सत्तममङ्गम्. 4 a घरधम्मपवित्तियउ अणुव्रतगुणव्रतशिक्षाव्रतानि; b किरियाउ एकैकस्य व्रतस्य पञ्च
पञ्च भावनाः. 7 b विसमभउ संसारः. 8 a इंदियसिवइ इन्द्रियसौख्यानि. 10 a अंतयपुरि
दत्तपुरे इत्यार्षे; णिवणंदहु नन्दनराजशुहे.

22 1 a गिद्धिइ रहिउ आकांक्षारहितः; b णिच्छियमत्तासहिउ निश्चितमात्रासहितम्.
2 b विच्छियं वृश्चिकः.

णिण्णासइ सैस वि सो भयइं
दिदु बंभवेरु णवविहु धरिउ
दहभेउ विकालु वि लक्खियउ
बारह अणुपेक्खउ चितवइ
चउदहगुणठाणइं अब्भसइ
परिभाविवि सोलहकारणइं

घत्ता—सहुं बंधवेण अणिंदहु
दूसहाणिट्टाणिट्टिउ

मयच्चिधइं तहु अहु वि गयइं ।
दहविहु जिणधम्मु परिप्फुरिउ ।
पयारह अंगइं सिक्खियउ । 5
तेरहं चारित्तइं थिरु थवइ ।
पण्णारहविह पमाय पुसइ ।
तित्थयरत्तणहकारणइं ।

गउ णहतिलयगिरिंदहु ॥
तहिं अणसणिण परिट्टिउ ॥ २२ ॥ 10

23

हियउल्लउं मुणिमग्गेण णिउ
जइपुंगम घणरहरायसुय
सव्वत्थसिद्धिसुरैहरि धवल
तेत्तीससमुंइजीवियपवर
तइ वरिससहासइं लेति खणु
जगणाडिपलोयणणाणधर
ते णिप्पडियार पसण्णमइ
रिज्झंति धम्मसंभासणइं
केवलि उप्पण्णइ जिणवरहं
सहुं भायरेण अहमिंदु सुरु

घत्ता—गोत्तमेण जं अक्खिउ
जं सुहु सोत्तहिं माणइ

पाउंगमरणु मासंतु किउ ।
मय बेण्णि वि ते अहमिंदु हुय ।
करमेत्तदेह वरमुहकमल ।
तेत्तिय जि पक्ख णीसासधर ।
आहारु वि चित्तिउ सुहंमु अणु । 5
तेत्तियवीरियविकिरियकर ।
कत्थइ णउ ताहं विर्याररइ ।
कत्थइं मुयंति सीहासणइं ।
भुवि जाइजराजम्मणहरहं ।
जाणंतु तच्चु पणंमंतु गुरु । 10

जं भरहेसं लक्खिउ ॥
पुप्फयंतु तं जाणइ ॥ २३ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणप
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मेहरहत्तित्थयरगोत्तणिबंधणं
णाम दुसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६२ ॥

५ AP सो सत्त वि भयइं. ६ AP अणुवेक्खउ. ७ P तेरह वि चरित्तइं थिरु धरइ.

23 १ A पाउवगमणु. २ AP मुय. ३ A ^०हरधवल. ४ AP ^०जलहिं. ५ A सुहुमु.
६ AP विहारइ. ७ A कत्थइ ण मुयंति. ८ A पणवंतगुरु.

3 b मय च्चि धइं मदस्य लक्षणानि. 5 a दहभेउ विकालु दशवैकालिकं यतीनामाचारशेषनिरूपकम्.

23 2 a घणरहरायसुय तीर्थकरपुत्री. 3 a धवल उज्ज्वलशरीरौ; b करमेत्तदेह एक-
हस्तमात्रशरीरौ. 5 a तइ तावन्मात्रम्. 6 b तेत्तिय^० जगन्नाडीपर्यन्तम्. 8 a रिज्झंति ऋद्धिं गच्छन्ति.
12 a सोत्तहिं कर्णाभ्याम्.

छम्मासहं आउससेसहं थियहं जाम अहमिंदहु ॥
ता रम्मइ तहिं सोहम्मइ जाय चिंत तियसिंदहु ॥ धुवकं ॥

1

जिणवरण्हवण्हवियगिरिमंदरु
कुंजरकरताडियसीयलजलि
णवखरदंडसंडमंडियसरि
सीमारौमगामरमणीयइ
गंधसालिकेणसुरहियपरिमलि
दिब्बुज्जाणविडविणिवडियफलि
हत्थिणयरु तहिं मंडलि छज्जइ
सगं सरिसउ अप्पउ मण्णइ
अजियसेणु तहिं पडु पियवाइणि
बंधकप्पचुउ वइरिविमइणु
सुणि गंधारदेसि गंधारइ
तहिं णरणाहु णाम अजियंजउ

धणयहु अक्खइ देउ पुरंदरु ।
सिसिरकिरणविलसियणीलुप्पलि ।
दसादिसु गुमुगुमंतमयमहुयरि । 5
दीणाणाहदिण्णतवणीयइ ।
कीरकुररकलहंसीकलयलि ।
जंबूदीवि भरहिं कुरुजंगलि ।
तूरहं सहं णं गलगज्जइ ।
घरसिहरहिं हरइ व तिजगुण्णइ । 10
तहु पियदंसण णामं पणइणि ।
वीससेणु उप्पण्णउ गंदणु ।
पुरि पंडुरघरि पुहईसारइ ।
अजियदेविवल्लहु परदुज्जउ ।

घत्ता—तें रापं सुहिअणुरापं णिरु भल्लारउं भाविउं ॥

15

अइरा सुय णवकिसलयभुय वीससेणु परिणाविउ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

बन्धः सौजन्यवार्धेः कविरखलधिषणाध्वान्तविध्वंसभानुः
प्रौढालंकारसारामलतनुविभवा भारती यस्य नित्यम् ।
वक्त्राभोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति
प्रोद्यद्गभीरभावा स जयति भरते धार्मिके पुष्पदन्तः ॥ १ ॥

AP read बन्धुः in the first line for बन्धः, but K has a gloss सेतुः on it. P reads °भावः for °भावा in the third line.

1 १ AP °वियसिय°. २ A सीमागामराम°. ३ AP °कणपसरियपरिमलि.

1 4 b सि सिरकिरणविलसिय° चन्द्रविकसितानि. 5 a णवखरदंड° नवपद्मानि;
b मयमहुयरि °मदोन्मत्तमधुकरे. 9 a मंडलि देशे; छज्जइ शोभते. 11 a पियवाइणि प्रियवादिनी;
b पियदंसण प्रियदर्शनानाम्नी. 12 b वीससेणु विश्वसेनः. 15 तें रापं तेन राशा अजितसेनेन.
16 अइरा इति नाम; णवकिसलयभुय कोमलभुजा.

2

एयहं होसइ धुवु तित्थंकरु
 धणय धणय लइ तेरउ अवसरु
 तं णिसुणिवि ते कमलदलक्खे
 हरियउं मरगयतोरणमालहिं
 कोमलगत्तइ मउलियणेत्तइ
 णिद्दपंतिइ पुण्णपवित्तिइ
 परादेविइ दिट्टउ कुंजरु
 सिरि दामाइं दोणिण विलुलंतइं
 कुंभजुयलु झसजुयलउं कीलिरु
 सीहासणु विमाणु अमराणउं
 रयणरासि सत्तच्चि वि जोइउ
 गय सुंदरि सुविहाणइ तेत्तइ

सोलहमउ कंदप्पखयंकरु ।
 करि पुरु मणियरहयदिवसेसरु ।
 कंचणपट्टणु णिम्मिउ जक्खे ।
 जलइ व पउमरायकरजालहिं ।
 सउहयलइ पल्लं कपसुत्तइ । 5
 पच्छिमरत्तिइ गुणगणजुत्तिइ ।
 पसुवइ केसरि खरणहपंजरु ।
 ससिरविबिबइं णहि उयंयंतइं ।
 सरवरु जलहि जलावलिवालिरु ।
 भवणु फणिंदहु तणउं पहाणउं । 10
 मुहु धोइवि दप्पणु अवलोइउ ।
 थिउ अत्थाणि णराहिउ जेत्तहि ।

घत्ता—सिविणंतरु णिहिलु णिरंतरु कंतइ कंतहु ईरिउं ॥

अवहीसें तेण महीसें तं फलु ताहि वियारिउं ॥ २ ॥

3

नुज्जु उयरि तेलोक्कपियारउ
 रायंगणि लोपहिं वि दिट्टउं
 हिरि सिरि बुद्धि कंति कित्ती सइ
 भइवयहु भयसंखावासरि
 जणणिहि मुहि पइट्टु गयवेसें
 मेहरहेण तेण अहमिंदे
 आय देव सयल वि पंजलियर
 णवमासइं णिहितु चामीयरु
 पल्लुअत्थि भाइ तइयंसें

होसइ सिरिअरहंतु भडारउ ।
 जा छम्मा सताम वसु बुट्टुउं ।
 आगय घरु जिणगुणरंजियमइ ।
 भरणिरिक्खि णिसिपरपहरंतरि ।
 किउ गम्भावायारु परमेसें । 5
 पुण्णपवणकंपावियइंदे ।
 पुज्जिय सयण असेस वि सपियर ।
 धणणं किउ पट्टुपंगणु पिंजरु ।
 ऊणि तिसायरि गलियजमंसें ।

2 १ A तोरणदारहिं. २ P पल्लंकि पसुत्तइ. ३ AP अहरादेविइ. ४ A उवयंतइ. ५ P अमरालउ. ६ A सत्तच्चिय.

3 १ A चउत्थभाय^०. २ A ऊणतिसायर^०.

2 1 a एयहं विश्वसेनैरयोः. 2 b मणियरहयदिवसेसरु मणिकरणेस्तिरस्कृतादित्यम्. 4 b जलइ ज्वलति. 7 b पसुवइ वृषभः. 8 b उयंयंतइं उदयं प्राप्ते. 11 a सत्तच्चि सत्ताचिरिग्निः. 14 वियारिउं विवेचितम्.

3 4 a भयसंखावासरि सप्तम्याम्; b^०परपहरंतरि पश्चिमप्रहरे. 9 b गलियजमंसें गलितः संयमलेशो यस्मिस्तत्र.

धम्ममहामुणिदेवजिणंतरि चित्तौजुत्तमासपक्खंतरि । 10
 कालइ दिणि चउदहमइ जायइ जामइ जोइ सुहंकरि आयइ ।
 पच्छिमसंझहि जणियउ मायइ जिणु रेहइ णाणत्तयछायइ ।
 घत्ता—परावइ चडिवि सुरावइ सहसा पत्तु पुरंदरु ॥
 सहं देवहिं णाणारूवहिं अरुहु लेवि गउ मंदरु ॥ ३ ॥

4

इंदचंदखयरिंदफणिदहिं णहाणित तहिं वंदारयवंदहिं ।
 पुज्जित कुंदकुडयकणियारहिं वउलतिलयचंपयमंदारहिं ।
 जणसंतीयरु संति भणेप्पिणु तं गुरु सुरगिरिसिहरु मुएप्पिणु ।
 आणिवि भवणहु अप्पित जणणिहि जिणवरसुरतरुसंभवधराणिहि ।
 हरि घरि पायंडणहु व पणञ्चिउ तेण ण को को किर रोमंचिउ । 5
 गउ सम्गहु पणविवि सकंदणु कालं जाउ णाहु णवजोव्वणु ।
 कणयवणु णं बालपयंगउ दह दह तह दह दह धणुतुंगउ ।
 लक्खवरिसपरमाउ महामहु दढरहु णाम अवरुहसयमहु ।
 वीससेणराएण रवणणउ जसवइदेविहि सो उप्पणणउ ।
 णामे चक्काउहु पियतणुरुहु छणसत्तावीसंजोयणमुहु । 10
 घत्ता—ते भायर चंददिवायरणिह परिणाविय तापं ॥
 णिविकणणउ बहुलायणणउ जयजयपडहणिणापं ॥ ४ ॥

5

पंचवीसवरवरिससहासइ वोलीणइं कुमरत्ति पयासइं ।
 जेट्टहु अप्पिय धराणि णारिंदे अप्पणु बद्धउ पट्टु सुरिंदे ।

३ A जिट्ठा° but gloss चैत्रः; T चित्तजुत्तमास° चैत्रः.

4 इ °खयरिंदसुरिंदहिं. २ AP पायडु णडु व. ३ AP दह तह दह. ४ ΔP लक्खु वरिसु परमाउ. ५ A अवरु अहसयमहु. ६ A नृव°.

10 b चित्तजुत्तमासपक्खंतरि ज्येष्ठवदि चतुर्दश्याम्; सर्वो वैशाखः अर्धक्षेत्रः तदन्तरे ज्येष्ठकृष्णे इत्यर्थः. 11 b जामइ जोइ भरणोन्क्षत्रे. 12 a पच्छिमसंझहि. निशात्यये इत्यापे. 13 सुरावइ शोभनशब्दे.

4 3 a जणसंतीयरु जनानां शान्तिकर्ता. 5 a हरि इन्द्रः; पायडणडु व सामान्यनटवत्. 7 b दहेत्यादि चत्वारिंशद्भूर्णि तुङ्गत्वेन. 8 b अवरुहसयमहु अपरः अहमिन्द्रः; इन्द्रसदृश इत्यर्थः. 10 a चक्काउहु चक्रायुधः; b छणसत्तावीसंजोयणमुहु सत्तावीसंजोयणश्चन्द्रः कथ्यते, पूर्णचन्द्रमुख इत्यर्थः.

रञ्जु करंतहु देंतहु णियधणु
जइयहुं तइयहुं पुण्णविसेसं
चक्कु छत्तु असि पहरणसालहि
कागणि मणि उप्पण्णइं सिरिहरि
कण्णा गय तुरंग खगभूहरि
छक्खंड वि महिवीदु पसाहिवि
पणवीसदसहस महि पालिवि

यत्ता— णिव्वेइउ णाहु पंसाइउ लोयंतिपहिं पवोहिउ ॥

अवमत्तउ इंदे सित्तउ रयणाहरणहिं सोहिउ ॥ ५ ॥

गलिय समासहास तेत्तिय पुणु ।
आयइं दिट्ठइं तेण णरेसें ।
संभूयउं दंड वि सुविसालहि । 5
थवइ पुरोहु चमूवइ गयउरि ।
णवणिहि जलणिहिणइसंगमघरि ।
वितर सुर विजाहर साहिवि ।
दप्पणयलि णियवयणु णिहालिवि ।

10

6

थिउ सव्वत्थसिद्धि सिवियासणि
सिलहि णिसण्णे उत्तरवयणे
जेट्ठहु मासहु सतिमिरपक्खइ
अवरण्हइ णिक्खवणु करंते
उप्पाइउ मणपज्जउ देवे
जो धम्मिल्लभारु आलुंविउ
घल्लिउ णवर खीरमयरालइ
संजमु णिवसहसें पडिवण्णउ
गउ मंदरपुरु जिणु तवताविउ
महि विहरंतु मुणियसत्थत्थउ
संतु दंतु भयवंतु सरिसिगणु

यत्ता— णववत्तहु णंदावत्तहु तरुहि मूलि आसीणउ ॥

खंचियदुहु सुरदिसिसंमुहु रिउमित्ते वि समाणउ ॥ ६ ॥

जाइवि तहि लहु सहसंबयवणि ।
कयपलियंके दीहरणयणे ।
दिवसि चउदसि भरणीरिक्खइ ।
छट्ठववासिपण गुणवंते ।
किं ण होइ भणु संजमभावे । 5
सो सुरणहे कुसुमे अंविउ ।
चक्काउहुपमुहहिं तकालइ ।
वीयइ वासरि समसंपण्णउ ।
पियमित्ते रापं पाराविउ ।
सोलह वरिसइ थिउ छम्मत्थउ । 10
पुणु आयउ तं सहसंबयवणु ।

5

10

7

पूसहु मासहु
दहमदिणंतरि

सोकखणिवासहु ।
सियपक्खंतरि ।

5 १ A असि पहरणु सालहि; P असि चम्मु वि सालहि. २ P गेहवइ दंडु वि. ३ AP संगमहरि. ४ A छक्खंडु. ५ AP पयासिउ.

6 १ A जिणतवताविउ. २ A विरहंतु. ३ AP णवपत्तहु. ४ A सुरदिसिमुहु.

7 १ A ०दियंतरि.

5 3 b तेत्तिय पञ्चविंशतिवर्षसहस्राणि. 6 b गयउरि हस्तिनागपुरे. 7 b जलणि हि णइसंगमघरि गङ्गासागरसंगमस्थाने. 10 पसाइउ प्रसत्ति नीतः प्रसन्नीकृतः. 11 अवमत्तउ अप्रमत्तः त्यक्तपरिग्रहो वा.

6 2 a उत्तरवयणे उत्तरामिमुखेन. 3 a सतिमिरपक्खइ कृष्णपक्षे. 7 a खीरमयरालइ क्षीरसमुद्रे. 10 a मुणियसत्थत्थउ ज्ञानशास्त्रार्थः. 12 णववत्तहु नवीनपत्रस्य. 13 सुरदिसिसंमुहु पूर्वाभिमुखः.

छद्दुववासैं	वियलियपासैं ।	
दरसंज्ञालइ	जाइ वियालइ ।	
कम्मं णिवाइउ	खणि उप्पाइउ ।	5
केवलदंसणु	दोसविहंसणु ।	
धुवँ सिवमाणणु	केवलजाणणु ।	
कयंमयविलपं	कुरुकुलतिलपं ।	
कासवगोत्तैं	सुयसुइसोत्तैं ।	
पत्तउं कित्तणु	सिरिअरुहत्तणु ।	10
दहविह वसुविह	अवर वि वयविह ।	
सुर सोलहविह	भूसणयरसिह ।	
गुणगणवत्तं	पंकयणत्तं ।	
अहरापुत्तं	खमदमजुत्तं ।	
खाइयंभावं	संतिं देवं ^{११} ।	15
ते ^{१२} वंदंते	सुहुं ज्ञायंते ।	
पंजलिहत्था	पणवियमत्था ।	
भत्तिरसाला	विलुलियमाला ।	

घत्ता—मउ वज्जइ गँइ पडिवज्जइ पंचिंदियइं वि दंडइ ॥

पइं होंतैं मग्गु दिसंतैं जणु संसारि ण हिंडइ ॥ ७ ॥ 20

8

नओ कोसिएणं	जसेणं सिएणं ।	
कयं मुक्कंडंभं	महामाणखंभं ।	
महाधम्मलंभं	महापंकयंभं ।	
महाखाइयालं	महापुष्फमालं ।	
महाधूलिसालं	महाणइसालं ।	5

२ AP जायवियालइ. ३ A कम्मणिवाइउ. ४ A धुउ; P धुव. ५ AP कयमलविलपं. ६ AP गणवत्तं; AP add after this: ससहरवत्तं. ७ AP ०णेतै. ८ AP ०पुत्तै. ९ A omits खमदमजुत्तं; P adds: दोसविचत्तं. १० AP ०भावं. ११ AP देवं. १२ A तं वंदंति; P तैं वंदंतैं. १३ A मुहुं ज्ञायंतैं; P सुहुं ज्ञायंतैं. १४ A मइ.

8 १AP मुक्कदंभं.

7 4 b वियालइ संध्यायाम्. 5 a णिवाइउ निपातितम्. 7 b केवलजाणणु केवल-
ज्ञानम्. 9 b सुयसुइसोत्तैं श्रुतस्य शुचिः प्रवाहो यस्मात्. 10 a कित्तणु कीर्त्यते श्लाघ्यते इन्द्रादिभि-
रिति कीर्तनम्. 12 b भूसणयरसिह भूषणकिरणशिलाः 13 a गुणगणवत्तं गुणगणपात्रम्.
19 मउ मदः; गइ मुक्तिः.

8 1 b सिएणं श्वेतैः.

महासाहिवंतं	महाकेउकंतं ।	
महावेइयम्मं	महाथूहहम्मं ।	
महादेवछण्णं	महासाहुपुण्णं ।	
महारिद्धिरूढं	महासीहंपीढं ।	
महासोय्यरत्तं	महासेयछत्तं ।	10
महाचामरिल्लं	महादुंदुहिल्लं ।	
महापुप्फवासं	महादिव्वभासं ।	
महादित्तिवंतं	महंतं पवित्तं ।	

घत्ता — पडिहारहिं णायकुमारहिं सेविज्जंतुं दयावरु ॥
गंभीरहिं हयजयत्तरहिं समवसरणु गउ जिणवरु ॥ ८ ॥ 15

9

अक्खइ धम्मु कम्मु ओम्मारइ	सत्त वि तच्चइं जणहु वियारइ ।	
अट्टंह धरणिहिं माणु पयासइ	सग्गविमाणहं पंतिउ भासइ ।	
पायालंतरि भवणसहासइं	चलणिच्चलइं मि जोइसवासइं ।	
जीवकम्मपोग्गलपरिणामइं	कहइ भंडारउ णाणाणामइं ।	
चक्काउहपट्टइ तहु गणहर	जाय छत्तीस विं जणमणहर ।	5
अट्टसयइं पुव्वंगवियाणहं	रिसिहिं कट्टतणकणयसमाणहं ।	
पक्कतालसहसइं वसुसमसय	सिक्खंसुदिक्खसिक्खपारंगय ।	
सहसइं तिण्णिण अवहिणाणालहं	चउ केवलिहिं पि हियतमज्जालहं ।	
विक्किरियावंतं छह भणियइं	मणपज्जवधराहं चउ गणियइं ।	
वाइहिं दोसहसाइं णिरुत्तइं	सयचउक्कु अगलउ पउत्तइं ।	10

घत्ता—हिरिसेणहि वर्यविहिखीणहि पायपोमथुइरायइं ॥
णरमहियइं तिसंयहि सहियइं सट्टिसहासइं जायइं ॥ ९ ॥

२ A 'थूलहम्मं. ३ AP सीहवीढं. ४ AP महासोयवंतं. ५ A महादित्तिदित्तं; P महादित्तिदित्तं.
६ A समवसरणगउ.

9 १ A अट्टमिधरणिहि; २ AP विमाणहं. ३ A परिमाणहं. ४ P जि. ५ A सिक्खयदिक्ख-
सिक्ख°. ६ A केवलिहिं पद्यतम°; P केवलिहिं मि हयतम°. ७ A वत्तहं. ८ AP विहिल्लीणहि.
९ P तिसइं सहियइं.

6 a साहिवंतं °वृक्षयुक्तम्. 7 a महावेइयम्मं महावेदिकर्मरचनायुक्तम्. 13 a महादित्तिवंतं
भामण्डलयुक्तम्.

9 1 b वियारइ विचारयति.

10

झाणमोणणियमियणियमइयउ
लक्खइं दुइ सावयहं सलग्घहं
अरुहदासिपमुहाहं सुइत्तइं
देव असंख संख मृगंकुलरुह
पंचवीससहसइं वोलीणइं
हिंडिवि महियलि धम्मु कहेप्पिणु
गिरिसंमेयारुहणु करेप्पिणु
जेट्टुचउहसिवासरि कौलइ
गउ जगसिहरहु संति भडारउ
सहुं चक्काउहेण तर्वरिद्धइं

पत्तियाउ भणियउ संजइयउ ।
सुरकित्तीपमुहहं णिव्विग्घहं ।
सावईहिं चउलक्खइं वुत्तइं ।
पक्कदुखुर गयवय जाया बुह ।
वरिसहं सोलहवरिसविहीणइं । 5
मासमेत्तु जीविउ जाणेप्पिणु ।
चरमसुक्क दियहेहिं धरेप्पिणु ।
भरणिरिक्खि धरणीमुहि विमलइ ।
देउ समाहि बोहि भवहारउ ।
णवसैहसइं रिसिणाहहं सिद्धइं । 10

घत्ता—सुविलेवणु घल्लिवि कुसुमइं मेल्लिवि पणविउ तहिं अग्गिदहिं ॥
मणि ईहिय सिद्धणिसीहिय णविय भरेण सुरिंदहिं ॥ १० ॥

11

नृबु सिरिसेणु पुणु वि जो कुरुणरु
वज्जाउहु सुरवइ घणसंदणु
वरिसउ मज्झु सयलु सयलायरु
देवि अण्णिदिय कुरुणरु माणउ
अमयासउ अणंतवीरिउ हरि
मेहणाउ पडिहरि सहसाउहु
पुणु सव्वत्थसिद्धि परमेसरु
संति भंति विहुणेवि महारी

देउ खयरु सुरु हलि पवरामरु ।
सव्वत्थाहिवु अइरहि णंदणु ।
होउ पडंतहु लहु लग्गणतरु ।
सुरु सिरिविजउं महीयलराणउ ।
णारउ जोइयवइतरणीसरि । 5
कप्पणाहु दढरहु पहासियमुहु ।
चक्काउहु सुहुं देउ रिसीसरु ।
करउ कसायसंति गरुयारी ।

घत्ता—भरहेसरु जियसरु मुणिपवरु जहिं गउ जिण तुहुं तेत्तहि ॥

मइं पावहि सिद्धालयमहि पुष्पयंतरुइ जेत्तहि ॥ ११ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिय
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे संतिणाहणिव्वाणगमणं
णाम तिसट्ठिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६३ ॥

10 १ P सलग्घइं. २ P णिव्विग्घइं. ३ A सुवत्तइं. ४ AP मिग^०. ५ A बहलइ. ६ AP गुणरिद्धइं. ७ A णवसयाइं. ८ AP कालायरु घल्लिवि सुरतरु दिण (णण ?) अग्गि अग्गिदहिं.

11 १ AP णिउ. २ A विजाउहु. ३ P कुस्तणुमाणउ. ४ AP सिरिविजउ महीयलि. ५ AP पुष्पदंत^०.

10 1 a ^०णि य मि य णि य म इ य उ ^०नियमिता बद्धा निजमतिर्याभिः. 3 a सु इ त्त इ सुचित्तानि. 4 b ग य व य गजपदा ज्ञानव्रता वा. 9 b दे उ ददातु.

11 2 a घ ण सं द णु मेघरथः 6 a प डि ह रि अच्युते प्रतीन्द्रः; b कप्पणाहु इन्द्रः. 9 जिय सरु जितस्मरः. 10 पुष्पयंतरुइ चन्द्रादित्यसदृशी दीतिर्यत्र.

जिणगिरिपवरहु णीसरिय बारहंगपाणियसरि ॥
पुव्वमहण्णवगामिणिय पणवेप्पिणु वाईसरि ॥ धुवकं ॥

1

जो भुवणि भणिउ छट्टउ गिराउ
जो इंदियकूराहिहिं विराउ
जो ण मरइ ण हवइ कालएण
घणमणतिमिरें अलिकालएण
जो णग्गु णिरंजणु लुक्कवालु
जे बुत्तु अहिंसावित्तिसुत्तु
जो दांसियसासयपरममोक्खु
जो तित्तरडहणु जियकामदेउ
जे रक्खिउ सण्हु वि जीउ कुंथु
पुणु कहमि कहंतरु दिव्वु तासु

जो हियवएण णिञ्जु जि गिराउ ।
जो सत्तारहमउ जिणु विराउ ।
जो को जाणिज्जइ कालएण । 5
ण समंकिउ जो कंकालएण ।
जो ण करइ करि कत्तियेक्कवालु ।
जो गणिवि णे याणइ अक्खसुत्तु ।
णउ करइ पिणाएं कंडमोक्खु ।
पहु परमप्पउ देवाहिदेउ । 10
सो वंदिवि रिसिपरमेट्टि कुंथु ।
दालिइदुक्खदोहग्गणासु ।

घत्ता—एत्थु जि जंबूदीववरि पुव्वविदेहि महाणइ ॥

णामे सीय सलक्खणिय तं को वण्णहुं जाणइ ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

आखण्डोडुमरारवोडुमरुकं (?) चण्डीशमाश्रित्य यः
कुर्वन्काममकाण्डताण्डवविधिं डिण्डीरपिण्डच्छविम् ।
हंसाडम्बरमुण्डमण्डलसद्भागीरथीनायकं
वाञ्छन्नित्थमहं कुन्हलवर्ता खण्डस्य कीर्तिः कृतेः ॥ १ ॥

P reads °डमरारुचण्डमरुकं; P reads चण्डीसमासत्य; K reads चण्डीसमासत्य. P reads कुर्वन्काम°; A reads कुर्वन्कीड°; P reads °छवेः. A reads डिण्डमण्डल°. P reads कृते. K has a marginal gloss on the stanza: अखण्ड एव आखण्डः, उडुमरो भयानकः; आख-शब्दः तेन युक्तं उडुमरुकं वाद्यं यस्य हरस्य तम् । अ काण्ड° अप्रस्तावेन । रुद्रमाश्रित्य या कीर्तिर्वर्तते इत्य-ध्याहार्यम् । रुद्रादप्यहं अतिशयेन निर्मला इति भावार्थः । कृतेः काव्यस्य. The stanza, all the same, is not clear.

1 १ A जो जाणिजइ इह कालएण. २ A अहकालएण. ३ A चमंकिउ. ४ A लुक्कवालु. ५ AP कत्तियकरालु. ६ A omits this foot. ७ P ण जाणइ. ८ P जंबूदीवि वरि.

1 1 a °सरि नदी. 3 a णिराउ चक्रवर्ती; b णिराउ निर्गतरागः. 4 a विराउ पक्षिराजो गरुडः; b विराउ विशिष्टः शब्दः. 5 b को ब्रह्मा परमज्ञानम्. 6 a °मणतिमिरें ज्ञानदर्शनावरणेन; अलिकालएण भ्रमरवत्कृष्णेन; b समंकिउ चिह्नितः; कंकालएण मृगकलेवरेण. 8 b अक्खसुत्तु जपमालाम्. 9 b कंडमोक्खु बाणमोक्षम्. 11 a सण्हु सूक्ष्मः.

2

तहि दाहिणतीरइ वच्छेदेसि
सोहिल्लसुसीमाणयरि रम्मि
सीहरहु सीहविक्रमु महंतु
अणुहुंजिवि भोउं सुदीहकालु
णिवंडंत णिहालिय तेण उक्क
जइवसहहु पासि हयत्तिएहिं
पयारहंगधरु सीलवंतु
तिणिं कणि सच्चित्ति णउ चरणु देइ
बंधिवि तित्थंकरणामकम्म
पत्तउ पंचाणुत्तरविमाणु
छम्मास परिट्टिउ आउ जाम

डिंडीरपिंडपंडुराणिवासि ।
अणवरयमहारिसिकहियधम्मि ।
णरवइ णियारिकुलबलकयंतु ।
जोयंतं कहिं मि णहंतरालु ।
संसारिणि रइ णीसेस मुक्क । 5
पावइयउ सहुं बहुखत्तिएहिं ।
वणि णिवसइ रुक्खु व अणलवंतु ।
वयविहिअजोग्गु दिण्णु वि ण लेइ ।
मउ उवरिमिहु ससिच्चिसोम्मु ।
भुंजिवि तेत्तीसजलणिहिपमाणु । 10
वइसवणहु कहइ सुरिंदु ताम ।

घत्ता — दीवि पहिल्लइ पविउलइ भरहि देसु कुरुजंगलु ॥

गयउरि महिवइ तहिं वसइ सूरसेणु जगमंगलु ॥ २ ॥

3

कुरुकुरुहुं सिरिजयसिरिणिकेउ
सिरिकंत कंत कमणीयरूय
णरणाहहु सा वल्लहिय केव
एयहुं दोहं मि होही ण भंति
करि पुरवरु घरं णंदणवणात्तु
तं णिसुणिवि धणणं तं विचित्तु
पवणुद्धेयपहकप्परपंसु
पासायचूलियालिहियमेहु

कासवगोत्तं भूसिउ सुंतेउ ।
सुरखयरणियंविणितिलयभूय ।
सुवियद्धु वरकइवाणि जेव ।
जिणु कुंथु णाम केवलि कहांति ।
पुज्जिजइ भत्तिइ सामिसालु । 5
किउ णयरु कणयमाणिकुदित्तु ।
सरंसरिनीरंतररामियहंसु ।
गयणुंगयसुरहियधूमरेहु ।

घत्ता — सुहुं सुत्ती रयणिहि सयणि बालहंसगंयगामिणि ॥

पच्छिमजामइ सोलह वि पेच्छइ सिच्चिणय सामिणि ॥ ३ ॥

2 १ A भोय. २ AP णिवडंति. ३ A तणे. ४ A दिण्णउ ण लेइ. ५ AP जयमंगलु.

3 ३ A °कुलरुहजयसिरिसिरी°. २ A सुकेउ. ३ AP णरणाहहु तहु वल्लहिय. ४ AP घर.
५ A पवणुद्धयपंकयरयविमीसु; P पवणुद्धयपहकप्परपंसु. ६ AP सरिसर°. ७ A गयणमय°. ८ P
धम्मरेहु. ९ A सुहसुत्ती. १० P °गइगामिणि.

2 ३ b °कयंतु यमः. 6 a हयत्तिएहिं हतार्त्तिभिः. 7 b अणलवंतु अलपन् मौनवान् अब्रु-
वाणः. 8 a तिणि तृणे; b °अजोग्गु अशोय्यम्. 11 b वइसवणहु धनदस्य.

3 1 a °कुलरुहु °कुलोत्पन्नः. ३ b सुवियद्धु चतुरस्य. 5 a करि त्वं कुरु.

4

वारणं मयालीणछप्पयं
केसरं गलालंबिकेसरं
उग्गयं हिमंसु^३ दिणसरं
सायकुंभकुंभाण संघडं
खीरवारिरासि महारवं
मंदिरं सुराणं विहावियं
मेलयं मणीणं विचित्तयं
राइछेयए संविउड्डिया
रत्तियाविरामे णियच्छियं
कहइ तीइ तिस्सा फलं पई
इंदचंणोइंदवदिओ
चक्कवट्टि भोत्तण भूयलं

गोवइं खुरुभिण्णवप्पयं ।
गोमिणी सुमालाजुयं वरं ।
रत्तमीणजुम्मं रईसरं ।
पंकयायरं लच्छिपायडं ।
विट्टरं सकंठीरवं णवं । 5
णायगेहमहिरायसेवियं ।
झत्ति धूमकेउं पलित्तयं ।
सा णिवस्स वज्जरइ मुड्डिया ।
दंसणावल्लिं कयसुहच्छियं ।
होहिहीं तुहं सुउ महामई । 10
दिव्वणाणि णिज्जियमणिदिओ ।
पाविही पयं परमणिक्कलं ।

घत्ता—तं णिसुणिवि संतुंइ सर आइय मंदिरु मीणइ ॥

बुद्धि लच्छि सिरि कंति हिरि दिहि कित्ति वि लीलागइ ॥ ४ ॥

5

कय धणएं दरिसियसुयणतुट्टि
सावणमासंतरि कसणपक्खि
कत्तियणक्खत्ति णिसाविरामि
सीहरहु राउ अहमिंदु वेउ
वणवासहिं घल्लियकच्चुरेहिं
गइ संतिणाहि मलदोसहीणि
वइसाहमासि पडिवयहि दियहि

छम्मासु जाम ता रयणबुट्टि ।
दहमइ दिणि माणवजणियसोक्खि ।
थिउ गग्भि भडारउ पउरधामि ।
वण्णिज्जइ किं णिव्वाणहेउ ।
थुउ इंदपडिदाइहिं सुरेहिं । 5
पल्लोवमद्धि सायरि वि खीणि ।
अग्गेयजोइ णरणाहपियहि ।

4 1 A खुरविभिण्णं. २ AP गोमिणि. ३ A हिमंसु. ४ P संघणं. ५ A मेलयं विचित्तं मणीणयं. ६ AP तुहं सुओ पहीही महामई. ७ A संतुइमइ.

5 १ A रयणविट्टि. २ AP कित्तियं. ३ A बइसाहमासि पडिवयह दियहि; P वइसाहमासि सेयपडिवयहि दियहि.

4 1 b खुरु भिण्णवप्पयं खुरैर्भिन्नवप्रम्. 3 b रईसरं क्रीडापरम्. 4 a संघडं युग्मम्; b लच्छिपायडं लक्ष्म्या प्रकटम्. 6 a विहावियं दष्टम्. 7 a मेलयं राशिम्. 8 a राइछेयए रजन्यवसाने. 11 b णिज्जियमणिदिओ निर्जितचित्सेन्द्रियः. 13 मीणइ मेनका देवाङ्गना.

5 3 a कत्तियणक्खत्ति कृत्तिकानक्षत्रे. 5 a वणवासहिं व्यन्तरैः; घल्लियकच्चुरेहिं पातितसुवर्णैः. 6 b सायरि साकारके लक्ष्मीकारके इत्यर्थः. 7 b अग्गेयजोइ कृत्तिकानक्षत्रे; णरणाहपियहि श्रीकान्तान्याः.

जायँउ जिणु कयतइलोकखोहु
णिउ सुरगिरिसिह सुरणाहणाहु

सुरवइ संपत्तु ससुरवरोहु ।
णाणत्तयसलिलवरंभवाहु ।

घत्ता—सिंचिवि खीरघडेहिं जिणु अंचिउ णवसयवत्तहिं ॥

10

इंदे रंदाणंदयरु जोइउ दससयणेत्तहिं ॥ ५ ॥

6

वंदिवि पुणु णामु केहिवि कुंथु
पुरु आविवि जणणिहि दिण्णु बालु
पोढत्तभावि थिउ कणयवण्णु
पहु पंचतीसधणुत्तंगकाउ
तेवीससहसवरिसहं सथाइं
चरणंभोरुहणैमियामरासु
पुणु तेत्तिउ मंडलियत्तणेण
जइयहुं परिछिण्णउ कालु दीहु
गउ कहिं मि वणंतरु रमणकामु
मत्तंडचंडकिरणइं सहंतु

लंघेप्पिणु दीहरु पवणपंथु ।
गउ सग्गहु हरि सुरचक्कवालु ।
कंतीइ पुण्णचंदु व पसण्णु ।
सिरिलेछणु जयदुंहुहिणिणाउ ।
सत्तेव सपण्णासइं गयाइं । 5
णियवालकलिलीलाइ तासु ।
तेत्तिउ जि चक्कपरियत्तणेण ।
तइयहुं परमेसरु पुरिससीहु ।
दिट्टउ रिसि तेण तवेण खामु ।
हुंमुक्कजम्मविलसिउ महंतु । 10

घत्ता—सो तज्जणियइ दंसियउ मंतिहि तेण णरिंदे ॥

जोयहि दुच्चरं तवचरणु चिण्णउं एण रिसिंदे ॥ ६ ॥

7

छड्ढिवि कुंडंबु कुविंडंबु सट्ठु
वणि पइसिवि णिहसिवि इंदियाइं
चंगउ ववसिउ जइपुंगमेण
तं णिसुणिवि मंते वुत्तु एम
जाएसइ कहिं णिम्मुकगंथु
जाएसइ तहिं जहिं भूयगामु

छड्ढिवि कुलबलु छलमाणगव्बु ।
अवगण्णिवि दुज्जणणिंदियाइं ।
लइ हउं मि जामि एण जि कमेण ।
एयइ णिड्डइ तउ करिवि देव ।
तं णिसुणिवि भासइ देउ कुंथु । 5
णउ पहवइ लोहु ण कोहु कामु ।

४ AP जायउ जिणिदु तेलोकखोहु.

6 १ AP करिवि. २ A सरु चक्कवालु. ३ AP^०णविय^०. ४ AP दुक्कजम्म^०. ५ A दुद्धरु.

7 १ A कुंडंबु.

9 b^०वरं भवा हु वरमेवः.

6 2 b सुरचक्कवालु देवसमूहपालकः. 4 b सिरिलेछणु श्रीवत्सलाञ्छनः. 7 b चक्कपरियत्तणेण चक्रित्वेन. 10 a मत्तंड^० मातण्डः सूर्यः; b महंतु मथन्. 11 तज्जणियइ अप्राङ्गुल्या.

7 1 a कुविंडंबु कुत्सितविडम्बनम्. b छलमाणगव्बु शत्रुवञ्चनम्. 2 a णिहसिवि निवृष्य, जिस्वेत्यर्थः.

जाणसइ तहिं जहिं हेमकंति
हो हउं मि पवञ्चमि तेत्यु तेम
घरु आवेण्णिणु संसरासईहि
अहिसेउ विरइउ पुरंदरेण

घत्ता—सिवियहि तेणारुहणु किउ विजयहि विजयपयासहि ॥

णाणामणिसिहरुज्जलहि लमगखगाहिवतियसहि ॥ ७ ॥

गउ परमण्णउ परमेट्टि संति ।

ण णियत्तमि कालें कहिं मि जेम ।

ता पडिबोहिउ सुरवरजईहिं ।

कुलि णिहिउ सतणुरुहु जिणवरेण । 10

8

वणि विउलि सहेउयरुक्खणीलि
दिणि तम्मि चैय विच्छुंलियपंकि
द्वैउ लइउ लइवि छट्ठोववासु
संसारि सणेहु ण किं पि बद्ध
वीयइ दिणि दिणयरकयपयासि
गयउरि दाविउ आहारु चारु
अमरहिं घल्लिय मंदारयाइं
सोलहवरिसइं तउ तिव्वु चरिवि
दिक्खावणि पत्ति चइत्ति मासि
कयछट्ठें तिलयतलासिणण
अण्णेणण्णाणउं मुण्णुं तेण
पैरिजाणुं तिजगु अणंतु गयणु

घत्ता—दिव्वंवरदिव्वाहरणइं सुर णमंति चउपासहिं ॥

पुणु वि पुरंदरु अवयरिउ णाणाजाणसहासहिं ॥ ८ ॥

णियजम्ममासपक्खंतरालि ।

कित्तियणक्खत्तासिइ ससंकि ।

तें सहं पव्वइयउं णिवसहासु ।

मणपज्जउ णाणु जिणेण लद्ध ।

परिभमइ णाहु णरवासवासि । 5

थिउ धम्ममित्तघरि हयवियारु ।

विहियइं पंच वि अच्छेरयाइं ।

भवभामिरु दुक्कियभाउ हरिवि ।

चंदिणि तइयइ दिणि सुहणिवासि ।

खणि खीणकसाएं जससिणण । 10

उग्गमिणं णाणें केवलेण ।

जायउ सजोइजिणु अचलणयणु ।

9

थिओ समवसरणि
जिणो विहियकरुणो

सया विउससरणि ।
हयावरणमरणो ।

२ A सुसरासईहि; KT record: [सुसहासईहिं इति पाठे अतीव शोभनभाषिभिः.

8 १ AP^०रुक्खमूलि. २ A विच्छुलिय^०. ३ AP वउ. ४ A णवसहासु. ५ P परु जाणुउ.

8 b ण णियत्तमि पश्चात्तागच्छामि. 9 a स सरास ई हि स्ववाण्या. 11 वि ज य हि विजयानाम्यां शिबि-
कायाम् ; वि ज य प या स हि विजयप्रकाशिन्याम् .

8 2 a वि च्छु लिय पं कि निर्मले; b कि त्ति य^० कृत्तिका. 5 b णरवासवासि गृहे गृहे.
6 a आ हारु चारु चर्यामार्गः. 9 b चं दि णि शुक्ले. 10 a तिलयतलासिणण तिलकवृक्षमूलाश्रितेन.

9 1 b वि उ स सर णि विदुषां शरणे.

समुद्धरइ समयं	णया हरइ कुमयं ।	
मुसावयणमुइयं	पसूहणणरुइयं ।	
जणं करइ विमयं	पहे थवइ दुमयं ।	5
मलं महइ कसणं	घणं दमइ वसणं ।	
फणीसुरनृभवेणं	फुडं कहइ भुवणं ।	
चलं खलइ कविलं	हरं हसणमुहलं ।	
तणूणिहियमहिलं	महीधरणसवलं ।	
बला विणिहयपुरं	हरिं भणइ ण वरं ।	10
मुणिं कणयचरणं	ण तं तिमिरहरणं ।	
खणाभावविगयं	ण पत्तियह सुगयं ।	
अयं अमरतरुणी-	रयं णमइ ण गुणी ।	
परं रिसहचरियं	महोपसमभरियं ।	
जिणा किमवि गहियं	मणे अहव महियं ।	15
ण सो पडइ गहिरि	णरो णरयविबरि ।	

घत्ता—पंचतीस गणहर जिणहु जाया हयरयसंगहं ॥

भयसयाइं दिव्वहं रिसिहिं मणमाणियपुड्वंगहं ॥ ९ ॥

10

चालीस तिण्णि सहसाइं होंति	सहुं अज्जसपे सउ तहिं ण भंति ।
एत्तिय सिक्खुय सिक्खाविणीय	गुरुभत्तिवंत संसारभीय ।
दोसहसइं पंचसयाइं ओहि-	णाणिहिं केवलिहिं ति दोण्णि लेहि ।
पंचेव सहस सउ पक्कु ताहं	महरिसिहिं विउव्वणरिद्धि जाहं ।
दोसहसइं पण्णासाहियाइं	गुणवंतहं वाइहिं साहियाइं ।
सहसाइं तिण्णि तिण्णि जि सयाइं	मणपज्जववंतहं गयमयाइं ।
सहसाइं सट्ठि आहुट्ठसयइं	अज्जियहं तेत्थु थुयकुंथुपयइं ।

9 AP ^०सुरणिभवणं. २ A विणिहयपरं. ३ A महापसम^०. ४ P omits ण. ५ AP हयरइसंगहं. ६ AP मणि माणिय^०.

10 १ A केवलिहि वि दोण्णि.

3 a समयं जिनशासनम्; b णया नयात्. 4 a मुसावयणमुइयं असत्यभाषणेन मुदितं (जनम्). 5 a विमयं मदरहितम्; b दुमयं दुर्मदं दुर्मतं वा. 6 a कसणं कृत्स्नम्. 8 a खलइ कविलं कपिलमतं खलयति; b हसणमुहलं हास्यमुखरम्. 10 a विणिहियपुरं स्थापितद्वारवतीम्. 11 a कणयचरणं अक्षपादम्. 12 a खणाभावविगयं क्षणेन आत्मनोऽभावस्तत्र विशेषेण गतं प्राप्तम्, क्षणभङ्गवादिनमित्यर्थः. 13 ab अमरतरुणीरयं देवस्त्रीरतम्. 15 a जिणा येन; किमवि स्वल्पमपि; b महियं प्रशंसितम्.

10 7 a आहुट्ठ अर्धचतुर्थ^०.

सावयहं लख दो तिणिण लख
 संखेज तिरियगणु णहकरालु
 तेत्तिउ सोलहवरिसूणु कालु
 गउ संमेयहु सम्मयगुणालु
 पडिमाइ परिट्टिउ मासमेत्तु

सावइहिं ण याणामि देव संख ।
 जेतुउ होइवि थिउ चक्कवालु ।
 महि विहरिवि ह्यणरमोहजालु । 10
 तं सुक्कण्णु पूरिउ विसालु ।
 रिसिसहसें सहं णिम्मुकुगत्तु ।

घत्ता—वइसाहहु सियपडिवइ जामिणिमुहि णिहयक्खहु ॥
 गउ जिणु सहसक्खे किन्तियउ किन्तियरिक्खे मोक्खहु ॥ १० ॥

11

कय तियसहिं तासु सरीरपुज्ज
 भंभाभेरीहुंदुहिणिणाय
 पयपणइपयासियदुरियदलण
 उव्वसिरंभाणच्चणरसिल्लुं
 तुंवरुणारयसंगीयगेय
 मालाविजाहरपिहियगयण
 णवकमलकलसदप्पणसमेय
 दूवंकुरदह्चिंदणपसत्थ
 सण्णाणि सुदंसणि विउलवुद्धि

सुरकिंकरकरहयविविहवज्ज ।
 व्रणथणियामरमुहमुक्कणाय ।
 जय जयहि जिणेसर कम्ममलण ।
 सयमहकरपंजलिधित्तफुल्लुं ।
 विरइय जिणपडिविंबाहिसेय । 5
 मुणिघोसियणाणाथोत्तवयण ।
 धवलायवत्तधयसंखसेय ।
 वंसग्गविलंबियदिव्ववत्थ ।
 णिव्वाणपुज्ज महुं देउ सुद्धि ।

घत्ता—सुहुं कुंथु भडारउ देउ महुं वंदिउ भरहणरिंदहिं ॥ 10
 सियपुप्फयंतउज्जलमुहहिं णामिउ फणिदसुरिंदहिं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे कुंथुचक्कहरतित्थयरणिव्वाणगमणं
 णाम चउसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६४ ॥

२ A सावयहं संख दो. ३ A omits this foot.

11 १ AP °दलणु. २ AP वरजलणकुमारणिहित्तजलणु. ३ A °रसिल्ल. ४ A °फुल्ल.
 ५ AP खेयरविसहरचंदहिं. ६ AP कुंथुचक्कवट्टित्थयरपुराणं.

9 a णहकरालु नखकरालो रौद्रः. 13 णिहयक्खहु अतीन्द्रियस्य.

11 3 a पयपणइ° पादप्रणतिः. 9 b सुद्धि कर्मक्षयः.

सुयदेवयहि पसत्यहि पसमियदुम्मइहि ॥
वंदिवि सिरेण सउव्वइ अंगइ भयवइहि ॥ धुवकं ॥

1

जो भयवंतो मुक्कसवासो
जेण कयं उत्तमसंणासं
जिणदिट्ठं पंचिदियणासं
भीममुहा वग्घाइणवासा
रक्खइ भुवणं जस्स खमा णं
जेणुवइट्ठं धम्मणिहाणं
जो जीवाणं जाओ ताणं
अत्ताईणं वत्थुपयाणं
दिणं जेणं अ भयपयाणं
भवहंतारं धीरं हं तं
तस्स भणामि चरित्तं चित्तं

जं णीसासो सुरहियवासो ।
जो ण समिच्छइ चउसण्णासं ।
जं पणवंतो पावइ णा सं । 5
जस्स गया दूरेण सवासा ।
णाणं जस्साणंतखमाणं ।
समियं चित्तं भिल्लणिहाणं ।
गुरुयणभत्ती जाणं ताणं ।
जो वत्तारो सव्वपयाणं । 10
सासयसिद्वणयरस्स पयाणं ।
णमिउं देवं अरमरिहंतं ।
जणियसुरासुरविसहरचित्तं ।

घत्ता—जंघुदीवइ सुरगिरिपुव्वदिसासियइ ॥

पुव्वविदेहइ पविउलि केवलिभासियइ ॥ १ ॥

15

All Mss. have, at the beginning of this saṅgīhi, the following stanza:-

आजन्मं (?) कवितारसैकधिपणासौभाग्यभाजो गिरां

दृश्यते कवयो विलासकलप्रन्थानुगा बोधतः ।

किं तु प्रौढनिरूढगूढमतिना श्रीपुष्पदन्तेन भोः

साम्यं विभ्रति (?) नैष जातु कविता शीघ्रं ततः प्राकृते ॥ १ ॥

AP read विशाल in the second line; A reads प्रौढनिगूढ^o in the third line; and AP read कविना, A reads शीघ्रं तत प्राकृतैः, P reads शीघ्रं त्वतः प्राकृतेः in the fourth line.

1 १ A सम्मियचित्तं. २ A अंतार्इणं; P अत्थाईणं. ३ A तेणं. ४ AP वीरं.

1 सउव्वइ पूर्वयुक्तानि; भयवइहि भगवत्याः श्रुतदेवतायाः चतुर्दशपूर्वयुक्तानि एकादशा-
ङ्गानि. 3 a °स वा सो स्वगइ वल्ले च; b णीसासो नृणां शासः शिक्षा यस्मात्; अथवा नृणां सा लक्ष्मीः
सा स्वा निजा यस्य; नीसा वा मुकुटवद्वराजादयः स्वा निजा यस्य; सुरहियवासो सुरभितगन्धः.
4 a °संणासं सर्वसङ्ख्यागम्. b चउसण्णासं आहारादिसंज्ञासुखम्. 5 b णा पुरुषः; सं सुखम्.
6 a भीममुहा वेतालाः; वग्घाइणवासा व्याघ्रचर्मवस्त्राः; b स वा सा प्रेतरक्षकाः पाशयुक्ता वा. 7 b
अणंतखमाणं अनन्ताकाशप्रमाणम्. 8 b भिल्लणिहाणं भिल्लसदृशानाम्. 10 a अत्ताईणं आत्ता-
दीनाम्; वत्थुपयाणं जीवादिवस्तुपदानाम्. 13 b जणिय... चित्तं जनिताश्चर्यम्.

2

सीयहि उत्तरकूलि रवणइ
खेमणयरि धणवइ पुहईसरु
णंदणाहतिथयरसमीवइ
अप्पउं तेण णिओइउं राएं
चत्तकुपंथें जाणियसत्थें
जाउ जयंताणुत्तरि सुरवरु
आउ तासु तेत्तीसमहोयहि
तप्पमाणविकिरियातेपं
भुंजंतहु सुहुं अहमिंदाणं

कच्छाणामदेसि वित्थिण्णइ ।
रुवें रमणीसरु वम्मीसरु ।
बुज्झिवि धम्मु णाणसम्भावइ ।
समैणु ह्वेषिणु मणवयकाएं ।
किउ पाओवगमणु परमत्थें । 5
कायमाणु तहु एक्कु जि किर करु ।
लोयणाडि सो पेक्खइ सावहि ।
वीरिणण संजुत्तु अमेपं ।
आउहि थिउ छम्मासपमाणउं ।

घत्ता—सोहम्माहिउ भव्वहु जिणपयरयमइहि ॥ 10

तांहि कालिहि आहासइ सुरवइ धणवइहि ॥ २ ॥

3

एत्थु भरहि कुरुजंगलि जणवइ
राउ सुदंसणु तहु गुणजलसरि
पयहं दोहं वि होसइ जगगुरु
ता तं जाइवि जक्खें रइयउ
णिसि सुहुं सुत्तइ पियकमणीयइ
करि करोडु पंचाणणु गोमिणि
सफरुल्लय दो कलस सुहायर
सीहासणु विमाणु णायालउ
जायवेउ दीहरजालावलि

कुंजरपुरवरि मारुयधुयधइ ।
मित्तसेण णामेण घरेसरि ।
तुहुं करि ताहं तुरिउ कंचणपुरु ।
पट्टणु रयणकिरणभइसइयउ ।
सिविणयपंति दिट्ठ रमणीयइ । 5
मालाजुयलु चंदु णहयलमणि ।
विमलसलिलकमलायर सायर ।
मणिणितरुंबु मैऊहकरालउ ।
इय जोइवि ताए सिविणावलि ।

घत्ता—देविइ सुत्तविउद्धिइ अक्खिउ णरवइहि ॥ 10

तेण वि फलु विहसेप्पिणु भासिउ तहि सइहि ॥ ३ ॥

2 १ A बुज्झवि णाणु धम्म. २ AP णिओविउ. ३ AP सवणु. ४ AP पायोगमरण.
५ AP अहमिंदाणं. ६ A °पवाणं; P °पमाणं. ७ AP तहि जि कालि आहासइ.

3 १ AP तुरिउ ताहं. २ A सुहसुत्तइ. ३ AP मयूह°. ४ A °विबुद्धइ.

2 2 a धणवइ धनपतिर्नाम; b रमणीसरु स्त्रीणां स्वामी. 4 a णिओइउ प्रेरितः. 7 b
सावहि अवधिज्ञानयुक्तः. 8 a तप्पमाणं लोकनाडिप्रमाणेन; b अमेपं अमर्षादेन. 11 धणवइहि
धनदस्य.

3 1 b धुयधइ °कम्पितध्वजे. 2 b घरेसरि गृहिणी. 5 a पियकमणीयइ प्रियस्य मनो-
ज्ञायाः, भर्तृचरणलीनाया वा. 6 a करोडु वृषभः; b णहयलमणि आदिशयः. 7 a सफरुल्लय मत्स्यौ;
b कमलायर पद्मसरः. 8 b मैऊहकरालउ किरणयुक्तः. 9 जायवेउ अग्निः.

4

जो जाणइ तिहुयणि परु अप्पउ
तं णिसुणिंवि हरिसिय सीमतिणि
कंति कित्ति सइ बुद्धि भडारी
जा छम्मास ताम घरि चंदिह
फग्गुणि चंदविसुद्धहि तइयहि
थिउ गब्भंतरालि जो धणवइ
थुउ अमरिंदचंदधरणिंदहिं
बुद्धउं विसरिसेहिं वसुहारहिं
परिवेद्धंतइ दिणसंताणइ
थक्कइ कुंथुणाहणिब्वाणइ
वैरमग्गसिरमासि सिसिरिहु भरि

सो तुह सुउ होसइ परमप्पउ ।
आइय घरु सिरिदिहि हिरि कामिणि ।
गब्भसुद्धि कय सुहइं जणेरी ।
धैत्तिउं जक्खे लोयाणंदिरु ।
णिसिपच्छिमसंझहि रेवइयहि । 5
सो अहमिंदु चवेप्पिणु सुहमइ ।
तहु दिव्वेसहु लग्गिावि जक्खिदहिं ।
अट्टारहपक्खंतरमेरहिं ।
वरिसकोडिसहसेण विहीणइ ।
पल्लुचउत्थभायपरिमाणइ । 10
पूसजोइ चउदहमइ वासरि ।

घत्ता—सग्गमग्गसंखोहणु बुहयणदुरियहरु ॥

णाणत्तयसंजुत्तउ णासियजम्मजरु ॥ ४ ॥

5

सत्तमचक्कवट्टि हयपरमउ
मंदेरसिहरि तूरणिग्घोसहिं
णामु करोप्पिणु परमेसहु अरु
गउ पोलोमीवइ णियमंदिरु
हेमच्छवितणु दहदहधणुतणु
एक्कवीसवारिसहं सहसइं सिसु
एक्कवीसेसहसइं मंडलयइ
चउदह रयणइं णव वि णिहाणइं
सारयब्भु पविलीणु णियच्छिवि
जीविउ देहु असारु वियप्पिवि

संभूयउ जिणु अट्टारहमउ ।
णहविउ पुरंदेरहिं बत्तीसहिं ।
अम्महि करि अप्पिउ आविवि घरु ।
वहइ पुण्णवंतु जिणु सुंदरु ।
गरुयारउ गुणगणरंजियजणु । 5
लीलइ थिउ डिंभयकीलावसु ।
एक्कवीससहसइं पुणु महिवइ ।
भुंजिवि पीणिवि दविणे दीणइं ।
लच्छिविहोउ असेसु दुगुंछिवि ।
अरविंदहु महिरज्जु समप्पिवि । 10

4 १ AP तिहुवणु. २ P सुणिवि. ३ A खित्तउ; P धित्तउ. ४ A देवसहु; P दिवहहु.
५ AP परिवेद्धंतइ. ६ AP दिणि. ७ P सियमग्गसिर^०. ८ A सिसिहरभरि; P सिसिरहे भरि.

5 १ K मंदिरसिहरि. २ P एक्कवीसमहसहसइं.

4 1 a परु पुद्गलादिकम्. 3 b सुहइं जणेरी सुखोत्पादिका. 5 a चंदिह कनकम्. 5 b
णि सि प च्छिम सं झहि प्रभातसंभ्यायाम्. 8 a वि म रि से हिं अनुपमैः; b अ ट्टार ह प क्खं तर मे र हिं न व-
मासान् यावत्. 11 b पूस जो इ रेवतीनक्षत्रे.

5 1 a हयपरमउ हतमिथ्यामतः. 4 a पो लो मी व इ इन्द्रः. 7 b महिवइ चक्री. 9 a
सारयब्भु शरत्कालाश्रमः; b लच्छिवि होउ लक्ष्मीविभोगः. 10 अर विं द हु अरविन्दनाम्नः पुत्रस्य.

घत्ता—खीरवारिपरिपुष्णाहिं तारहारसियहिं ॥
पहाइवि मंगलकलसहिं सुरपल्हत्थियहिं ॥ ५ ॥

6

णिसुणिवि सारस्सयसंबोहणु	वइजयंतसिबियहि आरोहणु ।
करिवि सहेउयवणु तं जेत्तहि	गउ तुरिपण महापहु तेत्तहि ।
मियसिरजुत्तमासि दहमइ दिणि	चंदिणि रेवइरिक्खि सुसोहणि ।
अवरण्हइ छट्टेणुववासं	णिकखंतउ सहुं रायसहासं ।
लुंचिवि कुंतल णिमोहालउं	लिंगु असंगु लेवि णिच्चेलउं ।
मणपज्जयधरु सुद्धिणिरिक्खहि	वीयइ दियहि पइट्टउ भिक्खहि ।
चक्कणयरि अवराइयणरवं	पाराविउ अमरासुरसुरवं ।
तहु घरि पंच वि चोच्चइं घडियइं	कुसुमइं रयणइं गयणहु पडियइं ।
तवतावं णियतणु तावंतउ	सोलहवरिसइं महि विहरंतउ ।

घत्ता—दिक्खावणु आवेप्पिणु कत्तियमासि पुणु ॥ 10
सियवारहमइ वासरि सुरवरणवियगुणु ॥ ६ ॥

7

अवरण्हइ अंबयतलि थक्कउ	छट्टुववासिउ मोहं मुक्कउ ।
जायउ केवलि केवलदंसणि	आयउ भेसइ अंगारउ सणि ।
धरणु वरणु ससि तरणि धणेसरु	पवणु जलणु भावेण सुरेसरु ।
धुणइ अणेयहिं थोत्तपउत्तिहिं	समवसरणु किउ विविहविहत्तहिं ।
तेत्थु णिसण्णपण तं सिट्टउ	जं अवरहिं मि देवहिं दिट्टउ ।
चउ णिरूवि अजीव पयासिय	रूविखंधेसाइ वि भासिय ।
मग्गणगुणटाणाइं समासिय	जीव सकाय अकाय वि दरिसिय ।
सत्तपंचणवछट्टिविहभेयइं	एयइं अवरइं कहियइं णेयइं ।

6 १ A सारयस्स. २ AP तावंतहु. ३ AP विहरंतहु.

7 १ A भेसउ. २ AP अंगारय. ३ AP णीरूवि.

6 1 a सारस्स यं लौकान्तिका देवाः. 3 a मियसिरजुत्तमासि मार्गशीर्षे; b चंदिणि शुक्ले. 5 a णिमोहालउ निर्मोहयुक्तम्. 6 a सुद्धिणिरिक्खहि शुद्धनिरीक्षायाम्. 7 a णरवं नरपतिना राज्ञा; b सुरवं शोभनशब्देन.

7 1 a अंबयतलि आम्रवृक्षतलं. 2 b भेसइ बृहस्पतिः. 4 b विहत्तहि विभक्तिभिः. 6 a चउ णिरूवि चत्वारो रूपरहिता धर्माधर्माकाशकालाः. 8 b णेयइं प्रमेयाणि ज्ञेयवस्तूनि.

तद्दु संजाया तर्हि मउलियकर
गणमि दहुत्तर वम्महदमणहं

गणहर तीस रिद्धिबुद्धीसर ।
तिण्णि तिण्णि सय सिक्खुयु संवणहं । 10

घत्ता—पंचतीससहसहं भणु अट्टसयइं कियइं ॥

तीसणिउत्तइं जाणसु मुणिहिं वयंक्रियइं ॥ ७ ॥

8

एत्तियं ओहिणाणि तद्दु ह्यकलि
जिणवरचरणुण्णामियसीसइं
मणपज्जयधराहं वरचरियहं
सोलहसयइं परागमहारिहिं
सावयाहं पुणु लक्खु भणिज्जइ
लक्खइं तिण्णि गेहघम्मत्थहं
संखावज्जिएहिं गिव्वाणहिं
एक्कवीससहसइं भुवुं माणइं
भूयलि भमिवि भव्व पहि लाइवि
सहुं रिसिसहसे थिउ संमेयइ
फग्गुणपुरिममासि कसणंतिमि
पुव्वाणिसागमि णिक्कलु जायउ

दुसहस वसुसय साहिय केवलि ।
दोसहसइं पणवण्णविमीसइं ।
चउसहसइं तिसयइं विकिरियहं ।
सट्टिसहासइं संजमणारिहिं ।
सुण्णचउक्क छडग्गइ दिज्जइ । 5
महिलहं मंगलदव्वविहत्थहं ।
खगंमृगेहिं पुव्वुत्तयमाणहिं ।
वरिसहं सोलहवरिसंविहीणइं ।
मासमेत्तु णियजीविउ जोइवि ।
मुइवि दिव्वंतणु पडिमाजोयइ । 10
दियहि चंदि कयरेवइसंगमि ।
गउ तर्हि जिणु जर्हि गयउ ण आयउ ।

घत्ता—चउविहदेवणिकायहिं जयजयकारियउ ॥

अरु अग्गिदकुमारहिं तर्हि साहुंकारियउ ॥ ८ ॥

9

अरु अरविंदगम्भकयचारउ
अरु अरमाणिहीहिं णउ रुच्चइ

अरु अरुहंतु अणंगवियारउ ।
अरु अरहिल्लु तद्दु जग्गि सुच्चइ ।

४ AP समणइं. ५ P पंचवीस.

8 १ AP एत्तिय तीयणाणि; T तह्यणाणि. २ AP °मिगेहि. ३ AP पुव्वुत्तपमाणहिं.
४ A जुयमाणइ. ५ A °वरिसइं हीणइं. ६ T चोइवि. ७ AP कलेवरु. ८ A कसणतमि. ९ AP
सकारियउ.

9 १ AP जग्गि.

9 a रिद्धि बुद्धी सर पूर्वधराः. 10 a दहुत्तर ति ण्णि ति ण्णि सय दशोत्तरप्रदशतानि.

8 2 a °उण्णा मिय सी सइं उन्नामित्तमस्तकानि. 4 a परागमहारिहिं मिथ्यामतहारकाणां
वादिनाम्. 9 a पहि लाइवि मोक्षमार्गे प्रेरयित्वा. 11 b कयरेवइसंगमि चन्द्रे कृतरेवतीसंगमे सति.

9 2 a अरमाणिहीहिं अरमा दारिद्यं निधिनिधानं येषां तेषां दरिद्राणाम्; b अरहिल्लु
प्रकटः; सुच्चइ श्रूयते.

अरु अरसिह्लु अगंधु अरुअउ
अरु अरईरईहिं णउ छिप्पइ
अरु अरवें गुणेण संजुत्तउ
अरु अरैयाणिवासु अजरामरु
अरु अरुहकखरेहिं जगि भाणित्त
सो संसारि भमंतु ण थक्कइ
अरु अरिहर आवरणु महारउ

अरु अरामु अवरामउ ह्यउ ।
अरु अरोसु किहं पावें लिप्पइ ।
अरु अरुणें पवणें पहु वुत्तउ । 5
अरु अरुद्धु विहुरेण सुहायरु ।
अरु अरु बर्पणं जेण णउ जाणित्त ।
अरुअरु करहुं ण सक्कु वि सक्कइ ।
णिहणउ दंसणणाणणिवारउ ।

घत्ता—अरतित्थंकरि णिवुह रंजियविउत्तसह ॥ 10

इहं णिसुणि सुंभउमहु चक्किहि तणिय कह ॥ ९ ॥

10

एत्थु भरहि लंबियधयमालइ
पहु भूवालु णाम भूमंडणु
बहुयहिं आहवि एक्कु णिरुज्झइ
खज्जइ बहुयहिं भरियभरोलिहिं
बहुयहिं मिलिवि माणु तहु खंडित्त
लोहमोहमयभयजमदूयहु
भोयाकंखइ करिवि णियाणउं
सोलहसायराउ सो जइयहुं
कालें कालु जाम पल्लइइ
पवरिक्ख्वाउंवंसु सियमंदिरि
दुद्धरवइरिवीरसंधारउ

रयणासिहरघरि णयरि विसालइ ।
तहु जायउं परेहिं सहुं भंडणु ।
बहुयहिं सुत्तहिं हत्थि वि बज्झइ ।
विसहरु विसदारुणु वि पिपीलिहिं ।
तेण वि पुरु कलत्तु घरु छंडित्त । 5
रिसिंत्तउ लइउ णियडि संभूयहु ।
मुउ लद्धउं महसुक्कविमोणउं ।
अच्छइ सुरवर सहुं दिवि तइयहुं ।
एत्थु कहंतुरु अवरु पवट्टइ ।
सहसबाहु णरवइ कोसलपुरि । 10
कण्णाकुज्जहि राणउ पारउ ।

घत्ता—णाम विचित्तमइ सह तेण मुणालभुय ॥

सहसबाहुंणरणाहहु दिण्णी णियय सुय ॥ १० ॥

२ किम. ३ A अरणं. ४ AP वरुणं. ५ A अरुवाणिवासु. ६ AP जेण बर्प. ७ P सुभोमहु.

10 १ AP भूवाल. २ P छडित्त. ३ AP रिसिंत्त. ४ AP विवाणउ. ५ AP ०वंसि तहु मंदिरि. ६ AP सहसबाहुं.

3 a अरसिह्लु तित्तादिससहितः; b अरामु स्त्रीरहितः; अवरामउ विनाशरहितः. 5 a अरवें गुणेण संजुत्तउ अशब्देन गुणेन युक्तः, तस्य गुणा वक्तुं न शक्यन्ते इत्यर्थः. 6 a अरुयाणिवासु आरोग्यनिवासः. 9 b णि हणउ हन्तु.

10 1 b विसालइ विशालनाम्नि. 4 a भरियभरोलिहिं भूतवल्मीकाभिः; भरोलि वल्मीकः. 10 a सियमंदिरि उज्ज्वलसौधयुक्ते गृहे. 11 b कण्णाकुज्जहि कन्याकुब्जपुरे; पारउ पारतनामा.

11

सुंदरु लक्खणलक्खियकायउ
वीणालावहि मज्जे खामहि
सयविंदुं णरिंदकुलहंसं
सिंसु जमयग्गि णाम उप्पण्णउ
वाल्लत्तम्मि तेण सेविउ वणु
अवरु तहिं जि ददगाहिणरेसरु
वेण्णि मि समउं सोक्खु भुंजेप्पिणु
णिउ जिणवररिणि सोत्तिउ तावसु
मित्तं मित्तु वत्तु णउ जुज्जइ
विप्पं तासु वयणु अवहेरिउ
जिणवरहरपयाइं सुमरेप्पिणु
खत्तिउ मरिचि जाउ सोहम्मइ

तहि कयवीरु णाम सुउ जायउ ।
पारयविहिणिहि सिरिमइणामहि ।
णियजसससहरधवलियवसं ।
जणणिमरणसोणं णिव्विण्णउ ।
जगि जायउ तवतिव्वु तवोहणु । 5
तासु मित्तु हरिसम्भु सुदियवरु ।
जइ जाया इच्छिउ वउं लेप्पिणु ।
हयउ मोहमंदुं मिच्छावसु ।
तावसमग्गं जम्भु ण छिज्जइ ।
उत्तरु किं पि वि णेय समीरिउ । 10
वेण्णि मि मुय संणासु करेप्पिणु ।
वंभणु पुणु जोइससुरहम्मइ ।

घत्ता—चित्तिउ पत्थिवदेवें सुहि वसुमलमइहि ॥

तउ अण्णाणु चरेप्पिणु हुउ जोइसगइहि ॥ ११ ॥

12

मइं सयणेण वि णउ उत्तारिउ
इय णिज्जाइवि दुक्कउ तेत्तहिं
णेहपरव्वसेहिं भुयमंडिउ
अवल्लोइवि जोइसु मउल्लियकरु
पइं जिणवयणु वप्प अवगण्णिउ
णञ्चइ देउ गेयसरु गायइ
उहइ पुरइं रिउवग्गु वियारइ

जायउ वंधु दीहसंसारिउ ।
अच्छइ सुरवरु जोइस जेत्तहिं ।
दोहं मि एक्कमेक्कु अवरुंडिउ ।
आहासइ विहन्निवि कण्णामरु ।
अण्णाणु जि गुरुयारउं मण्णिउ । 5
महिलउ माणइ वज्जउ वायइ ।
एहउ किं संसारहु तारइ ।

11 १ A सुंदर^०. २ AP^० चहिणिहि. ३ A वालत्तणि त्रि. ४ AP^० तउ तिव्वु. ५ AP^० वउ.
६ A^० वरसिरि मोमित्तिउ; P^० वररिणि सोमित्तिउ. ७ P^० मेहमंदु.

12 १ दीह वंधु. २ A जोइससुरवरु. ३ AP^० गुरुयारउ.

11 1 a त हि तस्यां विचित्रमस्याम्; कयवीरु कुतवीरः. 2 b पारयविहिणिहि पारतभगि-
न्यां श्रीमतीनाम्याम्. 3 a सयविंदुं शतविन्दुना. 4 a जमयग्गि जमदग्निः. 8 a णिउ नृपः. 11 a
जिणवरहरपयाइं सुमरेप्पिणु मुनिना जिनपादानां स्मरणं कृतं तापमेन हसपादानाम्. 12 b जोइस-
सुरहम्मइ ज्योतिष्कविमाने. 13 वसुमलमइहि शङ्खाद्यष्टदोषमती.

12 1 a मइं इत्यादि सदृष्टिदेवश्चिन्तयति स्वचित्ते. 3 a भुयमंडिउ भुजौ प्रसार्य. 6 b
देउ रुद्रः.

णिकल्लु किं सिद्धंतु समासइ
सहं विणु कहिं सैत्थपरिग्गहु
तं णिसुणिवि ह्यरेण पवुत्तउं

विणु वयणेण सहु कहिं होसइ ।
पइं कुमग्गि किं किउ णियणिग्गहु ।
मइं ण सिवागमि इहु तउ तत्तउं । 10

यत्ता—गउरीमुहकमलालिहि वरगोवइगइहि ॥

भामिउ किं पि ण बुज्झिउ देवहु पसुवइहि ॥ १२ ॥

13

ता पभणइ सुरु सम्माइट्टिउ
सो दावहि तावसु जो गयमलु
सुहिणा उत्तउ मयणणिवारउ
ते वेण्णि वि ज्जेण गुणगणसिक्खहि
गय कलविक्रमिहुणु होएण्णिणु
कणु चुणंति कीलंति भमंति वि
अण्णाहि दिणि जंपइ चिउउल्लउ
गच्छमि लग्गउ एत्थु जि अच्छहि
ता चिउउल्लिशाइ पडिबोह्लिउ
पइं विणु एक्कु वि दिवहु ण जीवमि
करहि सवह जइ परइ ण आवहि

जो तुम्हारइ णिइइ णिट्ठिउ ।
आउ आउ वच्चहुं धरणीयलु ।
पेच्छंहि रिसि जमयग्गिभडारउ ।
सज्जण लग्गा धम्मपरिक्खहि ।
थिय मुणिमीसियवासु रएण्णिणु । 5
तावसमासुरवासि रंसंति वि ।
कंति कंति हउं भमणपियल्लउ ।
कल्लइ आयहु महु मुंहुं पेच्छहि ।
हियवउ णाह महारउ सल्लिउ ।
अज्जु वियालइ जमपुरि पावमि । 10
तो मइं णिच्छंउ मुइय विहावहि ।

यत्ता—भणइ पक्खि हलि पक्खिणि परइ ण पमि जइ ॥

हउं एयहु जमयग्गिहि दुक्किउ लेमि^{११} तइ ॥ १३ ॥

14

तं णिसुणिवि सयविंदुहि णंदणु
अरि अरि पिसुण पक्खि किं बुक्कउं

पभणइ रोसजलणजालियतणु ।
महुं गुणवंतहु किं किर दुक्किउं ।

४ AP सह^{१०}.

13 १ AP वच्चं. २ P पेच्छहि. ३ A जिण. ४ A तावसमासुर. ५ A रंसंति. ६ A भवण^{१०}; P भणमि. ७ महुं. ८ A डोल्लिउ. ९ A करहु. १० A णिच्छउ. ११ A लेवि.

14 १ A पक्खि पिसुण. २ AP बुक्किउं.

8 a णि कल्लु सदाशिवः; b वयणेण वदनेन. 10 a ह्यरेण विप्रचरेण ज्योतिष्कदेवेन. 11 गउरी-
मुह^{१०} पार्वतीमुखम्; वरगोवइगइहि वृषभोपरिगतेः. 12 पसु वइहि रुद्रस्य.

13 5 a कल विक्रं चटकः; b मुणि मीसियवासु मुनिश्मश्रुकृत्वा वासः. 6 b तावसमासुर-
वासि तापसश्मश्रुवासिनौ; रंसंति शब्दं कुर्वन्ति. 7 b भमणपियल्लउ भ्रमणप्रियः. 8 b आयहु महु
आगतस्य मम. 10 b वियालइ संश्यायाम्. 11 a सवह शपथान्; b मुइय मृताम्.

14 2 a बुक्कउं उक्तम्.

जइ दुक्किउ तो पइं संघारामि
एव चवेप्पिणु कयसंकीलणु
पेहुणिल्ल थिय अंवरि जाइवि
तवहु ण जुत्तउं जीवविणासणु
ता भासइ छारेणुद्धलिउ
किं मइं कियेउं पाउ तवचरणे
ता घरपक्खि कहइ लइ चंगउं
परं किं वेयवयण ण वियाणिउं
सुयमुहकमलु ण कहिं वि णिह्वाल्लिउं
पत्थि अपुत्तहु गइ विष्पागामि

हत्थे णिहसिवि पेढुं समारामि ।
करहि णिहिद्धउ सउणिणिहेलणु ।
पभणिउ तवसि तेणे पोमाइवि । 5
खमहिं ताय खम मुणिहिं विह्वसणु ।
हउं तुम्हहिं किं ज्ञाणहु चालिउ ।
गणवइतिणयणपूयाकरणे ।
पइं तवतावे ताविउं अंगउं ।
णवउ कलत्तु ण कत्थु वि माणिउं । 10
दुरिणं अप्पाणउं किं मइल्लिउ ।
ता संजाय चित्त जइपुंगामि ।

घत्ता—अण्णाणिउ तवभट्टउ मायावयणहउ ॥

सो तहु पारयणामहु मामहु पासि गउ ॥ १४ ॥

15

तणुरुहकारणि मग्गइ कण्णउ
वेयालु व विथरालु जडालउ
थेरु जराज्जरिउ ण लज्जइ
कीलंती अण्णेक्क पियारी
रेणुय भणिवि तेण हक्कारिवि
वइसारिय अंचोलिहि लुद्धे
णिस्सुणि ससुर पयइ हउं इच्छिउ
पह देवि लहुइ किं वुच्चइ

कज्जलकंचणमरगयवणणउ ।
अवल्लोपप्पिणु णट्टउ बालउ ।
घरघरिणीवापं किह भज्जइ ।
कुयरि रेणुधूसर लहुयारी । 5
कयलीहलु दंसेवि पैयारिवि ।
भणिउं अणंगसरोहणिरुद्धे ।
मुद्धइ पंतु मणेण पडिच्छिउ ।
जाहि महारउ वोल्लिउ रुच्चइ ।

घत्ता—णासउ तणुगरुयत्तणु पत्थिवपुत्तियहं ॥

वह्वियजोव्वणगव्वहं मज्झु विरत्तियहं ॥ १५ ॥

10

३ AP पिट्टु. ४ AP तहिं. ५ AP कयउ. ६ A सुरपक्खि; T घरपक्खि. ७ AP पइं.

15 १ AP घरि घरिणी°. २ P धूसरि. ३ A वियारिवि; P' पियारिवि. ४ A अचो
लिहि. ५ AP देहि. ६ लहुवी; P लहुवी. ७ P वडगरुय°.

३ b पेहु चूर्णम्. 4 a कयसंकीलणु कृतसंकीडम्; b णि हि द्धउ निघृष्टम्; सउणिणिहेलणु पक्षि-
नीडम्. 5 a पेहुणिल्ल पक्षिणी. 6 a छारेण भस्मना. 8 b गणवइ गणेशः; तिणयण रुद्रः. 9 a
घरपक्खि ग्रामचटकः.

15 1 a तणुरुहकारणि पुत्रनिमित्तम्; b कज्जल° श्यामलवर्णा. 2 b णट्टउ बालउ कन्याः
नद्याः. 4 a कुयरि कुमारी. 5 b पयारिवि प्रतार्य. 6 a अंचोलिहि उत्सङ्गे. 9 णासउ तणुगरु
यत्तणु नश्यतु तनुतुङ्गत्वम्, कुञ्जा भवन्वित्यर्थः.

16

कण्णउ खुज्जियाउ तहु सावें
कण्णाकुज्जणयरु तं घोसिउ
पयहं पासिउ एह रवण्णी
गउ वणवासहु माहिहरकंदरि
जाया तणुरुह दोण्णि महाभुयं
दोहिं मि णिहियेइं जयजसधामइं
रेणुयभायरु साहु अरिंजउ
आउ णिहालिवि ससइ णमंतिइ
जइयहुं महु विवाहु किउ तापं
अज्जु देहि बंधव जइ भावइ

जायउ तिच्चतवोहपहावें ।
देवहिं जडचरित्तु उवहासिउ ।
देहि मज्झु ता तापं दिण्णी ।
तहिं णिवसंतहं ताहं सणिज्जरि ।
दोण्णि वि चंद सूर णं गहचुय । 5
इंदसेयरामंतइं णामइं ।
रिद्धिवंतु तवतत्तु सुसंजउ ।
मग्गिउ किं पि हसंतहसंतिइ ।
तइयहुं धणु ण दिण्णु पइं भापं ।
जेण दुक्खु दालिहु वि णावइ । 10

घत्ता—भणइ मुणीसरु सुंदरि छिंदहि कुमयमइ ॥

इंसणणाणचरित्तइं रयणइं तिण्णि लइ ॥ १६ ॥

17

ता सम्मत्तु वियारें सहियउ
तुट्टु भडारउ सुट्टु वियक्खणु
परसुमंतु परिरक्खणु देंतें
इइं रेणुय ताइ कयत्थी
तुम्हारिसहं सजीउ वि देंतहं
ससहि महंतु हरिसु पयणेप्पिणु
कामधेणु हियइच्छिउ दुब्भइ
अण्णहि वासरि सुरगिरिधीरें
गहणणिहेलणु छुडु जि पइट्टुउ

सावयवउ मुद्धइ संगहियउ ।
करुणें करिवि सबहिणिणिरिक्खणु ।
दिण्णी कामधेणु भयवंतें ।
पभणइ भिक्खुहि पंजलिहत्थी ।
दीणुद्धरणु सहाउ महंतहं । 5
गउ रिसि धम्मविद्धि पभणेप्पिणु ।
तं तावसकुडुंबु ताहिं रिज्जइ ।
सहसबाहु संजुउ कयवीरें ।
राउ तवोहणेण तें दिट्टुउ ।

घत्ता—अध्भागयपडिचत्तिइ भोयणु दिण्णु तहु ॥

10

हियेंउं भिण्णउं दोहं मि कुअरहु पत्थिवहु ॥ १७ ॥

16 १ AP कण्णाखुज्जु. २ A तहु घोसिउ. ३ A कुडचरित्तु. ४ A महभुय. ५ A दिण्णइ.
६ A जं भाषइ. ७ A दालिहु ण आवइ; P दालिहु वि ण आवइ. ८ P छुडुहि.

17 १ A सुद्धे. २ P पररक्खणु. ३ P दें. ४ P तहिं. ५ AP हियवउं. ६ A कुमरहु.

16 1 b तवोह^० तपःसमूहः. 2 b देवहिं देवाभ्याम्. 6 b इंदसेयरामंतइं इन्द्ररामः
श्वेतराम इति. 8 a आउ णि हा लि वि आगतं दृष्ट्वा; ससइ भगिन्या रेणुकया. 9 b भापं भ्रात्रा.

17 1 a वियारें ज्ञानेन. 4 b सहाउ स्वभावः. 7 b रिज्जइ ऋद्धिं प्राप्नोति. 9 a गहण-
णि हे लणु बनस्थगृहं तापसगृहम्. 11 भिण्णउं साश्वर्यं जातम्.

18

णियजणणीसस णविवि णियच्छिय
अम्मि अम्मि भोगणु भल्लारउं
एहउं नृवहं मि णउं संपज्जइ
आक्खिउ रेणुयाइ विहसेप्पिणु
ताइ वुत्तु अमहहं चिंतिउ फलु
जं अंबाइ एम आहासिउं
रयणइं होंति महीयलवालहं
तासु वि तहिं जि चित्तु आसत्तउं
चउरासमगुरु रयणिहिं अंचहिं

माउच्छिय कयवीरें पुच्छिय ।
जहिं चक्खिज्जइ तहिं रससारउं ।
तुमहहं तावसाहं किह जुज्जइ ।
गउ बंधवु सुरधेणुय देप्पिणु ।
णं तो पुणु वणि भुंजहुं दुमहलु । 5
तणपं तं णियेपिउहि पयासिउ ।
णउ तवेंसिहिपसरियजडजालहं ।
कयवीरें कर मउलिवि वुत्तउं ।
दिव्वगाइ दिय देहि म वंचहि ।

घत्ता—गाइ ण देमि म पत्थहि अरितरुणियरसिहि ॥

10

विणु गाइइ अम्हारइ ण सरइ होमविहि ॥ १८ ॥

19

ता तं सुणिवि तेण महिणाहें
झ त्ति अमरवरसुरहि मह्हिय
भुयहिं धरइ जमयग्गि ण संकइ
तवसिहि करु करेण अच्छोडिउ
णीसारिय णांदिणि महवांसहु
उद्धाबद्धाणिविडजडमंडलु
सोत्तरीयउववीययउरयलु
बद्धतोणु परिवहियअमरिसु
दोणिण तिणिण चउ पिच्छंचिय वर

गोहणलुद्धें णं वणवाहें ।
कंचणदामइ धरिवि णियद्धिय ।
रेणुय कलयलु करहुं ण थक्कइ ।
णिच्चलु मेइणियलि सौ पाडिउ ।
णं णियेजीयवित्ति तणुदेसहु । 5
सव्वेणोलंबियतंबयकुंडलु ।
धूलिधवेलु अवलोइयभुयवलु ।
धाइउ सर मुयंतु राण तावसु ।
पंच सत्त णव दह चंचलयर ।

18 १ AP णिवहं. २ P ण वि. ४ AP दुमफल. ४ णियपियहि. ५ A तवसियपसरिय°.

19 १ P ता तं सुणिवि. २ AP मह्हिय. ३ A तहिं पाडिउ. ४ AP add after this: चच्छिउ लेवि जाम णियवासहु (A णियदेसहु). ५ A omits this foot. ६ P तणु देतहु. ६ A समणोलंबिय°. ८ A सोत्तरीउ. ९ A धवल. १० AP सर.

18 1 b मा उच्छि य मातृष्वसा. 6 a अंबा इ लघुमात्रा मातृष्वसा. 7 b तव सि हि प सरि य-ज ड जाल हं तपोमिना प्रसारितं जटाजालं येषां तेषां रत्नानि न भवन्ति. 9 a चउरासमगुरु चतुर्णा-माश्रमाणां गुरुः राजा; b दिय हे यते. 10 °सि हि हे अग्ने. 11 सरइ संपद्यते.

19 1 b वण वा हें भिल्लेन. 2 a अमरवरसुरहि कामधेनुः; b णिय द्दिय आकृष्टा. 4 a तव सि हि करु यतिहस्तः; अच्छो डिउ मोचितः. 5 b णिय जी य वि त्ति; निजजीवप्रवृत्तिः तणु दे स हु शरीरप्रदेशात्. 6 a उद्धाबद्ध° ऊर्ध्वं बद्धम्; °जडमंडलु जटामण्डलम्.

बारह तेरह पुणु पण्णारह सोलह बाण मुक्क सत्तारह । 10
 णहयल्लु सरसंछणु ण दीसह सहसबाहु णियरहियइ भासह ।
 घत्ता—वाहि वाहि रहु तुरिणं संघारमि कुमह ॥
 एहा महियलि जह जह तो केहा णिवह ॥ १९ ॥

20

बाणहिं बाण हणेप्पिणु विद्धउ णं चंदणतरु णायहिं रुद्धउ ।
 जह विच्चित्तमइइएणं घाइउ सयबिंदुहि तणुरुहु विणिवाइउ ।
 णाहमरणि दुक्खेण विसट्टइ गाइ ण जाइ हयचि पलट्टइ ।
 महिपलोट्टु णियसामि णिहालइ पुच्छि विज्जइ जीहइ लालइ ।
 दुद्धे सिंचइ वयणु समिच्छइ ओरसंति णियहुंलइ अच्छइ । 5
 जाम ताम णियवइरिहिं चप्पिवि रोवइ रेणुय विहुरु वियप्पिवि ।
 हा हा कंत कंत किं सुत्तउ किं ण चवहि महुं काइं विरत्तउ ।
 मुच्छिओ सि किं तवसंतावें किं परवसु थियुं झाणपहावें ।
 लइ कुसुमाइं घट्टु लइ चंदणु करहि भडारा संज्ञावंदणु ।
 घत्ता—उट्टि णाह जलु ढोवहि तण्हाणिरसणउं ॥ 10
 करि सहवासियहरिणहं करयलफंसणउं ॥ २० ॥

21

दावहि एयहु कुवलकंतिहि जलु होमावसेसु सिसुवंतिहि ।
 उट्टि णाह तुहुं एक्कु जि जाणहि तणयहं वेयपयइं वक्खाणाहि ।
 तेहिं वि अज्जु काइं सुइराविउं अवरु किं पि किं दुग्गि विहाविउ ।
 जहिं गय कंदमूलफलगुंछहं तहिं किं कमि णिवडिय खलमेच्छहं ।

११ A णहयल्लु संछणुउ णउ दीसह; P णहयल्लु छणु ण बाणहिं दीसह. १२ वाहु वाहु.

20 १ AP चंदणतरु णं. २ A णियहुल्लिय; P णियहुल्लइ. ३ A णियवइउरि.

21 १ A दुग्गु. २ AP गौंछहं.

11 a सरसंछणु बाणैराच्छादितम्; b १रहियहु सारथे. 12 वाहि वाहय. 13 एहा ईदशाः; जइ यदि; जइ यतयः; केहा कीदशाः.

20 2 a जइ यतिः; विच्चित्तमइइएणं विचित्रमत्या भर्त्री सहसबाहुना. 3 b हयचि शृङ्गादिना हत्वा. 4 b विज्जइ वीजयति. 5 b णियहुल्लइ निकटे. 9 a घट्टु घृष्टम्.

21 1 a सिसुवंतिहि बालाजस्य. 2 b वेयपयइं वेदपदानि. 3 b दुग्गि वने. 4 b कमि णिवडिय हस्ते पतितौ.

णउ मुणंति जं जणैयहु जायउ
 आर्यण्णवि तहिं जणणिहि रुण्णउं
 जाइवि दोहिं मि थीयणसारी
 भणु भणु केण ताउ संघारिउ
 कुलिसिहि कुलिसु केण मुसुमूरिउ
 केसरिकेसरग्गु किं छिण्णउं
 केण सदेहु हुणित कालाणणि

ता तहिं सुयजुवल्लउं आयउं । 5
 पियमडउल्लउं बाणविहिण्णउं ।
 पुच्छी अम्माएवि भडारी ।
 केण सैपाणणासु हक्कारिउ ।
 सेसफडाकडप्पु किं चूरिउ ।
 केण गरलु हालाहलु चिण्णउं । 10
 को पइट्टु वइवसमुहघंघलि ।

घत्ता—इज्जइ कहिउ रुयंतिइ भोयणरिद्धिभरि ॥
 सहसबाहु कयवीरु वि भुंजिवि मज्झु घरि ॥ २१ ॥

22

जहिं भुत्तउं तहिं भाणउं भिंदिवि
 गेय रिउ हरिवि महारिय धेणुय
 गज्जिवि पुणु वि रोसरसभरियउ
 ता जेट्टहु उवइट्टउ मायइ
 गय बेण्णि मि जण वीरं महाइय
 करि तरंगु रहवरु गरु णावइ
 लंभिरकेसइं भउहाभीसइं
 णासंत वि खत्तिय णिक्खत्तिय
 जो भूर्आलु णाम चिरु राणउ
 देउ महासुक्कंतरि जायउ
 समउं तेण गम्भेण पलाणी

कंतु महारउ कंडहिं छिंदिवि ।
 ता संथविय संपुत्तिहिं रेणुय ।
 णयणजुयलजलु जणणिहि पुसियउ ।
 परसुमंतु दिण्णासीवायइ ।
 तं साकेयणयरु संप्रोइय । 5
 दसदिसु चडलु परसु परिधावइ ।
 पियपुत्तहं खणि छिण्णइं सीसइं ।
 वइवसमुहकुहरंतरि घत्तिय ।
 जो तउ चरिवि मरिवि सणियाणउ ।
 जो पुणरवि जम्मंतरि आयउ । 10
 सइ विचित्तमइ णामं राणी ।

घत्ता—णियपइपुत्तहं मरणं सोयविसंतुलिय ॥
 सुंदरि भयकंपियतणु कत्थइ संचलिय ॥ २२ ॥

३ AP जणणहु. ४ A आयण्णवि तहिं; P आयण्णंतहि. ५ A जोयवि. ६ P ताउ केण. ७ A सुपाण-
 णासु. ८ A जि छित्तउ. ९ AP भुत्तउं. १० AP ०हरि.

22 १ AP गउ. २ AP महारी. ३ A सपुत्तिहि. ४ P धीर. ५ AP संपाइय. ६ AP
 भूपाळ. ७ AP सो.

5 a जं जणयहु जायउं तातस्य मरणम्. 6 b पियमडउल्लउं पितृमृतकम्. 7 a थीयणसारी
 स्त्रीजनमध्ये उत्तमा. 9 कुलिसिहि इन्द्रस्य. 10 b चिण्णउं भक्षितम्. 11 b ०घंघलि ०विघ्नप्राये.
 12 इज्जइ मात्रा; ०रिद्धिभरि ०रुद्धिभृते मम गृहे.

22 2 a महारिय मदीया; b सपुत्तिहि स्वपुत्राभ्याम्. 3 b पुसियउं मार्जितम्. 4 b
 दिण्णासीवायइ दत्ताशीर्वादया मात्रा. 6 a णावइ अभिमुखं नागच्छति. 7 a भउहाभीसइं भुकुटि-
 भीषणानि. 8 a णिक्खत्तिय निपातिता; b वइवसमुह ० यममुखम्. 9 a भूर्आलु भूपालो विशाल-
 नगरपतिः. 13 a सुंदरि विचित्रमतिः.

23

सा गुरुहार दिदु संडिल्ले
अपिय सां सुबुद्धिणिगंथहु
वसैइ जिणालइ गइ रणयालइ
पुत्तु पसूइ देवहिं रक्खिउ
पुच्छिउ साहु समंजसु घोसइ
सोलहमइ पत्तइ संवच्छरि
देवीभायरेण हयसल्ले
पडिभडवरसिरखुडणसमत्थइं
पत्तहि रिसिजैमयग्गिहि पुत्ते

तावसेण संसयणवच्छल्ले ।
सुद्धसहावहु कहियसुपंथहु ।
फुल्लियकाणणि तहिं मिगमेलइ ।
मायइ कुलउद्धरणु णिरिक्खिउ ।
णंदणु छक्खंडाहिउ होसइ । 5
तुहुं पेच्छिहिसि चिंधु तणुरुहवरि ।
णिउ णियभवणहु सिंसु संडिल्ले ।
परिपालिउ सिक्खिउ सत्थत्थइं ।
जयसिरिरइरसलंपडचित्ते ।

यत्ता—जणमरणु सुअरंते मारिय रायवर ॥

10

परसुमंतैमाहप्पे राणे करवालकर ॥ २३ ॥

24

एक्कवीसवारउ णिक्खत्तिवि
वहियवेयवयणमाहप्पहं
जाया रिद्धिइ सक्कसमाणा
जहिं दीसइ तहिं पसु मारिजइ
सोमपाणु महुमहुरउ पिज्जइ
विउलजणमंडवसिरि दावइ
णिच्चमेव संठियपडिहारइ
पयडियदंतपंतिवियरालइं
ताराणियरसिसिरकरधवलइं
जायउ सर्व्वभोमभूवालउ
गुरुहारहि कह कह व चलंतहि

खत्तिय सयेलु वि छारु पैरसिवि ।
पुहइ असेस वि दिण्णी विप्पहं ।
जहिं दीसहि तहिं दियवर राणा ।
पियरहं ढोपप्पिणु पलु खज्जइ । 5
सामवेयपउ मणहरु गिज्जइ ।
होमहुयासधूसु णहि धावर ।
परसुरामदेवसेसुवारइ ।
खांभि खांभि कीलियइं कवालइं ।
णं जसवेल्लिहि फुल्लइं विमलइं ।
किं वण्णिज्जइ तावसवालउ । 10
मायहि पसवणवियणकिलंतहि ।

23 १ A सिंसुजणवच्छल्ले; P ससुयणि वच्छल्ले. २ AP सह सुबंधु°. ३ A तेत्थु सा वि जा वसइ जिणालइ; P वसइ जिणालइ गय रणयालइ. ४ A सचिंधु तणु°. ५ A सिरिजम°. ६ AP सुम-रंते. ७ A मंतिमाहप्पे रण°.

24 १ A सयल वि. २ AP पवत्तिवि. ३ A सुदुवारइ. ४ A सब्वभूमिभूवालउ.

23 1 a गुरुहार गर्भिणी; b ससयण° निजस्वजन°. 3 a गइ रणयालइ रणकाले गते सति. 5 a समंजसु न्यायवान्. 6 b चिंधु ध्वजम्.

24 1 b परत्तिवि भस्मीकृत्य. 8 b कीलियइं कवालइं जटितानि हतानां राशां कपालानि. 10 a सब्वभोमभूवालउ सर्व्वपृथ्वीपरिपालकः.

उप्पज्जइ सो को वि सुणंदणु
जामयगिणरणहें जेहउ

किज्जइ जेण वइरिसिरिछिंदणु ।
अण्णहु जयविलासु केहु पइउ ।

घत्ता—भरहु असेसु वि भुत्तउ हय रिउ तायवहि ॥
पुष्पयंत तहु तेणं सभय चरंति णहि ॥ २४ ॥

15

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहय महाकव्वे अरतित्थंकरणिव्वाणगमणं
परसुरामविहववण्णं णाम पंचसट्टिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६५ ॥

५ A कहिं. ६ A सुभूमचकवट्टिउप्पत्ती.

11 a गुरुहार हि गर्भिण्याः. 14 हय रिउ तायवहि पितृवधे रिपवो हताः. 15 a तहु तेणं तस्य इन्द्ररामस्य तेजसा.

एत्तहि गिरिगहणि तावसघरि वड्डइ सुंदरु ॥
लक्खणचेंचइउ ण्हणिवड्डिउ णाइ पुरंदरु ॥ ध्रुवकं ॥

1

करताडियघरफणिफणकडप्पु
लीलाइ धरियकेसरिकिसोरु
दियसिहिं वड्डिउ णं बालयंदु
सत्तुहि छिदंतहु अमरसेण
णं सहसबाहुकुलजसणिहाउ
चक्ककियकरयल्लु पायपउमु
विहवत्तणदुक्खोहरियछाय
सांडिल्लु मामु तुहं जणणि माइ
विणु तापं पुत्तु ण होइ जेण

उद्दालियवणमायंगदप्पु ।
तरुकीलिरकिणरिचित्तचोरु ।
णं सो णिववंसहु तणउ कंदु । 5
उव्वरिउ कहिं मि जो विहियसेण ।
णं परसुरामसिरकुलिसघाउ ।
हकारिउ मामें सो सुभैउमु ।
अण्णाहि दिणि पुच्छिय तेण माय ।
पर ताउ ण पिच्छमि महुरवाइ । 10
महु संसउ वट्टइ कहहि तेण ।

घत्ता—भैणु हउं कासु सुउ महियलि मंडणउ पहिल्लउं ॥

भणु किं कारणेण तुह हत्थि णत्थि कड्डिल्लउं ॥ १ ॥

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

यस्येह कुन्दा मलचन्द्रोचिःसमानकीर्तिः ककुमां मुखानि ।

प्रसाधयन्ती ननु बम्भ्रगीनि जयत्वसौ श्रीभरती नितान्तम् ॥ १ ॥

पीयूषसूतिकिरणा हरहासहार-

कुन्दप्रसूनसुरतीरिणिशक्रनागाः ।

क्षीरोद शेष बल याहि निहंस चैव

किं खण्डकाव्यधवला भरतः स्थ यूयम् ॥ २ ॥

A reads in the third line: बलयासिति हंस चैव; P reads बलसत्तम हंस चैव; AP reads in the fourth line भरतस्तु यूयम्. K has a gloss: या हि त्वं गच्छ; नि हंस नितरां हंस त्वमपि गच्छ । यूयं किं भरतः अतिशयात् खण्डकाव्यवत् धवला वर्तध्वे, अपि तु न । तर्हि गच्छन्तु.

1 १ AP णहि णिवड्डिउ. २ P °फणिफड°. ३ P उद्दालिय°. ४ A णिरु कीलिरकिणरि°. ५ P omits णं. ६ AP °सिरि कुलिस°. ७ A सुभूमु. ८ A °दुक्खे हरिय°. ९ A भणु कासु सुउ हउं महिलहि मंडणउ. १० AP कडउल्लउं.

1 1 तावसघरि शाण्डिल्यगृहे. 2 °चेंचइउ भूपितः. 7 a °कुलजसणिहाउ कुलयशः-समूहः. 9 a °दुक्खो हरियछाय °दुःखेन अपहृता शोभा यस्याः.

2

तावम्महि अंसुजलोल्लियाइं
जाणिवि णियतणयहु तणिय सत्ति
सुणि सुय जो सुव्वइ परसुरामु
तावट्टवीसधणुदंडतुंगु
तं णिसुणिवि णं जमरायदूउ
चूडामणिकिरणालेहियमेहि
दिउ णारायणकमकमलभसलु
सो पुच्छिउ तेण कयायरेण
सहसयरसिरुप्पललूरणेण

णयणइं णं कमलइं फुल्लियाइं ।
पडिलवइ सहसभुयरायपत्ति ।
तं मारिउ तुह पिउ अतुलथामु ।
वण्णे कणयच्छवि राणि अहंगु ।
आरुट्टु अरिहि सिहिचुरुलिभूउ । 5
तावेत्तहि रेणुयतणयगेहि ।
संपत्तउ कैहि मि णिमिच्चकुसलु ।
उद्धरियसंधरधरगुरुभरेण ।
णियजणणिमणोरहपूरणेण ।

घत्ता—पइं विप्पेणं जगि जीवहं भवियव्वु पमाणिउं ॥

10

महु कइयहुं मरणु भणु भणु जइ पइं फुहु जाणिउं ॥ २ ॥

3

तं णिसुणिवि विप्पे वुत्तु पम
भोयणकालइ रसरसियभावि
रिउदसण असणभावेण जासु
ता रापं णयरि महाविसाल
संणिहिय णिओइय दिण्णु दाणु
पीणिवि देसिय तित्तिइ डंरंत
दसदिसिपहइ पसरिय पइ वत्त
अइदीहरपंथे मंथिएण
भो भो कुमार लहु जाहि जाहि

रायाहिराय भो णिसुणि देव ।
अग्गइ दक्खालिइ कयसरावि ।
णिव परिणमंति तुहुं वज्झु तासु ।
काराविय तक्खणि दाणसाल ।
धिउं दुद्धु दहिउं इच्छापमाणु । 5
णिच्चं चिय दाविजंति दंत ।
कयवीराणुयसुइसुसिरु पत्त ।
वैणि जंतं वुत्तउ पंथिएण ।
साकेयणयरि भुंजंतु थाहि ।

घत्ता—किं वणतरुहलेहिं खद्धेहिं मि तित्ति ण पूरइ ॥

10

पेच्छिवि तुज्झु तणु महुं भायर हियवउं जूरइ ॥ ३ ॥

2 १ AP ता अम्महि. २ AP रिउहि. ३ A कह व. ४ A सधरगुरुभायरेण. ५ A पूरण. ६ A विप्पेण वर जगि; P विप्पे वर जगि. ७ AP पमाणियउं. ८ AP जाणियउं.

3 १ AP पीणिय. २ A फुरंत. ३ A दहदिसिपह^०; P दसदिसिपह^०. ४ A कुमारहु अक्खिउ ता पंथिएण.

2 1 a अंसुजलो ल्लियाइं अश्रुजलार्द्राणि. 2 b पत्ति विवित्रमतिः. 5 b सिहिचुरुलिभूउ अग्निज्वालासदृशः. 7 a दिउ द्विजः. 9 a सहसयरं सहस्रबाहुः. 11 कइयहुं कदा.

3 2 a रसरसियभावि रसज्ञायको रसिकः भावः परिणामस्तत्र; b कयसरावि स्थापित-शरावे. 3 a असणभावेण ओदनभावेण; शरावे ये शत्रूणां दन्ताः स्थापिताः ते यस्य पुरुषस्य दर्शनेन ओदनो भविष्यति तेन त्वं वष्य इत्यर्थः. 5 a णिओइय किकराः. 6 a देसिय यात्रिकाः; डंरंत भीताः. 7 b कयवीराणुयं सुभौमः; सुइसुसिरु कर्णविवरम्.

4

जहिं रायडु केरउं अत्थि दाणु
 भोयणपत्थावइ मुहरुहोहु
 सो जासु कुरु होही सुरामु
 तहिं गच्छहि पेच्छहि चोजु वप्प
 तं णिसुणिवि मणि चिंतइ कुमारु
 दुज्जणकरगाहगलत्थियाइं
 वरिसावियबंधवलोयवसण
 सो णिहयंजणणिजोव्वणवियारु
 वरिसइं परमाउसु जमदुगेज्जु
 लइ णियइ ण दुक्कइ अंतरालि
 अह वा जइ मरमि ण तो वि दोसु

जहिं जणवउ भुंजइ अप्पमाणु ।
 जहिं दंसिसिज्जइ ससिअंतसोहु ।
 तहु हत्थे मंरिही परसुरामु ।
 किं अच्छइ काणणि णिव्वियप्प ।
 उहु उहु णेरु जंगलपुंजु फोरु । 5
 जे दिट्ठइं सयणइं दुत्थियाइं ।
 जेणायणिय णंदंत पिसुण ।
 अम्हारिसु जीवइ भूमिभारु ।
 धुवु सट्ठिसहासइं आउ मज्जु ।
 रिउ चूरमि मारमि कलहकालि । 10
 लइ अज्जु करमि हउं सहलु रोसु ।

वत्ता—तायवियारणउं जं वइरु रिणु य चिरु दिण्णउं ॥

तं हउं तासु राणि लइ अज्जु देमि उच्छिण्णउं ॥ ४ ॥

5

इय भणेवि वीरो^१ धुरंधरो
 कायकंतिधवैलियदिसावहो
 धरणिविजयासिरिविजयलंपडो
 दंडपाणिपोत्थयपरिगहो
 कुसपवित्तयंकियकरंगुली
 सहयरेहिं सह लच्छिमाणो
 दाणमंडवं खणि पइट्ठओ

समरभारवहणेककंधरो ।
 चिकरंतच्छकण्णुपाणहो ।
 कसणकुडिलधम्मिल्लसंपडो ।
 रत्तचीरवेचइयविग्गहो ।
 कोसलं पुरं पत्तओ बली । 5
 वेयघोसबहिरियदिसाणो ।
 तं णिउत्तमणुपहिं दिट्ठओ ।

4 १ P^०पत्थारइ. २ A मरही. ३ A णरजंगलु. ४ AP भारु. ५ AP णिहियजणणिहि जोव्वण^०. ६ AP समरकालि. ७ A वइरु रिणु चिरु ण दिण्णउं; P वइरु रिणु व चिरु दिण्णउं.

5 १ AP धीरो. २ AP^०कविलिय^०. ३ A चिकरंतु छकण्णुवाणहो; P चिकरंतु छकण्णुवाणहो.

4 1 b अप्पमाणु अतिवहुलम्. 2 a भोयणपत्थावइ भोजनप्रस्तावे; मुहरुहोहु दन्त-समूहः; b ससिअंतसोहु चन्द्रकान्तसदृशः. 2 a सुरामु मनोहरः 4 a चोजु आश्रयम्. 5 b जंगल-पुंजु मांसपुञ्जः. 8 a णिहयजणणिजोव्वणवियारु निहतः जननीयौवनविकारः कुचानामधःपतना-येन सः.

5 2 b छकण्णुपाणहो^० षट्कर्णोपानद्युक्तः. 3 b^० धम्मिल्लसंपडो मुक्तकेशः. 5 a कुस-पवित्तय^० दर्भमुद्रिका.

तेहिं तस्स णविऊण णीरयं
आसणे णिविट्ठेस्स णिम्मलं

पायपोमपक्खालणं कयं ।
णीलदब्भंखंडं पुणो जलं ।

घत्ता—पुणु अहियारिपहिं ढोएप्पिणु मिट्टुउ भोयणु ॥

10

दसणुक्केरु तहु दक्खालिउ जायउ ओयणु ॥ ५ ॥

6

जं दंत जाय णवकलमसित्थ
हणु हणु भणंत करफुरियखग्ग
परमेसरु ते णउ गणइ केव
जो दसणपुंजु तं^३ कूरु जाउ
उट्टिवि दिट्ठिइ चप्परिय सव्व
चिण्णविउ तेहिं पहु परसुधारि
आएसपुरिसु संपत्तु भीमु
सपसाहणेण हरिवाहणेण
आवंतु दिट्ठु बालें अणेण
जइ अत्थि को वि सुक्कियपहाउ
इय चित्तिवि तेण सुकम्मवाउ
भामिउ णहि जायउ णिज्जियक्कु

तं उट्टिय भड रणभेरसमत्थ ।
बालहु अखत्तधम्मेण लग्ग ।
कंठीरउ वणि गोमाउ जेव ।
तं जोयइ णं णियजसणिहाउ ।
गय णासेप्पिणु भड गलियगव्व । 5
भो पुहइणाह रिउ जीवहारि ।
तं णिसुणिवि णिग्गउ इंदरामु ।
संणज्झिवि लहु सहं साहणेण ।
भुयदंड तुलिय हरिसियमणेण ।
तई एउ जि पहरणु मज्जु होउ । 10
तं दंतं कूरपूरिउ सराउ ।
आरासहासविप्फुरियउ चक्कु ।

घत्ता—रिसिसुउ तेण हउ मारिउ गउ णरयणिवासहु ॥

दुग्गइ सावडइ सव्वहु वि लोइ कयहिंसहु ॥ ६ ॥

7

दुइसय कोडिहिं वरिसहं गयहं अरतित्थे

राउ सुभोमउ रामाकामउ हुउ सुत्थे ।

४ AP णमिऊण. ५ A आसणोपविट्ठस्स. ६ A णीलदब्भं^०.

6 १ A भड समत्थ. २ P अकखत्तधम्मेण. ३ AP तहिं कूरु. ४ A चप्परिवि. ५ A adds after this: बोळ्ळिउ पडिभडडडभंजणं. ६ A तइ एउ; P ता एउ. ७ A सकम्मवाउ. ८ A दंतंत-कूर. ९ AP विप्फुरिउ.

7. १ A दुइसय वरिसहं गइयहं कोडिहिं; P दुइसय वरिसहं कोडिहिं गइयहं. 2 AP सुभउ-मउ. ३ A हुवउ सुत्थे; P हुउ सत्थे.

8 a णीरयं धूलिरहितं यथा भवति तथा. 11 दसणुक्केरु दन्तसंघातः.

6 2 b अखत्तधम्मेण अक्षत्रधमेण अन्यायेन, स एकः ते बहवः इति अक्षत्रत्वं जातम्. 3 a परमेसरु सुभौमः; b गो माउ शृगालः. 5 a चप्परिय उत्सारिताः. 8 a सपसाहणेण शृङ्गारितेन; हरिवाहणेण अश्ववाहनेन. 10 b एउ ओदनशरावः. 11 a सुकम्मवाउ सुकर्मपाकः. 13 रिसि-सुउ इन्द्ररामः. 14 सावडइ संपद्यते; लोइ लोके.

7 2 सुत्थे प्रशस्ते अरतीये.

माणु मलेष्पिणु दुँदुहं धिदुहं दुज्जणहं हित्तइं छत्तइं चमरइं चिधइं बंभणहं ।	
रहजंपाणइं पिउसंताणइं लद्धाइं चउदहरयणइं णव वि णिहाणइं सिद्धाइं ।	5
छक्खंड वि महि जयलच्छीसहि भुत्त किह असिणा तासिवि णापं भूसिवि दासि जिह ।	
एक्कहिं वासरि उग्गाइ दिणयरि उत्तसिउ विरइयभोयणु अमयरसायणु भाणसिउ ।	10
कयलालाजल णावइ कोमल झंदुलिय तेण सिरीधरि दिण्णी णिवकरि अबिलिय ।	
सा भक्खंतं रसु चक्खंतं सिरु धुणिउं रीए तं रूसिवि तहु गुण दूसिवि जं भणिउं ।	15
तं खलसंदहिं णिरु दुवियदुहिं पोसियउं जीविउ धीरहु तहु सूवारहु णासियउं ।	
मरिवि सतामसु जायउ जोइसु दुक्कु तहिं छण्णं रोसं वणिवरवेसं राउ जहिं ।	
तं महिवालहु जीहालोलहु ढोईयइं फलइं अणेयइं बहुरसंभेयइं जोईयइं ।	20
गइं पक्खंतरि अह मासंतरि रहइ खलु वणिउ सरापं मग्गिउ राए देहि फलु ।	
तेण पवुत्तउं देव णिरुत्तउं णिट्टियइं णिरु दूरंतरि परदीवंतरि संठियइं ।	
घत्ता—फलसंदोहु मइं सुरवरहुं पसाएं लद्धउ ॥ णिच्छउ णिट्टियउ लइ पइं जि भडारा खद्धउ ॥ ७ ॥	25

8

सखउं वसुहाहिव कहमि तुज्जु
तुह पुणु पहु अवलोयणि तसंति

एवहिं ते देव ण देति मज्जु ।
इयरहं कह महिमंडलि वसंति ।

४ AP धिदुहं दुदुहं. ५ A चमरइं छत्तइं चिधइं; P चमरइं चिधइं छत्तइं. ६ जाणइं सयणइं लद्धाइं.
७ P अमिय°. ८ A झिंदुलिय. ९ A भक्खंतइं. १० A चक्खंतइं. ११ A राएं रूसिवि. १२ P राइ-
यइं. १३ AP बहुविहभेयइं. १४ P ढोइयइं. १५ P गहपक्खंतरि. १६ A णिउत्तउं.

8 णापं न्यायेन. 11 झं दु लिय अम्लिका चिद्धा. 18 छण्णं प्रच्छन्नेन. 22 सरापं सराणेण. 26 णि-
द्वियउ समाप्ति गतम्.

राएं पंडिवणुणउं वयणु तासु
णिउ णरपरमेसह तेण तेत्थु
जीह्दिदियविसयं वसेण खविउ
चट्टयविहत्थु रोसेण फुरिउ
पभणिउ मइं जाणहि किं ण पाव
चिचिणिहलत्थि दप्पिट्टु दुट्टं
इय कहिवि तेण सयखंडु करिवि

भणु भुवणि ण दुक्कइ णियइ कासु ।
करिमयरभयंकरु जलहि जेत्यु ।
तहिं सिहरि सिलायलि णिवइ धविउ ।⁵
सूयारवेसु देवेण धरिउ ।
खलवयणणडिय रे कूरभाव ।
हउं पइं जम्मंतरि णिहउ कट्टं ।
मारिउ गउ णरयहु भउमु मरिवि ।

घत्ता—गोत्तमु वज्जरइ मगहाहिव चारु चिराणउं ॥

10

अणु वि णिसुणि तुहुं बलणारायणहं कहाणउं ॥ ८ ॥

9

इह खेत्ति णिसेविवि जइणमग्गु
तहिं एक्कु सुकेउ सहुं ससल्लु
इह भारहंति संपुण्णकामु
इक्खाउवंसगयणयलि चंदु
तहु देवि पढम पिय वइजयंति
जइयहुं सुभउमि मुइ जाणियाहं
तइयहुं संचुउ सोहम्मदेउ
अण्णेक्कु लच्छिमइयहि ससल्लु
तहिं एक्कु पकोक्किउ णंदिसेणु
णामइं हक्कारिउ पुंडरीउ
ते वेण्णि वि णीलसुपीयवसण
देहं मि विच्छिण्णउ आवयाउ

दो पत्थिव गय सोहम्मसग्गु ।
किं वण्णामि मूढंउ मोहगिल्लु ।
चक्कउरि णाहु वरसेणु णामु ।
दानोल्लियकरु णं सुरकरिंदु ।
लच्छिमइ वीय णं ससिहि कंति ।⁵
छहसयसमकोडिहिं झीणियाहं ।
हुउ पुत्तु जयंतिहि सोक्खहेउ ।
किं वण्णामि अप्पडिमल्लमल्लु ।
अण्णेक्कु वि दुत्थियकामधेणु ।
किं थुणमि वइरिमृगपुंडरीउ ।¹⁰
ते वेण्णि वि भायर धवलकसण ।
देहं मि संसिद्धउ देवयाउ ।

घत्ता—सीरिहि साहियइं छप्पणसहासइं वरिसहं ॥

चक्किहि णाहियइं परमाउसु एवं सुपुरिसहं ॥ ९ ॥

8 ३ A वडिवणुणउं. २ AP^० विसयविसण. ३ A चट्टुवविहत्थु; P चट्टुअविहत्थु. ४ A दुट्टं.
५ A कट्टु.

9 १ A मुउ. २ A मोहं मूढगिल्लु. ३ A चक्कउरणाहु. ४ AP अण्णेक्कु वि लच्छिमइहि. ५ AP
अप्पडिमल्लु. ६ AP मिग^०. ७ AP read a as b and b as a. ८ P संच्छिण्णउ. ९ AP एउ.

8 3 b णियइ भवितव्यता. 5 a खविउ क्षितः. 6 a चट्टुयविहत्थु चाट्टुकारेण व्याकुलः.
8 a चिचिणिहलत्थि चिच्छिणीफलनिमित्तम्; b णिहउ मारितः.

9 3 a भारहंति भरतमध्ये. 4 b दानोल्लियकरु दानाद्रंकरः. 6 b छहसयसमकोडिहिं
षट्शतवर्षकोटिभिः. 7 b जयंतिहि वैजयन्त्याः. 10 b पुंडरीउ व्याघ्रः. 12 a आवयाउ आपदः.
14 णाहियइं न अधिकानि, तत्त्वानि एव षट्पंचाशद्वर्षसहस्राणि.

10

छवीसचाव देहहु पमाणु
इंदउरि णरिंदु उविंदसेणु
तहु तेण धीय दामोयरासु
तं हरहुं पराइउ पहु णिसुंभु
जायउं रणु विज्जहि लग्ग वे वि
पडिहरिणा घल्लिउ धगधगंतु
तेणाहउ उरयलि पडिउ वेरि
गउ णरयहु णियमणगहियखेरि
हरि हलहर रज्जु करंत थक्क
सब्भंतरि णिवडिउ चक्कपाणि
सिंघोसगुंरुहि उवएसएण

तहिं ताहं पडुत्तणु जाणमाणु ।
जो देवहिं गेज्जइ धरिवि वेणु ।
पोमावइ दिण्ण कयायरासु ।
चिरभवि सुकेउ सो रिउणिसुंभु ।
अवरोप्परु णउ सक्किय हणेवि । 5
धरियउं कण्हेण रहंगु पंतु ।
अइभीसणु कयधम्मावहेरि ।
महि सांहिवि पहयाणंदभेरि ।
ता काले अणुयहु दिट्ठि मुक्क ।
हलिणां विरइय कम्मावहाणि । 10
सिद्धउ मुक्कउ मोहे मएण ।

घत्ता — भरहणराहिवहिं मणभरियभत्तिपइरिक्कहिं ॥

वंदिउ विसहरेहिं खगपुप्फयंतगहचक्कहिं ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए

महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुभउमचक्कवट्टि-

वलएववासुएवपडिवासुएवकहंतं णाम

छसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६६ ॥

10 १ AP सहिवि. २ AP हलिणा पुणु विरइय कम्महाणि. ३ A ०रिसिहि. ४ AP omit पडिवासुएव. ५ P adds सत्तमचक्कवट्टि अर स एव तित्थयर अट्टमचक्कवट्टि सुभौम छट्टवलएव णंदिमेण, वासुदेव पुंडरीय, पडिवासुएव णिसुंभ एतच्चरियं सम्मत्त; K gives this in margin.

10 5 b णविसक्कियहणेवि हन्तुं नैव शक्ती. 7 b कयधम्मावहेरि धर्मनिरादरः. 8 a ०गहियखेरि गृहीतकलहः. 9 b कालेअणुयहु दिट्ठिमुक्क कालेन यमेन अनुजस्योपरि दृष्टिः मुक्ता, अनुजो मृत इत्यर्थः. 10 a सत्तमंतरि श्रम्रमध्ये. 12 ०भत्तिपइरिक्कहिं भक्तिप्रगुणैः. 13 ०गहचक्कहिं ग्रहसमूहैः.

तिहुवणसिरिधरो सल्लुविवज्जिओ ॥
जो परमेसरो सयमहपुज्जिओ ॥ धुवकं ॥

1

जेण हओ णीहारओ	रुइणिज्जियणीहारओ ।	
सुजसोधवलियहंसओ	जस्स भुवणसरहंसओ ।	
जा कंती मयलंछणे	संपुण्णा जाय छणे ।	5
सा वि जस्स मुहपंकए	इर मज्जइ णिप्यंकए ।	
मोत्तूणं महिवइवलं	चित्तं सोदामणिचलं ।	
गाढं जेण वसं कयं	मुणिमग्गे णीसंकयं ।	
हिंसायारो वारिओ	जो कोषाणलवारिओ ।	
कामभोर्येआसी हया	सरहस्स व वणसीहया ।	10
णट्ठा जस्स विवाइणो	अइबहुकम्मविवाइणो ।	
सोउं जस्स सुआमयं	हंतूणं मोहामयं ।	
पुरिसा णिकलधामयं	पत्ता णाणसुधामयं ।	
आयंबुज्जलकरणहं	भयवंतं णियकरणहं ।	

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:—

इह पठितमुदारं वाचकैर्गीयमानं
इह लिखितमजस्रं लेखकैश्चारु काव्यम् ।
गतवति कविमित्रं मित्रतां पुण्यदत्ते
भरत तव गृहेस्मिन्भाति विद्याविनोदः ॥ ५ ॥

1 १ A सिरिवरो. २ K reads a p : मिजइ इति पाठे मीयते. ३ A महिवइवलं. ४ T reads a p : कामभोइआसी इति पाठे काम एव भोगी सर्पस्तस्य आसी दंष्ट्रा.

1 3 a णीहारओ नृणामीहारजः मिथ्याचेष्टाजनिनं कर्म; b °णीहारओ हिमांशुः. 4 a सुजसोधवलियहंसओ शोभनेन यदासा धवलितः हंसः आदित्यः येन; a भुवणसरहंसओ भुवनसरसि हंसवद्रमते (यदाः). 5 b छणे पौर्णमास्याम्. 9 b इर किल; मज्जइ बुडति; णिप्यंकए निर्मले. 7 a महिवइवलं राजलक्ष्मीम्. 6 b °वारिओ मेघः. 10 a कामभोर्येआसी हया कामभोग एव आशी सर्पस्य दंष्ट्रा हता येन; अथवा कामभोगानामासी प्रार्थना सा हता येन; b सरहस्सव अष्टापदस्थेव. 11 a विवाइणो मिथ्यावादिनः; b °कम्मविवाइणो कर्मविपाकवन्तः. 12 a सुआमयं भ्रुतामृतम्; b मोहामयं मोहव्याधिम्. 13 a णिकलधामयं सिद्धस्थानम्. 14 a आयंबुज्जलकरणहं आताम्रो-ज्ज्वलहस्तनखम्; b णियकरणहं निजेन्द्रियघातकम्.

णिम्मलत्तणिरसियणहं तं मल्लिं णमिऊण हं । 15
बोच्छं तस्सेव य कहं इयरह मोक्खविही कहं ।

घत्ता—पढमइ दीवइ सुरगिरिपुव्वइ ॥
कच्छादेसइ सोहादिव्वइ ॥ १ ॥

2

वीयसोयणयरेसरो रायां रूवी विव सरो ।
धीरो जियपरमंडलो विहवेणं आहंडलो ।
कोसेणं वइसवणओ णामेणं वइसवणओ ।
अण्णस्सि दियहे घणं गंतूणं कीलावणं ।
पंकेरुहरयधूसरो रमइ जाम पुहईसरो । 5
ताम पवासियदिहिहरो सुरधणुमंडियजलधरो ।
थोरथेभंधिप्पिरणहो पच्छाइयइसादिसिवहो ।
फुल्लियफुडयकयंबओ वियसावियदालिबओ ।
णिरपूरपरियधरो किडिकरडीण सुहंकरो ।
पत्तो वासारत्तओ दूरं कंको मत्तओ । 10
णञ्जावियसिहिउलणओ विज्जुजलणजलिओ वडो ।
पर्यलियपल्लवराहयं हुयवहपउलियसाहयं ।
दट्टूणं तं पायवं चितइ णिवई णवं णवं ।
होइ जयं पुणु णासए णिच्चं चिय ण हु दीसए ।

घत्ता—जिह णग्गोहओ दाणिं दिट्ठओ ॥ 15
तडिदंडाहओ सहसा णट्ठओ ॥ २ ॥

3

णासिंहिति तिह हय गया विंधलत्तचामरचया ।
देहो जो रसपोसिओ रयणाहरणविहसिओ ।

५ A णविऊण.

2 १ A राये रूवे जियसरो. 2 AP वीरो. ३ AP अण्णेमं. ४ AP ०जलहरो. ५ AP ०थिभं.
६ A पयडियं. ७ A णरवइ.

3 १ A ०चामरचया.

15 a णि म्मलत्तणिरसियणहं निर्मलत्वेन तिरस्कृतं गगनं येन. 16 b इयरह अन्यथा.

2 1 b सरो स्मरः कामः. 6 a पवासियदिहिहरो पथिकधृतिहरो वर्षाकालः. 7 a ०थंभं
बिन्दुः; ०थिप्परं क्षरत्. 8 b ०दालिबओ गोमयच्छत्रं शिलीन्ध्रकम्. 9 b किडिं सूकरः; करडी गजः.
10 b कंको बकः. 11 b विज्जुजलणजलिओ विद्युदग्निना भस्मीकृतः. 12 a पयलियपल्लवराहयं
प्रगलितपल्लवशोभं वटवृक्षम्; पउलियं प्रज्वलिता दग्धाः.

3 1 b ०चामरचया चामरसमूहाः.

सिभवसापित्तासओ	सो वि ण होही सासओ ।	
इय भणिउं दाउं सिरिं	णियतणयस्स गओ गिरिं ।	
सिरिणायं सिहरुण्णयं	दरितरुकीलियपण्णयं ।	5
संबोहियबहुवणयरं	सिरिणायंकं मुणिवरं ।	
णविऊणं जाओ जई	सामंतेहिं समं वई ।	
एयारह वि सुयंगइं	पडिऊणं अविहंगइं ।	
धरिऊणं हिययं ददं	चिण्णं चरियं णीसदं ।	
इदं चंदकयकित्तणं	बद्धं तित्थयरत्तणं ।	10
अहमिंदेहिं विराइए	संभूयउ अवराइए ।	
तेत्तीसंबुहिकालए	गइ थिइ छम्मासालए ।	

घत्ता—तम्मि कालए अमलिणवेसहो ॥

सोहम्माहिवो कहइ धणेसहो ॥ ३ ॥

4

सुणि इह भरहे अंगए	विसए धम्मवसंगए ।	
मिहिलेउरणयरहिबो	दीणेसुं य पसरियकिवो ।	
रिसहगोत्तवंसुब्भवो	कुंभो णाम महाणिवो ।	
किं किर कहमि महासई	देवी तस्स पैयावई ।	
णिकंदण्णो णिब्भओ	होही ताणं अब्भओ ।	5
भुवि हिरण्णगब्भो गुणी	जं धुणांति देवा मुणी ।	
कुणसु तस्से णयरं तुमं	ता धणएण अणोवमं ।	
सहसा रइयं तं पुरं	रयणजालफुरियंवरं ।	
पुण्णणं पिव संचए	पासाए मणिमंचए ।	
राइविरामे सुत्तिया	पेच्छइ पंकयणेत्तिया ।	10
साहियसिरियणुभवणए	एए सोलह सिचिणए ।	

घत्ता—पूणं मत्तयं धोरेयं सियं ॥

सारंग्गाहिवं गोवद्धणपियं ॥ ४ ॥

२ A णमिऊणं. ३ P पडिऊणं.

4 १ A महिलावर^०. २ A दीणेसुं; P दीणेसु पसरिय^०. ३ AP महाहिवो. ४ AP पहावई.
५ A तासु.

3 a ^०पित्तासओ पित्ताश्रयः. 5 a सिरिणायं श्रीनागपर्वतम्. 6 b सिरिणायेके श्रीनागाङ्गम्.
7 b वई स्फुटम्. 8 b अविहंगइं परिपूर्णानि. 9 b णीसदं निष्कपटं शटस्वरहितम्. 12 b छम्मासा-
लए षण्मासकाले स्थिते सति.

4 5 b अब्भओ अर्भकः. 7 b अणोवमं अद्वितीयम्. 11 a साहियसिरिअणुभवणए
साधितं श्रियाः अनुभवने अनुभवो यैस्तादृशान् स्वप्नान्. 12 पूणं गजम्; धोरेयं वृषभम्. 13 सारंग्गाहिवं
सिंहम्; गोवद्धणपियं गोवर्धनो विष्णुस्तस्य प्रिया लक्ष्मीः ताम्.

5

मालाओ कयजणदिहिं	अमयरुहं सररुहसुहिं ।	
भावभरियवम्महरसं	अणिमिसमिहुणं रइवसं ।	
धवलघडाणं जुयलयं	हंसीचुंबियकुवलयं ।	
पुलिणणिलीणबलाययं	सजलं कमलतलाययं ।	
सरिरायं रसणारवं	मणिवीढं हरिभइरवं ।	5
अच्छरणाइणिगेयए	इंदफणिंदणिकेयए ।	
हरियं पीयं तंबयं	रयणाणं णिउरुंबयं ।	
दट्टुणं मरुजालियं	अग्गिं जालामालियं ।	
पडिबुद्धा परमेसरी	कहइ सपइणो सुंदरी ।	
मइं विइणणलोयणरइं	दिट्ठा सिविणयसंतइं ।	10

ग्रत्ता—तिस्सां तं फलं कहइ नृसारओ ॥

तुह होही सुओ देवि भडारओ ॥ ५ ॥

6

धरिही जो रयणत्तयं	णविही जस्स जयत्तयं ।	
लहिही जो छत्तत्तयं	जाइजरा मरणत्तयं ।	
डहिही जो णिब्भंतयं	जाही मोक्खमणंतयं ।	
सो ते होही डिंभओ	सुहिजणलग्गणखंभओ ।	
अमरविलासणिसत्थओ	पत्तो मंगलहत्थओ ।	5
सुविसुद्धे गब्भासए	धणधारावरिसे कए ।	
पढममासि पढमे दिणे	आंसिणिगइ हरिणंकणे ।	
राणउ जो रइकंदओ	वइसवणो अहमिंदओ ।	
गयरूवेणवइणणओ	राणीगब्भि णिसणणओ ।	
सो सुरेहिं अहिणंदिओ	फणिकिणरणरवंदिओ ।	10

5 १ A °वलालयं. २ A तडालयं. ३ A तस्सा. ४ AP णिसारओ.

6 १ A सो तव होही. २ A अस्सिणि°. ३ A राओ जो. ४ AP रुइरुंदओ.

5 1 b अमयरुहं चन्द्रम्; सररुहसुहिं सूर्यम्. 2 b अणिमिसमिहुणं मत्स्ययुग्मम्. 4 a °वलाययं बलाका; b °तलाययं तडागम्. 5 a सरिरायं सरितां राजानं समुद्रम्; रसणारवं जलमानुपशब्दयुक्तम्; b हरिभइरवं सिंहैर्भयानकम्. 11 नृसारओ नृषु प्रधानो राजा.

6 1 b णविही नमस्यति. 3 a णिब्भंतयं भ्रान्तिरहितम्. 7 a पढमेत्यादि चैत्रप्रतिपदायाम्; b आसिणिगइ हरिणंकणे चन्द्रे अश्विनीगते. 8 a रइकंदओ सौख्यकन्दः. 2 a तुहिणायेरे चन्द्रे.

णिष्वाणं पत्ते अरे	वरिसकोडिसहसंतरे ।	
मग्गासिरे तुहिणायरे	सियण्यारसिवासरे ।	
आसिणिरिक्खे जायओ	तित्थयरो ह्यरायओ ।	
एक्कुणवीसमओ इमो	णररूवेण व संजमो ।	
अहिसि तो अमरायले	हरिणा पंडुसिलायले ।	15

घत्ता—मल्लियमालागंधो जाणिओ ॥

इंद्रेण जिणो मल्ली भाणिओ ॥ ६ ॥

7

अणुअत्थं पवियप्पिओ	जणणीहत्थे अप्पिओ ।	
घणडंबरघल्लियपया	देवा णियवासं गया ।	
बुहमुहपोमाणं इणो	बहुइ कालेण जिणो ।	
जाओ जायरूवाहओ	पंचवीसधणुंदीहओ ।	
आउसु तस्स सहासइ	वरिसहं पणपण्णासइ ।	5
वरिससए बोलीणए	आरूढो सुरपूणए ।	
कुणइ विवाहपवट्टणं	पेच्छइ कुंअरो पट्टणं ।	
परिहापाणियदुग्गमं	बहुदुवारकयणिग्गमं ।	
हेमघडियपायारयं	पवरट्टालयसारयं ।	
पोमरायंकयभारुणं	उब्भियधुयधयतोरणं ।	10
हसियणिसावइकंतियं	पेच्छंतो घरपंतियं ।	
सरइ प्ह अवराइयं	सुकयं मज्झु पुराइयं ।	
स्त्रीणं तेण विमाणयं	मुक्कं अहमिदाणयं ।	
एण्ह होही किं थिरं	णरजम्मे णयरं घरं ।	

घत्ता—छत्तायारयं सिवमहिमंडलं ॥

करमि तवं परं लहमि धुवं फलं ॥ ७ ॥

५ A अस्सिणि°.

7 १ A अणुअच्छे and gloss आश्चर्यम्; T अणुअत्थं आश्चर्यम्. 2 A °घणुदेहओ. ३ A सुस्थूणए. ४ AP कुमरो. ५ AP पोमरायकिरणारुणं.

13 b ह्यरायओ वीतरागः. 15 a अमरायले मेरौ.

7 1 a अणुअत्थं अन्वर्थम्. 2 a घण डंबर° आकाशम्. 4 a जायरूवाहओ सुवर्णाभः. 6 b सुरपूणए सुरगजे. 10 b °धुयं आन्दोलिताः. 12 a अवराइयं अपराजितं अनुत्तरविमानम्. 15 छत्तायारयं सिवमहिमंडलं छत्राकारं शिवानां सिद्धानां महिमण्डलं मोक्षस्थानम्.

8

ता सारस्सयभासियं	सोऊणं सुईमीसियं ।	
कुंभणिवस्स य तणुरुहो	तरुणीणं विवरंमुहो ।	
इंदेणं ससहरमुहो	ण्हविओ दिवखासंमुहो ।	
जयणे जाणे थक्कओ	कुवलयकुमुयमियंकओ ।	
कामेसुं सुविरत्तओ	सरयवणं संपत्तओ ।	5
जम्मदिणे णक्खत्तए	पक्खे तम्मि पउत्तए ।	
णिववरतिसयइए जुओ	मोहणिवंधाओ चुओ ।	
सायण्हे सुतवे थिओ	णाणत्तउक्केणंकिओ ।	
धिंत्तं पञ्चक्खाणयं	मोत्तुं भत्तं पाणयं ।	
बिहिं दिवसेहिं गएहिं सो	दसदिसिवहपसरियजसो ।	10
णिण्णेहो णीसंगओ	मिहिलाए भिक्खं गओ ।	
णंदिसेणवररोइणा	दिण्णं भत्तं जोइणा ।	
भुत्तं तणुणिवाहणं	संजमजत्तासाहणं ।	
घत्ता — पुणु दिक्खावणे सुरहियपरिमले ॥		
थक्कु असोयहो तलि धरणीयले ॥ ८ ॥		15

9

दिणि छक्के विच्छिण्णए	भिण्णे मिच्छादुण्णए ।	
हुउ देवाण वि देवओ	लद्धो खाइयभावंओ ।	
रिसिविजाहरसंसिओ	इंदपडिदणमंसिओ ।	
समवसरणि आसीणओ	अरिसुयणे वि समाणओ ।	
जीवमजीवं आसवं	संवरणिज्जरणं तवं ।	5
बंधं मोक्खं भासए	लोयं धम्मविसेसए ।	
थवइ तस्स णिसुणियञ्जुणी	अट्टवीस जाया गणी ।	

8 1 A सुयमीसियं. 2 A °तिसईए; P °तिसइएण. 3 P घेत्तुं. 4 A मोत्तं. P ५ °राहणो. 6 A भिक्खं; P भक्खं. 7 जोइणो.

9 P adds after this: पूसकिण्हकीयए तओ, पंचसु णाणुण्णओ. 2 A अरिसयणे; P अरिसयणा.

8 1 a सारस्स य° लौकान्तिकाः; b सु इ मी सियं आगमयुक्तम्. 2 b विवरं मुहो पराङ्मुखः. 4 a जयणे जयननाम्नि; b कु व ल य° भूमण्डलम्.

9 1 a दि णि छ क्के पारणानन्तरम्; तृतीये दिने पारणं जातं तदनन्तरं द्वितीयं पारणं न जातमित्यर्थः.

सयइं पंचपण्णासइं
पक्कणतीससहासइं

पुव्वधराहं णिरासइं ।
सिक्खुयाहं मलणासइं ।

घत्ता—दुसहसदुसयइं सावहि हयकलि ॥
तहिं जेत्तिय ते तेत्तिय केवलि ॥ ९ ॥

10

10

चउदहसय वाईसहं
णवसय दोणिण सहासइं
मणजाणहं सत्तारह
पंचावण्णसहासइं
सावयलक्खु अहीणउं
सुर असंख उम्मोहिवि
भवसमुदतडपाविण
पंचसहासहिं जुत्तओ
संमेण सिरहयणहे
भरणीरिक्खे मुक्कओ

विकिरियहं वि रिसीसहं ।
कुच्छियणयविद्धंसइं ।
सयपण्णास समीरह ।
विरइहिं मुक्कसवासइं ।
सावईहिं तं तिउणउं ।
पसु ससंख संबोहिवि ।
माससेसथियजीविण ।
रिसिहिं णाहु तमचत्तओ ।
फग्गुणि सियपंचमियहे ।
अट्टमपुहंइहि थक्कओ ।

5

10

घत्ता—हरउ भयंकरं भवविग्भमदुहं ॥
मल्लिमुणीसरो देउ सुहं महं ॥ १० ॥

11

मल्लित्थिसंताणे कयपडिवक्खवहं
बुहयणसुइसुहयरणं णिसुणह चक्किहहं ।
जंबूदीवसुरांयलि पुव्वविदेहं वरे
विउलि सुक्कच्छाजणवइ सिरिहरि सिरिणयरे ।
तडिकरालअसिधारातासियसयलखलो
पयपालो पुहइंसो पोसियपुहइयलो ।

३ A सिक्खुवाह; P भिक्खुयाह. ४ AP तहिं हुय जेत्तिय तेत्तिय.

10 १ A पण्णावण्ण°. २ A मुक्कसवासइं; P मुक्कभवसासइं. ३ A संभोहिवि. ४ AP मास-
सेसि थिइ जीविण. ५ AP °पुहविहि. ६ AP महं सुहं.

11 १ A °सुहजणणी; P °सुहजाणण. २ A सुरालए. ३ A विदेहि वरे.

10 सा व हि अबधिज्ञानसहिताः.

10 ३ b समीरह प्रतिपादय, कथय त्वम्. 5 a अहीणउं परिपूर्णमेकलक्षम्; b तिउणउं
त्रिगुणम्. 9 a सिरहयणहे मस्तकेन हतनभसि. 12 देउ ददातु.

11 2° सुइसुहयरणं °श्रुतिसुखकारकम्. 3° सुरायलि मेरौ. 5 तडिकराल°: वियुता रौद्रः.

णिसिसमप ददूणं उक्कं ण्हल्लहसियं
 सिधगुत्तस्स समीवे सुकियं तेण कियं ।
 बारहविहतवचरणं इंदियमयहरणं
 मुक्काहारसरीरं सल्लेहणमरणं । 10
 जायउ अष्टुयकप्पे अमरो मरिऊणं
 सग्गसिहरभवणाओ पुणु ओयरिऊणं ।
 इह भरहे कासीए वाणारसिणाहो
 आइदेवकुलतिलओ पडु पंकयणाहो ।
 मज्जे खामा सामा रामा तस्स सई 15
 जाओ देवो पोमो ताणं सुद्धमई ।
 तीसवरिससर्हासउ धणुवावीसतणु
 णयसंणिहियणरोहो पडु णं चरममणु ।
 गंगासिंधूणविओ साहियमहियमरो 20
 णिहिरयणालंकारो णवमो चक्कहरो ।
 यत्ता—पुहईसुंदरीपमुहउ धीयउ ॥
 अड्ड वि सिट्ठेउ सुट्ठु विणीयउ ॥ ११ ॥

12

णेहे णिउत्ताण विण्णाणजुत्ताण	दिण्णाउ ताओ सुकेयस्स पुत्ताण ।
णिच्छिज्जमाणेण दीहेण कालेण	रज्जं करंतेण भूचक्कवाल्लेण ।
देवेण सव्वाधणीरिद्धिरिद्धेण	दिट्ठो घणो खे पणट्ठो खणट्ठेण ।
कम्मरिचारित्तत्ती कया जाम	दुब्भंतिणा मंतिणा जंपियं ताम ।
जायंति भूयाण संजोयभावेण	जीवा ण बज्जंति पुण्णेण पावेण । 5
दिक्खाइ भिक्खाइ किं होउ हे राय	णाहेण सो उत्तु भो बुद्ध णिण्णाय ।
जं णेत्थि णो तस्स उप्पत्तिसंताणु	णो जम्मु णो कम्मु णो कस्सं णिव्वाणु ।
कूराण कउलाण कंकालचिंधाण	कीलालमत्ताण कंतारयंधाण ।

४ A उक्कं उल्लहसियं. ५ A रामा सामा तस्स. ६ A सहसाऊ. ७ A सिद्धउ.

12 १ A दिण्णाउ ता ताउ. AP सुकेउस्स. ३ A पिच्छिज्जमाणेण. ४ A खं पणट्ठो. ५ A अस्थि. ६ P धम्मणिव्वाणु. ७ A कंकालगिद्धाण.

7 ण हल्लहसियं गगनात् च्युताम्. 14 पंकयणाहो पद्मनामः. 15 रामा रामानाम्नी. 16 पोमो पद्मनामा चक्री. 18 ण य सं णि हियं न्याये स्थापितः.

12 1 a णेहे णिउत्ताण स्नेहयुक्तानाम्; b ताओ ता अष्टापि पुत्रीः. 2 a णिच्छिज्जमाणेण निश्चिद्यमानेन गच्छता. 3 b घणो मेघः. 4 a कम्मरिचारित्तत्ती कर्मशत्रुजिनस्तस्य चारित्रस्य तत्ति-
 श्चिन्ता; b दुब्भंतिणा दुष्टभ्रान्तिना चावीकमतानुसारिणा. 5 a भूयाण भूतानां पृथ्यादीनाम्. 7 a जं
 णेत्थि यद्वस्तु खपुष्पादिकं नास्ति. 8 b कीलालमत्ताण मद्यमत्तानाम्; कंतारयंधाण स्त्रीरतान्धानां
 भायोरमणान्धानाम्.

सुत्तेण किं मज्झु किं बंधुणेहेण
एवं पवोत्तूण तच्चाइं णाऊण
सूरिस्स तिब्बं समाहीइ गुत्तस्स
सोमो व्व सोमेण णिम्मुकुपोमेण
संइं इसी जायया णिकसाएण
खीणां तवेणं खरं णिकलत्तेण

साहामि सोक्खं धुवं एण देहेण ।
पुत्तस्स भूमिं अससं पि दाऊण । 10
काउं तवं पायमूले सुजुत्तस्स ।
राया सुकेऊं वि अणे वि पोमेण ।
णिहोहाणिम्मोहिणा णिव्विसाएण ।
मोक्खं गया संठिया णिकलत्तेण ।

घत्ता—एत्थइ तित्थइ जे हयवइरिणो ॥

15

जाया भाणिमो ते हरिसीरिणो ॥ १२ ॥

13

ससहरधवलहरे धणरिद्धे
मंदरधीरो वीरो राया
एए किर दुम्मइपइरिका
लग्गा ते ण हु पिउणो चित्ते
लक्खियतत्थे रक्खियजीवे
धम्मणाहतित्थे हयमारा
णो समियं णियचित्तं कुद्धं
जइ वयवेह्लिहलं पावामो
एम भरंतो णिग्गयंप्राणो
पढ्मे कप्पे पिहुल्लविमाणे
पिसुणंमहंतो ता संसारे
उत्तरसेहीमंदिरणामे
जाओ धरणीवइ खयरिंदो

इह भरहे साकेयपसिद्धे ।
पुत्ता रामविरामा जाया ।
पिसुणमंतिवयणेण विमुक्का ।
भाउं वि णिहियउ जुवराइत्ते ।
गुरुणो सिरिसिवगुत्तसमीवे । 5
ते पावइया रायकुमारा ।
अणुजाएण णियाणं बद्धं ।
तां तं खलमंति णिहणामो ।
अणसणेण जाओ गिब्बाणो ।
जेट्ठो वि हु तत्थेय विमाणे । 10
अणुहविऊणं दुक्खपयारे ।
णयरे कामिणिकामियकामे ।
बलिवलणासो णाम बल्लिंदो ।

घत्ता— चंडा राइणो असिणा दंडिया ॥

तेण तिसंडिया मेइणि मंडिया ॥ १३ ॥

15

८ AP साहम्मि. ९ P सोमो ण. १० A सुकेऊविइण्णेण. ११ A सुद्धं इसी जायओ; P सकं इसी जायया. १२ A खीणं तवेणं.

13 १ P साकेयए पसिद्धे. २ A रामविराम विजाया. ३ A भाऊ णिहिओ. ४ A लक्खियचित्ते. ५ A तो. ६ AP ०पाणो. ७ AP ०विवाणे. ८ P तत्थेअ समाणे; K records: तत्थेअ समाणे इति पाठे पूजासहिते. ९ P पिसुणु. १० A णरिंदो.

9 a सुत्तेण आगमेन चार्वाकादीनाम्. 12 सो मो व्व सो मे ण चन्द्रवत्तीम्येन; णि म्मुक्कपो मे ण सुक्क-
लक्ष्मीकेण. 13 स इं सार्धम्. 14 a णि कलत्तेण स्त्रीरहितेन; b णि कलत्तेण निःशरीत्वेन.

13 3 a ०प हरिका प्रचुराः; b पिसुणं मन्त्रिनामेदम्. 7 a अणुजाएण लघुभ्रात्रा
विरामेण. 11 b दुक्खपयारे दुःखप्रकारान्. 13 b बलिवलणासो बलिष्ठानां बलनाशकः.

14

पत्थंतरप	सिरिसुंदरप ।	
खेत्तविचित्ते	भारहखेत्ते ।	
कासीदेसे	सज्जनवासे ।	
बहुगुणरासी	वाणारासी ।	
उण्णयहम्मा	णयरी रम्मा ।	5
पडिभडमल्लो	अग्गिसिहिल्लो ।	
सत्तिसहाओ	तस्सि राओ ।	
सिसुहंसगई	अवराइय ई ।	
णं पच्चकखा	कयरयसोकखा ।	
अलिकेसवई	थी केसवई ।	10
बीया सरसा	पियघरसरसा ।	
विस्सुयणामो	जो चिररामो ।	
कयजिणसेवो	आयउ देवो ।	
थक्को गब्भे	रवि व सियग्भे ।	
जाओ तीण	पढमसईण ।	15
रमियरईण	केसवईण ।	
अवरो हूओ	वम्महरूओ ।	

यत्ता—लीलागामिणो णाह मरालया ॥
णयजोवणसिरि पत्ता बालया ॥ १४ ॥

15

तहिं पहिल्लओ णांदिमिच्चओ	बीयओ वि णामेण दत्तओ ।
खरपयावभरतसियवासवा	वे वि ते णिवा सीरिकेसवा ।
वे वि सिद्धहरिरहविहंगया	वे वि कासकज्जलणिहंगया ।

14 १ A गिरिसुंदरप. २ P खेत्ति विचित्ते. ३ A °गुणवासी. ४ A उगयहामा. ५ AP आओ.

15 १ A हुवा.

14 २ a खेत्तविचित्ते धान्यक्षेत्रैः विचित्ते. 6 b अग्गिसिहिल्लो अग्निशिखः. 8 b ई लक्ष्मीः प्रत्यक्षा. 9 b कयरयसोकखा कृतरतिसौख्या. 10 a अलिकेसवई भ्रमरसमानकृष्णकेशयुक्ता; b केसवई केशवतीनाम्नी. 11 b पियघरसरसा भर्तृगृह्तडागलक्ष्मीः. 15 b पढमसईण अपराजितायाम्.

15 ३ a सिद्धहरिरहविहंगया सिद्धा सिंहरथवाहिनी विद्या बलस्य, गरुडरथवाहिनी कृष्णस्य; b कास° क्षेत्रपुष्पम्.

बिहिं मि अत्थि महिपंसुपिंजरो
 मग्गिओ यं सो रायराइणा
 अट्टहासहिमरासिवण्णओ
 दूयवयणविहिवद्धिओ कली
 चारु अमरकंतारवासिणा
 वद्धणेहरसमुणियसाउणा
 सहिय बे वि बंधू वि णिग्गया
 जाययं रणं वलियसंमुहा
 चूरिया रहा दारिया हरी
 णाच्चिया णहे अमरसुंदरी
 अंतरे भडो संठिओ हरी

खीरसायरो णाम कुंजरो ।
 धीरैवहरिसंतावदाइणा ।
 तेहिं तस्स सो णेय दिण्णओ ।
 सह चमूइ आर्येउ णिवो बली ।
 दाहिणिल्लसेदीखगीसिणा ।
 माउलेण केसवइभाउणा ।
 सह बलेण समराइरं गया । 10
 सीरिणा हया वहरितणुरुहा ।
 लूरिया धया मारिया करी ।
 बद्धमच्छरो धाइओ अरी ।
 तेण दौळिओ खयरकेसरी ।

यत्ता—दोहिं मि जं कयं विज्जापहरणं ॥

15

को तं वण्णप बहुरुवं रणं ॥ १५ ॥

16

जं दिणयरबिंबु व विण्फुरिउ
 सुहडत्तदीउ णं संचरिउ
 हउ वहरि तेण मारिउ तुमुलि
 इह एव एहु थिउ गंपि जहिं
 तहिं अवसरि सीलु परिग्गाहिउं
 संभूयजिणेसरु सेवियउ
 सहियइं बावीसपरीसहइं
 अणयार महाकेवलपवरु
 ससहावें तिहुवणसिहरु णिउ
 सो बुद्धु सिद्धु णिद्धयरउ

पडिवक्खें चक्कु मुक्कु तुरिउ ।
 तं दत्तपण हत्थे धरिउ ।
 गउ णिवडिउ ससमधरणियलि ।
 महि भुंजिवि कण्हु वि गयेंउ तहिं ।
 हलिणा हियउल्लउं णिग्गाहिउं । 5
 तंवतावें अण्णउ तावियउ ।
 महियइं चउकम्मइं दुम्महइं ।
 जायउ कालेण अजरु अमरु ।
 वीयउ परमेट्ठि हवेवि ठिउ ।
 धुवकेवलदंसण्णाणमउ । 10

२ AP वि. ३ AP वीर°. ४ AP आइओ. ५ A दाहिणल्ल°. ६ A दुच्छिओ.

16 १ A पडिवक्खें. २ AP तेण वहरि. ३ A इह एम गंपि थिउ एहु जहिं. ४ A जाम तहिं; P तेम तहिं. ५ AP तवभावें. ६ A दुम्मयइं. ७ AP धुउ.

4 a °पंसुपिंजरो धूलिधूसरः. 5 a रायराइणा प्रतिवासुदेवेन. 8 a अमरकंतार° नगरस्य नामेदम्.
 10 b समराइरं संग्रामाङ्गणम्. 14 b दौळिओ भर्त्सितः. 15 a विज्जापहरणं विद्याभिः संग्रामः.

16 1 पडिवक्खें शत्रुणा. 7 चउकम्मइं चत्वारि घातिकर्माणि. 8 a अणयार मुण्ड-
 केवली. 9 b परमेट्ठि सिद्धः.

मयरद्भयचावसमुल्लियं

णिसियं^१ संछिदु आवलियं ।

घत्ता—भरहणमंसिउ महं देहाणियं ॥

सुकुसुमयंतउ कुसुमसराणियं ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
 महाकइपुफयंतविरइए महाभव्वभरहाणुमणिए महाकव्वे
 मल्लिणाहपउमचक्किणादिमित्तदत्तयवलिपुराणं णाम
 सत्तसट्टिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ६७ ॥

८ A णिसि पासिउ छिदिउ आवडियं. ९ A महं. १० A मल्लिणाहणिव्वाणगमणं णाम सत्तसत्तिमो.

11 ठ णि सि यं तीक्ष्णाम् ; आव लियं कामवाणपंक्तिमित्यर्थः. 12 दे हा णि यं देहानीताम् . 13 सु कु सु म-
 यं त उ सुष्ठु कुन्दवत्कान्तिः; कु सु म स रा णि यं पुष्पवाणमयीम् .

जो तित्थंकरु वीसमउ वीसु विसयविसवेयणिवारणि ॥
जोईसरु जोईहिं णमिउ जो बोहित्थु भवणवतारणि ॥ ध्रुवकं ॥

1

जो दिव्ववाणिगंगापवाहु	जो रोसहुयासणवारिवाहु ।
जो मोहमहाघणगंधवाहु	जो मोक्खणयरवंहसत्थवाहु ।
तणुगंधं जो समु चंदणासु	पउणइ जो तेषं चंदणासु ।
जो पणमिउ रामे लक्खणेण	धम्मेण अहिंसाळक्खणेण ।
जणु जेण णिहिउ सग्गापवग्गि	जो सरिसच्चित्तु रिउबंभुवग्गि ।
जे मिच्छतुच्छधीरंगरत्त	दप्पिट्टु दुट्टु तिट्ठागरत्त ।
जे घुम्मिरच्छ पीयासवेण	जे बद्धा गुरुकम्मासवेण ।
जे कयलालस मासासणेण	जे विरहिय परहियसासणेण ।
जे णारिहिं वसै आया रएण	ते मुक्क जासु आयारणेण ।
सुद्धोयणि सुरगुरु कविल भीम	वयणेण विणिज्जिय जेण भीम ।
तिहुयणि ण कोइ दीसइ समाणु	सण्णाणु जासु आयासमाणु ।
णिच्चलपरिपालियसुव्वयासु	पणवेप्पिणु तंहु मुणिसुव्वयासु ।

All Mss. have, at the beginning of this samdhi, the following stanza:-

चञ्चच्चन्द्रमरीचिचञ्चुरचुराचातुर्यचक्रोचिता
चञ्चन्ती विचटच्चमत्कृतिकवि प्रोद्दामकाव्यक्रियाम् ।
अञ्चती त्रिजगन्ति कोमलतया वान्धुर्यधुर्या रसैः
खण्डस्यैव महाकवेः सभरतान्नित्यं कृतिः शोभते ॥ १ ॥

P reads अचन्ती; A reads तृजगन्ति; and P त्रिजगत्र in the third line; and AP read सभस्ता in the fourth line.

1 १ AP णविउ. २ A °वहे सत्थ°. ३ AP पणविउ. ४ AP जो. ५ AP घुम्मिरच्छ. ६ AP add after this: जे विरहिय (P रहिय) सया वि आयारणेण. ७ A वसु जाया. ८ A जे मुक्क. ९ AP add after this: तेलोइयसुद्धायारणेण. १० P तुहु.

1 1 वीसु वीनामीशो गदडः; °वेय° वेग आतङ्को वा. २ बो हित्थु नौः. 3 a दिव्ववाणि-
गंगापवाहु दिव्यवाण्येव गङ्गाप्रवाहो यस्य; b °वारिवाहु मेघः. 4 a °गंधवाहु वायुः; b °वह° मार्गः.
5 b चंदणासु चन्द्राभिभवः, चन्द्रतिरस्कारं जनयतीत्यर्थः. 8 a मिच्छतुच्छधीरंगरत्त ये मिथ्या च
तुच्छधीरागरक्तास्ते यस्य भगवत आचारेण मुक्ताः; b तिट्ठागरत्त तृष्णाविपार्ताः. 9 a घुम्मिरच्छ घूर्णित-
नेत्राः पीतमद्येन. 10 b परहियसासणेण परं यद्धितं तदर्थं शासनं, जैनमतमित्यर्थः. 11 a रएण
रस्या; b आयारणेण अनुष्ठानेन. 12 a सुद्धोयणि सौगतः; सुरगुरु बृहस्पतिश्चार्वाकः; b वयणेण
बचनेन. 13 b सण्णाणु सम्यग्ज्ञानम् ; आयासमाणु आकाशप्रमाणम्, अनन्तमित्यर्थः.

घत्ता—तद्दु जि कंहंतह वज्जरमि जेण विमुच्चमि दुग्गइदुक्खहु ॥ 15
अट्टु वि कम्मइं णिट्ठविवि देहु सुएण्णिणु गच्छमि मोक्खहु ॥ १ ॥

2

एत्थेव य कयकुरारिकं
तहिं असिजलधारइ हरियछाउ
सो एकहिं दिणि उज्जाणु पत्तु
अणगार णाणि परमत्थसवणु
सत्तंगसंगु सुइ णिहिउ रज्जु
तत्तउं तउ सहुं बहुपत्थिवेहिं
होइवि एयारहअंगधारि
तणुंवापं मुउ हुउ प्राणइंदु
तहु आउ वीससायरइं तत्थु
सियलेसु चित्तणडिचारवंतु
णीससइ देउ दहमासणहिं

भरहंगदेसि पुरि अत्थि चंप ।
जगु जेण कियउ हरिवम्मराउ ।
दिट्ठउ अणंतवीरिउ विरत्तु ।
वंदेण्णिणु णिसुणिवि धम्मसवणु ।
अएणु पुणु कियउं परलोयकज्जु । 5
णिग्गंथमग्गपत्थियसिवेहिं ।
अरहंतपुण्णपव्वभारकारि ।
हरिवम्मु सकंतिइ जित्तचंदु ।
तणु भणु विहतिय पुणु तिउणु हत्थु ।
अवहीइ णियइ पंचमधरंतु । 10
पुणु वीसहिं वंरिससहसगणहिं ।

घत्ता—देउ मणेण जि आहरइ सुहमइं पोग्गलाइं रसरिद्धइं ॥
अयणमेत्तु जीविउ थियउ पयइइं जायइं कालहु चिंधइं ॥ २ ॥

3

ता तद्दु चरित्तु णिच्चफलेण
इह भरहि मगहरायंगिहि दित्तु
जिणपायपोमजुयरेणुलित्तु
अएण्डिमसत्ति णं सिद्धमंतु
एयहं णंदणु जिणु सोकखहेउ
भो धणय धणय कल्लापमित्त

धणयद्दु भासिउ आहंडलेण ।
पुरि वसइ राउ णामे सुमित्तु ।
हरिवंसकेउ कासवसुगोत्तु ।
किं वण्णमि सोमाएविकंतु ।
होही प्राणयत्तुउ देवदेउ । 5
एयहं दोहं मि करि पुरि विचित्त ।

2 १ AP कयउ. २ P हरिवम्मु. ३ A तणु चरवि मुउ. ४ AP पाणइंदु. ५ A वाससहा-
एहिं; P वाससहसगणहिं.

3 १ AP णिच्चफलेण. २ A ीरायगिहु. ३ AP पाणयत्तुउ.

2 2 a हरि य छाउ हतमाहात्म्यः. 4 a पर मत्थ स व णु परमार्थेन श्रमणः. 5 a सत्तंगसंगु
सप्ताङ्कैः सह; सुइ पुत्रे. 9 b वि ह तिय पुणु ति उ णु हत्थु वितस्तियुक्तास्त्रयो हस्ताः. 10 a ीप डि या र
मनःप्रवीचारः; b पंच म ध रंतु पञ्चमनरकपर्यन्तम्. 13 अ य ण मे त्तु षण्मासान् ; काल हु मरणस्य.

3 1 a णि च्च फ ले ण निश्चपलेन. 2 a दि त्तु दीप्तिमान्. 4 a अ ए ण डि म स त्ति अप्रतिम.
शक्तिः.

ता रइय णयरि दविणाहिवेण दिप्पंतं तव्वणिज्जे णवेण ।
 पासायपंतिरहचच्चरेहिं गयणंयललग्गवरगोउरेहिं ।
 सरिसरणंणवणजिणघरेहिं राक्खिज्जंती णिर्यक्किरेहिं ।

यत्ता—तहिं सउहहु सत्तमि तलि घणथणमंडलहारबिलंबिणि ॥ 10
 सुहुं सोवंती सयणयलि पेच्छइ सिविणय रायणियंबिणि ॥ ३ ॥

4

मत्तसिधुरं सियधुरंधरं ।
 हरिणराययं लच्छिकाययं ।
 फुल्लदामयं दिट्ठिकामयं ।
 चंदबिंबयं उययतंबयं ।
 चंडकिरणयं मीणमिहुणयं । 5
 कुंभजुयलयं दैलियकमलयं ।
 कमलवासयं सुरहिवासयं ।
 अमयमाणिहिं अमरवारिहिं ।
 सीहभूसणं दिव्वमासणं ।
 सिहरसुंदरं इंदमंदिरं । 10
 धुयधयालयं विसहरालयं ।
 णिहिर्यतिमिरयं रयणणियरयं ।
 कविलच्चलसिंहं जलियहुयवहं ।

यत्ता—इय जोइवि सिविणय सइइ सुत्तविबुद्धइ भासिउं दइयहु ॥
 तेण वि तं तंहि अक्खियउं जं फलु होसइ पुव्वविरहयहु ॥ ४ ॥ 15

5

तुह कुच्छिहि इच्छियगुणमहंति होसइ सुउ तिहुवणणाहु कंति ।
 सुरधणधारंचिइ रायगेहि अच्छरहि पसाहिइ देविदेहि ।

४ P तवणिज्जे तवेण. ५ P ^०यले लमा^०. ६ P णिवक्किरेहि. ७ AP सउहहि.

4 १ A लच्छिकामयं. २ A धरियकमलयं. ३ A सीहभूसियं. ४ A विहिय^०; P विहय^०. ५ A तहु.

5 १ A जिणु.

7 b तवणिज्जे सुवणेन. 11 रायणियंबिणि सोमादेवी.

4 1 b सियधुरंधरं श्वेतवृषभम्. 2 b लच्छिकाययं लक्ष्मीमूर्तिम्. 6 b दलिय^० विकसितम्. 7 a कमलवासयं पद्मसरः. 6 b अमरवारिहिं क्षीरसमुद्रम्. 15 a पुव्वविरहयहु पूर्वोपाजितपुण्यस्य.

5 1 b कंति हे कान्ते भार्ये;

सावणतमबीयहि सवणरिक्खि
 देविइ दिइउ समुहारविदि
 हरिखम्मु राउ जो प्राणइंदु
 आयउ वंदइ सयमेव इंदु
 गइ मल्लिदेवि हयमोहजालि
 उप्पणउ णिउ सक्केण तेत्थु
 अहिंसिच्चिउ पंडुसिलायलगि
 आणंदं णच्चिउ कुलिसपाणि
 सुव्वउ मुणिसुव्वउ भणिवि णाहु

पंडुरु करि आयउ अंतरिक्खि ।
 पइसंतु संतु रयणिहि अणिदि ।
 सइगम्भवासि थिउं सो जिणिंदु । 5
 किर कवणु गहणु तहिं सूरचंदु ।
 चउपण्णलक्खवरिसंतैरालि ।
 तं मेरुमहागिरिसिहरु जेत्यु ।
 घंरु आणिउ णिहिउ समाउअग्गि ।
 तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि । 10
 गउ णिययणिवासहु तियसणाहु ।

घत्ता—वहुइ देउ लहंतु पय लक्खणवंतु जणंतु सुहं जणि ॥

सालंकारु कंतिई सहिउ कव्वविवेउ णाइ वरकइयणि ॥ ५ ॥

6

पहु वीससरासणमियसरीरु
 परिणयमऊरवरकंडवण्णु
 सत्तद्धवरिससहसाइं जाम
 दहपंचसहासइहं धरित्ति
 आहारु ण गेण्हइ णेय चारु
 करि पुव्वतालपुरि आसि राउ
 बंभणहं दिंतु मणिकणयदाणु
 सुंयरइ सल्लइपल्लवदलाइं
 सुंयरइ करिणीकरलालियाइं
 सुंयरइ सिसुमयगलकीलियाइं

पियवयणभासि गंभीरु धीरु ।
 दहदहदहसहससमाउ वण्णु ।
 थिउ किं पि बालकीलाइ ताम ।
 भुंजिवि जोइवि करिवरहु विसि । 5
 पइ णरविदहु वज्जरइ चारु ।
 कुच्छियमइ जणियकुपत्तभाउ ।
 मुउ काणणि हुउ गउ गलियदाणु ।
 सुंयरइ सीयलसरिसरजलाइं ।
 गिरिगेरुयरयउद्धलियाइं ।
 करतालवट्टहिंदोलियाइं । 10

घत्ता—पंच कहेप्पिणु मुक्कु गउ गउ सो विंझहु कहिं मि सइच्छइ ॥

अग्गइ सयणहं परियणहं णरणाहेण पबोल्लिउ पच्छइ ॥ ६ ॥

२ AP पाणइंदु. ३ P सो थिउ. ४ AP add after this: वइसाहमासि पहु कसणपक्खि, दहमइ दिणि ससि थिइ सवणरिक्खि. ५ P घरि. ६ A कंतिसहिउ.

6 १ AP सत्तद्धसहसवरिसाइं.

10 b समाउअग्गि स्वमातुरप्पे. 11 b तहु वयणविणिग्गय दिव्ववाणि इन्द्रस्य मुखाद् दिव्यवाणी निर्गता तथा नाम कृतं गृहीतं मुव्रतः मुनिसुव्रत इति. 14 कव्वविवेउ काव्यविवेकः.

6 2 a परिणयं तरुणः; b दहेत्याहि त्रिंशत्सहस्रसममायुः प्रातः. 5 a चारु तृणकवल्लम्; b चारु शोभनम्. 8 a सुंयरइ स्मरति.

7

जहिं णरणाह वि होंति गय	कालेण हय ।	
तहिं किं किज्जइ सिरिधरणु	जिणतवचरणु ।	
किंज्जइ काणंणि पइसरिवि	थिरु मणु धरिवि ।	
सुररिसिहिं वि सो तहिं संथविउ	सकें ण्हविउ ।	
विजयहु रज्जु समप्पियउ	तिणु कं पि य उं ।	5
गउ सिवियइ अवराइयइ	सुं विराइयइ ।	
ओइण्णउ जिणु णीलवणि	तरुवेह्लियणि ।	
वइसाहइ दसमीदियहि	णिच्चंदवहि ।	
सवणि सहासं सहं णिवहं	जगबंधवहं ।	
छट्टुववासं तथु गहिउं	अमरहिं महिउ ।	10
भिक्खहि मुणि गउ रायगिहु	विच्छिण्णछिहु ।	
वसहस्सेणरायस्स घरि	थिउ पुण्णभरि ।	
जं पासुययरु लद्ध जिह	तं भोज्जु तिह ।	
भुंजिवि पुणु तेत्थाउ गउ	कयसुं हि विजउ ।	
खरतवतावे तत्ताहो	सुविरत्ताहो ।	15
णव झीणइं णिममच्छरइं	संवच्छरइं ।	
आयउ पुणु तं तरुगहणु	वम्महमहणु ।	
दिक्खारिक्खि पक्खि कहिण	मासं सहिए ।	
णवमीदिणि चंपयहु तलि	थिउ धराणियलि ।	
पोसहजुयलें गलियमलु	हयउ सयलु ।	20
केवलविमलु अणंतयरु	सुरखोहयरु ।	
घत्ता—कोमलकरयलघैत्तियहिं कुसुमहिं चित्तलंतु गयणंगणु ॥		
णं चित्तवडु पसारियउ जलि थलि महियलि माइ ण सुरयणु ॥ ७ ॥		

8

सहसकखें विरहउ समवसरणु उवविट्टु भडारउ तिजगसरणु ।
 चरु अचरु असेसु वि जणहु कहइ तहिं पसु वि चारु चारिनु वहर ।

7 AP करइ. 2 A काणणु. 3 AP मणु थिरु. 4 AP कपियउ. 5 A रुइराइयइ; K omits सुविराइयइ. 6 AP उवइण्णउ. 7 A णिच्चंदवहि. 8 A सवणसहासं. 9 A विच्छिण्णछिहु. 10 A सुहविजयो. 11 तत्तयहो. 12 A सुविरत्तयहो. 13 AP चलियहिं. 14 AP चित्तवट्टु. 15 AP णहयलि.

7 5 b तिणु कं पि य उं तृणवसंकल्पितम्. 7 a ओइण्णउ अवतीर्णः. 8 b णिच्चंदवहि निर्गतश्चन्द्रपथो यत्र. 9 a सवणि श्रवणनक्षत्रे. 11 b विच्छिण्णछिहु गतस्त्रहः. 13 a पासुययरु प्रासुकतरम्. 14 b कयसुं हि विजउ मुद्दां कृतविजयः. 15 b सुविरत्ताहो सुविरत्तस्य. 17 b वम्महमहणु काममथकः. 18 a दिक्खारिक्खि श्रवणनक्षत्रे. 21 a अणंतयरु अनन्तानन्तम्. 22 चित्तलंतु चित्रयन्. 23 चित्तवडु चित्रपटः.

जाया देवहु रिसिवित्तिभरुह
 दहदोअंगइं रिसि जे धरंति
 सिक्खुयहं सहासइं एकवीस
 वहकिरियहं दुसहस दोसयाइं
 णियणयविद्धंसियपरमयाहं
 पणदहसय पुणु मणपज्जयाहं
 पण्णाससहासइं संजईहिं
 मंदिरवयणारिहिं तिण्णि लक्ख
 हिंडेप्पिणु एव महियलंति
 फग्गुणतमदसमिहिं सवणजोइ
 रिसिसहसें सहुं संमेयकुहरि

अट्टारह गणहर मल्लिपमुह ।
 पंचसयइं ताहं वि वज्जरंति ।
 तेत्तिय केवलि ओहीविहीस । 5
 भुवणंतपसिद्धिहि संगयाइं ।
 वाइहिं वारहसय संजयाहं ।
 णासियसुप्पयरिउसंपयाहं ।
 सावयह लक्खु ह्यदुम्मईहिं ।
 सुर तिरिय असंख णिरुद्धसंख । 10
 मासाउसेसि थिइ जीवियंति ।
 णिसि पच्छिमसंझहिं मुक्काइ ।
 सिद्धउ थिउ जाइवि तिज्जगसिहरि ।

घत्ता—अरसु अगंधु अवणमउ फाससहवज्जिउ गयरुवउ ॥

मुणिसुव्वउ महुं दय करउ सुजु सिद्धु हुउ णाणसहावउ ॥ ८ ॥ 15

9

णिव्वुइ सुव्वइ जो णिज्जियारि
 हरिसेणु णाम तहु तणउं चरिउं
 वरभारहवरिसि अणंततित्थि
 णरपुरवरि णाहु णराहिरामु
 सुविस्सालविमौणि विमाणसारि
 इह खेत्ति भोयपुरि दीहबाहु
 तहु देवि किन्धोयरि सुद्धसील
 एयहं सो सुरह अंगरुहु जाउ
 सुहलक्खणु वीसधणुप्पमाणु
 गउ तेण समउं पिउ पुहईवीरु

इह जायउ महिवइ चक्कधारि ।
 णिसुणह पविनु परिहरिवि दुरिउं ।
 गंधियकुंगंधवंधणवहित्थि ।
 तउ करिवि हरिवि कलि कोहु कामु ।
 संभूयउ अमरु सणकुमारि । 5
 इक्खाउवंसि णिउ पउमणाहु ।
 अइरा परावयगमणलील ।
 हेमाहु समाजुयपरिमियाउ ।
 कंतीइ चंदु तेण भाणु ।
 मणहरवणि णात्रिवि अणंतवीरु । 10

8 १ A ओहीविमीम. २ A महि डिडेप्पिणु इम महियलंति. ३ A सिद्धसिहरि.

9 १ A 'कुगंधिवंधण'. २ AP 'विवाणि विवाण'. ३ AP 'पुहइवीरु.

8 ३ a अरुह योग्याः. 4 a दहदो द्वादश. 5 b ओ ही वि ही स अ व धि वि धी शाः अव-
 धिज्ञानवन्तः. 8 b णा सि य सु प्प य रि उ संप या हं नाशिताः शोभनपदस्य मोक्षपदस्य रिपत्रो मिथ्यादर्शना-
 दयः तेषां संपदः थैः 10 a मंदिरवयणारि हिं गृहस्थव्रतस्त्रीणां श्राविकाणामित्यर्थः; b णिरुद्धसंख
 संख्याताः. 14 ग य रू व उ मूर्तपदार्थस्वरूपरहितः.

9 ३ b गंधि ए त्या दि जैनाभासग्रन्थिकानां मिथ्यादृष्टीनां कुस्मितग्रन्थस्य बन्धनं रत्नं तस्माद्
 बहिःस्थे बाह्ये. 7 b अइरा नामेदम्. 8 b समाजुयपरिमियाउ अयुतवर्षप्रमाणायुः; समाजुयं दशवर्ष-
 सदस्साणि.

रिसि ह्यैउ पहु पंकरुहणाहु पुत्तं आयण्णिवि धम्मं साहु ।
 घत्ता — लइयइं पंचाणुव्वयइं पंचं वि इंदियाइं णियमंतं ॥
 आवेप्पिणु पुहं रज्जि थिउ पुण्णपहावें कालें जंतं ॥ ९ ॥

10

उप्पण्णउं पहरणु घरि रहंगु पविदंडु चंडु रिउदिण्णभंगु ।
 णित्तिसु तहिं जि धवलायवत्तु सिरिहरि कागणि मणि चम्मजुत्तु ।
 जणणहु केवलसिरि देहुं पत्त एकहिं खणि तणपं णिसुय वत्त ।
 जाइवि जिणु वंदिवि रसियवज्ज घर आविवि विरइय चक्रपुज्ज ।
 मंदिरवइ थवइ पुरोहु अवरु सेणावइ णिज्जियवीरंसमरु । 5
 करितुरयणारिरयणाइं जाइं विज्जाहरेहिं दिण्णाइं ताइं ।
 उल्लंघियाइं सायरज्जलाइं संसाहियाइं धरणीयलाइं ।
 काराविय किंणरखयरसेव वसिकय अणेष गणवद्धदेव ।
 महि हिंडिवि खंडिवि वइरिमाणु आवेप्पिणु तं पुणु णिययटाणु ।
 कत्तिइ णंदीसरि सरकयंतु अहिसिंचिवि अंचिवि अरुहु संतु । 10
 उववासिउ छणवासरि पसण्णु जावच्छइ णिसि णरवइ णिसण्णु ।

घत्ता — इंदणीलणीलंगण चंदविंबु ता गिलिउं विडप्ये ॥
 णहभायणयलि संणिहिउ घोट्टिउ दुद्ध व कसणें सण्ये ॥ १० ॥

11

णं ढंकिउ अलिजूहेण कमलु णं पावें सुक्किउ छइउ विमलु ।
 संणिहिय विहाएण व विवित्ति मयणाहि धोयकलहोयवत्ति ।
 चितइ पहुं विहु गहगत्यु जेम कालें कउलेवउ हउं मि तेम ।
 लइ जामि हणमि दुक्कम्मजोणि महसेणहु ढोइवि सयलखोणि ।
 गउ पुहइणाहु वेरगभूरि सिरिमंतसेलि सिरिणायसूरि । 5

४ AP जायउ. ५ A धम्मलाहु. ६ P पंचेदियाइं. ७ P omits पुह. ८ A जंतं कालें.

10 १ A देहि. २ A ०धीरसमरु.

11 १ A कलहोयपत्ति. २ A इहु. ३ AP महिसेणहु.

11 b धम्म साहु धर्ममाकर्ण्य, साधु यथा भवति तथा.

10 2 a णि त्तिसु असिः; b सिरि हरि भाण्डागारे. 4 a रसियवज्ज शब्दितवाचः.
 5 a मंदिरवइ गृहपतिः. 10 a सरकयंतु स्मरस्य कृतान्तः. 11 a छणवासरि पौर्णमास्याम्.
 12 विडप्ये राहुणा. 13 घो ट्टि उं पीतम् .

11 1 a अलिजूहेण भ्रमरसमूहेण; b सुक्किउ छइउं पुण्यं स्थगितमिव. 2 a विहाएण
 विधात्रा; विवित्ति विशेषेण वृत्ते वर्तुले; b मयणाहि कस्तूरिका; धोयकलहोयवत्ति रूप्यमये पात्रे.
 3 a विहु चन्द्रः; गहगत्यु राहुणा प्रस्तः.

पणवेप्पिणु लइयउ तवोविहाणु
 तें दिण्णउं जीवदयालुण
 विसंहेवि भीमु रविकिरणताउ
 तवदंसणणाणचरित्तरिद्धि

तसथावरजीवहं अभयदाणु ।
 गिरिसिहरि सुइरु लंविमभुण्ण ।
 विद्धंसिवि मिच्छामोहभाउं ।
 आराहिवि गउ सव्वत्थसिद्धि ।

घत्ता—हरिसेणहु भरहाहिवहु अहमिंदत्तणु तं तहु सिद्धउं ॥ 10
 दिव्वसोक्खसंदोहयरु जं ण पुप्फदंतेहिं वि लद्धउं ॥ ११ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे मुणिसुव्वयणिव्वोंणं हरिसेण-
 कहंतरं णाम अट्टसट्टिमो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ ६८ ॥

४ P विसहेवि मुणिवरु रवि°. ५ A °णिव्वाणगमणं. ६ P adds another पुष्पिका: मुणिसुव्वय-
 जिणदसमचक्कवट्टि हरिसेण एतच्चरियं सम्मत्तं; K gives it in the margin in second hand.

मुणिसुव्वयजिणत्तिथि तोसियसुररामायणु ॥
हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायणु ॥ छ ॥

1

णियवुद्धिपवित्थरु णउ रहमि	लइ तं पि किं पि एवहिं कहमि ।
णिव्वाहमि भरहैम्मत्थियउं	परिपालमि पडिवण्णउं थियउं ।
कलिकालें सुट्टु गलत्थियउ	जणु दुज्जणु अणु वि दुत्थियउ । 5
सामग्गि ण पक्क वि अत्थि महु	किर कैवण लीह चिरकईहिं सहुं ।
कइराउ सयंभु महायरिउ	सो सयंणसहासहिं परियरिउ ।
चउमुहहु चयारि मुहाइं जहिं	सुकइत्तणु सीसउ काइं तहिं ।
महु एकु तं पि मुहुं खंडियउं	विहिणा पेसुण्णउं मंडियउं ।
मइं छंदु ण लक्खणु भावियउं	अप्पउं जणि हासउ पावियउ । 10
बुहहियवइ जइ वि ण पइसरमि	धिट्ठत्तं तइ वि कव्वु करमि ।
महु खमउ भडारी विउससह	आयण्णहु रहुवइरायकह ।

घत्ता—सुकइपयासियमग्गि मणि दहसुहु वि चैमकइ ॥

रामधम्मगुणसहिं अमुहु पिसुणु कहिं दुक्कइ ॥ १ ॥

2

जिणचरणकमलभंसलें झुणिउं	मइं पउं णिरत्थु वि रुणुरणिउं ।
सुइपेसलु कण्णविइण्णसुहु	वियसावियमाणिणिडिभमुहु ।
सैइं लग्गइ चित्ति वियक्खणहु	जसु रामहु पोरिसु लक्खणहु ।
वइदेहिसइत्तणु भूसियउं	जलबिंदु व पोमपत्ति थियउं ।

1 १ P^० बुद्धि वित्थरु. २ P भरहअम्मत्थियउ. ३ P कमण. ४ AP चिर कहहि. ५ A सुयणसहासैं; A सुयणसहासैंहि. ६ P सीसइ. ७ P चक्कवइ. ८ A समुहु.

2 १ AP^० भमरें. २ AP एत्थु. ३ A लइ. ४ P पोमवत्ति.

1 1^० सुररामायणु सुरस्त्रीगणः स्त्रीजनो वाः 2 रामायणु रामचरितम्. 4 b पडिवण्णउं अङ्गीकृतम्. 6 b चिरकइहिं चिरकविभिः. 7 a सयंभु महायरिउ स्वयंभूः महाचार्यः; दीहरसमासणालं सहदलं अत्थकेसरग्घवियं । बुहमहुयरपीयरसं सयंभुकव्वुपलं जयउ. 8 a चउमुहहु चतुर्मुखनाम्नः कवेः. 9 b पेसुण्णउं मंडियउं दुज्जनत्वं कृतम्. 12 a विउससह विद्वज्जनसभा. 13 सुकइ^० सुकविः वानरश्च; दहसुहु रावणः; चमकइ विभेति. 14 रामधम्मगुणसहिं रामस्य धर्मगुणयोर्वर्णने, रामस्य वा धर्मो धनुस्तस्य गुणो दीरस्तस्य शब्दे टङ्कारे; अमुहु पिसुणु अमुखाः खरवृषणादयः.

2 2 a कण्ण विइण्ण सुहुं कर्णयोः वितीर्णसुखम्. 4 a वइदेहिं^० सीता.

मुत्ताहलवणु समुव्वहइ	आसयगुणेण कव्वु वि सहइ ।	5
जं विरइउं मंदमंदमईहिं	अम्हारिसेहिं जगि जडकईहिं ।	
जं जगि पसिद्धु सीयाहरणु	जं अंजणेयगुणवित्थरणु ।	
जं विडसुग्गीवरायमरणु	जं तारावइअम्भुद्धरणु ।	
जं लवणसमुईसमुत्तरणु	जं णिसियरवंसहु खयकरणु ।	

घत्ता—भरहहु भत्तिभर्रासु बहुरसभावजणेउं ॥ 10
तं आहासमि जुज्झु रावणरामहु केरउं ॥ २ ॥

3

जिणचरणजुयलसंणिहियमइ	आउरुछइ पहु मगहाहिवइ ।	
णिरु संसयसल्लिउं मज्झु मणु	गोत्तमगणहर मुणिणाह भणु ।	
किं दहमुहु सहुं दहमुहहिं हुउ	किं जम्मं गरुयउ तासु सुउ ।	
जो सुम्मइ भीसणु अतुलवलु	किं रक्खसु किं सो मणुयै खलु ।	
किं अंचिउ तेण सिरेण हरु	किं वीसणयणु किं वीसकरु ।	5
किं तहु मरणावह रामसर	किं दीहर थिर सिरिरमणकर ।	
सुग्गीवपमुह णिसियासिधर	किं वाणर किं ते णरपवर ।	
किं अज्जु वि देव विहीसणहु	जीविउ ण जाइ जमसासणहु ।	
छम्मासइं णिई णेय मुयइ	किं कुंभयणु घोरइ सुयइ ।	
किं महिससहासाहिं धउ लहइ	लइ लोउ असच्चु सव्वु कहइ ।	10
वम्मीयवासवयणिहिं णडिउ	अण्णाणु कुम्भग्गकूवि पडिउ ।	

घत्ता—गोत्तम पोमंचरित्तु भुवणि पवित्तु पयासाहि ॥
जिह सिद्धत्थसुएण दिट्ठउं तिह महुं भासाहि ॥ ३ ॥

५ A °समुद्धं उत्तरणु. ६ P भत्तिवरासु. ७ AP रामण°.

3 १ P किं जम्मं. २ AP सो सुम्मइ. ३ A मणुवकुल ४ AP णेय णिइ. ५ AP T पउम°.

5 b आसयगुणेण आश्रयगुणेन स्थानमाहात्म्येन. 7 b अंजणेय° हनूमान्. 8 a विडसुग्गीवराय° बालिनरेन्द्रस्य; b तारावइ° मूलसुग्रीवः. 9 b णिसियर° राक्षसाः.

3 1 b पहु श्रेणिकः. 3 a दहमुहु रावणः किं दशभिर्मुर्वैर्जनितः; b जम्मिं गरुयउ तासु सुउ इन्द्रजित् किं रावणाद्वपैर्ज्यैष्ठ्यः. 4 b खलु स्फुटम्. 5 a तेण रावणेन. 6 a मरणावह मरणकराः; b सिरिरमण° लक्ष्मणः. 7 a णिसियासिधर तीक्ष्णखड्गधराः. 9 b सुयइ स्वपिति. 10 a धउ वृत्तिम्. 11 a वम्मीय° वाल्मीकिः; वास° व्यासः; णडिउ वद्धितः. 12 पोमंचरित्तु रामचरितम्. 13 सिद्धत्थसुएण श्रीवीरेण.

4

ता इंदभूइ गंभीरभ्रुणि
इइ भरहि भवांषहारिणिलइ
मायंदगोदं गौंदलियसुइ
णिप्पीलिउच्छरससलिलवहि
मलरहिय मलयदेसंतरइ
तहिं वसइ पयावइ पयधरणु
जें सत्यें जित्त सरासइ वि
जें रिद्धिइ जित्तउ सुरवइ वि
तहु रायहु णयणसुहावणिय
रूवेण सरिच्छी उव्वसिहि
सुउ चंदचूलु चंदु व उइउ

सेणियराहु कहं कहइ मुणि ।
फुल्लियकणयारबउलतिलइ ।
महमहियकलमकेयारजुंइ ।
संतुट्टुपुट्टुपंथियणिवहि ।
रयणउरि भवणरुइहयसरइ । 5
जें दंडें जित्तउं जमकरणु ।
जें बुद्धिइ जित्तउ भेसइ वि ।
जें भौणं जित्तउ रइवइ वि ।
णं बाणावलि मयणहु तणिय ।
गुणवंत कंत कंति व ससिहि 10
सिसु मंतिमित्तु तेण वि लइउ ।

घत्ता—सो विजयंकु पंसिद्धु णं ससिरवि गयणंगणि ॥

वेण्णि वि सह खेलांति वद्धणेह घरपंगणि ॥ ४ ॥

5

तरुणीकडंक्खोहविकखेवमूढाइ
णिण्णट्टदप्पिट्टुणिकिद्धुत्तुट्टीइ
णं तावसा के वि अरहंतदिकखाइ
अण्णम्मि तंवासरे तम्मि णयरम्मि
गोत्तमवणिंदेण वइसवणघरिणीइ
विण्णाणवंतस्स संसारसारस्स
करधरियभिंगारचुयवारिधारेण
बालेण बालालयं झ सिं गंतूण

जोव्वणसिरीए सरीराहिरूढाइ ।
घोराण जाराण चोराण गोट्टीइ ।
ते वे वि ण चरंति रायस्स सिक्खाइ ।
णिद्धणजणे दिण्णबहुदधिणणियरम्मि ।
जायस्स कलहस्स णं चारुकरिणीइ । 5
सिरिदत्तणमस्स वणिवरकुमारस्स ।
णियधीय रमणीय दिण्णा कुबेरेण ।
णमिऊण जय देव देव त्ति वोत्तूण ।

4 १ AP सहं. २ A भयावहारि. ३ A °कणियार°. ४ A मायंदगोच्छ°; P मायंदगोदि°. ५ A केयारहुए. ६ A °उच्छु°. ७ A बुद्धं. ८ P रूपं. ९ P omits पंसिद्धु.

5 १ A कडक्खोहविकखेव°; P °कडक्खोहविकखेव° २ A °बुद्धीइ. ३ AP ता वासरे. ४ A णविऊण.

4 2 a भवा व हारि णिलइ सर्वज्ञस्थानभूते. 3 a मायंदगोदं आम्रवृक्षसमूहः; °गोदलियसुइ शब्दितशुके. 5 a °उच्छरसं इक्षुरसः. 5 b भवणरुइहयसरइ सौषधोभाभिर्हिता तिरस्कृता शरत्काल-शोभा यस्मिन्. 7 a सत्यं शास्त्रेण; b भेसइ बृहस्पतिः. 8 b रइवइ मदनः. 11 a चंदचूलु भविष्यलक्ष्मणः; उइउ उदितः.

5 1 a °कडक्खोहविकखेवमूढाइ कटाक्षसमूहविक्षेपमूढया. 4 a तंवासरे तस्मिन् वासरे एकस्मिन् दिने. 8 a बालालयं चन्द्रचूलग्रहम्.

केणावि पावेण रहरहसजुत्तीह
 रेहंतराईवदलदीहणेत्ताह
 तं सुणिवि सिरु धुणिवि विद्धर्थधम्मेण
 वणिभवणि पइसरिवि बहुसहसहाएण
 रोवंति वेवंति वरइत्तहत्थाउ
 रूवं वरं वणिणयं वणिणयउत्तीह ।
 तीं संणिहा का कुबेराइदत्ताह । 10
 संचरिवि वियउं तुरं कूरकम्मेण ।
 हित्ता कुमारी धराणाहजापण ।
 णट्टाउ णारीउ विलुलंतवत्थाउ ।

घत्ता—णिव परिताहि भणंतं पुरि अण्णाउ कुमारहु ॥

गय तरुसाहाहत्य वणिवर रायदुवारहु ॥ ५ ॥

15

6

आउच्छिउ रापं पउरयणु
 तुह तणुरुहु परदविणइं हरइ
 पइसरउ भडारा वियणु वणु
 ता रापं पुरवरतलवरहु
 सिरकमलु विलुंचवि णिट्टुरुहु
 अण्णाणु णायविद्धंसयरु
 जो दुहु कहु णिद्धम्मयरु
 हियउल्लउं दुक्खे सल्लियउं
 विण्णवइ णवंतु तसंततणु ।
 परिणियउं कलत्तु ण उव्वरइ ।
 अण्णेत्ताहि जीवउ जाउ जणु ।
 आपसु दिण्णु असिवरकरहु ।
 पेसहि तणुरुहु वइघसपुरहु । 5
 खलु सो^३ किं बुच्चइ रज्जधरु ।
 सो खंडमि हउं अण्णणउं करु ।
 ता पउरें मंतिहिं^४ बोह्लियउं ।

घत्ता—णंदणु हणहुं ण जुत्तउं जइ सो मणहु ण रुच्चइ ॥

गिरिदुग्गमि कंतारि तो^५ दूरंतरि मुच्चइ ॥ ६ ॥

10

7

पहु भणइ जाउ किं तेण महुं
 गुणदूसणु अप्पपसंसणउं
 णडदूसणु णीरसेपेक्खणउं
 हउं णंदमि चिरु धम्मेण सहुं ।
 तवदूसणु मिच्छादंसणउं ।
 कइदूसणु कव्वु अलक्खणउं ।

५ A थी संगिहा. ६ A विद्धत्थकामेण. ७ A °सहावेण. ८ P तट्टाउ. ९ AP भणंता.

6 १ AP तसंततणु. २ A परसरणु; P पइसरह. ३ P किं सो. ४ A महिवइ. ५ A ता.

7 १ AP णीरसु.

10 a रेहंत राईव^० शोभमानकमलम्; b ती स्त्री; संणिहा सदृशी; कुबेराइदत्ताइ कुवेरदत्तया.
 11 b तुरं शीघ्रम्. 12 a बहुसहसहाएण बहुभिः सहैः समर्थैः सह. 13 a वेवंति वेपमाना कम्पमाना.

6 2 b परिणियउ कलत्तु परिणीता स्त्री. 3 a पइसरउ प्रविशतु; वियणु वणु विजनं वनम्.
 7 a कहु निन्द्यः 9 मणहु चित्तस्य.

7 2 a अप्पपसंसणउं आत्मप्रशंसनम्. 3 b अलक्खणउं व्याकरणरहितम्.

धणदूसणु सढंखलयणभरणु	वयदूसणु असमंजसेमरणु ।
रइदूसणु खरभासिणि जुवइ	सुहिदूसणु पिसुणु विभिणमइ । 5
सिरिदूसणु जइ सालसु णिवइ	जणदूसणु पाउ पत्तकुगइ ।
गुरुदूसणु णिकारणहंसणु	मुणिदूसणु कुसुइसमम्भसणु ।
ससिदूसणु मिगमलु मसिकसणु	कुलदूसणु णंदणु दुव्वसणु ।
घत्ता—लइ जं तुम्हहं इट्टु मइं वि तं जि पडिबणुणउं ॥	
जाइवि कुलबुहेहिं बालहं उत्तरु दिणुणउं ॥ ७ ॥	

10

8

किं परकलत्तु उद्दालियउं	उज्जलु अप्पाणउं मइलियउं ।
किं वप्प सुदप्प कुसंगु किउ	परयारचोरकीलाइ थियउ ।
कुद्धउ पिउ एवहिं को धरइ	तुम्हारउं जीविउ अवहरइ ।
तं णिसुणिवि सिसु चवति गहिरु	अत्थंतु णिवारइ को मिहिरु ।
को रक्खइ आवंतउं मरणु	जगि कासु ण दुक्कइ जमकरणु । 5
कु वि अग्गइ कु वि पच्छइ मरइ	वइवसइंतंरि पइसरइ ।
मंतीसें करपल्लवधरिया	सुय वेणिण वि किंकरपरियरिया ।
तरुवरविलग्गचलदवदहणि	पइसारिय वेणिण वि गिरिगहणि ।
गणणाहइ हयवम्महबलहु	दक्खविय णवंत महाबलहु ।
रायागमणायवियाणपण	कुच्छियमइ धाडिय राणपण । 10
परमेसर प णर भव्व जइ	वर एवहिं तुहुं उद्धरहि तइ ।

घत्ता—दुम्मइमलमइलेहिं कुंअरिहिं कहिं जापवउं ॥

भणि भवियञ्चु भयवंत एहिं काइं पांचेवउं ॥ ८ ॥

9

मुणि भणइ एत्थु दिहिं करिवि तवे	होहिंनि सीरि हरि तइयभवे ।
णामेण रामलक्ष्ण चिजई	तं णिसुणिवि जाया तरुण जई ।

२ A सह खलयर^०. ३ AP असमंजसु. ४ A^०भसणु. ५ A जि.8 १ A सदप्पु. २ A उदयंतु. ३ AP^०पल्लवि धरिया. ४ AP णमंत. ५ AP कुमरहिं.
६ P भयवंतहिं.

9 १ P विहि.

4 a सढं सर्वत्र वक्रहृदयाः; b असमंजसमरणु सशल्यमरणं आत्मघातो वा. 6 a सिरि^२ राज्यलक्ष्मीः;
b पाउ पापम्. 7 b कुसुइसमम्भसणु मिथ्याशास्त्राभ्यासः. 8 a मिगमलु मृगा एव मलः.8 2 b परयार^० परदारः. 4 b अत्थंतु अस्तं गच्छन्; मिहिरु सूर्यः. 5 b जमकरणु रोगः.
10 a रायागमं नीतिशास्त्रम्; b कुच्छियमइ कुमती द्वौ पुत्रौ. 12 कुंअरिहिं कुमाराभ्याम्.

9 1 b सीरि हरि बलदेवो वामुदेवश्च.

गउ मंति णिहेल्लेणु पय णयइ
वसुहाहिव तणुरुह गिरिविवरि
कासु वि सकम्मउग्गुगमहो
विसहावियदंडेणमुंडणं
णिवणयणइ मुक्कंसुयजलइ
हा हा मइं रूसिवि किं कियउं
अइरहसें किज्जइ कज्जरइ
मणु मंतें परियाणिवि पइहि
जिह्दोहिं मि लइयउं तववरणु
कोमलतणु णीसारिवि घरहु

णरणाहहु वइयरु विण्णवइ ।
आरण्णि णिहिय वणवासिघरि ।
तणुदुक्खलक्खविहिंसंगमहो । 5
पंचिदियदप्पविहंडेणइं ।
ओसासित्ताइं व सयदलइं ।
किं बालजुयलु दुक्खे ह्यउं ।
जा सा णिहइइ ण कासु मइ ।
अक्खिउ जिह पासि णिहिय जइहि । 10
ता जायउं तायहु सिंसुकरुणु ।
णंदण पट्टिविवि वणंतरहु ।

घत्ता—डहु बुहणिदिरु रज्जु रज्जु जि पाउ णिरुत्तउं ॥
रज्जमण्ण पमत्तउ ण सुणंइ जुत्ताजुत्तउं ॥ ९ ॥

10

णियंमोत्तिउ णियकुलि संणिहिउ
भरहेण व अहिवंदिवि रिसहु
गउ मोक्खहु अक्खयसोक्खमइ
खग्गउरहु बहि कयधम्मकिसि
थिय जइयहुं तइयहुं महि जिणिवि
सुप्पह पुरिसोत्तम दिट्ठं पहि
दीसइ णरणाहहु जेरिसउं
मुंउ सणकुमारु हुउ रिसि विजउ
कमलप्पहि विमलविमाणवरि
मणिचूलु देउ जायउ पवरि

वणु जाइवि रापं तवु गहिउ ।
पणवेवि महाबलु मुणिवसहु ।
थिउ णाणदेहु णिव्वाणपइ ।
आयावणजोपं बालरिसि ।
महसूयणु समरंगणि हणिवि । 5
ससिचूलं चित्तिउं हिययरहि ।
महु होउ पहुत्तणु तेरिसउं ।
सुरु णामु सुवण्णचूलु सदउ ।
णिवतणउ मणिप्पहि अमरघरि ।
कलहंसु व विलसइ कमलसरि । 10

घत्ता—जं अणिमाइगुणेहिं बहुविहवेण णिउत्तउं ॥

तं दिवि दीहरु कालु बिहिं मि दिव्वु सुहुं भुत्तउं ॥ १० ॥

२ A णिहेल्लेणु पइ. ३ A उग्गुगमहो. ४ A दिहि°. ५ AP डंडेण°. ६ P मुंडणहो. ८ AP णिहुइइ. ९ A पइविय. १० AP पमत्तु. ११ AP सुणइ.

10 १ AP णियणत्तिउ. २ A दिट्ठि. ३ A सुए. ५ AP सणकुमारे. ५ A बहुविहत्तवेण.

4 b वण वा सिं सुनयो भिल्ला वा. 5 a सकम्मउग्गुगमहो स्वकर्मणः. उग्रः रौरः उदयस्तस्मात्. 7 b ओ सा सि त्ता इं अवश्यायावसिक्तानि. 9 a अइरहसें अतिरभमेन उत्सुकेन. 10 a पइ हि राज्ञः.

10 4 a कयधम्मकिसि कृतधर्मकर्णौ. 5 a जइयहुं इत्यादि पूर्वं यदा काले अनन्तजिन-
तीर्थे चन्द्रचूलेन सुप्रभपुरोत्तमौ चतुर्ध्वलकेशवौ मार्गे दृष्टौ. 6 b हिययरहि मनोरथ. 8 b सदउ दया-
सहितः. 9 b णिवतणउ चन्द्रचूलः.

11

सरवरमरालचक्रिखयभिसइ
 जहिं सालिरमणकीलाहरइं
 जहिं सालिकमलछुण्णइं सरइं
 सिसुहंसपयइं मयरंदरइ
 रोमंथतइं संतुट्टाइं
 उच्छुरसु जंतणालीहसिउ
 ओयणु सीयलु दहिओल्लियउं
 जहिं जिम्मइ पहिययणाहिं पवहि
 ओहामियअलयाउरिसिरिहि
 तहिं दसरहु दसदिसिणिहियजसु

इह भरहवरिसि कासीविसइ ।
 जहिं सालिधण्णछेत्ततरइं ।
 जहिं सालिहियाइं व अक्खरइं ।
 गोहणइं चरंतइं पइ जि पइ ।
 दीसंति हरियतणपुट्टाइं । 5
 दक्खारसु पिज्जइ मुहरसिउ ।
 फणिवेह्लिपत्तपत्तलि थियउं ।
 देसियढक्करिजंपणरवहिं ।
 जणभरियहि वाणौरिसिपुरिहि ।
 णिवसइ णिउ जियरिउ थिरु सवसु । 10

घत्ता—कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायरु जायउ ॥

जो इक्खाउहि वंसि णरवइरूढिइ आयउ ॥ ११ ॥

12

करगेज्जु मज्जु उत्तुंगथणि
 सिविणंतरि पेच्छइ उग्गमिउ
 ससि कुमुयकोसवित्थारयरु
 सुविहाणइ कंतहु भासियउं
 तुह होसइ तणुरुहु सीरहरु
 अण्णाहिं दिणि सग्गहु अवयरिउ
 मधरिक्खयंदि णीरयदिसिहि
 देविइ णवमासहिं सुउ जणिउ
 करिवरलोहियर्पव्वालियउ

तहु सुवल णाम वल्लह धरिणि ।
 रवि सहसकिरणु णहयलि भमिउ ।
 गज्जंतु जलहि जुज्झियमयरु ।
 तेण वि तहु गुज्जु पयासियउं ।
 हलि चरमदेहु णं तित्थयरु । 5
 सुंरु कणयचूलु उंयरइ धरिउ ।
 फग्गुणि तमकालिहि तेरसिहि ।
 तणुरामु रामु रापं भणिउ ।
 सिविणंतरि सीहु णिहालियउ ।

11 १ A °चालियभिसए. २ P रोमंथतइं पसुसंतुट्टाइं. ३ AP वाराणसि°. ४ A °रूढि आयउ.

12 १ A सुकल. २ AP रमणि. ३ AP सुउ. ४ A उयरे; P उवरें. ५ A °रिक्खे चंदे; P °रिक्ख इंदे. ६ P °पच्वालियउ. ७ P सुविणंतरि.

11 1 a °चक्रिखयभिसइ °आस्वादितपञ्चिनीकन्दे. 2 a सालिरमणकीलाहरइं ल्हीपुरुषयुक्तक्रीडागृहाणि. 3 a सालिकमल° सभ्रमराणि कमलानि; b सालिहियाइं लक्ष्मीलिखितानि. 4 a मयरंदरइ मकरन्दरजसि; b पइजिपइ पदे पदे. 8 a पवहि प्रपायाम्. 11 दोसायरु चन्द्रः, दोषाणामाकरश्च.

12 1 a करगेज्जु मुष्टिग्राह्यम्. 7 a मधरिक्खयंदि मघानक्षत्रस्ये चन्द्रे; णीरयदिसिहि निर्मलदिशायाम्. 8 a तणुरामु शरीरेण उज्ज्वलः. 9 a °पच्वालियउ तिसः.

माहहु मासहु सियपदमदिणि
मणिचूलु देउ दसरहरयइ
जोइउ लक्खणलक्खंकेियउ

सविसाहि जसाहिउ पहु भुवणि । 10
सुउ अवरु वि जायउ केक्यइ ।
सो ताएं लक्खणु कोकियउ ।

घत्ता — बेणि वि ते गुणवंत भुयबलतासियदिग्गय ॥

णाइ सियासियपक्ख पत्थिवगरुडहु णिग्गय ॥ १२ ॥

13

रेहंति बे वि बलपव हरि
णं गंगाजउणाजलपवह
णं पुण्ण मणोरह सज्जणहं
अवरोप्परु णिरु णिममच्छराहं
सहसाइं विहिं मि णिदेसियइं
पण्णारहचावइं तुंगतणु
पुरवाहिरि उवचणसंठियहु
अवलोइवि रामहु सरपसर
करि आउहु जं लक्खणु धरइ

णं तुहिणगिरिदंजणसिहरि ।
णं लच्छिहि कीलारमणवह ।
णं वम्मवियारण दुज्जणहं ।
तेरहवारहसंवच्छराहं ।
परमाउसु जइवरभासियइं । 5
ते सत्थु सुणंति गुणंति धणु ।
विद्धंतहु जयउकंठियहु ।
मउ चेय मुयंति ण वइरि सरु ।
तहु परपहरणु जि ण संचरइ ।

घत्ता — कंइ महिसंचारं ससरसरासणहत्थहं ॥

10

संकइ जमुं जमदूउ को णउ तसइ समत्थहं ॥ १३ ॥

14

रिसहाहिवसंताणाइयहं
संखापरिवज्जिय पुरिस गय
ताहिं अण्णहु कहिं जीवियकइइ
सव्वत्थसिद्धि हरिसेण गइ
सुयसुइदिणाउ जायविजइ

सिरिभरहसयररायाइयहं ।
अहमिंद वि जहिं कालेण मय ।
लइ अत्थमियइ पत्थिवसहइ ।
दिणमाणं वरिसहं संहसहइ ।
पुण्णइ पंचुत्तरवरिससइ । 5

८ AP सविसाहु. ९ AP भवणि. १० P जायउ अवरु वि.

13 १ AP तुहिणगिरिद णीलसिहरि. २ A °जल्पवाह; P °जलणिवहु. ३ A °रमणगह;
P °रवणवहु. ४ A णिदेसियउ. ५ A भासियउ. ६ A जम.

14 १ A अण्ण वि कहिं; P अण्णहिं किं. २ A अइ अत्थमिए; P लइ अत्थमिए.
३ P दिणमाणहं. ४ A सहासरुए; P °सहसि हए. ५ AP °दिणाउ जाएवि लए.

10 b स वि सा हि विशाखानधत्रयुक्ते. 14 सि या सिय पक्ख शुक्कृष्णपक्षौ.

13 1 b °अं जण सि हरि नीलपर्वतः. २ b की लार मण वह की डार मण मार्गौ. 8 b सरु
शब्दं त्राणं वा. 10 स सर त्राणयुक्तम्.

14 3 b पत्थिवसहइ पार्थिवसभया. 5 a सुयसुइदिणाउ पुत्रोत्पत्तिविवसात्.

असुरिदं विद्धंसियसयरि
परियाणिवि तणयहुं तणउं वलु
सहुं पुत्तहिं जायधरारइहिं
तहिं सुहुं णिवसंतहु णरवइहि
अण्णेक्कहि भरहु पसण्णमणु
महिवइ संपुण्णमणोरहहिं
सोहइ पुत्तहिं सकयायरहिं

दहरहु पइदु उज्जाणयरि ।
हुउ महियलि सयलु वि खलु विवलु ।
सुपरिट्टिउ पहु णियसंतइहिं ।
उप्पणउ संतोसु व जइहि ।
अण्णेक्कहि धरिणिहि सत्तुहणु । 10
चउहिं वि जणेहिं परबलमहहिं ।
णं भूमिभाउ चउसायरहिं ।

घत्ता—मिहिलीणयरिहि ताम णामं जणउ णरेसरु ॥

पसुवहकम्मं सग्गु चितइ जण्णहु अवसरु ॥ १४ ॥

15

महु मेरउ रक्खइ को वि जइ
तं णिसुणिवि मंतं जंपियउं
सो जासु ण जाउहाणु गहणु
सो रक्खइ धुवु काकुत्थु तिह
ता रापं पेसिय दूयवर
उज्झहि दसरहहु णिवेइर्यउं
जो रक्खइ अद्धर परमकूय
णामेण सीय वेह्लहलभुय
तं बुद्धिविसारएण भणिउं
कउकरणुं णिहालणु रक्खणु वि

वसुहासुय दिजइ तासु तइ ।
जसु णामं तिहुयणु कंपियउं ।
जसु लहुवभाइ भइ महमहणु ।
खेयरहिं ण हम्मइ होसु जिह । 5
गय ते बहुपाहुं डेलेहकर ।
आलिहियउं पण्णउं वाइयउं ।
तहु दिजइ णं पच्चक्ख सूर्य ।
किर कहु उवमिजइ जणयसुय ।
इहरत्ति परत्ति चारु झुणिउं ।
लइ रक्खउ राहउ लक्खणु वि । 10

घत्ता—कारावय होआयार हुणिय पसु वि देवत्तणु ॥

जेण लहंति णरिंद तं करि जण्णपवत्तणु ॥ १५ ॥

६ AP दसरहु. ७ A सुपइट्टउ. ८ A महिली°.

15 १ A णाउहाणु. २ A रक्खइ वंधुसमंउ. ३ A पाहुड लेवि कर. ४ P णिवेवियउं.
५ A अद्धर परमरूअ; P अद्धर परमकिय. ६ AP सिय. ७ P करणु. ८ A कारावय होयारहुणिय;
P कारावयहोआयारि.

6 a असुरिदं इत्यादि इयं कथा अग्रं कथयिष्यते. 9 b जइहि यने: 10 b सत्तुहणु शत्रुघ्नः. 11 b
परबलमहहिं शत्रुघ्नैर्यमथर्कैः 12 a सकयायरहिं स्वेषु द्रव्येषु ज्ञातिषु वा कृतः आदरो यैः पुत्रैः;
सागरपक्षे तु स्वकीयैः आकरैः.

15 1 a महु मखो यज्ञः; b वसुहासुय सीता. 2 a मंतं जनकमन्त्रिणा. 3 a जाउहाणु
राक्षसो रावणः; b महमहणु मधुसूदनः 4 a काकुत्थु रामः. 6 b पण्णउं पर्णं पत्रम्. 7 a परमकूय
परमक्रिया; b सय लक्ष्मीः. 8 a वेह्लहल° कोमलौ. 9 a बुद्धिविसारएण दशरथमन्त्रिणा. 10 a
कउ° ऋतुर्धनः; b राहउ राघवो रामः. 11 कारावय यज्ञे धनव्ययकारिणः; होआयार होतारः
पण्डितवत्स्वयं कर्तारः; हुणियपसु घातितः पशुरपि यज्ञेन कृत्वा देवत्वं प्राप्नोति.

16

जं जुंजिवि' सग्गहु सयरु गउ
तं नुं व रक्खिज्जइ किज्जइ वि
जगि धम्ममूलु वेउ जि कहिउ
ते हुंति देव दिव्वंगघर
रक्खेवि जण्णु सा घणथणिया
ता अइसयमइणा ईरियउं
सुणि भारहि चारणजुयलि पुरि
तहिं अत्थि सुजोहणु दिण्णदिहि
सुय सुलस सुलक्खण जहिं जि जहिं
तहिं गिरुवमु रूउ गुणग्घविउं

सहुं सयणहिं तणयहिं मुक्करउ ।
भावें वित्थारहु णिज्जइ वि ।
सो जेहिं महापुरिसहिं गंहिउ ।
लहु पेसहि कुलसरहंसवर ।
सिसु परिणउं सुय जणयहु तणिया । 5
पइं वप्प असञ्चु वियारियउं ।
जिणधम्मपहाउज्झियविहुरि ।
महएवि तासु णामें अतिहि ।
दीसइं भल्लारी तहिं जि तहिं ।
णिउणें विहिणा कहिं णिम्मविउं । 10

यत्ता—णडवेयालियत्तत्तबंदिणघोसाऊरिउं ॥

ताहि सयंवरु जाउ सयरु राउ हकारिउ ॥ १६ ॥

17

सो कोसल मेल्लिवि णीसरिउ
दप्पणि अवलोइउ सिरपल्लिउं
रापण वुत्तु किं परिणयणु
थेरत्तणि परिहउ पेम्मविहि
ता तहु धाईइ किसोयरिइ
सियकेसें चंगउ दीसिहइ
तें वयणें महिवइ पुणु चलिउ
दियहेहिं पराइउ तं णयरु

पहंपरहरि मज्जणि संचरिउ ।
णवचंपयतेह्लें विच्छुलिउं ।
एवहिं किं छिप्पइ तरुणियणु ।
विसहिज्जइ वर तवतावसिहि ।
पडिवयणु दिण्णु मंदोयरिइ । 5
तुंहु सिरिहरि संपय पइसिहइ ।
गरुडइउ णहयलि परिघुलिउ ।
ससुरग्गइ संथुउ णिवसेंयरु ।

16 १ A जुंजिवि; P हुंजेवि. २ AP णिव. ३ A कज्जइ व. ४ A णिज्जइ व. ५ A महिउ.
६ P परणउ. ७ AP अवलोइय मारइ तहिं जि तहिं. ८ AP सयरगउ.

17 १ A पहु पुरिवहि. २ AP सिरि पलिउ. ३ A पेम्मणिहि. ४ AP तहु. ५ A णिउ
सयरु; P णिउ सगरु.

16 1 a जुंजिवि कारयित्वा; b मुक्करउ मुक्तपापः. 2 b वित्थारहु णिज्जइ विस्तारं नीयते.
6 a अइसयमइणा अतिशयमतिमन्त्रिणा. 7 a चारणजुयलि नगरस्य नामेदम्; b °उ जिञ्जियविहुरि
°त्यक्तयुःखे. 11 °छत्तं छात्राः.

17 1 b पहंपरहरि प्रभां परामुक्कृष्टां धरति यो दर्पणः स प्रभापरधरः; अथवा प्रभां माहात्म्यं
परेषां ह्रस्तीति; मज्जणि स्नानावसरे; संचरिउ प्रतियुज्यते. 2 b विच्छुलिउं भक्षितमभ्यक्तम्.
3 b छिप्पइ स्पृश्यते. 4 a परिहउ परिभवः. 6 b सिरिहरि श्रीगृहे.

जाह्वि धाह्व मंदोयरिह

सहं दिष्ण कष्ण तुच्छोयरिह ।

घत्ता—कष्णह गुणसंदोहे हियवउं सयारि णिहिसुं ॥

10

मायह विहसिवि ताम अवरु पडुत्तरु वुत्तउं ॥ १७ ॥

18

सुणि देसि सुरग्मह सहलवणि
 बाहुवलिणराहिवसंतइहि
 तिणपिगु तासु पिय सुजसमह
 तहि तणउ तणउ णं कुसुमसरु
 महुपिगु णामुं तुह मेहुणउ
 अण्णेत्तहिं म करहि रमणमह
 णियभाइणेज्जु वरु इच्छियउ
 सासुयह पइत्तु समारियउं
 अण्णेक्के सयरहु साहियउं
 जं कष्णारयणु समहिलसिउं

पोयणपुरि धणपरिपुष्णजणि ।
 जायउ महु बंधु कुलुष्णइहि ।
 वीणारब णं मणसियहु रह ।
 तरुणीयणलाइयविरहजरु ।
 सुइ अच्छइ आयउ पाहुणउ । 5
 तुह जोग्गु जुवाणउ सो जि लइ ।
 अण्णेक्कु असेसु दुगुंछियउ ।
 पडिवक्खागमणु णिवारियउं ।
 जं आहरणेहिं पसाहियउं ।
 तं दुल्लहु वट्टइ विहिवसिउं । 10

घत्ता—अतिहीदेविहि बंधु जो तिणपिगलु राणउ ॥

महुपिगलु तहु पुत्तु आयउ मयणसमाणउ ॥ १८ ॥

19

देहिंति तासु सुय जाहि तुहं
 गुरु चवइ एउ किर कित्तंडउं
 जइ णउ परिणावमि कष्ण पइं
 इय भणिवि कब्बु कइणा विहिउ
 तं कासु वि कहिं मि ण दावियउं

ता पहुणा जोइउं मंतिमुहं ।
 महं तिहुंयण सरिसव जेत्तंडउं ।
 तो मंतित्तणु किउं काइं महं ।
 वरलक्खणु दलसंचइ लिहिउ ।
 मंजूसहि तेण छुहावियउं । 5

६ AP णिहत्तउं.

18 १ A णाउं तमु पेहणउ. २ A अण्णेहे तहे. ३ A रमणरह. ४ A सवारियउ; P संवारियउ.

19 १ A कित्तंडउं; P केत्तंडउं. २ A तिहुवणु सरिसउ.

9) b दिष्ण कष्ण कर्णो दत्तः, सुलसया सगरगुणाः श्रुताः.

18 4 a तहितणउ तणउ तस्याः संबन्धी तनयः पुत्रः. 5 a मेहुणउ मातुलपुत्रः;
 b पाहुणउ प्राधूर्णकः. 6 a अण्णेत्तहिं अन्यत्र सगरादौ. 7 a भाइणेज्जु भ्रातृपुत्रः; b अण्णेक्कु
 अद्वितीयः. 8 a सासुयह मातुलान्या अतिथिदेव्या; पइत्तु प्रयत्नः; b पडिवक्खागमणु प्रतिपक्षस्य
 सगरस्यागमनम्.

19 2 a कित्तंडउं कियन्मात्रम्; b सरिसव जेत्तंडउं सर्वपमात्रम्. 4 b दलसंचइ
 पत्रसंपुटे. 5 b छुहावियउं निक्षिप्तम्.

बहुवण्णविचित्तीरपिहिउं
हलियाहिं हलि हत्यु जेत्यु णिहिउ
कउं वड्ढियतणकट्टयरहिउ
वावारिय कम्म करंति जहिं
आयड्ढिवि णीय णिहेलणहु
उग्गाडिय पोत्थउं जोइयउं

णिवउववणमहियलि संणिहिउं ।
जहिं लुहु भूभाउ समुल्लियउ ।
जहिं पग्गाहि धवलु परिग्गाहिउं ।
णंगंरि मंजूस विलग्ग तहिं ।
दक्खालिय पहुहि सुजोहणहु । 10
अण्णेकं भल्लउं वाइयउं ।

घत्ता—दियवरवेसें दुक्कु कई पच्छण्णु सरायइ ॥

वरइत्तहु सामुहु भासइ कोमलवायइ ॥ १९ ॥

20

काणकुंटपिंगलाहं
णिद्धणाहं णिव्वलाहं
माणलज्जवज्जियाहं
कुट्टणट्टकाययाहं
णीयकम्मकारयाहं
णिग्घिणाहं णिइयाहं
वड्ढमाणदुज्जसाहं
बुड्ढकुच्छियंगयाहं
गोत्तवित्तवत्त जा वि

अंधमूयपंगुलाहं ।
बुद्धिहीणवेभंलाहं ।
रोयभावणिज्जियाहं ।
छिण्णपाणिपाययाहं ।
इत्थिडिंभमारयाहं । 5
साहुकम्मणिदयाहं ।
दुक्कुलाहं सालसाहं ।
दीणभावणं गयाहं ।
दिज्जए ण कण्ण सा वि ।

घत्ता—मंडवमज्झि विवाहि पिंगलु जो पैइसारइ ॥

10

सो^१ विहवत्तणु दुक्खु णियधीयहि वित्थारइ ॥ २० ॥

21

ता सो महुपिंगलु लज्जियउ
पक्किल्लउ ल्हिक्किवि बंधवहं

गउ चामरल्लत्तविवज्जियउ ।
लग्गउ दददुविहहं जिणतवहं ।

३ A चीर पिहिउ. ४ AP समुल्लिहिउ. ५ A omits this foot. ६ P adds after this :
संसालगा रइ णिरु गहिउ. ७ A लग्गलि; P लंगलि. ८ A कइकयपच्छण.

20 १ A °विभलाहं; P °विभलाहं. २ A दुज्जणाहं. ३ A दुग्गुहाहं. ४ A कुच्छियारयाहं.
५ A वइसारइ. ६ P omits सो.

21 १ AP एकल्लउ.

7 a हलिय हिं कर्षकैः; b समुल्लियउ समुल्लिखितः. 8 b पग्गाहि प्रग्रहे रश्मौ; धवलु बलीवर्दः.
9 b णंगंरि लाङ्गले हले. 12 कइ स एव मन्त्री; सरायइ रागपूर्विकया वाचा. 13 सामुहु लक्षणम्.

20 2 b °वे भलाहं विह्वलानाम्.

21 2 a ल्हिक्किवि तिरोभूत्वा.

सेवइ हरिसेणगुरुहि पयइं
एत्तहि सो सयरु वि बालियइ
अणुहुंजिवि तहिं णववहुसुरउ
उज्झाउरि जाइवि पाणपिउ
महुपिंणु भडारउ कहिं मि पुरि
जा तावेकं विण्णं कहिउ
रिसिसीलु एण अवलंबियउं
अवरेकं ता तहिं भासियउं

णिकखवइ अणंतइं दुक्कियइं ।
वरु लइउ सयंवरमालियइ ।
पुणु आमेल्लेपिणु सासुरउं । 5
सिरि सुलसइ सहुं भुंजंतु थिउ ।
पइसइ भिक्खहि चउवण्णघरि ।
सामुहु असेसु सच्चरहिउ ।
लच्छीमुहु काइं ण चुंबियउं ।
पइ लक्खणु किं किर णिरसियउं । 10

धत्ता—सुणि पोयणपुरि राउ होंतउ एहु महीसरु ॥

गउ सुलसावरयालि चारणजुयलउं पुरवरु ॥ २१ ॥

22

पिउसससुय परिणइ जाम किर
पोत्थइ वित्थारिवि दक्खंविउ
सासुयससुरहं मणु हारियउं
अप्पणु पुणु खलु वरइत्तु थिउ
तं णिसुणिवि हियवइ कुद्दु जइ
पाविट्टु दुद्दु खलु खुइमइ
रिसि रोसु भरंतु भरंतु मुउ
सो सट्टिसहसमाहिसाहिवइ

ता सयरमंतिकयकवडगिर ।
चिवरिवि बहुसइसमग्गविय ।
इहु पिंगदिट्ठि णीसारियउ ।
तेणेयहु दुक्खणिहांणु किउ ।
जिणदेसिउ तवहलु अत्थि जइ । 5
मइं पुरउ हणेव्वउ सयरु तइ ।
असुरिंदहु वाहणु देउ हुउ ।
किं वण्णामि महिसाणीयवइ ।

धत्ता—जिणवरधम्मु लहेवि खमभावें परिचत्तउ ॥

खणि सम्मत्तु हणेवि सुरदुग्गइ संपत्तउ ॥ २२ ॥

10

23

पुणु तक्खणि असुरें जाणियउं
जिह मामिहि मामहु हित्त मइ

जिह कव्वु करेपिणु आणियउं ।
जिह पिंणं पडिवण्णी विरइ ।

२ A अणुहुंजहि; P अणुभुंजहि. ३ AP पइसरइ. ४ A जा ता विण्णं एक्कं. ५ A मुणि.

22 १ A दिक्खविय. २ A णिहाउ.

5 b आ मे ल्लेपिणु त्यक्त्वा; सासुरउं श्वशुरकुलम्. 7 b चउवण्णघरि चतुर्वर्णानां गृहा यत्र पुरे.
12 सुलसावरयालि सुलसाया विवाहकाले.

22 1 a पिउसससुय पितृभगिन्याः पुत्री. 2 b विवरिवि विस्तारीकृत्य. 4 a खलु दुर्जनः.
7 a भरंतु स्मरन्. 7 b °अणीयवइ सेनापतिः.

जिह गहिय तणूयरि मंदगइ
सहुं मंतिहिं साकेयाहिवइ
इंय चितिवि तंबिरलोयणउ
मुहकुहरविणिग्गयवेयमुणि
सुलसावइजीवियसिरिहरहु
जायउ सहाउ जो दुम्मयहु
उत्तंगसत्तधरणियलधरि
विस्सावसु राणउ विमलजसु

तिह एवहिं धुउ पावमि कुगइ ।
कहिं एवहिं वच्चइ लहु लइ ।
जायउ सो सालंकायणउ । 5
हिंसालउ दूसियपरममुणि ।
तहिं तासु महाकालासुरहु ।
आयण्णहु तहु कैह पव्वयहु ।
एत्थेव खेत्ति सांवत्थिपुरि ।
तहु सिरिमइदेविहि पुनु वसु । 10

घत्ता—णामें खीरकलंबु दियवरु सत्थवियारउ ॥

तासु चट्ट वसु जाउ पव्वउ अवरु वि णारउ ॥ २३ ॥

24

सहुं सीसहिं सो परमायरिउ
अब्भावयासणिट्टवियणिसि
उज्झाएं पणविवि पुच्छियउ
तीहिं वि दियवरुत्तहं तणउ
वसु पव्वय णारयधरणियलि
जिणणाणंसुणिच्छउ मणि वहइ
तं णिसुणिवि गुरु उव्विग्गमणु
खेलंतु दिपसं धाडियंउ
कंपंतदेहु सुहदाइणिहि

एक्कहिं दिणि काणणि अवयरिउ ।
उव्विद्वउ दिद्वउ तेत्थुं रिसि ।
भवियेव्वमग्गु सुणियच्छियउ ।
आहासइ मुणि पणट्टपणउ ।
पडिहिति दो वि कयजण्णफलि । 5
णारउ सब्वत्थसिद्धि लहइ ।
आयउ पुरु थिउ भूसिवि भवणु ।
अण्णहिं दिणि लंदिइ ताडियउ ।
वसु विसइ सरणु उज्झाइणिहि ।

घत्ता—पत्थिवि रक्खिउ ताए कंत म तासहि बालउ ॥

पत्थिवपुत्तु सुसीलु कमलगम्भसोमालउ ॥ २४ ॥

23 १ A अच्छइ लहु जइ. २ P तं चितिवि. ३ A कयकव्वयहु. ४ AP उत्तंग°. ५ A सावत्थपुरि; P सावित्थपुरि.

24 १ A तेण. २ A भवियणु मग्गु. ३ A °णाणि विणिच्छउ; P °णाणु विणिच्छउ. ४ A उव्विण्णमणु. ५ AP पीडियउ. ६ A लहें ताडियउ.

23 3 a तणूय रि कुशोदरी. 5 a सालंकायणउ सालङ्कायणनामा विप्ररूपः. 8 a सहाउ सहायः; b आयण्ण हु आकर्णयत. 12 चट्ट शिष्यः.

24 1 a परमायरिउ परमाचार्यः. 2 a अब्भावयासं अभ्रावकारो माले. 3 a उज्झाएं उपाध्यायेन; b सुणियच्छियउ सुधु निरोक्षितः. 5 a णारयधरणियलि नरकभूमौ. 8 b लडिइ यष्ट्या. 10 पत्थिवि प्रार्थनां कृत्वा.

25

घरणिहि वयणं वरु ओसरिउ
महुं उप्परि पंतउ कुद्धमणु
तं गिसुणिवि इज्जइ भासियउं
जइयहुं मग्गहि तइयहुं जि वरु
वैउ लेंतें संतें पीणभुउ
सहुं सहयरकिंकरहिं रमइ
पक्खिउलु णहंगणि पक्खलइ
णीरुवु ण णहयलु परु धरइ
इय चिंतिवि तेण विमुक्कु सरु
आयासकल्लिहमउ खंभु हउ
परिमंहुउ हत्थे जाणियउ
तहु खंभहु उप्परि हरिगीदि

सिसु चवइ माइ पइं गुरु धरिउ ।
भैणि एव्वेहिं दिज्जउ वरु कवणु ।
महुं पुत्त चित्तु संतोसियउं ।
तुहु देज्जसु धवलवल्लुढभरु ।
विस्सावसुणा कमि णिहिउ सुउ । 5
अवरहिं दियहुल्लइ वणि भमइ ।
पहु पेक्खइ तं तहिं पडिल्लवइ ।
पक्खलणहु कारणु संभरइ ।
धणुंणुणु आयद्धिवि पिंछधरु ।
उच्छलिवि बाणु धरणिणयलि गउ । 10
उच्चाइवि भवणहु आणियउ ।
सइं चडियउ कंचणमयइ पीदिं ।

घत्ता—आसणु चलइ ण किं पि जणु जणु जणवइ पयडइ ॥

धम्मं णियसच्चेण वसु गयणाउ ण णिवडइ ॥ २५ ॥

26

अण्णेक्कहिं वासरि विविहहलु
चंदकउ कलाउ ण जलि करइ
पत्तइं तित्ताइं मयूरियहं
इय तेण कज्जु परिहच्छियउं
कइ णीलकंठ सुविचित्तियउ
सो ण मुणइ ण भणइ पहि चरइ

णारय पव्वय गुरुंगिरिगुहिलु ।
पच्छाउहपायहिं ओसरइ ।
सरिवारिपवाहाऊरियहं ।
पुणु मित्तहु वयणु णियच्छियउं ।
भणु पव्वय मोरिउ केत्तियउ । 5
विहसेप्पिणु णारउ वज्जरइ ।

25 १ AP भणु. २ A एमहि. ३ AP वउ. ४ P पडिवलइ. ५ AP धणुगुणि.
६ AP थंभु. ७ A हरिवीदि; P हरिहि गीदि. ८ वीदि.

26 १ A ता एकहि. २ AP गय गिरिगुहिलु. ३ P पच्छामुह^०. ४ A सिंताइं (तित्ताइं ?)

25 3 a इज्जइ उपाध्यायभार्यया. 4 b ^०वल्लुढभरु अतिशयेन महान्. 5 b कमि संतान-
क्रमे. 6 b दियहुल्लइ दिवसे. 8 b पक्खलणहु स्वलनस्य; संभरइ स्मरति विचारयति. 9 b आ य-
द्धिवि आकृष्य. 10 a ^०फलिहमउ स्फटिकमयः. 11 a परिमंहुउ परामृष्टः सृष्टः. 12 a हरिगीदि
सिंहोच्छलिते सिंहधृते, सिंहासने इत्यर्थः. 14 गयणाउ आकाशात्.

26 1 a विविहहलु नानाफल्युक्तम्; b गुरुगिरिगुहिलु महागिरिमहूरम्. 2 a चंदकउ
मयूरः; b पच्छाउहपायहिं पश्चात्पादैः. 3 a तित्ताइं जलाद्रोणि; b सरिवारि^० नदीजलस्य. 5 a
कइ णीलकंठ कति मयूराः.

सिहिणीउ सत्त इह एकु सिहि
बहुबुद्धिगहीरें पीलुरय
पयमगं जाणिय ह्तिथणिय
पुच्छिवि पव्वउ पुरि पइसरिवि

ओसरिउ सरहु जो पिंछणिहि ।
पयलंतपेम्मजलसित्तरय ।
अवर वि आरुढणियबिणिय ।
गउ तक्खणि मच्छरु मणि धरिवि ॥ 10

घत्ता—अक्खइ मायहि गेहि णिरु तापं संताविउ ॥

हउं ण पढाविउ किं पि णारउ चारु पढाविउ ॥ २६ ॥

27

सो जाणइ अम्म असिद्धाई
करिकरिणिहिं पयबिबइं कहइ
सहुं कंतें पयडियगरहणउं
पइं काईं वि पुत्तु ण सिक्खविउ
तं णिसुणिवि भट्टे घोसियउं
मयरंदगंधमीणाहरणु
सुउ तेरउ सुंदरि मंदु जडु
इय पभणिवि पिट्टे मेस कय
ए वच्छ लपपिणु तरुगहणि
जहिं को वि ण पेक्खइ धुवु मुणिवि
तं णिसुणिवि जाइवि विविणपंहि
कर मउलिवि जोइणि का वि थुय

वणि मोरिगियइं अदिद्धाई ।
ता बंभणि रोसु चित्ति वहइ ।
विरइउ कोणीहलैकलहणउं ।
परडिंभु जि सत्थमग्गि थविउ ।
अलिकंकहं केणुववेसियउं । 5
हंसहं वि खीरजलपिहुकरणु ।
णारउ पुणु ससहावेण पडु ।
सुय भासिय जणणें णवियपय ।
पइसरिवि दूरु पंविमुक्कजणि ।
तहिं आवहु बिहिं वि कण्णु लुणिवि ॥ 10
पच्छणं थाईवि रुक्खरहि ।
पव्वइण उरब्भहु कण्ण लुय ।

घत्ता—इयरें पइसवि दुग्गें चित्तिउं चंदविवायर ॥

इह णियंति पसु पक्खि किंणर जक्ख णिसौयर ॥ २७ ॥

28

जहिं गच्छमि तहिं तहिं अत्थि परु
किह कण्ण उरब्भहु कत्तरामि

जइ णरु णउ तो पेक्खइ अमरु ।
घरु गंपिणु तायहु वज्जरामि ।

५ AP ओसरइ, ६ AP मणि मच्छरु.

27 १ AP अदिद्धाई, २ AP कोलाहल°, ३ AP परिशुक्कजणि, ४ AP कण्ण, ५ AP जायवि णिसुणिवि, ६ AP वियणवहि, ६ AP आइवि, ७ A क्वायर.

28 १ AP कण्णु.

7 a सि हिणीउ मयूरैः; b सरहु जलात्. 8 a पीलुरय गजरता; b °पेम्मजल° शुक्रम्; °रय धूलिः.

27 1 a असिद्धाई अकथितानि; b मोरिगियइं मयूराणामिङ्गितानि चिह्नानि. 3 b कोणीहलकलहणउं कोपरघातकलहं रात्रौ करोति. 5 b अलिकंकहं भ्रमरवकानाम्. 6 a °मीणाहरणु मत्स्याहारः; b °पिहुकरणु पृथक्करणम्. 11 a विविणपंहि अरण्यमार्गं; b रुक्खरहि एकान्ते रहस्ये कुदरे वा. 12 उरब्भहु मेषस्य.

गय बेणिण बे पेसणु आपियउ
विप्पेण वुत्तु हलि हंसगइ
जहिं गम्मइ तहिं असुणु णिलउ
सुरगुरु वि समाणु ण पारयहु
सुय घरिणि वि तासु समप्पियइं
तवचरणु जिणागमि संचरिवि
बहुकाले विहिं वि हेउभरिउ
णारउ अर्थ जव तिवरिस चवइ
अय पसु भणंतु सो वारियउ
गउ मच्छेरेण धरहरियतणु

घत्ता— तहिं दियवरवेसेण पव्वरण सो दिट्टउ ॥

असुरसुईउ पढंतु तरुतलि सिलहि णिविट्टउ ॥ २८ ॥

29

मणपणयपसंगुप्पायणउं
बुहेण वि पडिअहिवाउ किउ
सुय जायउ जाणिउ किं ण पइं
दोहिं मि सुभउमु गुरु सेवियउ
आयउ किर जोइहुं तासु मुहुं
लइ जणमहाविहिकारियहं
सयराइराय अब्भुद्धरहि
हउं कंचुइ अज्जु परइ मरमि
दियतरुणि ता तहु इच्छियउं
पुरदेसहं घल्लिउ मारि जरु
गय बेणिण वि तं कोसलणयरु

घत्ता— हुंणिवि तुरंग मयंग दणुपं दाविय मायइ ॥

कुंडलमउंडेफुरंत दिट्ट देव णहभायइ ॥ २९ ॥

णारयकिउ चारु वियप्पियउ ।
अवलोयहि तुहु णंदणहु मइ ।
पसुसवणहं किह विरइउ विलउ । 5
लइ पहु वि जोगगउ गुरुवयहु ।
वसुरापं सहं जंपिवि पियइं ।
दिउ मुउ थिउ दिव्वबोदि धरिवि ।
पारद्दु विवाउ पवित्थरउ ।
तं पव्वउ वयणु अइकमइ । 10
अवरोहिं बुहेहिं णीसारियउ ।
संपत्तउ णीलतमालवणु ।

तें तासु कयउं अहिवायणउं ।
पुणु वुत्तु होउं तुज्जु जि विणउ ।
चिरु खीरकलंबं अवरु मइं ।
सत्थत्थु असेसु वि भावियउ ।
ता पवसिउ सो सुउ दिट्टु तुहुं । 5
सहसाइं सट्ठि पसुवहरियहं ।
मैह माहियलि कारावहि करहि ।
णियविज्जइ पइं जि अलंकरमि ।
तं विज्जादाणु पडिच्छियउं ।
पहु को वि गवेसइ संतियरु । 10
दोहिं वि संबोहिउ णिहुं सयरु ।

२ A गुरुयरहु. ३ AP सुउ. ४ AP बहुकालहिं. ५ AP पवित्थरिउ. ६ A अइजव.

29 १ A मणे. २ A तं तासु. ३ P अभिवायणउं. ४ A पडिपणिवाउ. ५ AP होइ.
६ A कयवे. ७ A महु. ८ A कंचु अज्जु. ९ P तं विज्जा. १० AP णिउ सगरु. ११ A हणवि.
१२ A मउल.

28 5 a असुणु णिलउ न शून्यं निलयं स्थानम्; b पसुसवणहं मेघकर्णयोः. 6 b गुरु-
वयहु उपाध्यायपदस्य. 8 b दिव्व बो दि देवदारीरम्. 9 a हेउभरिउ हेतुभूतः युक्तिपरिपूर्णाः; b विवाउ
विवादः. 14 असुरसुईउ असुरश्रुतीः.

29 1 a मणेत्यादि चित्ते स्नेहप्रसङ्गोत्पादकम्; b अहिवायणउं अभिवादनम्. 2 a पडि-
अहिवाउ प्रत्यभिवादनम्. 5 a जोइहुं द्रष्टुम्. 6 a जणमहाविहिकारियहं यशमहाविधिकर्त्रीणाम्.
b पसुवहरियहं पशुवधक्त्रचाम्. 7 b महयशम्. 8 a कंचुइ वृद्धः. 12 हुणिवि अमौ हुत्वा.

30

अप्पाणउं तहिं जिं हुणावियउं
सत्तच्चिणिहित्तं चउपयहं
मायारपण जणु मोहियउ
हारावलिरुइरंजियथणिय
गोसवि णियजणणि वि अहिलसिय
विप्पहं वंभणिवरंगु विहिउं
बहु वंचिय धुत्तेणव जड
घरु जाइवि तणु घल्लिवि सयणि
हा सुलसि काई मइं तुज्जु किउ
तां तहिं जि पराइउ पघरजइ
किं धम्मु भडारा पसुवहणु

देवत्तु णहंगणि द्रावियउं ।
णिट्टियइं सट्टिसहसइं मयहं ।
संतीइ सुहेण पयासियउं ।
सुलसा वि तेण हुयवहि हुणिय ।
सउंयामणिमहि मइर वि रसिय । 5
महुणा लित्तउं जीहइ लिहिउं ।
अवलोयवि होमिजंतं भड ।
पहु सोयइ हा हा मिगणयणि ।
किह जीवियव्वुं णिइहिवि णिउ ।
पुच्छइ पणामु विरइवि णिवइ । 10
किं सव्वजीवदयसंगहणु ।

घत्ता — तं णिसुणिवि करुणेण तेण मुण्णिं वुत्तउं ॥

होइ अहिंसइ धम्मु हिंसइ पाउ णिरुत्तउं ॥ ३० ॥

31

पहु जंपइ पच्चउ दक्खवहि
रिसि भासइ णहयलरंगणडि
णिवडेसहि णरइ मं भंति करि
तं रापं रइयणरावयहु
तेण वि बोल्लिउ मलपोट्टलउ
असुरिंदं दरिसिय देवि णहि

अप्पाणउ किं मुहिइ खवहि ।
तुह सत्तमि दिणि णिवडिहइ तडि ।
किं सग्गुं जंति पसु खंत हरि ।
आवेप्पिणु अक्खिउ पावयहु ।
किं जाणइ सवणउं विट्टलउं । 5
विउणारउ लग्गउ पुणु वि म्महि ।

30 १ P तहिं तो. २ P णिहित्तं. ३ P सोयामणि°. ४ A होमिजन्ति. ५ A जीवियत्थु.
६ P तो.

31 १ A पइ जंपइ सच्चउ. २ A ण. ३ AP सग्गि. ४ A पसु खंति. ५ AP पव्वयहु;
but T पावयहु. ६ A महि; P महो.

30 1 a अप्पाणउं सालङ्कायनेन स्वजीवोऽम्रौ क्षेपितः. 2 a सत्तच्चि° अग्निः; चउपयहं
चतुष्पदानाम्. 5 a गो स वि गोवधयज्ञे; b सउयामणिमहि सौत्रामणीयज्ञे; मइर मदिरा. 6 b °वरंगु
योनिः. 12 करुणेण कारुण्येन.

31 1 a पच्चउ प्रत्यक्षम्; b मुहिइ मुधैव. 2 a °णडि नदी; b तडि विद्युत्. 3 b पसु
खंत हरि मृगादीन् खादन्तः सिंहाः. 4 a रइयणरावयहु रचिता नराणामापदो येन; b पावयहु
पर्वतस्य. 6 a देवि सुलसा; b विउणारउ द्विगुणः.

सो असणिणिहाएं घाइयउ वालुयपहमहि संप्राइयउ ।
 भणु पावें को व ण मारियउ रिउणा जाइवि पञ्चारियउ ।
 जं पिंगलु हउं पइं दूसियउ जं णियकरु कण्णइ भूसियउ ।
 जं वरलक्खणु महुं कयउ छलु भुंजहि एवहिं तहु तणउं फलु । 10

घत्ता—पुणु असुरें णहमग्गि मायारूवें हरिसियइं ॥

सा सुलस वि सो सयर बिण्णि वि मंतिहिं दरिसियइं ॥ ३१ ॥

32

ता खद्धकंदेण	सह तवंसिचिंदेण ।	
गउ णारओ सेउ	तं णयरु साकेउ ।	
तेणुत्तु दियसीह	पव्वय दुरासीह ।	
वणयरइं मारंतु	अट्टियइं चूरंतु ।	
वम्माइं छिदंतु	वम्माइं भिदंतु ।	5
इसिदिट्ठु सुपसत्थु	जइ वेउ परमत्थु ।	
तइ खग्गु किं णेय	जज्जाहि कुविवेय ।	
जइ पोरिसेओ वि	णउ होइ भणु तो वि ।	
वण्णज्जुणी गयणि	किं फुरइ णरवयणि ।	
अक्खरइं कहिं बिंदु	कहिं अत्थु कहिं छंदु ।	10
कयमणपयत्तेण	विणु पुरिसवत्तेण ।	
कहिं हेउं कहिं वेउ	कहिं णाणु कहिं णेउ ।	
कहिं गयणि अरविंदु	णीरूवि कहिं सहु ।	
वेयम्मि कहिं हिंस	दिय गिलियपरमंस ।	
हिंसाइ कहिं धम्म	जउ मुयहि तुहुं छम्मु ।	15
कत्तार दायार	जण्णस्स णेयार ।	
जहिं होंति होयार	सुरणारिभत्तार ।	
तो सूणगारा वि	मीणावहारा वि ।	
पसुंखद्धवद्धा वि ।		
अमरा ण किं होंति	जइ जण्णि णिवडंति ।	20

७ P °णिवाएं, ८ AP संपाइयउ. ९ P जीयवि.

32 १ A तवसविदेण. २ AP देउ. ३ A अविचार; PT अवियार. ४ AP omit this foot. ५ AP add after this: किं दुग्गइं जंति. ६ A णिवडंत.

7 a असणिणिहाएं अशनिघातेन. 8 b रिउणा कालासुरेण. 10 a छलु बञ्चना.

32 2 a सेउ श्वेतं आवासैः कृत्वा (सौधैः). 3 a तेणुत्तु नारदेन उक्तः; b दुरासीह दुराशा चेष्टा. 8 a पोरिसेओ पौरुषेयः. 11 a कयमणपयत्तेण कृतमनःप्रवर्तनेन; b °वत्तेण वक्त्रेण.

पसु सग्गु गळ्ळंति ।

दीसंति सकयत्थ तो अप्पयं तत्थ ।

होमेवि मंतेहि सहुं पुत्तकंतेहि ।

गम्मिज्जए सग्गु भुंजिज्जए भोग्गु ।

घत्ता—जलमद्वियचम्मणे दब्भे सुद्धि कहेप्पिणु ॥

25

भट्टे खच्चउ मासु खगमिगकुलइं वहेप्पिणु ॥ ३२ ॥

33

जइ सच्चउ विप्प पविच्चु जलु
जइ गंगाण्हाणु जिं दुरियहरु
जइ मद्वियमंडणि तमु गलइ
जइ हरिणाइणु धम्मज्जलउं
किं बंभणु उत्तमु तुहुं कहहि
जइ दब्भे पुण्णु पवित्थरइ
तं रत्तिदियहु दब्भे जि चरइ
गोफंसणपिप्पलफंसणइं
जइ पाउ हणंति हुंत पउर
किं बहुवे पुणु वि मंति भणइ
णिग्गंथु णियत्थु वि परिभमउ
सो पावइ तं सिद्धत्तुं किह

तो किं तं जायउं मुत्तु मलु ।
तो झस वि लहंति वि मोक्खु परु ।
तो कोलु विमाणे संचरइ ।
तो हरिणउलु जि जगि अगालउं ।
तं मारिवि मासगासु महहि । 5
तो किं मयउलु भवि संसरइ ।
किह इंदविमाणि ण पइसरइ ।
सुत्तुट्ठियाहं घयदंसणइं ।
तो वसहकायराया वि सुर ।
जो परु अप्पाणउं समु गणइ । 10
छुहु मोहु लोहु मच्छरु समउ ।
रसविद्धु धाउ हेमत्तु जिह ।

घत्ता—हिसारंभु वि धम्मु वयणु असच्चु वि सुंदरु ॥

जैणु धुत्तहिं दढमूहु किजइ कालउं पंडुरु ॥ ३३ ॥

34

जवहोमे संतियम्मु कहिउ
अय जव जि पयरिय हुंति णउ

जं तं पइ छेलएहिं गेहिउ ।
पइं लंघिउं तायहु वयणु कउ ।

७ A गच्छंत. ८ A होमेहिं.

33 १ AP मुत्तमल. २ A वि. ३ A सोक्खु. ४ P मरिवि. ५ AP दब्भु. ६ A किं.
७ AP अप्पाणे. ८ AP लोहु मोहु. ९ A सिद्धंतु. १० AP जगु.

34 १ P कहिउ.

21 b तत्थ यत्ते. 22 a हो मे वि हुत्वा. 25 मासु मांसम्; वहे प्पिणु हत्वा.

33 2 a दुरियहरु पापविनाशकम्. 3 a मद्वियमंडणि मृत्तिकया शरीरलेपने; b क्रोलु सूकरः. 4 a हरिणाइणु हरिणचर्म; b अगालउं श्रेष्ठम्. 9 b वसहेत्यादि वृषभाणां गोशरीरस्पर्शात् काकानां पिप्पलस्पर्शात्. 11 a णियत्थु निर्वन्नः. परिधानरहितः. 12 a सिद्धत्तु सिद्धत्वम्; b हेमत्तु सुवर्णत्वम्.

34 1 b छेलएहिं छानेषु. 2 a पयरिय उताः.

गिरि घोसइ गुरुणा पिसुणियउं
 ता णारउ पव्वउ रुहंधय
 पव्वयजणणिइ अब्भत्थियउ
 जइ सुंअरहि भासिउं अप्पणउं
 तं अम्महि भासिउं परिगणिउं
 जं चविउ असच्चु सुदुच्चरिउ
 महिकंपे ठाणहु विहडियउं
 णहंफलिहखंभचुउ चूरियउ

घत्ता—णियमित्तहो मरणेण पव्वउ थिउ विच्छायउ ॥

पडियउ णरयणिवासि वसु असच्चु संजायउ ॥ ३४ ॥

ते तैइयहुं वसुणा णिसुणियउं ।
 तावस सावित्थिहि झ ति गय ।
 वरकालु एहु पहु पत्थियउ । 5
 तो थवहि वयणु भाइहि तणउं ।
 अय जव ण होंति तेण वि भणिउं ।
 तं सघरु धरायलु थरहरिउ ।
 आयासहु आसणु णिवडियउं ।
 वसु चुणु चुणु मुसुमूरियउ । 10

35

पुणु दणुणं मायाभाउ किउ
 ता सयरमंति आणंदियउ
 पुणु तेण वि रायसूउ रइउ
 णिवमासहोमु विद्धंसियउ
 णारयहियउल्लउ तोसियउं
 मा णासहि पव्वय कहिं मि तुहं
 जिणविबइं चउदिसु थवहि तिह
 ता ते सिद्धउं तेहउं करिवि
 महिसिंदे लोयहु भासियउं
 देहिहि दुक्खावहु धम्मु कहिं
 तेवचरणे जालिवि मयणपुरि
 अज्ज वि अच्छइ जिणगुण महइ

वसु दाविउ सग्गविमाणि थिउ ।
 मूढेहिं जणु किं णिंदियउ ।
 दिणयरदेवे खयरं लैइउं ।
 महकालवियभिउ णासियउ । 5
 अमरारं पुणरवि घोसियउं ।
 मंतीसर माणहि अमरसुहुं ।
 खेयरविज्जाउ ण एंति जिह ।
 गय णरयविवरि विणिण वि मरिवि ।
 अप्पाणउं वइरु मइ साहियउं ।
 पत्तु खजइ पिज्जइ मज्जु जहिं । 10
 णारउ अहमिंद विर्माणवरि ।
 अईसयमइ दसरहासु कहइ ।

२ A तं. ३ A रुद्धवय. ४ A भासिउप्पणउ. ५ A महिकंपइ. ६ A वियडियउ. ७ A फलिहमउ
 खंभु धुउ चूरियउ.

35 १ P ०विवाणि. २ AP जि. ३ A लविउ. ४ A णरयघोरि. ५ AP तवजलणे.
 ६ A विमाणु धरि; P विवाणुवरि. ७ AP इय सयमइ.

3 a गिरि पर्वतः; पिसु णियउं कथितम्. 4 a रुद्धय रुद्राक्षचिह्नास्तापसाः. 5 a अब्भत्थियउ
 संमुखं प्राप्तः. 6 a सुंअरहि स्मरसि; b भाइहि पर्वतस्य. 10 b मुयूमूरियउ चूर्णः संजातः.

35 3 b लइउं भंक्तुं स्त्रीकृतः. 4 a णिवमासहोमु नृपमांसहोमः; b महकालवियंभिउं
 महिपासुरविजृम्भितम्. 5 b अमरारं दैत्येन महिपासुरेण. 9 a महिसिंदे दैत्येन महिषेन्द्रेण.
 10 a देहिहि जीवस्य. 11 b विमाणवरि विशिष्टे विमाने.

घत्ता—भरहकुमारजणेर हो हो जणु किं किज्जइ ॥
जगमहंतु अरहंतु पुप्फदंतु पणविज्जइ ॥ ३५ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिए
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रामलक्खणभरहसत्तुहणुप्पत्ती
णाम जौगणिवारणं णाम एकूणहत्तरिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ६९ ॥

८ AP ण. ९ A रामभरहलक्खणं. १० A जण्णिवारणं. ११ A एकसत्तिमो; P णवसट्ठिमो.

13 भरहकुमारजणेर भरतकुमारपितः हे दशरथ.

आयणिणवि मंतिसुहासियंइं मिच्छादंसणु णिट्टिउं ॥
दसरहहियउल्लउं मेरुथिरु जिणवरधम्मि परिट्टिउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

अवरेहिं मि अरुहि णिहित्तु चित्तु
चमुवइणा मारियपरवलेण
तंबारवारु सो जणु जाउ
इसमुसलगयासणिधणुहरेहिं
विण्णाणणाणणैयविहयमोहु
भणु भणु तणयहं महिरयणरिद्धि
ता बुत्तु णिमित्तवियक्खणेण
तहिं तहिं गोमिणि संमुहिय थाइ
ए अट्टम मइं णिसुणिउं पुराणि
जगतावणु रावणु रणि हणेवि
बलएव जणइण सुय ण भंति

संथुउ समंति कल्लाणमित्तु ।
एत्थंतरि उत्तु महाबलेण ।
णिव जोयहि णिर्यणंदणपयाउ । 5
जिप्पंति ण जिप्पंति व परेहिं ।
ता राए आउच्छिउ पुरोहु ।
तं गमणं होइ ण होइ सिद्धि ।
जहिं जाइ रामु सहं लक्खणेण ।
दामोयरु मुइवि ण पउ वि जाइ । 10
संठिय सलायपुरिसाहिठाणि ।
महि भुंजिंहिति खगं जिणेवि ।
दससंदणु पुच्छइ विहियसंति ।

घत्ता—महुं कहहि पुरोह लद्धविजउ भुवणत्तयविकखायउ ॥
दहगीउ दसासापत्तजसु केण सुंपुण्णं जायउ ॥ १ ॥

2

जसु आसंकइ जमु वरुणु पवणु
ता कहइ विप्पु महुरइ गिराइ
आरामगामसंदोहसोहि
रंभंतगोउलावासरम्मि
गोवालवालकील्लाणिवासि

तहु एयहु भणु सियचिंधु कवणु ।
सुणि धादइसंडहु पुव्विल्लभाइ ।
खरदंडसंडमंडियसरोहि ।
जवणालसालिजवळेत्तसोम्मि ।
तहिं सारसमुच्चइ णाम देसि । 5

1 १ A सुहासियउं. २ AP णिट्टियउं. ३ AP परिट्टियउं. ४ P णिवणंदणं. ५ A णय-
विहियमोहु; P णयणिविहियमोहु. ६ AP णिसुणिउं मइं. ७ P भुंजिंहिति. ८ A omits लद्धविजउ.
९ A दहगीव; P दसगीउ. १० P सपुण्णं.

2 १ P कमणु. २ AP कील्लाणिवासि.

1 1 सुहासियंइं सुभाषितानि सुवचनानि. 5 a तंबारवारु नरकदारं क्षयम्; b पयाउ
प्रतापः. 7 a विहयमोहु विहयज्ञानः. 10 गोमिणि लक्ष्मीः.

2 1 b सियचिंधु श्रियो निमित्तं चिह्नं वा. 3 b खरदंडं कमलानि; सरोहि तडागसमूहे.
4 a रंभंतं शब्दं कुर्वन्तः.

णायउरि अरिथि णरदेउ राउ
संतइहि थवेप्पिणु भोयदेउ
विज्जाहरु पेच्छिवि चवलवेउ
बद्धउ णियाणु महु जम्मि होउ
सुररमणीरमणविलासमग्गि
इह भरहँवरिसि वेयड्ढसेलि
दाह्णिणसेढिहि ह्यवइरिजीउ

वंदिवि अपंत गुरु वीयरउ ।
जइ जायउ मेल्लिवि बंधहेउ ।
णहयलि आवंतु विचित्तकेउ ।
एहउ मणहरु खेयँरविहोउ ।
मुउ उप्पणउ सोहम्मसग्गि । 10
गयणग्गलग्गमणिमोहँमेलि ।
पुरि मेहसिहरि पहु सहसगीउ ।

घत्ता—उव्वेयउ केण वि कारणिण अंतरंगि णिहँ जायउ ॥

कलहणउं करिवि सहुं बंधवहिं सो तिकूडगिरि आयउ ॥ २ ॥

3

लग्गइ अकंडि दुव्वयणकंडु
किं किज्जइ पिसुणणिवासि वासु
तहिं गम्मइ जहिं तरुवरहलाइं
तहिं गम्मइ जहिं गुणणिरसियाइं
इय चित्तिवि धैत्तिवि दुट्टसंक
उप्परिथियगिरिहँन्थिहिं विहाइ
णं सण्णइ एहिं जि पुणु वि एम
सिहरें णं भिंदिवि विउँलमेह
जोयइ पुत्तलियाणयणएहिं
परिवित्थारिवि कित्तीमुहाइं

मउलाविज्जइ सुहि तेण तुंड ।
तहिं गम्मइ जहिं कंदरणिवासु ।
तहिं गम्मइ जहिं णिज्झरजलाइं ।
सुव्वंति ण खलयणभासियाइं ।
काराविय रापं णयरि लंक । 5
चल्लियधयहत्थहिं णडइ णाइं ।
किं सग्गें मइं जायंतुं देव ।
ससि पावइ किं घरतेयरेह ।
णं हसइ फुरंतहिं रयणएहिं ।
दावइ पारावथरँवसुहाइं । 10

घत्ता—जहिं चंदसाल चंदंसुहय चंदकंतिजलु मेल्लइ ॥

कामिणिपर्यपहउ असोयतर उधवाणि वियसइ फुल्लइ ॥ ३ ॥

३ A खेयरहु होउ. ४ A °वरिस° ५ A °मऊह°. ६ AP णिउ.

3 १ AP °वरफलाइं. २ AP सुम्मंति. ३ A पावियदुट्टसंक. ४ A °हत्थिय विहाइ. ५ A जोर्यति. ६ AP सिहरेहिं वि. ७ AP णीलमेह. ८ A °रइसुहाइं. P °रयसुहाइं. ९ A °पयहयउ.

6 a णायउरि नागपुरनगरे. 7 b बंधहेउ पापबन्धकारणम्. 9 a जम्मि आगामिभवे; b °वि होउ विभोग ऐश्वर्यम्. 11 b °मो हमे लि किरणसंप्राते. 13 उव्वेयउ उद्विग्गः कलुपितः. 14 सो सहसग्रीवः.

3 1 a अकंडि अप्रस्तावे; °कंडु बाणः; b सुहि सुहदः. 4 a गुणणिरसियाइं गुण-च्छेदकानि. 7 a सण्णइ संज्ञया. 8 b घरतेयरे ह गृहतेजसः शोभाम्. 10 कित्तीमुहाइं कीर्तिमुखानि शिखराण्येव. 11 चंदसाल शिरोग्रहमाच्छादितोपरितनभूमिः; चंदंसुहय चन्द्रकिरणैहता. 12 °पयपहउ पादप्रहतः-

4

सा पुरि परिपालिय तेण ताव
सयगीउ खगाहिउ पंचवीस
णिहलिवि वइरि भूभंगभीस
दसपंचसहासइ वच्छराहं
सुंदरि तहु पणइणि मेहलच्छि
अंकगि चडिउ चंडंसुमालि
आहासिउ दइयहु फलपयासि
संभूयउ सयणहं सुहु जणंतु
णिवरूवें आणंदु व पयाहं

गय वरिसहं वीससहास जाव ।
थिउ विह्वंतु णाणामहीस ।
पण्णासगीउ मुउ जिइवि वीस ।
संठिउ पुलत्थि राइयधराहं ।
सां पेच्छइ घरि पइसंति लच्छि । 5
सिविणंतरंति पैरिगलियकालि ।
णंदेव देव थिउ गब्भवासि ।
णं बहुरूविणिवसियरणमंतु ।
आवासु व णहयरसंपयाहं ।

घत्ता—कुलधवलु धुरंधरु दहवयणु जायउ मायहि जइयहुं ॥ 10
मंदरगिरिदुग्गु पुरंदरिण महं भावइं किउ तइयहं ॥ ४ ॥

5

णवतरणि व सुरकुमुयायराहं
कढिणंकुसु णं दिग्गयवराहं
णं मत्तभमरु णंदणवणाहं
पवहंतमहासरिजलगलत्थु
वण्णेण गरलभसलउलकालु
जायउ जुवाणु जमजोहजूरु
णं विसमं विसंकुरु विसविसित्तु
तज्जियदासि व भउ धरइ चरइ
जसु सत्तसत्तसहसाइं आउ

पडिमल्लु व गज्जियसायराहं ।
मणमत्थइ सल्लु व अरिवराहं ।
णं कामवासु तरुणीयणाहं ।
महिमहिहरसंचालणसमन्थु ।
आयं वणयणु पडिवक्खकालु । 5
दुइंसणु णं मज्जणसूरु ।
णं पलयकालु हुयवहु पालित्तु ।
जसु असिधरइ धर मरइ तरइ ।
वरिसहं जो सुव्वइ वज्जकाउ ।

4 १ AP तीससहास. २ AP ओहामियरूवें जाइ लच्छि (A जायलच्छि). ३ P पडि-
गलिय°. ४ AP णरदेउ देउ. ५ A भावहि.

5 १ A कुमुयावराहं. २ AP मणि मत्थय. ३ AP कामवाणु. ४ A णं सविसु विसंकुरु
विसपसित्तु; PT णं समविसमंकुरु; K records a p; समविसमंकुर. ५ P करइ डरइ. ६ P °धारहि.

4 4 b राइयधराहं राजिता धरा येपु वणेंपु. 6 a चं डंसुमालि सूर्यः; b परिगलियकालि
गलितरायवसरें, प्रभाते इत्यर्थः.

5 1 a °तरणि सूर्यः. 2 b मणमत्थइ चित्ते मस्तके च. 3 b कामवासु कामपाशः.
6 a जमजोहजूरु यमभयानां त्ररकः. 7 a विसमविसंकुरु विसपसित्तु विप्रमविपस्याङ्कुरो विषेण
विपिक्तश्च; समविसमंकुर इति पाठे सह मया लक्ष्म्या वर्तन्ते इति समा राजानः तेषां विप्रयाङ्कुरः; विगतः
समः उपशमः क्रोपः तस्याङ्कुरो वा. 8 a भउ धरइ भयं धरति; b धर भूः पृथ्वी.

घत्ता—जसु भईएँ रवि णं अत्थवइ चंदु व चंदगहिल्लउ ॥ 10
फणि पुरिसरुवु परिहरिवि हुउ दीहदेहु कीडल्लउ ॥ ५ ॥

6

खयरेण कण्ण इच्छियजएण	मंदोर्यरि तहु दिण्णी मएण ।
आरुहिवि चारु पुप्फयविमाणु	सहुं कंतइ णहयलि विहरमाणु ।
रययायलि अलयावइहि धीय	विज्जासाहणि संजमविणीयँ ।
जोइवि मँणिवइ झँणाणुलग्ग	मइ रायहु मयणवसेण भग्ग ।
पारद्दु विग्घु परिगलियतुट्ठि	उववाससोसकिसकार्यँलट्ठि ।
वारहसंवच्छरपीडियंगि	कुञ्जी कुमारि णं खँयभुयंगि ।
णासिउ बीयक्खरलीणु झाणु	इहु खगवइ चिंधेँ जाउहाणु ।
महु वप्पु होउ मइँ राणिण हरउँ	आयामि जम्मि महुं कज्जि मरउँ ।
णिक्किउ विरत्तु विवरीयच्चित्तु	जाणिवि रोसंगिउं रत्तणेत्तु ।
गउ दहमुहु खेयरि मरिवि कालि	थिय मंदोरिगम्भंतरालि ।

घत्ता—उप्पणी धीय सलक्खणिय कंपावियकेलासहु ॥
णं लंकाणयरिहि जलणसिह णाइं भवित्ति वसासहु ॥ ६ ॥

7

दिणि पड्डिउ जलिउ उक्काणिहाउ	अप्पंपरि जायउ णरणिहाउ ।
महि कंपइ जंपइ को वि साहु	किह चुक्कइ एवहिँ पुहइणाहु ।
एयइ धीयइ संभूइयाइ	खज्जेसइ णाइं विसइयाइ ।
खयकालेँ ढोइय मरणजुत्ति	वणि णिज्जाणि धिप्पइ कहिँ वि पुत्ति
सुइसुहँहराउ विहुणियसिराउ	आयण्णिवि णेमिच्चियगिराउ ।

७ AP जसु रवि णं भइयए अत्थमइ.

6 १ मंदोवरि. २ A °विलीय. ३ A महिवइ. ४ P झाणेणुल्ला. ५ A °कायजडि.
६ P खए भुयंगि. ७ A हरइ. ८ A मरइ. ९ P रोसेँ इंगिउं रत्तु णेत्तु.

7 १ A ताइं वि; P तासु वि. २ A °सुहयराउ.

10 अत्थ वइ अस्तं याति.

6 1 b मएण मयनाम्ना असुरेण. 3 a अलयावइहि धीय अलकापुरीनरेन्द्रस्य पुत्री.
4 b मइ मत्तिश्चित्तम्. 6 b खयभुयंगि कालसर्पिणी. 7 a बीयक्खरलीणु बीजाक्षरलीनम्; b जाउ-
हाणु राक्षसः. 9 a णिक्किउ निष्कृपः. 10 a खेयरि मणिवती खेचरी. 12 भवित्ति मरणहेतुः.

7 1 a उक्काणिहाउ उल्कासमूहः; b अप्पंपरि स्वयमेव; णरणिहाउ नरशब्दो हाहाकारः.
3 b विसइयाइ विषूचिकया वमनेन. 5 a सुइसुहँहराउ कर्णसुखहराः.

खगभूगोयरसिरिमाणणेण
किं गरलवारिभरियइ सरीइ
बंधवयणहिययवियारणीइ
णवकमलकोसकोमलयराउ
णिम्माणुसि काणणि धिवहि तेम
मारियउ पवुत्तु दसाणणेण ।
किं सविसकुसुममयमंजरीइ ।
किं जायइ धीयइ वहरिणीइ ।
उहालिवि मंदोयरिकराउ ।
पाविट्ट दुट्ट णउ जियइ जेम । 10

घत्ता—तं णिसुणिवि तं मारीयएण भणिय देवि वररूवउं ॥
तुह गब्भि भडारी थीरयणु गोत्तखयंकरु हूयउं ॥ ७ ॥

8

मुइ मुइ दहमुहखयकालदूय
बाहापवाहओहलियणयण
मारीयय णवतरुफलरसहि
घल्लिज्जसु कत्थइ पुत्ति तेत्थु
अह एयइ काइं जियंतियाइ
गिरिदारणीइ किं गिरिणईइ
आलिहिउं पत्तु मच्छरकराल
बहुदुक्खजोणि बंधुहुं असीय
इय भासिवि मंजूसहि णिहित्त
दहगीवजीवरक्खणकएण
चंपयचवचंदणचूयगुज्झि
तें होंते होसइ अवर धूय ।
ता तरुणि चवइ ओहुल्लवयण ।
कीलंतपक्खिरमणीयसहि ।
रविकिरणु ण लग्गइ देहिजेत्थु ।
कुरइ णियतायकयंतियाइ । 5
हो हो किं एयइ दुम्मईइ ।
रावणदेहुभ्व एह वाल ।
सुविसुद्धवंस णामेण सीय ।
सहुं रयणहिं वरराईवणेत्त ।
णिय णिविसैं णहि मारीयएण । 10
वाहि मिहिलाणयरुजाणमज्झि ।

घत्ता—मंजूसइ सहुं छणयंदमुहि सरिसरणिज्जरसीयालि ॥
णं रहवइसिरिलयकंदसिरि णिक्खय सुय धरणीयलि ॥ ८ ॥

9

गउ विज्जापुरिसु णहंतरेण
आरामुहल्लित्तधुरंधरेण
तिक्खे महि दारिय लंगलेण ।
मंजूस दिट्ट पामरणरेण ।

३ A मारीयउ वुत्तु. ४ A गरुडवारि°. ५ A णिसुणंतं मारियएण. ६ P भडारिए धीरयणु.

8 १ A मुय मुय. २ A बाहपवाह°. ३ A घल्लिज्जइ. ४ P अच्छर°. ५ P रावण°. ६ A णिविसैं. ७ AP धवचंदण°.

7 a सरीइ नद्या. 9 a° कोमलतराउ कोमलतरात् हस्तात्, 11 वररूवउं विशिष्टरूपं स्त्रीरत्नम्.

8 1 a मुइ मुख; b तें होंते राज्ञा जीवता. 2 a बाहापवाह° बाष्पप्रवाहः; °ओहलिय° क्षपिते; b ओहुल्लवयण म्लानमुखी. 5 b° कयंतियाइ यमरूपया. 8 a असीय संतापकारिणी अलक्ष्मीर्वा. 10 b णिविसैं निमिषेण.

9 1 a विज्जापुरिसु मन्त्री. 2 a आरामुहल्लित्त° हलारामुखाकृष्टा; b पामरणरेण कर्षकेण.

वणवालहु अप्पिय तेण णीयं
वाइवि वइयरु बुज्झिय विणीय
वइइ परमेसरि दिव्वदेह
णं ललिय महाकइपयपउत्ति
णं गुणसमग्ग सोहग्गथत्ति
लायण्णवत्त णं जलहिबेल
थिर सूहव णं सँप्पुरिसक्कित्ति

रायाँलउ राएँ विट्टु सीय ।
णियपियहि दिण्ण पडिवण्ण धीय ।
णं बीयाँयंदहु ताणिय रेह । 5
णं मयणभावविण्णाणजुत्ति ।
णं पारिरूवविरयणसमँत्ति ।
सुराहियँ णं चंपयकुसुममाल ।
बहुलक्खण णं वायरणावित्ति ।

धत्ता—जसवेह्नि व अट्टमराहवहु अमरदिण्णकुसुमंजलि ॥ 10
पुरि वड्ढिय जणयणरिंदसुय रमणरामहं णाहं कलि ॥ ९ ॥

10

पयकमलहं रत्तत्तणु जि होइ
गुँफहं पुणुं गूढत्तणु जि चारु
जंघाबलेण जायउ अजेउ
णालोइउ जाणुहं संधिठाणु
ऊरुयलच्चितइ हयसरीर
कडियल्लु गरुयत्तर्णगुणाणिहाणु
गंभीरिम णाहिहि णवर होउ
पत्तलउं उयरु सिंगारु करइ
सकयत्थउ मुँड्ढिहि मज्झु खीणु
वलियाहिं तीहि सोहइ कुमारि

इयरह कह रंगु वहंति जोइ ।
इयरह कह मारइ तिजगु मारु ।
इयरह कह वग्गइ कामपउ ।
इयरह कह संघइ कुसुमबाणु ।
इयरह कह जालंधरियसार । 5
इयरह कह गरुयहं महइ माणु ।
इयरह कह णिवड्डिउ तहिं जि लोउ ।
इयरह कह मुणिपत्तत्तु हरइ ।
इयरह कहँ दंसणि विरहि रीणु ।
इयरह कह तिहुयणहिययहारि । 10

धत्ता—रोमावलिमग्गु मणोहरउ कण्णहि केरउ संघइ ॥
इयरह कह सिहिणसिहरिसिहरु मयरकेउ आसंघइ ॥ १० ॥

9 १ A सीय. २ AP रायाँलइ. ३ AP बीयाँयंदहु. ४ A ०समग्गि. ५ A लायण्णवण्ण.
६ P सुरहिय णवचंपय०. ७ P सुप्पुरिस०. ८ A णं रामहं रावण कलि; P रावणरामहं णाहं कलि.

10 १ A गुँफहं; P गुप्फहं. २ A omits पुणु. ३ A जण्णुहि; P जं तुहुं. ४ AP गरुयत्तणु.
५ A मुद्धहि. ६ AP कह विरहे विरहि.

4 a वा इ वि वयरु वाचितो व्यतिकरः पत्रम्; b णियपियहि वसुधायाः; पडिवण्णधीय पुत्रिकात्वेन प्रतिपन्ना. 5 b ०बीयाँयंदहु द्वितीयाचन्द्रस्य. 6 a ०पयपउत्ति पदप्रयुक्तिः. 7 b ० विरयणसमत्ति विरचना निर्माणं तस्याः समाप्तिः परमोत्कर्षः. 10 अट्टमराहवहु अष्टमवलभद्रस्य.

10 1 b इयरह इतरथा अन्यया योगी कथमेतस्या दर्शने रागं वहति. 5 b जालंधरियसार जालंधरी कदली असारः. 8 b ०पत्तत्तु पात्रता. 11 संघइ श्लाघते. 12 सिहिणसिहरिसिहरु स्तन-गिरिशिखरम्; आसंघइ आश्रयति.

11

देविहि थण रहरसपुण्णकुंभ
 भुय मयणपाससंकास गणमि
 कंधरु बंधुरु रेहाहिं सहइ
 तंबउ विंवाहरु हरइ चक्खु
 दियदित्तिइ जित्तइं घत्तियाइं
 मुहससिजोण्हइ दिस धवल थाइ
 लोयणहिं वि दीहत्तणु जि जुत्तु
 भालयलु वि अद्धिदु व वरिट्टु
 कौतलकलाउ कुडिल्लु वहइ

घस्ता — जहिं दीसइ तहिं जि सुहावणिय सीय काइं वण्णिज्जइ ॥ 10
 रक्खेवि जण्णु जणयहु तणउ रामे भुत्तु परिणिज्जइ ॥ ११ ॥

इयरह पुणुं कामतिसाणिसुंभ ।
 इयरह कह मणबंधणु जि भणामि ।
 इयरह कह कंबु रसंतु कहइ ।
 इयरह कह तग्गहणेण सोक्खु ।
 इयरह कह विद्धइं मोत्तियाइं । 5
 इयरह कह ससिं झिजंतु जाइ ।
 इयरह कह पत्तइं जणमणंतु ।
 इयरह कह तहु मयणांस दिट्टु ।
 इयरह कह माणववंदु वहइ ।

12

ता कुलजयलच्छिसुहावहेण
 बलणाहें समउं महाबलेण
 गर्यं ससुरणयरु सुरं सणर तसिय
 भइ रहं करि तुरियं तुरंगं चलिय
 घर आयंहें मामे कुसलु कयउ
 गय कइवय दियह मणोरेहेहिं
 चलपंचवण्णधयधुव्वमाणु
 दिज्जइ दीणहं आहारदाणु
 खज्जइ मासु वि किज्जइ विहाणु

पेसिय णियतणुरुह दसरहेण ।
 परिवारिय चउरंगे बलेण ।
 चलवलिय मयर मयरहरव्हसिय ।
 दसदसिवह एकहिं णाइं मिलिय । 5
 प्रंगणि जयमंगैलु तूरु ह्यउ ।
 हा पहु वेहाविउ पसुवहेहिं ।
 मंडउ णिहित्तु जोयणपमाणु ।
 घिप्पइ कंपतहं मृगहं प्राणु ।
 महं मिट्टउं पिज्जइ सोमपाणु ।

11 १ AP कह. २ A कंबुरु. ३ A कंट रसंतु. ४ A इहरहं. ५ A धवल. ६ AP खिजंतु.
 ७ AP मयणासु. ८ A कुडिल्लु. ९ P माणवविदु. १० A परिणिज्जइ.

12 १ A गउ. २ A सुरमेण तसिय; P सुर सणर तसिय. ३ AP करि रह. ४ A तुरय.
 ५ आयउ. ६ AP पंगणि. ७ A मंगलतूरु; P मंगलतर. ८ AP मणोरेहेहिं. ९ AP मिंगहं पाणु.

11 3 b कंबु रसंतु शंखः शब्दायमानः. 5 a दि य दि त्ति इ दन्तकान्त्या; घत्ति या इं तिर-
 स्कृतानि. 6 a थाइ तिष्ठति, भवति. 7 b जणमणंतु लोकमनःपर्यन्तम्. 8 b मयणास मुगनाशो
 मदनाशश्च. 9 b वहइ हन्ति.

12 3 a सुर सणर तसिय तयोः प्रयाणे नरसहिताः सुरा अपि त्रासं प्राप्ताः; b मयर मत्स्याः;
 मयरहरव्हसिय समुद्राद्बहिः पतिताः. 6 b वेहाविउ अनुरञ्जितो यद्धि वा नीतः. 9 a विहाणु यत्नविधिः.

इय णिव्वत्तिउं कउ रिसिपहिं
हिंसाइ धम्मु पावासवेण

भणु को ण वि खद्धउ सोसिपहिं । 10
अण्णाहिं वासरि जयजयरवेण ।

घत्ता—धणुकोडिचडावियघर्णेगुणहु दरिसियवइरिविरामहु ॥

णियधीय सीय णवकमलमुहि जणएं दिण्णी रामहु ॥ १२ ॥

13

वइदेहि धरिय करि हलहरेण
णं तिहुयणसिरि परम्पएण
णं चंढे वियसिय कुसुंममाल
दुव्वारवइरिवारणभुएण
अच्छइ दासरहि सुहेण जाम
आणिउ विणीयपुरि सरिधारि
अहिंसिचिवि जिणपडिमउ घएहिं
णिव्वत्तिय जिणपुज्जा महेण
अवराउ सत्त कण्णाउ तासु
सोलह तहु महिलच्छीहरासु
गंभीरधीरसाहसधणाहं
कोणाहयतूरइं रंसमसंति
संमाणवसइं सयणइं णडंति

णं विञ्जुल धवलें जलहरेण ।
णं णायवित्ति पालियपएण ।
गोविंढे णं सिरि सारणाल ।
सहुं सीयइ सहुं केक्कयसुएण ।
पिउणा णियदूयउ पहिउं ताम । 5
सकलत्तु सभाउ दुहावहारि ।
दहियहिं दुद्धहिं धारापएहिं ।
सिसुणेहें तूसिवि दसरहेण ।
दिण्णाउ मुसलकरपहरणासु ।
अलिकुचलयकज्जलसामलासु । 10
रइयउ विवाहु दोहं मि जणाहं ।
मिहुणाइं मिलंतइं दर हसंति ।
पिसुणइं चिंतासायरि पडंति ।

घत्ता—काणिणहुं दीणहुं देसियहुं दिण्णइं दाणइं लोयहुं ॥

तहिं समइ पराईउ महुसमउ णं विवाहु अवलोयहुं ॥ १३ ॥ 15

14

सोहइ वसंतु जगि पइसरंतु
महुकारि व महु धारहिं सवंतु

अहिवसाहारहिं महमहंतु ।
हेमंतपहुत्तणु णिट्ठवंतु ।

१० A णिव्वत्तिउ. ११ A दाणगुणहुः P धणुगुणहु.

13 १ A पालियवएण. ५ P कुसुयमाल. ३ AP पिहिउ. ४ P धारवएहिं. ५ A समसंमति.
६ AP पराइयउ.

10 a रि ति ए हिं ऋत्विग्भिः. 11 a पा वा स वे ण निन्ध्यमथेन. 12 °घ ण गु ण हु °निबिडदोरस्य.

13 २ b णायवित्ति न्यायवृत्तिः; पालियपएण राज्ञा. ३ b सारणाल कमलेन सहिता.
4 b केक्कयसुएण लक्ष्मणेन. 5 b पहिउ प्रेषितः. 6 a विणीयपुरि अयोध्यायाम्. 7 b धारापए हिं
धाराजलैः. 10 a महिलच्छीहरासु लक्ष्मणस्य. 12 a कोणाहयं कोणो वीणादिवादनं तेन हतानि.
15 महुसमउ वसन्तः.

14 1 b °साहारहिं आग्नेः. २ a महुकारिव कल्पपालीव, कलालीव; महुधारहिं सवंतु
मकरन्दो माक्षिकं मद्यं च तस्य प्रवाहैः; b हेमन्त° शीतकालः.

णियचिधइं दसदिसु पट्टवंतु
 सारंतु सुवाविहि वारिचीरु
 खरकिरणपर्यौउ वि णेसरासु
 पयइंतु असोयहु पत्तरिद्धि
 वउलहु वउ सुच्छोयउं करंतु
 तिलयहु दलतिलयविलासु देंतु
 वल्लहकामुयवम्मइं हणंतु
 माणिणिहिं माणगिरि जज्जरंतु
 उच्चंगमड्डि दियहइं गमंतु ।
 मंदीरकुसुमरयमहमहंतु

अंकुरंफुरंतु पल्लवचैलंतु ।
 दावंतु णीलमेवौलतीरु ।
 अवरु वि दीहत्तणु वासरासु । 5
 मोक्खयहु दुफग्गुणमोक्खसिद्धि ।
 वणलच्छिद्धि ओसासुय हरंतु ।
 वेल्लीकामिणियहं रसु जणंतु ।
 कणंयारुफुल्लरयधूसरंतु ।
 हिंडिरभसलावल्लिगुमुगुमंतु । 10

रमणाहिलासविष्ममु भमंतु ।

घत्ता—जो मोणं चिरु संचरइ वणि मो संपइ महुसेविरु ॥

कलकोइल्लं पुण वि पुण वि लवइ मत्तउ को ण पलाविरु ॥ १४ ॥

15

वज्जइ वीणा पिज्जइ पाणं
 गिज्जइ महुरं सत्तमरालं
 परिमलपउरं पोसियरामं
 गंधकयंययल्लडयवियारं
 सुप्पइ दवणयविरहयगंहे
 संधइ कामो कुसुमखुरणं

पियमाणुसच्चिंतं सार्हाणं ।
 दढपेम्मं पसरइ असरालं ।
 वज्जइ फुल्लियमल्लियदामं ।
 णेवरं कलरवणच्चियमारे ।
 पुष्पत्थरणं भमियदुरंहे । 5
 णासइ तावसतवमाहणं ।

14 १ A फुरंत. २ A लंतु. ३ AP विवालयीरु. ४ AP पयाउ दिणंसरासु. ५ A मच्छा-
 यउ. ६ AP ओमंसुय. ७ AP कणियारं. ८ AP उच्चंगमड्डि. ९ AP add after this: सज्जंत-
 पक्खिकुलचुसुभंतु; K writes it but strikes it off. १० AP read this line as: रमणा-
 हिलासविष्ममु भमंतु (A: रमणीहिं विलासविष्मणि भमंतु), माणंदकुसुमरयमहमहंतु. ११ A कोकिल.

15 १ A गंधकुडंबयं. २ AP णेउरं. ३ A सुप्पयं. ४ P खुरणं.

4 a सारंतु सुवाविहि वारिचीरु सुवापीतां जलमेव पीरु वल्लमुत्तरयन्. 5 a णेसरासु सूर्यस्य.
 6 a मोक्खयहु दुफग्गुणमासरिद्धि मोक्षकनामा वृक्षविशेषः. तस्य फाल्गुनमासे पत्राणि श्रन्ति, तेन
 कारणेन फाल्गुनमासस्तस्य वृक्षस्यानिष्टः. तेन दुःफाल्गुनः कथ्यते; तस्य फाल्गुनस्य मोक्षं विनाशं कुर्वन्
 वसन्तः. 7 a वउ वयुः शरीरम्; b ओसासुय अवरयाव एव अश्रुणि. 8 a तिलयहु तिलकवृक्षस्य
 दलेषु पत्रेषु तिलकविलासं ददन्. 11 a उच्चंगमड्डि मड्डि वृक्षविशेषः तस्य दिनैः गमयन्, स वृक्षस्तदा-
 काले न विकसति कि त्वधे. 13 महुसेविरु मधुनो मधस्य शकरन्दस्य च संवकः.

15 2 b असरालं अपयोमम्. 3 a पोसियरामं पोषिताः प्रचुरीकृता रामाः स्त्रियो येन.
 4 a गंधक्यादि श्रीखण्डादिगन्धद्रव्यस्य कदम्बकं समूहः तेन कृताद्रंशद्रविकारे पुष्पगृहे लतामण्डपे;
 b णेवरं नूपुरम्. 5 a सुप्पइ शयने क्रियते; दवणयं दमनकपुष्पम्. 6 a कुसुमखुरणं कुसुमबाणम्.

अणुणिज्जइ रूसंति पियली
सरजलकेलीसित्तसरीरो
तिम्मइ पणइणिसुहुमकडिल्लो
कुवलयमालाताडणललियउ
इच्छांमाणियकंताकंतो

दाविज्जइ कंदप्पसुहेल्ली ।
जंतविमुक्कसकुं कुमणीरो ।
दिट्ठावर्यववृद्धरसिल्लो ।
फुल्लपलासंदुमिहिं पज्जलियउ । 10
एव विर्यंभइ जाम वसंतो ।

वत्ता— ता दसरहपयपंकय णविवि विहसिवि रामं बुच्चइ ॥
संताणकमागय तुह णयरि वाणारसि किं मुच्चइ ॥ १५ ॥

16

णासिज्जइ किं सो कामिंदेसु
गुरुगय णियगय णिव दुविह बुद्धि
दीसंति जाइ सच्छिद्वेरे
दिहुरे वि हु अणिहालियदिसेण
पहुसत्ति कोसंदेहेहि देव
जाणव्वा अवर अलल्लाह
वोहिज्जइ पाहलाउ जि सामु
वीयउ पुणु सीक्किज्जति किच्च

सुणि ताथ रायसत्थोवणसु ।
बुद्धीइ पंचविह मंतसिद्धि ।
सा मंतसत्ति साहंति सूरि ।
उच्छाहसत्ति पुणु पोरिसेण ।
एयइ विणु महियतु वहइ केव । 5
चत्तारि उवाय धरंत्तिणाह ।
पियवयणु जीवज्जणियाहिरामु ।
संमाणिवि वइरिविरत्त भिच्च ।

वत्ता— ने थद्ध लुद्ध अवमाणणिहि भीरु कहंति विवक्खहु ॥
णियरायहु केरउ दुच्चरिउ विर्यलियपह परिरक्खहु ॥ १६ ॥ 10

17

उवदाणु वि हरि करि हेमं रथणु
अवयारु देसपुरगामडहणु
जिण्पति हरिस मय कोह काम

दिज्जइ जइ लब्भइ को वि सयणु ।
सो दंहु भणंति वरारिमहणु ।
रिउ माण लोह दुक्कम्मधाम ।

५ A णिम्मियं; P तिम्मियं. ६ P वपवमुत्तुग्गमिल्लो. ७ A लल्लो. ८ A दुमोहिं णं जल्लो;
P दुमोहिं णं जल्लियउ. ९ A इच्छियं; P इच्छए.

16 १ A कोसु देहेहि. २ A जाणव्वा; P जाणेव. ३ AP धरंत्तिणाह. ४ A विवडियं.

17 १ AP हेसु.

9 a ति म्मइ आद्रींक्रियते: 'सुहुमकडिल्लो सुहंमं कटीवस्समू; b 'बूढं' धृतो वर्धितः.

16 1 b रायसत्थोवणसु नीतिशास्त्रोपदेशः. 2 a गुरुगय गुरुगता आहार्यो. 3 a सच्छिद्वेरे विरि सच्छिद्रो वैरी. 4 a विहुरेवि कष्टेऽपि, संकटेऽपि; अणिहालियदिसेण किर्तव्यतामूढत्वरहितेन. 8 a सीक्किज्जेति स्वीक्रियन्ते; किच्च कृत्या भेद्याः. b वइरिविरत्त शत्रुविरक्ताः. 10 परिरक्खहु माहात्म्यरक्षणस्य.

17 2 a अवयारु अपकारः. 3 b रिउ अभ्यन्तरशत्रवः.

जउ वक्ष्वाणिउ इंदियजएण
सावहि णिरवहि इच्छंति के वि
विग्गहु विरइज्जइ दोसदुदु
आसणु गुरु कहइ असक्ककालि
जाणु वि सलाहु परिवारपोसि
जा किर विग्गहसंधाणवित्ति
जहिं ण वहइ णियकरहत्थियारु
णरवइ अमञ्चु जणठाणु दंड
सत्त वि पयईउ हवंति जेण

घत्ता—तं णिसुणिवि जणसंतावहर तापं चावविहसिय ॥

णं जलहर बे वि धवल कसण सुय वाणारसि पेसिय ॥ १७ ॥

सांधि वि मित्तसणसंगएण ।
पट्टणइं वत्थु वाहणइं लेवि । 5
दोसेण होइ बंधु वि अणिट्ठु ।
अवरोहि विउलि रणणंतरालि ।
किज्जइ वज्जियदुंदुहिणिघोसि ।
तं दोहीअरणु ण का वि भंति ।
असरणि रिउसेव वि किं ण चारु । 10
धणु दुग्गुं मित्तु संगामचंड ।
उज्जउं णउ मुञ्चइ ताय तेण ।

18

णियतायपसायपसण्णभाव
वेहच्छविदूंसियरवियरोह
मणिमउडसुपट्टांलिगियंग
सेविज्जमाण णरखेयरोहिं
जोइज्जमाण जणवयजणेहिं
अलिकसणपीयणिवसणणुउत्त
दियहेहिं बंधु ते जंत जंत
पहचोइय गय सुहजणणपत्त
धयमालातोरणमंगलेहिं
णाणाणायरियहिं दीसमाण

घत्ता—जणु बोळइ दसरहजेद्वसुउ इहु सैसहोयर आवइ ॥

कंचोकलाव गुण्पंतुं पहि पुरणारीयणु धावइ ॥ १८ ॥

सघिणय पणमंत विमुक्काव ।
जुवरायत्तणसिरिलइसोह ।
णं सुरमहिहर उंसंगंसिग ।
विज्जिज्जमाण चलचामरोहिं । 5
पेल्लिज्जमाण कामिणियणेहिं ।
सुंदर सुबलाकेकयहिं पुत्त ।
रमणीयपणसहिं थंत थंत ।
वाणारसि विण्णि वि वीरं पत्त ।
दहिदोवहिं सियकलसुणलेहिं ।
पईसंति णयरि णं कामबाण ॥ 10

२ A दोहीकरणु; P दोहीअरणु. ३ A दुग्गु मित्त. ४ A जलहर धवल वे वि कसण.

18 १ A पणवंत; P णयवंत; K records a *p*: णयवंत. २ A °भूमिय°. ३ P सुपहा°. ४ AP उत्तुग°. ५ P रवणीय°. ६ P वाराणसि. ७ P धीर. ८ A दहिदूवहिं. ९ A पयसंति. १० A एहु सहोयर. ११ A गुण्पतिं पहि. १२ AP पुरे णारी°.

4 A जउ जयः. 7 a आसणु दुर्गाश्रयणम्. 8 a जाणु गमनम्; सलाहु श्लाघ्यः; b वज्जियदुंदुहि-
णिघोसि प्रच्छन्नतया शत्रुपरि गम्यते. 9 a विमाहसंधाणवित्ति स्वल्पो विग्रहः स्वल्पश्च संधिरिति मिश्रत्वं
द्वैधीकरणं कथ्यते; संधानपूर्वको विग्रहो द्वैधीकरणम्. 10 b असरणि रिउसेव यदा शरणं न दृश्यते तदा
रिपोरपि सेवा क्रियते. 11 a जणठाणु राष्ट्रदेशः; b धणु कोशः. 12 a पयईउ प्रकृतयः; b उज्जउं उद्यमः.

18 2 a °दूसियरवियरोह°तिरस्कृतरविक्रिणसमूहौ. 3 b °सिग°शिखरौ. 5 a जोइज्ज-
माण विलोक्यमानौ. 6 a अलीत्यादि कृष्णपीतवस्त्रयुक्तौ. 8 a °पत्त°वाहनौ. 9 b °दोवहिं°दूर्वाभिः.
10 a णायरियहिं नागरिकैः.

19

क वि मेल्लइ कौतलफुल्लदामु
 काइ वि थणजुयलउं विहलु गणिउं
 क वि दावइ कंकणु का वि हारु
 पर्यलंतउं क वि परिहाणु धरइ
 क वि सिंचइ पेम्मजलेण भूमि
 जइ इच्छइ कह व धरित्तिसामि
 दारें भत्तारु ण जाहुं देइ
 मणि का वि विसूरइ चंदवयण
 णं तो जोयमि उच्चिंवि करग्ग
 कर मउलिवि सण्णइ का वि पोमु
 क वि णेरु पडि णिवडिउ ण वेइ
 जोयंति रायसुयजुयलतौइ

णीससइ का वि जोयंति रामु ।
 हां एउ ण लक्खणणहहिं वणिउं ।
 क वि ऊरैयलु क वि मुहबिबयारु ।
 क वि कट्टदिट्ठि जोयंति मरइ ।
 क वि चिंतइ एवहिं घरु ण जामि । 5
 तो जियमि माइ सच्चउं भणामि ।
 पायारु किं पि अंतरु करेइ ।
 तर्लहत्थि ण जाया मज्जु णयण ।
 गच्छंतु सुहय सुहसारमग्ग ।
 आवेसमि जावहि सुवइ पोमु । 10
 क वि भिक्खाचारिहि भिक्ख देइ ।
 अण्णेत्तहिं घल्लइ कूरपिंहु ।

घत्ता—क वि विहसिवि बोल्लइ चंदमुहि मीयइ काइं वउत्थउं ॥
 जेणहउं लद्धउं पइरयणु दरिसियकामावत्थउं ॥ १९ ॥

20

अण्णेकइ वुत्तउं जाहि माइ
 वयणं बहुणेहपवत्तणेण
 जइ एहु ण इच्छइ विउलरमणि
 इय पुररमणीयणजूरणेण
 देहिअक्खयवहुसेसाउ लेवि
 पियवयणं किं वि किं वि पाहुडेण
 किं वि सुहिसंबंधपयासणेण
 किं वि णेहं किं वि भुयबलिण धित्त

लग्गेज्जसु णाहुहु तणइ पाइ ।
 हरि आणहि महु दूयत्तणेण ।
 तो मारइ मारु मरालगमणि ।
 सज्जणहं मणोरहपूरणेण ।
 रायालइ भाइ पइट्ट वे वि । 5
 किं वि दुव्वयणेण रणुच्चडेण ।
 किं वि वसिकय वित्तिविहूसणेण ।
 वणवाल चंड मंडलिय जित्त ।

19 १ A मुणिउं, २ A हो, ३ AP उरयलु, ४ A पयलंतु का वि, ५ A मणि स विसूरइ क वि चंद^०; P मणि सुविसूरइ क वि चंद^०, ६ AP हत्थि हत्थि ण, ७ A गच्छंत; P गच्छंति, ८ AP अण्णहि सा घल्लइ, ९ AP पययणु.

20 १ AP सिद्धत्थकवयसेसाउ, २ A बलवाल.

19 4 b कट्टदिट्ठि अस्पन्दलोचना, 7 a दारें इत्यादि द्वारे कान्तःस्थितः रामावलोकनार्थं गन्तुं न ददाति, 8 b तलहत्थि हस्ततले, 9 a उच्चिंवि करामूर्ध्वं कृत्वा; b सुहसारमग्ग शुभस्य सुखस्य वा उत्कृष्टमार्गो, 10 b जावहि सुवइ पोमु यस्यां वेलायां पञ्च स्वपिति, 11 a णवेइ न जानाति, 13 वउत्थउं व्रतमाचरितम्.

20 1 a माइ हे मातः, हे दूति, 2 b हरि लक्ष्मणः, 3 b मारु कामः, 8 b वणवाल भिच्छादिकाः.

प्रस्ता—मयरहरहु मलु वूसणु जिणहु अमयहु विसु किं सीसइ ॥
गुणवंतहं वसरहतणुरुहहं दुज्जणु को वि ण दीसइ ॥ २० ॥ 10

21

अच्छंति बे वि ते तेत्थु जाव
वरकणयवीढसंणिहियपाउ
अत्थाणि णिसण्णउ सामदेहु
करवालियाइं चमरहं पंडंति
पाढय पढंति तहिं णड णडंति
गिज्जंति गेय सरठाणलग्ग
पडिहारहिं अणिबद्धं चवंतु
विण्णप्पइ भण्णइ जीय देव

एत्तहि लंकहि व्हवयणु ताव ।
सीहासणग्गि रायाहिराउ ।
अवइण्णु महिहि णं काममेहु ।
कप्पूरपउरधूलिउ घुलंति ।
वाइत्तताल तेत्थु जि घंडंति । 5
णच्चंति असेस वि देसिमग्ग ।
णियमिज्जइ लोउ वियारवंतु ।
अमर वि करंति कमकमलसेव ।

प्रस्ता—दसकंधरु दुद्धरु धरिर्यंधरु तेयविह्वसियदिसवहु ॥
जहिं अच्छइ भरहधरत्तिवइ पुष्पयंतसंकावहु ॥ २१ ॥ 10

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्यभरहाणुमणिए
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे सीयाविवाहकलाणं णाम
सत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७० ॥

21 १ A P णवकणय^०. २ AP चलंति. ३ A घुलंति. ४ A देसिमग्ग. ५ P जणवइ.
६ A धरियकर. ७ AP ^०धरित्तिवइ.

१) मयरहरहु समुद्रस्य.

21 ३ a सामदेहु कृष्णवर्णः. 6 b देसिमग्ग देशीभाषागीतानुसारंण. 7 a चवंतु वदन्
प्रलयन्. 9 ^०दि सवहु दिशां मार्गः. 10 पुष्पयंतसंकावहु चन्द्रयूर्यभयजनकः.

णरसिरकरखंडणु कहिं तं भंडणु एम भणंतु जि संचरइ ॥
तहिं विण्णियगारउ आंयउ णारउ अत्थाणंतरी पइसरइ ॥ धुवकं ॥ छ ॥

1

उद्धावद्धपिंगजडमंडलु
तारतुसारहारपंडुरतणु
विमलफलिहमणिवलयालंकिउ
दीसइ पंतउ रायहु केरुंउं
कडियलणिहियहेममयमेहलु
सोत्तरीयउववीयंउरुज्जलु
कयदेवंगयत्थकोवीणउ
दिट्टउ रीवणेण पडिवत्तिइ
पुच्छिउ पहुणा परमणसूलउ
तं णिसुणिवि संगामपियारउ

पोमरायरयणमयकमंडलु ।
णं ससहरु णावइ सारयघणु ।
णं जसुं पुरिसरुवु विहिणा किउं । 5
रणकायरभडभयइ जणेउं ।
हसणु भसणु सवसणु सकलुसु खलु ।
हिंडणसीलु समीहियकलयलु ।
जुज्जु अपेच्छमाणु णिरु श्णीणउ ।
वइसारिउ आसणि गुरुभत्तिइ । 10
कहहि वत्त को महु पडिकूलउ ।
आहासइ दहगीवहु णारउ ।

यत्ता—सुरगिरिसिरी णिवसइ महिहि ण विलसइ संचइ धणयहु तणउं धणु ॥
णिसि णिइ ण पावइ सयमहु भावइ णावइ तुज्जु जि भीयमणु ॥ १ ॥

2

सिहि णं करइ तुहारउं भाणसु
णेरिउ णेरियदेसि ता रुंभइ
रयणायरु जं गज्जइ तं जहु
वाउ वाइ किर तुह णीसासैं
चंदु मूरु किरं तुह घरदीवउ
ससुरु सणरु खगु जगु तुह बीहइ

डहु वइवसु वइरिहिं तुहुं वइवसु ।
जाव ण तुज्जु पयाउ वियंभइ ।
तुहुं जि एक्कु तइलोकि महाभहु ।
बज्जइ फणिवइ तुह फणिपासैं ।
सीहु वराउ वसउ वणि सावउ । 5
पर पइं जिणिवि एक्कु जसु ईहइ ।

1 १ AP णरकरसिर°. २ A बोलइ णारउ; P आइउ णारउ. ३ P उद्धावद्ध पिंगु जडमंडलु.
४ P पंडर°. ५ A जसरुउ पुरिम विहिणा. ६ A एतहो; P एत्तउ. ७ P केहउ. ८ AP वसणु.
९ A° उरज्जलु. १० A रामणेण.

2 १ AP णेरियदेसि. २ AP किह.

1 4 b सारयघणु शरन्मेषः. 6 a पंतउ आगच्छन्. 7 b सवसणु युद्धाशक्तियुक्तः.
10 a पडि वत्तिइ प्रतिपत्त्या स्वागतेन.

2 1 a भाणसु रूपकारत्वम्. b डहु भस्मीभवतु; वइवसु यमः. 5 b सावउ श्रापदः.

दसरहतणउ मुसलहलपहरणु
 परबलपबलसलिलवडवामुहु
 लकखणु सुहडलकखविकखेवणु
 जणपं कण्णारयणु विइण्णउं
 घत्ता—सा तुज्जु जि जोग्गी लयललियंगी हिप्पइ मडुइँ किंकरहं ॥
 सुरसरि झसमुद्दहु होइ समुद्दहु णउ जम्मि वि पंकयसरहं ॥२॥

3

विप्फुरियाणणु णं पंवाणणु
 धीर विमुक्ककेर करिकरभुय
 रामसाम गयसाम सहोयर
 हरमि धरिणि गुणमणिसंचयखणि
 पभणइ णारयरिसि किं गावें
 सरह सीह को वणि संघारइ
 चंद सूर को खलइ णहंगाणि
 केसरिकेसैछ्छा को छिप्पइ
 चवइ राउ विरइयअवराहहं
 सिरकमलइं खंडेसमि जइयहुं
 घत्ता—तेलोकैभयंकरु वइरिखयंकरु धणुमुणटंकारु जि झुणइ ॥
 खेयरउरदारणि महुं सरधोरणि गणि रामहु वम्मइं लुणइ ॥३॥

4

ता परियाणवि कलहहु कारण
 गउ णारउ णियमणि संतुट्टुउ
 अवसें होसइ एत्थु महारणु ।
 वीसपाणि मंतणइ पँइट्टुउ ।

३ AP पीणपीवरथणु. ४ AP ताहि. ५ AP मंडइ. ६ P ससमुद्दहु.

3 १ AP रणपवल. २ P रामण. ३ A 'केसरसड; P 'केसरसड. ४ AP किं. ५ AP घिप्पइ. ६ AP वाराणमि'. ७ A तइलोक'.

4 १ A परितुट्टुउ. २ A P वइट्टुउ.

8 b भाइ आता. 9 a 'विक्खेवणु हन्ता. 10 b विहिणेउण्णउं विधिनेपुण्यम्. 11 मडुइ हडात्.

12 सुरसरि गङ्गा; झसमुद्दहु समुद्रस्य.
 3 2 a विमुक्ककेर अवधीरिता आज्ञा याभ्यां तौ. 3 a रामसाम श्वेतकृष्णवर्णौ द्वौ; गयसाम सामबचनरहितौ; b तुमुलि रौद्रसंग्रामे. 4 b मयणावणि कामभूः. 8 b जाणइ जानकी सीता; हिप्पइ द्वियते. 11 झुणइ कथयति.

4 2 b वीसपाणि रावणः.

बुद्बु अणिद्बु विसिद्बु णं सिद्बु उ
तणुलायण्णवण्णजलवाहिणि
मारिज्जंति भाइ ते भीसण
तं णिसुणिधि मारीएं बुत्तउं
परवहुरमणु धम्मणिहूरणु
परवहुरमणु कित्तिविद्धंसणु
परवहुरमणु पराहवगारउं

घत्ता — परयाक सुविट्टलु दुक्खहं पोट्टलु दुग्गमु दुज्जसपरियरु ॥ 10
बहुभवसंसारणु सिवगइवारणु पावासवविहिवासरु ॥ ४ ॥

मंतिउं मंतु सबुद्धिइ दिट्टु उ ।
हिप्पइ रहुकुलणाहहु मेहिणि ।
भणु मारीयय भणइ बिहीसण । 5
परवहुरमणु णरिंद अजुत्तउं ।
परवहुरमणु सयणसयजूरणु ।
परवहुरमणु विमलकुलदंसणु ।
परवहुरमणु णरयपइसारउं ।

5

दुत्तरमोहमहण्णवि कूढउ
तुहुं घइं बहुसत्थथवियाणउ
जो पाडिकूलु होइ सो हम्मइ
भणइ दसाणणु जणसांमण्णहं
थीयणसारी णयणपियारी
सेलसिहरसंवालयचंडहिं
तो मकयत्थु महारउं जीविउ
जइ तहि तं मुहकमलु ण चुंबमि
कम्मणियंधणेण णिक्कज्जे

घत्ता — हरिणचिळहि वत्तइ सुइंसुहमेत्तइ उप्पाइउ मणि कलमलउ ॥ 10
रइकायरु कंपइ पुणु पुणु जंपइ दहमुहु विरहविसंतुलउ ॥ ५ ॥

परवहुरमणु करइ जो मूढउ ।
अण्णु वि सयलहि पुहइहि राणउ ।
परवहु पुणु सिविणि वि ण रम्मइ ।
जणएं जाणिवि दिण्णी अण्णहं । 5
चंपयगोरी हियैयवियारी ।
सां अवरुंडमि जइ भुयदंडहिं ।
तो मइं णरभवफलु संप्राविउं ।
तो अप्पाणउं काइं विडंबमि ।
किं महुं महियलेण किं रज्जे ।

6

बुज्झिवि अंतरंगु दहगावहु
कामवाणसंताणहिं भग्गउ

वाय विणिग्गथ मुहि मारीयहु ।
जइ तुहुं महिवइ सीयहि लग्गउ ।

३ AP वसिद्धउ. ४ AP मंतिए.

5 १ AP सइ. २ A °सावण्णहं. ३ AP हिययपियारी. ४ AP omit सा; A अवरुंडिवि
५ AP संप्राविउ. ६ A णियकज्जे. ७ A सुयसुह°.

3 a बि सि ढु ण सि ढु उ विद्वान्मन्त्री न षष्ठः; b मंतिउ मंतु मन्त्रः स्वबुद्ध्या मन्त्रितः. 10 परयाक
परकलत्रम्.

5 2 a घइं पादपूर्णे. 4 b जणएं जनकेन राज्ञा. 5 a थीयणसारी स्त्रीजनमध्ये उत्कृष्टा.
9 a णिक्कज्जे निःकार्येण निष्प्रयोजनेन. 10 वत्तइ वार्तया; मुइसुहमेत्तइ कर्णमुखमात्रया; कलमलउ
अरतिः. 11 °विसंतुलउ शिथिलगात्रः.

तो वि मयणु मग्गे माणेवउ
 तं जाणिज्जइ विविहपयारें
 अंसयदेसिजाइपरइत्थहु
 कामिणीउ जो महियलि जाणइ
 भइ मंद लय हंसि चउत्थी
 भइ भणमि सव्वंगसुरूविणिं
 लय दीहरतणु लय जिह पत्तल
 रिसिविज्जाहरजक्खपिसायहं
 तावसि उज्जुय भुंभुलभोली
 जक्खिणि धणकणलोहपरव्वस
 घत्ता—सारसि मिगि रिट्ठिणि ससि धयरट्ठिणि महिसि खरी मयरि वि जुवइ ॥
 सत्ते दीसत्ते^{१०} रइसइकंते वसुविह कहिय गिसुणि गिवइ ॥ ६ ॥

7

वच्छत्थलु थणकलसहिं पेलइ
 मिगि^१ गियबंधवदाने मण्णइ
 पुत्तहंडुक्खिणि वायसरव
 ससि णिम्मालियच्छि दुहभायण
 धयरट्ठिणि सररुहसरकीलिणि
 खरि खेलंति हसइ कहकहसरु
 मयरि मासगासिणि द्ढगाहिणि
 सारसि पिययमसंगु ण मेलइ ।
 तज्जिय तसइ गेउ आयण्णइ ।
 रिट्ठिणि ठाणु मुयइ रणभइरव ।
 णिग्घिण परहरगासालोयण ।
 महिसि कराल रांसरसवाल्लिणि । 5
 सहइ पायपहरु वि घल्लिउ करु ।
 कयसाहस कुकम्मणिव्वाहिणि ।

6 १ AP माणिव्वउ. २ P जाणिव्वउ. ३ A^० जाइपयओ; P^० जाइपयइत्थउ. ४ A^० रस-
 गुइपउ. ५ P adds after this: णरवर मंदा गिसुणि गियंविणि. ६ P जाणि श्रूलगुरुपोढविलामिणि.
 ७ AP add after this: णउ सेविज्जइ सा वि यलक्खणि. ८ AP भुंभुरभोली; T भुंभुर^०. ९ AP
 धयरि^०णि. १० AP दीसत्ते.

7 १ A मृगि गिवबंधव^०.

6 4 b वि ड गुरु^० कामाचार्यः; सुय सारें कामशास्त्रेण. 5 a अंसयइत्यादि हंसकादिभिरुप-
 लक्षितस्य; परइत्थहु परस्त्रीसमूहस्य संबन्धि रत्तविरत्तचित्तु इति भेदव्ययः; b इंगियेत्यादि इङ्गितसत्त्व-
 भावरसैरनुविद्धस्य. 7 a महेत्यादि भद्रा मन्दा लता हंसोति चतुर्विधा स्त्रीजातिः. 8 b^० पेढालत्थणि
 विस्तीर्णस्तनी. 9 b मरालि हंसो; समासल मांसला. 11 a भुंभुलभोली अब्युत्पन्ना; b मइराकुसुम-
 रसाली मध्ये पुष्पे चासक्ता. 12 b अडण पर्यटनशीला. 15 रइसइकंते रतिरेव सती तस्याः कान्तेन
 भर्त्रो कामेनेत्यर्थः; वसुविह अष्टविधा.

7 2 a मण्णइ मानयति; b तज्जिय भस्मिता. 3 a पुत्तहंडु^० पुत्रभाण्डम्. 5 b रोसरसवाल्लिणि
 रोपरसपालिनी निर्वाहकारिणी.

सुंणि देसीउ णिहिलदेसाहिव
ससहावें लंपडि खरभासिणि

इह मालविणि होइ इच्छियसिव ।
वाणारसिसंभव वणवासिणि ।

घत्ता — अंबुइ जा कामिणि मंथरगामिणि सा पहिलउं जि दब्बु हरइ ॥ 10
दिणमेर णिबंधिवि रइरसु संधिवि पच्छइ सरकीलणु करइ ॥ ७ ॥

8

सिंधुवि पुणु पियंगेयहु रप्पइ
मायाबहुलु भाउ कांसलियहि
द्विडि दंतणहंयहु सकइ
ललियालावें लाडि लइजइ
कालिगी उवयारु पंउंजइ
सोरट्टिय आउं वणतुट्टी
अवरु महारट्टी जइ सीसइ
कांकणियहि जइ काइं वि दिजइ
दरिसियहरिसियवम्महलीलउ
करइ किं पि चंगउं ववसायउं
हिमवंती वि मंतवीयक्खरु
मज्झएसणारीउ कलालउ

प्राणु वि दविणु वि दइयहु अप्पइ ।
लब्भइ रइगुणेणं सिघलियहि ।
अंध्रिणि णिभररयहु चमकइ ।
उड्डि रमणविण्णाणं भिजइ । 5
रक्खसु सुक्कउ रक्खु वि रंजइ ।
गुज्जरि णिच्चसयज्जहु लट्टी ।
ता तहि धुत्तत्तणु पर दीसइ ।
तां तं चितवंति सा झिजइ ।
पाडलिउत्तियाउ करणालउ ।
पारियत्तपणइणि पुरिसाइउं । 10
जाणइ जेणं पडइ पायहिं वरु ।
होति राय सयदलसोमालउ ।

घत्ता — देसंसयजुत्तहं जाइहिं सत्तहं सयलहं पयइणिवासु किह ॥
गिरिसरिहरेठाणहं अमरविमाणहं मयरहरहं तेलोक्कु जिह ॥८॥

२ AP मुणि. ३ A अच्छए. ४ AP सुरयकील.

8 १ AP मंधवि. २ A पियणेहहु; P पियगेहहु. ३ AP पाणु. ४ P धणेण. ५ AP द्विविडि.
६ AP अंध्रिणि. ७ AP पवजइ. ८ AP सुक्खउ. ९ P रक्ख. १० A भिजइ. ११ AP जेहिं.
१२ AP मज्झदेस^०. १३ AP महि^०.

8 a देसीउ देशोत्पन्नाः; b इच्छियसिव वाञ्छितसौख्या. 9 b वण वा सि णि वनक्रीडा. 10 अंबुइ
अंबुदाचले. 11 दिण मेर दिनमर्यादा दिनसंख्या; सरकीलणु स्मरक्रीडा.

8 1 a पियगेयहु प्रियगीतश्रवणात्: रप्पइ रज्यते. 3 a दविडि द्राविडा; b चमकइ
बिभेति. 4 b उड्डि उड्डदेशजा. 5 a उवयारु उपचारः. 6 a आउं वणतुट्टी चुम्बनतुष्टा; b सयजहु
लट्टी स्वकार्ये दक्षा. 8 a काइं वि किमपि तुच्छमपि. 9 b करणालउ ऊर्वोरुपरि ऊरुनिवेशनं करणं
तच्छीलाः. 10 b पुरिसाइउ पुरुषागतं रतं विपरीतं वा. 12 a मज्झएसणारीउ डेलीदेशोत्पन्नाः;
कलालउ कलायुक्ताः. 13 सत्तहं अष्टभेदमत्त्वानाम्; पयइणिवासु प्रकृतिरेव निवासः स्थानम्.
14 मयरहरहं समुद्राणाम्.

9

सा वि तिविह गरजम्मि णिर्बज्झइ
 पित्तपयइ आरूसइ खणि खणि
 गोरी बुद्धिवंत णहपिगल
 उण्णयसिहिणवरंगु मुणेज्जसु
 सीयलु गंधु सेउं पंगुरणउं
 सिंभपयइ सामल वण्णुज्जल
 दिइइ दोसि णिरुत्तउ चुक्कइ
 सच्चं विणपं दाणं धिप्पइ
 रइजल पौंभल मउ सोणीयलु
 आयंबिरणह सोहियकमकर
 कसण फरुस मरुपयइ विलासिणि
 घत्ता—करकटिणपहारहिं सद्गहीरहिं पयडउं पडु विडु जइ रमइ ॥
 परिभमंणपरिक्खहि कालकडक्खहि तां कामग्गि ताहि समइ ॥ ९ ॥

पित्तसिंभमाख्यहिं णिरुज्झइ ।
 संतोसेवी भुत्तें दिणि दिणि ।
 मउएं किज्जइ सा रइभिंभल ।
 सीयलु तहि आलिगणु देज्जसु ।
 सीयलु ताहि जि सुरयारुहणउं । 5
 अहिणवकयलीकंदलकोमल ।
 पुणु जम्मि वि ण संमुडु दुक्कइ ।
 इयरह पुणु तहि अंगु ण छिप्पइ ।
 णिप्पंडियंघ चारु तणुपरिमलु ।
 सुंदरि साहारणसुरयायर । 10
 बहु आहारु लेइ बहुभासिणि ।

10

जहिं पयइइ पयइइ फुडु भिण्णी
 जिह पर्यइउ तिह विहिं विहिं जायइं
 जाँइउ देसिउ तिह मइं बुद्धउ
 पहिलारउ सवत्तिसहवासं
 आसंकइ चामीयरलोहं
 वहइ असुद्धभाउ णारीयणु
 आलोयंतहं संमुहुं जोयइ

सा तांतडिय दांहिं संकिण्णी ।
 अंसयसत्तइं मइं विण्णायइं ।
 भाउ दुविडु अविसुद्धु विसुद्धउ ।
 वयपरिणामं दीहंपवासं ।
 अंबरेहिं वि कारणसंदोहं । 5
 तेण वि वेयारिज्जइ जडंयणु ।
 मुहुं वियसांवइ करयलु ढोवइ ।

9 १ A P विवज्झइ. २ AP रहवैभल. ३ AP उण्हय°. ४ A सीउ. ५ AP सीयलु सीयलु सुरयाहरणउं. ६ APT णिप्पडियम्म; K णिप्पडियंघ but records a p; णिप्पडियम्म इति पाठे संस्काररहितः. ७ AP °भवण°. ८ A तो.

10 १ A पहओ. २ P जणुउ. ३ AP सवत्ति°. ४ AP °पयामं. ५ AP अवरेण. ६ AP जडमणु. ७ AP विहसावइ.

9 3 b मउएं मृदुत्वेन; रइ भिभल रतिविह्वला. 4 b सीयलु मन्दं मन्दम्. 5 b मेउ श्वेतम्. 6 b सिंभपयइ श्लेष्मप्रकृतिः; b °कंदल° आर्द्राङ्कुरः. 8 b इयरह अन्यथा. 9 a पौंभल प्रचुरम्; b णिप्पडियंघ दुर्गन्धरहिता. 10 b साहारणसुरयायर साधारणे मन्दनिष्ठस्वरहितसुरतादरा. 11 a मरुपयइ वातप्रकृतिः. 13 परिभमणपरिक्खहि परिभ्रमणे आलिङ्गनचुम्बनकरणविशेषादिलक्षणं परीक्षा चतुरत्वं यस्याः; कालकडक्खहि कालेन तुल्यः कटाश्री यस्याः.

10 1 b तांतडिय मिश्रा. 4 b वयपरिणामं यौवनवयसा. 6 b वेयारिज्जइ विकार्यते.

सो वि देव विउसहिं पालिज्जइ बुद्धिइ संकिण्णत्तणु णिज्जइ ।
 मंदु तिक्खु तिक्खयरु पउत्तउ सुद्धभाउ तिहिं भेयहिं जुत्तउ ।
 घत्ता—भल्लारउं णिवसणु रयणविहसणु जोव्वणु णारिहिं हरइ मणु ॥ 10
 तं पुणु पियदूपं णियडीहूपं मयणहुयासें उंहर तणु ॥ १० ॥

11

ता तहिं दूवि का वि पेसिज्जइ ताइ भावसंभवु जाणिज्जइ ।
 इंगिपांहे देहुम्भवलिं गहिं कयणिण्णेहसणेहपसंगहिं ।
 भुक्खइ भग्गी अण्णहु लग्गी धणलंपडि कयखलसंसग्गी ।
 गमणकंख णिहालस मत्ती सुहिसोयाउर परगयचित्ती ।
 रुद्धी णिटुर कट्टपलाविणि पही णउ सेविज्जइ भाविणि । 5
 सीयं विसेसिं परकुलउत्ती पक्क वि एत्थु जुत्ति णउ जुत्ती ।
 तो वि जाउ चंदणहि सुदेहिहि मणअवहरणु करउ वइदेहिहि ।
 ता पेसिय सां राएं तेत्तहि तं वाणौरसिपुरवरु जेतहि ।
 गय गयणंगणेण सा खेयरि पंडुरभवणावलि जोइवि पुरि ।
 जोर्यइ चित्तकूडु णंदणवणु णं महिमहिलहि केरउं जोव्वणु । 10
 घत्ता—महुधारहिं सित्तउं णावइ मत्तउं मलयाणिलसंचालिउं ।
 णवतरवरसाहहिं पसरियबाहहिं णं णच्चंतु णिहालिउं ॥ ११ ॥

12

रुक्खमूलरोहियंधरायलं कुसुमधूलिधूसरियणहयलं ।
 कीलमाणसाहामयालयं गयणलग्गतालीतमालयं ।
 बिल्लच्चिल्लवेइल्लसइलं हरिणदंतदूरमलियकंदलं ।
 सच्छविच्छुल्लुच्छलियजलक्षणं अयरुदेवदारुयहिं घणघणं ।
 विडविणिहसणुग्गामियहुयवहं सुरहिधूमवासियदिसामुहं । 5

८ A सा वि. ९ P तं पुणु. १० AP' दहइ.

11 १ सीलविसेसि. २ AP' राएं सा. ३ AP' वाराणसि°. ४ AP' जोइय.

12 १ A सोहिय°. २ AP' वट्टमाणहिंतालतालथं. ३ P' दरदरिय°. ४ AP' धूव°.

S a सो वि अशुद्धभावोऽपि; b संकिण्णत्तणु सर्वथा अशुद्धस्वरूपतां परित्याज्य शुद्धशुद्धरूपत्वं नीयते.

10 भल्लारउं णिवसणु उत्तमं वल्लम्.

11 1 b सुहिसोयाउर सुद्धच्छोकदुःखार्ता. 7 a चंदणहि शूर्पणखा, चन्द्रनखा द्वितीयं नाम; सुदेहिहि सुष्टुशरारायाः.

12 1 a 'रोहियं रुद्धम्. 2 a 'साहामयं मर्कटाः. 3 a 'चिल्लं चिञ्जा. 4 b अयरु' अशुद्धः कृष्णचन्दनः. 5 a णिहसणु' निघर्षणम्.

परिघुलंतकंकेल्लिपलुवं
बालवेह्लिविलएहिं णवणवं
अलयबलयविलुलंतअलिउलं
केयईरुउक्खुसियमाणवं

पवणचलियमहिलुलियमहुलवं ।
कीरकुररकारंडकैलरवं ।
विविहकीलणावासपविउलं ।
रमियखयरजकिखददाणवं ।

घत्ता—तर्हि पयडियभावइ बहुरसदावइ सिसुमाणिणिमणमोहणइ ॥ 10

जणइच्छियकोमलि वरवणुज्जलि णाइ कवि सुकइहि तणइ ॥ १२ ॥

13

उग्गयचंदणि उरगयचंदणं
लोहियकंदइ सुहितरुकंदो
वड्डियमोयइ कयरइमोयो
लग्गपियाले णिच्चपियाँला
खगरावाले बहुरावाला
महुयरगीए मणहरगीयइ
बहुपुहईरुहि पुहइसमेया
पइरिक्कामइ कामियकामा

उण्णयचंदणि कयजिणचंदणं ।
गुरुमाइंदइ जियमाइंदो ।
फुल्लासोयइ वियलियसोयो ।
कीलासेले धीर व सेला ।
सरकमलाले गुरुकमलाला ।
छोहियसीयइ ते सहं सीयइ ।
सिवए सिवढोइयरिउमेया ।
लक्खणरामइ लक्खणरामा ।

५ A कारंडकुलरवं. ६ A उ उक्खुसियं.

13 १ AP चंदणे. २ AP वंदणे. ३ AP कंदए. ४ AP मायंदए. ५ AP मोयए.
६ P सोया. ७ P पियाले. ८ P वीर व सेला; T वीर बसेला वशा इला यथोस्ती वशेली. ९ AP
गीयइ. १० A गीया. ११ AP छाही; T छाहियं. १२ A सीया. १३ AP पयरिकीमए.

(६) *b* महुलवं वसन्तलता यत्र. ८ *a* अलयबलय अलकबलयवत्; अलिउलं भ्रमरकुलम्.
९ *a* उक्खुसियं लिताः.

13 1 *a* उग्गयचंदणि उद्गतचन्दनवृक्षवने; उरगयचंदणं हृदयलम्बचन्दनौ रामलक्ष्मणौ;
b उण्णयचंदणि उन्नतरक्तचन्दने. 2 *a* लोहियकंदइ रक्तचन्दने; सुहितरुकंदो सुहृदक्षुषु मेघौ;
b गुरुमाइंदइ प्रचुराम्रबुधे वने; जियमाइंदो लक्ष्मीः किल चन्द्रे कमले च वसति; लक्ष्मीसहितचन्द्रसदशा
राजानः तं जिता याभ्यां नौ जितलक्ष्मीचन्द्रौ. 3 *a* वड्डियमोयइ मोचा कदलावनम्; तद्वर्धितं यस्मिन्;
कयरइमोया कृतरतिहर्षो; *b* वियलियसोया विगलितशोकौ. 4 *a* लग्गपियाले गगनलम्बचारवृक्षे;
णिच्चपियाला नित्यं प्रियायुक्तौ भार्यायुक्तौ; *b* कीलासेले क्रीडागिरौ; धीरवसेला पर्वताविव धीरौ;
अथवा वसेला वशा इला पृथ्वी यथोस्ती. 5 *a* खगरावाले पक्षिशब्दवति; बहुरावाला बहु प्रचुरं रा
द्रव्यं तस्य पालकौ; *b* सरकमलाले सरकमलयुक्ते; गुरुकमलाला गुरुक्रमशोर्लोकौ वाञ्छकौ. 6 *a* महु-
यरगीए भ्रमरस्य गीतं शब्दो यत्र; मणहरगीयइ मनोहरग्रीवया सीतया सह प्रविष्टाविति संबन्धः;
b छोहियसीयइ छाहिका छाया शीतला यत्र वने. 7 *a* बहुपुहईरुहि प्रचुरमहीरुहे वने; पुहइसमेया
लक्ष्मणस्य पृथ्वी नाम महादेवी तथा सहितौ; *b* सिवए शिवदे मौरुख्यदे वने; सिवढोइयरिउमेया
शिवानां शृंगालीनां दत्तरिपुमेदसौ. 8 *a* पइरिक्कामइ पइरिक्कं प्रचुरं अमयं जलं यस्मिन्वने; कामिय-
कामा अनुभूतवाञ्छितार्थो; *b* लक्खणरामइ लक्ष्मणाः सारसारतं रामं रमणाये.

गंदणवणि लुड लुड जि पइट्टा लंकेसरवरबहिणिइ दिट्टा ।
 सहं अंतेउरेहिं कीलारय गहियणवल्लुफुल्लमंजरिय । 10
 घत्ता—कयकिसलयकण्णउ कुसुमरवण्णउ णं देविउ वर्णवासिणिउ ॥
 दुमसाहंदोलणि उववणकीलणि लग्गउ रायविलासिणिउ ॥ १३ ॥

14

काइ वि जणणयणहं रुञ्चंतिइ मोरें सहं सहासु णञ्चंतिइ ।
 सोहइ कमलु दुवासिहिं धरियउं णालंतालिपिंछविच्चुरियउं ।
 णाई कंडु रइणाहहु केरउ दावई सुरणरहिययवियारउ ।
 काइ वि समउं वि हंसु चमक्कइ गइलीलाविलासि सो चुक्कइ ।
 काहि वि छप्पउ लग्गउ करयलि जडु अप्पउं मण्णइ थियउ सयदलि । 5
 काहि त्रि णिपडउं णं ओलग्गइ एणउ दीहकडक्खिउं मग्गइ ।
 काइ वि उप्पलु सवणि णिहित्तउं कुम्माणउं णं णयणिहिं जित्तउं ।
 कुवलयाकिंकिणिमालाजुत्तउं काइ वि बद्धु वेल्लिकडिसुत्तउं ।
 काइ वि जाइवि मंडुइ धरियउ कुसुमरण रामु पिंजरियउ ।
 संझारापं णं मयलंछणु तेणं य सोहइ णं सारयघणु । 10
 जाइहुल्लु अण्णइ तहु दोइउं अण्णइ सरसु वयणु संजोइउं ।
 जाइवंत किं जाइ भणिज्जइ जा महुरसएहिं माणिज्जइ ।
 तो वि भडारी सीसैं वज्जइ अप्पकज्जि जणु सयलु वि मुञ्जइ ।
 घत्ता—सव्वंगहिं सुरहिउ वरमरुवउ पिउ रुणुत्तेपिणु धुत्तंडिय ॥
 मोगगरउ मुण्णपिणु अंगु धुणेपिणु तारुप्परि महुरि चडिय ॥१४॥ 15

१४ A उववण^०.

14 १ AP दुवासिहिं. २ P दावइ णं सुर^०. ३ AP समउं हंसु चमक्कइ. ४ को माणउ तं णयणहिं. ५ P मंथइ; K मत्थइ but corrects it to मडुइ. ६ AP तेण जि. ७ A धुत्तलिया. ८ AP जासुप्परि.

9 b लंकेसरवरबहिणिइ शूर्पगव्या. 10 b ^०रय रती. 11 कयकिसलयकण्णउ कणें कुनकर्णपूराः; कुसुमरवण्णउ पुष्पैर्मनोहराः.

14 2 a दुवासिहिं द्वयोः पार्श्वयोः; b णालंतालिपिंछविच्चुरियउं नालावसाने ये भ्रमरास्त एव पिच्छानि तैर्विस्फुरितम्. 3 a कंडु काण्डो बाणः. 4 a चमक्कइ गच्छति. 5 b जडु मूर्खो भ्रान्तः. 6 b एणउ मृगः. 7 b कुम्माणउं स्थानम्. 8 a कुवलयाकिंकिणि^० कुवलयायन्येव किङ्किण्यः. 10 a मयलंछणु चन्द्रः. 11 a जाइहु लु जातीपुष्पम्. 12 a जाइवंत कुलीना विशिष्टपुष्पजातिश्च; जाइ जातिपुष्पम्. 13 b अप्पकज्जि आत्मनः कार्ये प्रयोजनं यत्र वस्तुनि. 14 सव्वंगहिं डालशाखाविभिः; मरुवउ मरुवकः; धुत्तंडिय धूर्ता भ्रमरी. 15 मोगगरउ मोगगरपुष्पम्; तारुप्परि तस्मै मरुवकस्योपरि.

15

का वि कुंदकुसुमइं गियदंतहि
 बउलु परिकखइ गियतणुगंधे
 क वि फुलिउ साहारु णिरिकखइ
 जंपमाणु णवकलियइ मत्तउ
 धरिउ ताइ रूसिवि मणदूसउ
 का वि उच्छुकरयल सुहकारिणि
 का वि फुल्लमालउ संचौरइ
 का वि पलासपसूयइ वीणइ
 णिद्धइ रत्तइ कुडिलइं तिकखइं
 काइ वि कोइल कसण णिरिकिखय
 संपहिं पइं वि बोह्लेणसीली
 एयहि सहु महुरु महुरुउ विसु
 जइ मैहुं लक्खणु अज्जु रमेसइ
 घत्ता — लयमंडव माणिवि कील समाणिवि कामभोयसंपण्णरइ ॥

णं^३ करिवरु करिणिहिं सहुं गियघरिणिहिं सरि पइसंति णराहिवइ ॥१५॥

जोयइ दप्पणि समउ फुरंतहि ।
 बिंबीहलु अहरहु संबंधे ।
 वाली हरिसांहारणु कंखइ ।
 खरसंताउ ण मुणइ सहत्तउ ।
 अग्गिवण्णु जायंत मुहि पूसउ । 5
 णौवइ विसमसरासणधोरिणि ।
 सरुं सरपंतिउ णं दक्खालइ ।
 केकयंतणयहु पाहुडु आणइ ।
 णाइ वसंतमइंदहु णक्खइं ।
 पुंच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय ।
 जणविरहाणलधूमं काली ।
 दोहिं मि हम्मइ पवसिउ माणुसु ।
 ता हलि कल्लपलविउं सुहुं देसइ ।

16

सीयापंजलिपाणियसिद्धु
 दीसइ रामहु उरि णीलुप्पलु
 कसणं हरिणा का वि महासइ

णं दप्पणयलि पुण्णपवित्तहु ।
 सोहइ णं छणचंदहु मयमलु ।
 सित्ती णं मेहण वणासइ ।

15 १ A ववल. २ KT record a p: अथवा हरियासायणं चुम्बनम्. २ AP मुहि जायउ. ३ AP णं विसमसरसरा°. ४ A °धोरिणि. ५ AP संचालइ. ६ AP सर. ७ A केकहतणयहु; P केहयतणयहु. ८ A अच्छिय अंबइ विहसिय अक्खिय; P अच्छिय अवरइ विहसिवि अक्खिय. ९ P एह जि. १० AP बोह्लण°. ११ AP मइ. १२ A कललवियउं. १३ P omits णं.

16 १ AP पाणियपंजलि°. २ A छणयंदहु; P छणइंदहु.

15 २ a बउलु बकुलपुष्पम्. ३ b वाली तरुणी; हरि सा हार णु वासुदेवेन सह बाहुयुद्धम्. 4 b खरसंताउ विरहोत्पन्नस्तीव्रतापः; स इ त्तउ निःप्रपञ्चितः. 5 b अग्गिवण्णु रक्तवर्णः; मुहि मुखे; पूसउ शुकः. 6 b उच्छुकरयल इक्षुधृतकरा; b विसमसरासणं कामधनुः. 7 b सरु स्मरः कामः. 8 a °पसूयइं पुष्पाणि. 9 b वसंतमइंदहु वसन्त एव मृगेन्द्रः सिंहस्तस्य. 10 b दोहिं मि द्वाभ्यामपि शुकक्रोकिलाभ्यां हन्यते परदेशं प्राप्तो नरः. 11 b कल्लपलविउं क्रीकिलाया मधुरशब्दः. 12 माणिवि सुक्त्वा; कील समाणिवि क्रीडां कृत्वा. 13 सरि सरोवरे.

16 1 b दप्पणयलि दर्पणसदृशे हृदये, निर्मले इत्यर्थः. ३ b वणासइ वनस्पतिः.

णं रोमावलिअंकुर मेल्लइ
क वि घणथणफलसंपय दावइ
सिंचिय सिंचिय हसइ सलीलउं
काहि वि पियकरजलविच्छुलियहि
अल्लउं परिहणु ढँल्लिउ विहाविउ
काइ वि महुमहकंतिइ कालिउं
सहियहु दंसिवि कँहिवि वियण्पिउं
सिंचहि ललियं एह पोमावइ
कुंकुमर्पिडउ पयहि घल्लहि

मुहकमलेण गाइं पफुल्लइ ।
सुंदरि वेल्लि अणंगहु गावइ । 5
उच्छलंतकप्पूरकणालउं ।
सुत्तजालु तुट्टउं कंचुलियहि ।
लज्जइ सलिलि अंगु ल्हिकाविउं ।
रत्तउं सयदलु कण्हुं णिहालिउं ।
कण्णालग्गइ काइ वि जंपिउं । 10
विरहिणि जेणं भडारा जीवइ ।
एह देव वच्छयलें पेल्लहि ।

घत्ता—तं सुणिवि कुमारें माणवसारें एक्क धरिय चीरंचलइ ॥

अण्णकहि जंतें दरविहसंतें मुक्कउं साल्लिु थणत्थलइ ॥ १६ ॥

17

तं हारावलि तिम्मिविं, पडियउं
कहि लब्भइ पियसंगे आयउं
काइ वि वल्लहहँत्थ गलत्थिय
णहँणियउंत धरिय धवलामल
का वि णियंविणि णाहहु णासइ
सरि परिओलिरु सण्हउं पंडुरं
का वि उरत्थलि चडिय उविदहु
पत्तिणिपत्तइ पेच्छिवि जलकण
क वि हियउल्लइ विभिय मंतइ
का वि ण इच्छइ जलपक्खालणु

विहिणा किं णउ तेत्थु जि जडियउं ।
काहि वि मणि उच्छल्लउं जायउं ।
देहतावहँय ते जि समत्थिय ।
तोयविंदु गावइ मुत्ताहल ।
वणि णिम्मज्जइ दूरहु दीसइ । 5
पाणियल्लि व कड्डइ अंबरु ।
गावइ विञ्जुल अहिणवकंदहु ।
हारु ण तुट्टउं अवलोइय थण ।
अलयहं अलिहिं मि अंतरु चित्तइ ।
कज्जलतिलयपत्तपक्खालणु । 10

३ AP पफुल्लइ. ४ AP पुलणं; K records a *p*: पुलणं. ५ A ष्हसिउ; P र्हसिउ. ६ AP किण्हु.
७ A कह व. ८ AP एह ललिय. ९ A जेम भडारा जीवइ.

17 १ AP णं. २ P णिम्मिवि. ३ AP उच्छुल्लउं. ४ P हँत्थिय. ५ AP तावहर.
६ P णहणियउंत. ७ P पंडरु. ८ AP तुट्टइ. ९ A जलपक्खालणु.

7 a विच्छुलियहि स्नापितायाः. 8 a अल्लउं आर्द्रम्. 9 a महुमहकंतिइ मधुमथनो हरिस्तस्य
कान्त्या पद्मं कृष्णं जातम्. 10 b कण्णालग्गइ कर्णे लगित्वा. 12 b वच्छयलें वक्षःस्थलेन. 14 जंतें
जलयन्त्रेण.

17 1 तिम्मिवि आर्द्रचित्त्य. २ b उच्छल्लउं उत्सुकत्वम्. 3 b तेजि तावेव हस्तावेव.
5 b वणि जले. 6 a सरि तडागं; सण्हउं श्लक्ष्णं सूक्ष्मम्; b पाणियल्लि व जलस्य त्वचा इव;
अंबरु वस्त्रम्. 7 a उविदहु लक्ष्मणस्य; b अहिणवकंदहु कृष्णमेघस्य. 8 a पत्तिणिपत्तइ
पद्मिनीपत्रे. 9 a विभिय विस्मिता; मंतइ विचारयति; b अलयहं चूर्णकुन्तलानाम्; अलिहिं भ्रमरेषु.

उड्डु अंतरि करइंदीवरु तहु णवणौलु व थियु धारासरु ।
 चवलरहल्लिजलोहियकेली एम करेप्पिणु चिरु जलकेली ।
 घत्ता - सरि ण्हाइवि णिग्गय णावइ दिग्गय थण्यलघुलियहारमणिहिं ॥
 पयलियरसधारहु तलि साहारहु सहं णिमण्णु णियपणइहिं ॥१७॥

18

णावइ सीयसुरूवें णिज्जिय विजाहरि तारुणें लज्जिय ।
 तहिं अवसरि कंचुइ होएप्पिणु सा चंदणहिं तेत्थु आवेप्पिणु ।
 जोयइ सीय पसाहिज्जंती कवि संकइ तिलउल्लउ देती ।
 भालयलहु कलंकु परि किज्जइ एणं णं महुं हासउ दिज्जइ ।
 का वि ण बंधइ मोत्तियकंठिय कंचु पलोइवि णिहुणियं संठिय । 5
 का वि कवोलइ पत्तु लिहेप्पिणु जूरइ किं पह पहयं णिहेप्पिणु ।
 चितइ खेयरि माणणिसुंभहं उव्वंसिगोरिनिलोत्तमरंभहं ।
 रूवें सीयाप वि गुरुकी पुरिसहं वम्महभल्लि व दुक्की ।
 हा हा हय किं कयउ पयावइ दुक्करु रामेणु जोइवि जीवइ ।
 जासु एह कुलहरि कुलउत्ती रिद्धि विद्धि तहु तहु जि धरिन्ती । 10
 णिच्छउ होसइ जित्तमहाहउ धण्णउ पुण्णवंतु जगि राहउ ।
 घत्ता— जरधवलियकेसइ कंप्पिरसीसइ मायारूवें भावियउं ॥
 मणहरणावियेड्डुइ खेयेरिवुहइ तरुणीयणु पहसावियउ ॥ १८ ॥

19

ता तहिं एक भणइ नृवरणी का तुहुं किं कारणु अवइणी ।
 हलि हलि कंचुइ काइं णियच्छसि भणु भणु किं लिहिया इव अच्छसि ।

१० AP णालु थविउ. ११ P थणयलघुलिय^०.

18 १ सीयारूवें; P सीयामुरूवें. २ A चंदणवि. ३ P जोइय. ४ AP कंचु. ५ AP णिहुवी संठिय. ६ AP णिहिय पिहेप्पिणु. ७ A उव्वंसिगोरी^०; P उव्वंसिमीणी. ८ AP कियउं. ९ A रावणु. १० A कुलहर. ११ A होसइ तहिं जि महाजउ. १२ A 'विसड्डुहे. १३ P खेयरवुहइ.

19 १ A णिवरणी; P णिवरणी.

11 b तहु इन्दीवरस्य; धारासरु धाराजलम्. 12 a 'रहल्लि' लहरी, कल्लोलाः. 14 साहारहु आम्रवृक्षस्य.

18 1 b विजाहरि शूर्पणखा. 2 a कंचुइ वृद्धा; b चंदणहिं शूर्पणखा. 3 a पसाहिज्जंती विभूष्यमाणा; b कवि पुष्पदन्तः; संकइ उत्प्रेक्षत. 5 b कंचु श्रीवा; णिहुणिय निभृता निश्चला. 6 b पह पहय णिहेप्पिणु प्रभां प्रहतां दृष्ट्वा. 7 b 'गोरि' पार्वती. 9 a पयावइ हे हतविधे. 11 a जित्तमहाहउ जित्तसंग्रामः; b राहउ रामः. 13 ^०वियड्डुइ विदग्धया चतुरया.

19 1 a नृवरणी राज्ञी; b अवइणी अवतीर्णा आगता.

तं णिसुणिवि बोह्लंइ मायारी
 तुम्हिहिं परभवि जं व्रंउं चिण्णउं
 लद्धा जेण णाह हलहर हरि
 तं मज्झु वि उवइसह वइत्तणु
 ता तं सीयइ ऋ त्ति दुगुच्छिउं
 रयसलवासरि चंडालत्तणु
 अण्णहिं कुलि कथइ उप्पज्जइ
 सयणविओयवसेण रुयंती
 मंतिकैज्जि णउ कासु वि भावइ
 दूहउ दुट्ठु दुगंधु दुरासउ
 असहणु अहणु कुडिलु जाणेव्वउं
 यत्ता—जइ सइ चक्रेसरु अहव सुरेसरु तो वि अण्णु णरु जणणसनु ॥
 चिंतेव्वउ णारिहिं कुलगुणधारिहिं णउ लंघेव्वउ गोत्तकमु ॥१९॥ 15

हउं मायरि वणवालहु केरी ।
 जेणेहउं जायउं लायण्णउं ।
 जेण लच्छि एही सवसुंधरि । 5
 साहमि सर्वसा हं वि जुवइत्तणु ।
 महिलत्तणु किं किज्जइ कुच्छिउं ।
 णउ पावइ णियवंसपहुत्तणु ।
 वहुंती अण्णेण जि णिज्जइ ।
 बहलवाहविंदुयइं मुयंती । 10
 जा जीवइ ता परवस जीवइ ।
 अंधु बहिरु वाहिल्लु अभासउ ।
 जो भत्तारु सो ज्जि माणेव्वउ ।

20

विहवत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं
 रक्खइ पिउ अव्वत्तिसिसुत्तणि
 रक्खइ बुद्धत्तणि तणुरुहु तिह
 परवसहिंउण सयणाहारहु
 बुद्धिइ बुद्ध्यालि णिब्भग्गिउ
 किज्जइ जिणवरिंदभासिउ तउ
 रुहिररसावहु अट्टियपंजरु
 जहिं इंदियइं ण इच्छियकामइं
 तं मग्गिज्जइ मोक्खमहासुहुं
 हियवउं भिण्णउं तक्खणि एयहि
 जाणियतच्चहि सच्चहि संतहि

अप्पउं तवन्नरणे दंडेव्वउ ।
 रक्खइ त्त्ये पइ पुणु पोढत्तणि ।
 ण करइ किं पि वि कुलविप्पिउ जिह ।
 महिल ण मुच्चइ कारागारहु ।
 डज्जउ महिलत्तणु किं मग्गिउ । 5
 तं मग्गिज्जइ जहिं णउ संभउ ।
 तं मग्गिज्जइ जहिं ण कलेवरु ।
 जहिं सुव्वंति ण जारहं णामइं ।
 तं णिसुणिवि बुद्धिइ मउलिउं मुहुं ।
 भरइ सीलु को खंडइ सीयहि । 10
 जहिं एहउ वियप्पु गुणवंतहि ।

२ P भासइ. ३ AP वउं. ४ AP रामसामि°. ५ A मंतकज्जि. ६ P परवसि.

20 १ A डडेवउ. २ A अब्भत्तिसिसुत्तणि. ३ AP तिय. ४ AP पुणु पइ. ४ A बुद्धिइ.
 ५ A भणइ; 1 भरइ चिन्तयति.

3 b मायरि माता. 4 b एहउं ईदशम्. 6 b साहमि साधयामि; सवसा स्ववशा; जुवइत्तणु स्त्रीत्वम्.
 8 a रयसलवासरि रजस्वलादिने. 10 b बहलवाह° प्रचुरवापम्. 13 a असहणु ईश्यालुः;
 अहणु निर्धनः.

20 2 a पिउ पिता. 3 b कुलविप्पिउ कुललाञ्छनम्. 5 a बुद्धिइ बुद्ध्या त्वया; णिब्भ-
 ग्गिउ निर्भागे भाग्यरहितम्. 6 b जहिं यत्र मोक्षं; संभउ संभवो जन्म. 10 b भरइ स्मरति.
 11 b वियप्पु स्त्रीजन्मनिन्दालक्षणो विकल्पः.

ताहिं मइं धुसिई काई करेव्वउं पासाहिं हिंडिवि णवर मरेव्वउं ।
घत्ता—इय चित्तिवि सुंदरि णिवसैं णहयरि चंचलगय गयणंगणइ ॥
थिय मणियरणिम्मलि कणयधरायलि लंकाहिवघरप्रंगणइ ॥ २० ॥

21

अंजणसामहु लच्छिविलासहु णविवि ताइ विण्णविउ दसासहु ।
देव दियंतदंतिदंतच्छवि- जसपसरणयरं जगपंकयरवि ।
पइं इच्छइ सा जइ सिहि सीयलु जइ ठाणाउ चलइ धरणीयलु ।
जइ णियमेण वसंति ण सायर जइ पडंति सिसिरंयर दिवायर ।
जइ जिणु रापं दोसें छिज्जइ तो पइं सीय खगिद रमिज्जइ । 5
तं णिसुणिवि दहवयणे बुच्चइ अवसु वि वसि किज्जइ जं रुच्चइ ।
किं विसभइयइ फणिमणि मुच्चइ अलसहु सिरि दूरेण पवच्चइ ।
सुहिसयणत्तणु पुरिसपहुत्तणु गिरिर्मसिणत्तणु सइहि सइत्तणु ।
दूरयरत्थु सुणंतहं चंगउं पासि असेसु वि दरिसियभंगउं ।
हरमि सीय किं पउरपलावें ता सा पुणुं वि कहइ सम्भावें । 10
दहमुह एउ अजुत्तु अकित्तणु इय बोळंति संति मंतित्तणु ।
घत्ता—चंदणहि णिवारिवि असिवरु धारिवि सुरसंमरओहिं असंकियउ ॥
भरहद्धणरेसरु सुरकरिकरकरु रीवणु पुष्पयंति थियउ ॥ २१ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहए महाकव्वे णारयआगमणं रीवणमणखोहणं
णाम एकहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७१ ॥

६ A धुत्तै. ७ P णिविमैं. ८ AP ०पंगणइ.

21 १ A ०दंतहो छवि. २ A ०पसरणजगवणपंकयं; P ०पसरणपर. ३ A इच्छइ पइं जइ
सा; P इच्छइ पइं सा जइ. ४ A सिसिरयर. ५ A पय. ६ AP गिरिहि महत्तणु. ७ AP कहइ पुणु वि.
८ P अखत्तणु. ९ A ०समरेहिं असं; P समरउहे असं. १० P रामणु. ११ AP रामणखोहणं.

13 णिवसं निमपेण.

21 २ b ०छवि जसपसरणयर शुक्रयशःप्रसरणकर. 3 a जइ सि हि सी य लु चेदमिः
शीतलः तर्हि सीता त्वां वाञ्छति; b ठाणा उ स्थानान्. 4 b सि सिरयर शिशिरकरश्चन्द्रः. 5 a छिज्जइ
क्षीयते. 6 b अवसु अवशमपि वस्तु. 7 a ०भइयइ ०भयेन. 8 a सुहिसयणत्तणु सुहदां सुहत्वं दूरस्थ-
मेव श्रूयते; b गिरिमसिणत्तणु गिरेर्मसृणत्वं क्रोमलत्वं रम्यत्वम्. 9 a दूरयरत्थु दूरतरस्थानाम्.
11 b बोळंति संति वृवाणा सती. 12 सुरसमरओहिं असंकियउ सुरसमरसमूहाच्च भीतः. 13 पुष्प-
यंति पुष्पकविमानमध्ये.

सहं मारीयण पट्टु मुक्कदेसजइसंजमु ॥
पुप्फविमाणे थियु गउ सीयंहरणकयउज्जमु ॥ धुवकं ॥

1

कामवाणोहविद्धेण मुद्धेण णो किं पि आलोइयं
ता विमाणं विमाणे णहे राहणा तेण संचोइयं ।
तारयाऊरियायाससंकासवद्दुज्जलुवयं 5
हेमयंटाविसट्टंतटंकारसंतासियासागयं ।
चारुचंदकभाभारि माणिककंसमुक्कसुंबुक्कयं
वाउधुव्वंतकेऊलयालोलणाइण्णदिच्चकयं ।
तुंगसिगगणिभिण्णणीलब्भसचछंबुधारोहियं 10
वोमपोमायरे हंसर्वत्तम्मि पोमं वं पप्फुल्लियं ।
दिण्णध्रुवं रयक्खं गवक्खंतलंबंतंभिगंचियं
पक्खिसेहीरंसारंगमायंगउक्किण्णरूवंकियं ।
बद्धसोहिल्लकण्णंघिबुद्धयपत्तावलीतोरणं
इंदणीलंसुकालं असीयंसुंसीयंसुणिव्वारणं ।
तेयवंतं णट्टुम्मिल्लकंतिह्लुदिव्वत्थसोहावहं 15
भम्मपिंगं पलित्तं व सत्तच्चिणा रंजियासावहं ।
कित्तिवेल्लीइ फुल्लं व सेयं दसासालिणा माणियं
जायवेयं कुधीरेण वीरेण वाणारसी आणियं ।

प्रत्ता—दिट्टुउ तेत्थु वणु अण्णेक्क वि सीयहि जोव्वणु ॥

रावणु चितवइ विहि समसंजोयवियक्खणु ॥ १ ॥ 20

1 १ P °विवाणं. २ P सीयाहरण°. ३ AP माणिककणिमुक्क°. ४ A हंसर्वतम्मि. ५ P च
पुप्फुल्लियं. ६ AP गवक्खंतलंबांत°. ७ A °सीहीर°. ८ AP °घिबुद्धभूय°. ९ P omits सुसीयं°.
१० A धीरेण.

1 २ °कयउज्जमु कृतोद्यमः. 3 आ लो इयं विचारितम्. 4 विमाणं विगतमाने अनन्ते
नभसि. 5 तारयेत्यादि तारकापुरिताकाशसदृशं बद्धोज्ज्वलचन्द्रोपकम् (°वितानम्). 6 °विसट्टंतटंकार-
संतासियासागयं विसर्पन्तः टंकाराः तैः संत्रासिता दिग्गजा येन. 7 °चंदकभाभारि मयूरपिच्छं सुवर्णं
वा तस्य प्रभाधारि; °सुंबुक्कयं °स्तबकम्. 8 वाउधुव्वंतकेऊलयां वातान्दोलितध्वजलता. 9 °धारो-
हियं धाराद्रम्. 10 वोमपोमायरे गगनसरोवरे; हंसर्वत्तम्मि सूयवति. 11 रयक्खं रक्ताक्षमासक्तै-
न्द्रियम्; °भिगंचियं °भृङ्गसहितम्. 12 °सीहीरं सिंहः. 13 इंदणीलंसुकालं इन्द्रनीलकिरणकृष्णम्;
असीयंसुसीयंसुणिव्वारणं सूर्यचन्द्रकिरणनिषेधकम्. 15 °दिव्वत्थं दिव्यान्नाणि दिव्यप्रहरणानि.
16 सत्तच्चिणा अग्निना. 17 दसासालिणा दशास्यो रावणः स एव भ्रमरस्तेन. 18 जायवेयं जात-
वेगम्; कुधीरेण कुबुद्धिदायकेन.

2

वणु दीसइ णच्चियणीलगलु
 वणु दीसइ णिम्मलभरियसरु
 वणु दीसइ संचरंतकमलु
 वणु दीसइ ललियलयाहरउं
 वणु दीसइ कालालिगियउं
 वणु दीसइ अलयतिलयसहिउ
 वणु दीसइ फुल्लासोयतरु
 वणु दीसइ दुग्गउं कंचुइहिं
 वणु दीसइ तरुकीलंतकइ
 वणु दीसइ मूलणिरेद्धरसु
 वणु दीसइ वड्ढियधवलवलि
 हियउल्लउं कामसरहिं भरिउं

सीयहि जोव्वणु मणमीणगलु ।
 सीयहि जोव्वणु णिरु महुरसरु ।
 सीयहि जोव्वणु वरमुहकमलु ।
 सीयहि जोव्वणु विवाहरउं ।
 सीयहि जोव्वणु सालिगियउं । 5
 सीयहि जोव्वणु विहलीसहिउ ।
 सीयहि जोव्वणु परसोययरु ।
 सीयहि जोव्वणु धरकंचुइहिं ।
 सीयहि जोव्वणु वण्णांति कइ ।
 सीयहि जोव्वणु कयमयणरसु । 10
 सीयहि हारावलि धवलवलि ।
 लंकालंकारे संभरिउं ।

घत्ता—इय एयहि तणउ णरु माणइ जो णउं जोव्वणु ॥
 मंदिरु परिहरिवि रिसि होइवि सो पइसउ वणु ॥ २ ॥

3

अहो कयत्थो भुवणंतरे हली
 पलोयए लोयणएहिं संमुहं

महेलिया जस्स घरम्मि मेहली ।
 मुहेण मल्लंति विउंबए मुहं ।

- 2 १ A मणिणीलगलु. २ A घरु. ३ P ^०णिबद्धरसु. ४ A वल्लियधवल^०. ५ AP ण वि.
 3 १ P लोयणेहिं. २ A विओवए; P विउवए.

2 1 a ^०णीलगलु मयूरः; b मणमीणगलु मनोमत्स्यस्य बन्धने गलो लोहकण्टकः.
 2 a ^०भरियसरु ^०भृतसरोवरम्; b महुरसरु मधुरशब्दयुक्तम्. 3 a संचरंतकमलु प्रवहज्जलम्.
 4 a ललियलयाहरउं मनोहराणि लतागृहाणि यस्मिन्वने; b विवाहरउं विभ्रं पक्कतुण्डीरकं तत्तुल्योऽध-
 रोष्ठो यत्र यौवने. 5 a कालालिगियउं कालाश्च ते अलयश्च तंप्रामिद्धितं चेष्टितं यत्र; b सालिगियउं
 लक्ष्म्या चिह्नितमालिङ्गितं वा. 6 a अलयतिलयसहिउं अलमत्यर्थं तिलकवृक्षसहितम्; b विह-
 लीसहिउं विशेषेण हलीशस्य रामस्य हितं सुखदम्. 7 b परसोययरु परेषां शोककारकम्. 8 a कंचु-
 इहिं सर्पैः; b धरकंचुइहिं गृहमहलकैः. 9 a ^०कइ कपयः; b कइ कवयः. 10 a ^०रसु जलं पृथ्वी
 वा; b कयमयणरसु कृतकामरसम्. 11 a वड्ढियधवलवलि वर्धिता धवाश्च लवलयश्चन्दनलताश्च
 यस्मिन्; b धवलवलि धवला कण्ठे वलिता च. 12 a कामसरहिं कामव्राणैः; b लंकालंकारे लङ्काया
 अलंकारभूतेन रावणेन; संभरिउं चिन्तितम्.

- 3 1 b मेहली मैथिली सीता. 2 b मल्लंति हर्षमाणा; विउंबए चुम्बति.

हरौमि पयं कवडेण संपयं
 उयार मारीयय होहि तं मओ
 कुकम्मए मंतिवरो णिवेसिओ
 जसो ण जाओ भुवणंतमेरओ
 भणामि किं सिंभजरे पयं पियं
 तओ विसाएण वियारियंगओ
 णिसणिया जत्थ धरासुया सई
 कुरंगओ बालतणंकुरासओ
 णियच्छिओ दिट्ठिमओ रवणओ
 महीरुहाए भणियं हिया सयं
 णरिंद हे राम पुलिंदकायरं
 अणेयमाणिकमयं मयं महं

करेइ मंती महिणाहसंपयं ।
 खुरेहिं सिंगेहिं जवेण तम्मओ ।
 विंचितए हा विहिणा णिवे सिओ । 5
 कहं परत्थीरंमणे तमे रओ ।
 दुलंघमेयं पडुणा परंपियं ।
 खणेण होऊण मओ तहिं गओ ।
 पिए मणे जीइं समण्विओ सइं ।
 सुयाहिरामंकियरामरासओ । 10
 विंचित्तपिंछोहमऊरवणओ ।
 इमं महं लोयणलोलणासयं ।
 रणणं गंतुं धरिऊण कायरं ।
 कुलीण दे देहि णियच्छिमो महं ।

यत्ता—णिसुणिवि प्रियवयंणु सो रामे दीसइ केहउ ॥ 15
 सावउ चित्तलउ चलु मणु काउरिसहं जेहउ ॥ ३ ॥

4

पविरलपएहिं लंघंतु महि
 थोवंतरि मणहरु जाइ जवि
 पडु पाणि पसारइ किर धरइ
 दूरंतरि णियतणु दक्खवइ

लडु धावइ पावइ दासरहि ।
 कह कह व करंगुलि छित्तु ण वि ।
 मायामउ मउ अगइ सरइ ।
 खेलइ दरिसावइ मंदगइ ।

३ AP हरेमि. ४ A रमणंतमेरउ. ५ A जाइ. ६ A लोयणलोयणासयं. ७ A रएण तुंगं. ८ T णिय-
 स्थियामहं पश्याम्यहं, पश्यामि तंजः (उत्सवः ?). ९ AP पियवयणु.

3 a संपयं संप्रति इदानीम्; महिणाहसंपयं महीनाथस्य संपदम्. 4 a उयार उदार; तं त्वम्; मओ मृगाः;
 b तम्मओ तन्मयस्तदाकृतिः. 5 a कुकम्मए कुत्सितकर्मणि; b णिवे नृपे; सिओ सितं श्वेतम्.
 6 a जसो ण जाओ यशः शुक्लं न जातम्; भुवणंतमेरओ त्रिभुवनान्तमयोदं (यशः); b तमे पापे;
 रओ रतः 7 a सिंभजरे पयं पियं श्लेष्मज्वरे पयः पीतम्; b पयंपियं प्रजल्पितं कथितम्. 8 a विसा-
 एण वियारियंगओ विषादेन खेदेन विकारिताङ्गः; b मओ मृगः. 9 a धरासुया सीता; b जीइ यया;
 सइं सदा. 10 a बालतणंकुरासओ बालतृणाङ्कुरमक्षकः; b सुयाहिरामंकियरामरासओ श्रुतौ कर्णे
 अभि समन्ताद्रामयाङ्कितरामस्य शब्दो येन मृगेण, अथवा, सुयाहिरामं आकर्णनाभिरामं यथा भवत्येवं कृतो
 रामस्य रासः शब्दो येन मृगेण. 11 a दिट्ठिमओ दृष्टिमृदुः; रवणओ रमणीयः; b ^०मऊरवणओ
 मयूरसदृशवर्णः. 12 a महीरुहाए सीतया; हिया हे हित; सयं स्वयमेव; b लोयणलोलणासयं मम
 नेत्रयोः क्रीडाश्रयं स्थानम्. 13 a पुलिंदकायरं पुलिन्द्रकाणामादारो यत्र मृगे; b रएण गंतुं वेगेन
 गत्वा. 14 a महं मह्यं मम; b महं उत्सवभूतम्. 16 सावउ श्रापदो मृगः.

4 1 a ^०पएहिं पादैः. 2 a जवि वेगवान्. 5 a णवदूवा^०नवदूर्वा.

णवद्वाकंदकर्वलु भरइ
कच्छतरि सच्छसलिलु पियइ
सुयचंचुघायपरियलियफलि
खणि वेह्लिणिहेलणि पइसरइ
ओहच्छइ अइकोडुवणउ
इय चितिवि राहउ संचरइ
धरिओ वि करग्गहु णीसरइ
णिहइयहु कि करि चडइ णिहि

तरुवरकिसलयपल्लव चरइ । 5
वंकियगलु पच्छाउहुं णियइ ।
खणि दीसइ चंपयचूंयतलि ।
अण्णणणपर्यसहिं अवयरइ ।
लइ माणमि णयणसुहावणउ ।
पसु पुणु धरणास तासु करइ । 10
कहिं वेसायणु कहिं णीसरइ ।
कहिं कवडहरिणु कहिं बंधविहि ।

घत्ता—गउ गयणुल्ललिउ मिगु णं कुवाइहत्थहु रसु ॥

थिउ दसरहतणउ समणीससंतु विंभियवसु ॥ ४ ॥

5

भयणभूमिआयासगामिणो
दवंदेव जयलच्छिसंगमो
ता ससकैतेल्लोकरामेणो
कासकुसुमसंकासदेहओ
कसणवाससोहियणियंबओ
झ त्ति जणयतणयासमीवयं
वहरिमाणणिम्महणसत्तिणा
दूरयं पि मणपवणवेययं
आणियं मए हरिणपोययं
ता सईइ अवलोइओ मओ

मंतिणा वि कहियं ससामिणो ।
वंचिंओ रहुगयपुंगमो ।
राम एव रूवेण रावणो ।
चावधारि णं सरयमेहओ ।
हत्थणिहियमणिमयासिलिंबओ । 5
आगओ कयाणंगमावयं ।
भासियं कुसीलेणं णं तिणा ।
पंचवणमाणिक्कतेययं ।
कुणसु देवि कीलाविणोययं ।
णं सुदूसहो दुक्खसंचओ । 10

4 १ AP^१कमल. २ AP^२तरुवरपल्लवकिसलय. ३ AP^३पच्छामुहं. ४ AP^४'परिगलिय'.
५ P^५'चूंयतलि. ६ P^६पवेसहिं. ७ P^७इहु अच्छइ. ८ A^८णिहइयहु कहिं करि; P^८णिहइवहु करि कहिं.

5 १ A^१गयणभूमि^०; T^१भयणभूमि^०. २ A^२वणि वइइ रहुवंसपुंगमो; .P^२वणि पइइ रहुवंस-
पुंगमो. ३ A^३ससक^०. ४ P^४तइलोक्क^०. ५ AP^५'रावणो. ६ A^६'सिलिंबओ. ७ A^७'तावयं. ८ A^८कुसी-
लेण मंतिणा. ९ A^९दूरयं.

6 a कच्छतरि वनमध्ये; b पच्छाउहुं पश्चान्मुखम्. 7 a सुयेत्यादि शुक्रचञ्चुघातपरिगलितफले
आम्नाये. 9 a ओहच्छइ एष तिष्ठति. 10 b धरणास धारणात्याशाम्. 11 b वेसायणु वेदयाजनः;
णीसरइ निःस्वानां दरिद्राणां रतिः क्र. 12 a णिहइयहु निर्भाग्यस्य. 13 रसु पारदः. 14 सम^०
श्रमेण; विंभियवसु विस्मितस्य विस्मयस्य वशः.

5 1 a भयणभूमिआयास^० नक्षत्रसमूहाधिष्ठानमाकाशम्. 3 a 'रामणो' आक्रन्दनः.
4 a 'संकासदेहओ' उज्ज्वलशरीरः. 5 b 'सिलिंबओ' मृगः. 6 b 'भावयं' अभिलाषणम्. 7 b तिणा
रावणेन. 9 a हरिणपोययं हरिणबालकम्.

विष्फुरंततणुकिरणमालओ
विंभियाबलायाणमाणिया

विरहासिहि व वित्थिण्णजालओ ।
रयणिगमणच्चिंघेण भाणियं ।

घत्ता—पिए जरदिवसयरु अत्थंगउ दीसइ रत्तउ ॥

जरजुण्णु वि तिजगि भणु अत्थहु को णासत्तउ ॥ ५ ॥

6

उज्झिऊण इंदियसमं
सव्वत्थ वि भंइं सियं
बुद्धं किं पि णवं च णं
तं धरणीयलरूढिया
उववणवासविणिग्गयं
दहवयणेण विलासिणा
तीए पुंओ दावियं
सा तुरियं लंकं णिया
सारसजुयमाणियवणि
माणवाहिरामं गओ
पयडीकयससरिओ
इंर भुचणयले विस्सुओ

सविमाणं सिवियासमं ।
तीए तेणं दंसियं ।
णं हु खलरइयं वंचणं ।
अमुणंती आरूढिया ।
अप्पाणं हरिवरगयं ।
रिउकित्तीयविलासिणा ।
वइयालियसदावियं ।
वम्महधणुगुणकणिया ।
संणिहिया णंदणवणि ।
दूरमुकरामंगओ ।
भूहरभेइसरिओ ।
रक्खकेउ महिवइसुओ ।

5

10

घत्ता—कालउ दहवयणु णवमेहु व दुहयरु सीयइ ॥

पियविरहाउरइ दिट्ठउ कंठट्टियजीयइ ॥ ६ ॥

१० A भासिया.

6 १ A महासियं. २ P तहु खल^०. ३ AP पुरउं. ४ P वम्महु. ५ AP इह.

11 वित्थिण्णजालओ विस्तीर्णज्वालः. 12 a विभिया विस्मिता; अबला सीता; अयाणमाणिया मायापुरुषमजानती; b रयणिगमणच्चिंघेण राक्षसध्वजेन रावणेन. 13 पिए हे प्रिये. 14 णासत्तउ न आसक्तः.

6 1 a इंदियसमं इन्द्रियखेदं शरीरश्रमम्; b सिवियासमं शिविकाकृतिः. 3 a-b बुद्धं किं पि णवं च णं नवं जन्म अपूर्वं विमानं च णं एतत् णहु न खलु बुद्धम्; b वंचणं मृगलक्षणं वञ्चनम्. 4 a धरणीयलरूढिया भूमण्डले प्रसिद्धा सीता. 5 b हरिवरगयं अश्वारूढम्. 6 a विलासिणा विलासयुक्तेन; b रिउकित्तीयविलासिणा रिपुकीर्तिरेव अविला मेढिका, गङ्गुरिका इत्यर्थः; तस्याः असिना खड्गेन. 7 b वइयालियसदावियं वैतालिकशब्दवर्णितम्. 8 b^० कणिया बाणविशेषः. 9 a^० वणि जले. 10 a माणवाहिरामं गओ मनुष्यरमणीयतां प्राप्तः; b^० रामंगओ रामशरीरवेषः; भूहरभेइसरिओ भूहरभेदिनी चामौ सरिच्च तद्द्रव्यो वेगः शब्दो वा यस्य. 12 a इर किल प्रसिद्धौ; b रक्खकेउ राक्षसध्वजः; महिवइसुओ पुलस्तिपुत्रः. 14 कंठट्टियजीयइ कण्ठस्थितजीवितया सीतया.

7

चित्तं मउलंतें मउलियउं
 आपंडुरंतु गंडत्थलइ
 कढकढकढंति ससहरपहइं
 काँ दिसि केणाणिय केव कहिं
 इय चित्तवंति मोहेण हय
 पइवय परपइवयभंगभय
 भत्तारविओयविसंतुलिये
 णं कामभल्लि महियलि पडिय
 सुहिसुंयरणंपसरियवेयणिय
 परिहाणु ण तो वि ताहि ढलइ

लौयणंजुयलंसुउ पयलियउं ।
 विलासिउ विलासिइ विरहाणलइ ।
 अंगइं लायणणवारिवहइं ।
 को पावइ एवहिं रामु जहिं ।
 परपुरिसु णिहालिवि मुच्छ गय । 5
 णं पवणं पाडिय ललिय लय ।
 विहिवस सिलसंकडि पक्खलिय ।
 णं वाउल्लिय कंचणघडिय ।
 सा जइ वि थक्क णिञ्चेयणिय ।
 चल जारदिट्ठि कहिं परिघुलइ । 10

घत्ता—दढणिवसणु सइहि सुहडडहु करासि ण वियट्ठइ ॥

मरणि समावडिइ परिरियविहि विहिं वि ण फिट्ठइ ॥ ७ ॥

8

परदारलुद्धु दुक्कंतु खलु
 रावण किं आणिय परजुवइ
 वणु णाइं करइ साहुद्धरणु
 अलि कण्णासण्णउ रुणुरुणइ
 इच्छइ दससिरु पररमणिसुहुं
 णं सो वि णिवहु उव्वेइयउ
 दुज्जसु महु महणिहु महहि जइ
 हंसावलि लवइ व लोयपिय
 मा मइलहि माणिवि पइ तिय
 अंबउ लोहियपल्लवल्लिउ

किं लज्जइ कहिं मि गामकमलु ।
 तरु चुयसिण्हंसुएहिं रुवइ ।
 हा पत्तउं णारिरयणमरणु ।
 पहु एउं अजुत्तु णाइं भणइ । 5
 कणइल्लउ वंकिवि जाइ मुहुं ।
 कोइल्लु विलवंतु व आइयउ ।
 वइदेहि भडारा रमहि तइ ।
 मइं जेही तेरीं कित्ति मिय ।
 मा णासहि लंकाउरिहि सिय ।
 णं णिवअण्णायसिहिं जल्लिउ । 10

7 १ P^०जुउ अंसुय. २ A आपंडुरत्थु. ३ AP का दिस. ४ A विसंतुलिया. ५ A सुहि-
 सुअरण^०; P सुहिसुमरण^०. ६ AP परियराविहि.

8 १ P रामण. २ A तं सो. ३ A कोकिल. ४ A तेही कित्ति.

7 1 a मउ लियउं नेत्रमपि मुकुलितम्. 3 a कढकढकढंति अतिशयेन दहन्ति; ससहर-
 पहइं चन्द्रकिरणप्रहतानि अङ्गानि. 6 a पइवय पतिव्रता. 7 b सिलसंकडि शिलासंकटे प्रदेशे.
 S b वाउल्लिय पुत्तलिका. ९ a^०सुंयरणं स्मरणम्; b णिञ्चेयणिय अचेतना. 10 a परिहाणु
 परिधानं वस्त्रम्. 12 परियरिविहि परिकरबन्धः.

8 1 b गामकमलुश्चा पुंश्रलः कुकुरः. 2 b चुयसिण्हंसुएहिं व्युतोष्णांशुभिः. 4 a कण्णा-
 सण्णउ कर्णसमीपस्थः. 5 b कणइल्लउ शुकः. 6 a णिवहु नृपात्. 7 a महुमहणिहु मत्तेजः-
 सद्गं, कृष्णमित्यर्थः; महहि वाञ्छसि. 10 a अंबउ आम्रवृक्षः; b^०सिहिं^०अग्निना.

चंदणु पुणु विसहर दक्खवइ
रामाणीरमणकम्मतुरिउ

पडिवक्खंवाणमाणु व थवइ ।
खर्यरिदं मणु मडुइ धरिउ ।

घत्ता—परवस परमसइ जइ छिवमि करं थणु पेह्लिवि ॥
अंवरयारिणिय तो जाइ विज्ज मइं मेह्लिवि ॥ ८ ॥

9

इय णिज्जाइवि पंकयकरिहिं
जीवावहु भावहु केह वि तिह
ता तरलइ तारइ णाइणिइ
अंविउलइ अंबइ अंबालियइ
पियछंदइ गंदइ गंदिणिइ
कप्पूरपूरपरिमलजलइं
सीयहिं अंगंगि रमंति किह
णियपत्थिवपेसणकारिणिहिं
दहमुहवहदाइणि कालणिह
उट्टिय परणरणिट्टुरहियय

आपसु दिणु विज्जाहरिहिं ।
मइं इच्छइ सुंदरि अज्जु जिह ।
चंपयमालइ मंदाइणिइ ।
मयमत्तइ मल्हनसीलियइ ।
रइसंदइ चंदइ चंदिणिइ । 5
पल्हत्थियाइं हिमसीयलइं ।
सीयइं रहुवइअंगाइं जिह ।
लहु विज्जिय चामरधारिणिहिं ।
संधुकिय णं खयजलणसिह । 10
संचितइ हा हउं किं ण मय ।

घत्ता—हा रहुवंसपहु हा लक्खण कहिं पइं पेच्छमि ॥
दावहि तां व मुहुं जांवज्जु जि मरेवि ण गच्छमि ॥ ९ ॥

10

चउपासिहिं थियउ णियच्छियउ
भणु भणु संदेहु मज्झु हुयउ

पुणु खंयरपुरंधिउ पुच्छियउ ।
णिबु कालउ जमु किं वा मणुउ ।

५ पडिवक्खमाणमाणु व. ६ AP खरिदं. ७ A मंडइ. ८ P ता जाइ विज्जु.

9 १ A कह व. २ AP अवलोइय अंबं बालिय. ३ AP रुइसंदइ. ४ AP कप्पूरपउर°. ५ A पइं कहिं पेच्छमि. ६ AP मरेवि.

10 १ AP खरि°.

11 b थ व इ स्थापयति. 12 a रा मा णी° राममार्या. 14 a अं व र या रि णि य आकाशगामिनी; वि ज्ज विद्या.

9 1 a पंक य करि हिं कमलसदृशकरयुक्तानाम्. 2 a जी वा व हु जीवापयत; भा व हु मां भाव-
यन्तु, ममोपरि रुचिं कारयन्तु इत्यर्थः. 3 a तर ल इ तरलानाम्भ्या. 4 b पल्ह त्थि या इं आवर्जितानि.
7 a अं गं गि शरीरावयवेषु; b सी य इं शीतलानि. 9 a °वहदाइणि बधदात्री. 10 a उट्टिय
सावधाना जाता.

10 2 a णि बु युष्मन्नृपः

पुरि एह कवण किं जमणथरि
जसु तलवरु जमु किर भणइ जणु
जसु ईदु वि संगरि थरहरइ
जसु वांसइ वइसाणरु धुवइ
जसु अगइ णडइ सरासइ वि
जसु पंगणि मेहहि दिण्णु छड
सो एयहि लंकहि एहु पइ
भत्तारु समिच्छहि माइ तुहुं

तावेक पजंपइ तहिं खयरि ।
जसु देइ णिच्च वइसवणु धणु ।
जसु मारुउ घरकयारु हरइ । 5
दिक्कंरिउल्लु णामे मउ मुयइ ।
कुसुमंजलि धिवइ वणासइ वि ।
जसु को वि णत्थि पडिमल्लु भडु ।
रावणु णामे तिहुवणविजइ ।
अणुभुंजहि इच्छियेकामसुहुं । 10

घत्ता—सामिणि राणियहं णीसेसहं होइवि अच्छहि ॥

महैपवित्तणयहु परमेसरि पट्टे पडिच्छहि ॥ १० ॥

11

किं किजइ हरिणु अधारमइ
किं किजइ दीवउ तुच्छल्लवि
किं किजइ वांसु जइ गरुल्लु
किं किजइ खरु जइ दुद्धरहु
किं किजइ पिप्पलु सलसलिउ
किं किजइ राहेंउ मुद्धि तइ
ता सीयइ उत्तरु मणि थविउ
जहिं कंकु रायहंसु व गणिउ
जहिं गुणवंतु वि दोसिल्लसमु
ते विउस पसंसिय विउंसजणि

जइ लब्भइ सीहंकिसोरु पइ ।
जइ अंधयारु णिट्ठवइ रवि ।
सुपसण्णु होइ बहुवाहुवल्लु ।
पाविजइ कंधरु सिंधुरहु ।
जइ दीसइ सुरंतखरु फालिउ । 5
रावणमहिलत्तणु होइ जइ ।
एयइ अण्णाणिइ किं लविउ ।
एरंहु कप्परुक्खु व भणिउ ।
तहिं जे विरयंति वयणविरमु ।
णिक्खिवइ बुद्धि को मुक्खयणि । 10

घत्ता—पेयहु तणउं मुहुं वियसावइ को जगि चुंविवि ॥

इय चित्तिवि हियइ मोणव्वउ धियं अवलविवि ॥ ११ ॥

२ A घर कयार. ३ AP वत्थइ. ४ A omtis this foot. ५ A इच्छिउ काम. ६ A महएविहि तणउ; P महएवीए पहुत्तणहु. ७ A पहु.

11 १ A सीहु किसोर. २ AP वायसु. ३ P गरु. ४ AP सुखरतरु. ५ AP रामे. ६ AP विउसयणि. ७ A मुक्खमणि. ८ A थिउ.

5 b घरकयार गृहकचवरपुञ्जः. 6 a वासइ वस्त्राणि; b मउ मदम्. 7 b वणासइ वनस्पतिर्वन-देवता. 12 महएवित्तणयहु महादेवीत्वस्य महादेवीपदस्य.

11 4 b सिंधुरहु गजस्य. 5 a सलसलिउ शब्दं कुर्वाणः कम्पमानो वा. 6 a राहु रामः. 8 a कंकु बकः. 9 b विरयंति वयणविरमु विरचयन्ति वचनविरामं मौनम्. 10 a विउस विद्वांसः; b णिक्खिवइ प्रेरयति. 11 पेयहु प्रेतस्य मृतकस्य.

जयजसरामहु रामहु तणिय
 जइहुं पेसियलेहेण सहं
 णं तो पुणु जिणवरिंदु सरणु
 एत्तहि जक्खाहिर्वरक्खियउं
 पहरणपरिपाले रक्खियउं
 आउहसालहि खयरविसरिसु
 ता णिर्वह हियउं रोमंचियउं
 णिवमंतिहिं इय बोद्धिउ वयणु
 संभूयउं भवणि चक्रयणु
 जं तं कलत्तु रामहु तणउं
 उप्पाउ णयरि भीयरु ह्वइ
 उप्पणु चक्क सीयागमणि

धत्ता—छिदिवि^{१२} अरिसिरइ असिकंपावियदेवासुरु ॥

भरहहु हउं जि पहु सिरिपुप्फयंतभाभासुरु ॥ १२ ॥

णिसुणेसवि वस सुहावणिय ।
 तइहुं आहारपविसि महुं ।
 संपज्जउ सल्लेहणमरणु ।
 पहवंतु फुरंतु णिरिक्खियउं ।
 पणविवि दहगीवहु अक्खियउं । 5
 उप्पणउ चक्क जणियहरिसु ।
 तं जाइवि कुसुमहिं अंचियउं ।
 पंवीहि कहिं चुक्कर दहवयणु ।
 आणिउं अण्णेक्कु वि मिगणयणु ।
 अप्पिज्जउ घणचक्कलयणउं । 10
 तं णिसुणिवि णहयरिंदु लवइ ।
 किं तुम्हहुं अज्ज वि भंति मणि ।

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
 महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सीयाहरणं णाम
 दुसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७२ ॥

12 १ AP जइयहुं लक्खणरामहु तणिय. २ AP जइयहुं. ३ AP तइयहुं. ४ K records
 a p: आरक्खियउ इति पाठे औरै: क्षितं प्राप्तं अराणां वा निवासः ५ AP खरवि^०. ६ AP महिवह-
 वउ. ७ A जोहवि. ८ AP सुंदर पडिबज्जइ दह^०. ९ AP भवणि वि. १० P अप्पिज्जइ.
 ११ AP वइइ. १२ AP छिदमि. १३ AP बहत्तरिमो.

12 1 a जयजसरामहु जयश्च यशश्च ताभ्यां रामस्य रमणीयस्य; b सुहावणिय क्षेमकुशला.
 4 b पहवंतु प्रभावत् चक्रम्. 6 a खयरविसरिसु प्रलयकालसूर्यसदृशम्. 10 b षणचक्कलयणउं
 धननिबिडस्तनम्. 14 सिरिपुप्फयंतभाभासुरु चन्द्रसूर्यवत्तेजाः.

मायारउ किं माणिक्रमउ जो रहुसीहहु णंहुउ ॥
महुं णावई भावइ सो हरिणु चंदहु सरणु परहुउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई—एत्तहि रामसामि मृगपंच्छइ गउ दूरंतरं वणे ॥

एत्तहि णीय सीय दहवयणें एत्तहि सोउ परियणे ॥ छ ॥

एत्तहि दिणंति ^१ अत्थइरिसाणु	संपत्तउ लहु अत्थमिउ भाणु ।	5
णरतिरियणयणपसरणु हरंतु	चक्कउलहं तणुतावणु करंतु ।	
णं विसइ लइउ रइरसणिहाउ	णं णिणणेंहुउ रावेंणपयाउ ।	
णं रइउ समुहें रयणसंगु	णं महिइ गिलिउ रईरहरहंगु ।	
देउ वि वारुणिसंगेण पइइ	णं इय भणंतु पक्खिउल्लु रइइ ।	
गच्छंतु अहोमुहु तिमिरमंथु	णं दावइ णरयहु तणउ पंथु ।	10
रामहु कलत्तु इह दित्तु जेण	जापसइ सो मग्गेण एण ।	
गउ अत्थवणहु कंदोइजूरु	करसहसंण वि णउ धरिउ सूरु ।	

घस्ता—णिवडंतु जंतु हेट्टामुहुउ रवि किं पक्कु भणिज्जइ ॥

जगलच्छीमंदिरणिग्गयहिं मंदहिं को रक्खिज्जइ ॥ १ ॥

2

दुवई—माणवभवणभरहखेत्तोवरि वियरणगामियवासरो ॥

सीयारामलक्खणाणंदु व जामत्थमिओ दिणेसरो ॥ छ ॥

पच्छाइयसयलायासतीरु	णं संझारोयकोसुंभचीरु ।	
णहसिरि परिहइ रंडिज्जमाण	दिणवइविओउं अइअसहमाण ।	
सिसुससि भग्गंउ णं वलयखंडु	मउलियउं कमलु णं ताहि तुंडु ।	5

1 १ AP भावइ णावइ. २ AP भिगं. ३ A दियंति: K दिणंति, corrects it to दियंति but has a gloss दिनस्यान्ते. ४ AP णिहिउ. ५ AP रामणभुयं. ६ A रविहं.

2 १ A P जामत्थमिउ णेसरो. २ A संझाराणं. ३ A विओयअहं. ४ AP णं भग्गउ.

1 1 किं मा णि क्र म उ कयं रत्नमयः सारभूतः, अपि तु निःसारः. 5 a अत्थ इ रिसा णु अस्ताचलतटम्. 7 a रइरस णि हाउ रतिरससमूहः. 8 b रहरहंगु रथचक्रम्. 9 a वारुणिं पश्चिम-दिशा मयं च. 10 a तिमिरमंथु सूर्यः. 12 a कंदोइ उत्पलम्. 14 जगेत्यादि जगलक्ष्मीमन्दिरं जगदेव पद्मं तस्मान्निर्गतेः किरणैः, अन्यत्र, जगति लोके लक्ष्मीगृहान्निर्गतेः पुरुषैः; मंदहिं जडैः मन्दप्रतापैर्वा.

2 1 मा ण व भ व ण भ र हं नराणां गृहं भरतक्षेत्रम्. 3 a पच्छाइयसयलायासतीरु प्रच्छा-दित्तसकलगागततटः. 4 a परिहइ परिधत्ते; रंडिज्जमाण वैधव्यं प्राप्ता. 5 a सिसुससि बालचन्द्रः भग्गवलयखण्डमिव.

विक्रिण्णैउ पत्तु दियंतपारु	तारायणु णावइ तुट्टु हारु ।
गय णिसि उययायलकरिहि चड्डिउ	तमवहरिणरिंदहु समरि भिड्डिउ ।
उग्गउ उण्णइं पहरेण पत्तु	परिपालियखत्तु व रायउत्तु ।
दिणयरु विहड्डावियपउमसीउ	सोहइ णावइ दहवयणु बीउ ।
णं सीयाविरहहुयासचंहु	णं तियसाणीकरघुसिणुपिंहु । 10
णं दिस्सकामिणिसिरि रत्तु फुल्लु	णं खयररायतणुरुहरितल्लु ।

यत्ता—हयँसीयउं कयरणागमणु अइरत्तउ सउंहाइयउ ॥
दीहरपँहरीणें राहविण रवि परवारुं व जोइयउ ॥ २ ॥

3

दुवई—पुच्छिउ तेण तेत्थु णियपरियणु बालमरालगामिणी ॥
कहिं सा सीय भणसु भो लक्खण सइगुणरयणसामिणी ॥ छु ॥

तं णिसुणिवि भायरु कहइ एंव	जावहिं तुहुं गउ मृगमग्गि देव ।
जावहिं हउं अच्छिउ सरैवरंति	तावहिं जि ण दिट्ठी उववणंति ।
विण्णवइ एंव भिच्चयणु सव्वु	कंदइ उब्भियकरु गलियगव्वु । 5
एंवहिं जाणइ दीसइ जियंति	जइ तौ तुहुं पुण्णाहिउ ण भंति ।
तं णिसुणिवि मुच्छिउ पडिउ रामु	जलसिंचिउ उट्ठिउ खामखामु ।
सीयल्लु विसु विसु व ण संति जणइ	हरियंदणु सिहिकुल्लु अंगु छणइ ।
णलिणु वि सूरहु सयणत्तु वहइ	सयणीयलि घित्तउ देहु डहइ ।
पियविरहुं जलइइ सिहि व जलइ	चमराणिल्लु तासु सहाउं घुलइ । 10

यत्ता—सरु गेयहु वइरिविमुक्कसरु कव्वु कायकव्वासउ ॥
विणु सीयइ भावइ राहवहु णाडउ णाडयपासउ ॥ ३ ॥

५ AP T विक्रिण्णउ पत्तदियंतरालु. ६ A दिसिकामिणिकरत्तु फुल्लु. ७ AP हिय°. ८ A सविहायउ; P सउहाइउ. ९ P °पहरेण. १० AP परिवारु वि जोइउ.

3 १ A सयगुण°. २ AP गउ तुहुं भिग°. ३ A सरवणंति. ४ P तइ. ५ A विरहजलइइ. ६ A सहासु.

6 a विक्रिण्णउ विक्रीणो यत्र तत्र पतितः; दियंतपारु दिगन्तपर्यन्तं प्राप्तः. 8 a उण्णइं पत्तु उन्नतिं प्राप्तः. 9 a °पउम सी उ पच्चानां शीतं येन, अन्यत्र, वियोगं प्राप्ते रामसीते येन. 10 b तियसाणी° इन्द्राणी. 11 b °तल्लु तडागः. 12 °रणा° आदित्यभार्या, पक्षे अरण्यागमनम्; सउंहाइयउ संमुखं धावितः सूर्यः. 13 परवारु परदारः रावण इव.

3 2 सइगुण° सतीगुणाः. 8 a विसु जलम्; विसुव विषमिव; b सिहिकुल्लु अंगु छणइ अग्निकुलं अङ्गं दहति चन्दनकाष्ठजातित्वात्. 10 a जलइइ जलार्द्रवत्त्वेण; b सहाउ सहायः सखा. 11 कायकव्वासउ शरीरमांसभक्षकम्. 12 णाडउ नाटकम्; णाडयपासउ नाटकबन्धनम्.

4

दुवई—जलि थलि गामि गामि पुरि घरि घरि गिरिकंदरणिवासप ॥
जोयह कहिं मि घरिणि जइ जाणह बहुदुग्गमपवेसप ॥ छ ॥

अवियाणिउं जगि को कहइ कासु	पेसिय किंकर दससु वि दिसासु ।
सइं काणणि रहुवइ हिंडमाणु	पुच्छइ वणि मिगइं अयाणमाणु ।
रे हंस हंस सा हंसगमण	पइं दिट्ठी कत्थइ विउलरमण । 5
चंगउं चिम्मकहुं सिक्खिओ सि	महुं अकहंतु जि खल किं गओ सि ।
रे कुंजर तुइ कुंभत्थलाइं	णं महं महिलाइ थणत्थलाइं ।
सारिक्खउं लइयउं एउ काइं	भणु कंतइ कहिं दिण्णइं पयाइं ।
सारंग कहहि महु जणयधीय	णयणाहिं उवजीविय पइं मि सीय ।
अलि घरिणिकेसणिद्धत्तचोर	णिसि सररुहदलकयबंधणार । 10
ण वियाणहि कंतहि तणिय वत्त	रे णीलगीव घणरामवत्त ।
णञ्चंति दिट्ठ भणु कहिं मि देवि	इयरह कहिं णञ्चहि भाउ लेवि ।
रे कीर ण लज्जहि जंपमाणु	जइ दिट्ठउं पइं मुद्धहि पमाणु ।

घत्ता—णिरु विरहें झीणउ दासरहि देविहि अब्जु जि सुञ्चहि ॥

णीसेसजीवसंतावहर मेह दूर्धउ तुहुं वञ्चहि ॥ ४ ॥ 15

5

दुवई—अइउकंठिएण धरणीसें सज्जणदिण्णजीययं ॥

ता दिट्ठं मयच्छियणकुंकुमापिंजरं उत्तरीययं ॥ छ ॥

दीसइ वंसग्गविलंबमाणु	णं रिउं गयगयणंगणणिवाणु ।
णं दावइ कंतहि तणिय वट्ट	इह दहमुहमारियइं पयट्ट ।
णं उब्भिय सीयइ सइवडाय	तं लेपिणु किंकर झ त्ति आय । 5

4 १ A जोवहु. २ A वणमिगइं. ३ A कत्थवि. ४ P चिमकहं. ५ A णं महु महिलहि वणयणयलाइं. ६ A किं. ७ A घणरावमत्त; P घणरामपत्त; T घणरावमत्त अतिशयेन रमणीयपिच्छ. ८ AP दूउ.

5 १ AP °पिंजरि. २ A णं रिउ गयणंगणि णिजमाणु. ३ AP °मारीयय.

4 6 a चिम्मकहुं गन्तुम्. 9 a जणयधीय जनकपुत्री सीता; b उवजीविय साहस्यं प्रापिता. 10 a °णिद्धत्त° स्निग्धकान्तिः; b °बंधणार बन्धनयुक्त. 11 b घणरामवत्त अतिशयेन-रमणीयपिच्छः. 13 b पमाणु वचनम्, चिह्नम्.

5 3 b °णिवाणु निदानं कारणं चिह्नम्. 4 a वट्ट मार्गः; b पयट्ट प्रवृत्तौ गन्तुम्. 5 उब्भिय ऊर्ध्वीकृता; सइवडाय सतीत्वपताका.

आलिङ्गितं रामे णीससेषि
जंपितं णिय सुंदरि खेयरेहिं
सहुं लक्खणेण संदेहि छूदु
तावायउ दूयउ दसरहासु
उच्चाइवि तं सहसा सिरेण
दसरहु जिणोच्चरणभोयभसलु
महं दिट्ठुं सिविणउं ह्यविलासु

पुणु बाहुल्लइं णयणइं पुसेवि ।
मायाविणहिं रणदुद्धरेहिं ।
जामच्छइ पडु किंज्जमूदु ।
तें वित्तु पत्तु आलिहिउ तासु ।
इय वाइउं देवें हलहरेण ।
उवइसइ सुयहं णियदेहकुसलु ।
हिय राहुं रोहिणि समहरासु ।

10

घत्ता—पक्कलउ ससि णहयलि भमइ अवलोइवि अवहारिउं ॥

वज्जरिउं पहाइ पुरोहियहु तेण वि मज्जु वियारिउं ॥ ५ ॥

6

दुवई—जो दिट्ठु विडप्पु सो रावणु जा णिसि पइं विलोइया ॥

रोहिणि तुहिणकिरणविच्छोइय सा तुह सुयविओइया ॥ छ ॥

परमत्थे जाणसु राय सीय
जा हिप्पइ सां पुणरवि णिरुत्तु
जे चक्कवाट्टि पालइ सजीव
तहिं सायरि लंकादीवु अत्थि
पुरि लंक राउ दहवयणु णाम
आयण्णिवि विसरिसविसम वत्त
हिसंततुरय गज्जंतणाय
आवेण्णिणु तणयासोक्खहेउ
वुम्मणु जोइवि रिउमइणेण

अज्जु जि खयरिदें घरहु णीय ।
ता किज्जइ णियवेहहु पयत्तु ।
भरहंतरालि छप्पण दीव ।
अण्णु वि तिकूडु गिरि मणिगभत्थि ।
णिय तेण सीय रामाहिराम ।
ते बे वि भरह सत्तुहण पत्त ।
सामंत सुहडु दसदिसिहिं आय ।
ससुरेण णिहालिउ रामएउ ।
गलगज्जिउ तेत्थु जणइणेण ।

5

10

घत्ता—रिउ जरकुरंगु महु आवडइ हउं हरि उद्धयकेसरु ॥

जइ दुट्ठु दिट्ठिगोयरि पडइ तो मारमि लंकेसरु ॥ ६ ॥

४ P रणि दुद्धरेहिं. ५ AP जिणकमलंभोय°. ६ A राहे. ७ AP वियारियउं.

6 १ A सो. २ A जो. ३ उद्धयकेसरु.

6 b बाहुल्लइं वाणैराद्राणि. 8 a संदेहि छूदु संदेहे पतितः. 12 b राहुं राहुणा; ससहरासु चन्द्रस्य. 13 अवहारिउं अवधारितं चित्ते धृतम्.

6 1 विडप्पु राहुः. 2 सुयवि ओइया सुतवियुक्ता सीता. 4 a जा यावत्; हिप्पइ आनीयते. 5 a सजीव जीवसहिताः; b छप्पण दीव रत्नद्वीपसुवर्णद्वीपलङ्काद्वीपप्रभृतयः. 6 b मणिगभत्थि मणिकिरणः. 7 b रामाहिराम स्त्रीणां मनोहरा. 9 a °णाय गजाः. 12 आवडइ आभासते; हरि सिंहः.

7

दुवई—सीयागुणविसेससंभरणवुयंसुयसित्तवसुमई ॥

उम्मोहिउ विओयविसघारिउ कह व णिवेहिं मैहिवई ॥ छ ॥

पियैविप्पओयकहमणिमैणु	जांवच्छइ सेजायलि णिसणु ।
तावाय बेणिण खग विमलदेह	णं रामसासथिरकरणमेह ।
णं सायामग्गपयासदीव	बेणिण वि पणवेण्णिणु थिय समीव । 5
संमाणिय हरिणा संणिसणु	सुहिदंसणरुहरोमंबभिणु ।
बोलाविय बेणिण वि दिव्वकाय	कहुं तुम्हई किं किर पत्थु आय ।
तं णिसुणिवि भासइ जेदु खयरु	खगदाहिणसेदिहि अत्थि णयरु ।
णामें किलिकिलु कलहंससहिय	जहिं विविहवास चोरारिरहिय ।
तहिं मैहु बलिंदु माणियपियंगु	तहु धण पियंगंसुंदरि पियंगु । 10
सामल सलोण उडुणिहणहालि	तहि पढमपुत्तु णामेण वालि ।
हउं लह्यारउ सुग्गीउदेव	अणवरउ करमि णियपियरसेव ।

घत्ता—ता तेत्थु मरंतें पुरि पिउणा वालि रज्जि वइसारिउ ॥

हउं जुवराणउ कउ मइ जर्णाणि दाइएण णीसारिउ ॥ ७ ॥

8

दुवई—सुणि रायाहिराय हे हलहर मंणिमयसिहरमंदिरे ॥

तित्थु जि रययसिहरि खगसेदिहि खणरुइकंतपुरवरे ॥ छ ॥

विजााहरु णामें अत्थि पवणु	लीलाणिहि वेयविजित्तपवणु ।
तहु अंजण मणरंजणवियार	महपवि वृढसिंगारभार ।
इहु मेरउ सहयरु गयगईहि	तहि जायउ गम्भि महासईहि । 5
पांडिउ पडु भडु विजााणिकेउ	जगि वुच्चइ एहु जि मयरकेउ ।
एक्कहि दिणि कोक्किवि खयरलक्ख	एएं दिण्णी विजाापरिक्ख ।

7 १ A वसुपई. २ P has ता before पिय. ३ P ०णिसणु. ४ A पडु. ५ AP पियंगु-सुंदरि. ६ A जणेण.

8 १ A रमणिगणदित्तमदिरे; P रमणियसियमदिरे.

7 3 a ०विप्प ओय ० वियोगः. 4 b ०सा स ०सस्यं उच्छ्वासश्च; ०मैह मेघो मेघा च. 6 b ०दंसण-रुह ० दर्शनोत्पन्नाः. 7 b कहुं केषाम्. 9 b ०वास आवासाः गृहाणि. 10 a महु मम पिता; मा णिय-पियंगु भुक्तप्रियाशरीरः; b धण भार्या; पियंगु प्रियङ्गुरिव इयामा. 11 a उडुणि हणहालि नक्षत्र-सदृशनखपंक्तिः. 14 मइ जण णि मृते पितरि; दाइएण भ्रात्रा.

8 2 खणरुइकंत ० विद्युत्कान्तम्. 3 b वेय ० वेगः 5 a गयगईहि गजगाम्भिन्याः.

गिरिसिहरि णिवेसिउ एक्कु पाउ
दीहुद्ध पसारिउ गयउ ताम
पुणु रूवु धरिउ तसरेणुमेत्तु
पेक्खवि सहायसाहसु अभेज्जु
काले जंते तं हित्तु पुणु वि
गय बेण्णि वि जण माणिक्कचूड

अण्णेक्के दिण्णु उहंडवाउ ।
गयणंगणि ससि दिवसयरु जाम ।
अणुमेत्तु मिलिवि खयेरहि वुत्तु । 10
वालं महु दिण्णउं जउवरज्जु ।
आसंकिवि ते सहुं ण किउ रणु वि ।
संमेयजिणालउं सिद्धकूड ।

घत्ता—तसथावरजीवहं दय करिवि धम्मि थवेप्पिणु अप्पउ ॥
तहिं देहिदेहदुहणासयरु वंदिउ जिणु परमप्पउ ॥ ८ ॥

15

9

दुवई—जय देविंदचंदखयरिंदफणिंदणरिंदपुजिया ॥

जय णिट्ठवियदुट्ठकम्मट्टट्टारहदोसवाजियां ॥ छ ॥

ण भोपसु कंखा ण णिदा ण भुक्खा ।

ण तण्हा ण सोओ ण राओ ण रोओ ।

ण चावं ण वेरी ण ताणं ण मारी ।

ण कायं ण चेले ण सीसं सिहालं ।

ण णिदा ण थोत्तं ण मुद्दापवित्तं ।

ण हिंसाइ सग्गो ण सोडालमग्गो ।

ण गोभूमिदाणं ण वेओ पमाणं ।

ण चम्मसुत्तरीयं ण जण्णोववीयं ।

उरे णत्थि सप्पो मणे णत्थि दप्पो ।

पसूणंतयालं करे णत्थि सूलं ।

सिरे णत्थि गंगा जडगोवियंगा ।

भवाणी ण देहे रई णो संणेहे ।

पुरारी ण कामी तुमं मज्झ सामी ।

5

10

15

२ P adds वि after अण्णेक्कु. ३ A जुउवरज्जु; P जुउवरज्जु.

9 १ AP ०पुजिय. २ AP ०वजिय. ३ AP पाओ. ४ AP तावं. ५ A ण कायं सुचेलं; P ण काये सुचेलं. ६ AP ण मुद्दा ण वित्तं. ७ A ण सो जण्णमग्गो. ८ AP ण वेउप्पमाणं. ९ A वंसुत्तरीयं. १० P जडगोवियंगा. ११ AP सणाहे.

8 b उहंडवाउ उहण्डवाउतः. 11 b वालं वालिना; जउवरज्जु यौवराज्यम्.

9 4 b रोओ रोगः. 5 b ताणं हरवत्सुष्टिरक्षणम्. 6 a ण कायं सिद्धत्वादशरीरः; b सिहालं जटायुक्तम्. 7 b मुद्दापवित्तं मुद्रिका पवित्रीदर्भादिका. 8 a सग्गो स्वर्गः; b सोडालमग्गो कल्पपाल-
मार्गः. 12 a पसूणंतयालं पशूनामन्तकालम्. 13 b जडागोवियंगा जटायुं गोपितशरीरा.
14 a भवाणी पार्वती. 15 a पुरारी त्रिपुरशत्रुः.

जिणो मोक्खहेऊ भवंभोहिसेऊ ।

घत्ता—जय परमणिरंजण जणंसरण वीथराय जोईसर ॥

जलि पत्थरि पाणिइ धम्मु णउ तुहुं जि धम्मु परमेसर ॥ ९ ॥

10

दुवई—विणयरु हरइ तिमिरु सलिल्लु वि तिस खगवइ विसवियंभियं ॥

जिण तुह दंसणेण खणि णासइ गुरुदुरियं णिसुंभियं ॥ छ ॥

इय वंदिवि जिणवरु सेस लेवि

खणु पक्खु जाम तहिं थक्क बे वि ।

ता तेयवंतु णं विञ्जुदंहु

णं सुरवरसरिडिंडीरपिंहु ।

वियडजडजूहु विवरीयवाणि

मणिरयणैकमंडलु दंडपाणि । 5

खणखणियमणियगणियक्खसुत्तु

कोवीणकणयकडिसुत्तजुत्तु ।

ससहरु व विसाहारूढगत्तु

असुरसुरसमरसंणिहियच्चित्तु ।

सोत्तरियफुरियउववीयवंतु

ता दिट्ठउ णारउ गयणि पंतु ।

अरहंतु णवेपिणु सुहुं णिविट्ठु

अम्हहिं संभासणु करिवि विट्ठु ।

तुहुं जाणहि णिसुयसुयंगरिद्धि

पुच्छिउ पावेसहुं किह सरिद्धि । 10

मुहुं वंकइ संकइ वालि कासु

को देसइ कुलरज्जावयासु ।

ता दाणवमाणवरणरण

विहंसेपिणु बोद्धिउं णारपण ।

घत्ता—भो खेयरपहु भूगोयरु वि धुउ तिजगुसमु भावहि ॥

सेवहि रामहु पयपंकयइं जइ तो कुलसिरि पावहि ॥ १० ॥

11

दुवई—अण्णु वि हरिणणयण णियपणइणि तासु दसासराइणा ॥

विरसियअमरडमरडिंडिमरघरिउबहुतासदाइणा ॥ छ ॥

दुक्खेण ण थाणइ दियहु रसि

जो दावइ कंतहि तणिय थसि ।

१२ P जगसरण.

10 १ AP विजदंहु. २ AP मणिरइय'. ३ A 'गलियक्ख'. ४ A सह. ५ A विहसेविणु.

18 पाणिइ जले.

10 1 खगवइ गरुडः; वि स वि यं भे यं विषविजृम्भितम्. २ णिसुं भियं चूर्णितं सत् नश्यति. 6 a गणियक्खसुत्तु गणितजपमालः. 7 a विसाहारूढगत्तु विशाखानक्षत्रारूढध्वन्द्रः; पादुकारूढो नारदः. 13 खेयरपहु विद्याधरप्रभो.

11 1 दसासराइणा दशास्येन रावणेन. 2 विरसियेत्यादि विशेषेण रसितः शब्दितः स चासौ अमराणां डमरो भयानको डिण्डिमरवः, तेन रिपूणां बहुत्रासदायिना.

सो जाणमि जिह भमरहु सुगंधु
लब्भइ मणोज्जेकज्जेण कज्जु
तं णिसुणिवि आया एत्थु राय
ते णहयर पुज्जिय राहवेण
हणुमंतं मग्गियपेसणेण
भो दसरहणंदण णंद णंद
णियरामालोयणकयपयत्त

तिह रामहु होसइ परमबंधु ।
सो देसइ तुंइ सुग्गीव रज्जु । 5
जलयग्गिसिगसंणिहियपाय ।
संभासिय तोसिय माहवेण ।
जंपिउ णवजलहरणीसणेण ।
मा झिज्जहि सज्जणकुमुयचंद ।
हउं आणमि सीयहि तणिय वत्त । 10

घत्ता—सुग्गीवहु सुहुं पप्फुल्लियंउं मित्तवयणु पड्विण्णउं ॥

अहिणाणु लेहु अंगुत्थलउं रामे हणुयहु दिण्णउं ॥ ११ ॥

12

दुवई—ता णविउं पयाइं हलहेइहि णवदलणालिणणिहमुहो ॥

उल्लिओ णहेण पवणो इव चलगइ पवणतणुरुहो ॥ छु ॥

तओ तेण जंतेण दिट्ठो समुहो
जलुम्मग्गणिम्मग्गयोहित्थवंदो
झसंफो डफुट्तंसिप्पीसमुहो
दिसादुक्कणकुग्गयंतं करालो
पवालंकुरकैरराहिल्लरुहो
सुभीसो असोसो असेसंबुवासो
सरीसंगतुंगत्तणालीटारिक्खो
करिंदो व्व गाढं गहीरं रसंतो
णरिंदो व्व धीरो समज्जायवंतो
गिरिंदो व्व रेहंतमाणिकमोहो

पधावंतकल्लोलमालारउहो ।
अथाहंभपम्भारसंकंतचंदो ।
णहुक्खित्तमुत्ताहलो भाणुरोहो । 5
चलुप्पिच्छपल्लत्थवेलाविसालो ।
पगज्जंतमज्जंतमायंगजूहो ।
विडिंदु व्व पीयाहरो ढंक्रियासो ।
अलंकारओ कूलकीलंतजक्खो ।
अहिंदो व्व पायालमूले विसंतो । 10
रिसिंदो व्व अंतोमलं णिग्गहंतो ।
सुरिंदो व्व देवासिओ दिण्णसोहो ।

11 १ A °कजाण कज्जु. २ P तुम्हं. ३ A पफुल्लियउं; P पफुल्लियउं.

12 १ P has गउ before उल्लिओ. २ A झमुप्फाल°. ३ P चलप्पत्थ°. ४ A असेसो.
५ AP °रिखो. ६ AP वीरो.

6 b जलयग्गिसिगं मेघमस्तके. 7 b माहवेण हरिणा.

12 1 हलहेइहि हलप्रहरणस्य रामस्य. 4 a °योहित्थं नौः; b संकंतचंदो प्रतिविम्बित-
चन्द्रः. 5 a झसंफोडं मस्त्यानामास्फालनं संघट्टः; °सिप्पीं शुक्तिका; b भाणुरोहो किरणरोधः.
6 a दिसादुक्कणकुग्गयंतं दिशामु ढौकितनक्कैरुक्कं भीष्मं अन्तं मध्यं यथा भवति तथा; b चलुप्पिच्छ-
पल्लत्थवेलाविसालो ऊर्ध्वोच्छलितव्याघुटितवेलाविशालः. 7 a °राहिल्लरुहो शोभमानतटः.
8 b पीयाहरो पीताधरः; अन्यत्र पीता व्याप्ता आसमन्ताद्धरा येन; ढंक्रियासो प्रच्छादितमुखः प्रच्छा-
दितदिशश्च. 9 a सरीत्यादि नदीसङ्गतुङ्गत्वेन स्पृष्टनक्षत्रः; b अलंकारओ न विद्यते लङ्काया रदो विनाशो
यस्मात्. 12 a °मोहो °मयूखः °किरणः.

घत्ता—गंभीरु घोरु आवत्तहरु लीलाइ जि आसंधिउ ॥
संसारु व परमजिणेसरिण सायरु हणुपं लंधिउ ॥ १२ ॥

13

दुवई—खेयरिचरणघुसिणमसिणारुणरयणसिलायलामलो ॥
दीसइ तहिं तिकूइ गिरि दरितरुवियसियकुसुमपरिमलो ॥ छ ॥

लंबंतरत्तपत्तोहतंबु	गुरुसिहरालिंगियसूरबिंबु ।	
वेलापक्खलणविसट्टकंबु	किंणरसुंदरिसेवियणियंबु ।	
णाइणिणेउरबहिरियदियंतु	णश्चियजक्खिणिरसभाववंतु ।	5
करिमयकहमखुप्पंतहरिणु	गुमुगुमियभूमिरल्लच्चरणसरणु ।	
हिंडंतकालैणाहलकुडंबु	खेळंतसरहसरहससिलिंबु ।	
णउलउलफणिउलाहत्तसमरु	चमरीमयवालियचारुचमरु ।	
हरिकुंजरकलहकलालंबंतु	चुयरत्तलित्तमोत्तियफुरंतु ।	
दुमणियरगलियमहुंवारिथेंभु	सबरीपरियंदणसुत्तडिंभु ।	10
हयमुंहाकिलिकिंचियसहरम्मु	महियरदुग्गमु णहयरहं गम्मु ।	

घत्ता—णावइ णिउणइ महिकामिणिइ पइ सग्गपरिच्छंदहु ॥
गिरिणियकरु उच्चिचि णिहिय तहिं दाविय लंक सुरिंदहु ॥ १३ ॥

14

दुवई—परिहादारतोरणट्टालयधयजयलच्छिसंगमा ॥
लंकाणयरि दिट्ट हणुमत्तें मणिपायारदुग्गमा ॥ छ ॥

दीहत्तें बारह जोयणाइं	वित्थारें णव हियलोयणाइं ।	
बत्तीस विसालइं गोउराइं	मोत्तियमरगयग्रडियइं घराइं ।	
जहिं घुलइ रेणु कप्पूररेणु	सुरतरु तरु धेणु वि कामधेणु ।	5

७ AP आसंधियउ. ८ AP लंधियउ.

13 १ AP °भमिय°. २ AP हिंडंतकोल°. ३ AP संछाहयतरुदलसूरबिंबु. ४ A °किलाल-
वंतु. ५ AP °महुपाणथिंभु. ६ AP हयमुहि°. ७ पडिच्छंदहु.

14 १ AP हणवत्तें.

13 3 a °पत्तो हंतंबु पत्रसमूहेन ताम्नः. 4 a °विस ट्टकंबु °भग्नशंखः. 6 b °भमिर° पर्य-
टनशीलाः; °सरणु गहम्. 7 a °णा हल° भिल्लाः; b °सि लिंबु °बालकः. 9 a °कलहकलालवंतु
°कलहद्वारेण कलं मनोसं आलपन् वदन्; b चुयरत्त° च्युतं रुधिरम्. 10 b °परियंदण° आन्दोलनम्.
11 a °किलि किंचिय° सुरतशब्दः. 12 सग्गपरिच्छंदहु स्वर्गस्य प्रतिबिम्बं एति. 13 गिरिणियकरु
गिरिरेव निजहस्तः.

वणु णहवणु वेह्लि वि णायवेह्लि
जरु विरहजरु जि णउ अत्थि अण्णु
घरु सिरिघरु चोरं वि चित्तचोर
वउ णववउ रूवु वि णिरु सुरूवु
रिणु तिलरिणु बंधणु पेम्मबंधु
कामिणि खगकामिणि अलिवमालु
दीव वि जलंति माणिक्कदीव
गुणुं जिणगुणु धम्म अहिंसधम्म
कि वण्णमि भूमि वि भोयभूमि

रणु रहरणु भल्लि वि मयणभल्लि ।
बहुवण्णचित्तु णउ चाउवण्णु ।
बज्झंति केस रोवंति मोर ।
रिसि खीणदेहु वम्महु विरूवु ।
जलु चंदकंतजलु दलु सुगंधु । 10
धूमु वि कालागरुधूमु कालु ।
जीव वि वसंति जहि भव्वजीव ।
फलु पुण्णफलु जि कम्मु वि सुकम्मु ।
सामि वि दहमुहु खयरायसामि ।

घत्ता—एक्केऊउ जो गुण संभरइ सो तहु अंतु ण पेक्खइ ॥ 15
जैगसुंदरत्तु लंकाहि तणउं कवणु कईसरु अक्खइ ॥ १४ ॥

15

दुवई—कलरवु रुणुरुणंतमाणिणिमुहमंडणु जणमणिट्टओ ॥

छडयणरूवधारि ता पावणि रावणभवणि पइट्टओ ॥ छ ॥

चक्केसरु वरलक्खणपसत्थु
णं गिरिसिहरासिउ णीलमेहु
चामीयरवीदि णिहित्तचरणु
विज्जिज्जइ चलचमरीरुहेहिं
गाइज्जइ सरगयभावपहिं
दीसइ णवक्कण्णहुमफलेहिं
मउडग्गरयणमहियललिहेहिं
चित्तइ मारुइ उव्विण्णचित्तु

विट्टउ दहमुहु सीहासणत्थु ।
पण्णारहचावपमाणदेहु ।
बलवंतकालु बलहीणसरणु । 5
वण्णिज्जइ वरवंदिणमुहेहिं ।
सलहिज्जइ सुरणरसेवपहिं ।
माणससरवरत्तुण्णलेहिं ।
पणविज्जइ सुरवइसंणिहेहिं ।
हा एण णिहित्तं परकलत्तु । 10

घत्ता—एसज्ज एउं एवहु कुलु तो वि कैयउं सकलंकणु ॥

हयविहि सुवण्णभिंगारयहु खप्परु दिण्णउं ढंकणु ॥ १५ ॥

२ AP विरहजरु णउ. ३ A बहुवण्णु चित्तु गउ वाउवण्णु; P बहुवण्णु चित्तु णउ वाउवण्णु.
४ AP चोरु वि चित्तचोरु. ५ A णिरुवु. ६ A गुण जिणगुण. ७ AP जगि सुंदरत्तु.

15 १ A ओविण्ण°. २ AP वि हित्तउं. ३ P कयं सकलंकणु.

14 6 a णहवणु नखवणम्, न तु कस्य शक्यघातः. 9 a वउ वपुः वथो वा. 10 a तिल-
रिणु स्नेहक्कणम्. 11 a अलिवमालु भ्रमरकोलाहलः.

15 1 जणमणिट्टओ जनमनसि इष्टः. २ छडयणं भ्रमरः. 5 b बलवंतकाहु बलवतां
यमः. 11 एसज्ज एउं ऐश्वर्यमेतत्; सकलंकणु सकलङ्कत्वम्. 12 ढंकणु आच्छादनम्.

16

दुवई—पुणु णिवसवणपूरकत्थूरियपरिमलगहणकुसलओ ॥

दहमुह देहि सीय मा णासहि णं गुमुगुमह भसलओ ॥ छ ॥

सो सई जि कामु णं कामवाणु

कोमलकरयलवारिज्जमाणु

थणुजुयलि णाहिमंडलि घुलंतु

कुडिलालयपंतितु दरमलंतु

थिउ दांरि सहइ णं इंदणीलु

थिउ उरि पियपहरकिणंकु णांइ

थिउ कण्णमूलि णं मम्मणांइ

थिउ उरूयलि सहइ सुराहि

तरुणीविंवाहरि दुक्कमाणु ।

चमराणिलेण पेरिज्जमाणु ।

पिंछहि कवोलंपत्तइं दलंतु । 5

मुहकमलवांससासहु चलंतु ।

थिउ भालि गहियवरतिलयलीलु ।

थिउ मणि सरसरपुंखु व सुहाइ ।

बोलइ मणियांइ घणघणांइ ।

णं किंकिणि कामिणिमेहलाहि । 10

घत्ता—सो महयुरु वम्महु किं भणामि णारिहिं वयणंइं चुंवइ ॥

जाइवि खयरिंदहु रयणमइ कुंडलकमलि विलंबइ ॥ १६ ॥

17

दुवई—वुज्झिवि णयणवयणतणुलिगाहिं सीयारइवसं गयं ॥

दहवयणं विमुक्कणीसासरुहाणलतावियंगयं ॥ छ ॥

गउ अलि पुरपच्छिमगोउरग्गु

दिट्ठी वणसिरि सहं खेयरीहिं

वणु देइ ससाहिहिं रामविरहु

वणि लोहियाउ पत्तावलीउ

वणि पमयइं फलसारं गयाइं

वणि पत्तहि तेत्तहि वेह्लिवलय

वणि खेलइ हरिसिज्जइ वि हंसु

आरूढउ जोयेइ वणु समग्गु ।

सीय वि परिवारिय खेयरीहिं ।

सीयहि पुणु वट्टइ रामविरहु । 5

सीयहि पुसियउ पत्तावलीउ ।

सीयहि झीणंइं सारंगयाइं ।

सीयहि थिय पसिदिल बाहुवलय ।

सीयहि वट्टइ जीवियविहंसु ।

16 १ P भसलओ. २ A विंवाहरं. ३ A कवोलि. ४ AP^०मासवासहु. ५ AP^०हरि. ६ A भाइ; P जाइ. ७ AP^०विहाइ. ८ AP^०मणियाइं व घणं. ९ AP^०वत्तइं.

17 १ P जोइय. २ P झीणाइं.

16 २ मा णासहिं विनाशे मा गच्छ. 6 a कुडिलालयं कुडिलालकाः; b^०सासहु^०श्रासस्य. 7 b भालि ललाटे. 8 a पियपहरकिणंकु भर्तृकरदत्तनखकणिका; b सरसरपुंखु स्मखाण-पुंखवत्. 10 a सुराहि सुशोभमानायाः.

17 २^०णीसासरुहाणलं निःश्रामोत्पन्नोऽग्निः. 4 a खेयरीहिं पश्चिणीभिः. 5 a ससाहिहिं स्वशास्त्राभिः; रामविरहु रामाणां स्त्रीणां विशिष्टं रहः प्रच्छादनमेकान्तं वा. 6 b पुसियउ परामृष्टाः. 7 a पमयइं मर्कटाः; b सारंगयाइं सारभूतशरीराणि. 9 b जीवियविहंसु जीवितव्यविध्वंसः.

वणि दिसमुहि सोहइ लग्गु तिलउ
 वणि तरुवंदइं रुळंजणाइं
 वणि साहारु जि मारइ पियत्थि
 भडसत्ति व बलविहडणविसण्ण
 ते^१ सीसवितलु खगभमरु आउ
 सीयहि णिडौलु णिलुहियतिलउ । 10
 सीयहि णयणइं विगयंजणाइं ।
 सीयहि साहारु ण को वि अत्थि ।
 जहिं अच्छइ परमेसरि णिसण्ण ।
 णं वइदेही जीवियहु आउ ।
 घत्ता—पडिंविंविउ दहहिं वि पयणहहिं आसण्णउ परिघोलइ ॥ 15
 सो छण्णउ सीयहि कमकमलु पसरियपत्तहिं लोलइ ॥ १७ ॥

18

दुवई—सीयासावभाउ णं भीसणु णं हुयवहु समिद्धओ ॥

असरिससुहडचक्कचूडामणि पावणि मणि विरुद्धओ ॥ छु ॥

सीयहि केरउ दुचैरित्तरहिउं
 णियहियवइ चिंनइ अंजणेउ
 मरु मारमि अज्जु जि रणि दसासु
 पइवय णीरय पइवद्धपणय
 णं णं हउं दूयउ राहवेण
 किंकरु पहुवयणुल्लंघणेण
 अक्खमि भत्तारहु तणिय वत्त
 इय चित्तिधि अवसरु मग्गमाणु
 अत्थमिउ सूरु ता उइउ चंदु
 आपंडु गंडमंडलि घुलंतु
 अरणच्छवि णं रामणहु कुद्धु
 अहया लइ ससहरु किं ण चारु
 तणुच्चिधु पलोइवि रामकहिउं ।
 परणारिदेहैसंतावहेउ ।
 गलि लायमि कालकियंतपासु । 5
 वाणारसि पावमि जणयतणय ।
 पट्टविउ मज्जु किं आहवेण ।
 णिदिज्जइ हियकारि वि जणेण ।
 मा मरउ महासइ चारुणेत्त ।
 जा णिहुयंगउ थिउ कुसुमबाणु । 10
 णं सीर्यहि दुहवल्लरिहि कंदु ।
 तहु तेउ डहइ अग्गि व जलंतु ।
 णहसरि णं सियसररुहु विउद्धु ।
 णहसिरिकरदण्णु अमयसारु ।

३ AP णिलाडि. ४ P तै.

18 १ AP °भाव. २ A दुचरित्तु. ३ AP °देहु संताव°. ४ P पर. ५ AP कालकयंत°. ६ A सीयादुह°.

10 a दिसमुहि दिशामुखे. 12 a साहारु आम्रवृक्षः; पियत्थि प्रियार्थिनः; b साहारु साधारः धीरत्वदाता. 13 a बलविहडणविसण्ण बलस्य चातुरङ्गस्य बलभद्रस्य वा विघटनं वियोजनं वा. 14 a सीसवितलु शिशुपावृक्षतलम्. 16 °पत्तहिं पक्षैः.

18 1 °सावभाउ °शापभावः. २ असरिस° अनुपमाः; पावणि हनुमान्. 6 a णीरय निःपापा; पइवद्धपणय पतिवदस्त्रेहा. 10 b णिहुयंगउ निभृताङ्गः. 11 b कंदु कन्दो मेघो वा. 13 a अरणच्छवि उदये सति रक्तवर्णो भवति; b णहसरि नभःसरसि; विउद्धु विकसितम्.

मिगंमुद्दइ मुद्दिउं कंतिपिंहु
मेहलियहि णं संतोसकारि

पियलेहहु केरउ णं करंहु । 15
खेयरणाहहु णं पाणहारि ।

घत्ता—जणलोयणणियरणिवासघरु सुहणिहि अमयकलालउ ॥
ससि सीयं वि रामणतणु डहइ णं खयसिहिसिहमेलउ ॥ १८ ॥

19

दुवई—णं सहइ हसइ रसइ परु पुच्छइ माणिणिविसयसंगहं ॥

ढंकइ दोसणिवहु गुण पयडइ अहणिसु करइ संकहं ॥ छु ॥

सिरु धुणइ कणइ णीसासु मुयइ
परिभमइ रमइ णउ कहिं मि ठाणि
णायणणइ गेउ मणोज्जवज्जु
णउ ण्हाइ ण परिहइ दिव्वु वत्थु
णउ बंधइ णियसिरि कुसुमदामु
ण विलेवणु सुरहिउ अंगिं देइ
णउ भूसइ तणु णउ महइ भोउ
जहिं जाइ तहिं जि सो सीय णियइ
अंधारण वि संमुहउं घडिउं
पाणिउं वि पियइ सो तहिं समीउ
करदीवदित्तु उववणहिं चलिउ

सयणयलि पडइ अलियउं जि सुयइ ।
पियमित्तभवणि उज्जाणि जाणि ।
ण पउंजइ किं पि वि रायकज्जु । 5
णउ दोयइ विविहाहारि हत्थु ।
णउ मणणइ खगकामिणिहिं कामु ।
विरहाउरु णउ अप्पउं विवेइ ।
णउ रुच्चइ तहु एकु वि विणेउ ।
वारिज्जइ दुक्की केण णियइ । 10
सीयहि मुहुं पेक्खइ दिसहिं जडिउं ।
परवसु वट्टइ वीसद्धगीउ ।
पियविरहहुयासें णां जलिउ ।

घत्ता—जहिं अच्छइ णियंउपरिट्टियउ अंजणतणुरुहु बालउ ॥

तहिं दहमुहु रइसुहु कहिं लहइ वम्महु जहिं पडिकूलउ ॥ १९ ॥ 15

20

दुवई—अह अणुकूलु होउ मयरज्जउ सीयहि सीलदूसणं ॥

किज्जइ कहिं मि बण्ण खज्जोणं किं रवियरविहसणं ॥ छु ॥

थिउ सीयहि पुरउ खगिंदु केम

णियमरणभवित्तिहि जीउ जेम ।

७ A मृगं. ८ AP णं खेयरणाहहु. ९ A सीउ; P सीयलु.

19 १ A तसइ ण हसइ सरइ परु. २ A दिव्ववत्थु. ३ AP देहि. ४ A णियडि परिं.

15 a मिगमुद्दइ हरिणलाञ्छनेन. 16 a मेहलियहि मैथिल्याः. 18 सीय वि शीतोऽपि; खयसिहिसिहमेलउ प्रलयकालाग्निशिखामेलापकः.

19 1 ण सहइ अन्यं न सहते. 2 संकहं तस्याः समीचीनां कथाम्. 3 b सुयइ स्वपिति. 4 b जाणि वाहने. 8 b विवेइ वेत्ति जानाति. 12 a समीउ शीतयुक्तं सीतायुक्तं च; b वीसद्धगीउ दशग्रीवो रावणः

पभणइ सत्तमु दिणु जइ वि पत्तु
विन्थिणु मयरहरु कवणु तरइ
दुग्गमु तिकूइ गिरि कवणु चडइ
पायालपरिह जणजणियसंक
जइ चिंतहि कुलु तो तुहुं जि कासु
जइ चिंतहि परिहउ तो सलग्घु
जइ चिंतहि एवहिं रामपेम्मु
जइ चिंतहि सिरि तो हउं जि राउ
हलि वीणालाविणि मणविमहि

पिइ तो वि ण किं संवरहि चित्तु ।
तिमिगिलतंगिलगिलियंगु मरइ । 5
कक्करि सयसक्करु होवि पडइ ।
भूगोयरु पइसइ कवणु लंक ।
पोसिय जणएं जणवैयपयासु ।
हउं उत्तमु भुवणत्तइ महग्घु ।
तो तहु दंसणि तुह अण्णु जम्म । 10
किं लग्गउ तुज्जु सइत्तवाउ ।
महएवि महारी होहि भहि ।

घत्ता—हलि सीय महारइ खग्गजलि आहंडलु वि णिमज्जइ ॥

आलिं गहि मई सुललियभुयहिं रामे किं किर किज्जइ ॥ २० ॥

21

दुवई—करिसिररत्तलित्तमोत्तियणियरंचियकेसरालओ ॥

संतइ सीहि सीय ससहरमुहि किं रम्मइ सियालओ ॥ छ ॥

अच्छउ स रामु लक्खणु हयासु
किं किज्जइ चरणविहसणत्तु
किंकरमहिलाहि किं तणुगुणेण
महु दासि वि तुहुं महएवि होहि
उरयलु मेरउं लालउ विसत्थु
अणुवसहुं एहि महु पंजलीइ
महु खग्गघायलंछणहरेण
मा वहउ विणेउरु चरणजुयलु
थिय सइ णियपियमलीणाच्चित्त

दसरहु वि महारउ ताम दासु ।
जइ लब्भइ हलि चूडामणित्तु ।
किं पाउयाहि मणिमंडणेण । 5
लच्छिहि पंतिहि कोप्परु म देहि ।
मा मुसलकिणकिउ होउ हत्थु ।
मा सलिलु वहहि फणित्तुंभलीइ ।
खंडे रहुवइसिरखप्परेण ।
करमरि कालायसलोहणियलु । 10
उत्तरु ण देति पडुणा पउत्त ।

घत्ता—पइं सीइ अज्जु तिलु तिलु करमि भूयहं देमि दिसाबलि ॥

पर पच्छइ दूसह होइ महुं विरहजलणजालावलि ॥ २१ ॥

20 १ A 'तंगिल'. २ AP जणवए पयासु. ३ AP हलि अण्णु.

21 १ AP किं किर गुणेण. २ P मुसलु किणकिउ.

20 4 a पिइ प्रिये सीते; संवरहि रामस्योपरि संकोचय. 5 b तिमि गिलेत्यादि तिमि-
मत्स्यविशेषः स गिल्यते येन स तिमिगिलः, सोऽपि गिल्यते येन स तद्विलः, तेन गिलिताङ्गः. 6 b कक्करि
गिरिदन्ते; स य सक्करु शतखण्डः. 8 b जणवयपयासु लोकप्रसिद्धिः. 11 b सइत्तवाउ सतीत्ववातः.

21 2 संतइ सीहि सिंहे विद्यमाने सति. 8 a अणुवसहुं एहि निवासं कुरु. 9 a 'लंछण-
हरेण चिह्नधरेण. 10 a विणेउरु विगतनूपुरम्; b करमरि हे दासि.

22

दुवई—ता मंदोयरीइ दिण्णुत्तरु जंपासि सुयणगरहियं ॥

किं तियसिंदवंदकंदावण रावण जुत्तिविरहियं ॥ छ ॥

हा पुरिस हुंति सयल वि णिहीण
कामेण तइ वि ते खयहु जंति
कहिं काइहि रत्तउ रायहंसु
कहिं भूगोयरि कहिं खेयरिदु
दीसइ विद्धंसियतिमिरवंदु
महिलंतरु णर ण मुणंति किं पि
ता णियघरु गउ लज्जिवि दसासु
अवलोइय सीयाएवि ताइ
णं विउसमईइ सुकईत्तलीलं
ओलक्खिय पयजुयलंछणेण
मंजूसइ सहं कत्थइ वणंति

घरघरिणि जइ वि उव्वसिसमाण ।
परघरदासिहि लग्गिावि मरंति ।
कहिं खरि कहिं सुरकरिहत्थंफंसु । 5
हा मयणजोग्गपरिणाणि मंदु ।
जिहं गंगहि तिह वाहलहि चंदु ।
कामुय करंति दुचरित्तु जं पि ।
मयसुय दुक्की जाणइहि पासु ।
णं जलहिवेल ससहरकलाइ । 10
णं स जि ताइ सुविसुद्धसीलं ।
जा चिरु घल्लिय णिदिय जणेण ।
सरिसरसीयलसिंचियदियंति ।

घत्ता—हा अँघडिउं घडिउं विहायणण इंदीवरदलणयणहु ॥

आणिय सा मेरी एह सुय कालरत्ति दहवयणहु ॥ २२ ॥ 15

23

दुवई—जणणंसुयाहिलासणियवइखयचिंतामउलियच्छिया ॥

मेइणियलि दड त्ति णिवडिय मंदोयरी दुस्संहदुक्खमुच्छिया ॥ छ ॥

पच्छाइय कामिणिकरयलेहिं
विज्जियं पडिचमरुक्खेवएहिं
कह कह व देवि सज्जीव जाय
मुहकुहरहु वियलिय महुर वाय

सिंचिय सुयंधसीयलजलेहिं ।
आसासिय चंदणलेवएहिं ।
भणु कासु अर्वच्छल होइ माय । 5
हा सीय पुत्ति तुहुं महुं जि जाय ।

22 १ A °परियाणि; P°परिमाणि. २ A तिमिरचंदु. ३ P omits जिह. ४ P सुकइत्तणेण. ५ P adds after this: णं जिणवरधम्म अहिसणेण. ६ P adds after this: णं सुरसरीइ मयरहरलील. ७ P अयडिउं.

23 १ A जणणि. २ A omits दुस्सह°. ३ AP विंचिय. ४ A ण वच्छल.

22. 5 a का इ हि काकभार्यायाम्; b सुरकरिहत्थंफंसु ऐरावणकरस्पर्शः. 6 b मयण जो मपरिणाणि कामशास्त्रपरिज्ञाने. 7 b वाहलहि नगरजलवाहिन्याम्. 9 b मयसुय मयराज्ञः पुत्री मन्दोदरी. 10 a सीयाएवि मीतादेवी. 11 b स जि सा सीता एव. 11 विहायणण विधात्रा.

23 1 जणणसुयाहिलास° पितुः पुत्रीवाञ्छा.

हा विलसितं किं विहिणा खलेण
तुज्जुप्परि रत्तउ तायचित्तु
इय सोयभावणिम्मोयणाइं
पेच्छिवि सीयाइ सडुक्ख रुण्ण
वोलीणुं जम्मु दुक्कियफलेण ।
हा दइवें विहुरंतरि णिहित्तु ।
वाहुल्लकणोल्लइं लोयणाइं ।
मंदोयरिथणणीसरिउ थण्ण । 10

घत्ता—आसण्णइ थिइ विहवत्तणइ णंतउं सीयइ जोइउं ॥
थण मेळ्ळिवि रामणगेहिणिहि हारु व खीरु पंथाइउं ॥ २३ ॥

24

दुवई—णिम्मलसीलसलिलभग्वाहिणि णिच्छहं णिययदेहए ॥
जाणइं तेण सीयदुद्धोहें जिणपडिमं व्य रेहण ॥ छ ॥

तं किं सीयत्तु रहुवइअसंगि
खगवइकंतइ पुणरवि पवुत्तु
हउं जणणि तुहारीउ जणणु एहु
वुत्तउं पइवयगुणदिण्णल्लाइ
सच्चउं दहमुहु महु होइ वण्णु
मइं पेसहि रामहु पासि ताम
जणणीइ पबोळ्ळिउ रामरामि
आहारें अंगु अणंगथासु
इय भणिवि देवि गय णियणिवासु
महिवइभिच्चहं घल्लिवि रउइ
समरंगणि णिज्जियअरिवरेण
णिवडंतु दुद्धु सिमिसिमइ अंगि ।
मा इच्छहं पुत्ति पुलत्थिपुत्तु ।
ता सीयहि रामंचियउ देहु । 5
सच्चउं तुहुं मेरी माय माइ ।
णासिवि तहु केरउ दुव्वियण्णु ।
कुडि मेळ्ळिवि जाइ ण जीउ जाम ।
कुरु भोयणु पुत्तिइ मज्झखामि ।
अंगं होंतें पुणु मिलइ रामु । 10
हियवउ हरिसितं अजणसुयासु ।
चेयण चपंति महंत णिइ ।
लहुं धरिउ वाणरायारु तेण ।

घत्ता—अविहियण्णहाणि णिरु णिरसणहि मल्लिणहि मइलियवत्थहि ॥
सो सीयहि रामविओइयहि गंडयत्तासियहत्थहि ॥ २४ ॥ 15

५ AP विहिणा किं. ६ A वोलीणजम्मि; P वोली णुजम्मि. ७ AP वाहुल्लकणोल्लइं. ८ A सुदुक्खरुण्णु; P सुदुक्ख रुण्ण. ९ AP थण्ण. १० P जोइयउं. ११ P पंथाविउं.

24 १ AP णिच्छह. २ A णियइ. ३ AP सित तेण दुद्धोहें. ४ A जिणपडिनिव.
४ A तुहारी. ५ P रामविलइयहि.

9 a णि म्मो यणा इं निर्गतमोदानि हर्परहितानि; b वा हुल्लकणो ल्लइं वाप्यकणाद्राणि. 10 b थण्ण दुग्धम्.
11 विहवत्तणइ विधवात्वे.

24 1 णिच्छह निःस्पृहा निजशरीरिणिवि. २ जाणइ सीता; सीयदुद्धोहें श्वेतदुग्धप्रवाहेण.
3 a रहुवइअसंगि राघवस्यासंगमं सति. 4 a खगवइकंतइ मन्दीदया. S b कुडि शरीरम्.
9 a रामरामि हे रामभार्ये. 15 गंडयत्तासियं गण्डतलाश्रितः.

25

दुवई—लक्खणु पेक्खमाणु भारहियहि सणियं पयइ देतओ ॥

दुक्कई कइवरिंदु तहि णियडइ कइगुण अणुसरंतओ ॥ छ ॥

पत्तलवट्टुलयरंतवकणु

णवकणयकंजकिजक्खणु ।

सिहिविप्फुलिगचलपिगलच्छु

णीरोमभउहु लवंतपुच्छु ।

संसिकंतियंततिक्खगवंतु

कयकरजुयलंजलि बुक्करंतु । 5

अवलोइउ देविइ पमउ पंतु

थिउ अग्गइ पयपंकय णमंतु ।

तेणंभहि दाविउ दइयणेहु

सहुं अंगुत्थलियइ धित्तु लेहु ।

परमेसरि मइं रंजियमणासु

परियाणहि पुत्तु पहंजणासु ।

रामहु दूयउ हणुवंतणामु

विज्जाहरु वरु वीसमउ कामु ।

तुह विरहणीणु मायंगगामि

पइं सुमरइ अणुदिणु रामसामि । 10

घत्ता—णउ बोल्लइ ण परिग्गहि रमइ का वि णारि णालोयइ ॥

जोईसरु सासइ सिद्धि जिह तिह पइं पइ णिज्झायइ ॥ २५ ॥

26

दुवई—दहमुहकुइयचित्तु अवलोयइ असिद्धसपरंसपहरणं ॥

लक्खणु खणु वि माइ णउ मेल्लइ तुह कमकमलसुंयरणं ॥ छ ॥

ता सीयइ चित्तिउ णियमणेण

णिल्लक्खण हउं किं लक्खणेण ।

महु हयरामहु कहिं मिलइ रामु

कहिं वाणरु कहिं भत्तोरु णामु ।

कहिं वाणरु कहिं भिच्चसु पत्तु

आलिहियउं कहिं आणियउं पत्तु । 5

परिचित्तिवि महु भोयणउवाउ

रिउरइउ पहु मायासहाउ ।

जाणिवि वइदेहिहि अंतरंगु

पुणु भासइ सुइसुहयरु अणंगु ।

सुणि रामदूउ हउं कह ण होमि

गूढइ अहिणाणचयाइं देमि ।

25 १ A सणियइ. २ A दुक्कउ. ३ P पुच्छु. ४ AP संसिकंतकंति. ५ A तंणं तहि. ६ AP दाविव°. ७ A हणुमंतु; P हणवंतु. ८ P पइं पणइणि स्याइ.

26 १ AP परसु°. २ A सुमरणं. ३ AP भत्तारं. ४ P परिचितइ. ५ P आणिवि.

25 1 भारहियहि भरतनामजनकस्यापत्यं भारतिः तस्याः सीताया वाण्याश्च; सणियं शनैः. 2 कइवरिंदु कविर्वानरश्च; कइगुण कविगुणान् कपिगुणांश्च. 3 a 'बट्टुलयरं' वर्तुलतरौ. 6 a पमउ प्रमूगो वानरः. 9 b वीसमउ विशतितमः. 12 पइ पतिः.

26 1 'कुइयं' कुपितम्. 2 सुंयरणं स्मरणम्. 4 a हयरामहु हतरमणीयतायाः. 5 b अहिणाणवयाइं अभिज्ञानपदानि.

एकहिं दिणि पइं किउ पणयकोउ
 वलउल्लउ चंपिउं सहुं करेण
 घत्ता—हारावलि थणयलि संजमिय णयणइं वि सताविच्छइं ॥
 पइं वियसियकुसुमइं सिरि कयइं पईजीवियणेवत्थइं ॥ २६ ॥

27

दुवई—णियंवइ चित्ति धरिवि पसरियजसु कउं मिसु णिसुउ रहुसुओ ॥
 मंदिरपंजरत्थु जयजीवरवेण पसाइओ सुओ ॥ छ ॥

अभणंतिइ रहुपहुजीयमहु	पुणु रइउ तिलउ कुंकुमरसहु ।
थिरु चियेउं ससवणि कणयवत्तु	जइयहुं थियु पिउ उववणि रमंतु ।
णासाणालिहि परिमल्लु पियंतु	दल्लेवेल्लहलउ वेल्लिउ णियंतु ।
फलघणंथणाउ अंकुरणहाउ	फुल्लंघयलीलालयसुहाउ ।
पल्लवकराउ महुरत्तियाउ	णावइ वसंतरायहु तियाउ ।
तइयहं नुह मणं ईसाविहिण्णु	णाइद्धउ कंचुउ दइयदिण्णु ।
परिहिउ पणावित्थारएण	फुट्टउं पुलएं गंरुआरण ।
परिपालियधम्मसउच्चसच्चु	ता सीयइ बुज्झिउ रामभिच्चु ।
करपल्लवेण पियलेहु गहिउ	मेल्लेप्पिणु वाइउ कवडरहिउ ।
मणु पसरइ कर पसरंति णेयं	को जाणइ दुज्जयकम्मभेय ।
दूरत्थ वि गाढउं देवि खेसु	णियकुसलवत्त हउं कहमि रामु ।
मणवासिणि दहरहरायंसुणिह	लइ सव्वु चारु सरयंदंजोणिह ।

घत्ता—धीरी होज्जसु हलि जणयसुए भडरणरंगि भिडेप्पिणु ॥
 दोपवी तुहुं महुं बंधविण दससिरसीसु खुडेप्पिणु ॥ २७ ॥ 15

६ A छक्किउः P छिक्किउ. ७ A चंपिउ. ८ P पयजोवियं.

27 १ A णियवइ. २ P वरिवि. ३ AP पसाइओ. ४ A अभणंति परहु. ५ A थवियउः P थविय. ६ हल्लेवेल्लिहलउः P दल्लेवेल्लहलउ. ७ AP घणघणाउ अंकुरणहाउ. ८ AP फुल्लंघयणीला लयसुहाउ. ९ AP मणु. १० P ईसाविहिल्ल. ११ A परिहिउ. १२ P वित्थारएण. १३ A एण. १४ A सुणह. १५ A जुणह.

11 सताविच्छइं सकज्जलानि कृतानि. 12 पइजीवियणेवत्थइं अविधवाभूषणानि.

27 1 णियवइ निजपतिः रामः; कउं मिसु रामचन्द्रे मङ्गलशब्दोच्चारणव्याजः कृतः; णिसुउ नृपु मध्ये श्रुतो विख्यातः; पक्षे नि अतिशयेन सुअ हे सुत. 2 पसाइओ सुओ संभूषितः शुक्रः कीरः. 4 a चियउं स्थापितम्; ससवणि स्वकर्णे. 5 a णासाणालिहि नामा एव नालिका तथा; b वेल्लहलउ कोमलाः. 6 b फुल्लंघयलीलालयं भ्रमरसदृशाः अलकाः तैः सुखाः शुभा वा. 7 b तियाउ स्त्रियः. 8 b णाइद्धउ न परिहितम्; दइयदिण्णु भर्तृदत्तम्. 11 मेल्लेप्पिणु उद्घाट्य. 13 a खेसु आलिङ्गनम्.

28

दुवई—अणुदिणु लच्छिणाहु पइं सुमंरइ तसियकुरंगलोयणे ॥

झायवि तिजगसामि णिवसिज्जसु कइवय दियह पंरयणे ॥ छ ॥	
तूसेप्पिणु सीयइ अहुईउ	ता कउ अंगुलियहिं अंगुलीउ ।
कइ पुच्छिउ लंघियविउलखयलु	तेण वि अक्खिउ विचंतु सयलु ।
विण्णविय देवि लइ भत्तु पाणु	विणु तेण ण थक्कइ मणुयप्राणुं । 5
तं तासु वयणु पडिवणु ताइ	गउ पावणि सूरुग्गामि पहाइ ।
सीयासुंदरिहि खगोयरीइ	उवयरिउं चारु मंदोयरीइ ।
अइरावयलीलागामिणीहिं	मज्जणउं भरिउं खगकामिणीहिं ।
पल्लथियाइं तत्तइं जलाइं	किं तावियाइं जइ णिम्मलाइं ।
णियकुलु वि उहइ णिग्घिणु हुर्यासु	कह खमइ विवक्खहि जणियतासु 110
तिलमुक्कं तेल्लं मुक्कं केस	विणु तिलसंबंधं सुहि वि वेसं ।
किं पुणु धम्मिल्लय कुडिलभाव	हरिणीलणील हयभमरगाव ।

वत्ता—सण्हइं चोक्खइं ससहरसियइं राहवजससंकासइं ॥

दीहरइं सुविउलइं सुहयरइं देविहि दिण्णइं वामइं ॥ २८ ॥

29

दुवई—थिय परिहिवि मयच्छि ण पसाहणु गेण्हइ पियविओइया ॥

ताव रसोइ सव्व तहिं आणिय मंदोयरि पंराइया ॥ छ ॥

वंदिई जिणि मणि समसुहपयट्टि	आसीण भडारी रयणपट्टि ।
कलहोयथालकच्चोर्लपत्त	णं धरणिवीहि णक्खत्त पत्त ।
उण्हण्हउं दिण्णउं पढमपेउ	णं दाविउ दहंमुहि विरहवेउ । 5
णं निक्खु मिट्ठ मलदोसणासु	णं भासिउं परमजिणेसरासु ।
पुणु दिण्णइं णाणासालणाइं	णं दहमुहरइआसालणाइं ।
आणेप्पिणु ब्रल्लिउ दीहु कूरु	णं दहंमुहि सीयाभाव कूरु ।
ढोइयइं समुवइं रसवहाइं	णं दहंमुहि सीयारइवहाइं ।
उवणिय थियधार महासुयंध	दहंमुहि सीयादिट्टि व सुअंध । 10

28 १ A सुअरइ. २ A परवणः P परियणं. ३ P रुमप्पिणु. ४ AP मणुअपाणु. ५ AP add after this: आहारं अंगु अणंगधामु, अंगे होतं पुणु मिलइ रामु. ६ A हयामु. ७ AP सेस. ८ A दीहयरइं.

29 १ A परिहवि. २ AP पराणिया. ३ AP वंदिवि जिण मणि. ४ AP घित्त. ५A दहसुह°.

28 1 तसियकुरंगलोयणे चक्रितहरिणलोचने. 2 परयणे परजनमध्ये. 3 a अहुईउ अद्वितीयम्. 6 b पहाइ प्रभाते. 10 a णियकुलु काष्ठम्. 11 b वेस द्वेषः.

29 1 पसाहणु कुङ्कुमकर्पूरचन्दनादिमण्डनम्. 2 पराइया प्रेषिता. 3 a समसुहपयट्टि समतासुवप्रवर्तके. 7 b °रइ आसालणाइं °रत्याशाबन्धनानि. 9 a समुवइं शोभना दालिविशेषा रसयुक्ताः. 10 b सुअंध अतिशयेनान्धा.

णिण्णेहवंतु णिरु मंदु तक्कु
उवणिउ माहिसु दहि थंहु गव्वु
उवणिउ बहुविहु बोराइपाणु
अइसरसइं भक्खइं चक्खियाइं
कइकव्वु व कयमत्तापवाणु
अच्चवियउं पुणु मुद्धहि विहाइ

णं दहंमुहि सीयामणवियक्कु ।
णं दहंमुहि सीयामाणगव्वु ।
णं दहमुहरमणहु कोसपाणु ।
णं दहंमुहि सर सइं भक्खियाइं ।
भोयणु भुत्तउं खीरावसाणु । 15
पाणिउं दिण्णउं दहमुहहु णाइ ।

यत्ता—पूयफलेण सच्चुण्णपण पत्तगुणेण समग्गउ ॥

तंवेोलराउ रामु व सइहि छजइ अहरविलग्गउ ॥ २९ ॥

30

दुवई—इय भुंजेवि भोज्जु भूमीसुय सीलगुणं वुवाहिणी ॥

थिय णंदणवणंति सीसंयतलि सीरहरस्स गेहिणी ॥ ७ ॥

पत्तहि हणुंमंतु वि पत्तु तित्थु
हा सीय सीय सकल्लुणु कणंतु
बोलाविउ मारुइ तं कयत्थु
भणु किं दिट्ठउं मिसुहरिणणेत्तु
किं मुच्छिउ णिवडइ जीवचत्तु
तं णिसुणिवि हणुणं उत्तु एव
दिट्ठउ रावणु णं कलिकयंतु
दिट्ठी मंदोयरि पिउ चवंति
अवरु वि दिट्ठउं आरामहंतु

अच्छइ दुग्गंतरि रामु जेत्थु ।
णियकरयलेण उरु मिरु हणंतु ।
मउडग्गचडावियउं हयहत्थु । 5
किं णउ कुमार मेरउं कल्लु ।
किं महं विरहं पंचत्तु पत्तु ।
दिट्ठी जाणइ जीवंति देव ।
सीयहि सकामवयणाइं देतु ।
देविहि हियउल्लउं संथवंति । 10
उप्पण्णउं चक्कु पहांफुरंतु ।

यत्ता—सिरिमंतु सरूवु वि दहवयणु सीयहि मणु णासंघइ ॥

भरहुप्परिगामिय तेयणिहि पुप्फयंतं को लंघइ ॥ ३० ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण

महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे सुग्गीवहणुवंतकुमारागमणं

सीयादंसणं णाम तिसत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७३ ॥

६ A थहुगव्वु, ७ P कोराइपाणु, ८ A कहमत्तापवाणु; P कयमत्तापमाणु, ९ AP अंचवियउं.

30 १ P सीसवयलि, २ A हणवंतु, ३ A खयंतु, ४ A उमयहत्थु, ५ AP महाफुरंतु,
६ AP मुरूवु, ७ P पुप्फयंतु, ८ A हणवंतकुमारागमणं णाम तिसत्तरिमो.

12 गव्वु गव्यम्, 13 a बो रा इ पा णु बदराभिकादिपानम्, 14 b सर कामानुबद्धवचनादीनि स्मर-
मुखानि वा, 15 a सीयत्तापवाणु मात्राप्रमाणम्; b खी रा व सा णु दुग्धपानमवसाने कृतम्, 16 a अच-
वियउं हस्तमुखप्रक्षालनम्, 17 पूयफलेण पूयफलेन पवित्रफलेन च.

30 १ सीरहरस्म हलधरस्य रामस्य, ५ a कयत्थु कृतार्थः कृतप्रयोजनः, 11 a आरामहंतु
आराभिर्महत् चक्रम्, 12 णासंघइ न आश्रयति नाकलयति नानुरञ्जयति च, 13 पुप्फयंत चन्द्रसूर्यौ.

परहु ण देइ मणु अवसें मउलइ सकलंकहो ॥
फुलइ पउमिणिय करफसें कहिं मि मियंकहो ॥ ध्रुवकं ॥

1

हेला—सीयादेवि देव दीहुण्ह णीससंती ॥

सुंअरइ तुह पयाइं भत्तारभत्तिवंती ॥ छु ॥

सिरि व उविंदहु	सरि व समुंदहु ।	5
मेत्ति व णेहहु	मेरि व मेहहु ।	
भमरि व पोमहु	संति व सोमहु ।	
करिणि व पीलुहि	करहि व पीलुहि ।	
विउसि व छेयहु	हरिणि व गेयहु ।	
णववणकंतहु	जं व वसंतहु ।	10
सुअरइ कोइल	धीरत्तं इल ।	
जिणंगुण जाणइ	निह तुह जाणइ ।	
तुह सा राणी	खंतिसमाणी ।	
भव्वहं रुच्चइ	खणु वि ण मुच्चइ ।	
लक्खणचित्तइ	वहुजसवंतइ ।	15
वरकंविचित्ति व	धम्मपवित्ति व ।	
समसंपत्ति व	साहसथत्ति व ।	
कुलहरजुत्ति व	जिणवरभत्ति व ।	
णिरु परलोइणि	तुह सुहदाइणि ।	
सा आणिजइ	रिउ मारिजइ ।	20

घत्ता—विरहहुयासहउ पियवत्तइ सुइवहहुकइ ॥

वियसिउ रामदुमु णं सित्तउ अमियंशलकइ ॥ १ ॥

1 १ A मयंकहु. २ P adds after this: महि व णरिदहु, सइ व सुरिदहु. ३ A मिनेव.
४ A सोमहु. ५ AP हरि व सुमीलहि. ६ AP णववहुकंतहु. ७ AP read *a* as *b* and *b* as *a*.
८ A 'जसवंतिइ. ९ AP 'कइ'. १० AP add after this: सजगमेत्ति व. ११ AP अमय'.

1 1 परहु चन्द्रस्य रावणस्य च: मउलइ संकुचित्ति. 7 *b* संति शान्तिः. 8 *b* करहि व पीलुहि उट्टीव पीलुक्षस्य. 9 *a* छेयहु छेकस्य चतुरस्य. 10 *a* णववणकंतहु नवीनवनेन कान्तस्य मनोहरस्य वसन्तस्य कोकिला यथा स्मरति. 11 *b* इल भूमिः. 12 *b* जाणइ जानकी. 15 *a* लक्खणचित्तइ लक्ष्मणचिन्तया, पक्षे व्याकरणचिन्तया. 22 विरहहुयासहउ विरहाग्निना दग्धः: सुइवहहुकइ कर्णमार्गी प्रामया. 23 अमियंशलकइ अमृतधारया.

2

हेला—गाहालिगिऊण रामेण पवणपुत्तो ॥

सीयासंगमो व्व हरिमेणेव वुत्तो ॥ छ ॥

तुह समु किं भण्णइ अवरु णरु	अंजणिसुय तुहुं सुहिचिहुरहरु ।
तुहु मुहुं मणकमलहु दिवसयरु	विरहावडणिवडणधरणतरु ।
जलु थलु णहयलु तुह गम्मु जहिं	वण्णेव्वउं सव्वु समत्तु तहिं । 5
ताहिं अवसरि रुसिधि अतुलयलु	सिरिणाहे जोइउ भुयजुवलु ।
वलएवहु पायपोमु णवइ	कोवारुणच्छु लक्ष्णु चवइ ।
मइं गवियरदारियतिमिरबलि	हणवंतु णेइ जइ गयणयलि ।
जइ सायरु सलिलु दुग्गु कमइ	जइ लंकाणयरिणियडि थवइ ।
तो कुंडलमंडियगंडयलु	तोडेपिणु द्दहमुहसिरकमलु । 10
तुह गहिणि देमि समेइणिय	णच्चावमि विडुर डाइणिय ।

वत्ता—दे आप्सु महुं सरं करउ गमणु साहेज्जउं ॥

कंताहरणरुहु फेडमि अज्ज जि वयणिज्जउं ॥ २ ॥

3

हेला—ता सीराउहेण उवसामिआ अणंतो ॥

णं केसरिकिसोरओ रोसविष्फुरंतो ॥ छ ॥

भडयणु णिहितु वि ओसारियउ	पंचंगु मंतु अवयारियउ ।
सउवाउ अवाउ सहाउ धणु	मंतितु महुं किं वहरिहिं वलु कवणु ।
आरंभ कम्मफलसिद्धि किह	किह दइवु हवइ भणु मुणितं जिह । 5
तं णिसुणिवि मंगलेण कहिउ	णिव णिसुणि मंतु विगईरहिउ ।
दुग्गासिउ बलवंतु वि विजइ	खगराउ तिखंडधराहिवइ ।

2 १ AP हरिमेण एम वुत्तो. २ AP अंजणिसुय. ३ A 'धरणि'. ४ A माहउ; P माहडु. ५ P हणवंतु. ६ T डावर भयानकं संग्रामो वा; विडुर इति पाठेऽप्ययमेवार्थः. ७ AP सरु. ८ AP कंताहरणु र्हो.

3 १ A सउवायउ चाउ सहाउ वलु. २ AP महुं वहरिहि कवणु वलु.

2 २ हरिमेणेव वुत्तो हरेण एवमुक्तः. 4 b विरहेत्यादि विरहकृपपतनधरणवृक्षः. 5 b समत्तु समाप्तम्. 6 b सिरिणाहे लक्ष्मणेन. 7 a बलएवहु बलभद्रस्य रामस्य. 9 a कमइ उत्तारयति. 11 a समेइणिय मेदिनीसहिता; b विडुर भयानका. 12 सर स्मरो हनूमान्. 13 रहु उत्पन्नम्.

3 1 सीराउहेण हलायुधेन रामेण; अणंतो लक्ष्मणः. 4 a सउवाउ अवाउ उपायसहितोऽपायः. 6 a मंगलेण मङ्गलनाम्ना मन्त्रिणा; b विगईरहिउ अन्यथात्वरहितः.

जइ सीय देइ रणि णग्भिडइ
तं विहसिवि सुग्गीवें भणिउं
हणुवंतु सहाउ हउं वि पवत्तु
विज्जउ पहरणइं वि चितियइं
हलहर तुहुं राणउ देव जहिं
धुउं लक्खणहत्थे रिउ मरइ
भो मंगल मा किं पि वि भणहि

तो भलउं महु मणि आवडइ ।
पइं रावणजीविउं किं गणिउं ।
हरि पुण्णवंतु चालइ अचलु । 10
होहिंति मंतविहिमंतियइं ।
पडिवक्खु पसंसिउ काइं तहिं ।
णिहइवहु दुग्गु काइं करइ ।
तहु चक्कु कालचक्कु व गणहि ।

घत्ता—तेण जि तासुं सिरु छिंदेव्वउं रणि गोविंदे ॥
दिणयरि उग्गमिइ किं पयडिज्जइ चंदे ॥ ३ ॥

15

4

हेला—उत्तं रामसामिणा जइ अहं महंतो ॥

लच्छीहरपसाहिओ पउरपुण्णवंतो ॥ छु ॥

णियदुउ तो वि तहु पट्टवमि
णिय सो किं देइ ण देइ वहु
भणु कवणु वओहरविहिकुसलु
सुग्गीउ कहइ रिउछिंदणहु
गुणवंत अत्थि परं धरणियर
सुकुलीणु अदीणु दीणसरणु
एक्किहउं भलउ सेल्लेवहि
सुहउ सूरुउ गंभीरु थिरु
णिट्टुरहं वि उप्पाइयपणउ
किं वण्णमि सहयरु अण्णउ
ता रामे संचियणेहरसु
सुग्गीउ वंधु बुद्धिइ गहिउ

उप्पिच्छु समत्थु व णिट्टवमि ।
पेक्खहुं किं बोल्लइ पुहइपहु ।
जिणवरचरणारविंदभसलु । 5
जेट्टहु दससंदणणंदणहु ।
ते जंति ण खे ण होंति खयर ।
अग्गि व सीहु व दूसहफुरणु ।
रणि सरजालंचियसदिसवहि ।
पडिवण्णसूरु तेयंसि णिरु । 10
हियमियमहुरक्खरजंणउ ।
दूयत्तजोग्गु अंजणतणउ ।
पुरिसुण्णउ पोरिसकणयकसु ।
विज्जाहररायत्तणि णिहिउं ।

घत्ता—बंधिवि पट्टु सिरि हणुवंतु कियउ सेणावइ ॥

15

जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवलु णिहयावइ ॥ ४ ॥

३ AP ता. ४ P मंत तिहि. ५ A ध्रु. ६ P तासु जि सिरु.

4 १ AP जइ वि अहं. २ AP किं सो. ३ A णवरणियर. ४ AP एक्कलउ. ५ AP विहिउ.

8 a ण ग्भिडइ युद्धं न करोति. 11 b ° संति यइं °मन्त्रितानि आराधितानि. 15 तेण तेन चक्रेण.

4 3 a उप्पिच्छु सैन्येन सह उच्छ्रितः; णिट्टवमि मारयामि. 4 a वहु सीता. 5 a व ओ हर°
धनोद्गो दूनः. 9 a सेल्लवहि भल्लधारके. 10 b पडिवण्णसूरु अङ्गीकृतवस्तुनि सुभटः; तेयंसि
तेजस्वी. 13 b पुरिसुण्णउ पुरुषेषु मध्ये उन्नतो महान्; °कणयकसु °सुवर्णकषोपलः. 16 जोत्तिउ
युक्तः; णिहयावइ निहतापदः.

5

हेला—दिण्णा राहवेण हणुयस्स खयरंगया ॥

रविगयविजयकुमुयपवणवेयया सहाया ॥ छ ॥

गरुयारइ मंतिकज्जि थचिउ	बल्लहहें मारुइ सिक्खविउ ।	
जाएज्जसु भवणु विहीसणहु	परिपालियखत्तियसासणहु ।	
बोल्लेज्जसु मिट्टुड किं पि तिह	अप्पावइ सीयापवि जिह ।	5
जइ सामें देइ ण दहवयणु	तो पुणु भणु दंहु चंडवयणु ।	
अम्हंहुं विवरोक्खइ आवडिय	ललियंग त्तित्तित्तिहि चडिय ।	
अण्णणें रइग्गहसेण णिय	भण्णइ अप्पिज्जउ रामपिय ।	
गोविंदमुक्कगुणमग्गणहिं	दारियसरू संधुं ससयणहिं ।	
सोणियजलसित्तच्छत्तंसहिउ	मा होहि कयंतणयरपहिउ ॥	10

घत्ता—बोल्लिउ लक्खणिण सूर्ये सीय वसुंधरि ढोयवि ॥

जइ दहमुहु जियइ तो जीवउ किंकरु होइवि ॥ ५ ॥

6

हेला—अहवा जइ ण देइ तो जाई किं जियंतो ॥

मइ कुस्सेण हणुय णउ हणइ कं कयंतो ॥ छ ॥

तैलोककचकजुरावणहु	इय जाइवि साहहि रावणहु ।	
जइ तिण्णिण वि एयउ देइ णउ	तो तासु महु वि किर संधि कउ ।	
जइ जुज्झइ तो कालाणलहु	जइ णासइ तो पुणु काणणहु ।	5
पेसमि दहगीउ ण दूय जइ	रहुवइपयजुवलु ण णवमि तइ ।	
तो हल्लि हरि जयकारिवि चलिउ	तणुभूसणमणियरसंवलिउ ।	
तारावलिहारावलिउगहि	उत्तुंगहि तुंगपयोहरहि ।	
पविमलपसण्णदिसवयणियहि	चंदक्कमणोहरणयणियहि ।	
आहं डलघणुउप्परियणहि	रंजियविज्जाहरगणमणहि ।	10
णहलच्छिहि उवरि देंतु पयइं	पडिसुहड्डं संजणंतु भयइं ।	

घत्ता—संखपंतिदसणु वडवाणलजालाकेसरु ॥

वेलापुंउवलु मणिगणणहु सीडु व भासुरु ॥ ६ ॥

5 १ AP खयरया. २ AP रविगइ. ३ P कुमुयवलवेयया. ४ AP बलभहें. ५ A सुवणु.
६ AP चंडदंडवयणु. ७ A अम्हं. ८ A ललियंगि. ९ A सुहुं सजणेहिं. १० P omits छत्त.
११ A सिय; P सीय.

6 १ P किं जाइ. २ AP हरि हलि. ३ AP सुहड्डं णं जणंतु.

5 3 b मारुइ हनुमान्. 7 a विवरोक्खइ विपरोक्षे. 10 b पहिउ पथिकः.

6 4 a तिण्णिण वि एयउ श्रीः, सीता, भूः; b कउ कुतः. 13 मणिगणणहु रत्नान्येष
नखा यस्य.

7

हेला—गंभीरो सरमेरउ गीढमयरमुद्दो ॥

मारुइणा तुरतेणं लंघिओ समुद्दो ॥ छ ॥

भुवणंतरालि विक्खायएण
तिसिहरगिरिणालें उद्धरिउ
सुहधवलट्टालविउलदलु
देउलहंसावलिपरियरिउ
कामिणिमुहरसमयरंदरसु
रावणरवियरवियसावियउ
विन्थैरियकोसु सुभुयंगपिउ
णहि जंतु जंतु मारुइभसलु

दीहें जलणिहिसरजायएण ।
पायारकणिणयापरियरिउ ।
लच्छीमंजीररावमुहलु । 5
कणयालयकेसरपिंजरिउ ।
जसपरिमलपूरियगयणादिमु ।
देवाहं वि भलुउं भावियउं ।
कह णिउणें विहिणा णिम्मविउ ।
संपत्तउ तं लंकाकमलु ॥ 10

घत्ता—जोयवि कुसुमसरु णारीयणु असेसु वि खुद्धउ ॥

कंपइ णीससइ हसइ व बहुणेहणिवद्धउ ॥ ७ ॥

8

हेला—कंदपं सुरुविणं णिएवि चित्तचोरं ॥

कां वि देइ सकंकणं चारुंहारदोरं ॥ छ ॥

क वि जोयइ दिट्ठिइ मउलियइ
क वि उलियकडक्खहिं विवैलियइ
काहि वि गय तुट्ठिवि मेहलिय

गुरुयाणि सलज्जदरमउलियइ ।
क वि वियसियाइ क वि विलुलियइ ।
क वि मुच्छिय धरणीयालि घुलिय । 5

7 १ AP समेरउ; K सरमेरउ but records a *p*: अथवा समेरउ समर्यादः; T सरमेरउ जलमर्यादः; अथवा समेरउ समर्यादः. २ AP गाढमयरसद्दो. ३ A णिसियर°. ४ A पायालें. ५ AP °हंसावलिपंडुरउ; K पंडुरिउ इत्यपि पाठः. ६ A कणयायलकेसरि°. ७ A विन्थारिय°.

8 १ AP का वि हु देइ. २ P चीरुहार°. ३ A गुरुयण°. ४ P विवालियइ.

7 1 सरमेरउ जलमर्यादः; गीढमयरमुद्दो न्यस्तमकरमुद्दः. 4 a तिसिहरं त्रिकूटः; ४ पायारकणिणया° प्राकार एव कर्णिका. 5 b मंजीरं नूपुरम्. 6 b कणयालयं सुवर्णगृहम्. 11 खुद्धउ क्षोभं प्राप्तः.

8 1 णिएवि दृष्टा. 3 a मउलियइ मुकुलितादिदृष्टीनां लक्षणं यथा । हिययन्मन्तरणिन्भरपहरिस-परिपेत्थिया य जा दिट्ठी । परिमउलियावित्थारा मउला णामेण सा दिट्ठी ॥ १ ॥ जारुइणिन्भरा वियसिऊण पियदिट्ठिवं चणपयट्ठा । तद्धंसणं सलज्जा लुलई मच्छो व्व सालुलिया ॥ २ ॥ गुरुयणपुरओ लज्जकुसेण करिणि व्व रुद्धसंचारा । जा धोलइ पियहुत्तं कडक्खवलियत्ति सा दिट्ठी ॥ ३ ॥ 5 a मेहलिय कटिमेखला.

काहि वि रइजलझलक झलिये
 काइ वि थणजुयलउं पायडिउं
 क वि भणइ ऐहु हलि दूउ जहिं
 सइ सीय भडारी वज्जमिय
 हलि एहु वि पेच्छिवि पुरिसवरु
 पायगे जइ थणग्गु छिवइ
 तो हउं सकियथी जगि जुवइ
 अप्पाणु परु वि ण सच्चंवइ

क वि उरयलु पईणइ झिदुलिय ।
 काहि वि परिहाणु झत्ति पडिउं ।
 केहउ सो होही रामु तहिं ।
 ण सइत्तणवित्ति अइक्कमिय ।
 जइ कह व महारउं एइ घरु । 10
 तंबोलु वि जइ उप्परि धिवइ ।
 क वि पेम्मपरव्वस मूढमइ ।
 हा मुइय मुइय जणवउ चवइ ।

घत्ता—कामु हरंतु मणु पुखरणारीसंघायहु ॥

वलइयउच्छुधणु गउ भवणु विहीसणरायहु ॥ ८ ॥

15

9

हेला—णियकुलकुमुयससहरो मुणियरायणाओ ॥

आओ तेण मण्णिओ अंजणंगजाओ ॥ छु ॥

रयणुज्जलु आसणु घल्लियउं
 पाहुणयवित्ति णिस्सेसं कय
 किं किज्जइ किं किउ आगमणु
 गुणवंतु भत्तिभाउंभवउ
 पइं जेहउ माणुसु जासु धरि
 लइ एत्थु विहीसण दोसु ण वि
 पत्थहि पउलत्थि देउ तरुणि

मणहारि समंजसु बोल्लियउं ।
 पुच्छिउ कहिं अच्छिय कहिं वि गय ।
 तं णिसुणिवि पभणइ रइरमणु । 5
 णयवंतु संतु महुरुल्लवउ ।
 किं सो लग्गइ परधरिणिकरि ।
 कालिंदिसल्लिणहदेहल्लवि ।
 पायालि म णिवडउ णिक्कराणे ।

घत्ता—गिरि गिरियसरिमु गोप्पउ जासु रयणायरु ॥

10

तें सहं कवणु रणु किं करइं गवु तुह भायरु ॥ ९ ॥

५ AP गलिय. ६ A पहरइ. ७ A हलि एहु. ८ AP सकियथी. ९ A संभरइ.
 १० AP मुयइ मुयइ.

9 १ AP णीसेस. २ A भाउत्तमउ. ३ A पहल्लच्छि देव. ४ P गोप्पउ व जासु. ५ A करइ
 तुहारउ भायरु.

6 a ° झलक धारा; झलिय सुता; b झिदुलिय कामविह्ला. 7 a पायडिउं प्रकटितम्. 9 a वज्ज-
 मिय वज्जघटिता. 10 a पुरिसवरु कामदेवरूपो हनूमान्.

9 1 °रायणाओ °राजनीतिः. 5 b रइरमणु कामो हनूमान्. 8 b कालिदि°यमुना.
 9 a पत्थहि त्वं प्रार्थय; पउलत्थि पौलस्त्यो रावणः; देउ तरुणि सीतां ददातु. 10 गिरियय° कन्दुकः; ६
 गोप्पउ गोष्पदम्.

10

हेला—विट्टादिट्टकट्ट पट्टवउ रामणारी ॥

णहयरणाहमउडि मा पडउ पलयमारी ॥ छ ॥

अज्ज वि णारूसइ दासरहि	अज्ज वि ण खुहइ लक्खणउवहि ।	
चउरासीलक्खधरायरहं	कोडिउ पण्णास भयंकरहं ।	
आहुट्ट ताउ गयणेयरहं	बलवंतहं बहुपहरणकरहं ।	5
अज्ज वि खुब्भांत ण नृवबलइं	दुल्लंघइं पडिबलघंघलइं ।	
अज्ज वि अप्पावहि सीय तुहुं	मा पइसउ बंधउ जमहु मुहुं ।	
मा डज्जउ लंक सत्तोरेणिय	मा णिवडउ उयरवियारणिय ।	
सरधोराणं गोविंदहु तणिय	दुद्धरधणुगुणरवन्नणज्ञणिय ।	
मा रिट्टु रिट्टलोहिउं रसउ	मा कालकियंतु मासु गसउ ।	10
रायाणुपण ता भासियउं	पइं चारु चारु उवपसियउं ।	
मज्झत्थु महत्थु सच्चवयणु	पइं मेल्लिवि को सुपुसियणु ।	
पइं मेल्लिवि को वि बुहाहिवइ	को जाणइ पही कज्जगइ ।	

घत्ता—इय संसिवि सुयणु पोरिसकंपवियसुरिंदहु ॥

गंपि विहीसणेण दाविउ हणवंतु खगिंदहु ॥ १० ॥

15

11

हेला—णविऊणं दसासणं तरुणिहिययहारी ॥

आसीणो वरासणे कुसुमवाणधारी ॥ छ ॥

पभणइ पहु जडकोड्ढावणिय	किं विहिय संव रामहु तणिय ।	
हा कट्टु कट्टु कणएं जडिउ	माणिकु अमेज्जमज्जि पडिउ ।	
कहिं तुहुं कहिं सो तुह सामि हुउ	भणु को ण विहाणवसेण चुउ ।	5
अह एण वियारं काइं महुं	आओ सि काइं कहिं कज्जु लहु ।	
तं णिसुणिवि पावणि पाडलवइ	विणंओणयसिरु पुणु पुणु भणइ ।	
भो पुष्पविमाणपुष्पभमर	भो सुरसुंदरिवल्लियच्चमर ।	

10 १ P णिवबलइं, २ P कालकयंतु, ३ AP हणुवंतु.

11 १ AP कोडावणिय, २ A कज, ३ A विणएं णयसिरु.

10 1 दिट्टादिट्टकट्ट पट्टवउरामणारी कयं यया, 2 मउडिमुकुटे, 3 लक्खणउवहि लक्खण एव समुद्रः, 5 a आहुट्ट अर्धचतुर्थाः; गयणेयरहं खेचरणाम्, 6 b घंघलइं विन्नप्रायाणि, 10 a रिट्टु काकः; रिट्टु रिट्टो रावणः कृष्णवर्णत्वात्.

11 3 a जडकोड्ढावणिय जडानां कौतुकोत्पादिनी रामसेवा, 4 a कट्टु कट्टु कणएं जडिउं निन्दे काष्ठे सुवर्णेन जटितम्, 5 b विहाणवसेण विधिवशेन, 7 b विणओणयसिरु विनयनममस्तकः.

भो मंदेरसुंदरकयभवण
भो देव दसास दसासगय-
लक्खणदामोयरणमियकमु
जसु णामे संकइ विसमु जउं
ते तुज्ज पौंसि हउं संपहिउ

घत्ता—आणिय सीय जइ तो णत्थि दोसु पुणु दिज्जइ ॥

हरिविक्कमहरिणा सहुं उरियं संधि रइज्जइ ॥ ११ ॥

भो महिहरकंपावणपवण ।
जसंधवलियजग रयणियरघय । 10
अट्टमु हलहरु रणरसविससु ।
किर कवणु गहणु तहु देव हउं ।
इय साहइ सो विणए संहिउ ।

15

12

हेला—आरूढो गयाहिवे मोरु कुल्लमग्गं ॥

को मग्गइ रयंधओ एलयाण दुग्गं ॥ छ ॥

सायरु कि मज्जायहि सरइ
जइ दीवउ अंधारउ करइ
जइ तुहुं जि कुकम्मइं आयरहि
तो कासु पासि जणु लहइ जउ
अण्णु वि णाणाविहदुक्खभरु
तं णिमुणिवि लंकेसरु भणइ
महुं किकरु ताव पढमु जणउ
तहु दिण्णी हउं किं किर खममि

घत्ता—पुब्ब पउत्त महु पच्छइ रहुणाहहु दिण्णी ॥

सो छिद्वि वि मृगेर्णे मइं आणिय णयणरवण्णी ॥ १२ ॥

महिवइ कि अण्णणारि हरइ ।
तो किं पाहाणखंडु फुरइ ।
मणु कुवहि वहतउं णउ धरहि । 5
जहिं रक्खणु तहिं उप्पणु भउ ।
परहरु इहरत्तपरत्तहरु ।
को रंडकहाणियाउ सुणइ ।
पुणरवि दसरहु दसरहतणउ ।
घरलंजिय सीय किं ण रममि । 10

13

हेला—मइं चित्तेण छित्तिया कइ अणुहवइ रामो ॥

हो हो मयरकेउणा एत्थुं णत्थि सामो ॥ छ ॥

४ A सुंदरमंदर^०. ५ P^०भमण. ६ AP जगधवलियजस. ७ AP पासु.

12 १ AT एडयाण. २ AP किर किं. ३ AP ण किं. ४ P भिगेण.

13 १ AP मयरकेउणो. २ A इत्थ णत्थि; P इत्थ अत्थि.

9 a मंदरसुंदरकयभवण मन्दरे सुन्दराः कृता आवासा येन. 10 a-b दसासेत्यादि दशसु दिक्षु गतेन यशसा धवलितं जगद् येन. 13 b विणए साम्ना. 15 हरिविक्कमहरिणा सिंहपराक्रमेण रामेण.

12 1 गयाहिवे गजाधिपे. 2 को मग्गइ को मयूरं मृगयते; रयंधओ पापान्धः कोपान्धो वा; एलयाण दुग्गं छालकानां विषमं गड्ढुरकाणां दुर्गे च मृगयते स गड्ढुरकैः कृत्वा स्वस्य रक्षां वाञ्छति. 3 a सरइ चलति. 7 b परहरु परकलत्रम्. 10 b घरलंजिय गृहदासी. 12 छिद्वि वि छलयित्वा.

13 1 छित्तिया स्पृष्टा. 2 मयरकेउणा त्वया कामेन सह.

जं चंगउं तं^३ तं अवठवइ
मणिकारणि मुहि कवलउ अहि वि
सयडंगु वि मग्गइ एउ खलु
पुरि मग्गउ लग्गउ मज्झु रणि
तं णिसुणिवि सुंद्दु दुगुंछियउं
णउं हसिउं देव पइं मण्णियउं
सुयं सीय वसुंधारे देइ जइ
सो लिहियउं तुह रूवु वि पुसइ
हरि केंव वि^४ अमहइ उवसमहुं

किंकरु सुद्धत्तणु दक्खवइ ।
जइ मग्गइ तो मग्गउ महि वि ।
सो संपहि वट्टइ वृढच्छलु ॥ 5
किं अच्छइ तहिं हिंडंतु वणि ।
दूएण राउ णिभंछियउ ।
केसवजंपिउं णायणियउं ।
परमथं इच्छइ संधि तइ ।
णियभायहु उवरोहं सहइ । 10
लंकाउरि णेय अइकमहुं ।

घत्ता—मुइ मुइ पइ तयं सुंदिणेहं कहइ कइद्धउ ॥

रावण वहइ पइं रणरंगि जणहणु कुद्धउ ॥ १३ ॥

14

हेला—ताव णिकुंभ कुंभ खरदूसणा विरुद्धा ॥

हणुंहणुसद्दारुणा मारणावलुद्धा ॥ छ ॥

कोवारुणणयण भणंति भड
मयरद्धय धुवु लज्जइ रहिउ
खज्जोएं किं रवि ढंकियउ
किं भमरें गरुहु झडप्पियउ
जेणेहउं बोहहि मुक्ख तुहुं
तुहु एक्कु सहाउ वीय पिसुणु
ते लक्खण राम दसाणणहु
तो हरिणा इव चुकंति कहिं
तहिं पत्तलु दलु पइं किं थविउं
तो रामहु तुमहं तं सरणु

गोवाल वाल ददमूढ जइ ।
किं झंखहि णं जरण गहिउ ।
किं सायरु गरलें पंकियउ । 5
किं दहमुहु अणें चंपियउं ।
फोडिज्जइ तेरउ दुट्ट मुहुं ।
सुग्गीउं वालिपावियवसणु ।
जइ कमि पडंति पंचाणणहु ।
वाएण जंति गिरिवर वि जहिं । 10
जइ पयजुयलउं दवहु णविउं ।
णं तो आयउं एवहिं मरणु ।

घत्ता—हणुणं बोह्लिउं रणु घरि बोह्लंतहं चंगउं ॥

भडकलयलकलहि पइसंतहिं कंपइ अंगउं ॥ ४ ॥

३ A तं तं अलवइ; P तं जि अवटवइ. ४ AP कहिं अच्छइ. ५ P सुद्धदुगुं. ६ A जणहसिउ.
७ AP सिय. ८ AP लुहइ. ९ A वियमइ. १० AP निय. ११ मुहिणिहे.

14 १ हणहणसद्दे. २ AP गरलें. ३ AP चंपियउं.

3 a अवठवइ अवस्थापयति राज्ञो निमित्तं धरतीत्यर्थः. 5 a सयडंगु शकटाङ्गम्; b वृढच्छलु धृतबलः
वञ्चनं वा. 12 कइद्धउ हनूमान्.

14 5 a खज्जोएं खद्योतेन; b पंकि यउ दूपितः.

15

हेला—धणुजुत्ता भडा वि गजंति जेम मेहा ॥

तेम ण ते भिडंति वरिसंति सवणदेहा ॥ छ ॥

चिरु रिक्खपंतिसंणिहणहहि
सरु ससरि तिविट्ठे समरि हउ
जिह सो तिह तुट्ठु वि अणंगवसु
दहवयण मरेसहि आहयणि
सीहा इव कुडिलचडुलणदर
गजंतु पंतु तिणसमु गणिउ
दुक्कह सयलहं सीसइं खुडमि
ता भासिउ मगपयासणेण
हम्मइ ण दउ जंपउ विरसु
असिसंकडि धणुगुणरवमुहलि

रत्तउ हयगीउ सयंपहहि ।
मुउ सत्तमणरयहु णवर गउ ।
लक्खणसरकडियरुहिररसु । 5
रइ किं ण करहि मेरइ वयणि ।
ता उट्ठिय खग हलमुसलकर ।
मारुइणा सुहडसत्थु भणिउ ।
तडिदंहु व पहुउप्परि पडमि ।
अंतरि पइसेधि विहीसणेण । 10
जाणेसहुं पोरिसु कणयकसु ।
रिउहक्कारणमारणतुमुलि ।

घत्ता—राणं भासियउं मा मेरउ विहि विहरेजंसु ॥

राहवलक्खणहं संदेसउ एम कहेजसु ॥ १५ ॥

16

हेला—सरणं सुरंवरस्स पइसरइ जइ वि कामं ॥

तो वि अहं दृणांमि सहं किंकरेहिं रामं ॥ छ ॥

धुवु पावमि भुक्खिउ कालैकलि
लक्खणहु सुलक्खणु अवहरमि
णयरिउ मंदिरणिजियससिउ
भडरुहिरमहासमुहि तरमि
खलणीलहु णीलउं मिरु लुणमि
दसरहदसप्राणइं णिट्ठवमि

तिलमेत्तइं खंडइं देमि^१ बलि ।
वंदिग्गाहि पुहंइदेवि धरमि ।
गण्हिवि कौसलवाणारसिउ । 5
सुग्गीवहु गविभंगु करमि ।
कुमुयहु कुमुयप्पसु वणमि ।
जणयहु जिउ जमपुरि पट्टवमि ।

15 १ °चवल°; P °चदुल°. २ AP वि रहेजसु.

16 १ AP सुरवइस्स. २ P हणेमि. ३ P कालु कलि. ४ AP देवि. ५ A बुहिवि वे वि.
६ AP वाराणसिउ. ७ A °पाण विणिट्ठवमि; P° पाण वि णिट्ठवमि.

15 २ सवण देहा सवणदेहा: सजलदेहाश्च. 3 a रिक्खपंतिसंणिहणहहि नक्षत्रपंक्तिसदृश-
नखायाम्; b सयंपहहि स्वयंप्रभायाम्. 6 a आहयणि संग्रामे. 11 b जाणेसहुं ज्ञाश्यामः. 13 मा
मेरउ विहि विहरेजसु विधि: कर्तव्यं मा गोप्यं कुरु.

16 1 कामं अतिशयेन. 4 b पुहइदेवी पृथ्वादेवी सीता. 7 a णीलउं कृष्णकेश-
युक्तम्; b कुमुअप्पसु नाभिकमलप्रदेशम्. 8 b जिउ जीवः.

कुंदहु कुंदाहइं अट्टियइं	जाणेजसु एवहिं णिट्टियइं ।	
कडुमि जंघाणलवस णलहु	ढोईवि छुहियहु ढंढरउलहु ।	10
हणुमंत तुज्जु हणु गिद्ध जिह	भक्खंति हणमि संगामि तिह ।	
जज्जाहि मित्तं मोक्कल्लियउ	ता पावणि णहयलि चट्टियउ ।	
ता चिंत पइहु विहीसणहु	को चुक्कइ कम्महु भीसणहु ।	
परमेसरु अद्धधरत्तिवइ	मारैव्वउ लक्खणेण णिवइ ।	
तहु दुम्मणु मुहुं अवलोइयउं	अप्पउं पहुणा पोमाइयउं ।	15

घत्ता—सभरह एंतु खल महु ते कुमुणियदप्पहु ॥

पुष्पयंत गयणे किं^३ संमुहुं थंति विडप्पहु ॥ १६ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्पयंतविरहय महाकव्वे हणुमंतदूर्यगमणं
णाम चउहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७४ ॥

८ AP णेय वि. ९ A हणवंत. १० P मित्त तुहुं मोक्कल्लिउ. ११ A कम्मविहीसणहु. १२ AP कुमुणि
व कंदप्पहो; T कंदप्पहो कामस्य. १३ A कह संमुह थंति; P किं सम्मु थंति. १४ AP दूर्यकजं.

10 a जंघाणलवस जंघानलकायाः वसाम्; b छुहियहु बुभुक्षितस्य; ढंढरकुलहु राक्षससमूहस्य.
16 सभरह भरतेन लघुभ्रात्रा; एंतु आगच्छन्तु; कुमुणियदप्पहु कौ पृथग्व्यां मुनितो ज्ञातो दर्पो यस्य.
17 विडप्पहु राहोः.

पवणंजयसुयद्दु समागमणि णं हरि हरिहि समावडिउ ॥
रहुवइआपसें कुइयमणु लक्खणु वालिहि अब्भिडिउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

हणुण णवेप्पिणु भणिउ रामु
दहवयणु ण इच्छइ संघि देव
सामहु णामे जो वेउ सामु
तं णिसुणिवि रोमंचिउ उर्विदु
रणि मारमि दससिरु कुंभयणु
असिधारइ दारमि कुंभिकुंभु
जीवावहाहं खरदुसणाहं
पहरंति केम हत्थेप्पहत्य
मारीयउ मारिहि देमि गासु
विद्धंसंमि इंदइइंदजालु
पेच्छेसहुं कइवयवासरेहिं

भो णिसुणि भडारा हित्तरामु ।
पर गज्जइ जिह बीहंति देव ।
सो णायण्णइ वण्णेण सामु । 5
गलगज्जइ हसियमुहारविंदु ।
वणि लोहिउ दावमि कुंभयणु ।
दलवट्टमि झ त्ति णिकुंभु कुंभु ।
दारमि उरु रहुवइदुसणाहं ।
मइं मुक्कसरावलिच्छिणइत्थ । 10
मउ णिम्मउ रणि कासु वि खगासु ।
अरिपुरु पलित्तु लग्गिगजालु ।
परबलु पच्छाइउ महु सरेहिं ।

घत्ता—मइं कुद्धे राहव सो जियइ जो तुह पयपंकय णवइ ॥

तुहु देव पयावंपसरतसिउ रवि वि णिरंतरु णउ तवइ ॥ १ ॥ 15

2

तहिं अबसरि आयउ वालिदूउ
तें बुत्तु देव अविलंबधाम
खेयरचूडेमणिघंडियपाउ

वइसारिउ कज्जालाव हूउ ।
सीयासइवल्लइ णिसुणि राम ।
अटुंगु णवइ तुह वालिराउ ।

1 १ A वणलोहिउ. २ AP जीवावहार. ३ A दावमि कयहु^०; T उरु महान्वक्षस्थलं वा.
४ AP हत्थावहत्य. ५ A विद्धंसिवि. ६ A इंदइ इंदजालु; P इंदहो इंदजालु. ७ A पयावइसरतसिउ.
८ AP णवि.

2 १ AP भूउ. २ A तो बुत्तु. ३ A अविलंबधाम. ४ A °चूलामणि°. ५ AP °षिट्टपाउ.

1 1 हरि सिंहः. 2 कुइयमणु कुपितमनाः. 3 b हित्तरामु हृता रामा सीता येन स रावणः.
5 a सामहु इत्यादि सामस्य नाम्ना सामवेदस्यापि नाम नाकर्णयति. 6 a उविंदु लक्ष्मणः. 7 b कुंभ-
यणु कुम्भैर्गणनीयम्. 9 b उरु महान् वक्षःस्थलं वा. 12 a इंदइ इंदजालु इन्द्रजितः इन्द्रजालम्;
b लग्गिगजालु लग्नामिज्वालम्.

2 3 a घडियपाउ °आरोपितपादः.

अण्णु वि विण्णवइ पडुल्लवत्तु
तो णिद्धाडहि सुग्गीव हणुय
णिवडंतु कूवि तिण्णधारि पडइ
गरुपं सहुं जायइ विग्गहेण
तुह विरहखीण गुणवंत संत
दासरहि पजंपइ लंक जाव
मयगिल्लंगल्लु मित्तत्तहेउ
पच्छंइ जं इच्छइ तं जि करमि

जइ इच्छहि मेरउं किंकरत्तु ।
रणभरु सहंति किं बालतणुय । 5
णंगोहविलंबिरु उज्जु चडइ ।
धिहडिज्जइ हीणपरिग्गहेण ।
मारेप्पिणु रामणु हरमि कंत ।
महुं समउ खगाहिउ एउ ताव ।
करिवरं महामेहक्खु देउ । 10
अड्डणा तहु सुक्किउ काइं सरमि ।

घत्ता—लंइ इच्छउं केर महुंतणिय कुंजरु दोइवि गिरिसरिसु ॥

इय भासिवि रापं पेसियउ सहुं तहु दूपं णियपुरिसु ॥ २ ॥

3

किलिकिलिपुंरु पत्तउ दिट्ठु वालि
मंतं पवुत्तु भो सच्छचित्त
तूसंति राय सुद्धं मणेण
जेणाहवखंधंइ भग्गएण
महुं भापं कंउ किंकिंधि वासु
कंडुयणि होइ पंडुरियं रेह
जुज्जेसइ सीरि सिलिम्मुहेहिं
मग्गणउ धम्मु गुणु सुइवि जाइ
इय चित्तिवि बोद्धिउ रायमंति
देसइ खयराहिउ असिपहारु

तेयाहिउ णं चंडंसुमालि ।
करि दोइवि करि पडुसमउं जत्त ।
ता भणइ वालि संथुउ अणेण ।
कायरणरमग्गविलग्गएण ।
हा रामं पोसिउ पक्खु तासु । 5
मणंगूढहु केरिय वित्ति एह ।
अणउत्तु वि जाणिज्जइ बुहेहिं ।
सुग्गीवहु हणुयहु उवरि थाइ ।
भण्णइ ण देइ सो तुज्जु वंति ।
तोडेसइ पइं सुग्गीवहारु । 10

घत्ता—ता झ त्ति वओहरु णीसरिउ औंवि वि कण्णविवरक्खरउ ॥

आहासइ बलणारायणहं रिउदुब्बयणपरंपरउ ॥ ३ ॥

६ A तणुवारि; P तणधारि. ७ P णग्गोहि. ८ A दीण°. ९ A °गिल्लगिल्लमित्तत्त°. १० AP करि-
वरु वि महा°. ११ P पेच्छइ, १२ A लइ इच्छउ; P सइ इच्छउ.

3 १ P °पुरि. २ A खंधं. ३ A किउ. ४ P पंडुरिव. ५ A मणगूढं केरी; P मणमूढं
केरी. ६ A अणुउत्ति. ७ P आर्याण्णवि कण्णविवरक्खरउ; T सुइविवर° श्रोत्रनिष्ठ.

4 a पडुल्लवत्तु प्रफुल्लवदनः. 6 a णि व डंतु इत्यादि कूपे पतन् तृणावल्भकः पुमान्पतत्येव;
वटवृक्षावल्भकः पुनरुर्ध्वं चटति. 10 b देउ ददातु. 11 b सुक्किउ उपकारः; सरमि स्मरामि.

3 2 जत्त यात्रा गमनम्. 4 a आहवखंधइ संग्रामधुरायाम्. 8 a मग्गणउ वाणो याचकश्च.
11 वओहरु दूतः; कण्णविवरक्खरउ श्रोत्रनिष्ठाक्षराः दुर्वचनपरंपराः.

4

ता चिंताविउ मणि रामपउ
 एकु जि रवि अण्णु जि गिंभयालु
 एकु जि हरि अण्णु जि पक्खरालु
 एकु जि विसिं अण्णु जि सविसदिट्ठि
 एकु जि दहमुहु दुद्धरु विरुद्धु
 मित्तयणु खीणु बलवंत सत्तु
 विरुद्धइ एवहिं कवणु मंतु
 ता विहसिवि बोल्लइ वासुएउ
 केसरिकिसोरु किं मृगं छिवंति
 असमंजसु सज्जणपाणहारि
 सुहडत्ताणंदियसुरवैरालि

एक्कुं जि सिहि अण्णु वि वायवेउ ।
 एकु जि तमु अण्णु जि मेहजालु ।
 एकु जि जमु अण्णु जि पुण्णकालु ।
 एकु जि साणि अण्णु जि तहिं मि विट्ठि ।
 अण्णेक्कु तहिं जि बलिपुत्तु कुड्ड । 5
 पाणिट्ठु सुट्ठु हित्तउ कलत्तु ।
 णउ कुसलकारि एकु वि जियंतु ।
 किं दीव जिणंति दिणेसतेउ ।
 ते जगि जियंति जे पइं णवंति ।
 परमेसर पच्छा कोवकारि । 10
 अच्छउ रावणु ता हणमि षालि ।

घत्ता — मइं कुइंइ रणंगणि ओत्थरिए भीरु महागिरिकंदरहु ॥
 मा चिंताहि राहव किं पि तुहुं सूर जंति जममंदिरहु ॥ ४ ॥

5

ता पडुणा पेसिउ तक्खणेण
 साहणु पहिं उप्पहि णहि ण माइ
 हरि खुरखयरयहयभाणुदित्ति
 चूरियभुयंग चैलिविलियंग
 थिउ सिबिरु धरेप्पिणु दुग्गमग्गु
 आसोसियाइं सरिसरजलाइं
 सिरणलिणारोहियणियकरेण
 दुद्धरदीहरसुंडालसौहु
 पडिबलु गयणयलविलग्गतालि

सुग्गीउ चलिउ सहुं लक्खणेण ।
 गयघड मयवस मल्हंति जाइ ।
 रंहु चक्कधारदारियधरित्ति ।
 भयकंपिय दिसमायंग तुंग ।
 उव्वेइउ सससारंगवग्गु । 5
 णिल्लूरियाइं णवदुमदलाइं ।
 अक्खिउ वालिहि केण वि चरेण ।
 रामे तुम्हुप्परि पहिउ दंहु ।
 आवालिउ खइरवणंतरालि ।

4 १ P एक वि. २ A विसु. ३ AP मिग. ४ A सुरवमालि. ५ A कुद्धइ; P कुइएण.

5 १ P उप्पहि पहि. २ AP णं णहि विलग्ग साहणसुकित्ति. ३ AP चलविलियअंग.
 ४ A उव्वेयउ. ५ AP दीहरदुद्धरं.

4 1 b सि हि अग्निः; वायवेउ वायुवेगः. 3 b पुण्ण कालु पूर्णमायुः. 4 a वि सि सर्पः.
 5 b बलिपुत्तु बलिपुत्रो वाली. 6 b पाणिट्ठु प्राणेष्टम्. 9 a छिवंति स्पृशन्ति. 11 a सुरव रालि
 सुरवरश्रेणिः. 12 ओत्थरिए उच्छ्रिते सति; भीरु कातराः.

5 5 b सससारंगवग्गु शशमृगसमूहः. 7 a सिरेत्यादि मस्तकपद्मारोपितस्वहस्तेन. 8 b पहिउ
 प्रथितः. 9 b खइरवणंतरालि खदिरवनमध्ये.

घत्ता—सुग्गीवें सेविउ सीरधरु लद्धउ सहयरु चक्रवइ ॥ 10
तं णिसुणिवि रूसिवि सण्णहिवि णिग्गउ बालि खगाहिवइ ॥५॥

6

गंभीरतूरकोलाहलाइं	सुग्गीववालिखेयरबलाइं ।
अब्भेहइं कयरणकलयलाइं	सरपसरपिहियपिहुणहयलाइं ।
वणवियैलियपिच्छिललोहियाइं	पयघुलियंतावलरोहियाइं ।
मोडियरहाइं फाडियधयाइं	आसियणहाइं तासियगहाइं ।
लुयददगुडाइं हयगयघडाइं	ताडियथडाइं पाडियभडाइं । 5
खयपेक्खराइं गयपक्खराइं	चुयहरिवराइं कंपियधराइं ।
तुट्टुच्छराइं बहुमच्छराइं	मरणिच्छराइं खणमुच्छराइं ।
वंचियपराइं पहरणपराइं	मयणिम्भराइं हर्यभयभराइं ।
ता तहि रणंति पीणियकयंति	सामंतकंति वेयालवंति ।
कंतीइ चंदु रिद्धीइ इंदु	किलिकिलिपुरिंदु धाइउ खगिदु । 10
तें भणिउं भाइ रे रे अराइ	विजाहराइं मेल्लिवि सजाइ ।
पहुमाणदहं खल दुव्वियहं	वज्जियगुणहं सुग्गीव संदं ।

घत्ता—मेल्लेपिणुं सेव महंतणिय बंधुणिबंधंइ तिलरिणइं ॥
पइसरिवि सरणु भूगोयरहं जीवेसहि भणु कइ दिणइं ॥ ६ ॥

7

मा पावहि आहवि पाणणासु	जज्जाहि पाव किक्किधवासु ।
तं वयणु सुणिवि सुग्गीउ चवइ	पइं फेडिवि जइ मइ णाहिं थवइ ।
तो लक्खणु भूगोयरु णिरुत्तु	अह णं तो पइं णिप्फलु पउंत्तु ।
ते बे वि लग्ग विज्जाबलेण	पुणु हुयवहेण पुणु पुणु जलेण ।
पुणु तरुवरेण पुणु मौरुएण	पुणु फणिणा पुणु विणयासुएण । 5

६ AP सण्णहिवि.

6 १ A आमिट्टइं. २ A^० विहलिय^०. ३ AP फाडियधयाइं मोडियरहाइं. ४ AP तासिय^०.
५ A पेक्खराइं. ६ A हियभय^०. ७ A^० दहु. ८ A दुव्वियदु. ९ A गुणदु. १० A संदु.
११ मेल्लिवि सेवा. १२ AP बंधुणिबद्धइं.

7 १ A णिरुत्तु. २ AP मारुवेण.

11 सण्ण हि वि सत्ताहं कृत्वा.

6 2 b^० पिहु^० विस्तीर्णम्. 3 a वण विय लिय^० व्रणविगलितम्; ^०पि च्छिल^० जडं सधनम्.
7 b मरणि च्छिराइं मृत्युवाञ्छकानि. 11 b सजाइ स्वजातीन्. 13 तिलरिणइं स्नेहश्रृणानि.
14 कइ कति.

7 1 a आहवि रणे. 5 b विणयासुएण गरुडेन.

जुञ्जिय बेणिं वि पुणु भणइ जेदु मइ कुइइ रक्खइ कवणु इदु ।
 ता भासइ तहिं राहवकणिदु तुहुं ण मुणहि सिदु अणिदु विदु ।
 हउं विदु देउ दसरहकुमारु हउं विदु सदुद्विट्ठियकुठारु ।
 णउं दिण्ण हत्थि रे देहि घाय तुह पव्वहिं कुइइ रामपाय ।

घत्ता—जइ जिणवरु सुमरिवि संतमणु चरहि सुदुइरु तववरणु ॥ 10
 तो चुइइ महु रणि वइरि तुहुं जइ पइसहि रामहु सरणु ॥ ७ ॥

8

ता हसिउ पंचलेण बलिरायपुत्तेण संगामपारंभपम्भारजुत्तेण ।
 भूयरणरिंदस्स किं तस्स किर थामु तुहुं गणिउ जगि केण अण्णेक्कु सो रामु ।
 जइ अत्थि सामत्थु ता मेरुगिरितुंगु मइ जिणिवि रणरंगि अवहरहि मायंगु ।
 अक्खिवसि किं मुक्ख पक्खिदवरपक्ख किं कुणसि मइ कुइइ सुग्गीवि परिरक्ख
 रत्तोवलित्तेहिं दरिसियपहारेहिं गुणधम्ममुक्केहिं वम्मावहारेहिं । 5
 मारणकइच्छेहिं दुज्जणसमाणेहिं ता बे वि उत्थरिय विप्पुरियबाणेहिं ।
 कोडीसरत्तेर्ण णिवूढगावाइं छिण्णाइं चावाइं जमभउहभावाइं ।
 अण्णाइं गहियाइं अण्णाइं मुक्काइं चिंधाइं रूदद्धयंदेहिं लुक्काइं ।
 धावंत वेवंत सरभिण्ण हिलिहिलिय अंतावलीखलिय महिवादि रुल्लुघुलिय
 गयघायकडयडिय रह पडियजोत्तार भड भीम थिय बे वि संगामरुत्तार ॥10
 अग्गिदु ते वालि लक्खण महावीर थिरहत्थ सुसमत्थ सुरगिरिवंराधरि ।
 तडिइंदसरलेहिं तरलेहिं खग्गेहिं संवरणपइसरणणीसरणमग्गेहिं ।
 खणखणखणंतंहेहिं उग्गयफुल्लिगेहिं जिगिजिगियधारापरंजियपयंगेहिं ।

घत्ता - रणसरवरि हयमुहफेणजलि सोणियधाराणालचलु ॥

असिचंचुइ लक्खणलक्खणिण तोडिउ वालिहि सिरकमलु ॥८॥ 15

३ AP दोणि, ४ AP णो दिण्णु.

8 १ बालेण, २ A अक्खवसि, ३ A परपक्खु; P परक्खु, ४ A कोडीसरत्तेहिं, ५ AP रुंद-
 द्ययंदेहिं, ६ A मुक्काइं, ७ AP हय घुलिय, ८ AP कंतार, 9 A धराधीर, १० A संवरण^०,
 ११ A पराजिय^०, १२ AP असिधाराचंचुइ लक्खणेण.

7 a राहव कणिदु लक्ष्मणः; 7 b सिदु सायाः लक्ष्म्याः इष्टो बल्लभः; सा लक्ष्मीर्वा इष्टा यस्य; अणिदु
 अनिष्टस्तव शत्रुः; विदु विशेषेण इष्टः सुग्रीवस्य अहम्, 8 a विदु वासुदेवः; b विदु वीनामिष्टो गरुडः;
 ० अद्वियकुठारु अस्थिकुठारः.

8 4 a अक्खिवसि आक्षिपसि उत्पाटयसि; b परिरक्ख परिरक्षाम्, 5 b वम्मावहारे हिं
 मर्मापहारकैः, 6 b उत्थरिय युद्धार्थमुत्थितौ, 8 b रुदद्धयंदेहिं रौद्रार्थचन्द्रबाणैः; लुक्काइं लुप्ताः,
 10 a गयघाय^० गदाघातेन, 13 a उग्गयफुल्लिगेहिं उत्पन्नामिकणैः; b ० परजियपयंगेहिं पराजित-
 पतकैः पराजितसूरीः, 15 असिचंचुइ खड्गचञ्च्वा; लक्खणलक्खणिण लक्ष्मण एव सारसस्तेन.

9

फोडिवि रणि वइरिहि सिरकरोडि
दिण्णी सुग्गीवखगाहिवासु
मेह्लेप्पिणुं लक्खणु लंछिधामु
गहियइं णियकुलविंधइं वंराइं
पुरवरि घरि मंडलि णिहिय भिच्च
आरुहिवि महाघणवारणिंदु
संपत्तु जणहणु पुण वि तेत्थु
तहु पायपणइ सीलें करेवि

किलिकिलिपुरेण सहं गामकोडि ।
एवडु फुरणु भणु भुषणि कासु ।
सुपसण्णु महाजसु जासु रामु ।
सीहासणल्लत्तइं चामराइं ।
बहुवुद्धिवंत णिच्चिच्च सच्च । 5
सहुं सुग्गीवेण णरिंदचंदु ।
णिवसइ वणंति बलहहु जेत्यु ।
लक्खणु सुग्गीव चवंति बे वि ।

यत्ता—महिरूढउ वारियसूरकरु कामिणिवेल्लिविलासधरु ॥

तुहुं देव पयावहुयासणिण हेलइ दड्डुउ वालितरु ॥ ९ ॥ 10

10

ता पिसुणमरणसंतोसिपण
जित्ताहवेण सहं माहवेण
किक्किंधपुरहु दिण्णउं पयाणु
महिणहयरहं रिउरोहिणीउ
मंडलिय मिलिय वियलियसंगव्व
णहु दीसइ णउ छायउं धपहिं
करताडिय गज्जइ गमणभेरि
उण्णिहिय रामणगिलणमारि
करिमयचिक्खिल्लद्रंहि णिमण्णु

मेल्लिवि तं उववणु ववसिपण ।
सुग्गीवें हणुवें राहवेण ।
संघट्टुं पंहि जाणेण जाणु ।
चलियउ चउदह अक्खोहिणीउ ।
दिस पत्तहिं छत्तहिं छइय सव्व । 5
हरिचरणपहयधूलीरपहिं ।
भडहियवइ वड्डुइ वइरिखेरि ।
गोविंद कडक्खइ लच्छिणारि ।
संदणंसंदाणिउ वहइ सेण्णु ।

यत्ता—हरिणीलें कुंदें परियारिउ खगसारंगविराइयउ ॥

10

किक्किंधासेहरि णियवंसधरु रामे रामु व जोइयउ ॥ १० ॥

9 १ P किलिगिलि^०. २ A मन्नेप्पिणु. ३ P लच्छिवासु. ४ A चडाइं; P चलाइं.
५ P महाघणुयारणिंदु.

10 १ AP संघट्टिउ. २ A पहु. ३ AP^०सुगव्व. ४ AP^०दहि. ५ A संदणि संदाणिए;
P संदणसंदाणिए.

9 1 a^० करोडि कपालम्. 5 b णिच्चिच्च अव्यभिचारिणः. 7 a जणहणु लक्ष्मणः;
b बलहहु बलभद्रो रामः.

10 1 b ववसिपण कृतोद्यमेन. 5 a वियलियसगव्व विगलितस्वर्गाः. 7 b^०खेरि
वैक्रोषः. 3 a उण्णिहिय जागरिता; b कडक्खइ कटाक्षेण विलोकयति. 9 a^०द्रहि हृदे; b संदण-
संदाणिउ अग्नेगतथैः सह रथान् वद्ध्वा आकर्षण क्रियते. 10 हरिणीलें गिरिपक्षे इन्द्रनीलमणिना; ^०सारंग^०
पक्षे सारभूतमङ्ग धनुर्वा. 11 ^०सि हरि गिरिः; रामु व स्वस्य आत्मा इव.

11

पइसंतहिं हलहरकेसवेहिं
जहिं णिवसइ सो सुग्गीउ खयरु
तोरणदुवारि सुपसत्थियाउ
णरचित्तसारधर्णसामिणीउ
हलि धवलउ कालउ कवणु रामु
किं एहुं जि एहु ण एहु एहु
वररूवालुद्धइं जुंजियाइं
जणवयणयणइं कसणइं सियाइं
घरु आया कहिं लब्धंति इहु
सिरपणमण्णहाणविलेवणेहिं
अविचित्तियसाहसकित्तण्ह
सुग्गीवें बेणिण वि सामिसाल
तहिं दियह जंति किर कइ वि जांव

अवरेहिं मि बहुभूगोयेरेहिं ।
अवलोइउ तं किक्किधणयरु ।
दहिअवखयमंगलहत्थियाउ ।
बोलंति परोप्परु कामिणीउ ।
बिहिं रूवहिं किं थिय देउ कामु । 5
दीसइ वण्णंतरभिण्णदेहु ।
अच्चंतपलोयणरंजियाइं ।
णं हरिबलतणुछायंक्रियाइं ।
णियमंदिरु पडिवत्तीइ दिहु ।
देवंगहिं णिवसणभूसणेहिं । 10
भावें संमाणिय रामकण्ह ।
खलवलगलैथल्लणबाहुडाल ।
संपत्तउ वासारत्तु तांव ।

यत्ता—घणगयवरि तडिकच्छंक्रियइ चडिउ धरेप्पिणु इंदधणु ॥

वरिसंतु सरहिं पाउसणिवइ णं गिंभे सहुं करइ रणु ॥ ११ ॥ 15

12

कायउलइं तरुघरि संठियाइं
सरवर संजाया तुच्छणलिण
णच्चंति मोर मज्जंति कंक
चल चायय तण्हाहय लवंति
पवसियपियाउ दुहसल्लियाउ

हंसइं सरमुयणुक्कंठियाइं ।
दिसंभाय वि णवकसणब्भमलिण ।
पंथिय वहंति मणि गमणसंक ।
पउरंदरीउ जललउ पियंति ।
महमहियउ जाइउ फुल्लियाउ । 5

11 १ AP केसवहलहरेहिं. २ A °धणमाणिणीउ. ३ A हरि. ४ A थिय किउ देउ.
५ A एहु. ६ A °गल्लत्थण°.

12 १ A सरसुअणु°. २ A दिसभीय वि णं कसण°.

11 4 a णरचित्तसार° पुंसां चित्तमेव सारं धनम्. 5 a हलि हे सखि; b बि हिं रूव हिं
द्वाभ्यां शुक्लकृष्णाभ्याम्. 7 a अच्चंतपलोयण° अत्यन्तप्रलोकनेन. 8 b °तणुछायंक्रियाइं शरीरशोभा-
मयानि. 8 b पडिवत्तीइ प्रतिपत्त्या गौरवेण. 12 b गलथल्लण° गलहस्तदाने. 14 घणगयवरि
अन्नपटलमाजे; °कच्छ° वरत्रा.

12 1 a कायउलइं काककुलानि; b °मुयण° मोचने. 2 b णवकसणब्भमलिण नवीन-
कृष्णाभ्रेण मलिनाः. 4 a चायय चातकाः; b पउरंदरीय मेघसंबन्धि. 5 b जाइउ जातीलताः.

दिसंपसरियकेयइकुसुमरेणु
वरिसंतें देवें भरिउ देसु
एकहिं मिलियाइं दिसाणणाइं
अवलोइवि रामु विसायगत्यु

विं किखलें तोसिय किडि करेणु ।
जलु थलु संजायउं णिव्विसेसु ।
पप्फुलुकयंबइं काणणाइं ।
थिउ णियकओलि सण्हियहत्थु ।

घत्ता—घणु गजउ विज्जु वि विप्फुरउ णडउ सिहंडि वि मूढमइ ॥ 10
विणु सीयइ पावसु राहवहु भणु किं हियवइ करइ रइ ॥ १२ ॥

13

पुणु सरउ पवणु सचंदहासु
विमलासउ कुवलयभेयकारि
परिसंतावियपोमंतरंगु
णउ रुच्चइ रामहु वट्टमाणु
ता सुग्गीवें वुत्तउ पहाणु
मेलावहि सीयारामकामु
वसुसयसंखा वरं दुण्णिरिक्ख
वरवीर कौतकरवालहत्थ
कयरयणकिरणपरिहवविसुज्ज
पडिविजावारणि पुज्जणिज्ज
संमेयमहीहरि सिद्धखेत्ति
गुरुयणविहीइ आराहियाउ

बाणासणकयरिद्धीपयासु ।
बहुबंधुजीवदोसावहारि ।
णं रावणु दावियदुक्खसंगु ।
पियविरहिउ किच्छें धरइ प्राणु ।
केसव णिज्झायहि मंतज्ञाणु । 5
ता जाइवि सीयारामधामु ।
चउदिसहिं णिउंजिवि देहरक्ख ।
उच्चारिवि थुइमंगल पसत्थ ।
सिवश्रोसमहामुणिपडिमपुज्ज ।
कण्हें साहिय पण्णत्ति विज्ज । 10
सुग्गीवें हणुवेण वि पवित्ति ।
णाणाविहविज्जंउ साहियाउ ।

घत्ता—अण्णेकहिं अण्णहिं गिरिसिंहरि भरहि भरेण पसिद्धियउ ॥
पणवंतिउ आयउ देवयउ पुष्कयंतरुइरिद्धियउ ॥ १३ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्कयंतविरहप महाकव्वे वालिणिहणणं
रामलक्षणविज्ञासाहणं णाम पंचहत्तरिमो
परिच्छेओ समत्तो ॥ ७५ ॥

३ AP दिसि पसरिउ. ४ A चिक्खल्लें. ५ AP °कलंबइं. ६ P पाउसु.

13 १ AP °जीवबंधु°. २ AP पाणु. ३ AP धर. ४ AP परिहवियसुज्ज. ५ AP विजा.
६ A गिरिवरहे. ७ P वालिणिहणं.

6 b कि डि सूकरः. 9 a वि सा य ग त्थु विपादग्रस्तः. 10 सिंह डि मयूरः. 11 पा व सु मेघः.

13 1 a सरउ शरत्कालः; सचंदहासु चन्द्रभासा चन्द्रदीप्या सह; b बाणा सणं बाणा
असनाश्च वृक्षविशेषाः, धनुश्च. 2 a वि म ला स उ निर्मलदिशः, विशिष्टमलचित्तश्च; b कु व ल य भे य का रि
कुवलयस्य भेदकारि विकाशकारी राजा चन्द्रश्च. 3 a °पोमंतरंगु पद्मस्य रामस्य चान्तरङ्गम्.
6 b सी या रा म धा मु सी तायां पृथिव्यां आरामस्थानं शीतं वा आरामस्थानम्. 9 a कयेत्यादि कृतो
रत्नकिरणैः परिभवो विशेषेण सूर्ये यया प्रतिमया सा. 10 a पडि वि जा वार णि शत्रुविद्यानिषेधिका.
13 भरहि भरतक्षेत्रे.

राहवलक्खणाहिं जयजयघोसेण जयाणउं ॥
उप्परि दहमुहहु आरूसिवि दिण्णु पयाणउं ॥ ध्रुवकं ॥

1

मलयमंजरी—उट्टिओ रउहो विविहत्तूरसहो भग्गवईरिधीरो ॥
चैलियसाहणाणं तुरयवाहणाणं कलयलो गहीरो ॥ छ ॥

संचलंति रामि महि कंपइ	अरभरणमिउ ण फणिवइ जंगइ । 5
गयपयकुडिय कुहिणि मयपंकं	दुग्गम भावइ कयजणसकं ।
रहरहंगगइदारियविसहर	महिहर दलिय मलिय मय वणयर ।
पवणवसेण वलिर्यं विलुलियधय	हयमुहफेणसलिलपसामियरय ।
वरभडथडचुण्णीकयमहिरुह	सेण्णाउण्ण सगयणासामुह ।
सोसिय सरि सर णिसुडिय जलयर	असिविप्फुरणगसिय ससिदिणयर ॥ 10
रसिय भण्ण णाइं रयणायर	थिय देविद विसंठुल कायर ।
देसु विलंधिवि रणरहसुभु	खंधावारु धरिवि जलणिहितहु ।
आघासिउ संचारिमभवणहिं	कंताकंतहिं रहरसरमणहिं ।
असियसियारुणपीयलहरियहिं	सोहइ बहुइसहिं चित्थरियहिं ।

घत्ता—सिमिहं सुहावणउं परतरुणीसोहाखंडणु ॥ 15
मेइणिकामिणिहि णं पंचवण्णु तणुमंडणु ॥ १ ॥

2

मलयमंजरी—रयणकंतिकंतं मयरकेउवंतं विजयलच्छिवासं ॥
सायरस्स णीरं णं विमुक्कमेरं रोहिउं दसासं ॥ छ ॥

1 १ AP मलयमंजरी णाम. २ AP^१ वहरिवीरो. ३ P has कयपसाहणाणं before चलिय; K gives कयपसाहणाणं in margin and in second hand. ४ A संचलंतरामे. ५ AP^१ खुडिय^१; K gives खुडिता वा as *p*. ६ AP चलिय. ७ AP सिविर. ८ AP खंडणउं. ९ A पंचवण्णु. १० AP मंडणउं.

2 १ A रोहिओ.

1 1 जयाणउं जयस्य आनयनं जयनशीलमित्यर्थः. (i) *a* गयपयकुडिय गजपदैः शुभिता कम्पिता खुडिता वा आकुलिता विप्रमोत्रता इत्यर्थः; कु हि णि मार्गः; मयपंकं मदजलकर्दमेन. 7 *b* मय मृताः. 9 सगयणासामुह गगनेन सह दिशामुखानि आपूर्णानि. 13 संचारिमभवणहिं गच्छद्द्रुहैः दूष्यादिभिः; *b* कंताकंतहिं स्त्रीकान्तैः.

2 2 विमुक्कमेरं विमुक्तमर्यादम्; रोहिउं रुद्धं छादितम्.

गज्जिउ परबलु दुद्धरु दिट्ठउं
हणुमंतेण तरुणिकमणीएं
रामु रामरमणीउ रमाहरु
अच्छइ सायरतीरि णिसण्णउ
सज्जणु अहिणवजलहरणीसणु
विणोविंसु वरखयरपहुत्तणु
फार लच्छि देव वि घरि किकर
एंतु ण एंतु होंतु बलदप्पिय
णिहिल जंति तिमिरु व दिवसयरहु
एक्कु जि दोसुं णवर परमेसर

चारएहिं दहवयणहु सिट्ठउं ।
सहुं णियभायरेण सुग्गीवे ।
खग्गपसाहियसयलवसुंधरु । 5
अज्जु कालि दुक्कइ आसण्णउ ।
तं णिसुणिवि विण्णवइ विहीसणु ।
भुवणभायणिम्मलजसकित्तणु ।
कवणु गहणु तुह किर पायड णर ।
संगरि तुह करवालझडप्पिय । 10
पइं होंतें कहिं दिहि रिउणियरहु ।
जं पइं वाहिय परणारिहि कर ।

घत्ता—पूरइ तित्ति ण वि रइ पसरइ वंछइ संगहु ॥
परवहुरत्तमणु परि वडइ दिणेहिं णियंगहु ॥ २ ॥

3

मलयमंजरी—मयणवणियचित्तो परपुरंधिरत्तो मरइ साणुअंधो ॥

पडइ णरयंधे सत्तमे तमंधे बद्धकम्मबंधो ॥ छ ॥

विसहरसुरणरविरइयसेवहु
हरिवाहिणिविज्जारहवाहहु
वज्जावत्तसरासणहत्थहु
चक्कपसूइ ण चंगउं दावइ
अण्णहु किंकिंधेसु ण रप्पइ
अण्णहु मारुइ किं घरु आवइ
अण्णहु पंचयणु किं वज्जइ
अण्णे धरणिधेणु किह वज्जइ

धीरहु वसुसंखावलएवहु ।
भीमगयाहलमुसलसणाहहु ।
दिज्जउं घरिणि देव काकुत्थहु । 5
लक्खणु वासुएउ महुं भावइ ।
अण्णहु किं रणि वालि समप्पइ ।
किं पण्णत्तिविज्ज परिर्धावइ ।
अण्णु एव किं लच्छिइ छज्जइ ।
मारुडविज्ज ण अण्णहु सिज्जइ । 10

२ A रमणीयरमाहरु. ३ AP विणमिवसुंधर. ४ A भवणभाविणिम्मल^१; P भुवणभाइ णिम्मल.
५ A वर किकर. ६ A एंतु. ७ AP णवर दोसु.

3 १ A णरइंधे. २ A ^१विजाहर^०. ३ A दिज्जइ. ४ AP देव घरिणि. ५ A अण्णु वि.
६ A परिहावइ.

3 b चारए हिं दूतैः. 5 a रामरमणीउ स्त्रीणां मनोहरः; रमा हरु लक्ष्मणः. 8 b भुवण भाय^० भुवन-
भागेषु. 9 b पायड णर सामान्यनराः. 10 b ^०झडप्पिय प्रहताः. 12 b वाहिय क्षिप्ता अपहृता इत्यर्थः.

3 1 ^०वणिय^० व्रणित्तम्; साणुअंधो सानुबन्धः पुत्रकलत्रादिसहितः. 3 b वसुसंखावलएवहु
अष्टमबलभद्रस्य. 5 b काकुत्थहु रामस्य. 6 a चक्कपसूइ द्वितीयचक्रप्रसूतिः. 7 a रप्पइ रागं करोति.
9 a पंचयणु पाञ्चजन्यः.

परबहु इह पर परिहवगारी
केवलिभासिउ देव ण चुकइ

अण्णु वि जाणइ धूयँ तुहारी ।
देहि बलहु जा णियइ ण दुकइ ।

घत्ता—जंपइ दहवयणु भो जाहि जाहि जइ भीयउ ॥

पूरइ आहयणि भइ कुंभयणु महु बीयउ ॥ ३ ॥

4

मलयमंजरी—रे विहीसणुत्तं किं तए अजुत्तं मुयसु मंहिणिवासं ॥

हीणदीणवेसो चरणघुलियकेसो जाहि रामपासं ॥ छ ॥

हउं किं पुणु परिवाडि ण जाणमि
एण भिसेण दंतपहविमलइं
तणुंसीयइ दंतंहं मलु फिट्टइ
ता पणवंतु थंतु हेट्टामुहु
छेउ णिहालिउ वंधुसणेहहु
मंतिमईहिं मंतु अवलोइउ
एउं रहंगु खगिंदणिसुंभउं
हा रावणु जियंतु णउ पेक्खमि
बलवंतइ विवक्खि असहायहं
इय चिंतनु णिसिहि णीसरियउ

जो ण समिच्छइ सा णउ माणमि ।
खुडमि रामलक्खणसिरकमलइं ।
विणु सीयइ महु किं ण पयँट्टइ । 5
कसणाणणु णं गम्भिणिउररुहु ।
णिग्गउ वंधुसु गउ णियगेहहु ।
भायरेण मणु णिच्छइ दोइउ ।
जोयउ णाइ कुलीरहु डिंभउं ।
परहु जंति णियकुलसिरि रक्खमि । 10
तण्णसु भल्लारउ रायट्टं ।
दिट्ठु समुहु तेण जलभरियउ ।

घत्ता—झिज्जइ चंदु जइ तो सायंरजलु ओहट्टइ ॥

पडिवणुणउं गुरुहुं आवइकालि ण फिट्टइ ॥ ४ ॥

5

मलयमंजरी—जइ वि णिच्चवंको देहए ससंको तो वि एस चंदो ॥

सायरस्स इट्ठो माणसे पइट्ठो कंतियाइ रंदो ॥ छ ॥

हउं पुणु खलु चुकउ मज्जायहि
इय जूरंतु जाम णहि यच्चइ

बंधुवइरि किं जायउ मायहि ।
ता रामहु विसारि संसुच्चइ ।

७ P श्रीय. ८ A हो जाहि.

4 १ A मह णिवासं. २ AP पुणु किं. ३ A पडिवाडि. ४ A जो. ५ A तणे सीयए.
६ AP दसणहं. ७ A पइट्टइ. ८ A वंधसणेहहु. ९ A एहु. १० A जोयउ. ११ P तण्णवेसु.
१२ A सायर जलु. १३ P adds वि after कालि.

11 a पर परभवे. 12 b बलहु रामस्य. 14 आहयणि मंग्रामे.

4 1 महि णि वासं भूग्रासम्. 3 a परि वा डि अनुक्रमम्. 5 a तणुसीयइ तृणसीतया (?)

11 b तण्णसु तस्मिन् विपक्षे प्रवेशः.

5 1 देहए शरीरे; ससंको शशः अङ्करूपेण. 4 b विसारि दूतः

देव विहीसणु दंसणु मग्गइ	तुह चरणारविंदु ओलग्गइ ।	5
पेक्खु पेक्खु णहि आयउ वट्टइ	जिह पडिवणु णहु णोहट्टइ ।	
तिह हरि ^१ करि तुहुं बेण्णि वि पत्थिय	तेण दसासवित्ति अवहत्थिय ।	
ता रामे सुग्गीवहु पेसणु	दिण्णउं आणहु तुरिउ विहीसणु ।	
गय ते तंहि सो वि सुपरिक्खिउ	णिरु णिग्भिञ्चु भिञ्चु ओलक्खिउ ।	
आणेप्पिणु दाविउ हलधारिहि	पणविउ दाणविंदकुलवइरिहि ।	10
ते संमाणिउ रावणभायरु	किउ संभासणु सहरिसु सायरु ।	

घत्ता—चिचु चित्ति मिलिउं जगि परु वि बंधु हियगारउ ॥
बंधु जि परु हवइ जो णिञ्चु जि वड्डियवइरउ ॥ ५ ॥

6

मलयमंजरी—पुरिससोक्खगाही अहियदेहेवाही तिव्वदुक्खवेल्लि ॥		
कुणइ कैह वि आयं सुण्णरणजायं ओसहं सुहेल्लि ॥ छ ॥		
रावणरज्जदाणु वित्थिण्णउं	रामे तांसु तिवायइ दिण्णउं ।	
गय कइवय वासर तंहिं जइयहुं	हणुणं वुत्तु हलाउहु तइयहुं ।	
दे आणसु देव णउ थक्कमि	एवहिं लंकाहि संमुहु दुक्कमि ।	5
भीमे वाणररूवे वड्डमि	डहमि घरइं भड्डंभंडणु कड्डमि ।	
भंजमि वणइं लवल्लिदललंबइं	फलणवियंगइं पल्लवतंबइं ।	
ता दसरहसुएण परबलहर	अरि करिदंतंघट्टदीहरकर ।	
कामरूवधर णावइ सुरवर	तासु सहाय दिण्ण विज्जाहर ।	
वाणरविज्जइ वाणर होइवि	सयल वि गय लंकाउरि जोइवि ।	10
गयणविलग्गदेह गिरिपहरण	वुक्करंत वग्गिय मग्गियरण ।	
पुंछवलयवलइयतरुवरसिल	चरणचारचालियधरणीयल ।	
छिब्बरणास दीहदंताणण	पिंगलणयण छोहभीसावण ।	
धाइय पत्त दसासहु पट्टणु	मारुइणा जोइउ गंदणवणु ।	

घत्ता—हरिकररुहवणिउं आलग्गसुरहिणवचंदणु ॥ 15
वणु महु आवडइ णं लच्छिहि केरउं जोव्वणु ॥ ६ ॥

5 १ AP करि हरि. २ AP तंहिं जि सो.

6 १ A ^०देववाही. २ A दुक्खमल्ली; P दुक्खवेल्लि. ३ AP कहि वि. ४ A मुहेल्ली.
५ AP तासु वि वायइ. ६ P देहाणसु. ७ P भड्डंभंडणु. ८ A विल्लदललंबइं; P लवल्लिदललंबइं.
९ P ^०करिकंत. १० AP छिब्बर^०.

7 a हरि हे विणो.

6 1 ^०सोक्खगाही सुखोद्दालकः; अहियं न हितः. 2 सुहेल्लि सुखम्. 3 b तिवायइ त्रिवारवचनेन. 6 b भड्डंभंडणु कड्डमि सुभट्संप्राममुत्पादयामि. 13 a छिब्बरणास पृथुनासिकाः; b ^०छोहं क्रोधः. 15 हरिकररुहवणिउं विण्णुनखवणितम्. 16 आवडइ भासते.

मलयमंजरी—रूढबालकंदं देवदारुमंदं सूरकिरणवारं ॥

दिष्णकुसुमवासं दिव्वमिहुणवासं जणियमयणसारं ॥ छ ॥

इंदसरासणेण घणउलमिव णीलतमालणिद्धयं ।

वणमंजणसुएण लंगूलं चउहिं वि दिसहिं रुद्धयं ॥ १ ॥

सुरकरिसोडंभुयदंडवलेण चलेण पेल्लियं ।

5

मोडियमहिरुहोहसंघट्टणचुयचंदणरसोल्लियं ॥ २ ॥

करंमरकडहकुडयकडयंडरवउड्ढावियविहंगयं ।

भग्गणवल्लफुल्लपल्लवदलगयगुमुगुमियभिगयं ॥ ३ ॥

णिविडवडालिवंदणुमूलणविहडावियरसोयलं ।

णिग्गयसविसफरुसफुक्कारभयंकरसमणिफणिउलं ॥ ४ ॥

10

चूरियचारचूयचंवच्चिचिणिसमिलवलीलवंगयं ।

पायाहयपलोट्टचंपयचयंदलवट्टियकुरंगयं ॥ ५ ॥

दलियलयानिवासणिण्णासियसुरवरखयरइसुहं ।

सुकट्ठिणकरंतलण्णमुसुमूरियकीलागिरिगुहामुहं ॥ ६ ॥

पविमलमणिसिलायलत्थल्लणदिग्गयजक्खकंतयं ।

15

सरवावीणिबद्धविद्धंसियकीलासलिलजंतयं ॥ ७ ॥

हयवित्थिण्णसाहिसाहाचुंयवहुमहुविंदुतंबयं ।

पडियकवित्थभग्गकिंणरकरवीणालग्गतुंबयं ॥ ८ ॥

दृरुद्धरियविडविमूलुज्झियविवरणिलीणसावयं ।

पडिगवतसियंरमियविवियाणणवाणरविरइयावयं ॥ ९ ॥

20

खंडियतुंगमडुसिहंरुंइयहंसविमुक्कसहयं ।

णिवडियणालिपरसालामलफलमालाविमहयं ॥ १० ॥

घल्लियसुक्करुक्खसंघट्टसमुग्गयजलणजालयं ।

दडुपियंगुपिगउच्छलियफुल्लिगपलित्ततमौलतालयं ॥ ११ ॥

मुक्कतिसूलसेल्लसरघोरणिसच्चलभिडिमौलयं ।

25

धाहयभिउडिभंगभीसावणभिडिउज्जाणवालयं ॥ १२ ॥

7 १ AP °चंडसुंडभुय°. २ A करमरकुडयकडय; P करमरकुडहकुडयकडय°. ३ AP °कडय-डसरउडु°. ४ A णिवडियडालि°; P णिवडवडालि°. ५ AP °रसालयं. ६ AP °चविचिचिणि°. ७ AP °चंपयरदल°. ८ P वडुयि°. ९ A °खरतलण°. १० P omits बहु. ११ AP रसियतसिय°. १२ A °सिहंरुंइय°. १३ AP omit तमाल. १४ A °भिडमालयं.

7 1 °मंदं प्रचुरम्. ३ घणउलमिव मेघपटलवत्; णिद्धयं स्निग्धकान्तिमत्. 7 °कडयंडरव° कटकटादाब्दः. 9 °वडालि° वटवृक्षश्रेणिः; °वदण° रक्तचन्दनः. १२ °चंपयचयं° चम्पकवृक्षसमूहः. 14 °करतलण° कप्रहारः. 20 °विवियाणण° विकसितमुखाः. 25 °भिडिमालयं° गोफणी.

घत्ता—विजाणिम्मियहिं अहंभीमहिं मायारक्खहिं ॥
पावणि वेढियउ रावणणंदणवणरक्खहिं ॥ ७ ॥

8

मलयमंजरी—संगरम्मि रुद्धा पमयएहिं रुद्धा वूढवीरमाणा ॥
मारिया अणेया जित्तहरिणवेया रक्खसा पलाणा ॥ छ ॥

अवर वि आया मायाणिसियर	लउडिमुसुंडिकुंतकंपणकर ।
कुडिल बद्धमच्छर इच्छियकलि	जलियजलणजालाकेसावलि ।
गुजापुंजरत्तणेत्तुम्भड	दाढाचंडतुंड पललंपड ।
दीहंदीहजीहादललालिर	परवलघोलिर हूलिर सुलिर ।
ताहं रणंगणि दावियरुंडहिं	लग्गा वलिमुह गिरिसिलखंडहिं ।
सरपुंखहिं भमरेहिं व मंडिय	जिह वणि तरु तिह ते रणि खंडिय ।
जिह वेळिउ तिह अंतइं छिण्णइं	जिह पत्तइं तिह पत्तइं भिण्णइं ।
जिह ताडहलइं तिह रिउसीसइं	पाडियाइं धरणीयलि भीसइं ।
जिह उजाणहु णट्टइं चक्कइं	तिह रिउरहंवारि भग्गइं चक्कइं ।
जिह सर तिह विद्धंसिय रिउसर	लंकाणयरि पइट्टा वाणर ।
घरि घरि चडिय जलंतहिं पुंछहिं	णीसारियउ जलणु पिंगच्छहिं ।
दहइं णायरभवणसहासइं	जालाहार व धाहामीसइं ।

घत्ता—लग्गउ वइरिपुरि हुयवहु हणुवंतें धित्तउ ॥ 15
राहवकोवसिहिं णं दुण्णयतणेण पलित्तउ ॥ ८ ॥

9

मलयमंजरी—छइयकेउसोहो णयणचांरुहो जणियलोयवसणो ॥
चडइ गयणि धूमो रावणस्स भीमो दुज्जसो व्व कसणो ॥ छ ॥
धूमंतरि जालोलिउ जलियउ णं णवमेहमज्झि विज्जुलियउ ।

१५ AP अहंभीयहिं.

8 १ A एम एहि रुद्धा. २ AP ०नेत्तरत्तुम्भड. ३ AP जीहदीह°. ४ A भमरिहिं णं; P भमरहिं णं. ५ AP पव्वइं; K पत्तइं and gloss वाहनानि. ६ A रिउ रहे रहे; P रिउं रहवरे.

9 १ P चारुणेहो.

8 1 प म य ए हिं वानरैः; वूढवीरमाणा धृतवीराहंकाराः. 2 जि त्त ह रि ण वे या जित्तहरिण-वेगाः, भृगवन्नष्टा इत्यर्थः. 6 a दीहदीह° अतिदीर्घा. 7 b व लि मुह वानराः. 9 b पत्तइं वाहनानि. 16 दु ण् ण य त णे ण सीतापहरणरूपान्यायनृणेन; प लि त्त उ प्रदीप्तः.

9 1 छ इ य के उ सो हो आच्छादितध्वजशोभः; अन्यत्र, तिरस्कृतकेतुर्ग्रहविशेषः.

पुणु वि ताउ सोहंति पईहउ
संदाणियसीमंतिणिदेहउ
घरसिरकलसु वलंतें छित्तउ
सहयरु छंदगामि णउ मुणियउ
उग्गु ण सज्जणपक्खु विहावइ
गमणं जासु होइ काली गइ
वरमंदिरजडियइं माणिकइं
तेयवंतु परतेउ ण इच्छइ
डज्जंतहिं चंदणकप्पूरहिं
रयभमरइं उक्कोइयमयणइं
जिणवरवेसणिसेहकयत्थइं

णं चामीयरतरुवरसाहउ ।
सिहिणा पसरियाउ णं बाहउ । 5
सरिउणिवासु व पउलिधि धित्तउ ।
धउ परिघोलमाणु किं हुणियउ ।
उड्ढगामि किहं परु संतावइ ।
तहु किर किं लब्भइ सुद्धी मइ ।
डहइ अछेयपहापईरिक्कइं । 10
सइं जि पहुत्तणु विहवहु वंछइ ।
पउरसुरहिपरिमलचित्थारहिं ।
वासियाइं सयलइं दिसवयणइं ।
दड्ढइं मउदेवंगइं वत्थइं ।

घत्ता—घरदुवारु जलइ वरपोमरायविप्फुरियउं ॥ 15
जालापल्लवेहिं णं दीसइ तोरणु भरियउं ॥ ९ ॥

10

मलयमंजरी—दहमुहस्स कम्मं मुक्कणायधम्मं जाणिउं व कुद्धो ॥
उक्कवाणजालं मुयइ णं विसालं सिहिं सिहासमिद्धो ॥ छ ॥

होमदव्वरासिउ संपत्तउ
हुरुहुरंतु णं संति पघोसइ
होउं संधि जीवउ महिमाणु
एत्तहि अग्गिजाल पवियंभइ
माय ण पुत्तहंडु संमंगइ
भवणारोहणु करिवि अभग्गउ

तिलजवघयकप्पासहिं तित्तंउ ।
दिज्जंउ रामहु सीय महासइ ।
भुंजउ लच्छि अविग्घं दसाणणु । 5
एत्तहि वाणरविदु णिसुंभइ ।
जणु हल्लोहलिहुउ कहिं णिग्गइ ।
णं वइसाणरु जोयहुं लगउ ।

२ A चंडंतें; P बलवंतें, but K वलंतें ज्वलता. ३ A किं परु. ४ AP कहिं. ५ A परबलु पेक्खिवि
णावइ थक्कइं. ६ P परिथक्कइं. ७ P तेयमंतु. ८ A रइभवणइं. ९ A जिणवरभवणणिसेह^०; P जिणवर-
वेसणिवंस^१. १० P सरियइं.

10 १ A सित्तउ. २ A दिज्जहो. ३ A होइ. ४ A अविग्गु. ५ AP सामग्गइ.

4 a पईहउ प्रदीर्घाः. 5 a संदा णिय^० अग्निना बद्धः. 6 a वलंतें ज्वलता; b सरिउणिवासु स्वस्य
अग्नेः रिपुः शत्रुर्जलं तस्य स्थानं कलशो घटः तंन प्रज्वाल्य क्षितः. 7 a सहयरु अग्नेर्मित्रं वायुः. 9 a
काली कृष्णा. 10 b अछेयपहापइरिक्कइं अरुछेयप्रभाप्रचुराणि. 13 a रयभमरइं रता भ्रमरा येपु;
उक्को इयमयणइं उत्पादितकामानि. 14 a जिणवरवेसणिसेहकयत्थइं नम्रत्वनिषेधकानि वस्त्राणि.
16 भरियउं बद्धम्.

10 3 b तित्तउ तृप्तः. 6 a पवियंभइ प्रविजृग्भते. 7 a पुत्तहंडु पुत्र एव भाण्डम्;
संमग्गइ संवृणोति.

केसिय लंकाउरि मइं द्दही
बाहिरपुरवरु प.म डहेप्पिणु
चँलिउ पडीवउ पावणि तेत्तहि

णं विडेण कामिणि दुवियद्धी ।
कित्तिमणिसियरणियरु वहेप्पिणु 110
णिवसइ सँसिबिरु राहउ जेत्तहि ।

घत्ता—भरहें लक्खणेण सहुं सीरपाणि अँवलोइउ ॥
तेणंजणाहि सुउ सियपुष्पयंतु पोमाइउ ॥ १० ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारं महाभव्वभरहाणुमणिण
महाकइपुष्पयंतविरइण महाकव्वे णंदणवणमोडणं लंकाडाहं
णाम उहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७६ ॥

६ A वलिउ. ७ A ससिवस; P ससिवह. ८ P omits लंकाडाहं.

9 b का मि णि दु विय द्दही अचतुरा वेश्या. 11 a पडीवउ प्रतीपं पश्चात्. 13 पोमाइउ प्रशसितः
श्लाघितः.

वणु भंजिवि पुरवरु णिडुहिवि हणुंइ णियत्तइ जयसिरिकामे ॥
अज्ज वि किं णावइ खयरवइ पुच्छिउ एम विहीसणु रामे ॥ ध्रुवकं ॥

1

हेला—सो तेलोक्ककंटओ सहइ किं पराणं ॥
धणुगुणरववियंभियं विलसियं सराणं ॥ छ ॥

ता भणइ विहीसणु भयणिरीहु	जइ गिरिवरकंदरि वसइ सीहु । 5
तो करि कुरंग किं तेहिं चरंति	कायर तहु गंधण जि मरंति ।
महिंवइ लंकहि जइ होतु देव	जीवंत पंति तो भिच्च केंव ।
तें जीणिउं तुहुं चालिहि कयंतु	रइवइसुग्गीवसहायवंतु ।
जसु भाइ अणंतु अणंतधामु	सो विज्जइ विणु कहिं जिणमि रामु ।
इय चित्तिवि होइवि सुइसरीरु	इंदइ णियरंक्ख करेवि धीरु । 10
आइच्चपायमहिहरि दसासु	थिरु विरण्णिणु अट्टोववासु ।
अच्छइ विज्जासाहणपयत्तु	णेरंतरु ज्ञाणारूढचित्तु ।
तं णिसुणिवि आढत्ताहवेण	विज्जाहर पेसिय राहवेण ।
धाइय ते दुद्धर विग्गकारि	हलमुसलसंवालतिसुलधारि ।
घत्ता—णहि जाइवि दिणयरचरणगिरि मायावाणरेहिं कयरावहिं ॥ 15	
वेढिउ विंझु व जलहरहिं गज्जणसीलहिं दरिसियचावहिं ॥ १ ॥	

2

हेला—घोरणीलवण्णया छण्णगयणभाया ॥
आहूया घणाघणा मुक्कधीरेणाया ॥ छ ॥

वाँओलिधूलिबहलंधयारु गंडगडिय पडिय पाहाणफारु ।

1 १ P भुंजिवि. २ A हणुवणियत्तइ. ३ A तिलोक्कं; P तहलोक्कं. ४ A तहि किम चरंति.
५ AP जइ महिवइ लंकहि होतु. ६ P तो जाणिउं. ७ AP णियरक्खणु करिवि. ८ P साहणि.
९ A सवणत्तिसुलं.

2 १ AP 'वीर'. २ P वाउधूलियबहलं. ३ P गयघडियं.

1 1 हणुइ हनूमति; णियत्तइ निवृत्ते सति. 5 a णिरीहु निःस्पृहः निर्भयः. 8 a तेंरावणेन;
b रइवइ हनूमान्. 9 a अणंतु लक्ष्मणः; अणंतधामु प्रचुरतेजाः. 10 सुइसरीरु पवित्रशरीरः;
b इंदइ इन्दजित्. 11 a आइच्चपायमहिहरि आदित्यपादगिरौ. 13 a आढत्ताहवेण प्रारब्ध-
संग्रामेण. 14 b b 'सवालं करवालिन खड्गेन सह. 15 दिणयरचरणगिरि आदित्यपादनामा पर्वतः.

2 2 आहूया संजाताः; घणाघणा शब्दैर्निरन्तरा मेघाः. 3 a वाओलिं चक्रवातो वात्या.

णिवडिय तडि फोडिय गिरिखयालु
जलुं थलु महियलु जलभरिउ सयलु
दरिसिउ मंदोयरिकेसगाहु
बंधवसिरकमलइं तोडियाइं
कुड्डउ दसासु झाणाउ ढल्लिउ
इंदइणा कहिउं खगेसरासु
णीसेसु वियंभिउ णहु ताव
ता रायं विज्जादेवयाउ
आथैउ ताउ पंजलियराउ

वरिसाविउ तक्खणि मेहँजालु ।
पइ ढोइउ आयसवलयणियलु । 5
भहु कुंभयणु फणिबद्धबाहु ।
वच्छयलइं विउलइं फाडियाइं ।
कहिं चंदहासु पभणंतु चलिउ ।
परमेसर खगमायाविलासु ।
तुहुं णिययणियमपम्भट्टु जाव । 10
णिज्जाइयाउ णिहियावयाउ ।
पेसणु महंति पणमियसिराउ ।

घत्ता—भणु दसकंधर धरणिधर हरहुं जीउ अरिवरहु सणामहुं ॥
अम्हहं बलवंतहं हरिबलहं तसहुं णवर रणि लक्खणरामहुं ॥ २ ॥

3

हेला—ता भणियं महेसिणा जाह जाह तुम्हे ॥
णियभुयजुयसहायया संगरम्मि अम्हे ॥ छ ॥

सक्कहुं सीरिहि लच्छीहरासु
एत्तहि इंदइ अब्भिडिउ ताहं
आवट्टइ लोट्टइ जायमणु
दरमलइ थोट्टहुंघोट्टथट्ट
पैरिखलइ वलइ हणु भणइ हणइ
रुंभइ थंभइ तरवारिधार
सीसक्कइ फोडइ तडयडत्ति
असिवरइं खलंतइं खण्णसणंति
पइसरइ तरइ कीटालवारि
इंदइ णिरत्थ कयवुढगव्व

किं वसणि दीणु भण्णइ परासु ।
मायावियाहं साहामयाहं ।
संघट्टइ फुट्टइ वइरिसेणु । 5
सुँडइ विसट्ट पडिभडमट्ट ।
उल्ललिवि मिलइ रिउसिरइं लुणइ ।
णिहँणइ विहुणइ पवरासवार ।
मुसुमूरइ छत्तइं कसमसंति ।
कडियलकिंकिणिउं झुणुणुणंति । 10
पडिक्खहु पाडइ पलयमारि ।
आयासयालि गय परमय सव्व ।

४ P मोहजालु. ५ A जलथलणहयल जलभरिय. ६ A वणदेवयाउ. ७ P आइयउ. ८ P तसहुं धरणे सहुं लक्खण^०.

3 १ A ^०दुग्घट्ट^०. २ AP साडइ. ३ AP पडिखलइ. ४ P णिहुणइ. ५ AP खल्लखलंति. ६ AP किंकिणियउ णुणुणंति. ७ A पडयमारि. ८ A पवय.

4 a गिरिखयालु पर्वतानां क्षयकालो मेघः. 5 b पइ पादे मन्दोदर्याः. 8 a ढल्लिउ न्युतः. 10 णिययणियमपम्भट्टु निजकनियमात्प्रभ्रष्टः. 12 b महंति श्लाघयन्ति. 13 सणा महुं प्रख्यातानाम्. 14 तसहुं भयं कुर्मः.

3 3 a सक्कहुं शक्नुमः. 4 b साहामयाहं वानराणाम्. 5 a जायमणु जातक्रोधः. 6 a थोट्ट^० समर्थाः; ^०दुग्घोट्ट^० दुर्घराः; b ^०मरट्ट गर्वः. 12 b पमय वानराः.

घत्ता—विहुरि वि धीरु अविस्णमणु ण चलइ किं पि सुहड्डहंकारहु ॥
लंकेसरु लंकहि गंपि थिउ खंधु संमोडिवि गुररणभारहु ॥ ३ ॥

4

हेला—कयरिउविग्घविब्भमा कमियगर्गणभाया ॥

आया राममंदिरं विविहखयरराया ॥ छ ॥

ता इच्छियणियाणाहसिवेणं	हणुमंतं सुग्गीवणिवेणं ।	
गिरिसंमेयसिहंरसिद्धाओ	अणिमाहंदि रिद्धिहिं रिद्धाओ ।	
विज्जाओ परसाहणियाओ	केसरिखगवइवाहिणियाओ ।	5
दिण्णाओ दुल्लुघबलाणं	वीराणं गोविंदबलाणं ।	
पण्णत्तीए रइयं जाणं	रयणमयं मणहारि विमाणं ।	
कूडकोडिसंघट्टियचंदं	दिव्वं कइवयजोयणरुंदं ।	
भित्तिणिरुवियचित्ति सुरूवं	बद्धसिणिद्धचिंधचंदोवं ।	
रणंझणंतमणिकिंकिणिजालं	हेममयं तोरणसोहालं ।	10
णाणाविहदुवाररमणीयं	पारंभियसुरसुंदरिगीयं ।	
आयणियणरखयरासीसो	अकखयदहिदोवंचियसीसो ।	
तत्थारूढो देवो रामो	हरि हरिसिल्लो अंजणसामो ।	
दरिसियहयमुसलंकुसपासं	भूगोयरसेण्णं णीसेसं ।	
चलियं गगणे खयराणीयं	सामिकज्जि परिछेइयजीयं ।	15
णाणाहरणविहसियदेहं	गयवरदंतवियारियमेहं ।	

घत्ता—संदाणिय णंदि ससिदिवसयर पेह्णपेह्णि जाय खगरायहं ॥

धयउत्तचलंतहं चामरहं हरिकरिरहवरभडसंघायहं ॥ ४ ॥

१ AP ण विसण्णमणु. १० AP समोडिवि.

4 १ AP गयण°. २ AP °सिहरि सिद्धाओ. ३ AP धीराणं. ४ A दिव्वा कइ°. ५ A भित्तिणिरुविय°. ६ AP चित्तसरुवं. ७ AP रुणरुणत°. ८ P omits हरि. ९ A °णहससि°. १० AP पेह्णवेह्णि. ११ P जाइ.

4 5 a परसाहणियाओ शत्रुसाधनीयाः; b केसरिखगवइवाहिणियाओ सिंहगरुड-
वाहिन्यः. 7 a रइयं जाणं रचितं विमानम्. 8 a कूड° शिखराणि. 9 a भित्तिणिरुवियचित्ति
भित्तिलिखितचित्रेण; b °चिंधचंदोवं ध्वजचन्द्रोपकम्. 12 b °दोवं चियसीसो दूर्वाञ्चित्तमस्तकः.
15 a खयराणीयं खगसैन्यम्; b परिछेइय° संकल्पितम्. 17 संदाणिय बद्धाः; पेह्णपेह्णि
संघट्टः.

5

हेला—णवणित्तिससंणिहे णहयले चलंतं ॥

मंयगलमयजले बलं दीसए वहंतं ॥ छ ॥

करिछाहिहिं जलकरिवर विलग्ग	जलणर णरवरपडिबिबभग्ग ।
धावंति मयर पलगिलेणकाम	झस सुंसुमार गंभीरधाम ।
सीमंतिणिपडिरूवइं णियंति	जलदेवयाउ सीसइं धुणंति । 5
उज्जलमोत्तियभायणधरेहिं	पवणुद्ध्यचलवीईकरेहिं ।
गज्जइ समुद्दु वाहरइ णाइ	मरुकंपियंगु भयवसु व थाइ ।
सायर लंघिवि परिहरिवि संक	वेदिय विज्जाहरणिवहिं लंक ।
किउ कलयलु रैणपडइइं हयाइं	भीरुहुं चित्तइं विहडिवि गयाइं ।
सत्त वि पायालइं थरहरंति	उम्मगलग्ग सायर तरंति । 10
विसहर भयरसवस विसु मुयंति	कुंचियकर दिसकरि कुक्करंति ।
दित्तइं णक्खत्तइं ढलढलंति	झुलंतइं णहि एक्कहिं मिलंति ।

घत्ता—वाइत्तयसइसमुच्छलेण संखोहणु जायउ तेहोक्कहु ॥

किं जाणहुं णहि तडि तडयडिय पडिउ विवु समियंकहु अक्कहु ॥५॥

6

हेला—ता भुवणुत्तुरडिणिवडणे किं हुओ णिघोसो ॥

आहासइ दसाणणो गाढजायरोसो ॥ छ ॥

भायर किं सुम्मइ घोर णाउ	किं उडुइ धूलीरयणिहाउ ।
दीसइ महिमंडलु महिहरेहिं	णहयलु संलणणउं णहयरेहिं ।
ता विहसिवि पभणइ कुंभयण्णु	अवयरिउं देव पडिवक्खसेण्णु । 5
हा हरि आढत्तउ जंबुएहिं	वइवसु जीवहिं जीवियचुएहिं ।
सेरिहु मयमत्तुरंगमेहिं	पक्खिवइ खलियउ उरजंगमेहिं ।

5 १ मयरायले जलं; P मयरायलजले. २ A °गलिण°. ३ AP रणत्तइं. ४ P भीरुहुं. ५ A बुक्करंति; P कुक्कवति.

6 १ A °त्तकडिणिवडणे; P °त्तुरडिणिवडणे. २ A महियलेहिं; P महियरेहिं. ३ A मयमत्तु.

5 1 ण व णि त्तिस सं णि हे नवीनखड्डसदशकान्तिमति गगने. 3 a करि छा हि हिं गजप्रतिविम्बैः समुद्रजले गगने दृश्यमानैः. 4 a पल गिलण काम सांसगिलने कामो वाञ्छा येषाम्. 7 a वाहरइ व्याहरति आमन्त्रयतीत्यर्थः. 8 a संक भयम्. 10 b उम्मगलग्ग उन्मार्गलयाः; तरंति वहन्ति. 12 b झुलंतइं दोलायमानानि. 14 समियंकहु मृगाङ्कसहितस्य चन्द्रसहितस्य.

6 1 °उत्तुरडि° उतरंडी इति भाषायाम्. 3 a भायर हे कुम्भकर्ण. 4 a महि हरेहिं भूगोचरैः. 6 a आढत्तउ वेष्टितः; जंबुए हि शृगालैः. 7 a सेरिहु महिपः.

किं तुज्जु वि उप्परि एंति सत्तु
लइ दुक्कउ दीसइ विहिविहाणु
तं णिसुणिवि भणितं दसाणणेण
अरिहरिण मिलेप्पिणु किं करंति
धैव पावउ भुक्खिय पलयमारि

किं तुहुं वि समिच्छहि परकलत्तु ।
भिइ एवहि पीडिवि रणि क्किवाणु ।
जीवते मइ पंचाणणेण । 10
अस्सिणहूरुअडप्पिय धुउ मरंति ।
पहणाविय लहुं संणाहभेरि ।

घत्ता—विरसंतइ णरकरयलहयइं तूरइं णाइ कहंति दसासहु ॥

राहवहु सीय णउ दिण्ण पइं किं उक्कंठिउ वइवसवासहु ॥ ६ ॥

7

हेला—कंचणकवयसोहिओ णवतमालवण्णो ॥

संझारायराइओ णं घणो रवण्णो ॥ छ ॥

संणज्जमाणु रिउतासणेण
अस्सिविज्जइ विमलइ विप्फुरंतु
भइ को वि णिहालइ वाणपत्तु
भइ को वि पलोवइ तोणजुम्मु
भइ को वि मुयइ संणाहभारु
कासु वि पइसरइ ण पुलइयंगि
किं धणुणा कयवहुसंकपण
भइ को वि भणइ हउं कौतवाहु
मायंगकुंभु णिहिकुंभुं जेव
भइ को वि भणइ महिघत्तियाइं
अवरु वि करिरयणहं देमि हत्थु

भइ सोहइ दिव्वसरासणेण ।
जीविययरु जीवणु जणहु दिंतु ।
लइ एयहु एवहि रिउ जि पत्तु । 5
णं रणस्सिरिऊरुजुयत्तु रम्मु ।
किं कासु वि रुच्चइ लोहंसारु ।
सो फुट्टइ पिसुणु व सुयणसंगि ।
चरणेण वि आहववंकपण ।
कौतें वाहमि रिउरुहिरवाहु । 10
हउं फोडमि अज्जु गयाइ तेव ।
दक्खालमि थूलइ मोत्तियाइं ।
णियणिवरिणमेल्लावणसमत्थु ।

घत्ता—इहवयणहु णिच्च विरत्तियहि को वि भणइ हियवउं संतावमि ॥

अणरसियहि सीयहि तणिय तणु राहवरत्तकुसुंभइ रावमि ॥७॥ 15

४ हुंति. ५ A इकइ. ६ AP °णहयर°. ७ A धुउ; P भउ; K धव and gloss तृप्तिम्.

7 १ P °उरुजुयरम्मु. २ AP लोहभारु. ३ A थाहमि. ४ A °थाहु. ५ A कुंभणिहि.
६ P महिथत्तियाइं.

9 a वि हि वि हा णु पूर्वाजितम्. 11 b अ मि ण हर° स्वङ्गनखाः; ° ज्ञ ड प्पि य प्रहताः. 12 a धव तृप्तिम्.

7 २ °राइ ओ राजितः शोभितः. 4 b जीवणु ग्रासवृत्तिः जलं च. 5 a वाणपत्तु वाणपुंखम्. 6 a तोणजुम्मु तूणीरयुगलम्. 8 a पुलइयंगि पुलकितशरीरे गात्रत्राणं न प्रविशति. 9 a कयवहु-
ने कए ण स्वकार्यक्षमतया कृता वधूनां वदूनां च शङ्का येन. 10 कौतवाहु कुन्तधरः; b °वाहु प्रवाहः.
14 अ ण र सि य हि अरसिकायाः अरक्तायाः; रा व मि रञ्जयामि रक्तां करोमि.

हेला—आरूढा महासवारवाहिया तुरंगा ॥

कचणसारिसजिया वोइया मयंगा ॥ छ ॥

पवणपहयविलंबियधयवडं	विविहजाणजंपाणसंकडं ।	
सयडचक्कचिक्करणपडिरवं	बद्धरोसभडभिउडिभइरवं ।	
विष्फुरंतकरवालधारयं	हणु भणंत दुक्कासवारयं ।	5
पणवतुणैवझलरिमहासरं	चित्तछत्तछणंबंतरं ।	
चलियधूलिमइलियदिसामुहं	पलयकालकालगिसंणिहं ।	
इंदचंदणाइंदतासणं	णं कयंतरायस्स सौंसणं ।	
णिगयं बलं बहलकलयलं	रहियणहयलं पिहियमहियलं ।	
दुमुदुमंतरणरहसमइलं	जाययं च पडिसुहइगौदलं ।	10
खग्घायविच्छिण्णसीसयं	हुंकरंतभूमंगभीसयं ।	
कौतकीडिसंघट्टेपेलियं	वणगलंतकीलालेरेलियं ।	
विचलियंतगुप्पंतचरणयं	हयगयासंणीदिण्णकरणयं ।	

घत्ता — पणवियराहवरामणपयइं सीयाकारणि अमरिसपुण्णइं ॥

अभिभट्टइं गिरितरुवरकरइं मायावाणरणिासियरसेण्णइं ॥ ८ ॥ 15

हेला—झंसमुभगरमुसंदिहिं णिहयणरवरंगं ॥

जायं दंडसंजुयं दूरमुकभंगं ॥ छ ॥

रहिएहिं रहिय तुरएहिं तुरय	रणि रुद्ध एतं दुरएहिं दुरय ।	
पायालहिं वरपायाल खलिय	कर्मसंचालेण धरित्ति दलिय ।	
हरिखुरखणित्तखउं णं मरंतु	उट्टिउ धूलीरउ पय धरंतु ।	5

8 १ P सारिसजिया. २ AP पवणपहयविलंबिय°. ३ A पवणरणय°. ४ AP दणुइंदतासणं.
५ P गसणं. ६ A मंदले. ७ P भीमयं. ८ AP विचलियंत°. ९ P गयसिणी°.

9 १ A झसमुसलमुसंदिहिं णिहिय°. २ A रहएहिं. ३ AP यंत. ४ AP संचारेण.
५ A णं खउ मरंतु.

8 २ सा रि° पर्याणम्. 6 a तुणव° करदा वाद्यविशेषः. 9 b रहिय° छादितम्.
12 a वण° वणः; °की लाल° रुधिरम्. 13 a विचलियंत° वृटितम् अन्वम्; b हयेत्यादि अश्व-
गजारोहकदत्तकरणकम्. 15 गिरितरुवरकरइं वानरकरे गिरयः राक्षसकरे वृक्षाः.

9 1 मुसंदि दण्डविशेषः परिघायुधं च. २ दंडसंजुयं बलयोर्युद्धम्. 3 a रहिएहिं रथिकैः;
b एत संमुखमागच्छन्तः; दुरएहिं गजैः. 4 a पायालहिं पदातिभिः. 5 a खणित्तखउं खनित्रैः
खनितः; b पय धरंतु मरणभयादिव पूर्व पादे लग्नः.

आर्यासचडिउ णं पुहइप्राणु
 चवलेण सुद्धवंसहु कएण
 दीसइ पंडुरु कविलंगु केव
 खुंप्पइ मयथिप्पिरि करिकवोलि
 महुररु पडिक्खीहुयउ तासु
 जंपाणि गवक्खहिं पइसरंतु
 रंतु भावइ मेहु णं बीउ जारु
 असिसलिलि णिलीणु णं पंकु होइ
 मउडगि पडंतु जि कुंडलासु
 मइलइ मंडलियहं उरपएसु

संताविर ते पिहिउ भाणु ।
 णिवडंतु णिवारिउ णं धएण ।
 छत्तारविंदि मयरंतु जेव ।
 भणु को णं विलग्गइ दाणसीलि ।
 किं पिच्छं फेडइ वियदिसासु । 10
 पररमणिथणत्थलि मंदं थंतु ।
 ते छाइउ दहमुहवहुवियारु ।
 चमराणिलेण उल्लिवि जाइ ।
 धावइ मेहु व रविमंडलासु ।
 ढंकइ सियहारावलिबिलासु । 15

यत्ता—रयमेलउ महलिवि भुयणयलु कलिकालेण समाणउ ॥

करिगिरिवंणणिज्झरवियलियहि सोणियजलवाहिनियहि लीणउ ॥९॥

10

हेला—जा कोट्टं पलोट्टियं कवडवाणंरहिं ॥

ता रविकित्ति णिग्गओ सहुं सकिंकरेहिं ॥ छ ॥

तओ तेण भूमीससेणाहिवेणं
 रहत्थेण सामन्थधत्थाहिएणं
 विहिजंतकंधच्छिरं छिण्णमुंडं
 ललंतंतवेढंतथिपंतरत्तं
 भिडंतं पडंतं रुसारत्तणेत्तं

पिसक्कासणुम्मुक्कजीयारवेणं ।
 तमोह व्व सारंगंबिंबंकेएणं ।
 रसालुद्धभेरंडखजंतंरुंडं । 5
 सदण्यं खुंरप्पोह्छिजंतछत्तं ।
 समुभूयपासेयधाराहि सित्तं ।

६ AP आयासि चडिउ. ७ AP पाणु. ८ A संताउ करंतु विणिहिउ भाणु; P संताव करंतं पिहिउ भाणु. ९ P पंडुर. १० P मा खुप्पइ. ११ P करिकणेलि. १२ A को वि ण लग्गइ. १३ A मंदु. १४ A णउ भावइ. १५ P णं मेहु. १६ A दहमुहमुहवियारु. १७ AP णउ. १८ गिरिवरणिज्झरं.

10 १ AP सह. २ A धम्माहिएणं. ३ A सारंगच्चिंधकएणं. ४ A रूण्णच्छिरं. ५ A तुंडं. ६ A खुरूपेहि: P खुरूपोहं.

6 b संताविर तापकारी; तं रजसा. 7 b धएण ध्वजेन. 9 a मयथिप्पिरि मदक्षणेन; करिकवो लि गजकपोले. 10 b चियदि सासु व्यामदिग्वदनम्. 12 रउ रजः; b दहमुहवहुवियारु दशमुखवधु- विकारः. 14 b मेहु व रविमंडलासु सूर्यस्य छादनार्थं अन्नपटलमिव धावति. 15 a उरपएसु हृदय- प्रदेशम्. 16 रयमेलउ रजःसमूहः. 17 करिगिरिवणणिज्झरवियलियहि गजा एव पर्वताः तेषां ऋणनिर्झरणविगलितायां नद्याम्.

10 1 कोट्टं दुर्गः; पलोट्टियं पातितः. 2 रविकित्ति रावणस्य सेनापतिः. 3 b पिसक्कासणं धनुः. 4 a धत्थाहिएणं ध्वस्तशत्रुणा; b सारंगंबिंबंकेएणं चन्द्रेण. 5 a च्छिरं विभेद्यमानम्. 6 a धिपंतरत्तं क्षरद्गधिरम्. 7 b पासेयं स्वेदबिन्दवः.

गहंदुग्गदंतग्गभिज्जंतगत्तं
गयाघट्टणुट्टुग्गिजालापलित्तं
समप्यंतइच्छं सहुब्भिण्णवच्छं
विरुज्झंतजुज्झंतपाइक्कचंडं
वराहिंदमाणेहिं बाणेहिं रुद्धं

दिसासुं विसंतं वसातुप्पालित्तं ।
धिरत्तेण साहारियासारमित्तं ।
महाघायमुच्छाविणिम्मीलियच्छं । 10
सकोदंडकंडं कयं खंडखंडं ।
रणे रामएवस्स सेणं णिरुद्धं ।

घत्ता—तहु परबलु किमिणुं व ओसरिउं मग्गणवंदु घुलंतउ पेक्खइ ॥
आवरणु करइ तणु संवरइ णवउ कलत्तु व अप्पउं रक्खइ ॥ १० ॥

11

हेला—ता विज्जाहराहिवो पउरकोवपुण्णो ॥

संणद्धो महाभडो अवि य कुंभयण्णो ॥ छु ॥

पहु कुंभु णिकुंभु अमेयसत्ति
इंदीवरलोयणु इंदवम्म
महवंतु महामहु वुहमुहक्खु
खरदूसणु मउ हत्थप्पहत्यु
असिधेणु व केण वि दहंणिवद्ध
रणदिकखहि थाइवि दिट्ठिरम्म
संधइ समाणसरकोडि केव
केण वि चिंतिवि णियंनुवहु कुसलु
केण वि असिवाणिइ णयण दिट्ठ
केण वि दरिसाविउ अद्धयंदु

इंदइ इंदाउहु इंदकित्ति ।
इयदेहु सूरु दुम्महु अग्गम्म ।
वलकेउ महावलु धूमक्कखु । 5
संणज्झइ भडयणु रणसमत्थु ।
परसासाहारहु किर पर्यद्ध ।
केण वि धरियउ गुणवंतु धम्म ।
परलोउ महइ वायरणु जेव ।
रिउकणकंडणु कट्ठियउं मुसलु । 10
मीणा इव वेण्णि रमंति इट्ठ ।
थिउ धरिवि णाइं णहंभायच्छंदु ।

७ AP घट्टणुत्थमि^०. ८ A धराहिंदमाणेहिं. ९ A विरुद्धं. १० AP किविणु.

11 १ A पवर^०. २ P इंदवम्म. ३ P अमम्म. ४ P महुवंतु. ५ A दहंणिवद्ध. ६ AP पइद्ध. ७ AP ^०णिवहु. ८ AP णहभाइ चंदु; K णहभायच्छंदु but gloss सादृश्यं; T णहभायच्छंदु नभोभागसादृश्यं.

9 b सा हा रि या सार मि त्तं माभोपिताधीरित्तसारमित्तम्. 10 a समप्यंतइच्छं संग्रामपूर्णेच्छम्.
12 a वरा हिं द मा णे हिं सर्पप्रमाणैः दीर्घैः बाणैः. 13 कि मि णु कृपणम्.

11 1 पउरं प्रचुरः. 2 b इंदाउहु इन्द्रायुधनामा. 3 b इयदेहु इतदेहनामा. 4 a बुह-
मुहक्खु बुधमुखारख्यः. 5 b मउ मयः. 6 b परसासाहारहु परधान्याहारं, परश्रासाहारे च; पयद्ध
प्रयुक्ताः. 7 b गुणवंतु धम्म धर्मो धनुश्च. 8 a समा ण सर को डि समाना; सजातीयाः सप्रमाणाश्च स्वरा
वाणाश्च; b परलोउ सुभटपक्षे परलोपः, व्याकरणपक्षे समानः सर्वणं दीर्घो भवति परश्च लोपः.
11 a असिवाणिइ खड्गपानीयं. 12 णहभायच्छंदु नभोभागसादृश्यम्; नभोभागो हि अर्धचन्द्रं
श्वण्डचन्द्रं धरति सुभटः पुनरर्धचन्द्रं वाणविशेषमिति.

संगामखेसकरणुज्जमेण केण वि हलु गंहिउ सविक्रमेण ।
 केण वि गंहियउ फणिपासु सारु सोहइ णं संगेरसिरिहि द्वारु ।
 घत्ता—मायंगतुरंगविमाणधयरहवरवाहणदूसंचारें ॥ 15
 संगद्ध कुद्ध जयलुद्ध भड उम्भड णिग्गय णयरदुवारें ॥ ११ ॥

12

हेला—अमरसमरभरुव्वहो थिरकिणंकखंधो ॥
 कुलधवलो धुरंधरो वहरिबाहुबंधो ॥ छ ॥
 रयणणिम्मवियरयणियरधयभीयरो
 विक्रमंक्रमियमहिवलयगिरिसायरो ।
 पवणवइसवणजमवरुणबलभंजणो 5
 असुरसुरस्त्रयरफणितरुणिमणरंजणो ।
 गरलतमपडलकालिदिजलसामलो
 सुराहमयणाहिउच्छलियतणुपरिमलो ।
 कोवगुरुजलणजालोलिजालियदिसो 10
 सरलरत्तच्छिविच्छोहणिजियविसो ।
 वीरंपरिहवपरो रइयरणपरियरो
 मुक्कगुणरावधणुदंडमंडियकरो ।
 णिहिलजगगिल्लेणकालो व्व दुक्को सयं
 छत्तछण्णो महतो जणंतो भयं ।
 कढिणभुयफलिहसयल्लिंदकंपावणो 15
 कसणघणकरिवरारूढओ रावणो ।
 असमपरविसमसाहसणिही णिग्गओ
 विमलकमलाहिसेयस्स णं दिग्गओ ।
 हरिकरिकमाहया हल्लिया मेइणी
 रणरुहिरलंपडी णच्चिया डाइणी । 20
 कुलिसकुडिलंकुरारावलीराइयं
 धगधगंतं पुरो चक्कमुद्धाइयं ।

१ P गहिउ विक्रमेण. १० AP लहयउ. ११ A संगरि.

12 १ AP थिर. २ P धिक्रमाक्रमिय°. ३ AP धीर°. ४ A °गलिण°.

13 ७ स विक्रमेण निजपराक्रमेण. 15 °दूसंचारें दुःसंचारेण.

12 S सुराहमयणाहि° सुरभिकस्तूरिका. 10 °विच्छोह° क्रोधः; °णिजियविसो निजित्त-
 वृषमः. 15 सयल्लिंदकंपावणो शैलेन्द्रकम्पकरः. 18 विमलकमला° निर्मललक्ष्मीः. 21 अंकुरारा-
 वलीराइयं अङ्कुरवदाराश्रेणिशोभितम्.

घत्ता—फेडियमुहवडधुयधयवडहं दावियदूसहगयघडघायहं ॥
दलवट्टियहरिवरभडथडहं मुसुमूरियसामंतणिहायहं ॥ १२ ॥

13

हेला—विज्जाबलरउहहं जायगारवाणं ॥
वाहियरहविमहहं सहरउरवाणं ॥ छु ॥

जयकारियराहवरावणाहं	जयलच्छिरमणरंजियमणाहं ।
समुहागयाहं सपसाहणाहं	जुज्झंतहं दोहं मि साहणाहं ।
असिणिहसणसिहिजालउ जलंति	गुडपक्खरपल्लाणइं जलंति । 5
णीवंति ताइं वणरुहजलेण	केण वि पइसिवि आहवि छलेण ।
परिमुक्कसंकु पिहुपिंछंफारु	लग्गंउ णं गयवरगिरिहि मोरु ।
गंडयलि विलग्गउ बाणपुंसु	दीसइ णं छप्पउ दाणकंसु ।
केण वि गयणंगणि देवि करणु	करिकुंभवीदि थिरु थंवि वि चरणु ।
लोट्टिवि आरोडु णिबद्धकोहु	कंडिलुरियइ पढणिवि घित्तु जोहु ॥10
अरिणरकरघल्लिय लउडिदंडं	चूरिय संदण संगामं चंड ।
मणिजडिय पडिय मंडलियमउड	उच्छलिय रयणकरणियर पयड ।
केण वि कासु वि पविमुट्टिहयउं	सीसकं सहुं सिरु चुण्णु कयउं ।
गउ वियलियासु कंकालसिद्धु	कासु वि लोहियरसु रसिवि गिद्धु ।
उट्टेण्णिणु वच्चइ गयणमग्गु	णं पोरिसु वण्णइ गंपि सग्गु । 15
तहिं अवसरि बहुतत्तिल्लएहिं	जायवि कयजणमणसल्लएहिं ।

घत्ता—णिउ णिग्गउ भरहद्धाहिवइ चारहिं रामहु काहउ वियारिवि ॥
थिउ ता रणदिक्खहि दासरहि पुष्पयंतु जिणवरु जयकारिवि ॥१३॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभवभरहाणुमण्णिणए
महाकरपुष्पयंतविरहय महाकव्वे राहवरावणबलसंघर्षणं
गाम सत्तहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७७ ॥

13 १ A चलति. २ A पिच्छमारु. ३ A उगउ. ४ A देवि. ५ A करि छुरियइ.
६ P °दंडि. ७ P °चंडि. ८ A बहुभत्तिल्लएहिं. ९ A उभयबलभिडणं; P उभयबलाभिडणं.

24 °णि हा यहं समूहयोः द्वयोः सैन्ययोः.

13 1 °गारवाणं °गर्वाणाम्. 5 b गुडं गुडः कुञ्जरसंनाहः. 6 a वण रुहजलेण रुधारेण.
7 a परिमुक्कसंकु परिमुक्कशङ्कुः, शङ्कुः सेल्लविशेषः. 13 a पविमुट्टिहयउ वज्रमुष्ट्या इतम्.
14 a वियलियासु नद्धाशः; कंकालसिद्धु कापालिकः. 16 a °तत्तिल्लएहिं चिन्तायुक्तैः चरैः.
17 भरहद्धाहिवइ रावणः.

पडिभङ्कालाणलु जोइयभुयबलु विष्फुरंतु मच्छरि चडिउ ॥
महिकरिणिकयग्गहु पसरियविग्गहु कणहु दसासहु अभिभडिउ ॥ धुवकं ॥

1

दुवई—पहय गहीर भेरि सिरिरमणीमाणियदेहलक्खणा ॥
संणज्झंति हणुव सुग्गीव महोपडुरामलक्खणा ॥ छु ॥

माणिकंसुजालविण्णासइं	चंदकवयचंदियसंकासइं ।	5
आणियाइं कवयइं रहरायहु	णउ विसंति रोमंचियकायहु ।	
बाहुजुयलु पुलएण विसट्टइ	रिउसरीरबंधणइं व तुट्टइ ।	
आहवरोलहरिसपडहच्छहु	उरि संणाहु दिण्णु सिरिवच्छहु ।	
माइ ण सीयहि मणि णं रावणु	फुंठिवि गउ सयदलु णं दुज्जणु ।	
सुग्गीवहु गीयहु रणभरधुर	णिहिय करंति काइं किर परणर ।	10
संणज्झंतु काइं सो सुच्चइ	हणुवंतु वि वम्महु जहिं बुच्चइ ।	
तहिं जगु विंधिवि मारिवि मेल्लइ	अंगउ अंगइं वहरिहिं सल्लइ ।	
दहियदोव्वसिद्धत्थयमीसिउ	सीमंतिणिकरघित्तउ सेसउ ।	
विरासिउ जुज्झंडिडिमाडंबरु	बहिरिउ तेण विवरु दिसि अंबरु ।	
मत्ति विजयपव्वइ सइं माहउ	अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहंउ ।	15
बलिपुत्तं तहु बलवित्थिण्णी	विज्ज पहरणावरंणि विइण्णी ।	

घत्ता - सइ का वि पजंपइ किं पि ण कंपइ पिययम परबलु णिट्ठवहि ॥
हणु करिकुंभयलइं हिमकणधवलइं मोत्थियाइं महु पट्टवहि ॥ १ ॥

2

दुवई—का वि पुरंधि भणइ किं बहुवें अणुदिणु हिययजूरणं ॥
णियसिरंपंकएण पिय फडहि णरवइपियंविस्सरणं ॥ छु ॥

1 १ A महिघरिणिकयग्गहु. २ A महपहु. ३ P आहवि रोल°. ४ A फट्टिवि. ५ P णियंति.
६ A जगु तहिं. ७ A अंगउअंगइं. ८ A राहउ. ९ A माहउ. १० A धरणि विदिण्णी.
2 १ AP °सिरकप्पिएण. २ A °रिणविस्सरणं.

1 २ °कयग्गहु कृताग्रहः. 5 a °विण्णासइं विन्यासानि, रचनायुक्तानि; b चंदकवयचंदियसंकासइं मयूरपिच्छचन्द्रकाकाराणि. 6 b विसंति प्रविशन्ति. 7 a विसट्टइ स्फुटति; b °सरीरबंधणइं शरीरावयवबन्धनानि. 8 a °रोल° कोलाहलः; °पडहच्छहु तृप्तस्य भृतस्य; b सिरिवच्छहु हरेः. 12 a अंगउ सुग्गीवपुत्रोऽङ्गदः. 16 a बलिपुत्तं सुग्गीवेण.

2 1 बहुवें बहुनोक्तेन. 2 सिरपंकएण मस्तककमलेन; णरवइपियंविस्सरणं रामप्रियायाः सीतायाः खेदम्.

का वि भणइ एत्तडउं करेज्जसु गयपडियागयपयपरिठवणे	पउ पच्छामुहुं णाह म देज्जसु । सहइ कहंदु ण भहु भयगमणे ।	
का वि भणइ जं मइं थणमंडिउं किं वच्छयलु णाह णंदेसइ	तं गयदंतहं संमुहुं उड्डिउं ।	5
का वि भणइ रणि म करि णियत्तणु किं पुणु महिमंडलु त्रिथिण्णउं	पुणु आलिगणंसुहुं महु देसइ । सुयरिज्जइ पहुभूमिणियत्तणु ।	
देज्जसु पत्थिवचित्तिणिवारउं का वि भणइ पिययम पेयालइ	इच्छियचायभोयसंपण्णउं । खग्गसलिलु वहरिहिं तिसगारउं ।	
हउं दीवउ बोहेसमि जइयहुं का वि भणइ पडिण वि पिंडे	वसतुण्ये रिउसीसकवालइ ।	10
कासु वि सिद्धहु आणइ थंभिवि पइं मुए वि हउं णडिय रइच्छइ	ओवाइउं महु पूरइ तइयहुं । महिवि पिसल्लउ मासहु खंडे ।	
प्रप्ता—सुहवत्तहु वंछहि णाह ण पेच्छहि चंडहि वेयालालियहि ॥	पासि धरिज्जंसु वायइ थंभिवि । तं परिपुच्छिवि आवमि पच्छइ ।	15
कयतुट्टिपरिग्गहु परकंठग्गहु खग्गलट्टिपुण्णालियहि ॥ २ ॥		

3

दुवई—तुह पयं सुवंसयं पिययम पर्णविणं विणीयं ॥

सज्जीयं सरासणं समरि हरउ वहरिजीयं ॥ छ ॥

णंदणवणु व णीलतालद्धउं
दीसइ णीसरंतु रइयाहउ

णरवेसें णं सइं मयरद्धउ ।
अंजणगिरिकरिवरि थिउ राहउ ।

३ A णं गय^०. ४ P आलिगणु सुहुं. ५ A सुमरिज्जइ. ६ A उववायउ. ७ AP थविज्जसु. ८ A आइवि.

3 १ A पणवियं.

3 b पउ पादः. 4 a गयेत्यादि आद्याक्षरादन्त्याक्षरं यावत् अन्त्याक्षरादाद्याक्षरं यावत् एका (ताट ?) दश एव वर्णरचनाविशेषोऽभिमुखपराङ्मुखपददानं च गतप्रत्यागतपदप्रतिष्ठापनं तेन; b सहइ कहंदु शोभते कवीन्द्रः, न तु सुभटः. 6 a णंदेसइ नन्दिप्यात् वर्धयते. 7 a णियत्तणु पश्चान्निवर्तनम्; b पहुभूमिणियत्तणु राज्ञा पूर्वमुद्दालिता पश्चाद्गता भूः. 8 b 'चाय^० त्यागः. 9 a पत्थिवचित्तिणिवारउं रामचिन्तानिवारकम्; b तिसगारउं तृषाकारकम्. 10 a पेयालइ प्रेतालये श्मशाने. 11 a बोहेसमि प्रज्वालयामि; b ओवाइउं उपयाचितकम्. 12 a पिंडे शरीरेण; b महिवि पूजयित्वा. 13 a आणइ आज्ञया, कमपि व्यन्तरं त्वं तव समीपे मरणावसरे रक्षे; यस्मात्स तव वार्ता मम कथयतीति भावार्थः. 14 a मुए वि मृतेऽपि; णडिय कदर्थिता; रइच्छइ रतिवाञ्छया; b तं पिशाचम्; आवमि पच्छइ पश्चाद्दहमागच्छामि तव समीपम्. 15 सुहवत्तहु वंछहि हे नाथ त्वं सुभगत्वं किं वाञ्छसि; चंडहि प्रचण्डायाः; वेयालालियहि वेगेन लालितायाः वाहितायाः यष्टेः. 16 खग्गलट्टिपुण्णालियहु पुंश्रव्याः खङ्गयष्टेः परकण्ठग्रहणं न पश्यसि.

3 1 सुवंसयं सुवंशोत्पन्नं धनुः; पणविणं प्रणमनशीलम्; विणीयं विज्ञातम्. 2 सज्जीयं सप्रत्यञ्जम्. 3 a 'तालद्धउं तालाङ्कम्. 4 a रइयाहउ रचितसंग्रामः.

णं णवजलहरसिहरि ससंकुं
 णं जसु तिजगसिहरिपंडुरतणु
 कयसंसोहउ णाह मरालउ
 सीयाकंखउ विरहुण्है हउं
 एत्तहि लकखणु रोसवियंभिउ
 लच्छीललणालोलणलोहिउ
 विजयमहीहरि कुंजरि चडियउ
 मेहहु उवरि मेहु णं थक्कउ

घत्ता — चोइयमायंगं चलियतुरंगं वाहियरहं भयंकरं ॥

सोणहियविमाणं जरजंपाणं रोसुद्धाइयकिंकरं ॥ ३ ॥

णं अइरावइ इंदु असंकउ । 5
 धम्मालोयलीणु णं मुणिमणु ।
 सूरपहाहरु णाह मरालउ ।
 दाणालित्तपाणि णं दिग्गउ ।
 णं रणसिरिणञ्चणकरु उब्भिउ ।
 पंचवण्णगरुडइयसोहिउ । 10
 कालसलोणउ जणि आवडियउ ।
 रिउहुं णां जमदूयउ हुक्कउ ।

4

दुवई—लग्गं रामरामणाणंदं बलं रुसांविसालं ॥

णरमुहकुहरमुक्कुंकारुहीवियवाणजालं ॥ छ ॥

मुक्कमुसलहलपट्टिससेलुइं
 लुयकरसिरउरजणहुयजुत्तइं
 कलिकेलासवासंतासइं
 मायाभावगाववित्थारइं
 किलिकिलिरवसोसियकीलालइं
 मिलियदलियपक्कलंपाइक्कइं
 अंतमिलंतथंतकायउलइं
 तणुवियलंतसेयसित्तंगं
 मयगलंमलणमलियधयसंडइं
 सुरहरधिवणधित्तखयरिंदइं

पसरियपाणिधरियधम्मेलुइं ।
 मग्गणगणविच्छेइयत्तइं ।
 वहरिविलासहासणिण्णासइं । 5
 हुयवहवरुणपवणसंचारइं ।
 दिसंविदिसुट्टउग्गवेयालइं ।
 वसकइमणिमण्णरहचक्कइं ।
 वालपूलणीलियधरणियलइं ।
 पक्खिपक्खमरुहयसमसंगं । 10
 हित्तारोहजाहकोदंडइं ।
 खगंक्कंपकंपावियचंदइं ।

२ AP मयंकउ. ३ AP आसंकउ. ४ A कयसरिसोहउ. ५ AP वियालउ. ६ A °कंखउ णं उण्हालउ; P °कंखउ विरहु उण्हाहउ. ७ A adds after this: अण्णेसंतु रामु णं णिग्गउ; K also has this line but scores it off. ८ A दाणविलित्त°. ९ AP °विवाणइं.

4 १ P रोसविसालइं. २ P दिसंविदिसुट्टियउग्ग°. ३ P °पक्खल°. ४ P °गलचलणमलिय°.

5 a ससंकउ चन्द्रः. 7 a °सर° वाणस्तडागं च; मरालउ हंसः; b मरालउ मरो मलः कृष्णत्वं तस्य आलयो मेघः. 8 a विरहुण्है विरहोष्मणा; हउ हतः. 10 a °लो हिउ लोभिष्ठः.

4 4 a °जणुयजुत्तइं जानुयुक्तानि; b °विच्छेइय° छिन्नानि. 5 a कलि° यमः; °केलासवास° शंकरः. 8 a °पक्कल° समर्थाः. 9 a °कायउलइं काककुलानि; b वालपूल° केदानिचयः. 10 b °समसंगं °श्रमसङ्गानि. 12 a सुरहर° विमानम्; °धिवण° पतनम्.

घत्ता—असिदंहु लपप्पिणु देहि भणेप्पिणु परबलि परिसकइ वियहु ॥
 फरपत्तविहत्थउ को वि समत्थउ जुज्झभिक्ख मग्गइ सुहडु ॥ ४ ॥

5

दुवई—को वि भंडु करेहिं णिहएहिं कमिहिं वि हुंकरंतइ ॥

कोकइ मासगासरसियाइं पिसायइं गयणि जंतइ ॥ छ ॥

को वि सुहडु मुउ करिवंतंतरि	णावइ सुत्तउ णियजसपंजरि ।
को वि सुहडु अद्धिंदं मंडिउं	भूयहिं रुहुं व णिविसु ण छंडिउ ।
को वि सुहडु सिरु पडिउ ण चितइ	असिवरु अरिवरंकेठहु घत्तइ । 5
को वि सुहडु रत्तइहि ण्हायउ	सत्तु सिरत्थु णिपप्पिणु आयउ ।
कायरदोसिण हउं ण विहिण्णउ	पहरणु दीवु धरिवि उत्तिण्णउ ।
को वि सुहडु परिवहियसाहउ	णं पारोहएहिं णग्गोहउ ।
रिउवाणहिं उच्चाइउ वट्टइ	पंखुंत्तिणरुहिरु सिव चट्टइ ।
कासु वि सुहडुहु गुज्जु ण रक्खइ	कण्णालग्गु गिदु णं अक्खइ । 10
पइं ससुंहु पथिवरिणि छूढउ	लोहिउ णाइ कलंतरि वूढउ ।
देहमासु वायसहं विहित्तउ	उत्तमंपुरिसहं एउ जि जुत्तउ ।
कासु वि अंगि रहंगु पइट्टउ	अब्भगग्भि रविबिबु व दिट्टउ ।

घत्ता—संवहेणोसारिवि अवंर णिवारिवि जुज्झि वि मइ देहु छिवइ ॥

कासु वि सुरकामिणि लीलागामिणि माल सयंवरि सहं धिवइ ॥ ५ ॥ 15

५ AP करपत्तं. ६ P मग्गइ जुज्झभिक्खइ.

5 १ P सुमहु. २ A खंडिउ. ३ A रुहु व but gloss रुह इव. ४ AP अरिवरणियरहु.
 ५ A वण्णविहिण्णउ. ६ A सोहउ. ७ A पंखुत्तिणु; P पुंखुत्तिणु. ८ A समुहु. ९ AP कलंतरु.
 १० AP उत्तिमं. ११ A सरवहेण. १२ P अवरउ वारिवि.

13 परि सकइ विजुम्भते. 14 फरपत्त विहत्थउ खेटकभिक्षापात्रहस्तः.

5 1 करेहिं णिहएहिं हस्तैर्हैतैश्चिन्नैः; कमिहिं पादैः. 4 a अद्धिंदं अर्धचन्द्रेण बाणेन.
 5 b घत्तइ क्षिपति. 6 a रत्तइहि रक्तहृदे; b सिरत्थु शिरःस्थम्. 7 a विहिण्णउ विभक्तः.
 8 a साहउ शाखाः कराश्च. 9 a रिउवाणहिं इत्यादि कोऽपि सुभटः वाणैर्विद्धः पतितः सन् वट-
 वृक्षसदृशो दृश्यते, ये उपरि स्थिता वाणाः ते वटस्य शाखा इव दृश्यन्ते ये अधःस्थिता वाणास्तैर्जटाभि-
 रिन्नोच्चलित इव दृश्यते; b सिव शृगाली. 11 a ससुंहु स्वमस्तकम्; पथिवरिणि छूढउं पार्थिव-
 ऋणविषये क्षितम्; b कलंतरि वूढउं व्याजे धृतं रक्तम्. 13 अब्भगग्भि मेघमध्ये. 14 संवहेणो-
 सारिवि शपथेन अन्या देवीरुत्सार्थं निवार्य; जुज्झि वि संग्राममध्येऽपि; मइ हठात्; देहु शवम्.

6

दुवई—जायइ संगरम्मि वरखयरकवालचुए वसारसे ॥

णरकंकालमहुरवीणासरगाइयरामसाहसे ॥ छ ॥

णवर जयसिरिहरो

अरिहरिणहरिवरो ।

कुलकमलदिणयो

अणयजणभययो ।

रणियगुणधणुरवो

जणियखलपरिहवो ।

अमियअमरिसवसो

तिजगपसरियजसो ।

सयणुकलणियदिसो

फणि व विसरिसविसो ।

कुइयवइवसणिहो

सिहि व विलसियसिहो ।

थरहरियमहियलो

धयपिहियणहयलो ।

करकलियपहरणो

पवरबलजियरणो ।

दढकढिणथिरं करो

पडिसुहडमयहरो ।

घत्ता—तिहुयणजुरावणु रूसिवि रावणु धाइउ रामहु संमुहु किह ॥

णवमेहु व मेहहु सीहु व सीहहु दिसहत्थिहि दिसहत्थि जिह ॥ ६ ॥

7

दुवई—ता करिकरसमाणकरकडियगुणधणुदंडमंडलो ॥

कणयपिसकपुंखरुइरंजियमाणिमयकणकुंडलो ॥ छ ॥

उकखयदुक्खलक्खतरुकंदहु

इंदइ इंदसरिसु गोविंदहु ।

विडविचिंधु किक्किंधिणवासहु

वालिकंठकंदलजमपासहु ।

णिद्धहु णियकुलभवणपईवहु

भिडियउ कुंभयणु सुग्गीवहु ।

महिमहिहरचालणवलवंतहु

रणे रविकित्ति वीरहणुधंतहु ।

खरकिरणु व तमतिमिरणिहायहु

णलिनकेउ लग्गउ खररायहु ।

अंगयभहु आहंडलकेउहि

णावइ मुणिवरिंदु म्मसकेउहि ।

इंदवम्मु कुमुयहु दूसीलहु

कयबहुदूसणु दूसणु णीलहु ।

संदेणचलणवलणसंफेडहि

लउडिघायजजरियकिरीडहि ।

6 १ AP रणियघणुगुणरवो. २ A °णियकरो.

7 १ A °मंडणो. २ P °पुंखरुइ. ३ A लीलहु. ४ A दंसणचलण°.

6 २ णरेत्यादि नरशरंरास्थितडतडाट एव वीणाशब्दः. 4 b अणयजणभययो अनतानामनझाणां भयंकरः. 6 a अमियं प्रचुरः. 7 a सयणु° स्वशरीरम्; b °वि सो विपं द्वेषः. 8 a कुइयवइवसणिहो कुपितयमसदृशः; b °सि हो सिंहः शिखा च. 11 b °मयहरो मदहरः.

7 २ कणयपिसक° कनकवाणाः. 3 a उक्खय° उत्खनिताः. 4 a विडविचिंधु वृक्षश्वजः कुंभकर्णः. 7 a तमतिमिरणिहायहु महाश्वकारसमूहस्य. 8 a आहंडलकेउहि इन्द्रकेतोः. 10 a संदणचलण° रथचक्रम्; संफेडहि° संस्फोटकैः.

दंतिदंतसंघट्टणघोरहिं सेलसिलायलधिसपहारहिं ।
 सबलमुसलकुलिसससकोतहिं भिंडिवालकरवाँलफुरंतहिं ।
 घत्ता—रयछइयदियंतहिं भडसामंतहिं जुंझंतिहिं खयरामरहिं ॥
 संचूरियमउडहिं णिवडियसयडहिं महि मंडिय धयचामरहिं ॥७॥

8

दुवई—ता लंकाहिचेण हलहेइहि रिंछसुपिंछंसज्जिया ॥

एक दुँवास तीस पण्णास सरा सहसा विसज्जिया ॥ छं ॥

धरियलोह तेण जि ते गुणञ्जुय	उञ्जुय नेण जि ते मोक्खुञ्जुय ।	
चित्तविचित्त तेण ते चलयर	पेहुणवंत तेण ते णहयर ।	
धम्मविमुक्क तेण ते ह्यपर	रोसवासिल्ल तेण ते दुद्धर ।	5
तिक्ख तेण ते वम्मल्लुरण	सहल तेण ते आसापूरण ।	
रयगय तेण जि ते पलचक्खिर	वहियजोह तेण जि जयकंखिर ।	
दीहायार णाय णं आया	पत्तदाण जिह सयगुण जाया ।	
एंत णहंतं महंत भयंकर	जिगिजिगंत पडिवक्खखयंकर ।	
बाणहिं बाण ह्णिणिवि काकुत्थं	रावणु विहसिवि भणिउ समत्थं ।	10

घत्ता—णियघरिणिहि अग्गइ सयणसमग्गइ घरि बाणासणु गुणिउं जिह ॥
 भडरुहिररसारुणि आहवि दारुणि को विंधइ दहवयण तिह ॥ ८ ॥

9

दुवई—हो हो जाहि जाहि तुहुं णासहि धणुसिक्खाविवज्जिओ ॥

मा णिवडहि करालि कालाणलि लक्खणसरि परज्जिओ ॥ छं ॥

कहिं दिट्ठि मुट्ठि	कहिं चावलट्ठि ।	
कहिं बद्ध ठाणु	कहिं णिहिउ बाणु ।	
धणुवेयणाणु	वुज्झंहि पहाणु ।	5
गुरुगेहु गंपि	अण्णवउ किं पि ।	

५ AP °करवाल मुयंतहिं. ६ A °ज्झिहिति.

8 १ A हलएवहि. २ A °सुपुंछं. ३ A दुतीसवीस. ४ A मोक्खञ्जुय. ५ AP पत्तदाणु.

9 १ P किह. २ A बुज्झउ. ३ A अण्णमउ; P अण्णविउ.

8 1 हलहेइहि हलायुधस्य. 3 b मोक्खुञ्जुय मोक्षोद्यताः. 3 b सहल सफलाः फलयुक्ताः.
 7 a रयगय रजः पापं रयो वेगश्च तत्र तेन गताः; b व हिय जो ह हतयोवाः. 8 a णाय नागाः सर्पाः;
 b पत्तदाण सुपात्रदानफलवन्तः. 9 a णहंतं नभोमध्येन. 11 सयण समग्गइ स्वजनपरिपूर्णे.

9 5 a धणुवेयणाणु धनुर्वेदज्ञानम्. 6 b अण्णवउ पुनरपि.

पुणु देहि जुञ्जु	महुं तुहुं सुसञ्जु ।	
सीयावहार	जजाहि जार ।	
तहिं रणवमालि	सुहडंतरालि ।	
खरकरपेवहु	दडेहु रुहु ।	10
णिहवियदुहु	इंदइ पइहु ।	
ता कुद्धपण	धूमद्धपण ।	
णं जलियजाल	णं विज्जुमाल ।	
चलजलहरेण	वरिसियसरेण ।	
कयआहवेण	तहु राहवेण ।	15
धगधगधगंति	उम्मुक्क सत्ति ।	
वच्छयलि खुत्त	रत्तावलित्त ।	
णं रत्त वेस	मुच्छाविसेस ।	
पसवणु कुणंति	हियवउं लुणंति ।	

घत्ता—जं इंदइ जित्तउ कावपलित्तउ तं दहमुहुं णं खयजलणु ॥ 20
ओत्थरिउ समत्थांहे णाणासत्थहिं दुज्जयपडिबलपडिखलणु ॥ ९ ॥

10

दुवई—पभणइ णत्थि एण इंदइणा तुह णिहएण रणंजओ ॥

भो भो राम राम मइं पहरहि संचोयहि महागओ ॥ छ ॥

हो हो एण सुहु लज्जिजइ	कुलसामिहिं किह असि कडिजइ ।
तुहुं वेहाविउ ताराकंतें	अण्णु वि मुक्खपण हणुवंतें ।
हउं देविंदेणं वि णउ छिप्पमि	तुम्हहिं माणुसेहिं किं जिप्पमि । 5
जाहि जाहि जा बंधवगत्तइं	णउ णिवंडंति खुरुप्पविहत्तइं ।
जाहि जाहि जा चक्कु ण मेल्लमि	तुह सिरकमलु ण लुंचिवि घल्लमि ।
दप्पुम्भडभडंवंदविमहें	तं णिसुणेवि पवुत्तु बलहहें ।
पररमणीधणसिहरणिरिक्खण	मरु मरु खल अयाण दुवियक्खण ।
किं सीहेणं सरहु दारिज्जइ	पइं मि कांइं लक्खणु मारिज्जइ । 10

४ P reads this line as: जजाहि जार, सीयावहार. ५ P पधहु. ६ A पविमुक्क. ७ AP पसरणु.

10 १ AP रणजुओ. २ P मुक्कएण. ३ A देविंदें णविउ छिप्पमि. ४ AP विहडंति.
५ P °भडविंद. ६ A सिहेण. ७ AP पाव.

10 a °पवहु प्रसृष्टः. 11 b इंदइ इन्द्रजित्. 18 a णं रत्तवेस रक्तवेश्यावत्. 19 a पसवणु प्रलक्षणं क्षरणम्.

10 4 a ताराकंतें सुग्रीवेण. 6 a बंधवगत्तइं लक्ष्मणगात्राणि.

रुवविसेसपरजियमेणइ
जामि जामि जइ सेव समिच्छहि
घत्ता—पइ रणउहि मारिवि भिच्च वियारिवि होइवि लंक विहीसणहु ॥
बोल्लिउं पालेसमि हउं जाएसमि सहुं सीयइ सणिहेलणहु ॥ १० ॥

11

दुवई—ता दसेकंधरेण मणिकुंडलमंडियगंडएसयं ॥
छिणं असिसुयाइ णवणिसियइ सीयाएविसीसयं ॥ छ ॥

रुसिवि रामहु अगइ घिसँउ लइ लइ राहव परिणि तुहारी मय पिय पेच्छिवि मुच्छिउ रहुवइ सित्तउ द्विमसीयलंजलधारहिं कह व कह व संजाउ सचेयणु ताव विहीसणेण विण्णत्तउं खयारेदेण दिट्टुहघाएं ता दहमुहेण भाइ दुब्बोद्धिउ विणु अब्भासवसंण सरासइ एउ ण चिंतिउ कुलविद्धंसण पँरहं मिलेवि काइं किर लद्धउं	पुणु सखारु खलखुद्धे वुत्तउ । एह ण होइ कया वि महारी । करपहरणु णिवडिउ ण विहावइ । 5 आसासिउ चमरिरुहसमीरहिं । कण्णांमुहणिहिंसीयिरलोयणु । सीयामरणु ण देवं णिरुत्तउं । इंदियालु दरिसाविउ भाएं । पइं णियंवल्लुम्मलिवि घल्लिउ । 10 गोत्तकलिइ लच्छि धुंभु णासंइ । दुम्मह दुट्ट कट्ट दुहंसण । पइं अप्पाणउं अप्पणु खद्धउं ।
--	---

घत्ता—आहँट्टइ करिवरि चलपसरियकरि जो आसंघइ बालतणु ॥
महिहरु मेलेपिणु महि लेवेपिणु मरइ मणुउ सो मूढमणु ॥११॥ 15

८ A °परिजिय° ९ A रणमुहि. १० AP' बोल्लिउ.

11 १ AP दहकंधरेण. २ AP असिसुयाइ मायामयसीयाएवि°. ३ P वित्तउ.
४ AP °सीयजल°. ५ AP कंतामुह°. ६ A °णिहत्त° ७ AP होइ. ८ AP इंदजालु. ९ A पइं
णियकुलु उम्मूलिवि. १० AP धुउ. ११ A adds after this: एवमेव अप्पउ संतासइ; K writes
the line but scores it off. १२ AP वइरिहिं. १३ A आरुद्धइ.

11 a °परिजिय मेण इ तिरस्कृता मेनका यया; b जाणइ जानकी सीता. 13 रणउ हि रणमुखे.

11 1 गंडएसयं गण्डप्रदेशम्. 2 असिसुयाइ असिधेनुकया; णवणिसियइ नवीन-
तीक्ष्णया; सीयाएविसीसयं सीतादेवीमस्तकम्. 5 b णविहावइ न विभावयति, न जानातीत्यर्थः.
9) a दिट्टुहघाएं दृष्टत्वद्घातेनः दृष्टत्वन्मरणेन; b इंदियालु इन्द्रजालम्; भाएं मम भ्रात्रा.
11 a सरासइ गीः; b गोत्तकलिइ गोत्रकलहेन. 14 आरुद्धइ रुष्टे सति; बालतणु बालतृणम्.

दुवई—मइं कुद्धेण रामु किं रक्खइ भइहणहणरवालप ॥

भाइय आउ आउ जइ सक्हि भिहु इह समरकालप ॥ छ ॥

तं णिसुणेप्पिणु	पहु पणवेप्पिणु ।	
णवघणणीसणु	भणइ विहीसणु ।	
जइ पिउ जंपहि	सीय समप्पहि ।	5
णिवणयजुत्तहु	दसरहपुत्तहु ।	
होसि सहोयरु	तो तुहुं भायरु ।	
सामि महारउ	सयणापियारउ ।	
णं तो लज्जमि	णंउ पडिवज्जमि ।	
तुज्जु सुहित्तणु	दुज्जसकित्तणु ।	10
होइ असारे	इट्ठे जारे ।	
भमियकबंधइ	णिवडियचिंधइ ।	
महिचुयलुयभुइ	ता तहिं संजुइ ।	
कयवीराहवि	मेइणिराहवि ।	
बहुदाराहवि	लग्गउ राहवि ।	15
भीसणु रावणु	परमारावणु ।	
रंजियसुरसह	बे वि महारह ।	
रणभरधुरखम	बे वि सविक्रम ।	
पडिहरि हलहर	धवलियकुलहर ।	
बे वि महाजस	णं आसीविस ।	20
फणिकालाणण	णं पंचाणण ।	
हिमसंमतमतणु	आयडियघणु ।	

धत्ता—कंपावियजलथल छाइयणहयल रणि मेलावियअमरयण ॥

सहरिस गलगजिय खयभयवज्जिय णाइ दिसागय कुइयमण ॥ १२ ॥

12 १ A हउं. २ P आसाविस. ३ AP हिमतमसमतणु. ४ AP मेलाविय^०.

12 २ भिहु संग्रामं कुरु. 6 a णिवणयजुत्तहु राजनीतियुक्तस्य. 13 a महिचुयलुयभुइ महीपतितलूनभुजे. 4 a कयवीराहवि कृतो वीराणामाह्वयः स्वर्धाशब्दो यत्र; b मेइणिराहवि मेदिन्याः राधां शोभामवति रक्षतीति मेदिनीराधावस्तस्मिन्नीटशे राधवे. 15 a बहुदाराहवि बहुश्राप्तौ दारार्थमाहवो यस्य, बहूनां दारणं विदारणं यस्मिन्नाहवे यस्य वा. 16 b परमारावणु शत्रूणां मारकः. 17 b महारह संग्रामादनिवर्तकौ महारथौ. 19 a पडिहरि रावणः. 22 a हिमसमतमतणु हिमवर्णो रामः तमोवर्णो रावणः. 23 मेलावियअमरयण पुञ्जीकृतदेवगणौ युद्धदर्शनार्थम्.

13

दुवई—रावण राम बे वि जुञ्जंति सुरोसवसा महाभडा ॥

छुड छुड दुक मुक बाणावलि छुड छुड छिण्ण धयवडा ॥ छ ॥

छुड छुड णाणा(जाणइं भिण्णइं

छुड छुड धवलइं लसइं छिण्णइं ।

छुडं णरखंडखंडमंडिय महि

छुड गय घट्टिय लोट्टिय सारहि ।

छुड संदण मुसुमूरिभि घल्लिय

पडिमयगल मायंगहिं पेल्लिय । 5

छुड छुड रामु थामु जा दावइ

जाव खगिदु रहंगु विहावइ ।

जाव जुञ्जि वावरइ सहोयरु

तावंतरि पइट्टु दामोयरु ।

पभणइ णिसुंणि देव सीराउह

वीर पउम चुबियपउमामुह ।

राम राम रामामणहारण

सुबलासुय अगि विद्वियारण ।

हउं किंकरु कटोरपिहुकरयल्लु

भाइ तुञ्ज पँविरोलियपरबलु । 10

जीवमि जाम वहरिमारणविहि

जगि रयणियरचिधणिवतरुसिहि ।

ताव एउ पइं पइं पइं पइं पइं पइं पइं पइं पइं पइं पइं

सइं करेण किं पहरणु धरियउं ।

यत्ता—रन्ध्रियकुलगिरिदरि हउं तेरउ हरि मुइ मुइ मइं आलद्धजउ ॥

पविखरसरणहरहिं अविरलपहरहिं दारामि दहमुह मत्तगउ ॥१३॥

14

दुवई—ता रामेण कणहु मोक्कल्लिउ बोल्लिउ तेण दहमुहो ॥

रे अपवित्त धुत्त परणारीरत्त म थाहि संसुहो ॥ छ ॥

विहिदुब्बिलसिउं तुहुं वि महीसरु

ओसरु ओसरु मा संघहि सरु ।

कुद्धइं तुह दहमुह णहईवइं

राहवरायपायराईवइं ।

अज्जु तुज्जु परमाउसु पुण्णउं

जिह तुर्यरणु कुसील ण दिण्णउं । 5

मइं मुक्काइं दसास णियच्छहि

तिह एवाहिं पहरणइं पडिच्छहि ।

कयसमरेण गहियरिउजीवें

तं णिसुणेवि वुत्तुं दहगीवें ।

13 १ AP सरोस°. २ AP छुडु छुडु णर°. ३ A लुट्टिय°. ४ AP पडिमयंग. ५ A देव णिसुणि. ६ AP कटोर°. ७ A परितोलिय°. ८ A जणरय°.

14 १ A मोक्कल्लियउ. २ AP तियरणु. ३ AP वुत्तउ.

13 4 b घट्टिय संघट्टिताः. 5 b पडिमयगल शत्रुगजाः. 7 a वावरइ व्यापारं करोति; b दामोयरु हरिलक्ष्मणः. 8 b चुंबियपउमामुह चुम्बितलक्ष्मीमुख. 9 b सुबलासुय हे सुबलादेवीपुत्र. 10 b पविरोलिय° मथितम्. 11 b रयणियरचिध° राक्षसध्वजाः. 14 पविखरसरणहरहिं बप्रवत्कठिनशरनखैः.

14 4 a णहईवइं नखदीप्राणि; b °णा यराईवइं पादकमलानि.

तल्लरजलि कईलासु वि जलयरु	अदुमगामि परंडु वि तरुवरु ।
खलसुग्गीवरामणलहणुयहं	तारकुंदकुमुयहं खगमणुयहं ।
एयहं मज्झि तुहुं मि भहु भण्णाहि	तेण बण्ण मइं रणि अवगण्णाहि । 10
मुइ मुइ तेरउ आउहु केहउं	महु मयंगमसयंतरु जेहउं ।
भणइ विहीसणु जुज्झसमत्थइं	पहु मेलेसइ मायासत्थइं ।
चित्तिहि तुहुं पण्णत्ति जणहण	लहु करि मायाघाहण पहरण ।
घत्ता—तं तेम करेण्णिणु भुय विहुणेण्णिणु अभिद्वउ दहमुहहु हरि ॥	
कइयणवयणुत्तिहि महणपवित्तिहि णाइ समुदहु सुरसिहरि ॥१४॥	15

15

दुवई—बेण्णि वि पीयवास बेण्णि वि णीलंजणगरलसामया ॥
 दोहिं मि कुलिसंककसंकुसवस चोइय मत्तसामया ॥ ६ ॥

बे वि कुद्ध बद्धठाण	मुक्क तेहिं दिव्व बाण ।	
रामणेण मुक्कु णाउ	लक्खणेण पक्खिराउ ।	
रावणेण अंधयारु	लक्खणेण मुक्कु सुरु ।	5
रावणेण मेरु चंडु	लक्खणेण वज्जदंडु ।	
रावणेण आसु आसु	लक्खणेण सेरिहीसुं ।	
रावणेण वारिवाहु	लक्खणेण गंधवाहु ।	
रावणेण चिच्चिजाल	लक्खणेण मेहमाल ।	
रावणेण दंति दीहु	लक्खणेण मुक्क सीहु ।	10
रावणेण रक्खसिंदु	लक्खणेण खेउविंदु ।	
रावणेण रत्तिणाहु	लक्खणेण मुक्क राहु ।	
रावणेण मुक्कु रुक्खु	लक्खणेण दुण्णिणरिक्खु ।	
पज्जलंतु जायवेउ	दिग्गयग्गलग्गतेउ ।	
घत्ता—सुरसमरसमत्थे विज्जासत्थे जेण जेण रावणु हणइ ॥		15
पडिवक्खीहणं भासुररूवे तं तं लक्खणु णिल्लुणइ ॥ १५ ॥		

४ A किकलासु; T किकलासु परेवकः (?) अथवा किकालसु कुरुविलः (?); K records a p; अथवा किकलासु कुरुविलजीवे न तु गजमत्स्यादयः. ५ P मयंगमसयंतरु.

15 १ A कुलिसंककसंकुस^०. २ A सेरिहासु; T सेरिहेसु.

8 a तल्लरजलि अल्पतडागे; कइलासु करकन्दुकः कर्कटः. 11 b मयंगमसयंतरु गजमशकयो-
 रिवान्तरम्. 12 b पहु रावणः. 14 विहुणेण्णिणु आस्फाल्य. 15 महणपवित्तिहि मथनप्रवृत्ति-
 युक्तस्य जलधेः मेरुरिव.

15 २ मत्तसामया कृष्णवर्णो गजौ. 4 a णाउ सर्पः; b पक्खिराउ गरुडः. 7 a आसु
 शीघ्रम्; आसु अश्वः; b सेरिहीसु प्रचण्डमहिषः. 8 b गंधवाहु वायुः. 9 a चिच्चिजाल अग्निज्वाला.
 11 b खेउविंदु क्षेमवृन्दः पूजाहोमादिशान्तिः. 14 a जायवेउ अग्निः.

16

दुवई—ता धगधगंघगंतु खयजलणु व खेयरलच्छिमाणणो ॥

खणि बहुरूविणीइ बहुरूवहि उझाहउ दसाणणो ॥ छु ॥

गयवरि गयवरि हयवरि हयवरि
खेयरि अब्भिडंति पवरांमरि
चउहुं मि पासहिं भडु भीसावणु
वीसपाणिपरिभामियपहरणु
गुंजापुंजसरिसणयणारुणु
अगगइ पच्छइ चंचलु धावइ
गयकुंभयलइ पायहिं पेलइ
परिमंतकरिवरकरं वंचइ
सारिउ कसमसंति मुसुमूरइ
विलुलियकण्णचमर अच्छाडइ
असिणा दारइ मारइ मयगल

रहवरि रहवरि णरवरि णरवरि ।
छत्ति विमाणि जाणि धइ चामरि ।
जलि थलि महियलि णहयलि रावणु 15
तिणयणगलतमालसंणिहतणु ।
हणु हणु हणु भणंतु रणदारुणु ।
मणहु वि पासिउ वेपं पावइ ।
झ त्ति दंत उम्मूलिवि घल्लइ ।
रिक्खइं गेज्जावलिय णिलुं चइ । 10
अंतरसेणासणिय वियारइ ।
कच्छोलंबिय घंटिय तोडइ ।
घिवइ णहंगाणि चलमुत्ताहल ।

घत्ता—भीमाहंवचंडहिं दढभुयदंडहिं चप्पिवि हुंकरेवि धरइ ॥

करि रोहइ जोहइ करणहिं मोहइ दसणविहिणुं वि णीसरइ ॥१६॥ 15

17

दुवई—फोडिवि आसवारसीसकइं मिरइं सकवयगत्तइं ॥

छिंदिवि पक्खराउ हय मारिवि परियाणइं विहित्तइं ॥ छु ॥

गयणयलि लग्गेवि कहकहरवं हसिवि
ता रक्खधयलक्खणा गुलुगुलंतेहिं
णवजलहरेहिं व जललव मुयंतेहिं
झणझणियमणिकिक्किणीसोहमाणेहिं

बहुरूविणा रामकेसवहं गय तसिवि ।
रिउदुज्जया लोहदढमहियदंतेहिं ।
चलकण्णतालेहिं सुरगिरिमहंतेहिं । 5
अणवरयकरडयलपरिगलियदाणेहिं ।

16 १ AP धगधगंतु. २ AP ०रूवणीए. ३ A पउरामरि; P पउरपवरामरि. ४ P भीसा-
मणु. ५ AP धावइ. ६ A ०करि वंचइ. ६ AP रिक्खे. ७ AP घंटउ. ८ A भीमाउह. ९ P ०विहित्तु.

17 १ AP तोडिवि. २ A विहत्तइं. ३ A तारवधयं; P तो रक्खधयं. ४ P ०गहियं.
५ AP रुणुणियं. ६ A अणवरयपरिगलियकरडयलदाणेहिं.

16 6 b तिणयणगल ० रुद्रस्य कण्ठः. 8 b मणहु वि पासिउ वेपं पावइ मनसः पार्श्वत्
मनसः सकाशादपि वेगेनागच्छति. 10 b रिक्खइं तारकाः; गेज्जावलिय श्रीवाक्षुद्रघण्टिका.
11 a सारिउ गजपर्याणानि; b अंतरसेणासणिय सेनाया अन्तर्मध्ये ये आसनिनः गजाश्वाद्यारूढाः.
15 करणहिं आवर्तनादिभिः.

17 2 परि याणइं पर्याणकानि. 3 a कहकहरवं हसिवि यथा भवत्येवं हसित्वा.

सोवणसारीणिबद्धविधेहिं करणासियागहियगयाहगंधेहिं ।
 दंतंगभिण्णगखगरहतुरंगेहिं भड वे वि धिय गयणि मायामयंगेहिं ।
 ता मुक्क दहंमुहिण पच्छइय णहभाय विसविसम गुरुविसहरायार णाराय ।
 तप्पंजरे छुं दु तेणारिविहवणु अलिकसणु हयवसणु बीमवणु सिरिमणु
 पुणु पहरणावरणि मणि विज्ज संभरिवि सरणिथरु जजरिवि हुंकरिवि णीसरिवि ।
 जा वीरु उत्थरिवि चप्परिवि पइसरइ स रहंगु तहिं ताम धरणीसरो सरइ ।
 घत्ता—णवचंदणचच्चिउ कुसुमहिं अंचिउ रयणाराकिरणोहदलु ॥
 णं रावणलच्छिहि कमलदलच्छिहि करयलाउ णिवडिउ कमलु ॥ १७ ॥

18

दुवई—रूसंतेण तेण महुमहणमहासुहडे णिओइयं ॥
 तं कुडिलयरचहुलतडिवलयणिहं गयणे पधाइयं ॥ छ ॥

ता दिट्ठु णहि पंतु	सहस ति णिवडंतु ।	
धाराकरालेहिं	करवालंसूलेहिं ।	
झसमुसलंसेल्लेहिं	वावल्लभल्लेहिं ।	5
अरिणरकयंतेहिं	कंपणहिं कौंतेहिं ।	
कयकण्हपक्खेण	गवपं गवक्खेण ।	
कुमुएण कुंदेण	चंदं मंहिदेण ।	
सत्तुहणभरहेण	णालेण सरहेण ।	
सुग्गीवणामेण	हणुवेण रामेण ।	10
पडिसल्लिउ णँउ वलिउ	अमरत्थु संचलिउ ।	
रणसिरिहि कुंडलु व	णवरविहि मंडलु व ।	
जसवल्लरीदलु व	भुयजुयलतरुफलु व ।	
माणिकगणजडिउ	लक्खणहु करि चडिउ ।	

घत्ता—जं चकंसमिद्धउ कण्हें लद्धउं तं णारउ णहि णँच्चियउ ॥ 15
 आणंदरसोल्लिउ सिरिधणपेल्लिउ राउ रामु रोमंचियउ ॥ १८ ॥

७ A दंतंगिणिभिण्णखगं ८ A दहवयणं. ९ P छु. १० A धीभवणु.

18 १ A करवालालेहिं. २ A मुसलसल्लेहिं. ३ A मयंदेण. ४ A omits this foot.
 ५ A णहवडिउ. ६ AP चक्कु. ७ AA णच्चिउ. ८ A रामु राउ. ९ AP रोमंचिउ.

7 a °सारी° गजपर्याणकम्. 9 b °वि सहरायार सर्पाकाराः; णाराय बाणाः. 10 a तप्पंजरे नाराच-
 पञ्जरे; b बी भवणु बीमत्सनः, भयानक इत्यर्थः. 12 b रहंगु चक्रम्.

18 1 णिओइयं नियोजितं मुक्तम्. 7 b गवपं गवयराशा. 11 अमरत्थु देवाधिष्ठितं चक्रम्.
 16 रोमंचियउ ह्यष्टः, कृष्णेन लब्धत्वात्.

दुर्धरं—णिवडिय कुसुमविट्टि कउ कलयलु हरिसिय उरयसुरणरा ॥
भामिवि चहु भणिउ गोविदे विसरिस णिसुणि दससिरा ॥ छ ॥

संदण तुरंग	मयमुहयभिग ।	
करि गलियगंड	मेइणि तिखंड ।	
असि चंदहासु	लंकाणिवासु ।	5
ससहरंसमाणु	पुष्पयविमाणु ।	
वइदेहि देहि	मा खयहु जाहि ।	
तूसवहि रामु	करि पयपणामु ।	
जीवहि अतेउ	कंतासमेउ ।	
दट्टाहरेण	असिवरकरेण ।	10
असमंजसेण	अमरिसवसेण ।	
ता भणिउं तेण	णिसियरघएण ।	
पाइकतणय	णिम्मुकविणय ।	
तुम्हहं वराय	कि मज्जु राय ।	
णियजीवधरणु	सुग्गीवसरणु ।	15
पइसरहु जइ वि	णुंवरहु तइ वि ।	
विगयावलेव	देव वि अदेव ।	
भडभिडणसंगि	महुं जुज्जरंगि ।	
किं गणिउ रामुं	तुहुं हीणथामु ।	
जज्जाहि रंक	मग्गंतु लक ।	20
लज्जहि ण केव	हिय सीय जेव ।	
अवराउ तेव	परिचत्तसेव ।	
रामाणियाउ	रायाणियाउ ।	
लेसमि छलेण	णियभुयवलेण ।	
इय भणिवि भीमु	दुल्लंघधामु ।	25
आबद्धकोडु	मेल्लइ सरोडु ।	

19 १ AP °मुहयसिंग. २ P ससहर. ३ A कयपय°. ४ A णउ उव्वरहु तइ वि; P णउ उव्वरहो तइ वि. ५ P adds after this: णिण्णहणामु, संगामकामु. ६ A तुहुं दिण्णधामु. ७ A परिचिण्णसेव. ८ P आबद्ध.

19 2 दससिरा हे रावण. 3 b मयमुहयभिग मदेन मुदितभृङ्गाः. 8 b करि कुरु. 9 a अतेउ निस्तेजाः सन्. 12 b णि सियरघएण राक्षसध्वजेन रावणेन. 17 a विगयावलेव विगत गर्वाः. 22 A अवराउ अपराः (स्त्रियः); b परिचत्तसेव हे त्यक्तसेव राम. 23 a रामाणियाउ रामसंबन्धिन्यः; b रायाणियाउ राज्ञीः. 24 a लेसमि ग्रहीष्यामि. 26 b सरोडु बाणसमूहः.

आइडुचाउ	रायाहिराउ ।	
जाँ उग्गाभाउ	वीसद्धगीउ ।	
ता तक्खणेण	तहिँ लक्खणेण ।	
णं खयपयंगु	मुक्कउ रहंगु ।	30
आयउ तुरंतु	धाराफुरंतु ।	
अरितावणेण	तं रावणेण ।	
भुयखलिउ जइ वि	वेँलि मइ तइ वि ।	
वच्छयलि लग्गु	को किर ण भग्गु ।	
णिवसिरिपमत्तु	परणारिरत्तु ।	35

घत्ता—दहवयणइ केरउ दुहइं जणेरउ तिक्खइ धारइ सल्लियउं ॥
परग्ररिणीमंदिह हियउ असुंदरु चक्के फाडिवि घल्लियउं ॥ १९ ॥

20

दुवई—ता दहवयणि पडिइ पडियइं सुरकुसुमइं सिरि उविदहो ॥
हउ दुंदुहि गहीरु जउ घोसिउ पसरिय दिहि सुरिंदहो ॥ छ ॥
ता सुहडेहिं दिट्ठु रणमहियलु वणवियलियलोहियजलजंजलु ।
भग्ग रहंग रहहिं सहुं रहियहिं फट्ठयग्गाहिं वंसविरहियहिं ।
चामर पडिय हंस णं मारिय चुलिय जोह पडिजोहवियारिय । 5
मोडियदंडइं छत्तइं धवलइं दिट्ठइं णाइ अणालइं कमलइं ।
ल्लिणगुणइं महिलुलियइं चावइं णं खलचित्तइं भंगुरभावइं ।
धम्मगुणुज्झिय सुद्धिइ जुत्ता बाण रिसि व्व मोक्खुं संपत्ता ।
दाणवंत मत्थैयखणणुज्जय णावइ पिसुणं सढं णिरु दुज्जय ।
कुडिल लोहणिम्मिय पडिअंकुस दिट्ठा तुरय जंत तोडियकुस । 10
खलियणं णिवडियाइं पल्लाणइं विट्ठइं विहंडियाइं जंपाणइं ।
दिट्ठइं णिवकवल्लं ककालइं मासगासु लेतइं वेयालइं ।
कडयमउडकोडल्लं कडिसुत्तइं विट्ठइं दसदिसासु पविहत्तइं ।
घत्ता — भडभालविणिहियइं विहिणा लिहियइं अचलइं भवियव्वक्खरइं ॥
जाइवि गयचम्मइं सदर्णरम्मइं कावालु वायइ वरइं ॥ २० ॥ 15

१ AP आइडुचाउ. १० AP जामुग्गं. ११ A वलवंडु; P वल्लवंडु.

20 १ A रणि महियलु. २ AP मोक्खु णं पत्ता. ३ A °मंथय°. ४ A पिसुणसत्थु.
५ A विहलियाइं. ६ A °कवाल°. ७ AP °कुंडल°. ८ P भडसल° ९ A जोइवि. १० AP दंसणरम्मइं.

34 b बलि बलवत्; म इ बलात्कारेण. 37 °मं दि रु °गृहभुतं चित्तम्.

20 3 b °लो हिय जल जं जलु लोहितस्य रक्तस्य तडागः. 6 b अणालइं नालरहितानि.
7 b भंगुरभावइं वक्राणि. 9 a दाणवंतं रयादि गजा दानवन्तः तेषां मस्तकखननोद्यता अङ्कुशाः;
b सढं कपटत्वेन. 10 b तो डिय कु स श्रोष्टिततर्जकाः. 15 वायइ वाचयति.

21

दुवई—पडिवारणविसाणजुयपेळियंघळियमत्तवारणे ॥

होही रिउहुं मरणु हरिहंत्ये सीयाकारणे रणे ॥ छ ॥

तहिं हिंडंतहिं विह्विचिच्छोइय	घरिणिहिं णियणियपिययम जोइय ।
काइ वि पिउ सरसयणि पसुत्तउ	विट्टउ णं रणलच्छिहि रत्तउ ।
काइ वि पिउ लुलियंतहिं रुद्धउ	विट्टउ णं जमसंकलवद्धउ । 5
खंडंखंडु हुउ मुउ णोलक्खिउ	काइ वि पिउ पयखंडे लक्खिउं ।
उज्जएण पडिएण महाहवि	क वि अंगुलियउ भंजइ राहवि ।
का वि भणइ हलि जूरइ महु मणु	लक्खणेण महु रंडालक्खणु ।
पायडियउं एवहिं किं किज्जइ	वर णियणाहें समउं मरिज्जइ ।
का वि भणइ णियणियइ ण याणिय	पहुणा गोत्तमारि कहिं आणिय । 10
डज्जउ सीय सुविप्पियगारिणि	खलदइवे संजोइय वइरिणि ।
का वि भणइ उव्वसि पिउ मेळ्ळहि	रंभि तिलोत्तमि किं पि म बोळ्ळहि ।
कण्णावरु इहुं णाहु महारउ	अत्थंक्कइ किह होइ तुहारउ ।
कासु वि सिवपयगमणविसेसें	समरदक्ख दक्खालिय सीसें ।

घत्ता—ता तहिं मंदोयरि देवि किसोयरि थण अंसुयधारहिं धुवइ ॥ 15

णिवडिय गुणजलसरि खगपरमेसरि हा हा पिय भणंति रुयइ ॥२१॥

22

दुवई—हा केलाससेलसंचालण हा दुज्जयपरक्कमा ॥

हा हा अमरसमरडिंडिमहर हा हरिणारिविक्कमा ॥ छ ॥

हा भत्तार हार मंणरंजण	हा भालयलतिलय णयणंजण ।
हा मुहसररुहरसरयमहुयर	हा रमणीयणणिलय मणोहर ।
हा सुहव सुरहियसिरसेहर	हा रिउरमणीकरकंणहर । 5
हा थणकलसविह्वसणपल्लव	हा हा हिययहारि णिच्चं णव ।
हा करफंसजणियरोमंचुय	आलिगणकीलाभूसियभुय ।

21 १ A पेळिवि. २ P हरिअत्थे. ३ AP सरसयणइ सुत्तउ. ४ P खंडखंड. ५ P लक्खि-
यउ. ६ A उज्जएण. ७ A सुइ. ८ A पहु. ९ A अच्छइ कह वि; P अथक्कइ किह.

22 १ P जणरंजण. २ A बुहसररुहं. ३ AP रमणीमणं. ४ A हालिगणं.

21 1 °वि साणं दन्ताः. 3 a °वि च्छो इ य वियोगं प्रापिताः. 5 a लु लियंत हिं लुलितैरन्व-
जालैः. 6 b पयखंडे पादखण्डेन. 7 a उज्जएण सरलेन. 13 b अथक्कइ इदानी एवमेव वा.
14 a सिवपयं शृगालीपदं मोक्षस्थानं च.

22 2 हरिणारिविक्कमा हे सिंहपराक्रम. 3 a हार मनोइ.

पेसलवयैणविहियसंभासण
 हा पंचेदियविसयसुहावह
 हा लंकाहिव खेयरसामिय
 हा मंदरकंदरकयमंदिर
 पइं विणु जगि दसास जं जिज्जइ
 हा पिययम भणंतु सोयाउरु
 घत्ता—ता णियकुलभूसणु दुक्क विहीसणु तहिं तक्खणि सुविसण्णमइ ।
 जगकाणणमाणु भडपंचाणणु जहिं णिवडिउ लंकाहिवइ ॥२२॥ 15

23

दुवई—अण्णउ रयणकिरणविष्फुरियइ झुरियइ हणइ जावहिं ॥

जीविउ विह्वंतु कयसंतिहिं मंतिहिं घरिउ तावहिं ॥ छ ॥

हा हा कयउं कम्म मइं भीसणु
 अज्जु सरासइ सत्थु ण सुयरइ
 जयसिंरि पत्तं अज्जु विहवत्तणु
 अज्जु इंदु भयवसहु म गच्छउ
 अज्जु तिब्बु णहि तवउ विणेसरु
 अज्जु जलणु जालेउ वित्थारउ
 णेरिउ अज्जु रिंछु आवाहउ
 अज्जु वरुणु अण्णाणु पसंसउ
 अज्जु कुबेरु कोसु मा ढोघउ
 भायर पइं गइ णारयंठाणहु
 णियतणु पह्णिवि रुयइ विहीसणु ।
 अज्जु कित्ति दसदिसहिं ण वियरइ ।
 गयउ अज्जु पहु सत्तिपवत्तणु । 5
 अज्जु चंदु सहुं कंतिइ अच्छउ ।
 अज्जु सुयउ णिञ्चितु फणीसरु ।
 वइधसु अज्जु सइच्छइ मारउ ।
 दिक्करिउल्लु मा कासु वि बीहउ ।
 अज्जु वाउ उववणइं विहंसंउ । 10
 अज्जु कामु अण्णाणउं जोघउ ।
 अज्जु णयरि णंदउ ईसाणहु ।

घत्ता—पइं मुइ धरणीसर खगपरमेसर सुरवरं जयदुंदुहि रसउ ॥

तृयै राहवचंदहु सूर्य गोविंदहु अज्जु णिरंकुंस उरि वसउ ॥ २३ ॥

५ AP विहियवयण^०. ६ A ^०पोमंदिर.

23 १ A विष्फुरियइ. २ AP अज्जु पत्त. ३ A जालावित्थारउ. ४ A विहंसंउ.

५ A णारयगमणहु. ६ A सुरवइ. ७ AP तिय. ८ AP सिय. ९ A णिरंकुसि.

8 a पेसलवयण^० मनोहरवचनम्. 12 a जिज्जइ जीव्यते.

23 २ विह्वंतु मारयन्, मन्. 13 पइं मुइ त्वयि मृते सति.

24

दुवई—अञ्जु मिलंतु मच्छ मंदाइणि वहउ ससंकपंडुरा ॥

पई मुइ खेरिद कह होसइ सा णवघुसिणापिंजरा ॥ छ ॥

णारउ णांउ आउ णासणविहि	सीय णं हित्त हित्त परियणदिहि ।
रामु ण कुद्ध कुद्ध जगभक्खउ	लक्खणु ण भिडिउ भिडिउ कुलक्खउ ।
चक्कु ण मुक्कु मुक्कु जमसासणु	तं णउ लग्गउ लग्गु हुयासणु । 5
वच्छु ण भिण्णु भिण्णु धरणीयलु	रुहिरु ण गालेउ गालेउ सज्जणबलु ।
तुहुं णउ पडिउ पडिउ कामिणिगणु	तुहुं ण मुओ सि मुउ विहलियजणु ।
चेट्ट ण भग्ग भग्ग लंकाउरि	दिट्ठि ण सुण्ण सुण्ण मंदोयरि ।
हा भायर किं ण किउ णिवारिउ	किं महु तणउं वयणु अवहोरिउ ।
लक्खण राम काइं णउ मण्णिय	किं सुग्गीव हणुव अवगणिय । 10
दुज्जसकारिणि णयंणुणवंतहं	किं ण दिण्ण पणइणि मग्गंतहं ।
किह कुलिसु वि घुणेहिं विच्छिण्णउं	तुज्जु वि मरंणु केव संपण्णउं ।
हा पई विणु मई काइं जियंतं	हा हउं कवलिउ किं ण कयंतं ।

घत्ता—कायर मन्भीसिवि अभउ पघोसिवि विजयसंखु पूरिवि लहु ॥

तामायउ लक्खणु राउं वियक्खणु सुग्गीउ वि हणुएण सहुं ॥२४॥ 15

25

दुवई—भासिउ राहवेण दहमुहु तुहुं सोयहि किं विहीसणा ॥

जासु खगिद्वंद्वंदारय विरइयपायपेसणा ॥ छ ॥

विलसियचंदसूरणक्खत्तइ	एयहु को समाणु भुयणत्तइ ।
एक्कु जि णवर दोसु दमियारिहि	जं अहिलासु गयउ परणारिहि ।
जंइ ण वि किउ जिणधम्मवपसणु	वारिवि कैरुण रुवंतु विहीसणु । 5
रामापसैं जगकंपावणु	चउट्ठिं जणहिं उच्चाइउ रावणु ।
होइ सुरिट्टु वि गयणुणसारउ	परयारेण सव्वु लहुंयारउ ।
कंचणमइ विमाणि सणिहियउ	पेयभूसणायारु वि विहियउ ।

24 १ A कहिं. २ A आउ णाइ. ३ A णिहित्त. ४ A णियं. ५ AP केम मरणु. ६ P रामु.

25 १ A विरइयणिचपेसणा. २ A जेहिं ण किउ; P जइ णहिं किउ. ३ AP कलुणु.

४ A हलुआरउ.

24 1 मंदाइणि गङ्गा. 3 a णारउ णाउ नारदो नागतः, किं तु नाशविधिरागतः. 4 a जगभक्खउ यमः. 7 b विहलियजणु अर्थजनः. 8 a चेट्ट शरीरच्छेदा. 11 b पणइणि सीता. 14 मन्भीसि वि यूयं भयं मा कुरुतेत्युक्त्वा.

25 7 b परयारेण परस्त्रीदोषेण. 8 b पेयभूसणा यारु मृतकशृङ्गाराचारः.

उभिय कयलिखंभ सुहसुंभइ	णं मसाणघरकरणांभइ ।	
धरियइ उणपरि वण्णविचिच्छइ	दुक्खवेह्लिपत्ताइं व छत्तइं ।	10
पविलंबियउ पडायउ दीहउ	णावइ सोयमहातरुसाहउ ।	
पसरिय चंदोवय णं खंलयण	थिय बंधव काला णं णवघण ।	
बाहसलिलधारहिं वरसंति व	तूरइं दुहभिण्णाइं रसंति व ।	
घत्ता—हउं कट्टे घडियउ चम्मं मदियउ परकरताडणु जं सहमि ॥		
णं एउं सुजुत्तउं पडहें वुत्तउं तं दसासु महिवइ महमि ॥ २५ ॥		15

26

दुवई—एमहिं तेण मुक्कु किं वज्जमि वज्जमि परणरिदहं ॥
लक्खणरामचंदसुग्गीवहं णीलमहिंदकुंदहं ॥ छु ॥

रत्तउ णं विरहग्गे तत्तउ	णं रुयंति वित्थारियवत्तउ ।	
बहुयउ काहलाउ तुरुतुणियउ	सहु मुयंति जीउ णं तुरियउ ।	
भणइ व संखु अणाहु ण णीवमि	परसासाऊरिउ किं जीवमि ।	5
वंसु भणइ हउं काणणि पइसमि	छिइवंतु मुइ सामि ण विरसमि ।	
डञ्जउ महलु कूरं गज्जइ	पहुमरणि वि भोयणि णउ लज्जइ ।	
कट्टहं मज्झि णिवेसिउ उत्तमु	परकलत्तहरणे णासिउ कमु ।	
दिण्णु हुयासु सिहालिउ वंकइ	दससिरदेहु छिवहुं णं संकइ ।	
णं पवणे कट्टिज्जइ लग्गउ	पहुउणपरि चडंतु णं भग्गउ ।	10
घत्ता—जो सीयासावे णियमणकोवे दूसहविरहें जालियउ ॥		
सो राउ हुयासें पेयपलासें जालकरग्गे लालियउ ॥ २६ ॥		

27

दुवई—जाणिवि मुउ णरिदचूडामणि सव्वंगहिं समुग्गओ ॥
तहु सत्तच्चि सत्तधंऊहरु झ त्ति धग त्ति लग्गओ ॥ छु ॥

५ A दुज्जण. ६ A तं एउ ण वुत्तउं.

26 १ P किह. २ P omits वज्जमि. ३ P °सासाऊरिय. ४ A सीयासोए. ५ AP तावि-यउ. ६ AP °करग्गहिं जालियउ; T लालिउ स्पृष्टः.

27 १ AP समग्गओ. २ P °धाहुहरु.

9 a सुहसुंभइ सुखविध्वंसके. 11 b °साहउ शाखाः. 14 कट्टे काष्ठेन.

26 5 a अणाहु अनाथो रावणरहितः; b परसासाऊरिउ परश्वासपूरितः. 8 b णासिउ कमु नाशितः कुलक्रमो नीतिर्वा. 9 a सिहालिउ वंकइ ज्वालायुक्तो वक्रं गच्छति. 11 सीयासावे सीताशापेन. 12 पेयपलासें प्रेतपिशितभक्षकेण; जालकरग्गहिं लालियउ ज्वाला एव काराग्रास्तैः स्पृष्टः.

27 1 सव्वंगहिं सर्वस्मिन् शरीरे; समुग्गओ समुद्रतः. 2 सत्तच्चि अग्निः; धगत्ति प्रज्वाल्य-मानः.

वइरिविहंडणु कालें लद्धउ
 तासु सरीरु तेण उवजीविउ
 जं जासु वि तं तासु जि छज्जइ
 ण्हाइवि सयणहिं दिण्णउं पाणिउं
 पत्थंतरि असोयवणि पइसिवि
 अंगंगयणलणीलविहीसहिं
 पणविवि जणयवसुंधरिधीयहि
 आणिय मिलियं देवि बलहइहु
 हेमसिद्धि णावइ रससिद्धहु
 दिव्यवाणि जाणियपरमत्थहु
 चित्तसुद्धि णं चारुमुणिदहु
 णं वरमोक्खलच्छि अरहंतहु
 घत्ता—जं दिट्टु समाहउ णियपइ राहउ तं सीयहि तणुकं चुइउ ॥ 15
 पुलएण विसट्टउ उद्ध जि कुट्टउ पिसुणु व सयखंडइं गयउ ॥२७॥

28

दुवई—तोरणविविहदारपायारधरावलिसिहरसोहिप ॥

अरिवरपुरि पइहु हरिहलहर धयमालापसाहिए ॥ छु ॥

मंदोयरि रुयंति साहारिवि
 बंधव सयण सयल हक्कारिवि
 मंति महंतमंति संचारिवि
 पढमजिणाहिसेउ णिव्वत्तिवि
 सन्तु मित्तु मज्झत्थु वि वित्तिवि
 अवणिदविणपुरलोहु विवज्जिवि
 पवरपुरिसपरिहास समीहिवि
 लोयदिण्णहियइच्छियकामें
 इंदइ सोयविसंडुलु धीरिवि^१ ।
 णायरणरहं संक णीसारिवि ।
 विग्घकारि सयल वि णीसारिवि । 5
 होम विविहदाणाइं वत्तिवि ।
 समइ सव्वसामंत णियंतिवि ।
 गह बंभण णेमित्तिय पुज्जिवि ।
 पालिवि धम्मु अधम्महु बीहिवि ।
 रामोरामें रापं रामें । 10

३ A तो उण. ४ A बंधुवग्गु. ५ AP किक्किधपुरेसिहिं. ६ AP देवि मिलिय. ७ AP णं जगपरम^०.
 ८ A णं तिल्लोक्कलच्छि.

28 १ P भोयविसंडुलु. २ AP वारिवि. ३ AP विग्घकारि णीसेस णिवारिवि. ४ A अवणि
 दविणु पुरलोहु; P अवणिदविणपरलोहु. ५ A पुरि पइसेप्पिणु लक्खणरामें.

५ b करहचरणि उट्टपादे. 15 समाहउ माधवसहितः. 16 विसट्टउ विकसितः.

28 3 a साहारिवि धीरयित्वा; b सोयविसंडुलु शोकेन शिथिलः. 7 b समइ स्वमते
 निजादेशे. 9 a पवरपुरिसपरिहास समीहिवि नर्महास्यं चिन्तयित्वा, मम वचनमन्यथा मा भवतु,
 किं तु विभीषणस्य राज्यदाने सत्य वचो भवतीति भावः.

घत्ता—पविमलगलियंभहिं कंचणकुंभहिं ण्हाणिवि पट्टबंधु विहिउ ॥
रणि मारिचि रावणु भुवणभयावणु रज्जि विहीसणु संणिहिउ ॥ २८ ॥

29

दुवई—इय को करइ भिडेइ वि भडगोंदलि भुवणंगणमरावणं ॥
छज्जइ एम कासु णिव्वहइ वि सुहिपडिवण्णपालणं ॥ छु ॥

एह रुढि एहउं गरुयत्तणु	मेळ्ळिवि पउमु कासु सुयणत्तणु ।
कोसु देसु सो तं पुरु परियणु	तं पणियंगणकुलु पीवरथणु ।
ताइं आयवत्तइं वाइत्तइं	जाणइं जंपाणइं सुविचित्तइं । 5
ताइं वणाइं अमरतरुगंधइं	ताइं जि जाउहाणनुवचिंधइं ।
ते असिकर दुकरकर किंकर	ते हयवर ते गयवर रहवर ।
लंकादीउ तं जि सो जलणिहि	ते चामीयरभरिय महाणिहि ।
णिहिलइं हियवइ तणु व वियप्पिवि	दहमुहाणुजायहु जि समप्पिवि ।
मेइणिसाहणि तिजगजयाणउं	लक्खणरामहिं दिण्णु पयाणउं । 10

घत्ता—ते रामजणहण दणुयविमहण परिभमंति भुवणयलइ ॥
आवाहियचलरह णावइ सभरह पुप्फयंत गयणयलइ ॥ २९ ॥

इय महापुराणे तिसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमणिणए
महाकइपुप्फयंतविरइए महाकव्वे रावणणिहैणणं विहीसण-
पट्टबंधो णाम अट्टहत्तरिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ७८ ॥

६ P ण्हाविवि.

29 १ AP भिडेवि भड^०. २ AP^०णिव^०. ३ A^०णिमाहणं. ४ AP^०पट्टबंधणं.

29 1 अरावणं रावणरहितम्. 2 सुहिपडिवण्णं सुहृत्प्रतिपन्नम्. 3 a रुढि प्रसिद्धिः;
b मेळ्ळिवि पउमु रामं सुक्त्वा. 4 b पणियंगणं वेद्याः. 5 b जाउहाणनृव^० राक्षसन्वृपो रावणः.
9 b दहमुहाणुजायहु विभीषणस्थ. 10 सभरह सनक्षत्ररथौ स्वेन नक्षत्रप्रच्छादकौ वा.

णिहणिवि भीमु रणि हुज्जउ रावणु मयमत्तउ ॥
महि हिंडंतु पहु पीढरि रामु संपत्तउ ॥ ध्रुवकं ॥

1

गिरि सोहइ हरिणा भउ जणंतु	पहु सोहइ हरिणा महि जिणंतु ।
गिरि सोहइ मत्तमऊरणाउ	पहु सोहइ णायमऊरणाउ ।
गिरि सोहइ वरवणवारणेहिं	पहु सोहइ वारिणिवारणेहिं । 5
गिरि सोहइ उंठियवाणरेहिं	पहु सोहइ खगधयवाणरेहिं ।
गिरि सोहइ णववाणासणेहिं	पहु सोहइ भडवाणासणेहिं ।
तेहिं पुव्वकोडिसिल दिट्ठ तेहिं	पुज्जिय वंदिय हूरिहलहरेहिं ।
मंतिहिं पउत्तु भो धम्मरासि	उद्धरिय तिविट्ठे प्ह आसि ।
एवहिं जइ लक्खणु भुयहिं धरइ	तो देव तिसंउधरत्ति हरइ । 10
तं णिसुणिवि पभणइ रामु एव	अज्जु वि तुम्हहं मणि मंति केव ।
जांव वि रणि णिहलियउ दसासु	जांव वि सिरि दिण्ण विहीसणासु ।
तांव वि तुम्हहं संदेहबुद्धि	लइ किज्जइ सब्बहं हिययसुद्धि ।

घत्ता—जो अतुलइं तुलइ बलवंत वि रिउ विणिवायइ ॥

सो हरि कुलधवलु सिल प्ह किं ण उच्चायइ ॥ १ ॥ 15

2

दढकढिणयोरदीहरकरासु	दहवयणवालज्जीवियहरासु ।
विहसिवि रामे लच्छीहरासु	आपसु दिण्णु णियबंधवासु ।
ता भाइवयणतासियमणण	उच्चाइय सिल लहु लक्खणेण ।

1 P पीयलहरि. २ A उट्टिय^०. ३ AP सिलकोडिपुव्व तहि दिट्ठ तेहि. ४ P omits हरि^०.
५ A णं धम्मरासि. ६ AP पुणरवि सिरि.

2 १ A रामु.

1 2 पीढरि रि पीठगिरि कोडिशिलाम्. 3 a हरिणा सिहेन; भउ भयम्; b हरिणा लक्ष्मणेन. 4 a मत्तमऊरणाउ मत्ता मयूरा नागा सर्पाश्च यत्र; b णायमऊरणाउ ज्ञातो मयूनां किनराणां उरोनादो हृदयध्वनिथेन. 5 a a^० वणवारणे हिं वनगजैः; b वारिणिवारणे हिं जलनिवारणैश्छत्रैः. 6 b खगधयवाणरे हिं विद्याधरध्वजलिखितवानरैः. 7 a णववाणासणे हिं नवैः बाणवृक्षैः असनवृक्षैश्च; b बाणासणे हिं धनुर्भिः. 8 a पुव्वकोडिसिल पूर्वकोटिशिला इति नाम.

2 2 a लच्छीहरासु लक्ष्मणस्य.

पविउलभुयचालिय णं धरिस्सि
णं रामहु केरी विमल कित्ति
दीसंति लोयणयणहं सुहाइ
उप्परि सीरिहि कसणायवत्तु
सोहाइ सिलग्गु कण्हण धरिउं
उययम्मि अरुणकिरणोहत्तु
वीरेहिं वि मुक्कउ सीहणाउ
चक्किहि पय वंदिवि वइरितासि

घत्ता—लक्षणकयथुइहिं णरदेवहिं कणहु पउत्तउ ॥
सजलहेमघडहं अट्टत्तरसहसें सित्तउ ॥ २ ॥

णावइ तिखंडमहिरायवित्ति ।
णं णिरु असज्जसाहणसंमिस्सि । 5
भहियभुयदंडुद्धरिउ णाइ ।
णं जर्यजसवेह्लिहि तणउं पत्तु ।
बहुपोमरायकरजालफुरिउं ।
उययाचलभाणुहि णाइ विट्ठु ।
सउणंदउ णामे जक्खु आउ । 10
ते दिण्णु तासु सउणंदयासि ।

3

संचलिउ राउ अरित्तिमिरभाणु
कल्लोललुलियझसंसुसुमारु
हयगर्यवरखंधाइण्णजोहु
हरिणा रहु वाहिउ जलहिणीरि
धणुगुणाधिमुक्कु सरु सुद्धिवंतु
ते देवहु दाणवमहणासु
कुंडलजुयलउं मणिकिरणणीहु
तहिं होतउ गउ अणुजलहितीरु
केऊरमउडकंकणपवित्तु
तहिं लहिवि विणिग्गउ गउ तुरंतु
संताणमाल सेयायवत्तु
पालेप्पिणु पुणु परियलियगव्व

घत्ता—गउ वेयह्मिगिरि खगसेट्ठिउ वे वि जिणेप्पिणु ॥
हयमायंगवरखेयरकण्णाउ लएप्पिणु ॥ ३ ॥

अणुंगंग पुणु वि दिण्णउं पयाणु ।
दियहेहिं पत्तु सुरसरिदुवारु ।
थिउ काण्णिण वल्लु दूसोहसोहु ।
पायालमूलपूरणगहीरि ।
संप्रायउ मागहु पय णवंतु । 5
दिण्णउ अहिसेउ जणहणासु ।
ससिकंतु हारु मणहरु किरीडु ।
साहिउ वरतणु पणवियसरीरु ।
चूडामणिकंठाहरणजुत्तु ।
सिंधुहि पइसरिवि पहासु जित्तु । 10
मुत्ताहलदामु मलोहचत्तु ।
साहिय वरुणासामेच्छ सब्ब ।

२ P भ्रत्ति. ३ AP सवित्ति. ४ A जसजय°. ५ AP जालजडिउ.

3 १ P रामु. २ AP अणुमग्गे. ३ P सुसुआरु. ४ AP गयरहखंधा°. ५ AP उववणि.
६ A बलदूसोह°. ७ AP संपाइउ. ८ AP पावेप्पिणु गउ. ९ A परिगलिय°.

5 b अस उहसाहणसमिस्सि असाध्यवस्तुनः साधने समाप्तिः परमोत्कर्षः. 6 b भहियभुयदंडुद्धरिउ णाइ विण्णुभुजदण्डोद्धृतं छत्रमिव. 7 a सीरिहि बलभद्रस्य. 8 b पोमराय° तत्र गिरौ पद्मरागमणयो वर्तन्ते. 11 a वइरितासि शत्रूणां भयानकः; b सउणंदयासि सौनन्दकनामा असिर्दत्तः. 12 लक्खणकयथुइहिं लक्ष्मणस्य कृतस्तुतिभिः. 12 सजलहेमघडहं जलभृतसुवर्णघटानाम्.

3 3 a खंधाइण्ण° स्कन्धावतीर्णाः. 7 a णीहु गहम्. 11 b मलोहचत्तु मलसमूहरहितः.
12 a पालेप्पिणु कालक्षेपं कृत्वा.

4

पुणु वसिकिउ सुरविसि मेच्छखंड
 गय जइयहुं दोवालीस वरिस
 साहिवि तिखंडमेशणि दुगिज्ज
 हरिचीढि णिवेसिवि घरजलेहिं
 मंडलियहिं णं मेहहिं गिरिंद
 जेहिं दिव्वइं सत्थइं संचरंति
 जहिं देव वि घरि पेसणु करंति
 को वण्णइ हरिबलएवरिद्धि
 जं विजयतिविट्ठहं तणउ पुण्णु
 हो पूरइ वण्णवि काइं एत्थु

महिमंडलि हिंडिवि रायवंडु ।
 तइयहुं हरि हलहर दिव्वपुरिस ।
 जयजयसहेण पइट्ट उज्ज ।
 हयतूरहिं गाइयमंगलेहिं ।
 अहिंसित्त रामलक्ष्मणणरिंद । 5
 तहिं अवसें रणि अरिवर मरंति ।
 तहिं अवसें णर भयैथरहरंति ।
 वाएसिइ दिण्णी कासु सिद्धि ।
 तं एयंहं दोहिं मि समवइण्णु ।
 किं तुच्छवुद्धि जंपमि णिरत्थु । 10

घत्ता—सेविय गोमिणिइ रइलोहइ कीलणमीलइ ॥

रज्जु करंत थिय ते वे वि पुरंदरलीलइ ॥ ४ ॥

5

सुमणोहरणामि सयंबसंति
 सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं
 वंदेप्पिणु पुच्छिउ परमधम्मु
 मिच्छत्तासंजम चउकसाय
 एयहिं ओहट्टइ णाणतेउ
 बंधेण कम्म कम्मेण जम्मु
 इंदियसोकखे पुणु पुणु विसालु
 मोहं मुज्झइ संसारि भमइ
 णारयतिरिक्खदेवत्तणेहिं
 संसरइ मरइ णउ लहइ बोहि

अण्णहिं दिणि णंदणवणवणंति ।
 सिवगुनु जिणेसरु दिट्ठु तेहिं ।
 जिणु कहइ उयांरवियारगम्मु ।
 छंडंतहं सुहु रायाहिराय ।
 ए दुस्सहदुद्दमबंधंउ । 5
 जम्मेण दुक्खु सोक्खु वि सुरम्मु ।
 संपज्जइ जीवहु मोहजालु ।
 अण्णण्णहिं देहहिं देहि रमइ ।
 बहुभेयैभिण्णमणुयत्तणेहिं ।
 ण कयाइ वि पावइ जिणसमाहि । 10

4 १ P रायवंडु. २ A reads *a* as *b* and *b* as *a* in this line. ३ A भउ थर°; P भड थर° ४ P एवहं.

5 १ A सयवसंति. २ P ओयार°. ३ A बहुभोय°.

4 1 *b* रायवंडु राजसैन्यम्. 3 *a* दुगिज्ज दुर्ग्राह्या. 4 *a* हरिचीढि सिंहासने. 6 *a* सत्थइं शस्त्राणि. 8 *b* वाएसिइ वागीश्वर्या सरस्वत्या. 9 *a* विजयतिविट्ठहं प्रथमबलकेशवयोः. 11 रइलोहइ रतिलोमिष्ठया.

5 2 *a* सिरिसिरिहररामणराहिवेहिं श्रीविष्णुश्रीरामाभ्याम्. 6 *b* सोक्खु वि सुरम्मु कदाचित्सुखं च रम्यं भवति विषयजं न त्वतीन्द्रियम्.

सम्मत्तु ण गेण्हइ मंदमूढु
आसंककंखविदिगिछवंतु

लोइयवेइयसमएहिं बूँडु ।
जहु मिच्छादिदि पसंस देंतु ।

घत्ता—चंगउ परिहरइ जं णिदणिज्जु तहिं भत्तउ ॥
राहव जीवगणु जगि पउरु विडुरु संपत्तउ ॥ ५ ॥

6

अणुदिणु परिणामहु जाइ लोउ
खणि खणि अण्णत्तहु जाइ केव
उप्पत्तिवित्तिपलएहिं गत्थु
पज्जाउ जाइ दव्वु जि पयासु
जं रुच्चइ तं तहिं होउ वप्प
जो मणुयलोइ सो णत्थि सग्गि
जो घरि सो किं णीसेसणांमि
एवत्थिणत्थिणिव्वूढसच्चु
जइ जगि सव्वत्थ वि सव्वु अत्थि
जइ एक्कुं जि सयलु जि जगु णियाणि
को खंडिउ को वरइत्तु थक्कु

खणि आणांदिउ खणि करइ सोउ ।
सिहिगहिउ तेल्लु सिहिभाउ जेव ।
पेच्छहि अप्पउ पोग्गलपयत्थु ।
घड मउंउ सुवण्णहु णत्थि णासु ।
णिज्जावणिरण्ह क्कहिं वियप्प । 5
जो सग्गि ण सो पायालमग्गि ।
जो गामि ण सो आरामथामि ।
अरहंतं साहिउ परमतच्चु ।
तो किं गयणंगणि कुसुमु णत्थि ।
तो को णारउ कां सुरविमाणि । 10
सामण्णु अमरु को कवणु सक्कु ।

घत्ता—जइ खणि खणि जि खउ सइत्तुंजे जीवहु दिट्टुउ ॥
ता विरु महिणिहिउ वसुसंचउ केण गविट्टुउ ॥ ६ ॥

४ AP मूढु.

6 १ AP अण्णण्हु. २ A मउडि. ३ AP ०विणिणय. ४ AP णीसेसगामि.
५ AP आरामि. ६ AP एक्कुं वि सयलु वि. ७ AP सो.

11 b लो इ य वे इ य स म ए हिं बूँडु लौकिकवैदिकमतैः क्षितः.

6 2 a अण्णत्तहु अन्यत्वम्; b सि हि ग हि उ तेल्लु सि हि भा उ जेव अग्निना वर्तिसंयोगेन
गृहीतं तैलं यथाग्निर्भवति तथा जीवपरिणामः अन्यत्वं गच्छति. 3 a ०वित्तिं ध्रौव्यम्; गत्थु ग्रस्तः;
a अप्पउपुग्गलपयत्थु आत्मा पुद्गलपदार्थश्च. 4 a पज्जाउ जाइ पर्यायो विद्यते; पयासु प्रकाशं
स्फुटम्. 5 a जं रुच्चइत्यादि उत्पादादिरूपत्रयमध्ये जीवादिवस्तुनि यद्रूपं रोचते विवक्षितुमिष्यते;
b जि जी व णि र ण्ह जीवनिश्चयरहिते अन्वयरहिते; वियप्प उत्पादादिविकल्पाः कुत्र जायन्ते. 7 a
णीसेसणा मि सर्वपदार्थेषु; b आ राम थामि आरामस्थाने. 8 a एवेत्यादि एवं द्रव्यक्षेत्रकालभावै-
रस्तिनास्तिताभ्यां निर्व्यूढं प्रमाणोपपन्ने सत्यं यस्य तत्त्वस्य. 10 a णि या णि अवसाने. 11 a खं डि उ मृत-
भार्यः; वरइत्तु वरः. 12 खउ क्षयो विनाशः. 13 वसुसंचउ द्रव्यकुम्भः; गविट्टुउ दृष्टः.

7

जइ जाणइ सो किर वासणाइ
जइ इंदजालु तिहुयणु असेसु
सिविणोवमु जइ णीसिसु सुणु
जिणपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु
सयलु वि संसारिउ गोरिकंतु
जो आहवि वइरिहिं मलइ माणु
पुरु विद्धउ जेण रइवि ठाणु
विणु वत्तारें सिद्धंतु केत्थु
अप्पउं अंबरिं संजोयमाणु
णिच्चेयणि सुसिरि सिवत्तु थवइ
परु मोहइ सइ तमणियरभरिउ
णिवडइ रउहिं घणि घणि तमंधि

तो ताइ केम्ब खणधंसणाइ ।
तो किं किर चीवरधरणवेसु ।
तो गुरु ण सीसु णउ पाउ पुणु ।
सिबु णिकलुं णिप्परिणामवंतु ।
णच्चइ गायइ तौ किं महंतु । 5
धणुगुणि संधिवि अग्गेयबाणु ।
किं तासु वयणु होसइ पमाणु ।
सिद्धंतं विणु किह मुणइ वत्थु ।
कउलु वि भावइ महु मुक्कणाणु ।
पसुमालु खाइ महु सीहुं पिबइ । 10
इंदियवसु णिंदियसाहुचरिउ ।
णारयहणहणरवि णरयरंधि ।

घत्ता—झायहि जिणधवलु अण्णेण ण दुक्किउ जिप्पइ ॥
करयलकंतिहरु पंकेण पंकु किं धुप्पइ ॥ ७ ॥

8

जइ काउ सरंतहं जाइ गरंतु
जो सेवइ गुरु पाविट्टु दुट्टु
सो सइ जि पाव पावहु जि सरणु
सो गुरु जो मित्तु व गणइ सत्तु
सो गुरु जो मुक्काहरणवत्थु
सो गुरु जो तिणु कंचणु समानु

तइ पावेण जि जणु होइ विमलु ।
देउ वि णिट्ठुरु वैट्ठोडु रुट्टु ।
पइसउ ण लहइ संसारतरणु ।
सो गुरु जो मायाभावचत्तु ।
सो गुरु जो महिमागुणमहत्थु । 5
सो गुरु जो णिरहुप्पणणाणु ।

7 १ A णो पाउ. २ A किं सो महंतु; P किं तो महंतु. ३ A अग्गेउ बाणु. ४ P पूरणु विद्धउ. ५ A अंतरि. ६ A मज्जु. ७ A धणघणरउहिं णिवडइ तमंधि. ८ AP किह धुप्पइ.

8 १ A गरुलु. २ A दुट्टु. ३ A omits this foot. ४ AP गुणमहिमामहंतु. ५ A तणकंचणसमानु.

7 1 b ताईत्यादि तथा वामनयापि किं क्षणविध्वंसनशीलया. 2 b चीवरधरणवेसु बौद्धानां रक्तवस्त्रप्रहणवेपः. 3 a सि वि णो वसु स्वप्नोपमम्. 4 a जि णपिसुणहु णियवयणु जि कयंतु जिनदुर्जनानां निजसिद्धान्तः बाधकं वा; स्ववचनेनैव ते बाधिता इत्यर्थः. 5 a सयलु सशरीरः; गोरिकंतु पार्वतीभर्ता शिवः. 6 b अग्गेयं आग्नेयः. 9 a अप्पउं अंबरिं संजोयमाणु परमब्रह्मदर्शनवशादशेषभेदविद्याविनाशादिति वेदान्तवादिनः; b कउलु वेदान्ती. 10 a सुसिरि आकाशे; b सीहु मद्यम्. 14 करयलकंतिहरु करे स्थितः कर्दमः हस्तकान्तिस्फेटकः; धुप्पइ प्रक्षाल्यते.

8 1 a काउ सरंतहं काकं स्मरताम्. 6 b णिरहुप्पणणाणु निःपापोत्सन्नज्ञानः.

णिञ्चलखमदमसंजमसमेण
 कूरुज्जियदुञ्जयरायरोसु
 तहु धम्मु अहिंसालक्खणिह्लु
 अहवा सो भण्णइ सूणयारु
 गुरुरयणु भणिउ एपं कमेण ।
 अरहंतु देउ परिहरियदोसु ।
 मयमारउ विष्णु वि होइ भिह्लु ।
 जण्णे कहिं लब्भइ सग्गदारु । 10

यत्ता—मेह्लिवि विसयविसु जिणभावे हियवउ भावह ॥
 पालिवि जीवदय सग्गापवग्गसुहु पावह ॥ ८ ॥

9

तं णिसुणिवि परिरक्खियमयाइं
 सम्महंसणविष्फुरियएहिं
 लक्खणहियवउं दुणियाणसहिउं
 दसरह्णि मुइ णिहिय णिरूढसयरि
 गय भायर वाणांसि तुरंत
 रामे सुउ जायउ विजयरामु
 अहिमाणणाणविण्णाणजुत्त
 गोविंदहु णंदणु पुहइचंदु
 अण्ण वि णं मत्तमहागइंद
 गुणगणरंजियभुवणत्तएहिं
 धरियइं रामे सावयवयाइं ।
 अवरोहिं मि भव्वपुंडरियएहिं ।
 तेण जि मंउ तेण ण किं पि गहिउं ।
 सत्तुहण भरह साकेयणयरि ।
 थिय रज्जु करंत हली अणंत । 5
 सीयहि रूवे णं देउ कामु ।
 अवर वि संजाया सत्त पुत्त ।
 पुहइहि ह्यउ पुहइसवंदु ।
 सुय संभूया जियरिउणरिंद ।
 परिवारिय पुत्तपउत्तएहिं । 10

यत्ता—थिय भुंजंत महि गर्उ कालु अकलियपरिवत्तउ ॥
 एक्कहिं णिसिसमइ हरि फणिसयणि पसुत्तउ ॥ ९ ॥

10

पेच्छइ सिविणंतरि पयहिं मालिउ
 केवलेवि विडप्ये तिमिरजूरु
 णग्गोहु दंतिदंतग्गदलिउ ।
 कहिंवि पायालि णिहिंत्तु सूरु ।

9 १ P सरियइं. २ AP वउ. ३ A दसरहसुयविहिय°. ४ AP वाराणसि. ५ P अवर वि जाया तहु सत्त पुत्त. ६ P गयउ. ७ A अहियपरिचत्तउ. ८ A फणिसयणयलि; P मणिसयणि.

10 १ A कवलियउ.

9 b मयमारउ मृगमारकः. 10 b जण्णे यजेन.

9 1 a प रिर क्खि य म या इं रक्षितमृगाणि श्वापदवधरहितानि. 3 a दुणि याण स हि उं दुर्नि-दानयुक्तम्. 4 a णि रूढ स य रि नृषु मध्ये रूढः प्रसिद्धः सगरो यत्र. 11 अ क लिय प रि व त्त उ अकलिताः असंख्याता अनवधारिता वा परिवर्ता यस्य. 12 फ णि स य णि शेषशयने.

10 2 a वि ड प्ये राहुणा; तिमिरजूरु चन्द्रः.

पासायसिहरणिवंडणु णियंतु
 आक्खिउ दुइंसणु भायरासु
 जिह वडतरुवरु चूरिउ गएण
 जं अब्भपिसापं गिलिउ भाणु
 तं संचियचिरुसुं कयावसाणु
 जं णिवडिउं वरधवलहरसिगु
 माहउ पावेसइ देव मरणु
 तवचरणु चरेव्वउं पइं रउहु
 तं णिसुणिवि जयंभीमाहवेण
 अहिंसित्तइं जिणविंबइं जलेहिं
 दहिपैहिं कुंभपल्लत्थिणहिं

उट्टिउ महिवइ अंगइं धुणंतु ।
 ता भणइ पुरोहिउ दुक्कु णासु ।
 तिह सिरिवइ भंजेव्वउ गएण । 5
 चप्पिवि पाविउ महिविबरठाणु ।
 परिपुण्णउं वट्टइ आउमाणु ।
 तं धुवुं पोमामुहपोमभिंणु ।
 पइसेव्वउ जिणवरचरणसरणु ।
 लंघेव्वउ भीसणु भवसमुहु ॥ 10
 पुरि अभयघोसु किउ राहवेण ।
 दुजेहिं धवलधारुज्जलेहिं ।
 वरकामिणिकरणिम्मत्थिणहिं ।

ग्रन्था — ण्हवियइं पुज्जियइं जिणवरपडिबिंबइं रामे ॥

भत्तिइ वंदियइं परिवहियसुहपरिणामे ॥ १० ॥ 15

11

पुरु घर परिहाणु हिरणु धणु
 संति वि^३ विरयंतहं विहुरहम्म
 पुण्णक्खइ दुक्खु दुपेक्खु देतु
 कइवयदिणेहिं सुहिदिणसोउ
 उप्पाइयबंधवहियसल्लि
 काले कवलिउ महिअद्धराउ
 णं णासिउ बंधवसोक्खहेउ
 णं मोडिउ सुरतरुवरु फलंतु
 रिउसीसणिवेसियपायपंसु
 जहिं रावणु तहिं सो दुहपपंसि

जे^१ जं मगइ तं तासु दिणु ।
 हुक्कउं चिरसंत्तिउ घोरकम्म ।
 हयपरवल्लु भुयवल्लु णिक्खवंतु ।
 लच्छीहरंगि संभूउ रोउ ।
 माहम्मि मासि दिणि अंतिमिल्लि । 5
 णं हित्तउ कामिणिरइणिहाउ ।
 अरुल्लोडिउ णं रहुवंसकेउ ।
 उल्लहविउ पयावाणल्लु जलंतु ।
 उट्टाविउ जगसररायहंसु ।
 उप्पणु चउत्थइ णरयवासि । 10

२ P^१ णियडणु. ३ A यमेण; P मएण. ४ A^१ सुकिया. ५ AP धुउ. ६ AP^१ त्रिय. ७ A दहिएण.

11 १ P परिहणु. २ AP^१ जं जं मग्गिउ. ३ A संतिहि. ४ AP^१ रयणिहाउ. ५ A^१ पयासि.

५ b सिरिवइ लक्ष्मणः; गएण गदेन रोमेण. 6 a अब्भपिसापं राहुणा. 7 b आउमाणु आयुः-
 प्रमाणम्. 8 b पोमामुहपोमभिंणु लक्ष्मीमुखकमलभृङ्गो माधवः. 9 b पइसेव्वउ प्रवेशः कर्तव्यः.
 11 a जयभीमाहवेण जगति रौद्रसंभ्रामयुकेन.

11 1 a परिहाणु वस्त्रम्. 2 a संति वि विरयंतहं शान्तिमपि कुर्वताम्; विहुरहम्म
 दुःस्वप्नम्. 4 b रोउ रोगः. 5 b दिणि अंतिमिल्लि पूर्णिमादिने. 6 b रइणिहाउ रतिसमूहः.
 8 b उल्लहविउ विध्मापितः. 9 a^१ पायपंसु पादरेणुः.

विहिणा सोसिर्उ गुणणिहिगहीरु सोपण पमुच्छिउ रामु वीरु ।
 सिंचिउ सलिले माणवमहंतु उमुच्छिउ हा भायर भणंतु ।
 घत्ता—हा दहमुहणिहण हा लक्खण हा लच्छीहर ॥
 हा रयणाहिवइ हा वालिहरिणकंठीरव ॥ ११ ॥

12

धाहावइ सीय मणोहिरामु एकलउ छंडिउ काई रामु ।
 हां हे देवर महु देहि वाय पइं विणु जीवतहं कवण छाय ।
 पूर्णैणु दडुउं हरिसरीरु अवलंविउ सीरें हियइ धीरु ।
 करहयसिरु हाहारउ मुयंतु संबोहिउ अंतेउरु रुयंतु ।
 लक्खणसुउ णामें पुहइचंडु सइं अहिंसिंचिवि किउ कुलि णरिंदु । 5
 सत्तहिं जणेहिं सीयासुपहिं ण समिच्छिय सिरि पीवरभुपहिं ।
 लहुयारउ ताहं पयग्गि णविउ अजियंजउ मिहिलाणयरि धविउ ।
 साकेयणयरि सिद्धत्थणामि वणि परिभमंतचलभसलसामि ।
 सीराउहेण मयमोहणासि तवचरणु लइउ सिंवगुत्तपासि ।
 घत्ता—तहिं रामेण सहं सुग्गीउ वि सुद्धंविवेयउ ॥ 10
 हणुउ विहीसणु वि पावइयउ जायणिव्वेयउ ॥ १२ ॥

13

रापं जापं इसिसीसएण तणयहं तउ लइउ असीसएण ।
 सीयापुहइहिं सुयवइहिं पाय आसंघिय भावें चत्तराय ।
 भुवणुट्टिउ तिट्ठावज्जियाउ जायाउ ताउ तहिं अज्जियाउ ।
 पत्ता वणिण वि णिम्महियकाम सुयकेवलित्तु हणुयंतु राम ।
 इयर वि संजाया रिद्धिवंत मुणिवर णिट्टुरतवतावसंत । 5
 आहुट्टसयाइं गयाइं तासु संवच्छराहं पालियवयासु ।
 पंचहिं वरिसेहिं विवज्जियाइं जइयहुं तइयहुं धुवुं णिज्जियाइं ।
 रामें चउकम्मइं घाइयाइं अमरहिं कुसुमाइं णिवेइयाइं ।

६ A सोहिउ.

12 १ P हा देवर महु दे देहि वाय. २ A जूरैणु. ३ AP सिवगोत्ते. ४ P अइसुविवेयउ.

13 १ AP सुक्कमाय. २ AP भवणुय तिट्ठाणिज्जियाउ. ३ AP धुउ.

14 °हरिण कंठीरव मृगस्य सिंह.

12 3 a पूए णिणु पूजयित्वा; b धीरु धैर्यम्.

13 1 b असीसएण अशीत्यधिकशतेन. 2 a सुयवइहि श्रुतव्रतयुक्तायाः आर्यायः

उप्यणुणं केवलु विमलणाणु
खणि सुरयणु संप्रायउ णंतु

दिट्टुं तिहुयणु गयणु वि अमाणु ।
जय णंद वद्ध रहुवइ भणंतु । 10

घत्ता—एक्कु जि छत्तु तहु पोमासणु चमरइ चवॅलइं ॥
देवहिं णिम्मियइं तारातारावइधवलइं ॥ १३ ॥

14

मुसुमूरंतहु भववइरिवम्मु
छसयाइं सयद्धविमीसियाइं
संमेयसिहरि सो रामभिक्षु
अवर वि सुग्गीवविहीसणाइ
ते सयल भडारा वीयराय
सा सीय पुहइ सा विमलगत्तु
लच्छीहरु णरयहु णीसरेवि
भासंति एव परमत्थवाइ
हरिणा समाण नृवखयणिसीइ

जणवइ साहंतहु परेमधम्मु ।
महिवाल्लि विहरंतहु तहु गयाइं ।
हणुवंते सहु संपत्तु मोक्खु ।
चारित्तवंत जे दिव्वं जोइ ।
अणुदिसणिवासि अहमिद जाय । 5
पत्ताउ कप्पि कप्पामरत्तु ।
पावेसइ सिवपउ तउ चरेवि ।
संपय कासु वि णउ समउं जाइ ।
के के ण खद्ध महिरक्खसाइ ।

घत्ता—सुररह गुरुवयणु मा लक्खणपंथे वच्चह ॥ 10
भरहणरिदथुउ सिरिपुष्कयंतु जिणु अंचह ॥ १४ ॥

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुष्कयंतविरहए महाकव्वे मुणिसुव्वयनित्थसंभूयहंरिसेण-
चक्खट्टिरामवलएवलक्खणवासुदेवरावणपडिवासुदेव-
गुणकित्तणं णाम एक्कूणासीमो परिच्छेओ
समत्तो ॥ ७९ ॥

॥ मुणिसुव्वयचरियं समत्तं ॥

४ A सयलु वि. ५ AP संपाइउ. ६ A णमंतु. ७ AP धवलइं.

14 १ P परममग्गु. २ AP दिहजोइ. ३ AP ०णिव°. ४ A सुमहुर; P समरहु.
५ A omits हरिसेणचक्खट्टि° ६ AP omit ०लक्खण°. ७ AP omit ०रावणपडिवासुदेव°.

12 ०तारावइधवलइं चन्द्रवत् धवलानि.

14 1 a भववइरिवम्मु भववैरिणः स्थितिहेतुत्वान्मर्म कर्मोच्यते; b जणवइ जनपदे देशे.
4 b जोइ योगिनः. 7 b सिवपउ मोक्षपदम्. 9 a नृवखयणिसीइ नृपक्षयनिशया कालरात्र्या.
11 अंचह पूजयत.

वियसावियभुवणसरोरुहहो केवलणाणकिरणधरहो ॥
पणवेप्पिणु णमिजिणदिणयरहो जणमणतिमिरभारहरहो ॥ ध्रुवकं ॥

1

दुवई -- जेण जिया रुइ चल पंच वि वम्महमुक्कसायया ॥	
भयसंसरणकरणविसवेयसमा विसमा कसायया ॥ छ ॥	
मुक्क मही णिवसंगया	समासिद्धंतवसंगया । 5
उज्झियजीवसवासणा	विहिया जेण सवासणा ।
जस्स सुधी पिसुणेहले	सरिसा सहले णेहले ।
छिण्णं जेणुदामयं	आसारइयं दामयं ।
णिच्चं वणयरकंदरे	जो णिवसइ गिरिकंदरे ।
ण महइ धम्मं मंदयं	इच्छइ सासयमं दयं । 10
जम्मि थिए सुइजाणए	जम्मजलहिजलजाणए ।
किं पठंति मयमारया	कामंधा सामारया ।
सइ हंसमि सगारवं	कीस कुणंति बैगा रवं ।
तं णमिऊण णमीसरं	तवसिहिहुयवम्मीसरं ।

All Mss. have, at the beginning of this sandhi, the following stanza:-

लोके दुर्जनमंकुले हतकुले वृष्णावशे नीरसे
सालंकारवचोविचारचतुरं लालित्यलीलाधरे ।
भद्रे देवि सरस्वति प्रियतम काल कलौ सांप्रतं
कं यस्यस्यभिमानरत्निलयं श्रीपुष्पदन्तं विना ॥ १ ॥

1 १ P बहइ. २ A वि गारवं.

1 3 वम्महमुक्कसायया मन्मथमुक्तवाणाः. 4 °वि सवेयसमा विप्रवेगसदृशाः. 5 a णिवसंगया वृपसंगता; b समसिद्धंतवसंगया उपशमसिद्धान्तयोर्वेशं गता विहिता येन. 6 a उज्झियजीवसवासणा उज्झितं त्यक्तं जीवैः मृतकभक्षणं यया वासनया; b सवासणा निजस्वभावः. 7 a सुधी शोभना बुद्धिः; पिसुणेहले दुर्जने अहले फलरहिते; b सहले सफले; णेहले स्नेहले; यस्य शोभना बुद्धिः निःफले दुर्जने सफलेऽपि स्नेहले समाना वर्तते इति भावः. 8 a उदामयं महत्; b आसारइयं वाच्छाकृतम्; दामयं बन्धनम्. 9 a वणयरकंदरे वनचरा भिह्याः कंदरा कन्दमूलग्राहका यत्र, वनचराणां कन्ददायके वा. 10 मंदयं शिथिलताम्; b सासयमं शाश्वतीं मां लक्ष्मीम्. 11 a जम्मियादि यस्मिन् नमितीर्थंकरे; सुइजाणए श्रुताज्ञापके स्थिते सति मिथ्यादृष्टयः किं पठन्तीति संबन्धः; b °जाणए यानपात्रे तरण्डके. 12 a मयमारया मृगमारकाः; b सामारया अप्रसूता श्यामा स्त्री तत्र रताः. 13 a सइ हंसमि हंसे सति बका रावं शब्दं न कुर्वन्तीत्यर्थः.

घत्ता—पुणु तासु जि चरिउ किं पि कहमि सज्जणकोउहलजणणु ॥ 15
कहिणण जेण दिहि वित्थरइ सुहु उप्पज्जइ णाणतणु ॥ १ ॥

2

दुवई—जंबूदीवि भरहि सुच्छायउ वच्छउ विसउं बहुधणा ॥
तहि कोसंबि णयरि चउदारविलंबियरयणतोरणा ॥ छ ॥

घरगयमोरहंसआहरणाहि	कुंकुमंपंकपसाहियचरणहि ।	
मणिविक्रयमुत्ताहलहारहि	दोसियदंसियचीरवियारहि ।	
लोहहट्टलोहेण णिवद्धहि	विक्रमाणणाणारसणिद्धहि ।	5
वलयारावणपयडियवलयाहि	णिच्चभुयंगसंगकयपुलयाहि ।	
चिविहधयत्रहुप्परियणचवलहि	महिलायणकमणेउरमुहु २हि ।	
मंदिरकणयकलसथणवंतहि	पविमलपाणियच्छायाकंतहि ।	
वंदियधवलजिणालयसेसहि	उववणि णिवाडियअलिउलकेसहि ।	
देउलदंतपंतिदावंतिहि	णयरीकामिणीहि णंदंतिहि ।	10
जणि जाणिउ इक्खाउ पहाणउ	पत्थिउ णामे णिवसइ राणउ ।	
सइ कलहंसवंसवीणाञ्जुणि	णामेण जि तहु सुंदरि पणइणि ।	
वासपवेसु व पुण्णपसत्थहं	सुउ सिद्धत्थु सव्वपुरिसत्थहं ।	

घत्ता—ता णरेण णरिंदहु विण्णविउं विद्धंसियजणदुच्चरिउ ॥
मणहरि णंदणवणि अवयरिउ मुणिवरु णामे आयरिउ ॥ २ ॥ 15

3

दुवई—ता सहं सुंदरीइ सहं तणपं सहं परिवाररिद्धिण ॥
गउ णरवइ वणंतु वंदिउ मुणि मणवयकायसुद्धिण ॥ छ ॥

रापं भुवणंभोरुहणेसरु पुच्छिउ तच्चु कहइ परमेसरु ।

2 १ AP देसु. २ A कुंकुमंपंकहि सोहिय^०; P कुंकुमंपंकपसोहिय^०. ३ A वलयारोवण^०.
४ A उववणणिवडिय^०. ५ A तहु णामे सुंदरि पणइणि; P तहु णामे सुंदरि पियपणइणि. ६ A वासु
पवेसु. ७ A मणहर^०. ८ P आइरिउ.

2 1 बहुधणा बहुधनयुक्ता. 3 a^० आहरणहि आभरणयुक्तायाम्; b^० चरणहि^० मार्गीयाम्.
5 b विक्रमाणं विक्रीयमाणाः. 6 a वलयारावणं वलयकाराणे; b^० भुयंगसंगं भोगिलोकः
कामी च. 7 a^० उप्परियणं^० उपरितने उत्तरीयं वस्त्रम्; b^० क मणेउरं^० चरणनूपुराणि. 13 a वास-
पवेसु अभिनवगृहप्रवेशाः; b सिद्धत्थु सिद्धार्थनामा. 14 णरेण केनचित्पुरुषेण.

3 1 परिवाररिद्धिण छत्रचामरादिभिः.

अप्पु उ एक्कु णाणदंसणतणु	णिज्जरु दुविहु दंलियदुक्कियमंणु ।
जोय तिण्णि गारव असुहिल्लइं	जीवगईउ तिण्णि मणसल्लइं । 5
तिण्णिं गुणव्वय चउ सिक्खावय	चउ कसाय कयचउगइसंपय ।
चउ विण्णासवयइं चउ ज्ञाणइं	पंच सरिरइं पंचै वि णाणइं ।
पंच महव्वयाइं आयारइं	पंचाणुव्वयाइं जगसारइं ।
समिदीउ पंच रइयगुणल्लायउ	भणियउ पंचवीस वयमायउ ।
जे लोउत्तमणाहें सिट्ठा	ते पंचत्थिकाय उवइट्ठा । 10
भासियाइं पंचासवदारइं	पंचिंदियइं गहीरवियारइं ।
जीवणिकायभेय छावासय	छहव्वइं छविह लेसासय ।
तच्चइं सत्त सत्त णय संसिय	सत्त वि भय रिसिणा उवएसिय ।
कम्मइं अट्ट अट्ट मय कयमल	अट्ट महीउ अट्ट वितरकुल ।
णव पयत्थ णव बलणारायण	धम्मभेय दह पसमुप्पायण । 15
पयारह सावयगुणठाणइं	बारह अंगइं सत्थणिहाणइं ।
वारह तव तेरह चारित्तइं	चोदह पुव्वइं मुणिणा वुत्तइं ।

ग्रन्था — पायाँलु सग्गु णरवरभुवणु भयवंतेण पयासियउं ॥

जं किं पि जिणागमि लक्खियउं तं णीसेसु वि भासियउं ॥ ३ ॥

4

दुवई—रापं रायपट्टु सिद्धत्थहु भालयले णिवेसिओ ॥

णिसुणिवि चारु धम्मु अरहंतहु अप्पुणु तवु समासिओ ॥ छ ॥

लइय दिक्ख जिणवरु पणवेप्पिणु

पायपुज्जगुरुपाय णवेप्पिणु ।

सिद्धत्थु वि घरवयअइसइयउ

थिउ सम्मत्तरयणच्चिचइयउ ।

3 १ P दुक्कियगणु, २ P तिण्णि वि गुणवय, ३ P पंच जि, ४ A लोयतत्तणाहें, ५ A पायाल.

4 १ A समत्तु रयणु.

4 a णाणदंसणतणु ज्ञानदर्शनस्वरूपः; b दुविहु देशसकलभेदात्. 5 a जोय तिण्णि औपक्रमिक-यथाकालनिर्जराभेदात्, मनोवाक्कायभेदाद्वा; b जीवगईउ पाणिमुक्तगोमूर्त्रिकालाङ्गलीभेदेन. 7 a विण्णासवयइं नामस्थापनाद्रव्यभावभेदात्; b पंच सरिरइं औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणभेदात्. 10 a लोउत्तमणाहें लोकोत्तमनाथेन जिनेन. 11 a पंचासवदारइं मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमाद-कषाययोगा बन्धहेतवः. 12 b लेसासय लेश्यापरिणामः. 14 b अट्ट महीउ णारयभवणवासिय माणुस-जोएण कण्णवासी य । गेवेय सव्वसिद्धी मोक्खमई अट्टमी पुढवी.

4 2 अप्पुणु तवु समासिओ आत्मना स्वयं तपः समाश्रितम्. 3 b पायपुज्ज^० मुनिनामेदम्, 4 b चिचइयउ शोभमानः.

जलणिहिजलवलइयजयसिरिसहि
 णिसुय वत्त जिह जणणु जईसरु
 तणयहु विणयपणयवित्थिण्णहु
 वग्गुरवेदु गाहु मणहरिणहु
 तहिं जि मणोहरवणि तणुंताविउ
 सो अप्पउं जिणभावे रंजइ
 मंडणु करइ अह थोवउं जंपइ
 विकहउ ण कहइ ण सुयइ ण सुणइ
 जग्गइ इंदियचोरहं एंतहं
 रत्तिदिवसु उब्भुब्भउ अच्छइ
 देहि णहु किं पि वि ण समारइ
 मलपविलित्तइ अट्टइ अंगइ
 धीरें सच्चु तच्चु णिज्जायउं
 सोलह थिर हियएण धरेप्पिणु

घत्ता—सो अणसणु करिवि पसणमइ मुणि पांडियमरणेण मुउ ॥

अवराइउ ससहरकरधवलि मणिविमाणि अहमिंदु हुउ ॥ ४ ॥ 20

भुंजंतेण तेण सयल वि महि । 5
 मुउ संणासें णिण्णासियसरु ।
 ढोइवि णियकुलसिरि सिरिदिण्णहु ।
 किउ तवचैरणु हरणु जमकरणहु ।
 मुणिवरु गुरु सम्भावे सेविउ ।
 लद्धउं कालि सुणीरसु भुंजइ । 10
 बंधमोक्खु संसारु वियप्पइ ।
 धम्मज्ञाणु रिसि णिविसुं वि ण मुयइ ।
 सीलद्विणु बलि मइ हंतहं ।
 सत्तु वि मित्तु वि सरिसउ पेच्छइ ।
 पुव्वभुत्तु मणि ण सरइ मारइ । 15
 धरियइं तेण्यारइ अंगइ ।
 खाइउ दंसणु खणि उप्पाइउं ।
 जिणजम्मणकारणइं चरेप्पिणु ।

5

दुवई—वरणीहारहारपंडुरयर रयणिपमाणियंगओ ॥

णिप्पडियारसारसुहरसणिहि गयरमणीपसंगओ ॥ छ ॥

जो णीसासवाउ कयसंखहिं
 माणियअमरालयसिरिहइइं
 तेत्तियवरिससहासहिं भोयणु
 सुक्कलेसु मज्झत्थु महाहिउ
 तइयहुं घरंसिरिसंठियखयरिहि
 इंदाएसें धणएं रइयहु

मुयइ कहिं मि तेत्तीसहिं पक्खहिं ।
 आउ जासु तेत्तीससमुइइं ।
 जो अहिलसइ सोक्खसंपायणु । 5
 तहु छम्मासकालु जइयहुं थियउ ।
 वंगेदेसि वरमिहिलाणयरिहि ।
 विविहमहामाणिकहिं खइयहु ।

२ P °जलइय°. ३ A तवयरणु. ४ AP तवताविउ. ५ AP मोणु. ६ A णिमिसु. ७ AP मंड.
 ८ P रणि. ९ P वीरे.

5 १ AP °रमणीयसंगहो. २ P खगसिरि°. ३ AP °मिहला°.

5 a °जयसिरिसहिं जयश्रियः सखी. 6 b णिण्णासियसरु जितस्सरः 7 b सिरिदिण्णहु श्रीदत्तस्य.
 8 a वग्गुरवेदु वागुरावन्धः; b जमकरणहु रोगस्य. 15 b मारइ लक्ष्मीरतिः.

5 1 °णीहार हिमम्; °रयणिपमाणियंगओ हस्तप्रमाणशरीरः. 4 a °सिरिहइइं भद्राणि
 मङ्गलानि. 6 a महाहिउ महाधिकः. 7 a घरसिरिसंठियखयरिहि गृहशिखरसंस्थितविद्याधर्याम्.

विविहहट्टेटारमणीयहि विविहमाणिणीयणसंगीयहि ।
 विविहारामहि विविहणिवासहि विविहसिहरआलिहियायासहि । 10
 घत्ता—तहिं विजयराउ णामें नृर्वइ णिवसइ णवणिसियासिकरु ॥
 छायायरु जणसंतावहरु णं वरिसंतउ अंबुहरु ॥ ५ ॥

6

दुवई—तहु घरि घरणि देवि परमेसरि वण्णिल चारुचारिणी ॥
 हिरिसिरिकंतिकित्तिदिहिलच्छिहिं सेविय हिययहारिणी ॥ छ ॥

सुहुं सुत्ताइ ताइ अलिमालिउ सिविणइ णिसिहि विरामि णिहालिउ ।
 करि करडयलगलियसुंयमयंजलु अणहुहु खरखुरजुयखयधरयलु ।
 हरि हरिकुलिसकटिणणहहयगिरि गयकरकलससलिलेण्हावियसिरि । 5
 पसरिय परिमलमहुयरसवलिय सर कुसुममय मिलिय णहविलुलिय ।
 कुवल्यदलविलेसियकरु ससहरु मिहिरु गयणमर्हादिसिगयतमहरु ।
 झस भमिर रमिर रइवत्रसिय घड जलभरिय हरियकिसलयचिय ।
 सरवरु सकमलु सरिवइ समयरु मणिहरियासणु जियसुरमहिहरु । 10
 रयणणियरु पहहयरवियरविहु हुयवहु कणयकविलदीहरसिहु ।
 घत्ता—इय जोइवि सिविणय सोलह वि अक्खिउ मुंइइ णियपइहि ॥
 तेण वि देसावहिलोयणिण फलु वियंरिउ गयवरगइहि ॥ ६ ॥

7

दुवई—सयलसुरिंदवंदु गुणगणणिहि णिरुवमु णिसुणि सुंदरी ॥
 होही तुज्जु पुत्तु गुरुहुं मि गुरु कामंकरिंदकेसरी ॥ छ ॥

४ P णिवइ.

6 १ AP घरणि. २ AP °चल°. ३ P °मयइल. ४ A °सुण्हविसिरि; P °सुण्हविय.
 ५ P °वियसिययरु. ६ P समययधरु. ७ A सुदइ. ८ AP णियवइहि. ९ AP विवरिउ गरवर°.

7 १ P कालकरिंद°.

11 °णि सि या सि करु तीक्ष्णखङ्गहस्तः. 12 छा या यरु छायाकरः; अंबुहरु मेघः.

6 1 चारुचारिणी सुन्दरगमना शोभनानुष्ठाना वा. 3 a अलिमालिउ भ्रमरयुक्तः.
 4 b अणहुहु अनइवान् वृषभः. 5 a हरि सिंहः; हरि° इन्द्रः. 6 a सवलिय शबलिता मिश्रा;
 b सर माला; मिलिय युगमभूता. 8 a रइववसिय रतिधिपये उद्यतै; b हरियपलवचिय हरित-
 पल्लवजटितौ. 9 b मणि हरि या सणु रत्नसिंहासनम्. 10 a सुमहु सुतेजः. 11 a पहहयरवियरविहु
 प्रभया हता रविकरविभा तेजो येन सः.

हुउ अद्दु वरिसु	घरि रयणवरिसु ।	
सरयावयासि	भद्दवयमासि ।	
संसिधवलपक्खि	आसिणिसुरिक्खि ।	5
बीयहि जिणिहु	जगकुमुयचंदु ।	
थिउ गम्भवासि	संसारणासि ।	
आयामरेहिं	चलचामरेहिं ।	
झुल्लइ णहंतु	ढंकिउ दियंतु ।	
णहंणिवडमाणु	वसु अप्पमाणु ।	10
जोइउ णरेहिं	पणचियसिरेहिं ।	
णिवभवणि तांव	णवमास जाव ।	
मुणिसुव्वयम्मि	पालियवयम्मि ।	
भवभार्वच्चत्ति	णिव्वाणंपत्ति ।	
गय सट्ठि लक्ख	वरिसहं ससंख ।	15
तइयहुं अउण्ह-	आसाढकण्ह-	
पक्खंतरालि	कयअमररोलि ।	
आणंदपुण्णि	दिम्महि पसण्णि ।	
अइसुरहिवाइ	हुंदुहिणिणाइ ।	
चुंयगंधसल्ललि	सुरधित्तकमलि ।	20
कंतीइं कंति	दहमइ दिणंति ।	
सुहसंगमेण	जायउ कमेण ।	
तेलोकणाहु	अहयंदराहु ।	
पयपणयधणउ	वैण्णिलहि तणउ ।	

घत्ता—णिउ देवहिं मंदरमहिहरहु पुज्जाविहि संमाणियउ ॥ 25

पहुपडहभेरिमंगलरविण जयजयसहं ण्हाणियउ ॥ ७ ॥

२ A अद्दवरिसु. ३ AP अस्तणहु मासि. ४ AP ससिखीणपक्खि. ५ AP णहि णिवडमाणु.
६ A °वत्ते. ७ AP णिव्वाणु. ८ AP गय लेसलक्ख. ९ P कंतीसकंति. 10 AP वण्णिल्लहि.

7 4 a सरयावयासि जलदावकाशे; b भद्दवयमासि भाद्रपदे गते सति, आश्विनवदि
द्वितीयायामित्यर्थः. 5 a ससिधवलपक्खि अधवलपक्षे कृष्णपक्षे; b आसिणिसुरिक्खि अश्विनीनक्षत्रे.
8 a आयामरेहिं प्रातैः देवैः. 9 a झुल्लइ दोलायते नमः. 10 a अउण्ह° ज्योत्स्नारहिते.
22 a सुहसंगमेण अश्विनीस्थितचन्द्रेण. 23 b अहयंदराहु पापमेव चन्द्रः तस्य राहुः. 24 a °पणउ
धनदः कुबेरः.

8

दुवई—पुञ्जिवि ण्हविवि भणित णमिजिणवरु गुणमणिरुइरवण्णओ ॥
णाणत्तयसमेउ परमेसरु उज्जलकणयवण्णओ ॥ छ ॥

आणिवि पुणु वि णिहिउ जणणहु घरि	वड्डिउ जिणु कुमारु हंसु व सरि ।	
वड्डिउ तवसंताउ व कामहु	वड्डिउ दाहु व इंदियगामहु ।	
वड्डिउ मेहु व कोवहुयासहु	वड्डिउ मंतु व भवभयतासहु ।	5
वड्डिउ हेउ व पवरसुहेल्लिहि	वड्डिउ णवकंदु व दयवेल्लिहि ।	
वड्डिउ देवदेउ वररुवउ	पण्णारहधणुदेहु पहूयउ ।	
दससहास वरिसहं परमाउसु	अहुइज्ज ताई कीलावसु ।	
थिउ कुमारु कुमरत्तणलीलइ	पट्टु णिवद्धउ वियलियकालइ ।	
वरिसहं पंचसहासइं खीर्णइं	रज्जु करंतहु तहु बोलीणइं ।	10

घत्ता—ता णवघणसमइ पराइयइ सुरधणु जणकोडुवणउं ॥
सोहइ उवरित्थु पयोहरहं णं णहसिरिउपरियणउं ॥ ८ ॥

9

दुवई—णाच्चियमत्तमोरगलकलरवि पसरियमेहजालए ॥

पवंसियपियहि दीहणीसासरुहाणलधूमकालए ॥ छ ॥

तड्डिविप्फुरणफुरियपविउलणहि	वारिपूरपेहियदसदिसिवहि ।	
लुहु जि लुहु जि वप्पीहें घोसिउ	लुहु जि लुहु जि कैयइवणु वियसिउ ।	
लुहु जि कैयंबगंधु उच्छालियउ	लुहु पफुलउ मालइकलियउ ।	5
लुहु पंथियपिययम उकंठिय	लुहु लुहु वायस वासपरिट्टिय ।	
हारियंतिणंकुरोहदिण्णाउसि	वरिसमाणि लुहु पत्तइ पाउसि ।	
लीलाचरणचारवेइयगउ	वणकीलाविहारि पट्टु णिग्गउ ।	
कडयकिरीडहारकुंडलंधर	ता थिय सुरवर णहि मउलियकर ।	
विण्णवंति पणवंति कयायर	णिसुणि णिसुणि भो गुणरयणायर ।	10
इह दीवंतरि पुव्वविदेहइ	तहिं वच्छावइविजइ सुगेहइ ।	

8 १ AP रुइवण्णओ, २ A आणेषिणु णिहिउ, ३ तणुसंताउ, ४ AP स्त्रीणइं.

9 १ AP पवसियमुक्कदीहं, २ AP केइयवणु, ३ P कमलांधु, ४ AP तणंकुरोह, ५ AP कुंडलहर.

8 1 रुइर वण्णओ १कान्या मनोहरः, 2 उज्जलं निर्मलम्, 4 a त व संताउ तपसः संतापः, 11 पराइयइ प्राप्ते सति; जण कोडुवावणउं जनानां कौतुकोत्पादकम्, 12 उ वरित्थु पयोहरहं पयोधराणां मेघानामुपरिस्थितम्; णहसिरिउपरियणउं नभोलक्ष्म्या उपरितनवस्त्रमिव.

9 2 पवसियपियहि प्रोषितस्त्रियाः, 4 a बप्पीहें चातकेन, 5 a कयंबगंधु कदम्बपुष्पगन्धः, 6 a पंथियपिययम प्रोषितभर्तृकाः; b वायस वासपरिट्टिय काकाः मालके स्थिताः.

द्विणणिवेइयकामुयकामहि
आयउ वम्महवाणकयंतउ

णयरिहि सुहँलियसीमसुसीमहि ।
अवराइयहु विमाणहु हँतउ ।

घत्ता — णिज्जियमणु तवसिहितत्तणु कम्मबंधणिण्णासयरु ॥

अवराइउ णामँ लोयगुरु तहिँ उप्पण्णउ तित्थयरु ॥ ९ ॥ 15

10

दुवई — असरिसविसमविरसविससंणिहदुक्कियजलणजलहरा ॥

आया तस्स चरणपणवणमण रँविससहरसुरासुरा ॥ छ ॥

अमरविलासिणिणञ्चणतंडवि
संपइ देहिदेहँहयमयरु
केवलणाणसमुग्गयणयणँ
चंगदेसि कुसुमरयसुकविलहि
उप्पण्णउ अच्छइ जगसंकरु
पवरविमाणहु हिमयरधामहु
भावाभावइ चित्तँ जाणइ
धादइसंडि दीवि तँउ चिण्णउं
पढमि सग्गि सोहम्मि मणोहरि
तं णिसुणेप्पिणु मइमल धोयहुं
तँ हियउल्लइ धरिवि णरेसरु
तहु जिणवरहु जम्मसंबंधँ

जंपिउ केण वि तहु सहमंडवि ।
जंवूदीवभरहि को जिणवरु ।
भणिउं जिणेण विणासियमयरँ । 5
णववणणीलहि णयरिहि मिहिलहि ।
णमिणांमकु भावितित्थंकरु ।
अवइण्णउ अवराइयणामहु ।
देवविइण्णइं सुक्खइं माणइ ।
दोहिँ मि देवत्तणु संपण्णउं । 10
रयणकिरणजालंचियसुरहरि ।
अम्हइं आया तुह पय जांयहुं ।
णयरि पइहु ललियगब्भेसरु ।
सुर्यरेप्पिणु णियभवइं सच्चिंधइं ।

घत्ता — चित्तइ वसुहाहिउ णियहियइ बुद्ध सबोहिइ बुद्धउ ॥ 15

जगि जीउ जहिँ जि हुउ तहिँ तहिँ जि रमइ सकम्मणिबद्धउ ॥ १० ॥

11

दुवई — हिंडइ भवसमुहि अण्णाणविलुंटियणाणलोयणो ॥

पुत्तकलत्तमित्तचित्तासापासणिरुद्धचेयणो ॥ छ ॥

६ A सुललिय°

10 १ AP णरविसहरसुरासुरा, २ AP देहि देउ, ३ AP चित्तइ, ४ AP वउ, ५ A तहि हिय°, ६ P सुमरेप्पिणु.

11 १ A °चित्तासापास°.

12 b सुह लिय सी म सु सी म हि सुफलिता सीमा यस्य: तस्या: सीमा अवधि:.

10 4 तस्म अपराजितस्य, 6 a °सुक विल हि पीतरक्तवर्णायाम्, 7 a जग सं करु जगतां सौख्यकर: 9 a चित्तँ विचिवाणि.

11 1 °विलुं टि थ° विनाशितम्.

इय ज्ञायंतु देउ उम्मोहिउ
 तणयहु वरसरीरसुहकारिणि
 सुप्पहणामहु पट्टु णिबंधिवि
 अमरवराहिसेउ पावेप्पिणु
 सुमहिउ सयमहेण महिरूढउ
 गउ आसाढमासि घणसामलि
 दसमइ दिवसि मुहुत्ति पहाणइ
 लइय दिक्ख सिद्धाण णवंते
 मुक्कंवरइ विलुंचियकेसइ
 लइयण छट्टेणुववासं
 इंदचंदणोइंदणमंसिउ
 वीरणयरि दत्तहु णरणाहहु
 धरि पारणउं कयउं परमेसें

सारस्सयसुरवैरहि संबोहिउ ।
 दिण्ण तेण सधराधर धारिणि ।
 धम्मज्ञाणु हियउल्लइ संघिवि । 5
 धणु परियणु तणु जिह मिल्लेप्पिणु ।
 उत्तरकुरुसिवियहि आरूढउ ।
 अस्सिणिरिक्खि पक्खिससिउज्जलि ।
 फलपणविइ त्रित्तवणुज्जाणइ ।
 धरपुरवरमहिमोहु मुयंतं । 10
 पट्टु आलिगिउ दिक्खावेसइ ।
 सहुं सुसीलखत्तियहं सहासें ।
 मणपजवणाणेण विहूसिउ ।
 वीरलच्छिसुपसाहियवाहहु ।
 सुरकयपंचच्छरियविलासें । 15

घत्ता—णयवरिसइं दुद्धंरु तउ चरिवि तिणिण वि सल्लइं वज्जियइं ॥
 रसगंधफाससुइलोयणइं पंचिदियइं परज्जियइं ॥ ११ ॥

12

दुवइ—वसुहं हिंडिऊण गउ पुणरवि तं दिक्खावणं घणं ॥

कुसुमियफलियललियतरसाहाकीलियहंसवरहिणं ॥ छु ॥

तहिं रिसि तवसंतावे रीणउ
 मग्गसिरइ सिंसिरइ संपत्तइ
 तइयइ सासिणिदियहि वियालइ
 उप्पण्णेण णवियगिक्खाणं
 सुहुमइं अवरंतरियइं दूरइं
 पोग्गलाइं पूरियगलियंगइं
 मल्लयमुरयवज्जणिहु तिहुवणु
 कालु वि लक्खिउ जायपवत्तणु

वउलमहीरहतलि आसीणउ ।
 पक्खि मियंककरावलिदित्तइ ।
 णिल्लूरियमहंततमजालइ । 5
 दिट्ठइं देवे केवलणाणं ।
 पच्चक्खाइं सुभेयंगहीरइं ।
 गंधवैण्णपरिणामघसंगइं ।
 ओग्गाहणलक्खणु गयणंगणु ।
 अण्णउं सयणु अयणु च्चैयणुगुणु । 10

२ AP सारस्सयसुरेहि. ३ A मुक्कंवरपविलुंचिय°. ४ AP °णायंद°. ५ AP दुद्धंरु चरिवि तउ.

12 १ P अंवरतरियइं. २ A समेय°. ३ AP वण्णगंधपरि°.

3 a उम्मो हिउ त्यक्तमोहः. 4 b धारिणि भूमिः. 7 a सुमहिउ सुपूजितः. 8 b अससिउज्जलि कृष्णपक्षे दशम्यामित्यर्थः. 11 a मुक्कंवरइ मुक्तवस्त्रया दीक्षावेश्यया श्लिष्टः.

12 2 °वरहिणं °मयूरम्. 4 a सिंसिरइ हिमकाले; b मियंककरावलिदित्तइ चन्द्र-किरणश्रेणिदीप्ते, शुक्लपक्षे. 5 a सासिणिदियहि अश्विनीनक्षत्रे; वियालइ संव्यायाम्. 7 a अवरंतरियइं अन्तरितानि. 8 a मल्लय° शरावः; °मुरय° मुरजः. 10 b सयणु सशरीरः संसारी; अयणु अतनुः सिद्धः.

धम्माधम्मु बे वि गइठाणइं बुद्धिय संते सुद्धपमाणइं ।
 ता दसँदिसिवहेहिं आवंतहिं जय जय जय मुणिणाह भणंतहिं ।
 घत्ता—पूपप्पिणु वियसियसुरहियहिं कुसुमहिं कुसुमसरत्तिहरु ॥
 चउदेवणिकायहिं णमिउ णमि पसमपरिग्गहु परमपरु ॥ १२ ॥

13

दुवई—रेहइ तुज्जु णाह भुवणत्तयसीहासणविलासओ ॥

जस्साहोवयम्मि देविंदुं वि बइसइ णवियसीसओ ॥ छ ॥

दइँउ धणघरतिट्ठावाहिइ जगु जीवइ तुह छत्तहं छाहिइ ।
 पइं दिट्ठइ पाविट्ठु वि सुज्जइ तुह वायइ मृगुं मंदु वि बुज्जइ ।
 तुह धम्महु ण लील संपावइ विज्जुज्जोएं अंगउ दावइ । 5
 णिग्गुणधम्मं केत्तिउं गज्जइ घणु तुह दुंदुहिरवहु ण लज्जइ ।
 जिण तुह भामंडलवित्थारं लोउ ण विप्पइ मोहंधारं ।
 तुह चामरहिं चलंतहिं पेत्तिउ कम्मरेणु उट्ठुविवि घत्तिउ ।
 रंजिय कुसुमविट्ठिरुइरंगे महयर मत्ता तुज्जु जि संगे ।
 तुज्जु असोउ सोयणिण्णासणु णंदउ णाह तुहारउ सासणु । 10
 घत्ता—जय जय परमप्पय परंमगुरु जम्मि जम्मि तुहं महु सरणु ॥
 रिसिचरणमूलि सल्लेहणिण महुं देज्जसु समाहिमरणु ॥ १३ ॥

14

दुवई—इय संथुउ जिणिंदु देविंदहिं सेवियघोरकाणणो ॥

ववगयकामकोहमयमोहमहातवलच्छिमाणणो ॥ छ ॥

देउ एकवीसमउ जिणेसरु उग्गउ णं गयणंगाणि णेसरु ।
 सच्चं सधम्मु अहम्मु वियारइ भवसमुहिं बुद्धंतइं तारइ ।
 उवसंतइं पयपंकयणवियइं पियवायइ संबोहियंभवियइं । 5

४ A दसदिसिवहेण; P दसदिसिवहिं णहि आवंतहिं. ५ P omits जय.

13 १ A देविंदु पइसई. २ A दहुवंधणघरं. ३ AP मिगु. ४ A विज्जुज्जोएं. ५ AP रइ-
 रंगे; K records a p: रय इति पाठे रजः. ६ P परमपरु.

14 १ P सच्चु सुतच्चु सुधम्म. २ P संबोहइ.

13 1 भुवणत्तयसीहासणविलासओ भुवनत्रयसिंहासनस्य विलासः. 2 अहोवयम्मि
 अधःपादे; बइसइ उपविशति. 3 a तिट्ठावाहिइ ० तृष्णाव्यगधिना; b छत्तहं छाहिइ छत्रत्रयाणां
 छायाया. 5 a धम्महु धर्मस्य धनुषश्च; विज्जुज्जोएं वियुतः विद्यायाश्च तेजसा. 9 a रंजिय रञ्जिता
 अकृष्णा जाता भ्रमराः; ० रुइरंगे रुचिराणेण. 10 a असोउ अशोकवृक्षः.

14 1 a गविट्ठइं गणितानि.

तद्दु उपपण्णा पुण्णमणोरह
 पुब्बधरहं पण्णास समेयइं
 उडुसयाइं बारहसहसालइं
 पुणु छसयाइं बारहसहसालइं
 तेत्तिय केवलण्णपहायर
 पंचसयाइं एकसहसिल्लइं
 साहडुं सहुं सहसेण गविट्ठइं
 जिणवरमग्गि णिवेत्तियसीसहं
 मंगिणपमुहहं ह्ययमइयहं
 एकु लक्खु सावयहं समासिउ
 अमर असंख संख खग मृग जहिं

सुप्पहाइ सत्तारह गणहर ।
 चउसयाइं ससिदिणयरतेयइं ।
 सिक्खुयरिसिहिं समुज्जलसीलइं ।
 णाणत्तयवंतहुं सुणिउत्तइं ।
 मुणिवरिंद तणुविकिरियायर । 10
 मणपज्जवणाणिहिं णीसल्लइं ।
 दोसयाइं पण्णास जि दिट्ठइं ।
 एकु सहासु महावाईसहं ।
 पणंचालीससहस संजइयहं ।
 तिउणउ सो सावइहिं पयासिउ । 15
 अरुहरिद्धि वण्णिज्जइ किं तहिं ।

घत्ता—दोसहसइं पंचसयाहियइं महि विहरिवि संवच्छरहं ॥
 पसुसुरणरखेयरविसहरहं धम्मु कहिवि मउलियकरहं ॥ १४ ॥

15

दुवई—णमि संमेयसिहरिसिहरोवरि दूरुज्झियणियंगओ ॥
 अच्चिउ मासमेत्तु णिरु णिञ्चलु पडिमाजोयसंगओ ॥ छ ॥

किरियाछिंदणु झाणु रपप्पिणु
 थियउ अजोइदेहु आसंधिवि
 रिसिहिं सहासं सहुं णिब्वाणहु
 महिमंडलि रविकिरणहिं तत्तइ
 कसणचउहसिदिवसि समायइ
 णिक्कलु जायउ चंदफणिदहिं
 पहयतूररवपूरिउं णहयलु
 उब्भिय धय रयणइं विच्छिण्णइं
 धरिय चारुचंदोवय चामर

तिण्णि वि अंगइं झ त्ति मुपप्पिणु ।
 पंचमंतकालंतरु लंधिवि ।
 गउ परमप्पउ अच्चुयठाणहु । 5
 तहिं वइसाहमासि संपत्तइ ।
 णिसिविरामि छुहु छुहु जि पहायइ ।
 पुज्जिउ देवदेउ देविदहिं ।
 गेयथोत्तञ्चुणि उट्ठिउ कलयलु ।
 दीणाणाहहं दाणइं दिण्णइं । 10
 णच्चिय धरणिरंगि विविहामर ।

३ AP गणहर सत्तारह. ४ P सीहुहं. ५ AP जिणवयमग्गं. ६ AP गयमयमइयहं. ७ A पंचसहसि-
 सहसइं संजइयहं. ८ AP मिग.

15 १ P णियगओ. २ AP पंचमत्त°. ३ AP सहासहिं. ४ A कसिण°. ५ AP °पूरिय-
 णहयलु. ६ AP विक्खिण्णइं.

14 a ह य म इ म इ य हं हतमतिमदिकानाम्.

15 3 a किरिया छिंदणु उपरतक्रियानिवर्ति; b तिण्णि वि अंगइ औदारिकतैजस-
 कार्मणानि, औदारिकमिश्रकार्मणानि इति गुणभद्रः. 7 b पहायइ प्रभातं. 10 a विच्छिण्णइं
 विकीर्णानि निक्षिप्तानि.

दरिसंतेहिं तेहिं तेहिं णवरस
छत्तीस वि दिट्टिउ पयडंतहिं
णच्चिवि विविहणदूरुवें वर
समउ सुराहिबेण गय णहयलि

णबचालीसभावपसरियजस ।
कर चउसट्टि तेत्थु दरिसंतहिं ।
सिद्धखेतु पणवेप्पिणु सुरवर ।
अरुण वरुण वइसवण सुणिम्मलि । 15

घत्ता—हरि सुरहं समासइ जंतु णहि णियचरिणं मुणिच्चल्लिण ॥
उज्जोइउ भरहु जि णमिजिणिण पुष्कयंतकिरणुज्जलिण ॥ १५ ॥

16

दुवई—हुइ णिव्वाणगमणि णमिणाहुह सासयसिवाणिवासहो ॥
अक्खमि चरिउ चक्किजयसेणहु सयलजणाहिरामहो ॥ छ ॥

जंबूदीवि पत्थु सुमहंतइं
अत्थि खेतु णामें अइरावउं
बुहमणोज्जु सिरिरउरु तेहिं पट्टणु
तेहिं णामें भूवालु वंसुंधरु
पउमावइ णामें तहु गेहिणि
तेहिं विओयसोएं णिव्विण्णउ
मणहरि वणि धम्ममुणीसपासि
जिणकहिइ विहिइ संणासु करिवि
भासुरतणु पावियअवहिणाणु
अह वच्छाविसइ विलासठाणु
तेहिं विजउ राउ अखलियपमाणु
पिय तासु पंहंकरि सुहणिवास
वरकणयवण विच्छिण्णकाय

मेरुहु उत्तरेण गुणवंतइं ।
जणधणकणगोसंपयअइरावउं ।
अमरणयरसोहादलवट्टणु । 5
अतुलपरक्कमु पवरधणुद्धरु ।
रण्ण व रविहि ससिहि णं रोहिणि ।
रज्जु सुविणयंधरि सुइ दिण्णउं ।
लइयउं तउ पावासवविणासि ।
महसुकसगि हुउ अमरु मरिवि । 10
सोलइसायरजीवियपमाणु ।
कोसंबीपुरवरु सुहणिहाणु ।
णियतेओहामियसरयमाणु ।
सूहवगुणपूरियदसदिसास ।
णं सग्गहु अर्च्छर का वि आय । 15

७ AP read in place of this line and the three following as follows:—

चवचंदणलवंगविरइयसल
णाहुह पयपणामु विरयंतहिं
दिण्णउ उरयलोल्लिरहारहिं
भप्पीभावजायतणुलट्टिहि

कुसुमणिवह णहणिवडिय सभसल ।
जयजयजय अरहंत भणेतहिं ।
चूडामणिसिहि जलणकुमारहिं ।
वंदिवि देहभप्पु परमेड्ढिहि ।
(A वंदिवि देउ भव्वपरमेड्ढिहि)

16 १ A हुयं. २ AP 'गोसंपयसारउं. ३ बहुमणोज्जु. ४ P 'णवरं. ५ A णरेसह.
६ A अंलर.

16 4 b अइरावउं अतिरमणीयम्. 5 b 'दलवट्टणु 'चूर्णकरम्. 6 a वसुंधरु वसुंधर-
नामा. 7 b रण्ण व रत्तादेवीवत्. 13 a अखलियपमाणु अस्खलितज्ञानः. 15 a विच्छिण्ण काय
मभ्यक्षामा.

घत्ता—सग्गाउ चवेण्णिणु सो अमरु ताहि गग्भि अवहण्णउ ॥
परिओसिउ सयल्लु वि बंधुयणु सत्तुवग्गु अहण्णउ ॥ १६ ॥

17

दुवई—सोहणदिणि सुरिक्खिणु णवमासहिं पवरोयरविणिग्गओ ॥
पुणु जयसेणु णामु तद्दु विहियउं णियगइविजियदिग्गओ ॥ छ ॥

णिच्छियतिणिणसंहसवरिसाउसु	सव्वपियारउ णं णवपाउसु ।	
वरइक्खाउवंसणहससहरु	बंदिणजणविहंगसुरतरुवरु ।	
कणयवण्णु करसट्ठि समुण्णउ	सयलकलाकलावसंपुण्णउ ।	5
रज्जि णिविट्ठहु चक्कुप्पणउं	रविर्बिबु ध सेवइ अवईण्णउं ।	
परिसाहिय छक्खंड वसुंधर	सेव कराविय सुर वि सुदुद्धर ।	
एक्कहिं दिणि सउहयालि वसंतं	विज्जुवईणु गयणाउ णियंतं ।	
कारणु तं वइरग्गहु पाविउ	सव्वु अणिञ्चु मणेण परिभाविउ ।	
रज्जु पढमपुत्तहि ण वि मण्णिणउं	जिह णिवेण तिह तं अवगण्णिणउं ।	10
णिरवसेसु लहुसुयहु समप्पिवि	सत्तुमित्तु सममइ संकप्पिवि ।	
केवलिवरयंतहु णिवणेसरु	जाउ समीवि साहु परमेसरु ।	
समेयइ कयसंणासुत्तमु	हुयउ जयंतदेउ लयंसत्तमु ।	

घत्ता—संणासमरणि भरहेसरहु णरसुरवरहिं अणेयहिं ॥

पुज्जाविहाणु णिव्वत्तियउं पुप्फयंतसमतेयहिं ॥ १७ ॥ 15

इय महापुराणे तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकारे महाभव्वभरहाणुमण्णिण
महाकइपुप्फयंतविरइण महाकव्वे णमितित्थयरजंयसेणचक्कहरं-
कहंतरं णाम असीतिमो परिच्छेओ समत्तो ॥ ८० ॥

७ P चएण्णिणु. ८ AP आदण्णउ.

17 १ A वरिससहसाउसु. २ A समुगाउ. ३ AP उवहण्णउं. ४ AP विज्जुपडणु.
५ AP वरइत्तहु. ६ AP जयंत देउ. ७ A सयल्लत्तमु. ८ AP पुप्फदंत°. ९ AP णमिणाहणिव्वाण-
गमणं. 10 A omits जयसेणचक्कहरकहंतरं. ११ P °चक्कवट्ठि°.

17 अ हण्ण उ म्लानि प्राप्तः.

17 2 णियगइविजियदिग्गओ निजगमनेन जितदिग्गजः. 4 b °विहंग° पक्षिणः; सुर-
तरुवरु कल्पवृक्षः. 5 a करसट्ठि पञ्चदश धनुंसि. 12 a णिवणेसरु नृपभास्करः. 13 b ळयसत्तमु
अहमिन्द्रः.

NOTES.

[The references in these Notes are to Samdhis in Roman figures and to Kadavakas and lines in Arabic figures. A brief summary of the contents of each Samdhi is given in the Introduction to enable the reader to follow the Text. These Notes supplement those in Sanskrit given at the foot of the page. T stands for the Tippana of Prabhācandra.]

XXXVIII

1. 12b भवइजसोहो, having the beauty of the rays born of भवइ, the lord of stars, or नक्षत्रः. 26 पयासवि, i. e., प्रकाशयामि, publish or manifest. Note v. 1. पयासमि which is simpler to understand, but K sometimes shows preference to such forms; compare समासवि in the following line; as also इच्छवि and अच्छवि in 5. 10, 11; पडिच्छवि & ओहच्छवि in 3. 8 below.

2. 1b कहवयदियहइं कतिपयदिवसान्, for some days. 2a णिविण्णउ निर्विण्णः, dejected. णिविण्णोउ i. e., निर्विनोदः of K is an equally good reading and may mean काव्यकरणादिविनोदरहितः, but I have adopted णिविण्णउ in view of उव्वेउ जि वित्थरइ गिरारिउ in 4 9a below, and in view of the gloss. 9-10 खलसंकुलि कालि etc. भरत who lifted up सरस्वती, the goddess of learning, going down on an empty, very empty or dangerous path (सुण्णसुसुण्णवहि) or in the empty sky in these (bad) times, full of wicked people (खलसंकुलि), and full of people of bad character (कुसीलमइ), by covering her (संवरिय संवृतां कृत्वा) by means of his विनय, modesty.

3. 1a अइयणदेवियव्वतणुजाएं, i. e., by भरत who was the son of अइयण or ऐयण and देवियव्वा. 2b दुत्थियमित्ते, by भरत who was the friend of दुत्थिय, persons in distress. 3a मइं उवयारभावु णिव्वहणे, by भरत who accomplished, i. e., showered, obligations on me, i. e., poet पुष्पदन्त. How भरत put पुष्पदन्त under his obligations can be seen from MP I. 3-10 and Introduction to Vol I. pp xxviii-xxxii. 10 नुइ सिद्धहि etc., why don't you milch the milk of nine sentiments (णव रस) out of the cow, viz., your वाणी or poetic power which is सिद्ध or accomplished to you or is at your command.

4. 7a राउ राउ णं सइहाहि केरउ, the king is as (fickle as) the red glow of the evening, i. e., lasting for a short time. 8b एक्क वि पउ वि एवउ भारउ, to compose even one word is a heavy task. 10 जगु एउ etc., the world is always crooked (वंकउं) with the virtuous (गुणेण सह) as the bow is when strung with its string (गुण).

5. 2b-3a According to the poet, भरत excelled even king सालवाहण, i. e., सातवाहन, in that he (भरत) was a constant friend of poets (अणवरयरइय-

Notes

कहमेतिह). 4a-b. The poet here refers to an anecdote that king श्रीहर्ष carried the famous poet कालिदास on his shoulders. Historically this reference is on par with several others, e. g., those mentioned in the भोजप्रबन्ध. The date of the accession to throne of king श्रीहर्ष, the patron of बाण, is 620 A. D., while कालिदास is certainly older than Aihole Inscription of 634 A. D., than बाण (620 A.D.) and above all than वत्सभट्टि's मन्दसोर प्रशस्ति of 473 A. D. 8a-b. Poet पुष्पदन्त who styled himself as कव्वपिसह्य, was honoured by some and was despised by others saying that he was a dullard (यधु). 11 देवीसुय, a son of देवी or देवियन्वा of 3.1a above, i. e. भरत.

6. 3a-b. The poet here assures his patron भरत that his poetic genius manifests itself out of devotion for the feet of the Jinas, and not out of desire to earn his living (णउ णियजीवियवित्तहि). 10. करहु कण्ण कहकोडलु, place on your ear this ear-ring (कोडलु), viz., the narrative (कह, कथा) of अजित.

7. The narrative of अजित, the second तीर्थकर, begins with this कडवक. I have already referred to the monotonous way in which lives of great men in Jain works are described (Vide MP Vol. I. p 599). We first get some information of the previous birth of a Jina wherein he acquires the necessary qualifications of becoming a Jina in the subsequent birth. In the case of Ajita, he was विमलवाहन, a king ruling in the town of सुसीमा of the वत्सदेश, situated on the southern bank of the river सीता in the पूर्वविदेह of जम्बूद्वीप. There one day he acquires disgust for the worldly life, practises penance, cultivates the sixteen भावनाs such as दर्शनविशुद्धि, secures तीर्थकर नाम and गोत्र, dies by observing fast, is born in the विजय अनुत्तरविमान, has a life of 23 सागरोपम; there when only six months of this long life remain, सौधमेन्द्र comes to know that this अहमिन्द्र is to be born in अयोध्या in the भरतवर्ष as a son to king जितशत्रु and queen विजया, and orders कुबेर to bestow a shower of gold on this city. The six deities, श्री, ही, धृति, मति, कान्ति and कीर्ति, come to wait upon queen विजया. The queen then sees sixteen dreams, and on waking up describes them to king जितशत्रु who tells her that she would give birth to a जिन. When विमलवाहन completes his period of life as अहमिन्द्र he descends into the womb of विजया in the form of an elephant. Gods arrive on the scene and congratulate जितशत्रु. The Jina is born as त्रिज्ञानिन् i. e., possessed of मति, श्रुत and अवधिज्ञान, on the 10th day of the bright half of माघ. Gods headed by इन्द्र, arrive on the scene once more, go round the Jina three times, salute the parents, and handing over to the mother a मायाबाल, take the Jina to the मन्दर mountain, give him a bath,

name him as अजित, offer him prayers, and, bringing him back to अयोध्या, hand him over to his mother. When अजित attained youth, he was married to thousand princesses. He was also crowned as prince, and enjoyed the earth for 19 lacs of पूर्वं. One night prince अजित saw a meteor falling, and gathering from it that his fortune was as fickle as the meteor, resolved to renounce the worldly life. Gods arrive on the scene once more and praise him for his resolve. He then placed his son अजितसेन on the throne, gods gave him a bath, and on the afternoon of the ninth day of the bright half of माघ he performed the केशलोच and took the दीक्षा. The hair of the monk अजित were picked up by इन्द्र in a golden plate and thrown in the क्षीरसमुद्र. One thousand princes renounced the world with him. In a short time the fourth knowledge, viz., मनःपर्यायज्ञान, was acquired by him. He took the vows with a fast of two days and a half (षष्ठोपवास). He broke the fast the next day at अयोध्या at the house of king ब्रह्मा, who was graced by five wonders. अजित practised penance for twelve years, and on the 11th day of the bright half of पौष, he secured केवलज्ञान under सतच्छद tree. इन्द्र and other gods arrived on the scene, praised him and built a समवसरण. There the Jina sat on a सिंहासन, called सर्वभद्र, had with him all the eight प्रतिहार्यस, and then delivered a discourse. He had his गण or followers divided into 12 groups, viz., गणधर, पूर्वधारिन्, शिक्षक, अवधिज्ञानिन्, केवलिन्, विक्रिया-ऋद्धिम्त, मनःपर्यायज्ञानिन्, अनुत्तरवादिन्, आर्यिका, श्रावक, श्राविका and देव, देवी, तिर्यञ्च् etc. With such संघ, the Jina wandered on the earth for a period of 53 lacs of पूर्वं less by 12 years. He then went to the संमेदशिखर, and having lived the life of 72 lacs of पूर्वं, practised the प्रतिमास for one month, and attained emancipation on the forenoon of the fifth day of the bright half of चैत्र. Gods worshipped him on this occasion, his body was burnt by अमिकुमार, the ashes were respectfully collected by Indra and thrown into क्षीरसमुद्र.

I have given all the details of the life of अजित here. The same will be repeated almost in the same form with the change of names, dates etc, in the case of all the तीर्थंकरs mentioned in this Vol. and therefore will not be described any more. I am giving these details in the tabular form to facilitate understanding.

7. 2a सीयहि दाहिणकूलि, we have a *v. l.* in K, उत्तर^०, but is corrected in the Ms. to दाहिण, perhaps on the strength of गुणभद्र's उत्तरपुराण, which reads :
सीतासरिदपामभागे वत्साख्यो विषयो महान् ।—उत्तरपुराण, 48. 3.

where अपामभाग means south. 8b हलियहिं, by farmers.

8. 8a-b जसु सोहगौ etc. God of love falls into background on account of the beauty of विमलवाहन, and therefore gave up his body and became अनङ्ग.

9. 2b पंचमहव्ययमायउ, the mothers of five great vows, viz. the 25 भावनाs, five for each vow. 8a दंसणसुद्धिविणउ, the sixteen भावनाs beginning with दर्शनविशुद्धि. For details see तत्त्वार्थसूत्र VI. 24. These भावनाs enable a soul to secure तीर्थंकर नामगोत्र.

10. 9a सो अहममराहित, that अहमिन्द्र, who, in the previous birth, was king विमलवाहन. 11b कणयमयणिलयण, (अयोध्या) having houses of gold.

11. 1b माणवमाणिणिवेसैं, dressed as earthly ladies. 4a गग्भि ण थंतहु, even before the descent of the जिन; into the womb i. e., इन्द्र sent a shower of gold even before the जिन descended into the womb of queen विजया.

12. For sixteen dreams see my note in MP. Vol I, pp. 600-601.

13. 4a-b कुंजरवेसैं etc. The अहमिन्द्र, on completion of his period of life at विजयविमान, entered into the mouth of the queen in the form of an elephant just as the sun enters into clouds. 9-10. These lines mention the interval between the निर्वाण of ऋषभ and the descent of अजित into the womb of queen विजया; it is fifty laes of crores of सागरोपमs.

14. 4-5 दसनकमलसरणच्चियसुरवरि etc. इन्द्र ascended his elephant ऐरावण on whose lotus-pond-like tusks gods were dancing. 8b सरसरसिर, talking full of devotion.

15. 6b मंतु पणवसाहा संजोइवि, using the मन्त्र “ ॐ स्वाहा.”

18. 9a वसुवइवसुमइकंताकंते, by अजित who was the lord of two wives, viz., wealth (वसुवइ) and the earth (वसुमइ).

19. 1b ईसमणीस समासमलीणी, the mind of lord अजित was completely engrossed in peace of mind (सम, उपशम, वैराग्य). 4b आउ वरिसवरिसेण जि खिजइ, man's life is lessened year by year.

20. 4a-b गइदुचरित्तकम्मसंताणइ संताणइ, for the continuation of his race which meant a series of acts (कम्मसंताण) such as गइ (देवमनुष्यादिगति) and misdeeds (दुचरित्त). The act of continuing the race involves a series of birth and death and several other acts which are misdeeds.

21. 6a-b कुसुमवरिसु etc. The five miraculous things are कुसुमवर्ष, a shower of flowers from heaven, सुरपट्टहनिनाद, beating of heavenly drums, वसुहारा shower of gold from heaven, चेलुक्खेव, erecting of flags, and अहोदाणं, divine sound praising the nobility of gift. Compare विवागसुयं page 78.

23. Description of समवसरण.

24. Description of eight प्रातिहार्यs, viz, अशोकवृक्ष, दिव्य पुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, सिंहासन, भामण्डल, देवदुन्दुभि and छत्र. 10-12 and the following कडक्क mention the number of his गणs, for which see the Table.

26. 1 *a* सिहरिहि i. e; on mount Meru. 5 *b* दंडकवाडुरुजगजगपूरणु describes the process by which the soul of a Jina proceeds to सिद्धसिला.

XXXIX

The samdhi gives the story of सगर, the second चक्रवर्तिन् of the Jainas.

1. 2 मगहाहिव, i. e., श्रेणिक, the king of the मगध country who asked गौतम इन्द्रभूति to tell him the lives of sixtythree great men. 4 *a* For दाहिनयलि AK originally read उत्तरयलि but K corrects it to दाहिनयलि which agrees with गुणभद्र's उत्तरपुराणः—

द्वीपेऽत्र प्राग्बिदेहस्य सीतापाग्भागभूषणे ।

विप्रये वत्सकावत्यां पृथिवीनगराधिपः ॥ 48. 58.

12 घरचूलाहयणहयल, the capital पृथ्वीपुर which struck or scratched the surface of the sky with the tops (चूला) of its houses.

2. 9 *b* सिसुमोहणीउ मुणिहिं वि दुवार, affection to children is irresistible even to monks. 10 जिणवरवयणु रसायणु, the councillors of the king gave him the elixir, viz; the teachings of the Jinas to overcome his grief.

4. 3*a* इयर वि, i. e. महारुतमन्त्री. 5*b* किउ दोहिं मि पडिबोहणणिबंधु, god महाबल (formerly king जयसेन) and god मणिकेतु (formerly महारुत मन्त्री) made an agreement that whoever was born as a human being first, should be reminded by the other who continued to be अमर or god, of this fact.

5. 9-10 The fourteen jewels of the sovereign ruler.

6. 3*a* जिव भरहु ति व सयरहु जि होइ, i. e., सगर got as much wealth as भरत, the first चक्रवर्तिन्.

7. 1*a* मयमउलवियणयण, elephants have their eyes closed on account of their मद, rut or rutting season. 10*a* रयणकेउ, i. e., मणिकेतु.

8. 9*b* तरुणिहिं कोक्किजइ हसिवि ताउ, young women laugh at him and call him papa, father (ताउ, तात).

10. 2*a* देवसाहु i. e., मणिकेतु, who, being a god, assumed the form of a monk.

12. Description of the descent of the गङ्गा.

14. 2a बिहिं ऊणी सट्टि, sixty thousand sons, minus two, viz., भीम and भईरहि or भगीरथ who alone escaped death. 9b गउ आवइ णउ सरिसरतरंगु, waves of the river water, once gone, do not come back (आवइ णउ).

16. 11a दढधम्महु पायंतिइ, at the feet of a sage named दढधम्म (दढधर्मेन्).

17. 6b गउ जेण महाजणु सो जि पंथु, Compare: महाजनो येन गतः स पन्थाः.

XL

1. सासयसंभउ, source of eternal bliss (शाश्वत+शं+भव). संभवणासणु, one that puts an end to संभव, birth, i. e., संसार. 5b पुसियबंभहरिहरणयं, one that refuted (पुसिय) the doctrines (णय) of ब्रह्मा, विष्णु, and शिव. 20b असिआउसं. For note on this expression see MP. Vol I, page. 653. 23 अमिउं, पियह कण्णजलिहिं, drink the nectar, i. e., my poem, with the अञ्जलि of your ears. Compare कर्णाञ्जलि-पुटपेयं विरचितवान् भारताख्यममृतं यः । तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे.

4. 10b सत्था i. e., स्वस्था, quiet, peaceful, happy.

5. 14a जित्तसत्तुसुए, son of जितशउ, i. e., अजित, the second तीर्थंकर. 18b जंमारिणा, by इन्द्र.

6. 4a सईइ सई धारियउ, held or picked up by शची herself.

8. 12 किं जाणहुं सोसिउ उवहि, what do you think? The ocean became dry as gods were carrying water for the bath of संभवजिन.

9. 13 पइं मुइवि, त्वां मुक्त्वा, वर्जयित्वा, except yourself.

11. 7a कत्तियसियपक्खि i. e. कार्तिक+असित+पक्षे, कार्तिक कृष्णपक्षे. Compare गुणभद्र 49. 41 जन्मक्षे कार्तिके कृष्णचतुर्थ्यामपराह्णगः. 11 णाणे णेयमाणे, his knowledge which was co-extensive with ज्ञेय, knowables, i. e., the केवलज्ञान.

13. 5a जक्खिदमउडसिहरुद्धरिउ, coming out from the top of the crown of यक्षेन्द्र, i. e., कुबेर.

14. 10b दहगुणिय तिण्णि सहस, i. e., thirty thousand. गुणभद्र however mentions twenty thousand.

15. 1a भवियतिमिउ, ignorance of the भव्य persons. 14 सिंगारंगु i. e., शृङ्गाराङ्गस्य, i. e., शृङ्गारभूमेः.

XLI

1. 1 णिदिदियइं णिवारउ, one who wards off or controls the base, निन्द्य, sense-organs, i. e., a तीर्थंकर, here अभिनन्दन. 18 जीहासहसेण विणु, in the absence

of one thousand tongues. The फणीश्वर has one thousand tongues and hence capable of praising all aspects of a तीर्थंकर, but पुष्पदन्त, the poet, has only one tongue and hence unable to do justice to the qualities of a तीर्थंकर.

3. 1b सणियउं वियरइ, walks gently so as to cause no injury to a living being. 5b तिण्णि तिउत्तरसय, the expression is elliptic, but clearly refers to 363 doctrines of heretics, as the *lection faciliore* of AP indicates.

5. 7b सव्वु सवारिउ, he accomplished it completely.

6. 12 आसणयणहरणि, by the shaking of his seat. इन्द्र learnt, on account of the shaking of his seat, that a जिन was born.

8. This कडवक gives the list of ten deities invoked at the time of the bathing of a जिन. These deities or लोकपालs are: इन्द्र, अग्नि, यम, नैर्ऋत, वरुण, वायु, कुबेर, रुद्र, चन्द्र and फणीश; they are described here with a specific mention of their vehicle (वाहन) weapon (प्रहरण), wife (प्रियरमणी) and a characteristic feature (चिह्न), as line 23 says.

12. 13 भयलजामाणमयवज्जियउं जिणवउं पेम्मसमाणउं, the vow of a जिन is like the vow of love or behaviour of love, in as much as it ignores or is destitute of fear, shame, pride and self-respect. Just as a man in love ignores the feelings of fear etc, so a जिन ignores these feelings.

17. 9a जीवपक्खिखंबंदिग्गहंपंजर, (the dead body सुककलेवर) was a cage to catch the bird, viz., the soul.

XLIII

1. 18 समासइ वइयइ, the व्यतिकर, story or narrative is being abridged (समासइ, समस्यते).

2. 4b पोमरयरासिपिंजरियकुंजरवडे (in the country) where the herds of elephants were reddened with the pollen of lotus flower. 5a दुक्खणिगमण etc. The region of पुष्कलावती was so charming that it bore the comparison with वनश्री from which the god of love, रहरमण, the lord of रति, would depart (only) with difficulty. 10b रमइ वइसवणओ आवणे आवणे, the lord of wealth, वैश्रवण, i. e., कुबेर, took delight in every shop, as it had plenty of wealth. 15 उवसमवाणिण्ण, with the water (वाणिअ, पानीय) of tranquility of mind (उवसम, उपवास). 16 भोयतणेण, with the grass (तण, तृण) of enjoyments (भोय, भोग).

3. 17b हरिसुद्धदेहेण, with his body filled with horripilation (उद्ध, ऊर्ध्वरोम) due to joy.

4. 15a हृष्ट हरिभण्णे, when the orders of हरि, i. e., इन्द्र, were obeyed, i. e., when the town etc. was decorated at the command of Indra. 17 अणव-इण्णि अरुहे, even before the arrival or birth of the अर्हत्.

5. 21 झुलंतवडायहिं, with flags (वडाय, पताका) fluttering (झुलंत).

7. 6b गिन्विषकामावहो, of the जिन who continually or uninterruptedly destroys the god of love or passions. 10b जडकसरदुग्गेण, hard to be practised by dullards and mischievous people. कसर literally means a mischievous bull. गिरिककरि पडइ etc. A wretched camel throws itself or wanders over a rugged cliff (गिरिककर) for the sake of sweet (महुकारणि) herbs where they cannot be had.

9. 5b इणे पच्छिमत्ये, when the sun turned towards the west, was about to set.

12. 15b षडिमालाहयहं, the पूर्व periods counted by the series of षटिका that elapsed. Compare हयदियहपाडीहिं in 5. 14a.

XLIII

1. 5a गियायममग्गणिओइयसीसु, who directed his disciples (सीस, शिष्य) on the path prescribed by his holy texts (निज+आगम) or scriptures. 7b गलकंदलु bulblike (tender) neck.

2. 6a °णीड, nests or houses. 10a भाविणि° (भामिनी), women. 13 होउ पहुच्चइ, पूर्ण भवतु, be accomplished. पहुच्चइ normally means प्रभवति, but the gloss explains it as पूर्ण. 14 जं पुरउ etc. If the town or capital is abandoned, then one can secure emancipation quickly. If the king leaves his kingdom he can secure release from संसार.

4. 1a-b गिहीगुणठाणवएहिं विमीस, ...महोवहि वीस, the period of life of the अर्हमिन्द्र was twenty सागरोपम (महोवहि) mixed with or plus (विमीस, मिश्र) eleven which is the number of the प्रतिमास of a householder, in all thirtyone सागरोपम.

8. 10b दुमाणउ, wretched man.

10. 4b The line should be rather read: संबंधुसु वेरिसु णिचसमाणु, always equanimous towards his relatives and towards his enemies.

XLIV

3. 8a परमारिसरिसहण्णवजायउ, born in the race (अणव अन्वय=वंश) of रिसह, the first तीर्थकर who was परमारिस, परमर्षि, the great sage.

6. 11 परिमाणु here stands for परमाणु, atoms. All atoms or as many atoms as exist in the universe, were used to make up the body of the lord सुपार्श्व.

7. 5a उडुपल्लट्टड, the falling of stars or meteors, which indicated the fickleness of संसार.

9. 5b जलहिमाणि किं आणिजइ घडु. Can we use or bring an earthen jar to measure (the waters of) the ocean ?

XLV

1. 17b वयणवुष्पलमालइ, by means of a wreath of fresh lotus flowers, namely, my poetic composition (वयण, वचन).

2. 16b कलहोयमइयाउ, made of gold (कलधौत).

3. 12a-b तूररें दिस हम्मइ, the quarters (दिस, दिशा) were being beaten, i. e., filled, with the sound of trumpets (तूर, तूर्य); कण्णि वि पडिउ ण सुम्मइ, even if a sound reaches our ears, it is not heard or understood owing to deep sound of trumpets.

6. 9b सरसेणा, army of सर (स्मर), god of love.

13. 13-14. The meaning of the lines is: पद्मप्रभ was born in the वैजयन्त heaven, and had a white complexion (सियंसु) and very bright lustre. On seeing this lustre of पद्मप्रभ, the wife or wives of पुष्पदन्त, i. e., of चन्द्र and सूर्य, felt that their lustre was nothing before his lustre and thus became blackened.

XLVI

5. 9b सासेहिं व चासपहण्णएहिं, like crops (चास, सस्य) sown in series of plough share marks (चास). चास is a deśi word meaning a line drawn by the ploughshare (हलविदारित भूमिरेखा) and is still preserved in Marathi in the form of तास.

6. 12 जिणतणुहि कंतिइ पयडु ण होंतड, the milk which was used for bathing the जिन, could not be distinguished as its colour was identical with the complexion of the जिन; an instance of मीलितालंकार.

11. 5a बलदेवहं अग्गइ देहि तिण्णि, put the figure 3 after 9; बलदेवs are nine. The whole passage gives the figure 93 which is the number of गणधरs of चन्द्रप्रभ. 10-11. These lines mention the eight प्रातिहार्यs such as

पिंडीद्रुम, i. e., अशोकवृक्ष. The position of these प्रातिहार्यस in the middle of the list of the followers of चन्द्रप्रभ is unusual.

XLVII

4. 3a वच्छु जहि रोसहुं, he avoids places where there is the tree (वच्छ, वृक्ष) of anger. The variant in P, 'वासु' is clearly an easier substitute for वच्छु.

6. 9a-b The child, looking at its mother and also at her reflected image, was confounded and felt it had two mothers (दोमायउं द्वैमातृकम्) and so was unable to decide which was his real mother.

XLVIII

1. 19 गुणभद्रगुणीहिं जो सथुउ, he i. e., the tenth तीर्थंकर who is glorified by the revered sage गुणभद्र. We know that गुणभद्र is the pupil of जिनसेन the author of the Sanskrit आदिपुराण. जिनसेन's work was continued after his death by गुणभद्र, which is called the उत्तरपुराण. The expression गुणभद्रगुणीहिं may also be interpreted "by pious monks possessing auspicious qualities."

4. 14 तं पट्टणु कंचणु घडिउं, that city was made or built of gold. कंचणु stands for काञ्चनं, i. e., काञ्चनमयम्. AP read कंचणघडिउं as the copyists did not understand the meaning above of कंचणु.

9. 1 a-b तं सइं etc. The line means: Even though the water used for the bath of शीतलनाथ flowed in a downward direction, it led the pious people in the upward direction, i. e., to heaven.

10. 5b उच्चाणाणणु गव्वेण जाइ, a man, out of pride, goes or walks with his face or head up or erect. A proud man walks with his head stiff and erect.

13. 1b संभरइ विरुद्धउ जिनचरित्तु, the gods brought to their minds the (apparent) contradictions in the life of the जिन. In the following lines we get a reference to these contradictions. For instance, the जिन is called गोपाल (cowherd boy, lord of the earth) and is very terrific to his own enemies (गियारिचंडु).

7. 1a मेहयोसु is another name of king विष्णु. 12-13. These lines give the interval between the निर्वाण of शीतल and the birth of श्रेयांस; it is

16625999 सागरोपमस. Jainism was totally eclipsed for a पस्योपसार्ध. After this भैयांस was born.

18. 5a-b He who makes gifts of cows etc, goes to विष्णुलोक in golden विमानस, and enjoys (माणइ) heavenly pleasures. 11. सुज्झइ पिंपलफंसणिण, is purified by touching the पिप्पलवृक्ष.

20. 14 सइ विरइवि कन्नु, मुण्डसालायण himself composed some verses glorifying the gifts of cow etc. and brought them to the king. The king felt that these verses were as authentic as the Vedas.

IL

1. 15 कित्ति वियंभउ महुं जगगेहि, may my fame spread over the house of the whole world. The poet is conscious of his poetic powers which, as he says, would bring him a world-wide name.

3. 3b गुणदेवहं भवदेवहं ईसरु, the अनन्तजिन is said to be the lord of गणधरस and also of gods by birth such as इन्द्र etc.

5. 9 ता णज्झइ etc. Owing to the shower of gold in the city it was very difficult for people to distinguish the night from the day. The people therefore called that time to be the daytime when lotuses in ponds bloomed.

L.

This sandhi and the two following narrate the story of the first वासुदेव (त्रिपृष्ठ), first बलदेव (विजय) and first प्रतिवासुदेव (अश्वघ्रीव) of the Jain Mythology. In order that the reader should understand the background of the friendship between त्रिपृष्ठ and विजय, and the enmity between त्रिपृष्ठ and अश्वघ्रीव, the poet gives us the narrative of the two previous lives of all these three.

1. 5a गोउल्लपयधाराधायपहिइ, where travellers were made to drink to their satisfaction (धाय) the streams of milk of cows. 11a जहणी i. e., जैनी which is a proper name here. 15 खलमित्तसणेहु, friendship with a wicked friend which lasts only for a short time.

2. 5a णिग्गेसइ ण वाय, words will not come out. The root णिग्ग here and in 7b below corresponds to णिघणे in Marathi and may be traced to निर्+गम् or गा.

3. 5b तरइ swims. The root तर् to swim is preserved in Marathi in this sense. There is another root तर् in Prakrit which means to be able (शक्).

4. 1b वणुस्साहिलासं should have been वणस्साहिलासं, the desire to have the garden. वणुस्स is found in all the Mss. and hence retained. Or, are we to take वण+उत्स (उत्सुक)+अहिलासं, keen desire for the garden? 12b तायाउ आराहणिज्जे, to be respected after (the death of) my father. You deserve the same respect as my father.

5. 13 दुग्गु भणेवि, saying or thinking that the stone pillar was like a fortress (दुग्ग). वइरिउ i. e. विशाखनन्दी.

8. 6a छइउ (छादितः) defeated.

9. 10 तुज्जु हसियहु करमि समाणउं, I shall equalize, i. e., repay your laugh which ridicules me and insults me.

10. 8b अवरु i. e., विशाखनन्दी.

LI.

1. 6a जायासीधणुतणु, They both (विजय and त्रिपुष्ट) grew to the height of 80 bows. 9b विहिं पक्खहिं णं पुण्णिमवासरु, like the day of the full moon which had on one side the bright half and on the other side the dark half, corresponding to विजय बलदेव who is white and त्रिपुष्ट वासुदेव who is dark in complexion.

2. 11a-b हलहरु, दामोयरु. Please note that बलदेवस and वासुदेवस will all be referred to by their various synonyms such as सीरि, हली, लंगलहर, सीराउह etc. for बलदेव, and दामोदर, माधव, श्रीवत्स, अनन्त, सिरिरमणीस, लच्छीवद्द, (लक्ष्मीपति) दानवारि, दानववैरिन्, विट्ठरसव, विस्सेण, etc. for वासुदेव; similarly अश्वग्रीव is mentioned under हयग्गीव, हयकंठ, तुरंगगल etc.

5. 4b पृयवयणहिं, note ऋ in पृय which has come in for प्रिय probably by extending the application of हेमचन्द्र's rule: अभूतोऽपि ऋचित्, iv. 399.

6. 13 जसु जसु, यस्य यराः whose fame.

7. 8b मृगवद्दयहि जायं, by the son of मृगावती, i. e., by त्रिष्टु. 9a संचालेवी, the potential passive participle. Compare also पालेवी जणेवी, परिणेवी etc. हेमचन्द्र under iv. 438 however gives एवा as substitute for तव्य in अपभ्रंश and does not mention एवी.

9. 13-14 गियजणणविइण्णु etc. The lines mean that अर्ककीर्ति understanding the signs of the brows from his father prostrated before king प्रजापति and thus saluted him.

10. 1a हरिबलेहि, by हरि i. e., त्रिष्टु, and by बल i. e., विजय. ससुरउ (श्वशुरः) the (would-be) father-in-law of त्रिष्टु.

11. 12-13 पुणु भणुउ etc. They again said to अणंत (त्रिष्टु): “ Let us see; lift up the slab of stone, and show to us whether you would be the killer (कर्तु, कृतान्तः) of ह्यकंत (अश्वग्रीव) or no.

15. 14 अह सो सामणु भणहुं ण जाइ, now he cannot be called an ordinary man (सामण, सामान्य).

·LII.

1. 2 चिरभववद्दरवसु, under the influence of enmity of the previous birth, when both of them were विश्वनन्दि and विशाखनन्दि. 4 तिखंडखोणिपरमेसरु, the lord of the earth with three continents, i. e., an अर्धचक्रवर्ती. अश्वग्रीव was the अर्धचक्रवर्ती before त्रिष्टु.

5. 4b विजाहरभूयरभूमिणाहु, the lord of the विद्याधरभूमि and भूचरभूमि, i. e. the अर्धचक्रवर्ती, अश्वग्रीव.

7. 3a मा रसउ काउ चप्पिवि कवालु, a crow sitting on the head of a person and crowing is considered to be an indication of approaching death.

8. 2 करगय etc, why do you require a mirror to see a golden bracelet which is put on your hand? A famous लोकोक्ति. 5a भरहुहु लग्गिवि, from the days of king भरत, the first चक्रवर्तिन्. 11 रणु बोळंतहुं चंगउं, the talk of fight is pleasant. Compare युद्धस्य कथा रम्या.

9. किंकर णिहणंतहं णत्थि छाय, there is no charm or pleasure in killing the servants. अश्वग्रीव was glad to fight with त्रिष्टु as he thought that there was no pleasure in fighting with the inferior or low people. 15 सारंरु is interpreted as बलवत् in T. but it appears that त्रिष्टु, being a वासुदेव, should have a bow made of a horn. विष्णु is called शार्ङ्गधर in Hindu Mythology. The

other emblems of विष्णु in Hindu Mythology such as पाञ्चजन्य, कौस्तुभमणि, असि, कौमोदकी गदा, गरुडध्वज and लक्ष्मी, are also mentioned as emblems of वासुदेव in Jain Mythology and hence I think that सारंगुधनु should also mean शार्ङ्ग धनुः.

10. 4 *a-b* This line mentions the weapons of बलदेव; they are: लाङ्गल, a plough, मुसल, a pestle, and गदा called चन्द्रिमा.

11. 2 खगाहिवो i. e. गरुड, eagle, who is the emblem on the banner of वासुदेव or विष्णु. *Sa* णिच्चिच्चुच्चं, thick and high. This expression, according to T seems to come from निस् and उच्च. It is likely that it can also come from नित्य, निच and उच्च+उच्च of which the second उच्च becomes उंच. The meaning would be "hair standing on end (रोमंच) which remain for ever high.

12. *Sa-b* भडु. etc. A warrior says : Even if my head falls, my trunk would kill the enemy and dance.

15. 2 कण्णाहरणकरणरणलगाई, the armies that were engaged in a fight which was due to the giving away in marriage of the girl स्वयंप्रभा. 12-13 These two lines compare the two armies to loving couples, मिहुणई, मिधुनानि, engaged in love-sport.

16. 2 सिरिहरिमस्तु, who is mentioned above in LI. 16. 9 *b*, as the minister of king प्रजापति. 25 माहवबलवहणा, i. e., by हरिमस्तु.

17. 14*b* णं अट्टमउ चंदु, the moon in the eight place in the horoscope indicates death. For a different view see मृच्छकटिक VI. 9:

कस्तट्टमो दिणअरो कस्त चउरथो अ वट्टए चंदो ।

where the moon in the fourth place is said to indicate death.

19. 3*b* णीलंजणपहदेवीसुएण, i. e., by अश्वघ्रीव.

20. 21*b* मीमुहउज्झउ, free from fear.

21. 14*b* सिवकामिणीह, by beloved, viz., the female jackal (शिवा). 16 मोलवणु, price or return.

24. 15*b* कुलालचक्र, the wheel of the potter. When the discus of अश्वघ्रीव did no harm to त्रिष्टुठ and remained on his hand, अश्वघ्रीव said that it was like a wheel of the potter, quite useless in warfare, although त्रिष्टुठ and his party valued it so much. अश्वघ्रीव abuses त्रिष्टुठ by saying that a begger may value a lump of oil-cake as a precious article of food, which would satisfy his hunger, but others do not think so.

25. 9 कामिणिकारणि कलहसमत्तो, engaged in fight or battle for the sake of a lady (स्वयंप्रभा).

LIII

5. 5b कंजबंधवो सरम्मि दिण्णपोमिणीरई, the sun who is the friend of lotus flowers and gives delight to lotus-plants in the lake.

6. 8b तित्थणाहसंखम्मि रिक्खए, on a नक्षत्र which is twentyfourth, i. e. शतभिषा or शततारका.

8. 5a अण्णहु पासि ण सत्यविही कत्थइ सुणइ, he does not study the शास्त्रs with any teacher other than himself. The तीर्थेकर is self-enlightened and does not require a teacher.

13. 1a ससयभिसहइ, with the शतभिषानक्षत्र, i. e., शततारका नक्षत्र.

LIV

1. 14-15 The lines mean: If I (the poet) compare the face of गुणमञ्जरी to the moon, there will be no exhibition of my poetic powers, I would not be called a poet; for, the face of गुणमञ्जरी is not soiled or darkened by the deerspot as the disc of the moon is, nor is there reduction in size nor crookedness as it is in the moon.

3. 2 इहु कल्लोलणिवहु etc. The poet says that friendship between विन्ध्यशक्ति and सुषेण was so fast and intimate that it was impossible to draw any distinction between them; for who will be able to differentiate the ocean from a mass of waves? The तादात्म्य or identity between समुद्र and तरङ्ग is an accepted thing with philosophers.

8. 7b The birth of बलदेव and वासुदेव is heralded by the sun and the moon seen in dreams by their mothers.

8. 9b बीयउ उववादेविह ददभुउ. The name of the mother of द्विपृष्ठवासुदेव is उववादेवी as given here. गुणभद्र however gives it as उपा. Compare.:

तस्यैवासी सुषेणाख्योऽप्युषायामात्मजोऽजनि ।

द्विपृष्ठाख्यस्तनुस्तस्य चापसप्ततिसंभिता ॥ 58. 84.

9. 10b गलियंसुयइं सुहइहि णयणइं, I shall kill अचल and make his mother सुमद्रा shed tears.

12. 10-12 रायत्तणु etc. There is a pun on राय which means राजन् as well as राग.

17. 8a रासहु होइवि etc. तारक compares द्विपृष्ठ to an ass and himself to an elephant. 10a गोवालबाल, the son of a cowherd boy, is an epithet of

वासुदेव (कृष्ण), who, according to Hindu Mythology, lived and was brought up among the cowherds.

LV

3. 6b तहु गुण किं वण्णइ खंडकइ, how can खण्डकवि (पुष्पदन्त) describe his qualities ? खण्ड means broken, incomplete, which is one of the nick-names of पुष्पदन्त.

7. 8b णायभव, नाकभवा: i. e. gods. 16 गिंभे जित्तु सियालउ, the season of summer (गिंभ, ग्रीष्म) defeated winter (सियाल, शीतकाल). This was a निमित्त for विमलनाथ to realize the impermanence of the world.

LVI

1. 6a धणु सुरधणु जिह तिह थिरु ण ठाइ, wealth, like the rainbow, does not remain perpetually with a person. 7a भायर णियभायहु अवयरंति, brothers mis-behave (अवयरंति, अपचरन्ति) with their brother.

2. 8a-b चर etc. चर, गमण, छेज and कड्डण are different types of the play of dice which are a means of attacking the opponent and taking charge of his possessions. 9b एक्के उड्डिउ णियरञ्जु ताम, one of them (सुक्केतु) lost his kingdom. Note the use of उड्डिउ which word, in the form of उडवणे is preserved in modern Marathi.

6. 4a महुराउ भणहि महुघोट काइ, how can you call king मधु a mouthful of honey ? How can you speak of king मधु in such light terms ? 7a णीलणियासणेण, by धर्मबलदेव who wears blue clothes. बलदेव is a नीलाम्बर. (Compare नीलाम्बरो रौहिणेयः कालाङ्को मुसली हली in अमरकोश.

7. 10a उर्विदुष्णरोसु, उर्विदु+उष्णरोसु, उपेन्द्र i. e. स्वयंभू (वासुदेव) got angry. 11a-b जइ लोहिउ etc. I swear by the feet of (my elder brother) धर्म, if I do not make the goblins drink the blood of king मधु. पायमि stand for पाययामि, make one drink, a causal form of पा to drink.

8. 1 वसुहासुउ, the son of वसुधा, i. e., स्वयंभू. The name of the mother of स्वयंभू is पृथिवी as we see from 4. 7b above; here the poet uses a synonym वसुधा for पृथिवी.

9. 4b, 6b सुंदरिहि तणुएण i. e. by मधु. 5a-b-6a विउसयणकयवयणविणुएण, by king मधु who was glorified in compositions or poems (वयण, वचन) composed by a body of learned men (विउसयण, विद्वज्जन). 36 महुमहमुक्के चक्के, by the discus

discharged by the enemy of मधु. महुमह or मधुमथन is one of the names of विष्णु in Hindu Mythology.

LVII

This sandhi gives the narratives of three persons, संजयन्त, मेरु and मन्दर with their several past lives. Of these मेरु and मन्दर are the two prominent गणधर of विमल. The table given below records chronologically the different previous births of persons mentioned in the narratives :—

(a) संजयन्त—(१) सिंहसेन; (२) अशनिघोष हस्ती; (३) श्रीधरदेव; (४) रक्षिमवेग; (५) अर्कप्रभ; (६) वज्रायुध; (७) सर्वार्थसिद्धि अहमिन्द्र; and (८) संजयन्त. It is in this birth that he attained emancipation.

(b) मेरु—(१) मधुरा; (२) रामदत्ता; (३) मास्करदेव; (४) श्रीधरा in देवलोक; (५) रत्नमाला in the अच्युतस्वर्ग; (६) वीतभय; (७) आदित्यप्रभ; and (८) मेरु who is the गणधर of विमल.

(c) मन्दर—(१) वारुणी; (२) पूर्णचन्द्र; (३) वैदूर्यदेव; (४) यशोधरा; (५) रुचकप्रभ in कापिष्ठस्वर्ग; (६) रत्नायुध; (७) विभीषण; (८) द्वितीय नारकी; (९) श्रीधामा; (१०) ब्रह्मस्वर्गस्थित देव; (११) जयन्तधरणेन्द्र; and (१२) मन्दर who is the गणधर of विमल.

There are two other prominent persons mentioned in the narrative; they are: (1) सत्यघोष or श्रीभूति, the minister of सिंहसेन who became अगन्धनसर्प, चमरमृग, कुक्कुटसर्प, तृतीय नारक, अजगर, चतुर्थनारक, त्रसादिभव, सप्तमनारक, सर्प, नारकी, मृगशृङ्ग and विद्युद्दंष्ट्र; (2) भद्रमित्र the merchant who became सिंहचन्द्र, प्रीतिकर देव and चक्रायुध.

1. 5b चिञ्जद् comes from चि to pluck, to collect, and then eat. The T gives भक्ष्यते which is only a secondary sense of the root.

6. 10 देवदिवायराहु, of god आदित्यप्रभ who in subsequent birth became मेरु.

9. 11a विष्णि वि एयद्, i. e., यज्ञोपवीत as well as मुद्रिका.

14. 1a णावद् वारुणि, like wine.

15. 6a तूलिहि, on a mattress made of cotton (तूल).

18. 4b कम्मरउ, a labourer.

LVIII

9. 1a पुणु तहु कइ ctc. The line means: Now for the sake of अनन्त (तहु कइ, तस्य कृते) the royalty (राज्यश्री) suffered pangs of love; she fainted

(but was brought round (सञ्चयण कय) by fanning) by means of chowries.

11. 8b मिहिरमहाहिय, superior in lustre (मह, महस्) to the sun(मिहिर).

13. 12a अमवासाणिसियहि, on the night of अमावास्या. Both गुणभद्र and पुष्पदन्त do not mention the month which is चैत्र. Probably we are to borrow the name of the month from 11.1a.

16. 9b महसूयणु i. e. मधुसूदन the Mss use promiscuously महसूयणु and महसूयणु. In Hindu mythology मधुसूदन is the name of विष्णु. Are we to take मखसूदन to be the name, which is confounded with मधुसूदन ?

21. Note the दामयमक or शृङ्खलायमक throughout the कडवक.

22. 5b रहचरणु i. e. चक्र, the discus. 13a सरसल्लि रहंगसयाइं अत्थि, there are hundreds of रथाङ्गस, i. e., चक्रवाक birds in lakes but can they catch a maddened elephant ?

LIX

4. 7 सिविणय देतु सुहुं, giving delight to men who were modest or humble though rich. Note that the word सिविणय has no case-ending of the Genitive. See हेमचन्द्र iv. 345.

6. 3a पूसरिक्खि छणससिदिवसि, there is no mention of the name of the month here. Elsewhere, i. g. in गुणभद्र, the month of माघ is mentioned, but we cannot have पुष्यनक्षत्र on the full-moon day of माघ. The month therefore must be पौष. Is the confusion due to the difference in the method of naming the months in the northern and southern India ?

14. 1a सयडंगु (शकटाङ्ग), the wheel, i. e., discus, the weapon of a चक्रवर्तिन्.

19. 10 विसरिसजलझलझलं, the dripping of dirty rainwater.

LX

2. 5b जहिं मणियरहिं ण दिट्ठु पयंगउ, where the sun (पयंगउ, पतङ्गः) could not be seen because of the rays of gems. The gems were so numerous and vast that their rays even eclipsed the sun.

3. 5b कोडिसिलासंचालणधवलहु, the line refers to the exploit of त्रिपुष्ट the first वासुदेव who lifted up the कोटिशिला. See LI. above.

4. 13b पाहुडगमणागमणपवाहे, by a series of gifts passing or exchanged between विजयभद्र and अमिततेजस्. 14 णिम्मिस्सिउ, नैमित्तिक; an astrologer.

5. 9b इउं पव्वइउ समउं हलीसहु, when हलीस, i. e., विजय बलदेव renounced the world, I (the Brahmin astrologer says) also became a monk with him.

6. 11a मामसमप्पिउ, given by my father-in-law (माम). Even in modern Marathi the father-in-law is called मामा.

8. 2a अमोहजीहु, the name of the astrologer. 7b जेणुव्वरसि by which you will survive the calamity.

11. 3b णिबद्धणाइ, the AP reading णिबंधणाइ is easier. The meaning of the expression is ' binding tissues. 9b वारउ turn. The word वार, meaning a turn, is preserved in Marathi.

18. 5a हरिसुउ, i. e., श्रीविजय the son of त्रिपुष्टवासुदेव.

29. 10b समयसमियकलि, समतया स्वमतेन वा शामितः कलिः येन, who, by his equanimity or preaching, settled the quarrels of people.

LXI

1. 9a-28b These lines give the list of विद्याs acquired by अमिततेजस्.

12. 6a दिह्णिदिलिए, हे बाले. दिह्णिदिलिअ is a deśi word meaning a boy & दिह्णिदिलिआ a girl. See देशीनाममाला V. 40.

15. 13 आउंच्चियारिपसरु, who stopped the progress of his enemies.

21. 11 धणवाहणहु, i. e., मेघरथस्य.

LXII

2. 2a गरुडेण वि जिप्पइ एहु ण वि, this cock cannot be defeated even by an eagle.

5. 10b जाउडयजडिलमंडियथणिहि, whose breasts were decked by a thick paste of saffron.

7. 9a to 10. 2b We have here a description of the whole earth with its continents as seen from the sky.

17. 12b पक्षे (पक्षिणा), by the bird. Are we to have the word as पक्षि which would be the form of the Instrumental sing ?

LXIII

2. 7a एरादेविद्, elsewhere the name of the mother of शान्ति is given as अहरा as for instance in 1. 16 and 11. 2b.

5. 5-6 These lines give the list of 14 gems which, as a चक्रवर्तिन्, शान्तिनाथ possessed.

11. 1-7 These lines give the previous births of शान्तिनाथ and चक्रायुध. शान्ति had in all twelve, viz., श्रीषेण, कुरुनरदेव, विद्याधर, देव, बलदेव, देव, वज्रायुध-चक्रवर्तिन्, देव, मेघरथ, सर्वार्थसिद्धिदेव, शान्ति; चक्रायुध also had the following : अनिन्दिता, कुरुनर, विमलप्रभदेव, श्रीविजय, देव, अनन्तवीर्य वासुदेव, नारक, मेघनाद, प्रतीन्द्र, सहस्रायुध, अहमिन्द्र, दृढरथ (मेघरथभ्राता), सर्वार्थसिद्धिदेव, चक्रायुध.

LXIV

1. 7b जो ण करइ करि कत्तिय कवालु, (कुंथु or a तीर्थकर) who does not hold in his hand human skull (कपाल) and (tiger's) skin (कृत्ति) as god शिव does. The तीर्थकर is thus far superior to god शिव.

2. 8b बयविहिअजोगु दिण्णु वि ण लेइ, while begging alms he does not accept things which, for his vows (व्रतविधि) he cannot accept.

8. 1b गियजम्ममासपक्खंतरालि, on the same day, month and fortnight on which he was born, i. e. on the first day of the bright half of वैशाख. 2b कित्तियणक्खत्तासिद्द संसंकि, when the moon was in conjunction with the नक्षत्र mentioned (कीर्तित) or कृत्तिका.

LXV

3. 4b पट्टणु रयणकिरणअइसइयउ, the town that excelled in brightness or was extremely bright owing to the rays of gems.

4. 9b-10b वरिसकोडि सहसेण विहीणइ...पल्लचउत्थभायपरिमाणइ, when after the निर्वाण of कुन्थु onefourth of the पल्लोपम minus one thousand crores of years passed.

5. 5b दइदइधणुतणु, with his body twenty शरासन in height. गुणमद्र however mentions thirty शरासन as the height of अर. Compare: त्रिशच्चापतनूत्सेधः चारुचामीकरच्छविः—65. 26. Which seems to be more probable.

9. 1-8 Note the play on the term अर or अरु here.

11. 8a णिउ जिणवरिसि सोत्तिउ तावसु, the king became a Jain monk, while the Brahmin became a तावसु ascetic, i. e., an ascetic following the teaching of the Vedic religion, particularly the teaching of devotion to god शिव.

12. 6-7 णच्चद् देउ etc. These lines give the characteristic behaviour of god शिव, who performs a ताण्डवदृत्य, sings, has a woman or women (पार्वती and गङ्गा), beats the डमरु, burns त्रिपुर, and kills demons. The Jain monk says that such a godhead will not save one from संसार.

13. 6b तावसुमासुरवासि रसंति, the pair of sparrows, having formed their nest in the beard of the ascetic, used to warble.

16. 1-2 These lines give the origin of the name कण्णाकुञ्जणयद, the city of कान्यकुब्ज, because the girls in which, having refused to marry the sage, became dwarfish owing to his curse.

24. 1b खत्तिय सयल्लु वि ज्जारु परत्तिवि, having burnt to ashes all the क्षत्रियस. परत्तिवि comes from परत्त a deśī root which is preserved in modern Marathi as परतणें.

LXVI

1. 9a विहवत्तणदुक्खोहरियछाय, whose beauty or spirit was soiled by sufferings of widowhood (विहवत्तण, विधवात्व). 10b पर ताउ ण पिच्छमि, but I do not see or know my father (सहसन्नाहु).

5. 5b कोसलं पुरं, i. e., साकेत which is the capital of the कोसल country.

6. 3a परमेसद, i. e. सुभीम, who was destined to be a चक्रवर्तिन् later. 10b एउ जि, this very earthen plate filled with the teeth of his father (सहसन्नाहु), which turned into a discus (चक्र).

10. 10a सम्भन्तरे (श्वभ्रान्तरे), in a ditch, i. e., in a hell.

LXVII

4. 6a हिरण्यगम्भो, i. e., a जिन. The term हिरण्यगर्भ is used to designate god ब्रह्मा in Hindu Mythology, but in Jain Mythology it is used to denote a तीर्थंकर.

9. 1a दिणि छक्के विच्छिण्णए, six days after his दीक्षा, i. e., on पौष कृष्ण द्वितीया, मल्लि attained कैवल्यज्ञान. गुणभद्र also gives this date exactly in the same form. Compare: दिने षट्के गते तस्य छाद्रस्ये प्राक्तने वने-66.51.

13. 11a पिसुणमहंतो, i. e., the minister named पिसुण, who gave a wrong report about राम and विराम to their father वीर, was born as बलि the अर्धचक्रवर्तिन् and a प्रतिवासुदेव.

14. 4b वाणारासि, i. e., वाराणसी; the lengthening of the third syllable is due to metre.

LXVIII

2. 13 पयडइं जायइं कालहु चिंधइं, the signs of (coming) death or fall from heaven became manifest.

9. 3b गंधियकुंगंधबंधणवहित्थि, (अनन्ततीर्थ or teaching of अनन्तजिन) which kept off or made ineffective the systems of heretic schools.

LXIX

1. 2 हरिहलहरगुणथोत्तु जं जायउं रामायणु. The रामायण is the glorification of the virtues or qualities of हरि (वासुदेव) and हलहर (बलदेव). 4a णिव्वाहमि भरहम्मत्थियउं, I (Poet) want to carry out the wishes of भरत, my patron. 6a सामग्गि ण एक वि अत्थि महुं, I possess no material or facilities for undertaking the task of composing a रामायण. 6b किर कवण लीह चिरकइहि सहुं, how can I compete with older poets ? 7a कइराउ सयंसु, the great poet स्वयंभू who wrote on the theme of रामायण had the help of a thousand friends. 8a चउमुहहु, the great poet चतुर्मुख स्वयंभू, as his name implies, had four mouths. 9a महु एकु तं पि सुहुं खंडियउं, the poet पुष्पदन्त says that he has only one mouth as against four of चतुर्मुख, and that even this mouth is broken (खण्डित). Elsewhere पुष्पदन्त calls himself to be खण्ड or खण्डकवि, and mentions that his face or mouth was वक्र. 13 सुकइपयासियमग्गि, on the path brightened by great poets like स्वयंभू and चतुर्मुख; or on the path, i. e., सेतु, built or manifested by the good monkey, i. e. इन्मान्.

3. 3-10. These lines record some strange notions or superstitious beliefs about persons figuring in the रामायण. King श्रेणिक asks गौतम इन्द्रभूति to explain to him the truth about them. They are: (1) रावण (दशमुख) has ten mouths or faces; (2) his son इन्द्रजित् was older in age than his father, or, in other words, इन्द्रजित्, though a son of रावण, was born before him; (3) रावण was a demon and not a human being; (4) he had twenty eyes and twenty hands and that he worshipped god शिव with his heads; (5) रावण

was killed by the arrows of राम; (6) the arms of श्रीरमण, i. e., लक्ष्मण, were long and unbending (थिर); (7) सुग्रीव and others were monkeys and not human beings; (8) विभीषण is still living or is a चिरंजीविन्; (9) कुम्भकर्ण sleeps for six months and feels satiated only by eating one thousand buffalos. Those that are conversant with the Hindu version of the रामायण will see that except No. 2, all other beliefs have some sort of support in the various versions of Hindu रामायण. About No. 2 I have not come across any support for it. But before we proceed further we have to note a basic difference in the conception of personalities of राम and लक्ष्मण with the Hindus and the Jainas. राम, according to Hindu version and the Jain version is the elder of the two sons, राम and लक्ष्मण, of दशरथ; but राम who is the eighth बलदेव of the Jainas, has white complexion as against the dark complexion according to Hindus. On the other hand, लक्ष्मण who is the eighth वासुदेव of the Jainas, has dark complexion as against white complexion according to Hindus. Besides लक्ष्मण, being a वासुदेव with the Jainas, kills रावण who is a प्रतिवासुदेव with them. Other differences in the two versions will be noted as we proceed. 11a-b All Jain versions known to us say, as here, that व्यास and वाल्मीकि are responsible for creating wrong notions about the personalities of रामायण. It is clear from this statement that Jain poets, one and all, who tried their hands on the story of रामायण, have been acquainted with the versions of व्यास and वाल्मीकि, and think that they gave an altogether new interpretation of the lives of राम and लक्ष्मण.

4. 2-13 These lines mention the तृतीयभव of राम and लक्ष्मण. In the city of रत्नपुर in the मलयदेश, there was a king named प्रजापति. His queen, कान्ता by name, gave birth to a son who was called चन्द्रचूल (who is destined to be लक्ष्मण subsequently). विजय, the son of the king's minister, was a friend of चन्द्रचूल.

5. 5b कलहस्त ण चारुकरिणीह, like a young elephant (कलह, कलभ) born of a beautiful she-elephant. A merchant named गोत्तम had a son, श्रीदत्त by name, by his wife वैश्रवणा. This श्रीदत्त was married to कुबेरदत्ता, daughter of कुबेर. 10b ती संणिहा का कुबेराइदत्ताइ what lady (ती, स्त्री) is comparable (संणिहा, संनिभा) to कुबेरदत्ता in beauty? चन्द्रचूल carried off this कुबेरदत्ता by force.

8. 4a सिसु चवंति गहिर, the two boys, चन्द्रचूल and विजय said in deep voice, i. e., full of repentance. These two were destined to be लक्ष्मण and राम in their third subsequent birth.

9. 9a अइरहसे, rashly, in haste.

10. 4*b* बालरिसि, the young monks चन्द्रचूल and विजय. Of these चन्द्रचूल formed a निदान on seeing सुप्रभबलदेव and पुरुषोत्तम वासुदेव to enjoy prowess similar to theirs. 9-10 विजय was born in the सनत्कुमार heaven and was called सुवर्णचूल, and चन्द्रचूल was born in the कमलप्रभ विमान and was named मणिचूल.

11. 11 कुवलयबंधु वि णाहु णउ दोसायरु जायउ, although king दशरथ (णाहु) was a friend (बन्धु) to the whole earth, he was not a seat or source (आयर, आकर) of faults (दोस, दोष) like the moon who is a friend of night lotuses (कुवलय) and is the maker of night (दोषा).

12. Note that राम (in former births विजय and सुवर्णचूल) is the son of king दशरथ of वाराणसी (and not अयोध्या) by his queen सुबला (and not of कौसल्या) and that the day of his birth is फाल्गुनकृष्णत्रयोदशी, मघा नक्षत्र (and not चैत्र-शुक्ल नवमी); and that लक्ष्मण (in former birth चन्द्रचूल and मणिचूल) is the son of कैकेयी (and not of सुमित्रा) and is born on माघ शुक्ल प्रतिपद्, विशाखानक्षत्र. It is only subsequently that king दशरथ went over to अयोध्या as mentioned in 14. 6*b* below.

16. 1*a* जं जुंजिवि सगहु सयरु गउ, king सगर went to heaven by performing a sacrifice. According to Jain version of the story of सगर there is no mention of this sacrifice. 5*b* सिंसु i. e. राम.

20. 10 पिंगल, i. e., मधुपिङ्गल, the son of वृणपिङ्गल and अतिथीदेवी. In 22. 3*b* he is called पिंगदिट्टि.

28. 10*a* णारउ अय जव तिवरिस चवइ, नारद says that अज means the जव (यव) corn three years old. This is the famous explanation of अज (goat) according to Jainas.

33. 8-9 These lines mention गोस्पर्श, पिप्पलस्पर्श etc., as meritorious acts according to superstitious beliefs; but the poet says that if they secure merit, a bull who touches the body of the cow and the crow that sits on the पिप्पल tree would be gods.

LXX

1. 11*a-b* ए अट्टम, these two sons of yours are the eighth बलदेव and वासुदेव, as I heard in the पुराणस and will occupy a place among the शलाकापुरुषस.

2. This कडवक and the two following give the history of the past life of रावण. There was in the city of नागपुर a king called नरदेव. He renounced the world and practised penance. On seeing a विद्याधर he formed a

निदान that he should have the fortune similar to that विद्याधर. He was then born as a god in the सौधर्म heaven. King सहस्रग्रीव of the city of विद्याधर, got somehow displeased with his relatives, quarrelled with them and shifted to त्रिकूटगिरि. There he built the city of लङ्का. After him came शतग्रीव and पञ्चाशद्ग्रीव. His son was पुलस्ति whose wife मेघलक्ष्मी gave birth to दशग्रीव. He married मन्दोदरी, the daughter of मय.

6. 7a-b The line means that मणिवती got disturbed in her meditation on the बीजाक्षरमन्त्र, and thought that दशग्रीव, though a विद्याधर, had characteristics (चिध, चिह्न) of a demon. 8a-b मणिवती formed a निदान that he should be her father in her next birth, carry her off in the forest and die on her account. This मणिवती becomes सीता in her next birth.

8. 1b तैं होंतैं होसइ अवर धूय, if दशग्रीव is alive, you (मन्दोदरी) will have another daughter. मारीच asked मन्दोदरी to abandon सीता as she was destined to bring calamity on the family.

9. 11 रामणरामहं णाई कलि, a source of quarrel between रावण and राम.

12. 3a ससुरणयर, i. e., मिथिला, the city of राम's father-in-law.

13. 9a अवरउ सत्त कण्णाउ, Over and above सीता, राम was married to seven other girls. 10a लक्ष्मण was married to sixteen girls. Note that राम in the Jain mythology has eight wives and not one.

16. 6b जाणेवा (शतव्याः). For this form see हेमचन्द्र iv. 438.

LXXI

1. 1 कहिं तं भंडणु एम भणंतु जि संचरइ, नारद, wanders over the earth finding out places where there is, or has a chance of, a quarrel. This characteristic of नारद is well-known to Hindu Mythology. Here he is approaching रावण to start the quarrel.

2. 6b पर पइं जिणिवि एक्कु जसु ईहइ, but one, i. e., राम, desires to obtain fame by conquering you.

5. 6a सेलसिहरसंचालणचंडहिं, with my arms, terrific in shaking the mountain peaks. This is a reference to the belief that रावण shook the कैलास mountain with his arms.

6-10. These कडवकस refer to the description of the characteristics of ladies as mentioned in कामसूत्र of वात्स्यायन.

11. 7a चंदणहि (चन्द्रनखी), otherwise known as शूर्पणखा.

15. 2a बउलु परिकखइ णियतणुगंघे, a lady compares the scent of बकुल flower to see if it is similar to the scent of her body. 11a संपहि एह वि बोहण-सीली, now in this spring, this (cuckoo) also has become talkative.

18. 2a कंचुइ होएप्पिणु, assuming the form of a कंचुकिन् or rather कञ्चुकिनी an old lady.

20. 1a विहवत्तणि पुणु सिरु मुंडेव्वउं. It appears that Jainism recommends the shaving of the head by widows.

LXXII

1. 1 मुकदेसजइसंजमु, abandoning the restraint which a householder (देसजइ, देशयति, गृहस्थ) should practise, namely स्वदारसंतोष. रावण now starts in his पुष्पकविमान to carry off सीता against the rules of a Jain householder, for सीता is not his wife. He is not still aware of the fact that सीता is his own daughter. 19 दिड्डउ तेत्थु etc. रावण saw there the forest and also one more thing, viz., the bloom of youth of सीता. The next कडवक compares these two in similar terms.

4. A fine description of the movements of an antilop.

5. 5a कसणवाससोहियणियंबओ, who wore a blue or dark garment. बलदेव is called नीलाम्बर in Hindu as well as in Jain Mythology.

8. 11-12 These lines mean: If I ((रावण) touch this lady who is now helpless but chaste, the lore which enables me to move through the air (अम्बरचारिणी विद्या) will go away from me. रावण was unwilling to dally with the unwilling सीता, as in that case he would lose all the prowess he had.

12. 4-6 These lines mention that रावण became an अर्धचक्रिन् about the time of the arrival of सीता at लङ्का.

LXXIII

1. 3 एत्तहि etc. Three things occurred simultaneously, viz., राम followed the deer in the forest, सीता was carried off, and the attendants of सीता were filled with grief on her account.

2. 3b-6b It appears that the Jain society recommends the wearing of red-coloured saris for widows, breaking of bracelets, and not wearing ornaments like a necklace.

5. 9a According to the Jain version, दशरथ is still living when सीता was carried off by रावण. He saw a dream just at that moment that रोहिणी, the consort of the moon, was carried off by राहु, which dream indicated that a similar calamity had befallen राम.

6. 11a जणहणेण, by लक्ष्मण.

7. 4a बेणिण खग, i. e., सुग्रीव and हनूमत् who were विद्याधर and not monkeys.

8. 6b हनूमत् is in Jain Mythology the 20th कामदेव and hence he is mentioned as मयरकेउ (मकरकेउ) and by its synonyms. Compare 25. 9b below.

10. 3a सेस लेवि, having taken the शेषा, i. e., flowers etc, offered to the deity. When a devotee visits a temple, he takes home with him some portion of the निर्माल्य or ashes or some article dedicated to the deity.

15. 2 पावणि, i. e., हनुमान्. 12 सुवण्णमिगारयहु खप्परु विण्णउं ढंकरु, broken earthen plate is placed as a cover to close the mouth of a golden vessel. मिगार is भृङ्गार, known as शारी in Marathi.

22. 12a ओलक्खिय पयजुयलंछणेण, मन्दोदरी recognised सीता as her daughter by signs or marks on her feet.

24. 13b बाणरायारु, हनूमत् who was a विद्याधर, assumed the form of a monkey and stood before सीता. This explains, according to Jain Mythology, the reason for the belief that हनूमत् was a monkey.

26. 8b गूढं अहिणाणवयां देमि, I shall mention certain very confidential happenings between you and राम so that you will recognise me to have come from him. This अभिज्ञान is supplied in the following lines of this कडवक and a few lines of the next कडवक.

28. 10a-b णियकुलु वि etc. When fire burns its own race, i. e. trees or wood from which it is born, how can it forgive its enemy, i. e., water ? Water is heated by fire on this account.

29. 13b णं दहमुहरमणहु कोसपाणु, as if सीता swore that she would never dally with रावण. कोसपाणु is a शपथ or दिव्य, ordeal, which one solemnly undertakes. Compare गायसप्तशती, 448, संज्ञासमए जलपूरिअंजलि विहडिपक्कवामअरं, गोरीअ कोसपाणुअं व पमहाहिवं णमह.

LXXIV

4. 16 जोत्तिउ दूयभरि पुणु सो जि धवल, हनूमत् was again asked to go to लङ्का as a दूत, and the poet humourously compares him to a bull (धवल) that is

yoked to a cart a second time. According to Hindu Mythology अङ्गद was the वृत् of राम.

6. 4b तिणि वि एयउ, i. e., श्रीः, सीता and वसुंधरा (पृथ्वी) as mentioned in 5. 11 above, and 13. 9b below.

8. 15 वलह्यउच्छुषणु, God of love bears a bow made of sugar-cane.

15. 3b रतउ ह्यगीउ सयंपहहि, a reference to अशुभ्रिव the first प्रतिवासुदेव who made love to स्वयंप्रभा and was killed by त्रिपुष्ट the first वासुदेव of the Jain Mythology.

16. 7a णील, one of the friends of सुग्रीव; b कुमुय, another friend of सुग्रीव. 9 and 10 mention कुन्द and नल who are allies of सुग्रीव.

LXXV

1. 8b णिकुंसु कुंसु, names of रावण's followers.

2. 9b महु समउं खगाहिउ एउ ताव, Let first वालि (खगाहिउ) come with me to लङ्का. 10b करिवर महामेहकु देउ, Let him give me the excellent elephant called महामेघ.

3. 7b अणउत्तु वि, even though it is not expressly said.

4. 1b एकु जि सिहि अणु जि वायवेउ, there is already one calamity, viz., fire, and to add to it there comes the gust of wind. 12 मइं कुइइ, when I am angry.

6. 10b किलिकिलिपुरिंदु, the lord of the किलिकिलिपुर. i. e., वालि.

9. 2b एवतु फुरणु, such valour or activity.

LXXVI

2. 6b अज्जु कलि दुकइ, will reach this place (लङ्का) today or tomorrow. 8a विणविंसु, रावण was born in the विद्याधर race founded by विनमि (विणवि) who was the brother of नमि. See MP. Vol I, pp 121-137.

3. 5a वजावत्तरासणहत्यहु, The name of the bow of राम is वज्रावर्त. 9a पंचयणु, the conch पाञ्चजन्य of वासुदेव, here of लक्ष्मण. 14 कुंभयणु महु बीयउ, रावण says to विभीषण that if विभीषण leaves him, he (रावण) will have कुम्भकर्ण to help him.

4. 5a तणुसीयइ, by a blade of grass one cleanses one's teeth. The form तणु for दण is irregular.

6. 10a वाणरविजह वाणर होइवि, All विद्याधरs assumed the form of monkeys and then visited लङ्का.

9. 9a गमणें जासु होइ काली गह, fire, the movements of which leave a black passage or smoke. अग्नि is often called धूमध्वज.

LXXVII

2. 8b चंदहासु, the sword of रावण. 14 अम्हई बलवंतहं हरिबलहं तसहुं, we are afraid of हरि (लक्ष्मण) and बल (राम) who are very strong.

3. 13 विहुरि वि धीर, रावण was full of courage (धीर) even in adversity (विहुरि, विधुरे सति, संकटकाले सति).

6. 1 भुवणुत्तुरडिणिवणे किं हुओ णियोसो, Is there a noise of falling of worlds standing one upon the other ? There are several भुवनs which stand one upon the other and thus form an उत्तुरडि, उतरंड, as it is called in Marathi. 6b बह्वसु, god of death (यम).

9. 5-17 A fine description of the dust raised by the fight.

13. 5a अदिग्निहसनसिहिजालउ, flames of fire produced from the clashing of swords. 13b सीसकें सहुं सिर, head along with the crown or cap (शिरस्त्राण).

LXXVIII

1. 2 कण्ठु, कृष्ण, i. e., लक्ष्मण who has a dark complexion. 15a-b विजय-पर्वन् and अङ्गनगिरि are the names of elephants of लक्ष्मण and राम. See also 3. 4b and 3. 11a below.

5. 11a-b पइं सयुंहु etc. A warrior says to another warrior, " You have given your head (as capital) in paying the debt of your master, and are using your blood as interest on the capital."

8. 3a धरियलोह तेण जि ते गुणचुय, the arrows are धरियलोह, i. e., have an iron edge or have greed (लोह, लोभ) and therefore they are गुणचुय, discharged by bow-string (गुण) or are destitute of virtues (गुण).

9. 21 ओत्यरिउ, arrived on the scene.

10. 14 बोह्लिउं पालेसमि, I shall keep my word.

11. 3b सखार, jarring words, words mixed with salt as it were. Compare क्षते क्षारनिक्षेपणम्.

13. 8b वीर पद्म, राम who had a white complexion similar to that of a white lotus, is called पद्म (पद्म) and पुराणसु describing his story are called पद्मचरित, पद्मपुराण etc.

14. 8a-b तल्लरजलि etc. The line records two popular sayings that in a small lake a crab is called a जलचर although the term means मकर, while in a place where there are no trees, एरण्ड becomes a big tree. Compare: निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते.

15. 1 वेणि वि पीयवास, Both रावण and लक्ष्मण wore yellow garments. In Hindu mythology कृष्ण is called पीताम्बर.

16. 6a वीसपाणि, i. e., रावण, although रावण according to Jain Mythology had only two arms, still he is called वीसपाणि owing to the influence of Hindu Mythology.

18. 1 महुमहणमहासुहडे, on the great warrior who killed मधु. Note there are two प्रतिवासुदेवस, viz., मधु and मधुसूदन or महसूयण.

20. 14 भडमालविणिहयहं...भविण्वक्करहं, writings about the future of warriors which were written on their forehead. 15 जाह्वि (याचित्वा), having obtained by begging.

21. 7b अंगुलियउ भंजइ राह्वि, cracking of fingers on some one indicates disrespect for him. बोटें मोडणें is found in modern Marathi. 13a कण्णावर इहु णाहु महारउ, this husband of mine has married me when I was quite young; so our love is unbroken, Compare: यः कौमारहरः स एव हि वरः.

23. 4a अजु सरासइ सत्यु ण सुयरइ, today the goddess of learning (सरस्वती) will not remember or recite the शास्त्र, owing to the death of रावण. रावण is known for his learning. In Hindu Mythology he is the son of a famous sage पुलस्त्य who is a Brahmin.

24. 3a णारउ णाउ आउ णासणविहि, It was not नारद who arrived (and induced your mind to carry off सीता), but it was your destiny bringing death upon you that had come. Note that रावण made up his mind to carry off सीता on the mischievous advice of नारद. 12a कुलिसु वि धुणेहिं विच्छिण्णउं, even hard adamant (वज्र) was bored by insects. Death of रावण from the hand of लक्ष्मण is as unexpected as the boring of वज्र by insects.

25. 1 दहसुहु उहुं, राम says to विभीषण that he should now take the place of दशमुख (रावण). 6b-12b These lines describe the removal of the dead body of रावण, on a palanquin decked by columns of plantain trees, with umbrella held over it.

29. 3b मेळिवि पउमु कासु सुयणत्तणु, who but राम is so noble ?

LXXIX

2. 11b सउणंदयासि, a sword called सौनन्दक because it was a gift from सौनन्दयक्ष. Of the seven gems which a वासुदेव as अर्धचक्रिन् possesses, sword is one and it is called सौनन्दक as the गदा is called कौमोदकी. According to Jain Mythology वासुदेवs and बलदेवs have seven and four marks respectively. They are given in the following verses:

असिः शंखो धनुश्चक्रं शक्तिर्दण्डो गदाभवत् ।
रत्नानि सप्त चक्रेरो रक्षितानि मद्द्रुणैः ॥
रत्नमाला हलं भास्वद्रामस्य मुशलं गदा ।
महारत्नानि चत्वारि बभूवुर्भाविनिर्वृतेः ॥

गुणभद्र—उत्तरपुराण-62. 148-149.

3. Sa तर्हि हौतउ गउ, he went from that place. Note the use of हौतउ with तर्हि rather than तहां. Compare हेमचन्द्र, iv. 355.

6. 10b को णारउ को सुरविमाणि, who will, in that case, be born in hell and who will be born in heaven? 12 जह् खणि खणि जि खउ etc. This is the famous doctrine of क्षणिकत्व of the Buddhists. सद्बुद्धे, by self-enlightened Buddha.

9. 6-9 These lines tell us that राम had eight sons विजयराम and others, and लक्ष्मण had several, पृथ्वीचन्द्र and others, from his wife पृथिवी.

11. 4b लञ्छीहरणि, in the body of लक्ष्मीधर, i. e., लक्ष्मण.

LXXX.

3. 4a अप्पउ एक्क etc. For detailed notes on this passage see Vol. I, pp. 628-632.

9. A fire description of the Rainy Season.

15. 12-13. For details of नवरस, छत्तीस दिड्डिउ and चउसड्डि कर see Vol. I, pp. 603 and 609.

16. 7b रण्ण व रविहि, the name of the wife of the sun is रण्ण or as. T says रनादेवी.

APPENDIX I
(Adapted from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

दिगम्बरजैनमतेन
तीर्थकरमूर्तिविज्ञानम् ।

१ क्रमाङ्कः	२ तीर्थकरनाम	३ वर्णः	४ लाञ्छनम्
१	ऋषभः	काञ्चनः	वृषभः
२	अजितः	काञ्चनः	हस्ती
३	संभवः	”	अश्वः
४	अभिनन्दनः	”	वानरः
५	सुमतिः	कुङ्कुमः	धर्मचक्रम्
६	पद्मप्रभः	”	कमलकलिका
७	सुपार्श्व	काञ्चनः	पञ्चफणः सर्पः
८	चन्द्रप्रभः	श्वेतः	चन्द्रः
९	सुविधिः (पुष्पदन्त)	”	कर्कटः
१०	शीतलः	काञ्चनः	धर्मचक्रम् (श्रीवृक्षः)
११	श्रेयांसः	”	हरिणः
१२	वासुपूज्यः	रक्तः	वृषभः
१३	विमलः	काञ्चनः	वराहः
१४	अनन्तः	”	ऋक्षः
१५	धर्मः	”	वज्रम्
१६	शान्तिः	”	कच्छपः
१७	कुन्धुः	”	अजः
१८	अरः	”	हरिणः
१९	मल्लिः	नीलः	घटः ;
२०	मुनिसुव्रतः	कृष्णः	कच्छपः
२१	नमिः	काञ्चनः	अशोकवृक्षः
२२	नेमिः	कृष्णः	शंखः
२३	पार्श्वः	नीलः	सप्तफणः सर्पः
२४	महावीरः	काञ्चनः	सिंहः

APPENDIX I (Contd.)
(Adapted from Mr. G. H. Khare's Mūrtivijñāna, pp. 202-5)

द्विगम्बरजैनमतेन
तीर्थंकरमूर्तिविज्ञानम् ।

५ यक्षः	६ वाहनम्	७ यक्षिणी	८ वाहनम्
गोमुखः	हस्ती	चक्रेश्वरी	गरुडः
महायक्षः	हस्ती	रोहिणी	गोधा
त्रिमुखः	मयूरः	प्रज्ञप्तिः	हंसः
यक्षेश्वरः	हस्ती	बज्रगुंखला	हंसः
तुम्बुरुः	गरुडः	पुरुषदत्ता	हस्ती
कुसुमः	वृषभः	मनोवेगा	अश्वः
वरनन्दी	सिंहः	काली	वृषभः
विजयः	हंसः	ज्वालामालिनी	मार्जारः
अजितः	कच्छपः	महाकाली (अजिता)	वृषभः
ब्रह्मेश्वरः	कमलकलिका	मानवी	पद्म
ईश्वरः	वृषभः	गौरी	वृषभो गोधा वा
कुमारः	मयूरः	गान्धारी	सर्पः
षण्मुखः	कुक्कुटः	वैरोटी	सर्पः
पातालः	नक्रः	अनन्तमतिः	हंसः
किंनरः	मत्स्यः	मानसी	सिंहः हंसो वा
किंपुरुषः	वृषभः	महामानसी	मयूरः सिंहो वा
गन्धर्वः	हरिणः	जया-विजया	मयूरः
केन्द्रः	मयूरः	अजिता	हंसः लोहपीठं वा
कुबेरः	हस्ती	अपराजिता	हंसः
वरुणः	वृषभः	बहुरूपिणी	सर्पः
भुङ्कुटी	वृषभः	चासुष्ठा	नक्रः
सर्वाङ्गः	देवालयः (अश्वः)	कूष्माण्डिनी	सिंहः
धरणेन्द्रः	कच्छपः	पद्मान्वती	हंसः
मातङ्गः	हस्ती	सिद्धायिनी	हंसः

APPENDIX II
तीर्थकरवर्णना

१ तीर्थकरनाम	२ तृतीयभवः, नगरं	३ द्वितीयभवः	४ पूर्वतीर्थान्तरालम्	५ जन्मस्थानम्
१ ऋषभः	वज्रनाभ, पुंडरिंकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	—	अयोध्या
२ अजितः	विमलबाहन, सुसीमा	अनुत्तरदेव	पञ्चाशलक्षकोटिसागरोपम	अयोध्या
३ संभवः	विमलबाहन, क्षेमपुर	प्रैवेयकदेव	त्रिंशलक्ष " "	श्रावस्ति
४ अभिनन्दनः	महाबल, रत्नसंचय	अनुत्तरदेव	दश " " "	साकेत
५ सुमतिः	रतिषेण, पुंडरिंकिणी	वैजयन्तदेव	नव " " "	"
६ पद्मप्रभः	अपराजित, सुसीमा	प्रैवेयकदेव	नवतिसहस्रकोटि " "	कौशाभ्मी
७ सुपार्श्वः	नन्दिषेण, क्षेमा	मध्यमप्रैवेयकदेव	नवसहस्रकोटि " "	वाराणसी
८ चन्द्रप्रभः	श्रीवर्मादयः—	अच्युतदेव	नवशतकोटि " "	चन्द्रपुर
९ सुविधिः पुष्पदन्तो वा	महापद्म, पुंडरिंकिणी	प्राणतदेव	नवतिकोटि " "	काकन्दी
१० शीतलः	पृथ्वीपाल, सुसीमा	आरणदेव	नवकोटि " "	राजभद्र भद्रिला वा
११ श्रेयांसः	नलिनप्रभ, क्षेमपुर	अच्युतेन्द्र	—	सिंहपुर
१२ बासुपूज्यः	पद्मोत्तर, रत्नपुर	महाशुक्रदेव	५४ सागरोपम	चम्पा
१३ विमलः	पद्मसेन, महानगर	सहस्रारदेव	३० " "	काम्पिच्य
१४ अनन्तः	पद्मरथ, अरिष्टनेमि	षोडशस्वर्गदेव	९ " "	साकेत
१५ धर्मः	दशरथ, सुसीमा	सर्वार्थसिद्धिदेव	४ " "	रत्नपुर
१६ शान्तिः	मेधरथ, पुंडरीकिणी	सर्वार्थसिद्धिदेव	३ " "	हस्तिनापुर
१७ कुन्धुः	सिंहरथ, सुसीमा	अनुत्तरदेव	१ " "	"
१८ अरः	धनपति, क्षेमा	जयन्तदेव	९९ लक्षकोटि	हस्तिनापुर
१९ मल्लिः	वैश्रवण, वीतशोक	अपराजितदेव	१ सहस्रकोटि	मिथिला
२० सुव्रतः	हरिवर्मा, चम्पा	प्राणतेन्द्र	५४ लक्ष	राजगृह
२१ नमिः	पार्थिव, कौशाभ्मी	अपराजितदेव	६० " "	मिथिला
२२ नेमिः	—	जयन्तदेव	५ " "	शौरिपुर
२३ पार्श्वः	आनन्द, अयोध्या	प्राणतदेव	८३७५० वर्ष	वाराणसी
२४ महावीरः	नन्द, छत्रपुर	षोडशस्वर्गदेव	२५० वर्ष	कुण्डग्राम



APPENDIX III

गणधरसंख्या

[The No. of gods and goddesses is infinite and that of lower animals finite
for all Tirthankaras and hence not tabulated.]

१ तीर्थंकरनाम	२ गणधराः गणप्रमुखश्च	३ पूर्वधराः	४ शिक्षकाः	५ अवधिज्ञानिनः	६ केवलिनः
१ ऋषभः	८४ वृषभसेनः	४७५०	—	९०००	२००००
२ अजितः	९० सिंहसेनः	३७५०	२१६००	९४००	२००००
३ संभवः	१०५ चारुसेनः	२१५०	१२९३००	९६००	१५०००
४ अभिनन्दनः	१०३ वज्रनाभिः	२५००	२३००५०	९८००	१६०००
५ सुमतिः	११६ अमरः	२४११	२५४३५०	११०००	१३०००
६ पद्मप्रभः	११० वज्रचामरः	२३११	२६९०००	१००००	१२०००
७ सुपार्श्वः	९५ बलः	२०३०	२४४९२०	९०००	११०००
८ चन्द्रप्रभः	९३ दत्तः	२०००	२००४००	८०००	१००००
९ सुविधिः, पुण्यदन्तो वा	८८ विदर्भः	१५००	१५५०००	८४००	७५००
१० शीतलः	८१ अनगारः	१४००	५९२००	७२००	७०००
११ श्रेयांसः	७७ कुन्थुः	१३११	४८२००	६०००	६५००
१२ वासुपृज्यः	६६ धर्मः	१२००	३९२००	५४००	६०००
१३ विमलः	५५ मन्दरः	११००	३६५३०	४८००	५५००
१४ अनन्तः	५० —	१०००	३९५००	४३००	५०००
१५ धर्मः	४३ अरिष्टमेनः	९००	४०७००	३६००	४५००
१६ शान्तिः	३६ चक्रायुधः	८००	४१८००	३०००	४०००
१७ कुन्थुः	३५ स्वयंभूः	७००	४३१५०	२५००	३२००
१८ अरः	३० कुम्भः	६१०	३५८३५	२८००	२८००
१९ मल्लिः	२८ विशाखाः	५५०	२९०००	२२००	२२००
२० सुव्रतः	१८ मल्लिः	५००	२१०००	१८००	१८००
२१ नमिः	१७ सुप्रभः	४५०	१२६००	१६००	१६००
२२ नेमिः	११ वरदत्तः	४००	११८००	१५००	१५००
२३ पार्श्वः	१० स्वयंभूः	३५०	१०९००	१४००	१०००
२४ महावीरः	११ इन्द्रभूतिः	३००	९९००	१३००	७००

APPENDIX III (Contd.)

गणधरसंख्या

[The No. of gods and goddesses is infinite and that of lower animals finite for all Tirthankaras and hence not tabulated.]

७	८	९	१०	११	१२
विक्रियधिवादिनः	मनःपर्ययज्ञानिनः	अनुत्तरवादिनः	आर्यिकाः प्रमुखा च	श्रावकाः	श्राविकाः
२०६००	१२६५०	१२६५०	३००००० ब्रह्मी-सुन्दरी	३५००००	५ लक्ष
२०४००	१२४५०	१२४००	३२०००० प्रकुब्जा	३ लक्ष	५ लक्ष
२९८००	१२१५०	१२०००	३३०००० धर्मा	३ ,,	५ लक्ष
२९०००	११६५०	११०००	३३०६०० मेरुषेणा	३ ,,	५ ,,
१८४००	१०४००	१०४५०	३३०००० अनन्तमति	३ ,,	५ ,,
१६८००	१०३००	९६००	४२०००० रतिषेणा	३ ,,	५ ,,
१५३००	९१५०	८६००	३३०००० मीना	३ ,,	५ ,,
१४०००	८०००	७६००	३८०००० बरुणा	३ ,,	५ ,,
१३०००	७५००	६६००	३८०००० घोषा	२ ,,	५ ,,
१२०००	७५००	५७००	३८०००० धारणा	२ ,,	५ ,,
११०००	६०००	५०००	१२०००० धरणा	२ ,,	४ ,,
१००००	६०००	४२००	१०६००० सेना	२ ,,	४ ,,
९०००	५५००	३६००	१०३००० पद्मा	२ ,,	४ ,,
८०००	५०००	३२००	१६००० सर्वश्री	२ ,,	४ ,,
७०००	४५००	२८००	६२४०० —	२ ,,	४ ,,
६०००	४०००	२४००	६०३०० हरिषेणा	२ ,,	४ ,,
५१००	३३००	२०५०	६०३५० भाविता	२ ,,	३ ,,
४३००	२०५५	१६००	६०००० यक्षिला	१६० सहस्र	३ ,,
२९००	१७५०	१४००	५५००० बन्धुषेणा	१ लक्ष	३ ,,
२२००	१५००	१२००	५०००० पुष्पदत्ता	१ ,,	३ ,,
१५००	१२५०	१०००	४५००० मंगिनी	१ ,,	३ ,,
११००	९००	८००	४०००० यक्षी	१ ,,	३ ,,
१०००	७५०	६००	३६००० सुलोचना	१ ,,	३ ,,
९००	५००	४००	३६००० चन्दना	१ ,,	३ ,,

APPENDIX IV

चक्रवर्तिनः

१ नाम	२ तीर्थम्	३ पूर्वभवः	४ जन्मस्थानम्	५ मातापितरौ
१ भरतः	ऋषभः	सर्वार्थसिद्धिदेवः	अयोध्या	ऋषभः—यशोमति
२ सगरः	अजितः	अच्युतदेवः	साकेतम्	समुद्रविजयः—विजयादेवी
३ मधवान्	धर्मः	प्रैवेयकदेवः	साकेतम्	सुमित्रः—भद्रादेवी
४ सनत्कुमारः	धर्मः	अच्युतेन्द्रः	विनीतपुरम्	अनन्तवीर्यः—महादेवी
५ शान्तिः	शान्तिः	सर्वार्थसिद्धि- अहमिन्द्रः	हस्तिनापुरम्	विश्वसेनः—अहरादेवी
६ कुन्थुः	कुन्थुः	अनुत्तरदेवः	”	शूरसेनः—श्रीकान्ता
७ अरः	अरः	जयन्तदेवः		सुदर्शनः—मित्रसेना
८ सुभीमः	अरः	—	साकेतम्	सहस्रबाहुः—विचित्रमतिः
९ पद्मः	मल्लिः	अच्युतदेवः	वाराणसी	पद्मनाभः—श्यामादेवी
१० हरिषेणः	मुनिसुव्रतः	सनत्कुमारदेवः	भोगपुरम्	पद्मनाभः—अहरादेवी
११ जयसेनः	नमिः	महाशुकदेवः	कौशाम्बी	विजयः—प्रभंकरौ
१२ ब्रह्मदेवः	नेमिः	सौधर्मदेवः	काम्पिल्यम्	ब्रह्मराजः—चूलादेवी

APPENDIX IV (Contd.)

चक्रवर्तिनः

६ देहमानम्	७ वर्णः	८ आयुःप्रमाणम्	९ निर्वेदकारणम्	१० गतिः
५०० शरासन	काञ्चनः	अशीतिलक्षपूर्वाणि	पलितदर्शनम्	मोक्षः
४५० ”	”	५४ लक्षपूर्वाणि	पुत्रनाशः	”
४२३ ”	”	५ लक्ष	—	”
४२३ ”	”	३ ”	देहच्छविनाशः	”
४० ”	”	१ ”	पलितदर्शनम्	”
३५ ”	”	—	सुनिदर्शनम्	”
३०(२०),,	”	८४ सहस्र वर्षाणि	शरदभ्रविनाशः	”
—	—	६० ”	—	नरकः
२२ ”	काञ्चनः	३० ”	अभ्रविनाशः	मोक्षः
२० ”	”	१० ”	चन्द्रग्रहणम्	”
१५ ”	”	३ ”	विद्युत्पतनम्	”
७ ,	—	७ शतानि	—	नरकः

APPENDIX V

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

१	२ तीर्थम्	३ नाम	४ तृतीयभवः	५ वैरकारणम्
I { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	श्रेयांस ” ”	विजय त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव	विशाखभूति विश्वनन्दि विशाखनन्दि	नन्दनवन — —
II { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	वासुपूज्य ” ”	अचल द्विपृष्ठ तारक	वायुरथ सुषेण विन्ध्यशक्ति	गुणमञ्जरीवेश्या — —
III { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	विमल ” ”	धर्म स्वयंभू मधु	नन्दिमित्र सुकेतु बलि	शूत — —
IV { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अनन्त ” ”	सुप्रभ पुरुपोत्तम मधुसुदन	महाबल वसुषेण चण्डशासन	नन्दादेवीहरण — —
V { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	धर्म ” ”	सुदर्शन पुरुपसिंह मधुक्रीड	नरकृपभ मुमित्र राजसिंह	पराजय — —
VI { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	अर ” ”	नन्दिपेण पुण्डरीक निशुम्भ	— — सुकेतु	— — —
VII { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	मल्लि ” ”	नन्दिमित्र दत्त बलि	राम विराम पिशुनमन्त्री	यौवराज्यस्थालाभः — —
VIII { बलदेव वासुदेव प्रतिवासुदेव	मुनिसुव्रत ” ”	राम (पद्म) लक्ष्मण रावण	विजय चन्द्रचूल —	— — —

APPENDIX V (Contd.)

बलदेववासुदेवाः

(Only Eight of the Nine are Tabulated)

६ द्वितीयभवः	७ मातापितरौ	८ देशः नगरं	९ वैरकारणम्	१० देहप्रमाणम्	११ गतिः
महाशुक्रस्वर्ग — —	प्रजापति-जयवती प्रजापति-मृगावति मयूरग्रीव-नीलांजनप्रभा	सुरभ्यदेश-पोदनपुर — अलका	— स्वयंप्रभाविवाह —	८० शरासन — —	मोक्ष नरक नरक
प्राणतकल्प — कल्पामर	ब्रह्मा-सुभद्रा ब्रह्मा उववा or उपा. श्रीधर-श्रीमती	भारत-द्वारवती — भरत, भोगवर्धन	— गन्धहस्ती —	७० — —	मोक्ष नरक नरक
अनुत्तरविमान लान्तयस्वर्ग कल्पामर	रुद्र-सुभद्रा रुद्र पृथिवीदेवी समरकेशरी-सुन्दरी	द्वारवती — रत्नपुर	— कल्पदान —	६० — —	मोक्ष नरक नरक
सहस्रारदेव सहस्रारदेव —	मोमप्रभ-जयवती मोमप्रभ-सीता विलास-गुणवती	द्वारवती — वाराणसी	— कल्पदान —	५० — —	मोक्ष नरक नरक
सहस्रारदेव साहन्द्रसुर —	सिंहसेन-विजया सिंहसेन-अम्बिका —	खगपुर — हस्तिनापुर	— कल्पदान —	४५ — —	मोक्ष नरक —
सौधर्मस्वर्ग — —	वरसेन-वैजयन्ती वरसेन-लक्ष्मीमति —	चक्रपुर — —	— पद्मावतीविवाह —	२६ — —	मोक्ष नरक नरक
सौधर्मस्वर्ग — —	अग्निशिख-अपराजिता अग्निशिख-केशवती —	वाराणसी — मन्दिरनगर	— क्षीरसागर हस्ती —	२० — —	मोक्ष नरक नरक
मणिचूलदेव सूर्वर्णचूल देव —	दशरथ-सुबला दशरथ-कैकेयी पुलस्ति मेघलक्ष्मी	वाराणसी अयोध्या च लङ्काद्वीप	— सीताहरण —	१५ — —	मोक्ष नरक नरक

ADDENDA ET CORRIGENDA

पृष्ठम्	कडकवम्	पंक्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	१	१२	भवद् जसोहो	भवद् जसोहो
४	१	१६	सण्णाणवहं	सण्णाणमहं
२३	७	१	मय मउल ^०	मयमउल ^०
२६	१२	११	मंदिर ^०	मंदर ^०
३१	१८	२५	भइरहि	भईरहि
४१	१२	२५	अहंगया	अहं गया
४३	१४	५	एकृणवीस	एकृणतीस
७३	७	१२	पणावेवि	पणवेवि
७४	१०	४	सुबंधु सुवेरि सुनिच्च ^०	सबंधुमु वेरिसु निच्च
७९	३	७	सुरपुरसांणहि	सुरपुरसांणहि
८८	५	१	चूडामणि सरिस	चूडामणिसरिस
८९	५	१२	पंकणत्तहु	पंकयणत्तहु
९२	१०	१	पक्कमेत्तह	पक्कमेत्तण
१२२	८	१४	थोयंदति ^०	थोयंदति ^०
१३२	५	५	'सुहंकरि	'सुहंकरि
१५०	६	५	पर पगइय	परपराइय
१५१	७	१	पुरएवहु	पुरणएवहु
१५४	१२	१	कणहु	कणहु
१५८	१	१०	धणु लंगूलहु	धणुलंगूलहु
२४३	१४	९	वण्णामि	वण्णामि
२६२	१७	२	छहववलि	छुहववलि
३१३	३	२	छम्मा सताम	छम्मास ताम
३१७	९	५	जाय	जाथा
३७०	४	१	सेणियराहु	सेणियगयहु
३७०	४	११	सिसु मंतिमित्तु	सिसुमंति मित्तु
३७१	५	१२	धराणाहं	धरणाहं
३८४	२८	३	वेण्णि वे	वेण्णि वि
४१७	१	१	'सिगम ^०	'सिगम ^०
४२०	५	२	दवंदेव	दंवंदेव
४६१	८	९	महिवादि	महिवीदि
४७४	२	१४	अम्हहं	अम्हहं
४८६	५	१४	मडु देहु	मडु देहु
५१६	४	१५	देहि णहु	देहि णहु

Notes

536-37 Notes on कडक 6 here are those of Saṃdhi II.

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 228-01 पु०

लेखक पु० पदज्ज /

शीर्षक महापुराणम् /

3 680
क्रम संख्या